


बौद्ध-संस्कृत-ग्रन्थावली-२१

Buddhist Sanskrit Texts—No. 21

*Copies of This Volume, postage paid, may be had from your usual Book-seller or from The Director
Mithila Institute, Darbhanga, on pre-payment either in cash, Postal Order or M. O.
of Rs. 10.00 for Ordinary edition and Rs. 12.50 for Library edition.*



*The entire cost of preparation and production of this Volume has been n
out of a subvention kindly placed at the disposal of the Institute
jointly by the Government of India (Ministry of Scientific
Research and Cultural Affairs) and the State of Bihar*

Printed by Laxmibal Narayan Chaudhari, at the Nirnaya Sagar Press,
26-28 Kolbhat Street, Bombay 2, and Published by Dr. P. L. Vaidya,
for the Director, Mithila Institute, Darbhanga, Bihar,

अनुक्रमणिका ।

INTRODUCTION IN ENGLISH AND HINDI	VII
ABBREVIATIONS	XV
१ व्याघ्रीजातकम्	१
२ शिबिजातकम्	७
३ कुलमाषपिण्डीजातकम्	१६
४ श्रेष्ठिजातकम्	२०
५ अविषह्यश्रेष्ठिजातकम्	२४
६ शशजातकम्	३०
७ अगस्त्यजातकम्	३६
८ मैत्रीबलजातकम्	४३
९ विश्वंतरजातकम्	५५
१० यज्ञजातकम्	७०
११ शक्रजातकम्	७७
१२ ब्राह्मणजातकम्	८०
१३ उन्माद्यन्तीजातकम्	८४
१४ सुपारगजातकम्	९२
१५ मत्स्यजातकम्	९९
१६ वर्तकापोतकजातकम्	१०२
१७ कुम्भजातकम्	१०४
१८ अपुत्रजातकम्	११०
१९ बिसजातकम्	११४
२० श्रेष्ठिजातकम्	१२१
२१ चुडुबोधिजातकम्	१२८
२२ हंसजातकम्	१३५
२३ महाबोधिजातकम्	१४२
२४ महाकपिजातकम्	१६२
२५ शरभजातकम्	१६९
२६ रुखजातकम्	१७४
२७ महाकपिजातकम्	१८२
२८ क्षान्तिजातकम्	१८९

२	अनुक्रमणिका ।		
२९	ब्रह्मजातकम्	२००
३०	हस्तिजातकम्	२०९
३१	सुतसोमजातकम्	२१७
३२	अयोगृहजातकम्	२३३
३३	महिषजातकम्	२४१
३४	शतपञ्चजातकम्	२४५
	प्रथमं परिशिष्टम्-कच्छपजातकम्...		२४९
	द्वितीयं परिशिष्टम्-श्लोकसूची	...	२५१
	तृतीयं परिशिष्टम्-वृत्तसूची	...	२६९
	चतुर्थं परिशिष्टम्-सुभाषित-रत्नकरण्डक-कथा		२७५
	CRITICAL NOTES	...	३०९

INTRODUCTION

1. THE EDITION

THIS edition of Ārya Śūra's *Jātaka-Mālā*, also called *Bodhisattvāvadānamālā*, is based on the edition edited by H. Kern and published in the Harvard Oriental Series, No. 1, 1890 (referred to in the margin by K). A few years' later, in 1895, Dr. J. S. Speyer published an English translation of this work in the Sacred Books of the Buddhists, Vol. I. Kern used for his edition only three Mss., A, B and P, and handled this material so skilfully as to give us a masterpiece of standard Classical Sanskrit. I do not agree with Kern in all the emendations he made in his printed text, a few of which I have rejected as they did not conform with standard Buddhist phrases current in Buddhist literature, while a few more still, which I have retained in my edition, were not necessary in view of the fact that the author, Ārya Śūra, professed Buddhism as his faith, and as such, words like अनुसारणी and गृह्यवास were quite natural in his grain. I must, however, admit and admire the scholarly acumen of this Dutch Scholar in giving us an admirably fine Sanskrit text. I have given the variant readings just below the text, and not relegated them to the end of the volume as Kern did, to enable the reader, well-versed in the style and vocabulary of Buddhist Sanskrit works, to judge for himself the value of his emendations. I have also given from Kern's edition the crude version of a *Kacchapa-jātaka* in Appendix I, with a few minor emendations. I have added in my edition an index of verses in Appendix II and a list of metres used by Ārya Śūra in Appendix III, which features, quite necessary for a modern reader, are not to be found in Kern's edition. Further, I have given in Appendix IV *Subhāṣita-Ratnakaraṇḍālika-Kathā*, which has recently come to light and is ascribed to Ārya Śūra. I am very grateful to Dr. A. C. Banerjee, University Professor and Head of the Department of Pali in Calcutta University for his having placed this work at my disposal for inclusion in this Volume.

2. THE WORK

Ārya Śūra's *Jātaka-Mālā* gives us as many as 34 Jātakas or stories of the past lives of Buddha as Bodhisattva. These stories are also called *avadānas* or noble deeds of Bodhisattva. These stories illustrate the value of *Pāramitās* or perfections necessary for

the attainment of Buddhahood. All the stories state in the opening phrases the object to illustrate which the story is narrated. These phrases are then followed by तथ्यानुश्रूयते. They are also wound up by statements how the narrative illustrates the object. Kern thought that the concluding statements or epilogues of these stories are spurious or later additions with which view I do not agree. They are intrinsically part of the story, though modern mind does not like to expressly state the moral to illustrate which a story is narrated. (Vide his Introduction, p. x).

The sources of these stories are the Pali *Jātakas* and works like *Carivijā-Piṭaka* and *Apvedāna*, and as many as 28 of these stories can be traced to these works. Ārya Śūra may have also drawn upon the *Vinaya Piṭaka* in its Sanskrit versions available in fragments, published in Gilgit Mss. and in *Mahāvastu*. The case of story No. 1, the *Vyāghrījātaka* which is not yet traced in older Pali works, deserves special consideration. A Bodhisattva giving his body as food to save the newly born young ones of a tigress figures frequently in Mahāyāna literature or in literature of the period of transition from Hīnayāna to Mahāyāna form of Buddhism. A reference to Avadāna No. 32 of the *Divyāvadāna* (BST No. 20, pp. 307-313, and my notes thereon), particularly the two stanzas व्याघ्रीदुखानलि° occurring on page 312, which to me appear to be from the pen of Ārya Śūra, will convince the reader that this story is a speciality of this period and of our author. The case of a few other Jātakas not yet traced to Pali sources may be similarly explained.

Some of these stories are to be found in frescoes in the Ajantā Caves and Bharhut Stūpa with verses inscribed from *Jātaka-Mālā* (JM 28. 4, 15, 19).

Jātaka-Mālā exercised great influence on other Buddhist writers, one of them being the author of a late Pali work called *Haṭṭhavanagallavāhāravarāṇsa*, composed in ornate Pali in Ceylon. As many as 20 stanzas are found translated in Pali in the above work, viz. 5. 2; 6. 32; 7. 5, 15, 18; 8. 21, 24, 25, 38, 45; 10. 2, 3; 14. 11; 15. 4, 9, 10, 11, 13; 18. 18; and 28. 28.

Subhāṣita-Ratna-Koṣa, an anthology by a Buddhist Scholar Vidyākara of 11th century A. D., cites stanza No. 1292 as from this work and author. (33. 4, दयामृदुदु दुर्जनः)

3. THE AUTHOR, HIS DATE AND WORKS

Very little is known about the life or about the date of Ārya Śūra, the author of *Jātaka-Mālā*, who is the forerunner of the poets of classical, chaste and ornate Sanskrit. He, however, seems to be considerably indebted to Kumāralāta and his *Kalpanāmaṇḍītikā*. He, therefore, cannot be much older than the beginning of the 4th century A. D., and, as one of his works was translated into Chinese in 484 A. D., he cannot be put later than 400 A. D. I, therefore, assign him to 350-400 A. D. It has been mentioned above that the stories from *Jātaka-Mālā* were used in Ajantā Cave frescoes with verses from it inscribed below them, which fact indicates that the work was popular in the 6th century A. D.

As hinted at by Dr. A. C. Banerjee in his Introduction to *Subhāṣita-Ratnakaraṇḍaka-Kathā*, there were, probably, two writers bearing the name of Ārya Śūra or Śūra, the author of *Jātaka-Mālā* being the earlier of the two.

The following works are ascribed to Ārya Śūra besides *Jātaka-Mālā* :-

1. *Subhāṣita-Ratnakaraṇḍaka-Kathā*, published for the first time in Appendix IV of this volume, and edited by Dr. A. C. Banerjee of Calcutta University from a single Ms. from Nepal.

2. *Pāramitāsamāsa*, published in *Annali Lateranense*, Vol. X, Citta Lal Vaticano, 1946.

3. *Prātimokṣasūtra-paddhati* available only in Tibetan translation. See Tohoku Catalogue No. 4103.

4. *Bodhisattvajātakadharmagaṇḍī*, also in Tibetan translation. See Tohoku Catalogue No. 4157.

5. *Supathanirdeśaparīkathā*, also known from Tibetan translation. See Tohoku Catalogue No. 4175.

Ārya Śūra must have written or at least retouched a few other Buddhist works. I am almost certain that Avadāna No. 38, *Maitrakanyakāvadāna* in *Divyāvadāna*, must have been written by Ārya Śūra as the language, style, and introductory and concluding phrases of that avadāna indicate. I also feel that Avadāna Nos. 22 and 32 in that work may have either been written or retouched by him.

Ārya Śūra attained a very high reputation among poets as a writer of chaste sanskrit. Abhinanda says :

सुबन्धौ भक्तिर्नः क इह रघुकारे न रमते
 धृतिदोक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम् ।
 विशुद्धोक्तिः शूरः प्रकृतिसुभगा भारविगिरः
 तथाप्यन्तर्मादं कमपि भवभूतिर्वितनुते ॥

— सुभाषितरत्नकोष, १६९८; सदुक्तिकर्णामृत, ५.२६.५

and thus pays him a compliment for his chaste expression. This encomium is fully justified by *Jātaka-Mālā*. There is a commentary on *Jātaka-Mālā* by Dharmakīrti, an equally famous poet and also a philosopher (Tohoku Catalogue No. 4151). In view of this remark, it is difficult to believe that the *Subhāṣita-Ratnakaraṇḍāka-Kathā* should be the work of the author of *Jātaka-Mālā*, as it is full of imperfections all of which cannot be attributed to scribes. This work seems to have been composed at a time when Buddhism degenerated to a great extent. The work does not show any poetic faculty or flight of inspiration. It is full of grammatical mistakes and faulty metre. As to contents, there is nothing elevating. There is a topic of gifts to monks, for instance, in which the devotee is advised to make all sorts of gifts. We are, therefore, right in holding that it must be the work of a later namesake of Ārya Śūra.

As regards *Subhāṣita-Ratnakaraṇḍāka-Kathā* I may point out that its contents clearly show the influence of *Dānādāhikaraṇa-mahāyānasūtra*, i. e. Avadāna No. 84 in *Divyāvadāna*. The versification, faulty at numerous places, is also an indicator that the work must have been written either by a novice or by a namesake of Ārya Śūra.

Poona-2,
 1st July, 1959.

P. L. VAIDYA

प्रस्तावना

१. प्रस्तुत संस्करण

आर्यशूररचित जातकमाला, जो बोधिसत्त्वावदानमाला भी कहलाती है, का यह संस्करण एच्. केर्न द्वारा संपादित हार्वर्ड ओरिएण्टल सीरीज क्र. १ (हाशिये में 'K' से उल्लिखित) १८९० में प्रकाशित संस्करण पर आधारित है। कई वर्ष बाद सन् १८९५ में डॉ. जे. एस्. स्पेयर ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ दि बुद्धिस्ट्स माला के प्रथम पुष्प में प्रकाशित किया। केर्न ने अपने संस्करण के लिए केवल तीन मातृकाओं (A, B, और P) का उपयोग किया। इस सामग्री से उन्होंने इस कौशल के साथ काम लिया कि फलस्वरूप एक परिनिष्ठित उच्च संस्कृत का उत्कृष्ट ग्रंथ निर्माण हुआ। केर्न ने मुद्रित संस्करण में जो संशोधन समाविष्ट किये हैं उन सब से मैं सहमत नहीं हूँ। इस लिए कतिपय संशोधन मैंने अस्वीकृत किये हैं, क्यों कि बौद्ध साहित्य में प्रचलित सर्वमान्य बौद्ध शब्दावली से वे मेल नहीं खाते। कतिपय अन्य संशोधन भी, यद्यपि मैंने उन्हें स्वीकृत किया है, आवश्यक नहीं जान पड़ते, जिसका कारण यह है कि ग्रंथ के रचयिता आर्यशूर बौद्धधर्म के हिमायती थे, और इस दृष्टि से 'अनुशासनी' 'गृहावास' जैसे शब्दप्रयोग उनके स्वभाव के नितान्त अनुकूल ही थे। तथापि इन डच पंडितवर्य की सूक्ष्मदर्शिता का मैं कायल हूँ, और मानता हूँ कि वे प्रशंसा के पात्र हैं, क्यों कि उन्होंने इस संस्करण में श्लाघनीय संस्कृत पाठ प्रस्तुत किया है। भिन्न भिन्न पाठान्तरों को मैंने मूल पाठ के नीचे ही रखा है, केर्न की भाँति उन्हें पुस्तक के अंत में नहीं संगृहीत किया। इसका हेतु यह है कि जो पाठक बौद्ध संस्कृत ग्रंथोंकी शैली तथा शब्दावली को मर्मज्ञ हैं, वे केर्न के संशोधनों का मूल्य स्वयं ही आँक सकें। परिशिष्ट क्रमांक १ में मैंने केर्न के संस्करण से 'कच्छप-जातक' का असंस्कारित पाठ उद्धृत किया है। परिशिष्ट २ और ३ में मैंने क्रम से आर्यशूरप्रयुक्त पद्योंकी वर्णानुक्रम-सूची तथा वृत्तों की तालिका दी है। ये बातें आधुनिक पाठक के लिए आवश्यक मानी गयी हैं। केर्न के संस्करण में ये नहीं पायी जाती। इनके अलावा चतुर्थ परिशिष्ट में मैंने सुभाषितरत्नकरंडककथा उद्धृत की है, जो कि हाल में ही प्रकाश में लायी गयी है और आर्य शूर-रचित मानी गयी है। यह रचना इस संस्करण में समाविष्ट करने की अनुमति कलकत्ता विद्यापीठ के पाली विभाग के अध्यक्ष तथा प्राध्यापक डॉ. ए. सी. बानर्जीने मुझे प्रदान की, जिसके लिए मैं आपका अतीव कृतज्ञ हूँ।

२. रचना

आर्यशूर की जातकमाला में ३४ जातककथाएँ याने बोधिसत्त्व के नाते बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानियाँ संगृहीत हैं। इन कथाओं को अवदान अर्थात् 'बोधिसत्त्व के उदार चरित भी कहते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए आवश्यक पारमिताओं का महत्त्व ये कथाएँ विशद करती हैं। प्रत्येक कथा अपने प्रारंभ की शब्दावली में अपने उद्देश्य का निवेदन करती है। इस शब्दावली के बाद शब्द आते हैं 'तद्यथानुश्रूयते' अर्थात् 'जैसी कि अनुश्रुति है'। उद्देश्य का प्रतिपादन कथा के प्रवाह में कैसे किया गया है यह कथा के अन्त में कहा जाता है। केर्न की सम्मति है कि कथाओं के उपसंहार के वाक्य प्रक्षिप्त याने बाद में जोड़े गये हैं, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वे कथा का निजी अंग ही है, यद्यपि आधुनिक मनीषा को यह ठीक नहीं जँचता कि कथाका तात्पर्य स्पष्ट रूप से बताया जाय। (देखिये—केर्न की प्रस्तावना पृ० X)।

इन कथाओं के मूलस्रोत हैं पाली जातक कथाएँ तथा चरिया-पिटक और अपदान जैसे ग्रंथ; और इन ग्रंथों में प्रस्तुत कथाओं में से २८ कथाएँ उपलब्ध हैं। विनय-पिटक के संस्कृत रूपान्तरों से, जो कि गिलजित पांडुलिपियों में यत्रतत्र बिखरे हुए मिलते हैं तथा महावस्तु में भी, आर्यशूर ने कुछ अंश लिये हों। प्रथम कथा व्याघ्री जातक—जो अब तक पुराने पाली ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हुई है इस दृष्टि से अवश्य विचारणीय है। बोधिसत्त्व अपना शरीर किसी व्याघ्री के नवजात शिशुओं के प्राणरक्षणार्थ अन्नरूप में अर्पण कर डालते हैं यह कथा महायान साहित्य में तथा हीनयान से महायान में संक्रमण की अवस्था में बार बार अवतरित होती है। दिव्यावदान के बत्तीसवें अवदान में (BST No. 20, पृष्ठ ३०७—३१३, और उसपर मेरी टिप्पणियाँ देखिये) ३१२ वें पृष्ठ पर 'व्याघ्रीमुखावलि'— आदि जो दो श्लोक मिलते हैं और जो मेरी राय में आर्यशूर की ही कलम से निःसृत हैं, वे पाठक को यकीन दिलाते हैं कि यह कथा इसी कालखंड की और आर्यशूर की विशेष रचना है। अन्य कतिपय जातकों के बारे में, जो अब तक पाली ग्रंथों में नहीं मिले हैं, यही स्पष्टीकरण दिया जा सकता है।

इनमें से कई कथाएँ अजन्ता तथा भारहूत की गुफाओं में स्थित मूर्तिकला में चित्रित हैं और उनके नीचे जातकमाला के श्लोक खुदे हुए हैं। (देखिये २८, ४, १५, १९)

जातकमाला ने अन्य बौद्ध लेखकों पर बड़ा प्रभाव डाला है, जिनमें से एक है हत्थवनगाल्लविहारवंस नामक सिंहल में अलंकृत पाली शैली में रचित एक बाद की पाली रचना का प्रणेता। उपरिनिर्दिष्ट रचना में पाली में अनुदित २० श्लोक मिलते हैं, जो हैं:—५. २; ६. ३२; ७. ५; १५, १८; ८. २१, २४, २५, ३८, ४५; १०. २, ३; १४. ११; १५. ४, ९, १०, ११, १३; १८. १८ और २८. २८।

विद्याकर नामक ११ वीं शताब्दी के बौद्ध पंडित द्वारा संकलित **सुभाषितरत्नकोष** में १२९२ वाँ श्लोक इस ग्रंथसे उद्धृत मिलता है। (देखिये ३३, ४, दयामृदुषु दुर्जनः)

३ ग्रंथकर्ता—कालनिर्णय तथा रचनाएँ

आर्यशूर, जो कि उच्च शुद्ध अलंकृत संस्कृत में काव्यरचना करनेवाले कवियों का अग्रगामी हैं, की जीवनी तथा काल के विषय में जानकारी नहीं के बराबर मिलती है। तथापि कुमारलात और उसकी कल्पना-मंडितिका के वे ऋणी जान पड़ते हैं। इस लिए उनका जीवन-काल ईसा की चौथी शताब्दी के प्रारंभ से बहुत पहले का नहीं माना जा सकता। वैसे ही उनकी एक रचना का अनुवाद चीनी भाषा में ४३४ ई० में हुआ था। इससे उनकी जन्म-तिथि सन् ४०० के बाद नहीं रखी जा सकती। अतः मैं उनका जीवन-काल सन् ३५० से ४०० ई० निर्धारित करता हूँ। ऊपर कहा गया है कि जातकमाला की कथाओं का मूर्ति शिल्प में चित्रण अजन्ता की गुफाओं में उसके श्लोकों के साथ हुआ है, जिससे यह सूचित हो जाता है कि यह ग्रंथ छठी शताब्दी में ख्याति-प्राप्त हो चुका था।

जैसा कि डॉ. ए. सी. बानर्जी ने सुभाषितरत्नकरंडककथा की प्रस्तावना में सूचित किया है, संभवतः 'आर्यशूर' या 'शूर' नाम के दो ग्रंथकर्ता हो गये हैं, जिनमें से जातकमाला का रचयिता प्राचीनतर है।

जातकमाला के अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ आर्यशूर के रचित माने जाते हैं:—
(१) सुभाषितरत्नकरंडककथा—प्रस्तुत ग्रंथ के चौथे परिशिष्ट में प्रथम बार प्रकाशित, तथा डॉ. बानर्जी द्वारा नेपाल में प्राप्त एकाकी पांडुलिपि से संपादित।

(२) पारमिता-समास—१९४६ में प्रकाशित (Annali Lateranse Vol. X Chitta Lal Vaticano)

(३) प्रातिमोक्षसूत्रपद्धति—केवल तिब्बती अनुवाद में उपलब्ध (दे० टोहोक् सूची ४१०३).

(४) बोधिसत्त्वजातकधर्मगण्डी—तिब्बती अनुवाद में प्राप्य (दे० टोहोक् सूची ४१५७)

(५) सुपथनिर्देशपरिकथा—तिब्बती अनुवाद में प्राप्य (दे० टोहोक् सूची ४१७५)

और कई बौद्ध ग्रंथों का प्रणयन या कम से कम परिष्कार आर्यशूर ने जरूर किया होगा। दिव्यावदान का ३८ वाँ अवदान मैत्रकन्यकावदान आर्यशूर की ही रचना है यह मेरी निश्चित सी धारणा है, क्योंकि उसकी भाषा, शैली, तथा उपक्रमोप-

संहारकी पदावली वैसा स्पष्टतया सूचित करती है। मेरी यह भी धारणा का २२ वाँ तथा ३२ वाँ अवदान आर्यशूर के रचित या परिष्कृत हैं।

आर्यशूर ने विशुद्ध संस्कृत भाषा के लेखक के रूप में काव्य की थी। अभिनन्द लिखता है:—

सुबन्धौ भक्तिर्नः क इह रघुकोर न रभते
धृतिर्दाक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम् ।

विशुद्धोक्तिः शूरः प्रकृतिसुभगा भारविगिरः
तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिर्वित्तुते ॥

—सुभाषितरत्नकोष, १६९८; रघुवि. कथा

और इसके द्वारा विशुद्ध भाषाशैली के लिए आर्यशूर की प्रशंसा करनी प्रशंसोक्ति जातकमाला से परिपुष्ट हो जाती है। धर्मकीर्ति ने, जो आर्यशूर सुविख्यात कवि तथा दर्शनिक थे, जातकमाला पर टीका-ग्रंथ लिखा है। वचन के आलोक में सुभाषित-रत्नकरंडक-कथा को जातकमाला के रचना मानना चिन्त्य है, क्योंकि उसमें बहुत अपूर्णताएँ पायी जाती हैं, लिपिक के मत्थे नहीं मढ़ी जा सकती। इसका निर्माण ऐसे समय का जब कि बौद्धधर्म अवसाद पर था। इस रचना में न काव्यशक्ति का न प्रेरणामूलक उद्दान का। उसमें व्याकरण की अनेकों त्रुटियों तथा की भरमार है। विषय की दृष्टि से भी उसमें कोई उन्नयनकारी बात के लिए एक विभाग में भिक्षुओं को दान देने का विषय है, जिसमें उपदिष्ट है। अतः हमारी यह धारणा उचित ही है कि यह रचना आर्यशूर किसी उत्तरकालीन लेखक की ही होगी।

जहाँतक सुभाषित-रत्नकरंडक-कथा का सवाल है, मैं काह रचना है विषयपर दिव्यावदान के ३४ वें अवदान दानाधिकरणमहायानस्य स्पष्टतया दृग्गोचर है। अनेकों स्थानों में सदोष छन्दोरचना से यह कि वह ग्रंथ किसी नवीन लेखक का हो सकता है या आर्यशूरनामधारी लेखक का।

पुणें २
१ जुलाई, १९५९

प. ल. वैद्य

ABBREVIATIONS

- AK (अ० क०)—*Avadāna-kalpalatā* of Kṣemendra, Bibl Indica edition; our edition in BST Nos. 22-23.
- AŚ (अ० श०)—*Avadāna-Śataka* by J. S. Speyer, Bibl Buddhica edition; our edition in BST No. 19.
- Aṣṭa (अष्ट०)—*Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā*, ed. by Raje Mitra.
- BC—*Buddhacarita* of Aśvaghoṣa, edns. by Cowell and Johns
- BCA—*Bodhicaryāvatāra* of Śāntideva, with *Pañjikā* of Prakaramati, ed. by Poussin; bare text in Zapiski.
- BCP—*Bodhicaryāvatārapañjikā* of Prajñākaramati, ed. by P.
- CP—*Cariyāpīṭaka*, PTS edition; also by B. C. Law.
- CS—*Catuhstava* of Nāgārjuna (I. *Nirupama*, II. *L* III. *Acintya*, and IV. *Paramārtha*)
- DA (दिव्या०)—*Divyāvadāna*, our edition in BST No 20; also and Neil's edition.
- DBh (द० भू०)—*Daśabhūmikasūtra* ed. by Rahder.
- GM—*Gilgit Mss.* ed. by N. Dutt.
- GV (गण्ड०)—*Gaṇḍavyūhasūtra*, ed. by Suzuki and Idzumi, Japan, 1949.
- J (जा०)—*Jātaka*, ed. by Fausböl.
- JM (जा० मा०)—*Jātakamālā* of Ārya Śūra, ed. by H. Kern, our edition in BST No. 21.
- KV (कारण्ड)—*Kāraṇḍavyūha*, BTS edition.
- LA (लङ्का०)—*Laṅkāvatārasūtra*, ed. by B. Nanjio, Kyoto, 1928; reprint 1956.
- LV (ललित०)—*Lalita-Vistara*, our edition in BST No. 1.
- MŚ (म० शा०)—*Madhyamakasāstra* of Nāgārjuna, our edition in BST No. 10.
- MV (म० वृ०)—*Madhyamakavṛtti* called *Prasannapadā* of Candrakīrti, our edition in BST No 10.
- MVastu (म० व०)—*Mahāvastu*, ed. by E. Senart.
- MVy (म० व्यु०)—*Mahāvvyutpatti* ed. by I. P. Minayeff, Bibliotheca Buddhica.

- RP (राष्ट्र०)—*Rāṣṭrapālapariṣecchā*, ed. by L. Feer, Bibliotheca Buddhica.
- SS (शिक्षा०)—*Śikṣāsamuccaya* of Śāntideva, ed. by Bendall in Bibliotheca Buddhica; our edition in BST No 11.
- SA (सूत्रा०)—*Sūtrālamkāra* of Asaṅga, ed. by S. Lévi.
- SN—*Saundarananda* of Aśvaghoṣa, edns. by H. P. Shastri and Johnstone.
- SR (समाधि०)—*Samādhirājasūtra* ed. by N. Dutt, in GM; our edition in BST No 2.
- SDP (सद्धर्म०)—*Saddharmapundarikasūtra*, ed. by N. Dutt; also by Kern and Nanjio.
- SP (सुवर्ण०)—*Suvarṇaprabhāsaśūtra*, ed. by B. Nanjio and H. Idzumi, Kyoto, Japan, 1931; also by J. Nobel.
- SV (सुखा०)—*Sukhāvativyūha* ed. by Max Müller.
- T—Tibetan translation.
- T—(followed by number)—Tohoku Catalogue.
- TG (तथा०)—*Tathāgataguhyasūtra* or *Guhyasamāja*, GOS edn.
- TS (तत्त्वसं०)—*Tattvasaṅgraha* of Śāntarakṣita, GOS edition.
- VCh (वज्र०)—*Vajracchedikā*, ed. by Max Müller.
- (N. B.—Most of the works mentioned above are planned to be included in the BUDDHIST SANSKRIT TEXTS Series).
The list will be found at the end of the Volume.)

आर्यशूरविरचिता
बोधिसत्त्वावदानमालापरपर्याया
जातकमाला ।



ॐ नमः श्रीसर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः ।

श्रीमन्ति सद्गुणपरिग्रहमङ्गलानि

कीर्त्त्यास्पदान्यनवगीतमनोहराणि ।

K 1

पूर्वप्रजन्मसु मुनेश्चरिताद्भुतानि

भक्त्या स्वकाव्यकुसुमाङ्गलिनाच्यिष्ये ॥ १ ॥

5

श्लाघ्यैरमीभिरभिलक्षितचिह्नभूतै-

रादेशितो भवति यत्सुगतत्वमार्गः ।

स्यादेव रूक्षमनसामपि च प्रसादो

धर्म्याः कथाश्च रमणीयतरत्वमीयुः ॥ २ ॥

लोकार्थमित्यभिसमीक्ष्य करिष्यतेऽयं

10

श्रुत्यार्थयुक्तयविगुणेन पथा प्रयत्नः ।

लोकोत्तमस्य चरितातिशयप्रदेशैः

स्वं प्रातिभं गमयितुं श्रुतिबल्लभत्वम् ॥ ३ ॥

स्वार्थोद्यतैरपि परार्थचरस्य यस्य

नैवान्वगम्यत गुणप्रतिपत्तिशोभा ।

15

सर्वज्ञ इत्यवितथाक्षरदीर्घकीर्त्तिं

मूर्ध्ना नमे तमसमं सहधर्मसंघम् ॥ ४ ॥

१ न्याग्रीजातकम् ।

सर्वसत्त्वेष्वकारणपरमवत्सैलस्वभावः सर्वभूतात्मभूतः पूर्वजन्मस्वपि स भगवानिति बुद्धे भगवति परः प्रसादः कार्यः ॥ तद्यथानुश्रूयते रत्नत्रयगुरुभिः प्रतिपत्तिगुणाभिराधित- 20 गुरुभिर्गुणप्रविचयगुरुभिरस्मद्गुरुभिः परिकीर्त्यमानमिदं भगवतः पूर्वजन्मावदानम्—

बोधिसत्त्वः क्लियायं भगवान् भूतः प्रतिज्ञातिशयसदृशैर्दानप्रियवचनार्थचर्याप्रभृतिभिः प्रज्ञापरिग्रहनिरवधैः कारुण्यनिष्पन्नैर्लोकमनुगृह्यन् स्वधर्माभिरत्युपनतशुचिबृत्तिन्युदितोदिते महति ब्राह्मणकुले जन्मपरिग्रहं चकार । स कृतसंस्कारक्रमो जातकर्मादिभिरभिवर्धमानः

K 2

१ Mss. °क्षीति° for °क्षीप्त°. २ Mss. °वत्सर° for °वत्सल°. ३ K. °निस्यन्दैः against Mss.

प्रकृतिमेधावित्वात्सानाथ्यविशेषाज्ज्ञानकौतूहलादकौसीधाच्च नचिरेणैवाष्टादशसु विद्यास्थानेषु
सकुलक्रमाविरुद्धासु च सकलासु कलाखाचार्यकं पदमवाप ।

स ब्रह्मवद्ब्रह्मविदां बभूव
राजेव राज्ञां बहुमानपात्रम् ।

5 साक्षात्सहस्राक्ष इव प्रजानां
ज्ञानार्थिनामर्थचरः पितेव ॥ ५ ॥

तस्य भाग्यगुणातिशयसमावर्जितो महौल्लाभसत्कारयशोविशेषः प्रादुरभूत् । धर्मा-
भ्यासभाषितमतिः कृतप्रव्रज्यापरिचयस्तु बोधिसत्त्वो न तेनाभिरेमे ।

स पूर्वचर्यापरिशुद्धबुद्धिः
10 कामेषु दृष्ट्वा बहुदोषजातम् ।
गार्हस्थ्यमस्त्रास्थ्यमिवावधूय
कंचिद्वनप्रस्थमलंचकार ॥ ६ ॥

स तत्र निःसङ्गतया तथा (च)
प्रज्ञावदातेन शमेन चैव ।
15 प्रत्यादिदेशेव कुकार्यसङ्गा-
द्विच्छिद्यशिष्टोपशमं नृलोकम् ॥ ७ ॥

मैत्रीमयेण प्रशमेन तस्य
विष्यन्दिनेवानुपरीतचित्ताः ।
20 परस्परद्रोहनिर्वृत्तभावा-
स्तपस्त्रिवद्व्यालमृगा विचेरुः ॥ ८ ॥

आचारशुद्ध्या निभृतेन्द्रियत्वात्
संतोषयोगात्करुणागुणाच्च ।
असंस्तुतस्यापि जनस्य लोके
25 सोऽभूत्प्रियस्तस्य यथैव लोकः ॥ ९ ॥

अल्पेच्छभावात्कुहनानभिज्ञ-
स्यक्तस्पृहो लाभयशःसुखेषु ।
स देवतानामपि मानसानि
प्रसादभक्तिप्रवणानि चक्रे ॥ १० ॥

30 श्रुत्वाथ तं प्रव्रजितं मनुष्या
गुणैस्तदीयैरवबद्धचित्ताः ।

विहाय बन्धुंश्च परिग्रहांश्च
तच्छिष्यतां सिद्धिमिवोपजग्मुः ॥ ११ ॥

शीले शुचाविन्द्रियभावनायां
स्मृत्यप्रमोषे प्रविविक्ततायाम् ।

मैत्र्यादिके चैव मनःसमाधौ

यथाबलं सोऽनुशासास शिष्यान् ॥ १२ ॥

अथ कदाचित्स महात्मा परिनिष्पन्नभूयिष्ठे पृथुभूते शिष्यगणे प्रतिष्ठापितेऽस्मिन्
कल्याणे वर्त्मन्यवतारिते नैष्कर्म्यसत्पथं लोके संवृतेष्विवापायद्वारेषु राजमार्गाङ्कितेष्विव
सुगतिमार्गेषु दृष्टधर्मसुखविहारार्थं तत्कालशिष्येणाजितेनानुगम्यमानो योगानुकूलान् पर्वत-
दरीनिकुञ्जाननुविचचार ।

अथात्र व्याघ्रवनितां ददर्श गिरिगह्वरे ।

प्रसूतिक्लेशदोषेण गतां निस्पन्दमन्दताम् ॥ १३ ॥

परिक्षामेक्षणयुगां क्षुधा छाततरोदरीम् ।

आहारमिव पश्यन्तीं बालान् स्वतनयानपि ॥ १४ ॥

स्तन्यतर्षादुपसृतान् मातृविस्मभनिर्व्यथान् ।

रोरुयितरवैः क्रूरैर्भर्त्सयन्तीं परानिव ॥ १५ ॥

बोधिसत्त्वस्तु तां दृष्ट्वा धीरोऽपि करुणावशात् ।

चकम्पे परदुःखेन महीकम्पादिवादिराद् ॥ १६ ॥

महत्स्वपि स्वदुःखेषु व्यक्तधैर्याः कृपात्मकाः ।

मृदुनाप्यन्यदुःखेन कम्पन्ते यत्तदद्भुतम् ॥ १७ ॥

अथ स बोधिसत्त्वः ससंभ्रमाग्नेडितपदं स्वभावातिशयव्यञ्जकं करुणाबलसमाहिताक्षरं
शिष्यमुवाच—वत्स वत्स ।

पश्य संसारनैर्गुण्यं मृग्येषा स्वसुतानपि ।

लङ्घितस्नेहमर्यादा भोक्तुमन्विच्छति क्षुधा ॥ १८ ॥

अहो वतातिकष्टेयमात्मस्नेहस्य रौद्रता ।

येन मातापि तनयानाहारयितुमिच्छति ॥ १९ ॥

आत्मस्नेहमयं शत्रुं को वर्धयितुमर्हति ।

येन कुर्यात्पदन्यासमीदृशेष्वपि कर्मसु ॥ २० ॥

तच्छीघ्रमन्विष्यतां तावत्कुतश्चिदस्याः क्षुदुःखप्रतीकारहेतुर्यावन्न तनयानात्मानं चोप-
हन्ति । अहमपि चैनां प्रयतिष्ये साहसादस्मान्निवारयितुम् । स तथेत्यस्मै प्रतिश्रुत्य प्रक्रान्त-
स्तदाहारान्वेषणपरो बभूव । अथ बोधिसत्त्वस्तं शिष्यं सव्यपदेशमतिवाह्य चिन्तामापेदे—

संबिद्यमाने सकले शरीरे
 कस्मात्परस्मान्मृगयामि मांसम् ।
 यादृच्छिकी तस्य हि लाभसंपत्
 कार्यालयः स्याच्च तथा ममायम् ॥ २१ ॥

५ अपि च ।

निरात्मके भेदिनि सारहीने
 दुःखे कृतघ्ने सतताशुचौ च ।
 देहे परस्माद्युपयुज्यमाने
 न प्रीतिमान् यो न विचक्षणः सः ॥ २२ ॥

१०

खसौख्यसङ्गेन परस्य दुःख-
 मुपेक्ष्यते शक्तिपरिक्षयाद्वा ।
 न चान्यदुःखे सति मेऽस्ति सौख्यं
 सत्यां च शक्तौ किमुपेक्षकः स्याम् ॥ २३ ॥

१५

सत्यां च शक्तौ मम यद्युपेक्षा
 स्यादाततायिन्यपि दुःखमग्ने ।
 कृत्वैव पापं मम तेन चित्तं
 दह्येत कक्षं महताग्निनेव ॥ २४ ॥

२०

तस्मात्करिष्यामि शरीरकेण
 तटप्रपातोद्गतजीवितेन ।
 संरक्षणं पुत्रवधाच्च मृग्या
 मृग्याः सकाशाच्च तदात्मजानाम् ॥ २५ ॥

किं च भूयः—

२५

संदर्शनं लोकहितोत्सुकाना-
 मुत्तेजनं मन्दपराक्रमाणाम् ।
 संहर्षणं स्वागविशारदाना-
 माकर्षणं सज्जनमानसानाम् ॥ २६ ॥

३०

विपादनं मारमहाचमूनां
 प्रसादनं बुद्धगुणप्रियाणाम् ।
 व्रीडोदयं स्वार्थपरायणानां
 मात्सर्यलोभोपहृतात्मनां च ॥ २७ ॥

श्रद्धापनं यानवराश्रितानां
 विस्मापनं त्यागकृतस्मयानाम् ।
 विशोधनं स्वर्गमहापथस्य
 त्यागप्रियाणामनुमोदि नृणाम् ॥ २८ ॥
 कदा नु गात्रैरपि नाम कुर्यां
 हितं परेषामिति यश्च मेऽभूत् ।
 मनोरथस्तत्सफलीक्रियां च
 संबोधिमग्र्यामपि चाविदूरे ॥ २९ ॥

अपि च ।

न स्पर्धया नैव यशोभिलाषा-
 न्न स्वर्गलाभान्न च राज्यहेतोः ।
 नात्यन्तिकेऽप्यात्मसुखे यथायं
 ममादरोऽन्यत्र परार्थसिद्धेः ॥ ३० ॥
 तथा ममानेन समानकालं
 लोकस्य दुःखं च सुखोदयं च ।
 हर्तुं च कर्तुं च सदास्तु शक्ति-
 स्तमः प्रकाशं च यथैव भानोः ॥ ३१ ॥
 दृष्टे गुणेऽनुस्मृतिभागतो वा
 स्पष्टः कथायोगमुपागतो वा ।
 सर्वप्रकारं जगतो हितानि
 कुर्यामजस्रं सुखसंहितानि ॥ ३२ ॥
 एवं स निश्चित्य परार्थसिद्ध्यै
 प्राणालयेऽप्यापतितप्रमोदः ।
 मनांसि धीराण्यपि देवतानां
 विस्मापयन् खां तनुमुत्ससर्ज ॥ ३३ ॥

अथ सा व्याघ्री तेन बोधिसत्त्वस्य शरीरनिपातशब्देन समुत्थापितकौतूहलामर्षा
 विरम्य स्वतनयवैशसोषमात्ततो नयने विचिक्षेप । दृष्ट्वैव च बोधिसत्त्वशरीरमुद्गतप्राणं सहसा-
 भिसृत्य भक्षयितुमुपचक्रमे । अथ स तस्य शिष्यो मांसमनासाद्यैव प्रतिनिवृत्तः कुत्रोपा-
 ध्याय इति विलोकयंस्तद्बोधिसत्त्वशरीरमुद्गतप्राणं तथा व्याघ्रयुवत्या भक्ष्यमाणं ददर्श । स

तत्कर्मातिशयविस्मयात्प्रतिव्यूढशोकदुःखावेगस्ताद्गुणाश्रयबहुमानमिवोद्विरन्निदमात्मगतं भ्रुवाणः
शोभेत—

- अहो दयास्य व्यसनातुरे जने
खसौख्यनैःसङ्गमहो महात्मनः ।
6 अहो प्रकर्षं गमिता स्थितिः सता-
महो परेषां मृदिता यशःश्रियः ॥ ३४ ॥
अहो पराक्रान्तमपेतसाध्वसं
गुणाश्रयं प्रेम परं प्रदर्शितम् ।
अहो नमस्कारविशेषपात्रतां
10 प्रसह्य नीतास्य गुणातनुस्तनुः ॥ ३५ ॥
निसर्गसौम्यस्य वसुंधराघृते-
रहो परेषां व्यसनेष्वमर्षिता ।
अहो मदीया गमिता प्रकाशतां
खटुङ्कता विक्रमसंपदानया ॥ ३६ ॥
15 अनेन नाथेन सनाथतां गतं
न शोचितव्यं खलु सांप्रतं जगत् ।
पराजयाशङ्कितजातसंभ्रमो
ध्रुवं विनिश्चासपरोऽद्य मन्मथः ॥ ३७ ॥
सर्वथा नमोऽस्त्वस्मै महाभागाय सर्वभूतशरण्यायातिविपुलकारुण्यायाप्रमेयसत्त्वाय
20 भूतार्थबोधिसत्त्वाय महासत्त्वायेति । अथ स तमर्थं सन्नह्नचारिभ्यो निवेदयामास ।
तत्कर्मविस्मितमुखैरथ तस्य शिष्यै-
गन्धर्वयक्षभुजगैस्त्रिदशाधिपैश्च ।
माहयाम्बराभरणचन्दनचूर्णवर्षै-
रछन्ना तदस्थिवसुधा वसुधा बभूव ॥ ३८ ॥
25 तदेवं सर्वसत्त्वेष्वकारणपरमवत्सलस्वभावः सर्वभूतात्मभूतः पूर्वजन्मस्वपि स
भगवानिति बुद्धे भगवति परः प्रसादः कार्यः । जातप्रसादैश्च बुद्धे भगवति परा प्रीति-
रुत्पादयितव्या । एवमायतनगतो नः प्रसाद इत्येवमप्युन्नेयम् । तथा सत्कृत्य धर्मः श्रोतव्यः ।
एवं दुष्करशतसमुदानीतत्वात्करुणावर्णेऽपि वाच्यम्— एवं स्वभावातिशयस्य निष्पादिका
परानुग्रहप्रवृत्तिहेतुः करुणेति ॥
30 ॥ इति व्याघ्रीजातकं प्रथमम् ॥

१ P कटुङ्कता for खटु°. २ Mss. एव for एवं.

२ शिविजातकम् ।

दुष्करशतसमुदानीतोऽयमस्मदर्थं तेन भगवता सद्धर्म इति सत्कृत्य श्रोतव्यः ।
तद्यथानुश्रूयते—

बोधिसत्त्वभूतः किलायं भगवानपरिमितकालाभ्यासात्साल्मीभूतोपचितपुण्यकर्मा
कदाचिच्छिबीनां राजा बभूव । स बाल्यात्प्रभृत्येव वृद्धोपासनरतिर्विनयानुरक्तोऽनुरक्तप्रकृतिः 5
प्रकृतिमेधावित्वादनैकविद्याधिगमविपुलतरमतिरुत्साहमन्त्रप्रभावशक्तिदैवसंपन्नः स्वा इव प्रजाः
प्रजाः पालयति स्म ।

तस्मिंस्त्रिवर्गानुगुणा गुणौघाः

संहर्षयोगादिव संनिविष्टाः ।

समस्तरूपा विबभुर्न चासु

विरोधसंक्षोभविपन्नशोभाः ॥ १ ॥

10

विडम्बनेवाविनयोद्धतानां

दुर्मेधसामापदिवातिकष्टा ।

अल्पात्मनां या मदिरेव लक्ष्मी-

र्बभूव सा तत्र यथार्थनामा ॥ २ ॥

15

उदारभावात्करुणागुणाच्च

वित्ताधिपत्याच्च स राजवर्यः ।

रेमेऽर्थिनामीप्सितसिद्धिहर्षा-

दक्लिष्टशोभानि मुखानि पश्यन् ॥ ३ ॥

अथ स राजा दानप्रियत्वात्समन्ततो नगरस्य सर्वोपकरणधनधान्यसमृद्धा दानशालाः 20

कारयित्वा स्वमाहात्म्यानुरूपं यथाभिप्रायसंपादितं सोपचारं मनोहरमनतिक्रान्तकालसुभगं
दानवर्षं कृतयुगमेघ इव ववर्ष । अन्नमन्त्रार्थिभ्यः पानं पानार्थिभ्यः शयनासनवसनभोजन-
गन्धमाल्यरजतसुवर्णादिकं तत्तदर्थिभ्यः । अथ तस्य राज्ञः प्रदानौदार्यश्रवणाद्विस्मितप्रमुदित-
हृदया नानादिगभिलक्षितदेशनिवासिनः पुरुषास्तं देशमुपजग्मुः ।

K 7

परीत्य कृत्स्नं मनसा नृलोक-

मन्येष्वलब्धप्रणयावकाशाः ।

तमर्थिनः प्रीतमुखाः समीयु-

र्मेहाहृदं वन्यगजा यथैव ॥ ४ ॥

25

अथ स राजा समन्ततः समापततो लाभाशाप्रमुदितमनसः पथिकजननेपथ्य-
प्रच्छादितशोभस्य वनीपकजनस्य

30

- विप्रोषितस्येव सुहृज्जनस्य
संदर्शनात्प्रीतिविजृम्भिताक्षः ।
याञ्चां प्रियाख्यानमिवाभ्यनन्द-
इत्वा च तुष्ट्यार्थिजनं जिगाय ॥ ५ ॥
- दानोद्भवः कीर्तिमयः सुगन्ध-
स्तस्यार्थिनां वागनिलप्रकीर्णः ।
मदं जहारान्यनराधिपानां
गन्धद्विपस्येव परद्विपानाम् ॥ ६ ॥
- अथ कदाचित्स राजा दानशालाः समनुविचरंस्तृप्तत्वादर्थिजनस्य प्रविरलं याचक-
10 जनसंपातमभिसमीक्ष्य दानधर्मस्यानुत्सर्पणान्न तुष्टिमुपजगाम ।
तर्षं विनिन्द्येऽर्थिजनस्तमेत्य
न त्वर्थिनः प्राप्य स दानशौण्डः ।
न ह्यस्य दानव्यवसायमर्थी
याचनाप्रमाणेन शशाक जेतुम् ॥ ७ ॥
- 16 तस्य बुद्धिरभवत्—अतिसभाग्यास्ते सत्पुरुषविशेषा ये विस्त्रम्भनिर्यन्नप्रणयमर्थिभिः
स्वगान्नाप्यपि याच्यन्ते । मम पुनः प्रत्याख्यानरूक्षाक्षरवचनसंतर्जित इवार्थिजनो धनमात्रके-
ऽप्रगल्भप्रणयः संवृत्त इति ।
अथ क्षितीशस्य तमत्युदारं
गात्रेष्वपि खेषु निवृत्तसङ्गम् ।
20 विज्ञाय दानाश्रयिणं वितर्कं
पतिप्रिया स्त्रीव मही चकम्पे ॥ ८ ॥
- अथ शक्रो देवेन्द्रः क्षितितलचलनादाकम्पिते विधिधरत्नप्रभोर्द्वासिनि सुमेरौ पर्वत-
राजे किमिदमिति समुत्पतितवितर्कस्तस्य राज्ञ इमं वितर्कातिशयं धरणीतलचलननिमित्त-
मवेत्य विस्मयावर्जितद्वयश्चिन्तामापेदे—
25 दानातिहर्षोद्धतमानसेन
वितर्कितं किंखिदिदं नृपेण ।
आब्रुव्य दानव्यवसायकक्ष्यां
स्वगात्रदानस्थिरनिश्चयेन ॥ ९ ॥
- तन्मीमांसिष्ये तावदेनमिति । अथ तस्य राज्ञः पर्षदि निषण्णस्यामात्यगणपरिवृतस्य
30 समुचितायां कृतायामर्थिजनस्य कः किमिच्छतीत्याह्वानावघोषणायामुद्भात्यमानेषु कोशाध्यक्षा-

१ A °प्रभासिनि for °प्रभोर्द्वासिनी.

धिस्थितेषु मणिकनकरजतधननिचयेषु विश्लेष्यमाणासु पुटासु विविधवसनपरिपूर्णगर्भासु
समुपावर्त्यमानेषु विनीतविविधवाहनस्कन्धप्रतिष्ठितयुगेषु विचित्रेषु यानविशेषेषु प्रवृत्त-
संपातेऽर्थिजने शक्रो देवानामिन्द्रो वृद्धमन्धं ब्राह्मणरूपमभिनिर्माय राज्ञश्चक्षुःपथे प्रादुरभवत् ।
अथ तस्य राज्ञः कारुण्यमैत्रीपरिभावितया धीरप्रसन्नसौम्यया प्रत्युद्रत इव परिष्वक्त इव च
दृष्टया केनार्थ इत्युपनिमग्न्यमाणः क्षितिपानुचरैर्ऋषिपतिसमीपमुपेत्य जयाशीर्वचनपुरःसरं ७
राजानमित्युवाच—

दूरादपश्यन् स्थविरोऽभ्युपेत-

स्वचक्षुषोऽर्थी क्षितिपप्रधान ।

एकेक्षणेनापि हि पङ्कजाक्ष

गम्येत लोकाधिप लोकयात्रा ॥ १० ॥

10

अथ स बोधिसत्त्वः समभिलषितमनोरथप्रसिद्ध्या परं प्रीत्युत्सवमनुभवन् किंखिदिदं
सत्यमेवोक्तं ब्राह्मणेन स्यादुत विकल्पान्भ्यासान्मयैवमवधारितमिति जातविमैर्शश्चक्षुर्याञ्जाप्रिय-
वचनश्रवणतृषितमतिस्तं चक्षुर्याचनकमुवाच—

केनानुशिष्टस्त्वमिहाभ्युपेतो

मां याचितुं ब्राह्मणमुख्य चक्षुः ।

सुदुस्स्यजं चक्षुरिति प्रवादः

संभावना कस्य मयि व्यतीता ॥ ११ ॥

15

अथ स ब्राह्मणवेषधारी शक्रो देवेन्द्रस्तस्य राज्ञ आशयं विदित्वावाच—

शक्रस्य शक्रप्रतिमानुशिष्ट्या

त्वां याचितुं चक्षुरिहागतोऽस्मि ।

संभावनां तस्य ममैव चाशां

चक्षुःप्रदानात्सफलीकुरुष्व ॥ १२ ॥

K 9

20

अथ स राजा शक्रसंकीर्तनान्नूनमस्य ब्राह्मणस्य भवित्री देवतानुभावादनेन विधिना
चक्षुःसंपदिति मत्वा प्रमोदविशदाक्षरमेनमुवाच—

येनाभ्युपेतोऽसि मनोरथेन

तमेष ते ब्राह्मण पूरयामि ।

आक्काङ्क्षमाणाय मदेकमक्षि

ददामि चक्षुर्द्वयमप्यहं ते ॥ १३ ॥

25

स त्वं विबुद्धनयनोत्पलशोभितास्यः

संपश्यतो ब्रज यथाभिमतं जनस्य ।

स्यात्किं नु सोऽयमुत नेति विचारदोला-

लोलस्य सोऽयमिति चोत्थितविस्मयस्य ॥ १४ ॥

अथ तस्य राज्ञोऽमाल्याश्चक्षुःप्रदानावसायमवेत्य ससंभ्रमावेगविषादव्यथितमनसो
राजानमूचुः-

5 दानातिहर्षादनयमसमीक्ष्याहितोदयम् ।
प्रसीद देव मा मैवं न चक्षुर्दातुमर्हसि ॥ १५ ॥
एकस्यार्थे द्विजस्यास्य मा नः सर्वान् पराकृथाः ।
अलं शोकाग्निना दग्धं सुखं संवर्धिताः प्रजाः ॥ १६ ॥

धनानि लक्ष्मीप्रतिबोधनानि
10 श्रीमन्ति रत्नानि पयस्विनीर्गाः ।
रथान् विनीतांश्च युजः प्रयच्छ
मदोर्जितश्रीललितान् द्विपान् वा ॥ १७ ॥

समुच्चरन्पूरनिखनानि
शरत्पयोदाभ्यधिकद्युतीनि ।
15 गृहाणि सर्वर्तुसुखानि देहि
मा दाः स्वचक्षुर्जगदेकचक्षुः ॥ १८ ॥

विमृश्यतामपि च तावन्महाराज ।

अन्यदीयं कथं नाम चक्षुरन्यत्र योज्यते ।

अथ देवप्रभावोऽयं त्वच्चक्षुः किमपेक्ष्यते ॥ १९ ॥

20 अपि च देव ।

K 10

चक्षुषा किं दरिद्रस्य पराभ्युदयसाक्षिणा ।

धनमेव यतो देहि देव मा साहसं कृथाः ॥ २० ॥

अथ स राजा तानमाल्यान् सानुनयमधुराक्षरमित्युवाच-

अदाने कुरुते बुद्धिं दास्यामीत्यभिधाय यः ।

25 स लोभपाशं प्रभ्रष्टमात्मनि प्रतिमुञ्चति ॥ २१ ॥

दास्यामीति प्रतिज्ञाय योऽन्यथा कुरुते मनः ।

कार्पण्यानिश्चितमतेः कः स्यात्पापतरस्ततः ॥ २२ ॥

स्थिरीकृत्यार्थिनामाशां दास्यामीति प्रतिज्ञया ।

विसंवादनरूक्षस्य वचसो नास्ति निष्कृतिः ॥ २३ ॥

30 यदपि चेष्टं देवतानुभावादेव चक्षुरस्य किं न संभवतीत्यत्र श्रूयताम्-

१ K विनीताश्च. २ Mss. विमृश्यताम्. ३ Mss. अपेक्षते.

नैककारणसाध्यत्वं कार्याणां ननु दृश्यते ।

कारणान्तरसापेक्षः स्याद्देवोऽपि विधिर्यतः ॥ २४ ॥

तन्न मे दानातिशयव्यवसाये विघ्नाय व्यायन्तुमर्हन्ति भवन्त इति । अमाल्या ऊचुः—
धनधान्यरत्नानि देवो दातुमर्हति न स्वचक्षुरिति विज्ञापितमस्माभिः । तन्न देवं वयमतीर्थे
प्रतारयामः । राजोवाच—

यदेव याच्येत तदेव दद्या-

न्नानीप्सितं प्रीणयतीह दत्तम् ।

किमुह्यमानस्य जलेन तोयै-

र्दास्याम्यतः प्रार्थितमर्थमस्मै ॥ २५ ॥

अथ तस्य राज्ञो दृढतरविस्त्रम्भप्रणयः स्नेहवेगादनपेक्षितोपचारोऽमाल्यमुख्यस्तं राजान-10
मित्युवाच—मा तावद्भोः ।

या नाल्पेन तपःसमाधिविधिना संप्राप्यते केनचि-

धामासाद्य च भूरिभिर्मखशतैः कीर्तिं दिवं चामुयात् ।

संप्राप्तमतिर्पत्य तां नृपतितां शक्रर्द्धिविस्पधिनीं

किं दृष्ट्वा नयने प्रदित्सति भवान् कोऽयं कुतस्स्यो विधिः ॥ २६ ॥ 15

लब्धायकाशस्त्रिदशेषु यज्ञैः

कीर्त्या समन्तादवभासमानः ।

नरेन्द्रचूडाद्युतिरञ्जिताङ्घ्रिः

किं लिप्समानो नु ददासि चक्षुः ॥ २७ ॥

अथ स राजा तममाल्यं सानुनयमित्युवाच—

नायं यन्नः सार्वभौमत्वमाप्तुं

नैव स्वर्गं नापवर्गं न कीर्तिम् ।

त्रातुं लोकानित्ययं त्वादरो मे

याञ्चाक्लेशो मा च भूदस्य मोघः ॥ २८ ॥

अथ स राजा नीलोत्पलदलशकलरुचिरकान्ति नयनमेकं वैद्यपरिदृष्टेन विधिना 25
शनकैरक्षतमुत्पाद्य परया प्रीत्या चक्षुर्याचनकाय प्रायच्छत् । अथ शक्रो देवेन्द्रस्तादृश-
मृद्ध्यभिसंस्कारं चक्रे यथा ददर्श स राजा सपरिजनस्तत्तस्य चक्षुश्चक्षुःस्थाने प्रतिष्ठितम् ।
अथोन्मिषितैकचक्षुषं चक्षुर्याचनकमभिवीक्ष्य स राजा परमेण प्रहर्षेण समापूर्णहृदयो
द्वितीयमप्यस्मै नयनं प्रायच्छत् ।

ततः स राजा नयने प्रदाय

विपद्पद्माकरतुल्यवक्त्रः ।

पौरैरसाधारणतुष्टिरासीत्

समग्रचक्षुर्दृष्टे द्विजश्च ॥ २९ ॥

अन्तःपुरेऽथ मनुजाधिपतेः पुरे च

शोकाश्रुभिर्वसुमती सिषिचे समन्तात् ।

5 शक्रस्तु विस्मयमवाप परां च तुष्टिं

संबोधये नृपमकम्प्यमर्तिं समीक्ष्य ॥ ३० ॥

अथ शक्रस्य विस्मयावर्जितहृदयस्यैतदभवत्—

अहो धृतिरहो सत्त्वमहो सत्त्वहितैषिता ।

प्रत्यक्षमपि कर्मदं करोतीव विचारणाम् ॥ ३१ ॥

10 तन्नायमाश्चर्यसत्त्वश्चिरमिमं परिक्लेशमनुभवितुमर्हति । यतः प्रयतिष्ये चक्षुरस्योपाय-
प्रदर्शनादुरपादयितुम् । अथ तस्य राज्ञः क्रमात्संरूढनयनव्रणस्याधगीतप्रतनूभूतान्तःपुरपौर-
जानपदशोकस्य प्रविवेककामत्वाद्बुद्धानपुष्करिण्यास्तीरे कुसुमभरावनतरुचिरतरुवरनिचिते
भृदुसुरभिशिशिरसुखपवने मधुकरगणोपकूजिते पर्यङ्केण निषण्णस्य शक्रो देवेन्द्रः पुरस्ता-
त्प्रादुरभवत् । क एष इति च राज्ञा पर्यनुयुक्तोऽब्रवीत्—

K 12 15 शक्रोऽहमस्मि देवेन्द्रस्त्वत्समीपमुपागतः ।

राजोवाच—स्वागतम् । आज्ञाप्यतां केनार्थं इति । स उपचारपुरःसरमुक्तो राजानं
पुनरुवाच—

वरं वृणीष्व राजर्षे यदिच्छसि तदुच्यताम् ॥ ३२ ॥

अथ स राजा प्रदानसमुचितत्वादनभ्यस्तयाच्चाकार्पण्यमार्गो विधुष्य विस्मयशौटीर्य-
20 मेनमुवाच—

प्रभूतं मे धनं शक्र शक्तिमच्च महद्बलम् ।

अन्धभावात्स्विदानीं मे मृत्युरेवाभिरोचते ॥ ३३ ॥

कृत्वापि पर्याप्तमनोरथानि

प्रीतिप्रसादाधिकलोचनानि ।

25 मुखानि पश्यामि न याचकानां

यत्तेन मृत्युर्दयितो ममेन्द्र ॥ ३४ ॥

शक्र उवाच—अलमलमनेन ते व्यवसायेन । सत्पुरुषा एवेदृशान्यनुप्राप्नुवन्ति । अपि
च पृच्छामि तावद्भवन्तम् ।

इमामवस्थां गमितस्य याचकैः

30 कथं नु ते संप्रति तेषु मानसम् ।

प्रचक्ष्य तत्तावदलं निगूहितुं
व्रजेर्षं संप्रत्यपनीय तां यथा ॥ ३५ ॥

राजोवाच—कोऽयमस्मान् त्रिकथयितुमत्रभवतो निर्बन्धः ? अपि च देवेन्द्र श्रूयताम्—
तदैव चैतर्हि च याचकानां
वचांसि याञ्जानियताक्षराणि ।
आशीर्मियाणीव मम प्रियाणि
यथा तथोदेतु ममैकमक्षि ॥ ३६ ॥

5

अथ तस्य राज्ञः सख्याधिष्ठानबलात्पुण्योपचयविशेषाच्च वचनसमनन्तरमेवेन्द्रनील-
शकलाक्रान्तमध्यमिव नीलोत्पलदलसदृशमेकं चक्षुः प्रादुरभवत् । प्रादुर्भूते च तस्मिन्नयना-
क्षर्ये प्रमुदितमनाः स राजा पुनरपि शक्रमुवाच—

10

यश्चापि मां चक्षुरयाचतैकं
तस्मै मुदा द्वे नयने प्रदाय ।
प्रीत्युत्सवैकाग्रमतिर्यथासं
द्वितीयमप्यक्षि तथा ममास्तु ॥ ३७ ॥

अथाभिव्याहारसमनन्तरमेव तस्य राज्ञो विस्पर्धमानमिव तेन नयनेन द्वितीयं चक्षुः
प्रादुरभवत् ।

K 13

ततश्चकम्पे सधराधरा धरा
व्यतीत्य वेलां प्रससार सागरः ।
प्रसक्तगम्भीरमनोज्ञनिखनाः
प्रसखनुर्दुन्दुभयो दिवौकसाम् ॥ ३८ ॥
प्रसादरम्यं ददृशे वपुर्दिशां
रराज शुद्ध्या शरदीव भास्करः ।
परिश्रमच्चन्दनचूर्णरञ्जितं
पपात चित्रं कुसुमं नभस्तलात् ॥ ३९ ॥
समाययुर्विस्मयफुल्ललोचना
दिवौकसस्तत्र महाप्सरोगणाः ।
ववौ मनोज्ञात्मगुणः समीरणो
मनस्तु हर्षो जगतां व्यजृम्भत ॥ ४० ॥
उदीरिता हर्षपरीतमानसै-
र्महर्द्धिभिर्भूतगणैः सविस्मयैः ।

20

25

30

नृपस्य कर्मातिशयस्तवाश्रयाः

समन्ततः शुश्रुविरे गिरः शुभाः ॥ ४१ ॥

अहो बतौदार्यमहो कृपालुता

विशुद्धता पश्य यथास्य चेतसः ।

6

अहो स्वसौख्येषु निरुत्सुका मति-

र्नमोऽस्तु तेऽभ्युद्गतधैर्यविक्रम ॥ ४२ ॥

सनाथतां साधु जगद्गतं त्वया

पुनर्विबुद्धेक्षणपङ्कजश्रिया ।

अमोघरूपा बत पुण्यसंचया-

10

श्विरस्य धर्मेण खल्लर्जितं जितम् ॥ ४३ ॥

अथ शक्रः साधु साध्वित्येनमभिसंराध्य पुनरुवाच—

न नो न विदितो राजंस्तव शुद्धाशयाशयः ।

एवं नुं प्रतिदत्ते ते मयेमे नयने नृप ॥ ४४ ॥

समन्ताद्योजनशतं शैलैरपि तिरस्कृतम् ।

16

द्रष्टुमव्याहता शक्तिर्भविष्यत्यनयोश्च ते ॥ ४५ ॥

इत्युक्त्वा शक्रस्तत्रैव चान्तर्दधे । अथ बोधिसत्त्वो विस्मयपूर्णमनोभिर्मन्दमन्दनिमेष-
प्रविकसितनयनैरमाल्यैरनुयातः पौरैश्चाभिवीक्ष्यमाणो जयाशीर्वचनपुरःसरैश्च ब्राह्मणैरभि-
नन्दमानः पुरवरमुच्छ्रितध्वजविचित्रपताकं प्रवितन्यमानाभ्युदयशोभमभिगम्य पर्षदि-
निपण्णः सभाजनार्थमभिगतस्यामात्यप्रमुखस्य ब्राह्मणवृद्धपौरजानपदस्थैवनात्मोपनायिकं धर्मा-
२० देशयामास—

K 14

को नाम लोके शिथिलादरः स्यात्

कर्तुं धनेनार्थिजनप्रियाणि ।

दिव्यप्रभावे नयने ममेमे

प्रदानपुण्योपनते समीक्ष्य ॥ ४६ ॥

२५

अनेकशैलान्तरितं योजनानां शतादपि ।

अदूरस्थितविस्पष्टं दृश्यं पश्यामि सर्वतः ॥ ४७ ॥

परानुकम्पाविनयाभिजाता-

दानात्परः कोऽभ्युदयाभ्युपायः ।

यन्मानुषं चक्षुरिहैव दत्त्वा

30

प्राप्तं मयामानुषदिव्यचक्षुः ॥ ४८ ॥

१ Mss. तु for नृ. २ Mss. अनुयातैः for °यातः. ३ Mss. °प्रमुख्यस्य.

एतद्विदित्वा शिवयः प्रदानै-
 भोगेन चार्थान् सफलीकुरुष्वम् ।
 लोके परस्मिन्निह चैष पन्थाः
 कीर्तिप्रधानस्य सुखोदयस्य ॥ ४९ ॥

धनस्य निःसारलघोः स सारो
 यदीयते लोकहितोन्मुखेन ।
 निधानतां याति हि दीयमान-
 मदीयमानं निधनैकनिष्ठम् ॥ ५० ॥

5

तदेवं दुष्करशतसमुदानीतोऽयमस्मदर्थं तेन भगवता सद्धर्म इति सत्कृत्य श्रोतव्यः ।
 तथागतमाहात्म्ये पूर्ववच्च करुणावर्णेऽपि वाच्यम्—इहैव पुण्यफलप्रदर्शने चैवं सत्कृत्योपचितानि 10
 पुण्यानीहैव पुण्यमात्रमात्मप्रभावस्य कीर्तिसंततिमनोहरं प्रदर्शयन्तीति ॥

॥ इति शिविजातकं द्वितीयम् ॥



३ कुलमाषपिण्डीजातकम् ।

चित्तप्रसादोद्गतं पात्रातिशयप्रतिपादितं च नाल्पकं नाम दानमस्ति विपाक-
महत्त्वात् । तद्यथानुश्रूयते—

बोधिसत्त्वभूतः किलायं भगवान् कोशलाधिपतिर्बभूव । तस्योस्ताहमन्नप्रभुशक्तिसंप-
५ प्रभृतीनां प्रकर्षणामपि राजगुणानां विभूतिमतिशिष्ये दैवसंपद्गुणशोभा ।

गुणास्तस्याधिकं रेजुदैवसंपद्भिर्भूषणाः ।

किरणा इव चन्द्रस्य शरदुन्मीलितश्रियः ॥ १ ॥

तत्याज दृप्तानपि तस्य शत्रून्
रक्तेव रेमे तदपाश्रितेषु ।

10 इत्यास तस्यान्यनराधिपेषु

कोपप्रसादानुविधायिनी श्रीः ॥ २ ॥

धर्मात्मकत्वान्न च नाम तस्य

परोपतापाशिवमास चेतः ।

भृत्यानुरागस्तु तथा जजृम्भे

15 द्विपत्सु लक्ष्मीर्न यथास्य रेमे ॥ ३ ॥

सोऽनन्तरातीतां स्वजातिमनुसस्मार । तदनुस्मरणाच्च समुपजातसंवेगो विशेषवन्तरं
श्रमणब्राह्मणकृपणवनीपकेभ्यः सुखहेतुनिदानं दानमदात्, शीलसंवरमनवरतं पुषोष, पोषध-
नियमं च पर्यदियसेषु समाददे । अभीक्षणं च राजा पर्षदि खस्मिश्चान्तःपुरे पुण्यप्रभावो-
20 ज्ञावनाद्भोके श्रेयसि नियोकुकामः प्रतीतहृदयो गाथाद्वयमिति नियतार्थं बभाषे—

न सुगतपरिचर्या विद्यते खल्पिकापि

प्रतनुफलविभूतिर्यच्छ्रुतं केवलं प्राक् ।

तदिदमलवणायाः शुष्करूक्षाणायाः

फलविभवमहत्त्वं पश्य कुलमाषपिण्ड्याः ॥ ४ ॥

रथतुरगविचित्रं मत्तनागेन्द्रनीलं

25 बलमकृशमिदं मे मेदिनी केवला च ।

बहु धनमनुरक्ता श्रीरुदाराश्च दाराः

फलसमुदयशोभां पश्य कुलमाषपिण्ड्याः ॥ ५ ॥

तममास्या ब्राह्मणवृद्धाः पौरमुख्याश्च कौतूहलाधूर्णितमनसोऽपि न प्रसहन्ते स्म पर्यन्तु-
30 योकुम्—किमभिसमीक्ष्य महाराजो गाथाद्वयमिदमभीक्षणं भाषत इति । अथ तस्य राज्ञो वाम्निष्य
वादव्याहृततरप्रणयप्रसारा देवी समुत्पन्नकौतूहला संकथाप्रस्तावागतं पर्षदि पर्यपृच्छदेनम्—
नियतमिति नरेन्द्र भाषसे हृदयगतां मुदमुद्गिरन्निव ।
भवति मम कुतूहलाकुलं हृदयमिदं कथितेन तेन ते ॥ ६ ॥

१ A वागत्वाद°; B वागत्वाद°; P वागत्वाद°.

तदर्हति श्रोतुमयं जनो यदि
 प्रचक्ष्य तर्कि न्विति भाषसे नृप ।
 रहस्यमेवं च न कीर्त्सते क्वचित्
 प्रकाशमस्माच्च मयापि पृच्छयते ॥ ७ ॥

अथ स राजा प्रीत्यभिस्त्रिगधया दृष्टया समभिवीक्ष्य देवीं स्मितप्रविकसितवदन ६ K 111

उवाच—

अविभाव्य निमित्तार्थं श्रुत्वोद्गारमिमं मम ।
 न केवलं तवैवात्र कौतूहलचलं मनः ॥ ८ ॥
 समन्तमप्येतदमात्ममण्डलं
 कुतूहलाघूर्णितलोलमानसम् । 10

पुरं च सान्तःपुरमत्र तेन मे
 निशम्यतां येन मयैवमुच्यते ॥ ९ ॥

सुप्तप्रबुद्ध इव जातिमनुस्मरामि
 यस्यामिहैव नगरे भूतकोऽहमासम् ।
 शीलान्वितोऽपि धनमात्रसमुच्छ्रितेभ्यः 15
 कर्माभिराधनसमर्जितदीनवृत्तिः ॥ १० ॥

सोऽहं भृतिं परिभवश्रमदैत्यशालां
 त्राणाशयात्स्वयमवृत्तिभयाद्विविक्षुः ।
 भिक्षार्थिनश्च चतुरः श्रमणानपश्यं
 वश्येन्द्रियाननुगतानिव भिक्षुलक्ष्म्या ॥ ११ ॥ 20

तेभ्यः प्रसादमृदुना मनसा प्रणम्य
 कुल्माषमात्रकमदां प्रयतः स्वगेहे ।
 तस्याङ्कुरोदय इवैष यदन्यराज-
 चूडाप्रभाश्चरणरेणुषु मे निर्भक्ताः ॥ १२ ॥

तदेतदभिसंधाय मयैवं देवि कथ्यते । 25
 पुण्येन च लभे तृप्तिमर्हतां दर्शनेन च ॥ १३ ॥

अथ सा देवी प्रहर्षविस्रयविशालाक्षी सबहुमानमुदीक्षमाणा राजानमित्युवाच—
 उपपन्नरूपः पुण्यानामयमेवविधो विपाकाभ्युदयविशेषः । पुण्यफलप्रत्यक्षिणश्च महाराजस्य
 यदयं पुण्येषादरः । तदेवमेव पापप्रवृत्तिविमुखः पितेव प्रजानां सम्यक्परिपालनसुमुखः
 पुण्यगैर्गार्जनाभिमुखः 30

१ A B निविक्ताः; P निविक्ताः. २ B प्रवृत्तिष्वपिमुखः; P प्रवृत्तिष्वविमुखः. ३ Mss.
 °पालना° for °पालन°. ४ Mss. °गुणा° for °गणा°.
 जा. मा. ३

K 17

यशःश्रिया दानसमृद्धया ज्वलन्
प्रतिष्ठिताज्ञः प्रतिराजमूर्धसु ।
समीरणकुञ्चितसागराम्बरां
चिरं महीं धर्मनयेन पालय ॥ १४ ॥

5 राजोवाच—किं ह्येतदेवि न स्यात् ?

सोऽहं तमेव पुनराश्रयितुं यतिष्ये
श्रेयःपथं समभिलक्षितरम्यचिह्नम् ।
लोकः प्रदिस्सति हि दानफलं निशम्य
दास्याम्यहं किमिति नात्मगतं निशम्य ॥ १५ ॥

10 अथ स राजा देवीं देवीमिव श्रिया ज्वलन्तीमभिलक्षिग्धमवेक्ष्य श्रीसंपत्तिहेतुकुतूहल-
हृदयः पुनरुवाच—

चन्द्रलेखेव ताराणां स्त्रीणां मध्ये विराजसे ।
अकृथाः किं नु कल्याणि कर्मातिमधुरोदयम् ॥ १६ ॥

देव्युवाच—अस्ति देव किञ्चिदहमपि पूर्वजन्मवृत्तिं समनुस्मरामीति । कथय कथये-
15 दानीमिति च सादरं राज्ञा पर्यनुयुक्तोवाच—

बाल्येऽनुभूतमिव तत्समनुस्मरामि
दासी सती यदहमुद्धृतभक्तमेकम् ।
क्षीणान्नवाय मुनये विनयेन दत्त्वा
सुमेव तत्र समवापमिह प्रबोधम् ॥ १७ ॥

एतत्स्मरामि कुशलं नरदेव येन
त्वन्नाथतामुपगतास्मि समं पृथिव्या ।
क्षीणान्नवेपु न कृतं तनु नाम किञ्चि-
दित्युक्तवानसि यथैव मुनिस्तथैव ॥ १८ ॥

अथ स राजा पुण्यफलप्रदर्शनापुण्येषु समुत्पादितबहुमानामभिप्रसन्नमनसं पर्वदं
20 विस्मयेकप्रामयेत्य नियतमीदृशं किञ्चित्समनुशशास—

अपस्यापि शुभस्य विस्तरमिमं^१ दृष्ट्वा विपाकश्रियः
स्याचो नाम न दानशीलविधिना पुण्यक्रियातत्परः ।
नैव ब्रह्ममपि क्षमः स पुरुषः पर्याप्तवित्तोऽपि सन्
यः कार्पण्यतमिस्रयादृतमतिर्नाप्नोति दानैर्यशः ॥ १९ ॥

स्यक्तव्यं विवशेन यन्न च तथा कस्मैचिदर्थाय य-
 त्तन्व्यायेन धनं स्यजन् यदि गुणं कंचित्समुद्भावयेत् ।
 कोऽस्तौ तत्र भजेत मत्सरपथं जानन् गुणानां रसं
 ग्रीत्याद्या विविधाश्च कीर्त्त्यनुसृता दानप्रतिष्ठा गुणाः ॥ २० ॥

दानं नाम महानिधानमनुगं चौराद्यसाधारणं 5
 दानं मत्सरलोभदोषरजसः प्रक्षालनं चेतसः ।
 संसाराद्यपरिश्रमापनयनं दानं सुखं वाहनं
 दानं नैकसुखोपधानसुमुखं सन्मित्रमालम्बिकम् ॥ २१ ॥

विभवसमुदयं वा दीप्तमाज्ञागुणं वा
 त्रिदशपुरनिवासं रूपशोभागुणं वा । 10
 यदभिलषति सर्वं तत्समाप्नोति दाना-
 दिति परिगणितार्थः को न दानानि दद्यात् ॥ २२ ॥

सारादानं दानमाहुर्धनाना-
 मैश्वर्याणां दानमाहुर्निदानम् ।
 दानं श्रीमत्सज्जनत्वावदानं 15
 बाल्यप्रज्ञैः पांसुदानं सुदानम् ॥ २३ ॥

अथ सा पर्वत्तस्य राज्ञस्तद्ग्राहकं वचनं सबहुमानमभिनन्द्य प्रदानादिप्रतिपत्त्यभि-
 मुखी बभूव ॥

तदेवं चित्तप्रसादोद्भूतं पात्रातिशयप्रतिपादितं च नाल्पकं नाम दानमस्ति विपाक-
 महत्त्वादिति प्रसन्नचित्तेनानुत्तरे पुण्यक्षेत्र आर्यसंघे दानं ददता परा प्रीतिरुत्पादयितव्या— 20
 अदूरे ममाप्येवंविधा अतो विशिष्टतराश्च संपत्तय इति ॥

॥ इति कुल्माषपिण्डीजातकं तृतीयम् ॥

—:—

४ श्रेष्ठिजातकम् ।

K 19

अत्ययमप्यविगण्य दिस्सन्ति सत्पुरुषाः । केन नाम स्वस्थेन न दातव्यं स्यात् ?
तद्यथानुश्रूयते--

बोधिसत्त्वभूतः किलायं भगवान् भाग्यातिशयगुणादुत्थानसंपदा च अधिगतविपुल-
धनसमृद्धिरधिपमव्यवहारशीलत्वालोके बहुमाननिकेतभूत उदाराभिजनवाननेकविद्याकला-
धिकत्वाधिगमविमलतरमतिर्गुणमाहात्म्याद्राज्ञा समुपहृतसंमानः प्रदानशीलत्वालोकाधारण-
धिमवः श्रेष्ठी बभूव ।

अर्थिभिः प्रीतं हृदयैः कीर्त्यमानमितस्ततः ।

लागशौर्योन्नतं नाम तस्य व्याप दिशो दश ॥ १ ॥

10

दद्यान्न दद्यादिति तत्र नासी-

द्विचौरदोलाचलमानसोऽर्थी ।

इयातावदाने हि बभूव तस्मिन्

विस्त्रम्भमृष्टप्रणयोऽर्थिवर्गः ॥ २ ॥

15

नासौ जुगोपात्मसुखार्थमर्थं

न स्पर्धया लोमपराभयाद्वा ।

सत्त्वार्थिदुःखं न शशाक सोढुं

नास्तीति वक्तुं च ततो जुगोप ॥ ३ ॥

अथ कदाचित्तस्य महासत्त्वस्य भोजनकाले स्नानानुलिप्तगात्रस्य कुशलोदारसूदोष-
कल्पिते समुपस्थिते वर्णगन्धरसस्पर्शादिगुणसमुदिते विचित्रे भक्ष्यभोज्यादिविधौ तत्पुण्य-
संभाराभिवृद्धिकामो ज्ञानाग्निनिर्दग्धसर्वक्लेशेन्धनः प्रत्येकबुद्धस्तद्ब्रह्मभिजगाम भिक्षार्थी ।
समुपेत्य च द्वारकोष्ठके व्यतिष्ठत ।

अशङ्किताचञ्चलधीरसौम्य-

मवेक्षमाणो युगमात्रमुर्व्याः ।

तत्रावतस्थे प्रशमाभिजातः

स पात्रसंसक्तकराप्रपन्नः ॥ ४ ॥

अथ मारः पापीयान् बोधिसत्त्वस्य तां दानसंपदममृष्यमाणस्तद्विज्ञार्थमन्तरा च तं
भद्रन्तमन्तरा च द्वारदेहलीं प्रचलज्वालाकरालोदरमनेकपौरुषमतिगम्भीरं भयानकदर्शनं
संप्रतिभयनिर्धोषं नरकमभिनिर्ममे विस्फुरद्विरनेकैर्जनशतैराचितम् । अथ बोधिसत्त्वः प्रत्येक-

१ Mss. प्रीति° for प्रीत°. २ Mss. विचाल° for विचार°. ३ A B तानावु°;
P तानानु°.

बुद्धं भिक्षार्थिनमभिगतमालोक्य पत्नीमुवाच—भद्रे स्वयमार्याय पर्याप्तं पिण्डपातं देहीति । सा तथेति प्रतिश्रुत्य प्रणीतं भक्ष्यभोज्यमादाय प्रस्थिता । नरकमालोक्य द्वारकोष्ठकसमीपे भय-
विषादचञ्चलाक्षी सहसा न्यवर्तत । किमेतदिति च भर्त्रा पर्यनुयुक्ता समापतितसाध्वसा-
पिहितकण्ठी तत्कथंचित्तस्मै कथयामास । अथ बोधिसत्त्वः कथमयमार्यो मद्गृहादनवाप्तभिक्ष
एव प्रतियास्यतीति ससंभ्रमं तत्तस्याः कथितमनादृत्य स्वयमेव च प्रणीतं भक्ष्यभोज्यमादाय 5
तस्य महात्मनः पिण्डपातं प्रतिपादयितुकामो द्वारकोष्ठकसमीपमभिगतस्तमतिभीषणमन्तरा
नरकं ददर्श । तस्य किं खिदिदमिति समुत्पन्नवितर्कस्य मारः पापीयान् भवनभित्तेर्विनिः-
सृत्य संदृश्यमानदिव्याद्भुतवपुरन्तैरिक्षे स्थित्वा हितकाम इव नामाब्रवीत्—गृहपते महारौरव-
नामायं महानरकः ।

अर्थिप्रशंसावचनप्रलुब्धा 10

दित्सन्ति दानव्यसनेन येषान् ।

शरत्सहस्राणि बहूनि तेषा-

मस्मिन्निवासोऽसुलभप्रवासः ॥ ५ ॥

अर्थस्त्रिवर्गस्य विशेषहेतु-

स्तस्मिन् हते केन हतो न धर्मः ।

15

धर्मं च हत्वार्थनिबर्हणेन

कथं नु न स्यान्नरकप्रतिष्ठः ॥ ६ ॥

दानप्रसङ्गेन च धर्ममूलं

घ्नता त्वयार्थं यदकारि पापम् ।

त्वामत्तुमभ्युद्रतमेतदस्मा-

20

ज्वालाप्रजिह्वं नरकान्तकास्यम् ॥ ७ ॥

तत्साधु दानाद्विनियच्छ बुद्धि-

मेवं हि सद्यः पतनं न ते स्यात् ।

विचेष्टमानैः करुणं रुदद्भि-

र्मा दातृभिर्गाः समताममीभिः ॥ ८ ॥

25

प्रतिग्रहीता तु जनोऽभ्युपैति

निवृत्तदानापनयः सुरत्वम् ।

तत्स्वर्गमार्गावरणाद्विरम्य

दानोद्यमात्संयममाश्रयस्व ॥ ९ ॥

१ Mss. पिण्डपात्रं for °पातं almost everywhere. २ Mss. अन्तरीक्षे.
३ P °प्रविष्टः for °प्रतिष्ठः.

अथ बोधिसत्त्वो नूनमस्यैतद्वुरात्मनो मम दानविघ्नाय विचेष्टितमित्यवगम्य सत्त्वाव-
ष्टम्भधीरं विनयमधुराविच्छेदं नियतमित्यवोचदेनम्—

अस्मद्धितावेक्षणदक्षिणेन

विदर्शितोऽयं भवतार्यमार्गः ।

5 युक्ता विशेषेण च दैवतेषु

परानुकम्पानिपुणा प्रवृत्तिः ॥ १० ॥

दोषोदयात्पूर्वमनन्तरं वा

K 21

युक्तं तु तच्छान्तिपथेन गन्तुम् ।

गते प्रयासं ह्यपचारदोषै-

10

र्व्याधौ चिकित्साप्रणयो विघ्नतः ॥ ११ ॥

इदं च दानव्यसनं मदीयं

शङ्के चिकित्साविषयव्यतीतम् ।

तथा ह्यनादृत्य हितैषितां ते

न मे मनः संकुचति प्रदानात् ॥ १२ ॥

15

दानादधर्मं च यदूचिवांस्त्व-

मर्थं च धर्मस्य विशेषहेतुम् ।

तन्मानुषी नेयमवैति बुद्धि-

दानादृते धर्मपथो यथार्थः ॥ १३ ॥

20

निधीयमानः स तु धर्महेतु-

श्चैरैः प्रसह्याथ विलुप्यमानः ।

ओषोदरान्तर्विनिमग्नमूर्ति-

हुताशनस्याशनतां गतो वा ॥ १४ ॥

यच्चात्थ दाता नरकं प्रयाति

प्रतिग्रहीता तु सुरेन्द्रलोकम् ।

25

विवर्धितस्तेन च मे त्वयायं

दानोद्यमः संयमयिष्यतापि ॥ १५ ॥

अनन्यथा चास्तु वचस्तावेदं

स्वर्गं च मे याचनका व्रजन्तु ।

30

दानं हि मे लोकहितार्थमिष्टं

नेदं स्वसौख्योदयसाधनाय ॥ १६ ॥

अथ स मारः पापीयान् पुनरपि बोधिसत्त्वं हितैषीव धीरहस्तेनोवाच—

हितोक्तिमेतीं मम चापलं वा
समीक्ष्य येनेच्छसि तेन गच्छ ।

सुखान्वितो वा बहुमानपूर्व
स्मर्तासि मां विप्रतिसारवान् वा ॥ १७ ॥

5

बोधिसत्त्व उवाच—मार्ष मर्षयतु भवान् ।

कामं पतामि नरकं स्फुरदुप्रवहं
ज्वालावलीढशिथिलावनतेन मूर्ध्ना ।

न त्वर्थिनां प्रणयदर्शितसौहृदानां
संमानकालमवमाननया हरिष्ये ॥ १८ ॥

10

इत्युक्त्वा बोधिसत्त्वः स्वभाग्यबलावष्टम्भाज्जानानश्च निरत्ययतां दानस्य निवारणैकरसमवधूय
स्वजनपरिजनं साध्वसानभिभूतमतिरभिवृद्धदानाभिलाषो नरकमध्येन प्रायात् ।

पुण्यानुभावादथ तस्य तस्मिन्
अपङ्कजं पङ्कजमुद्बभूव ।

अवज्ञयेवावजहास मारं
यच्छुक्क्या केसरदन्तपङ्कथा ॥ १९ ॥

15

अथ बोधिसत्त्वः पद्मसंक्रमेण स्वपुण्यातिशयनिर्जातेनाभिगम्य प्रत्येकबुद्धं प्रसाद-
सहर्षापूर्णहृदयः पिण्डपातमस्मै प्रायच्छत् ।

K 22

मनःप्रसादप्रतिबोधनार्थं
तस्याथ भिक्षुर्वियदुत्पपात ।

20

वर्षच्छवलंश्चैव स तत्र रेजे
सैविद्युद्दुहयोतपयोदलक्ष्म्या ॥ २० ॥

अवमृदितमनोरथस्तु मारो
द्युतिपरिमोषमवाप्य वैमनस्यात् ।

तमभिमुखमुदीक्षितं न सेहे
सह नरकेण ततस्तिरोबभूव ॥ २१ ॥

25

तत्किमिदमुपनीतम् ? एवमल्लयमप्यविगणय्य दित्सन्ति सत्पुरुषाः । केन नाम स्वस्थेन
न दातव्यं स्यात् ? न सत्त्ववन्तः शक्यन्ते भयादप्यगतिं गमयितुमित्येवमप्युक्तेयम् ॥

॥ इति श्रेष्ठिजातकं चतुर्थम् ॥

५ अविषह्यश्रेष्ठिजातकम् ।

न विभक्त्यावेक्षया समृद्ध्याशया वा प्रदानवैधुर्यमुपयान्ति सत्पुरुषाः । तद्यथ
श्रूयते—

बोधिसत्त्वभूतः किलायं भगवांस्त्यागशीलकुलविनयश्रुतज्ञानाविस्मयादिगुणसमुत्ति-
धनदायमानो विभवसंपदा सर्वातिथित्वादानुपरतदानसत्त्वो लोकहितार्थप्रवृत्तो दायकश्च
श्रेष्ठी बभूव मात्सर्यादिदोषाविषह्योऽविषह्य इति प्रकाशनामा ।

इष्टार्थसंपत्तिविमर्शनाशा-

त्प्रीतिप्रबोधस्य विशेषहेतुः ।

यथार्थिनां दर्शनमास तस्य

तथार्थिनां दर्शनमास तस्य ॥ १ ॥

देहीति याचनानियतार्थमुक्तो

नास्तीति नासौ गदितुं शशाक ।

द्वनावकाशा हि बभूव चित्ते

तस्यार्थसक्तिः कृपया महत्या ॥ २ ॥

तस्यार्थिभिर्निर्हिंयमाणसारे

गृहे बभूवाभ्यधिकप्रहर्षः ।

विवेद स ह्युप्रघनाननर्था-

नकारणक्षिप्रविरागिणोऽर्थान् ॥ ३ ॥

भवन्ति लोकस्य हि भूयसार्था

लोभाश्रयाद्गुर्गतिमार्गसार्थाः ।

परात्मनोरभ्युदयावहत्वा-

दर्शास्तदीयास्तु बभूव्यर्थार्थाः ॥ ४ ॥

अथ तस्य महासत्त्वस्य यथाभिलषितैरक्लिष्टैः शिष्टोपचारविभूषणैर्विपुलैरर्थविसर्गैर्यो-
नकज्जमं समन्ततः संतर्पयतः प्रदानौदार्यश्रवणाद्विस्मयावर्जितमनाः शक्रो देवेन्द्रः प्रदान-
स्त्रिरनिश्चयमस्य जिज्ञासमानः प्रत्यहं धनधान्यरत्नपरिच्छदजातं तत्तदन्तर्धापयामास—अ-
नायायं विभवपरिश्रयाशङ्कयापि मात्सर्याय प्रतार्येतेति । प्रदानाधिमुक्तस्य तु पुनर्महासत्त्वस्य

यथा यथा तस्य विनेशुर्थाः

सूर्याभिसृष्टा इव तोयलेशाः ।

तथा तथैतान् विपुलैः प्रदानै-

र्गहात्प्रदीप्तादिव निर्जहार ॥ ५ ॥

१ Mss. °ज्ञानविस्मया° for °ज्ञानाविस्म°.

अथ शक्रो देवेन्द्रस्त्यागपरायणमेव तं महासत्त्वमेवेत्य प्रक्षीयमाणविभवसारमपि
विस्मिततरमतिस्तस्यैकरात्रेण सर्वं विभवसारमन्तर्धापयामासान्यत्र रज्जुकुण्डलाद्वात्राचैकस्मात् ।
अथ बोधिसत्त्वः प्रभातायां रजन्यां यथोचितं प्रतिविबुद्धः पश्यति स्म धनधान्यपरिच्छेद-
परिजनविभवशून्यं निष्कूजदीनं स्वभवनं राक्षसैरिवोद्वासितमनभिरामदर्शनीयम् । किमिति च
समुत्थितवितर्कः समनुविचरंस्तद्रज्जुकुण्डलकं दात्रं च केवलमत्र ददर्श । तस्य चिन्ता 5
प्रादुरभवत्—यदि तावत्केनचिद्याचितमनुचितवचसा स्वविक्रमोपार्जितोपजीविना मद्गृहे
प्रणय एवं दर्शितः, सूपयुक्ता एवमर्थाः । अथ त्विदानीं मद्भाग्यदोषादुच्छ्रयमसहमानेन
केनचिदनुपयुक्ता एव विद्वतास्तत्कष्टम् ।

चलं सौहृदमर्थानां विदितं पूर्वमेव मे ।

अर्थिनामेव पीडा तु दहत्यत्र मनो मम ॥ ६ ॥

10

प्रदानसत्कारसुखोचिताश्चिरं

विविक्तमर्थैरभिगम्य मद्गृहम् ।

कथं भविष्यन्ति नु ते ममार्थिनः

पिपासिताः शुष्कमिवागता हृदम् ॥ ७ ॥

अथ स बोधिसत्त्वः स्वधैर्यावष्टम्भादनास्त्रादितविषाददैन्यस्तस्यामप्यवस्थायामनभ्यस्त- 15
याञ्चाक्रमत्वात्परान् याचितुं परिचितानपि न प्रसेहे । एवं दुष्करं याचितुमिति च तस्य
भूयसी याचनकेष्वनुकम्पा बभूव । अथ स महात्मा याचनकजनस्वागतादिक्रियावेक्षया
स्वयमेव तद्रज्जुकुण्डलकं दात्रं च प्रतिगृह्य प्रत्यहं तृणविक्रयोपलब्धया विभवमात्रयार्थिजन-
प्रणयसंमानतां चकार । अथ शक्रो देवेन्द्रस्तस्येवामविषादितां परमेऽपि दारिद्रे प्रदानाभि-
मुखतां चावेक्ष्य सविस्मयबहुमानः संदृश्यमानदिव्याद्भुतवपुरन्तरिक्षे स्थित्वा दानाद्विच्छन्दयंस्तं 20
महासत्त्वमुवाच—गृहपते ।

K. 24

सुहृन्मनस्तापकरीमवस्था-

मिमामुपेतस्त्वमतिप्रदानैः ।

न दस्युभिर्नैव जलानलाभ्यां

न राजभिः संहियमाणवित्तः ॥ ८ ॥

25

तत्त्वां हितान्वेक्षितया ब्रवीमि

नियच्छ दाने व्यसनानुरागम् ।

इत्थंगतः सन्नपि चेन्न दद्या

यायाः पुनः पूर्वसमृद्धिशोभाम् ॥ ९ ॥

१ Mss. रज्ज्वा दात्रा° for रज्जुकुण्डलाद्वात्रा°.

शश्वत्कृशेनापि परिव्ययेन
 कालेन दृष्ट्वा क्षयमर्जनानाम् ।
 चयेन वल्मीकसमुच्छ्रयांश्च
 वृद्ध्यर्थिनः संयम एव पन्थाः ॥ १० ॥

५ अथ बोधिसत्त्वः प्रदानाभ्यासमाहात्म्यं विदर्शयञ्छक्रमुवाच—

अनार्यमार्येण सहस्रनेत्र
 सुदुष्करं सुष्ठुपि दुर्गतेन ।
 मा चैव तद्भ्रूमम शक्र वित्तं
 यत्प्राप्तिहेतोः कृपणाशयः स्याम् ॥ ११ ॥

१० इच्छन्ति याञ्जामरणेन गन्तुं
 दुःखस्य यस्य प्रतिकारमार्गम् ।
 तेनातुरान् कः कुलपुत्रमानी
 नास्तीति शुष्काशनिनाभ्यहन्यात् ॥ १२ ॥

१५ तन्मद्विधः किंस्विदुपाददीत
 रत्नं धनं वा दिवि वापि राज्यम् ।
 याञ्जाभितोपेन विवर्णितानि
 प्रसादयेन्नार्थिमुखानि येन ॥ १३ ॥

२० मात्सर्यदोषोपचयाय यः स्या-
 न्न त्यागचित्तं परिबृंहयेद्वा ।
 स त्यागमेवार्हति मद्विधेभ्यः
 परिग्रहच्छ्रममयो विधातः ॥ १४ ॥

२५ विद्युल्लताचूत्तचले धने च
 साधारणे नैकविधातहेतौ ।
 दाने निदाने च सुखोदयानां
 मात्सर्यमार्यः क इवाश्रयेत ॥ १५ ॥

K. 23

३० तद्दर्शिता शक्र मयि स्वतेयं
 हिताभिधानादनुकम्पितोऽस्मि ।
 स्वर्भ्यस्तहर्षं तु मनः प्रदानै-
 स्तदुत्पथे केन धृतिं लभेत ॥ १६ ॥

१ Mss. स्वस्वस्तु हर्षं तु for स्वर्भ्यस्तहर्षं तु.

न चात्र मन्योरनुवृत्तिमार्गे
चित्तं भवानर्हति संनियोक्तुम् ।
न हि स्वभावस्य विपक्षदुर्ग-
मारोहमल्पेन बलेन शक्यम् ॥ १७ ॥

शक्र उवाच—गृहपते । पर्याप्तविभवस्य परिपूर्णकोशकोष्ठागारस्य सम्यक्प्रवृत्तविविध- ५
विपुलकर्मान्तस्य विरूढायतेर्लोकै वशीकृतैश्वर्यस्यायं क्रमो नेमां दशामभिप्रपन्नस्य । पश्य ।

स्वबुद्धिविस्पन्दसमाहितेन वा
यशोनुकूलेन कुलोचितेन वा ।
समृद्धिमाकृष्य शुभेन कर्मणा
संपन्नतेजांस्यभिभूय भानुवत् ॥ १८ ॥ 10

जने प्रसङ्गेन वित्तस्य सद्गतिं
प्रबोध्य हर्षं ससुहृत्सु बन्धुषु ।
अवाप्तसंमानविधिर्नृपादपि
श्रिया परिष्वक्त इवाभिकामया ॥ १९ ॥

अथ प्रदाने प्रविजृम्भितक्रमः 15
सुखेषु वा नैति जनस्य वाच्यताम् ।
अजातपक्षः खमिवारुरुक्षया
विघातभाक्केवलया तु दित्सया ॥ २० ॥

यतो धनं संयमनैभृताश्रया-
दुपार्ज्यतां तावदलं प्रदित्सया । 20
अनार्यताप्यत्र च नाम का भवे-
न्न यत्प्रदद्या विभवेश्वभाविषु ॥ २१ ॥

बोधिसत्त्व उवाच—अलमतिनिर्वन्धेनात्रभवतः ।

आत्मार्थः स्याद्यस्य गरीयान् परकार्या-
त्तेनापि स्यादेयमनादृत्य समृद्धिम् । 25
नैति प्रीतिं तां हि महत्स्यापि विभूत्या
दानैस्तुष्टिं लोभजयाधामुपमुञ्जे ॥ २२ ॥

१ Mss. प्रवृत्ति° for अनुवृत्ति°. २ Mss. सपन्न° or संपन्न° for सपन्न°. ३ Mss.
°काम्यया for °कामया.

नैति स्वर्गं केवलया यच्च समृद्ध्या
दानेनैव ख्यातिमवाप्नोति च पुण्याम् ।
मात्सर्यादीनाभिभवत्येव च दोषा-
स्तस्या हेतोर्दानमतः को न भजेत ॥ २३ ॥

K 26

5

त्रातुं लोकान् यस्तु जरामृत्युपरीता-
नप्यात्मानं दित्सति कारुण्यवशेन ।
यो नास्वादं वेत्ति सुखानां परदुःखैः
कस्तस्यार्थस्त्वद्गतया स्यादपि लक्ष्म्या ॥ २४ ॥

अपि च देवेन्द्र ।

10

संपत्तिरिव वित्तानामध्रुवा स्थितिरायुषः ।
इति याचनकं लब्ध्वा न समृद्धिरवेक्ष्यते ॥ २५ ॥
एको रथश्च भुवि र्यद्विदधाति वर्त्म
तेनापरो ब्रजति धृष्टतरं तथान्यः ।
कल्याणमाद्यमिममित्यवधूय मार्गं
नासत्पथप्रणयने रमते मनो मे ॥ २६ ॥

15

अर्थश्च विस्तरमुपैष्यति चेत्पुनर्मे
हर्ता मनांसि नियमेन स याचकानाम् ।
एवंगतेऽपि च यथाविभवं प्रदास्ये
मा चैव दाननियमे प्रमदिष्म शक्र ॥ २७ ॥

20 इत्युक्ते शत्रो देवेन्द्रः समभिप्रसादितमनाः साधु साध्वित्येनमभिसंराध्य सबहुमानस्त्रि-
मवेक्षमाण उवाच-

यज्ञाःसपत्नैरपि कर्मभिर्जनः

समृद्धिमन्विच्छति नीचदारुणैः ।

स्वसौख्यसङ्गादनवेक्षिताख्यः

25

प्रतार्थमाणश्चपलेन चेतसा ॥ २८ ॥

अचिन्तयित्वा तु धनक्षयं त्वया

स्वसौख्यहानिं मम च प्रतारणाम् ।

परार्थसंपादनधीरचेतसा

महत्त्वमुद्भावितमात्मसंपदः ॥ २९ ॥

अहो बतौदार्यविशेषभास्वतः

प्रमृष्टमात्सर्यतमिस्रता हृदः ।

प्रदानसंकोचविरूपतां गतं

धने प्रनष्टेऽपि न यत्तदाशया ॥ ३० ॥

न चात्र चित्रं परदुःखदुःखिनः

5

कृपावशाच्छोकहितैषिणस्तव ।

हिमावदातः शिखरीष वायुना

न यत्प्रदानादसि कम्पितो मया ॥ ३१ ॥

यशः समुद्भावयितुं परीक्षया

K 27

धनं तवेदं तु निगूढवानहम् ।

10

मणिर्हि शोभानुगतोऽप्यतोऽन्यथा

न संस्पृशेद्रत्नयशोमहार्घताम् ॥ ३२ ॥

यतः प्रदानैरभिवर्ष याचकान्

हृदान् महामेघ इवाभिपूरयन् ।

धनक्षयं नाप्स्यसि मत्परिग्रहा-

15

दिदं क्षमेथाश्च विचेष्टितं मम ॥ ३३ ॥

इत्येनमभिसंराध्य शक्रस्तच्चास्य विभवसारमुपसंहृत्य क्षमयित्वा च तत्रैवान्तर्दधे ॥

तदेवं न विभवक्षयावेक्षया समृद्ध्याशया वा प्रदानवैधुर्यमुपयान्ति सत्पुरुषा इति ॥

॥ इत्यविषह्यश्रेष्ठिजातकं पञ्चमम् ॥



६ शशजातकम् ।

तिर्यगतानामपि सतां महात्मनां शक्त्यनुरूपा दानप्रवृत्तिर्दृष्टा । केन नाम मनुष्य-
भूतेन न दातव्यं स्यात् ? तद्यथानुश्रूयते-

कस्मिंश्चिदरण्यायतनप्रदेशे मनोज्ञवीरुचृणतरुगहननिचिते पुष्पफलवति वैदूर्यनील-
शुचिवाहिन्या सरिता विभूषितपर्यन्ते मृदुशाब्दलास्तरणसुखसंस्पर्शदर्शनीयधरणीतले तपस्वि-
जनविचरिते बोधिसत्त्वः शशो बभूव ।

स सत्त्वयोगाद्गुणश्च संपदा
बलप्रकर्षाद्विपुलेन चौजसा ।

अतर्कितः क्षुद्रमृगैरशङ्कित-

10 श्वचार तस्मिन् मृगराजलीलया ॥ १ ॥

स्वर्चर्माजिनसंवीतः स्वतनूरुहवल्कलः ।

मुनिवत्तत्र शुशुभे तुष्टचित्तस्तृणाङ्कुरैः ॥ २ ॥

तस्य मैत्र्यवदातेन मनोवाकायकर्मणा ।

आसुर्जृम्भितदौरात्म्याः प्रायः शिष्यमुखा मृगाः ॥ ३ ॥

15 तस्य गुणातिशयसंभूतेन स्नेहगौरवेण विशेषवत्तरमवबद्धदयास्तु ये सहाया बभूवु-
रुद्रः शृगालो वानरश्च, ते परस्परसंबन्धनिबद्धस्नेहा इव बान्धवा अन्योन्यप्रणयैसंमानना-
विरूढसौहार्दा इव च सुहृदः संमोदमानास्तत्र विहरन्ति स्म । तिर्यक्स्वभावविमुखाश्च
प्राणिषु दयानुवृत्त्या लौल्यप्रशमाद्विस्मृतस्तेयप्रवृत्त्या धर्माविरोधिन्या च यशानुवृत्त्या पटु-
विज्ञानत्वाद्दिनियमधीरया च सज्जनेष्टया चेष्टया देवतानामपि विस्मयनीया बभूवुः ।

K 28

20 सुखानुलोमे गुणैर्बाधिनि क्रमे

गुणानुकूले च सुखोपरोधिनि ।

नरोऽपि तावद्गुणपक्षसंश्रया-

द्विराजते किम्वैध तिर्यगाकृतिः ॥ ४ ॥

अभूत्स तेषां तु शशाकृतिः कृती

25 परानुकम्पाप्रतिपद्गुरुर्गुरुः ।

स्वभावसंपन्न गुणक्रमानुगा

यशो यदेषां सुरलोकमप्यगात् ॥ ५ ॥

१ Mss. मैत्र्यवदानेन for °दातेन. २ Mss. यः for ये. ३ Mss. °प्रणयमानना° for °प्रणयसंमानना°. ४ A P गुणबोधिनि for °बाधिनि. ५ A किम्वितः; B P किम्वतः.

अथ कदाचित्स महात्मा सायाहसमये धर्मश्रवणार्थमभिगतैः सबहुमानमुपास्यमानस्तैः
सहायैः परिपूर्णप्रायमण्डलमादित्यविप्रकर्षार्ह्यवदायमानशोभं रूप्यदर्पणमिव त्सरुविरहित-
मीषत्पार्श्वपवृत्तबिम्बं शुक्लपक्षचतुर्दशीचन्द्रमसमुदितमभिसमीक्ष्य सहायानुवाच—

असावापूर्णशोभेन मण्डलेन हसन्निव ।

निवेदयति साधूनां चन्द्रमाः पोषधोत्सवम् ॥ ६ ॥

5

तद्व्यक्तं श्रः पञ्चदशी । यतो भवद्भिः पोषधनियममभिसंपादयद्भिर्न्यायोपलब्धेनाहार-
विशेषेण कालोपनतमतिथिजनं प्रतिपूज्य प्राणसंधारणमनुष्ठेयम् । पश्यन्तु भवन्तः ।

यत्संप्रयोगा विरहावसानाः

समुच्छ्रयाः पातविरूपनिष्ठाः ।

विद्युल्लताभङ्गुरलोलमायु-

स्तेनैव कार्यो दृढमप्रमादः ॥ ७ ॥

10

दानेन शीलाभरणेन तस्मा-

त्पुण्यानि संवर्धयितुं यतध्वम् ।

विवर्तमानस्य हि जन्मदुर्गे

लोकस्य पुण्यानि परा प्रतिष्ठा ॥ ८ ॥

15

तारागणानामभिभूय लक्ष्मीं

विभाति यत्कान्तिगुणेन सोमः ।

ज्योतीषि चाक्रम्य सहस्ररश्मि-

र्यदीध्यते पुण्यगुणोच्छ्रयः सः ॥ ९ ॥

दृप्तस्वभावाः सचिवा नृपाश्च

पुण्यप्रभावात्पृथिवीश्वराणाम् ।

सदश्वद्वृत्या हतसर्वगर्वाः

प्रीता इवाज्ञाधुरमुद्गहन्ति ॥ १० ॥

20

पुण्यैर्विहीनाननुयात्यलक्ष्मी-

र्विस्पन्दमानानपि नीतिमार्गे ।

पुण्याधिकैः सा ह्यवमर्त्यमाना

पर्येत्यमर्षादिव तद्विपक्षान् ॥ ११ ॥

25

दुःखप्रतिष्ठादयशोनुबद्धा-

दपुण्यमार्गादुपरम्य तस्मात् ।

श्रीमत्सु सौख्योदयसाधनेषु

पुण्यप्रसङ्गेषु मतिं कुरुध्वम् ॥ १२ ॥

30

ते तथेत्थस्यानुशासनीं प्रतिगृह्याभिवाद्य प्रदक्षिणीकृत्य चैनं खान् खानालया-
नभिजग्मुः । अचिरगतेषु च तेषु सहायेषु स महात्मा चिन्तामापेदे—

अतिथेरभ्युपेतस्य संमानं येन तेन वा ।

विधातुं शक्तिरस्त्रेषामत्र शोच्योऽहमेव तु ॥ १३ ॥

6

अस्मदन्ताप्रविच्छिन्नाः परितिकास्तृणाङ्कुराः ।

शक्त्या नातिथये दातुं सर्वथा धिगशक्तिताम् ॥ १४ ॥

इत्यसामर्थ्यदीनेन को न्वर्थो जीवितेन मे ।

आनन्दः शोक्तां यायाद्यस्यैवमतिथिर्मम ॥ १५ ॥

तत्कुत्रेदानीमिदमतिथिपरिचर्यावैगुण्ये निःसारं शरीरकमुत्सृज्यमानं कस्यचिदुपयोगाय
10 स्यादिति विमृशन् स महात्मा स्मृतिं प्रतिलेभे—अये ।

स्वाधीनसुलभमेतन्निरवद्यं विद्यते ममैव खलु ।

अतिथिजनप्रतिपूजनसमर्थरूपं शरीरधनम् ॥ १६ ॥

तत्किमहं विषीदामि ?

समधिगतमिदं मयातिथेयं

16

हृदय विमुञ्च यतो विषाददैर्न्यम् ।

समुपनतमनेन सत्करिष्या-

म्यहमतिथिप्रणयं शरीरकेण ॥ १७ ॥

इति विनिश्चित्य स महासत्त्वः परममिव लाभमधिगम्य परमप्रीतमनास्तत्रावतस्थे ।

वितर्कातिशये^१ तस्य हृदये प्रविर्जृम्भिते ।

20

आविश्वक्त्रे प्रसादश्च प्रभावश्च दिवौकसाम् ॥ १८ ॥

30

ततः प्रहर्षादिव साचला चला

मही बभूवानिभृतार्णवांशुका ।

वितस्तनुः खे सुरदुन्दुभिखना

दिशः प्रसादाभरणाश्चकाशिरे ॥ १९ ॥

25

प्रसक्तमन्दस्तनिताः प्रहासिन-

स्तडित्पिनद्धाश्च घनाः समन्ततः ।

परस्पराश्लेषविकीर्णरेणुभिः

प्रसक्तमेनं कुसुमैरवाकिरन् ॥ २० ॥

१ K अनुशासना against Mss. २ Mss. विमृशन्, ३ Mss. °प्रीति° for °प्रीत°.
४ A °तिशयस्तस्य; P °तिशयः तस्य for °तिशये तस्य. ५ Mss. हृदयः for हृदये. ६ Mss.
°जृम्भितः for °जृम्भिते. ७ Mss. वितस्तनुः.

ङ्गुवमेवाय शा १२२१
 ङ्गुवमेवाय शा १२२७
 ङ्गुवमेवाय शा ११०८
 ङ्गुवमेवाय शा प्रउ. १५१७
 ङ्गुवमेवाय शा वृउ. ०२२२
 ङ्गुवमेवाय शा तब्राउ. १३७१
 ङ्गुवमेवाय शा वृउ. १२३६
 ङ्गुवमेवाय शा १२२२
 ङ्गुवमेवाय शा छउ. ९६०
 ङ्गुवमेवाय शा १२२१
 ङ्गुवमेवाय शा कौउ. ६८१
 ङ्गुवमेवाय शा जाउ. १६७०
 ङ्गुवमेवाय शा वृउ. ११४८,
 ११७४, ११७५, ११९०,
 ११९१, १२०३, १२०४;
 ङ्गुवमेवाय शा जाउ. १६६९
 ङ्गुवमेवाय शा वृउ. १२०१
 ङ्गुवमेवाय शा शाब्रा. ४६०
 ङ्गुवमेवाय शा कौउ. ६७१
 ङ्गुवमेवाय शा तब्राउ. १३३५,
 १३६९, १३७२
 ङ्गुवमेवाय शा शाब्रा. ४६६;
 ङ्गुवमेवाय शा वृउ. १०७६
 ङ्गुवमेवाय शा कौउ. ६८१
 ङ्गुवमेवाय शा प्रउ. १५०१
 ङ्गुवमेवाय शा जाउ. १६७१
 ङ्गुवमेवाय शा छउ. ९७५,
 ९७६; परि. १५६५
 ङ्गुवमेवाय शा छउ. ९७९;
 परि. १५६५
 ङ्गुवमेवाय शा छउ. ७६९
 ङ्गुवमेवाय शा ८४८
 ङ्गुवमेवाय शा वृउ. १२८२
 ङ्गुवमेवाय शा माउ. १५२८
 ङ्गुवमेवाय शा शाब्रा. ११८
 ङ्गुवमेवाय शा वृउ. १२८२
 ङ्गुवमेवाय शा कौउ. ६३५
 ङ्गुवमेवाय शा असं. ३२५

एवा नूनमुप ५८
 एवा नो दूर्वे प्र नाउ. १६३२
 एवा बध्नो वृष ऋसं. १२७
 एवा मे अस्तु धा नाउ. १६४८
 एवा राजेव क्र ऋसं. ७२
 एवा वग्दस्व व ८४
 एवा हि देवा इ तैआ. १६०,
 ३०६
 एवा हि पूषञि १६०,
 ३०६
 एवा हि वायो इ १५९,
 ३०६
 एवा हीन्द्रेति १६०,
 ३०६
 एवा ह्यम इति १५९,
 ३०६
 एवा ह्येवेति १५९,
 ३०६
 एष आकाशात्मा मैउ. १६६१
 एष आत्माऽपह छउ. ९५५;
 मैउ. १६६७
 एष आत्मेति हो छउ. ९७३;
 मैउ. १६५४
 एष आदेशः तैउ. ७०४
 एष इन्द्रः ऐउ. ५९४
 एष इमं लोक ५४४;
 परि. १५३३
 एष उ एव प्रा शाब्रा. ११६
 एष उ एव वि ऐउ. ५४७
 एष उ एव वृ वृउ. १०१०
 एष उ एव ब्र १०११
 एष उ एव भा छउ. ८४०
 एष उ एव वा ८३९
 *एष उ एव सा कौउ. ६७२
 १०११
 एष उ एव स्तो तब्राउ. १३५६
 एष उ एवासा कौउ. ६७२
 एष उ एवास्या ६४६
 एष उ एवैन ६७२
 एष उ एवैष तब्राउ. १३३५
 एष उ एवैषु छउ. ९७१

एवमेवायमा
 एवमेवास्मिन्ना
 एवमेवास्थ प
 *एवमेवेतमा
 एवमेवेति हो
 एवमेवेदं शा
 एवमेवेममा
 एवमेवेमाः स
 एवमेवेहाऽऽचा
 एवमेवैत आ
 एवमेवैतद्भू
 एवमेवैतथा
 ११७४, ११७५, ११९०,
 ११९१, १२०३, १२०४;
 * " " वृउ. १२०१
 एवमेवैताः स शाब्रा. ४६०
 एवमेवैता भू कौउ. ६७१
 एवमेवैवं वि तब्राउ. १३३५,
 १३६९, १३७२
 एवमेवैष ए शाब्रा. ४६६;
 वृउ. १०७६
 एवमेवैष प्र कौउ. ६८१
 एवमेवैष प्रा १५०१
 एवमेवैष भ जाउ. १६७१
 एवमेवैष म छउ. ९७५,
 ९७६; परि. १५६५
 एवमेवैष सं छउ. ९७९;
 परि. १५६५
 एवमेवोद्गाता छउ. ७६९
 एवमेषां लोका ८४८
 *एवमेषा गाय वृउ. १२८२
 एवमोकार आ माउ. १५२८
 एवम्वेकेष्टकः शाब्रा. ११८
 एवम्वेषा गाय वृउ. १२८२
 *एव सुकृतदु कौउ. ६३५
 एवा तस्मै बलिं असं. ३२५

एवा नूनमुप ५८
 एवा नो दूर्वे प्र नाउ. १६३२
 एवा बध्नो वृष ऋसं. १२७
 एवा मे अस्तु धा नाउ. १६४८
 एवा राजेव क्र ऋसं. ७२
 एवा वग्दस्व व ८४
 एवा हि देवा इ तैआ. १६०,
 ३०६
 एवा हि पूषञि १६०,
 ३०६
 एवा हि वायो इ १५९,
 ३०६
 एवा हीन्द्रेति १६०,
 ३०६
 एवा ह्यम इति १५९,
 ३०६
 एवा ह्येवेति १५९,
 ३०६
 एष आकाशात्मा मैउ. १६६१
 एष आत्माऽपह छउ. ९५५;
 मैउ. १६६७
 एष आत्मेति हो छउ. ९७३;
 मैउ. १६५४
 एष आदेशः तैउ. ७०४
 एष इन्द्रः ऐउ. ५९४
 एष इमं लोक ५४४;
 परि. १५३३
 एष उ एव प्रा शाब्रा. ११६
 एष उ एव वि ऐउ. ५४७
 एष उ एव वृ वृउ. १०१०
 एष उ एव ब्र १०११
 एष उ एव भा छउ. ८४०
 एष उ एव वा ८३९
 *एष उ एव सा कौउ. ६७२
 १०११
 एष उ एव स्तो तब्राउ. १३५६
 एष उ एवासा कौउ. ६७२
 एष उ एवास्या ६४६
 एष उ एवैन ६७२
 एष उ एवैष तब्राउ. १३३५
 एष उ एवैषु छउ. ९७१

हवरा य	छाउ.	७५८	बृउ.	१२७०
ह वाव	तत्राउ.	१३३२,	मैउ.	१६५८
		१३५४, १३६१	ऋमं.	७३
ह वै सं	काउ.	६८८	ऐउ*	५९४
हैव स	"	६८९	वृउ.	१२१५,
होव स	वृउ.	१०२१	१२१६, १२५५	
व तद्	तत्राउ.	१३४७	एष भूतपालः	" १२४७;
व सर्वे	"	१३५४	मैउ.	१६६७
व साधु	कौउ.	६७२	एष भूतस्य म	नाउ.
वादिष्य	तत्राउ.	१३३९	एष भूताधिप	वृउ.
वापि यु	"	१३५६	मैउ.	१६६७
वासधु	कौउ.	६७२	एष म आत्मा	शब्रा.
वदं स	तत्राउ.	१३४३,	एष म आत्माऽन्त	छाउ.
		१३८७	एष यज्ञानां वि	असं.
वेदम	"	१३५०	एष योनिः सर्व	माउ.
ज्ञे बहु	असं.	१९९	एष (हि) रौहिणम	तत्राउ.
आत्मान्त	वृउ.	११५४	एष लोकपालः	कौउ.
आत्मा स	"	११२२,	* " "	वृउ.
		११३३, ११३६	एष लोकाधिप	कौउ.
स्थः सवि	मैउ.	१६६१	एष लोकेशः	" "
पञ्चेवा	ऐउ.	५४९	*एष लोकेश्वरः	वृउ.
वा अति	छाउ.	९३९	एष वा अक्षरम्	ऐउ.
काम का	नाउ.	१६४६	एष वा अग्निवै	जैब्रा.
ऽग्निर्नचि	काउ.	१३९४	एष वा अग्नयो	जाउ.
मन्यो म	नाउ.	१६४७	एष वा अतिथि	असं.
लोकः	शब्रा.	५१७	एष वा अतिष्ठा वै	शब्रा.
योदशो	जैब्रा.	४०५	एष वा अतृणो	तैसं.
वपथो	छाउ.	८४०	एष वा अपरि	असं.
वयानः	"	८६१	एष वा अर्धर्चः	ऐउ.
वो विश्व	श्वेउ.	१६०९	*एष वा अश्वमे	वृउ.
मो याच	कौउ.	६४१	एष वा ऋक्	ऐउ.
मो याचि	"	"	एष वा ओदन	असं
तल्यो महि	तैब्रा.	४६३;	४३९, ४४०, ४४१, ४४२	
	वृउ.	१२५४	एष वाटये पुर	मैउ.
ररोधः	प्रउ.	१४९४	*एष वायुः पद्म	ऐउ
न्याः	ऐउ.	५२५	एष वाव जिज्ञा	मैउ
न्या ब्रह्म	वृउ.	१२३९;	एष वाव स प	तैब्रा.
	जाउ.	१६७१	एष वै कृत्स्न आ	ऐउ.
रमेश्व	मैउ.	१६६७	एष वै गोपाः	"
रो दिवो	तत्राउ.	१३४३,	एष वै प्रदम्	"
		१३८७		

छाउ.	८७६
छाउ.	८७५
शब्रा.	४०
छाउ.	७९०,
	७९१
ऐउ.	५६३
शब्रा.	२९४
छाउ.	८७५
प्रउ.	१४९३
शब्रा.	४०
"	२९५
"	४०८
छाउ.	८७४
शब्रा.	४०;
छाउ.	८७४
"	८३२,
"	८३३
माउ.	१५२४
कौउ.	६७२
"	" ;
वृउ.	१२४७; माउ.
परि.	१५६९
शिखाउ.	१६८२
वृउ.	१२४७;
मैउ.	१६६७
छाउ.	८६३
मैउ.	१६५६
श्वेउ.	१५९१
छाउ.	८४६
तत्राउ.	१३३५
वृउ.	९९९
छाउ.	८४९
तत्राउ.	१३३३
"	१३५०
"	१३५८
छाउ.	७९१;
	८४६
प्रउ.	१४९३
ऐउ.	६११
मैउ.	१३६५

वः प्र	नाउ.	२५६	एषा ह वै साम्नः	तब्राउ.	१३५६
"	"	१६३१	एषा ह्यन्तमाय	बृउ.	१०५०
ष्टा स्प्र	प्रउ.	१५०८	एषा ह्येव जात	तब्राउ.	१३४२
नेवे	शब्रा.	१५२	एषु सर्वेषु भू	काउ.	१४१६
ा अन्ना	बृउ.	१०१०	एषु हीमे सर्वे	बृउ.	११६९
र्वाणि	छाउ.	८३९	एषैव कृत्स्नक्ष	मैउ.	१६६१
र्वेषु	"	८४०	एषैव यज्ञस्य	गोब्रा.	५२२
सर्व	शब्रा.	११७;	एषैवास्य प्रजा	मैउ.	१६५८
उ. ५३७;	तब्राउ.	१३५०	एषो एव त्रयी	तैब्रा.	२९
सर्व	शब्रा.	११७;	एषो एव समृ	छाउ.	७४९
	तब्राउ.	१३४२	एषोऽग्निस्तपत्ये	प्रउ.	१४९८
	तब्राउ.	१३३८	एषोऽग्नुरात्मा चे	मुउ.	१४८०
ः सर्वाः	शब्रा.	११६	एषोऽन्न द्वारवि	मैउ.	१६६३
नि स	ऐउ.	५४७	एषोऽन्न ब्रह्मप	"	"
तर्भुव	"	५३७	एषोऽधिदेवतम्	तब्राउ.	१३५६
ममप	तब्राउ.	१३५०	एषोऽन्तर्यामी	माउ.	१५२४
मा न न	छाउ.	९६५	एषोऽन्तोऽतः परः	तब्राउ.	१३६३
दधुत	प्रउ.	१५०१	एषोऽर्वाप्रजा इ	तैब्रा.	२६
चाक्षु	"	१५०२	*एषोऽस्मि देवः प्र	नाउ.	१६३१
यः सर्वे	ऐउ.	५४७	एषोऽस्य परम	बृउ.	१२१५
काम	छाउ.	७६४	*एषोऽस्य परमा	"	"
कामा	"	"	एषोऽस्य परमो	"	"
साधु	कौउ.	६७२	एषो ह देवः प्र	शुसं.	२५६;
ऽऽनन्द	तैउ.	७२५		शिरउ.	१६७९
ऽऽसां प्र	तब्राउ.	१३३८	एह श्रीश्च हीश्च	तैआ.	५२०
नं सा	कौउ.	६७२	एहि व्येव त्वा ज्ञ	कौउ.	६२९,
षु भु	तब्राउ.	१३६६			६७९
ानामा	मैसं.	१४५	एहि संभवाव	तब्राउ.	१३४६
षाणा	तैसं.	"	एहीमं विद्धि	तैब्रा.	२८
ानां पृ	छाउ.	७४७	एह्ययं वै त इ	शब्रा.	४०८
भूतानां	बृउ.	१३०४	एह्यास्स्व	बृउ.	१०९१
ब्रह्मप	मैउ.	१६६३	एह्युभौ गमिष्या	कौउ.	६२८
तेष्ठा	शब्रा.	३८	एह्यहीति तमा	मुउ.	१४५०
आशीः	"	५१६			
पनि	तैउ.	७०४	एक्ष्वाकान्यान्कामा	मैउ.	१६५३
दैवी प	तब्राउ.	१३५३	ऐतदात्म्यमिदं	छाउ.	९२४
दौरैषा	"	१३४२	ऐनं निकामो ग	असं.	४५४
प्रजाप	मैउ.	१६५९	ऐनं प्रियं गच्छ	"	"
ब्रह्मैक	"	१६६५	ऐनं ब्रह्म गच्छ	"	४५३
मातैषा	तब्राउ.	१३४२	ऐनं वशो गच्छ	"	४५४

ऐन्द्राभ्रं पावमा	असं.	४४५
ऐन्द्रोऽसौ लोकः	तब्राउ.	१३४०
ओ		
ओ इत्यु द्वैके गा	तब्राउ.	१३३६
ॐॐॐ इति त्रि	शिखाउ.	१६८२
ओंकार एवेदं	छाउ.	७८९
ओंकारं चतुर्भु	ऋसंखि.	३३६
ओंकारं परमा	"	"
ओंकारं पृच्छामः	गोब्रा.	५२३
ओंकारं प्रणवो	शिउ.	१५७४
ओंकारस्य चोत्प	गोब्रा.	५२३
ओंकाराःसावित्री	शिरउ.	१६८१
ओंकारेण चैत	गोब्रा.	५२४
ओंकारो वेदप	शिखाउ.	१६८३
ओं क्रतो स्मर कृ	बृउ.	१२८४;
	ईउ.	१३२७
*ओं३ क्रतो स्मर क्लि	बृउ.	१२६९
*ओं क्रतो स्मर क्ली	ईउ.	१३२७
ओं खं ब्रह्म	शुसं.	५२१;
	बृउ.	१२६६
ओं जनः	नाउ.	१६४४
ओं तत्पुरोर्नमः	"	१६४८
ओं तत्सत्यम्	"	"
ओं तत्सर्वम्	"	"
ओं तत्सवितुर्व	"	१६४४
ओं तत्सवितुर्वृ	शाआ.	३३१
ओं तदात्मा	नाउ.	१६४८
ओं तद्ब्रह्म	"	"
ओं तद्वायुः	"	"
ओं तपः	"	१६४४
ओं३ देवो वरुणः	छाउ.	७७२
ओं३ पिबा३म	"	"
ओं ब्रह्मणे नमः	मैउ.	१६६६
ओं ब्रह्मणो महि	"	१६५६
ओं ब्रह्म ह वा इ	गोब्रा.	३०३
ओं भुवः	नाउ.	१६४४
ओं भूः	"	"
ओं भूमिसुपस्पृ	ऐउ.	५२५
ओं महः	नाउ.	१६४४
ओं यो वै रुद्रः स	शिरउ.	१६७८

भो वा इति द्वे अ	”	”	”
भो वा इति षष्ठे	”	”	”
भो शान्तिः शान्तिः तैआ	५२१;		
ऐउ. ५२५; तैउ. ६९३,			
	७०६		
भो शुचौ देशे शु	मैउ. १६६३		
भो शोमिति शस्त्रा	तैउ. ७०२		
भो मत्यम्	नाउ. १६४४;		
शिखाउ. १६८३			
भो सुवः	नाउ. १६४४		
भोजम्बी महस्वा	छाउ. ८०५		
भोजायमानं यो	ऋसं. ४७		
भोजो ब्राह्मणाच्छं	ताब्रा. ४६१		
भोजो मे बलं मे	तब्राउ. १३६३		
भोजोऽसि सहोऽसि	नाउ. १६४४		
भोतं निहितमु	असं. ४४६		
भोदन एवौद	” ४३८		
भोदनेन यज्ञ	” ४३७		
भोम्	नाउ. १६४४,		
	१६४५		
भोऽमदाश्म	छाउ. ७७२		
भो मंद्वावेद	ऐउ. ५४१		
भोमानमापो मा	ऋसं. १५६		
भोमापोज्योती र	नाउ. १६४४;		
	मैउ. १६६५		
भोमिति तिष्ठो मा	मैउ. १६५८		
भोमिति प्राणो वा	तब्राउ. १३३०,		
	१३३२		
भोमिति ब्रह्म	तैउ. ७०२		
भोमिति ब्रह्मा प्र	”		
भोमिति ब्राह्मणः	”		
भोमिति मनो वा	तब्राउ. १३३२		
भोमिति वायुर्वा	” १३३०		
भोमिति वै साम	” १३३२		
भोमिति वै स्वर्गो	ऐब्रा. २८३,		
	५२१		
भोमिनि वै होता	तब्राउ. १३६१		
भोमिनि शस्सति	छाउ. ७४९		
भोमिनि सत्यम्	ऐउ. ५६८		
भोमिनि सामानि	तैउ. ७०२		
भोमिति होवाच	शब्रा. ३९,		
	४०,४१; वृउ. ११६६, ११६७,		

ओमिति ह्युद्गाय	छाउ. ७४६,	१३६४	
	७५७		
ओमिति होष स्व	” ७५८,		
	७५९		
ओमितीदं सर्वम्	तैउ. ७०२		
ओमिनीन्द्रो वाग्नि	तब्राउ. १३३२		
ओमित्यग्निहोत्र	तैउ. ७०२		
ओमित्यध्वर्युः प्र	”		
ओमित्यसौ योऽसौ	ऐब्रा. २८३,		
	५२१		
ओमित्यात्मानं यु	नाउ. १६५१		
ओमित्यादित्यो वा	तब्राउ. १३३०,		
	१३५९		
ओमित्याश्रावय	छाउ. ७४९		
ओमित्युद्गायति	”		
ओमित्येकाक्षरं	नाउ. १६४४		
ओमित्येतच्छरः	मैउ. १६६२		
ओमित्येतदक्ष	छाउ. ७४६,		
	७४८, ७५७; माउ. १५२०;		
	परि. १५४४; मैउ. १६५८;		
	शिखाउ. १६८२		
ओमित्येतदनु	तैउ. ७०२		
ओमित्येतदेवा	तब्राउ. १३३२,		
	१३३३, १३६६		
ओमित्येतावता	शब्रा. ५२१		
ओमित्येतेनाक्ष	तब्राउ. १३३३		
ओमित्येतेनैवा	” १३३२		
ओमित्येवं ध्याय	मुउ. १४६२		
ओमित्येव गायेत्	तब्राउ. १३३६		
ओमित्येव प्राण	” १३३०		
ओमित्येव वायु	”		
ओमित्येवाऽऽदित्य	”		
ओमित्येवानुम	” १३६१		
ओमेव नामैषा	” १३३०		
ओ वा इति द्वे अ	” १३५९		
ओवा ओवा ओवा	” १३३०,		
	१३६७		
ओषति ह वै स	वृउ. १०१६		
ओषधयः प्र जा	असं. ३२५		
ओषधयः शान्तिः	मैसं. ५१५;		
	तैब्रा. ५१९		

ओषधयो भूत	असं. ४४५		
ओषधयो वै प	शब्रा. २९६		
ओषधिवनस्प	गोब्रा. ११९;		
	तैब्रा. २६०; ऐउ. ५५७,		
	५५९, ५८३; नाउ. १६४८,		
	१६५१		
ओषधीनां च	शब्रा. ३४७		
ओषधीनां पुरु	छाउ. ७४७		
ओषधीनां पुष्पा	वृउ. १३०५		
ओषधीनां रेतो	ऐउ. ५३१		
ओषधीभिरज्रा	असं. ४५५		
ओषधीभ्योऽन्नम्	तैउ. ७०६		
ओषधीरेव र	असं. १६३		
ओषधीरेव शु	शब्रा. ४०९		
ओषधीरेवास्मै	असं. १६३		
ओषमित्पृथिवी	ऋसं. ६३		
ओष्ठापिधाना न	ऐउ. ५२५,		
	६२१		
ओष्ठौ च दन्ताश्च	ऋसंखि. ३०७		
ओ हि वर्तन्ते र	ऋसं. ४७६		
	औ		
औक्षन्धृतैरस्तु	ऋसं. ९		
औक्षेण वर्षभे	वृउ. १३०८		
औदुम्बरः सुव	” १३०४		
*औदुम्बरश्चम	”		
*औपचन्धनिरा	” १२६६		
*औपजन्धनिः सा	”		
औपजन्धनिरा	” १११४,		
	१२६५		
*औपञ्चधनिरा	” १२६६		
औपमन्यव कं	शब्रा. ४०;		
	छाउ. ८७४		
औपम्बस्तीपुत्रः	वृउ. १३१०		
*औपम्बस्थीपुत्रः	” १३११		
*औष्णवाभाः कौण्डि	” १२६५		
	क		
क आसं जन्त्याः के	असं. ३०७		
क इदं कस्मा अ	” ३३८		
क ई स्तवत्कः पृ	ऋसं. ५३		
क उ एवंविदं	तब्राउ. १३५१		
क उ एव तद्वेद	” १३६५		
क उ नु ते महि	ऋसं. ६१		
क एतमादित्य	तब्राउ. १३३१		

कं च तु खं च न	छाउ.	८३५
कं जानीतेति	तब्राउ.	१३५७
कं ते काममागा	छाउ.	७६४
कं ब्रह्म	"	८३५
कंसो वारकिः प्रो	तब्राउ.	१३६७
कंसो वारक्यः सु	"	१३७२
कंसो वारक्यो ज	"	१३६७
कं स्विवर्गर्भं प्रथ	ऋसं.	१८७
कं ह वा अस्मै भ	बृउ.	९९१
*कः पुनरेषां ब	प्रउ.	१४९६
कः पुनरेषां व	"	"
कः पुष्करः किंम	मैउ.	१६५८
कः स जगरेति	तब्राउ.	१३५५
कः सप्त खानि वि	असं.	२४४
कः सविता	तब्राउ.	१३८७
कः सोऽभिषेयोऽयं	मैउ.	१३५३
कः स्विवर्षां ब्राह्म	बृउ.	१११५
कक्षीवन्तं य औ	नाउ.	१६३३
*कतम आत्मा	बृउ.	११९२
कतम आत्मेति	"	११९२;
	मैउ.	१६६४
कतम आदित्या	बृउ.	११६८
कतम इन्द्रः क	"	११६९
कतम एको दे	"	"
कतम एष इति	मैउ.	१६५५
कतमं वाव स	प्रउ.	१५०९
कतमः स इन्द्र	तब्राउ.	१३४३
कतमः स योऽक्ष	"	"
कतमः स्तनयि	बृउ.	११६९
कतमच्चास्य स्था	जाउ.	१६६९
कतमत्तत् क्षर	तब्राउ.	१३४३
कतमत्तदक्ष	"	"
कतना कृतम	छाउ.	७४८
कतमा सा देवः	"	७७०,
		७७१
कतमा सैकेति	बृउ.	१११९
कतमास्ताः	"	११२०
कतमास्तारितस्र	"	१११८,
	१११९,	११२०
*कतमे च ते त्र	"	११६७
कतमे त इति	"	१२९३
कतमे ते त्रय	"	११६७

कतमे वमव	"	"
कतमे षडिति	"	११६९
कतमोऽध्यर्ध इ	"	"
कतमो यज्ञ इ	"	"
कतमो याज्ञव	"	११३२,
	११३३,	११३६
कतमौ तौ द्वौ दे	"	११६९
*कतमौ द्वौ देवा	"	"
कतर एतत्प्र	प्रउ.	१४९६
कतर एष दे	"	१५०४
कतरः स आत्मा	ऐउ.	५९२
कतरा पूर्वा क	ऋसं.	१२१
कति ग्रहाः कत्य	बृउ.	११२१
कति देवाः कत	असं.	२४४
कति देवा याज्ञ	बृउ.	११६६
कतिभिरयम	"	१११८,
		१११९
कतिमात्र इत्या	गोब्रा.	५२३
कति स्तनौ व्यद	असं.	२४४
कत्यग्रयः कति	ऋसं.	१०३
कत्यग्रयमद्याध्व	बृउ.	१११९
कत्यग्रयमद्योद्गा	"	११२०
कत्येव देवा या	"	११६६,
		११६७
कथं गायत्री त्रि	असं.	१६२
कथं नु तद्विजा	काउ.	१४३२;
	श्वेउ.	१६२३
*कथं नु नो ब्रह्मि	बृउ.	१११५
कथं नु प्रजाये	शब्रा.	२९७
कथं नु भगवः	छाउ.	८८३
कथं नु शिष्टाः शि	गोब्रा.	११८
कथं नो ब्रह्मिष्ठो	बृउ.	१११५
कथ न्वेषामिमां	तब्राउ.	१३३४
कथं प्रतिब्रवा	कौउ.	६२८
कथं बाह्यमभि	प्रउ.	१५००
कथं महे असु	असं.	८६
कथं वानो नेल	"	२४८
कथं सुमेध इ	बृउ.	१२९३
कथं सोऽनुशिष्टो	छाउ.	८५६
कथं स्तोमाः प्रति	असं.	१६२
कथं स्विते पुरु	शब्रा.	४६८,
		४६९

कथं स्वित्यज्ञः पु	"	४६८
कथमध्यात्ममि	प्रउ.	१५००
कथमशकत	छाउ.	८५१;
	बृउ.	१२८८
कथमसतः स	छाउ.	८९०
कथमायात्यस्मि	प्रउ.	१५००
कथमिति	छाउ.	९२०
कथमिदं स्यादिति	तैब्रा	२८६
कथा माऽभ्यायच्छ	शब्रा.	१५०,
		१५१
कद्रुद्राय प्रचे	शिउ.	१५७४;
	नाउ.	१६४३
कनीय इवैका	शब्रा.	५१७
कन्नव्यो अतसी	ऋसं.	५५
कन्यायां वर्चो य	असं.	५०८
कन्नु फलीकर	"	४३६
कन्नुत्विजामष्ट	ऋसं.	२३६
कया नश्चित्र आ	ऐउ.	५२५
कया याति स्वध	ऋसं.	२४६
कया ज्ञानिच्छया	ऐउ.	५२५
करदिति विशा	गोब्रा.	३०५
करैर्यजमान	मैउ.	१६६४
करोति बाहुभ्यां	तैब्रा.	२८४
करोति मुखेन	ताब्रा.	२८३
करोतु मामने	तैब्रा.	४८७,
		४८९
करोत्येव वान्वा	तब्राउ.	१३३९
कर्णयोः श्रुतं मा	नाउ.	१६३५
कर्णयोः श्रोत्रम्	नाउ.	१६४९
कर्णाभ्यां भूरि वि	तैउ.	६९५
कर्णाभ्यां श्रोत्रम्	ऐउ.	५८१
कर्णावस्थाभिजि	शब्रा.	४६९
कर्णौ निरभियो	ऐउ.	५८१
कर्णारं विशात्	कौउ.	६७०
कर्दमेन प्रजा भू	ऋसंखि.	५०१
कर्मणा संकल्पयै	छाउ.	९३०
कर्मणाऽचीयन्त	शब्रा.	३२१
कर्मणा तपः	गोब्रा.	११९
कर्मणा पितृलो	बृउ.	१०५७
कर्मणाऽशंसन्	शब्रा.	३२१
कर्मणाऽस्तुवत	"	"
कर्मणा हि समा	तब्राउ.	१३४४

कर्मणन्धते	”	”	कश्यपः पश्यको	तैआ.	४११	कस्मिन्नु तप इ	तब्रा.	२६
कर्मण वां वेषा	शुसं.	२०१	कश्यपस्यातिथिः	”	”	कस्मिन्नु त्वं चात्मा	वृउ.	११७६
कर्मणेषु ग्रहा	शब्रा.	३२१	कश्यपादुदिताः	”	४१०	कस्मिन्नु दक्षिणा	”	११७४
कर्मन्यज्ञपतिं	तैब्रा.	३१७,	कश्यपो नैघ्रुवि	वृउ.	१३११	कस्मिन्नु दीक्षा प्र	”	११७५
		३३७	कषोत्काय स्वाहा	नाउ.	१६४७	*कस्मिन्नु देवलो	”	११४५
कर्म वा एतत्त	तब्राउ.	१३४२	कस्तं मदामदं	काउ.	१४०७	*कस्मिन्नु यौलोक	”	”
कर्म संहिता	कौउ.	६८६	कस्तं मातुमहै	शब्रा.	२०२	*कस्मिन्नु नक्षत्र	”	”
कर्माणि कुर्वथि	छाउ.	९२९	कस्तद्यत्परोर	तैब्रा.	२६	*कस्मिन्नु प्रजाप	”	”
कर्माणि तनुते	तैउ.	७१७	कस्तद्वेद यत्प	तब्राउ.	१३३१	कस्मिन्नु प्राणः प्र	”	११७६
कर्माणि ते मयि	कौउ.	६५५	कस्तद्वेद यथे	”	१३६५	*कस्मिन्नु ब्रह्मलो	”	११४५
कर्माणि धियस्त	गोब्रा.	११८	कस्तस्मिन् द्विषन्तं	जैब्रा.	४०६	कस्मिन्नु भगवो	मुउ.	१४४३
कर्माणि मे स्वयि	कौउ.	६५५	कस्तेऽवाच्चदिति	ताब्रा.	४०२	*कस्मिन्नु मनः प्र	वृउ.	११७६
कर्माणि विज्ञान	मुउ.	१४८५	कस्त्वा युनक्ति	तैसं.	५१४	कस्मिन्नु यज्ञः प्र	”	११७४
कर्माध्यक्षः सर्व	श्वेउ.	१६२२	कस्त्वा युनक्ति स	शुसं.	२०१	कस्मिन्नु रूपाणि	”	”
कर्मानुगान्यनु	”	१६१५	कस्त्वा विमुञ्चति	”	”	कस्मिन्नु रेतः प्र	”	११७५
कर्मति गार्हप	तब्राउ.	१३८७	कस्त्वा सत्यो मदा	ऐउ.	५२५	कस्मिन्नु वाक् दा	”	११७६
कर्मति हस्तयोः	तैउ.	७४०	कस्त्वेनयोरेक	वृउ.	१२७७	*कस्मिन्नु वायुरो	”	११४५
कर्मन्द्रियाण्यस्य	मैउ.	१६५५	कस्मा अयमल	तब्राउ.	१३६४	कस्मिन्नु व्यानः प्र	”	११७६
कर्षेदेनं न चै	असं.	४५४	कस्मात्तानि न क्षी	वृउ.	१०४६,	कस्मिन्नु श्रद्धा प्र	”	११७४
कलविकरणा	नाउ.	१६४१			१०४७	कस्मिन्नु सर्वे सं	प्रउ.	१५०४
कला मुहूर्ताः का	”	१६३०	कस्मादङ्गादीप्य	असं.	२४६	कस्मिन्नु हृदयं	वृउ.	११७६
कलाश एवास्व	तब्राउ.	१३६७	कस्मादङ्गाद्वि मि	”	”	कस्मिन्नु दानः प्र	”	”
कलाश एवैनं	”	१३६२	कस्माद्व्यभेध्यत्	वृउ.	१०१८	*कस्मिन्नु वन्तरिक्ष	”	११४५
कलासर्गकरं	श्वेउ.	१६१६	कस्माद्वा ह्येनं दा	तब्राउ.	१३५६	कस्मिन्नु वानः प्र	”	११७६
कल्पतन्त्राणि त	श्वेउ.	४६३	कस्मान्नु गुल्फाव	असं.	२४४	*कस्मिन्नु वाकाश ओ	”	११४४
कल्पन्ते हास्मा ऋ	तैब्रा.	४६३	कस्मिन्नाज्ञे तपो	असं.	२४६	*कस्मिन्नु वादित्यलो	”	”
कल्पन्ते हास्मै लो	छाउ.	७७६	कस्मिन्नाज्ञे तिष्ठ	”	”	कस्मिन्नु वापः प्रति	वृउ.	११७५
कविर्नुचक्षा अ	”	७७५	कस्मिन्नाज्ञे साऽऽहु	शब्रा.	४६८	कस्मिन्नु साऽऽस्य हुता	शब्रा.	४६८
कविर्मनीषी प	ऋसं.	१२४	कस्मिन्नाज्ञे मुक्ता	प्रउ.	१५१५	कस्य स्विःपुत्र इ	ऋसं.	१४
कविर्भ्यः पुत्रः स	ईउ.	१३१९	कस्मिन्नु खलु ग	वृउ.	११४५	कस्यैतत्सुखं भ	प्रउ.	१५०४
	ऋसं.	२१२;	कस्मिन्नु खलु च	”	”	कस्यैष खल्वीद	मैउ.	१६५४
	तैआ.	२६३	कस्मिन्नु खलु दे	”	”	कहोलः कौषीत	कौउ.	६९२
कवीयमानः क	ऋसं.	२१३	कस्मिन्नु खलु न	”	”	कां त्वं देवतामु	तब्राउ.	१३४२
कवे विप्रचित्ते	तैब्रा.	२६०	कस्मिन्नु खलु प्र	”	”	कां सोस्मिन्तां हिर	ऋसंखि.	४९९
*कश्चन गच्छति	तैउ.	७२०	कस्मिन्नु खलु ब्र	”	”	काककुलायग	ऐउ.	६१६
कश्चन गच्छतीरे	”	”	कस्मिन्नु खलु वा	”	”	काण्डात्काण्डात्परो	नाउ.	१६३२
कश्चित्समश्नुतारे	”	”	कस्मिन्नु खल्वन्त	”	”	कात्यायनाय वि	”	”
*कश्चित्समश्नुते	”	”	कस्मिन्नु खलवाका	”	११५९	कात्यायनीपुत्रः	वृउ.	१३१०
कश्चित्सं लोकं न	तैब्रा.	२७	कस्मिन्नु खलवादि	”	११४५	कात्यायनीपुत्रो	”	”
कश्चिद् वा अस्मा	”	”	कस्मिन्नु खल्विन्द्र	”	”	काऽऽनन्तता याज्ञ	”	११८५
कश्चिद्धीरः प्रत्य	काउ.	१४२०	कस्मिन्नु गन्धर्व	”	”	काऽऽनन्दता याज्ञ	”	”
						कान्यस्मिन्नाप्र	प्रउ.	१५०४

प्रयत्ना याज्ञ	११८४	कालं गच्छति त	छाउ.	७८२
आज्यम्	नाउ.	कालः पचति भू	मैउ.	१६६१
एव यस्या	वृउ.	कालः प्रजा अस्त	असं.	१७८
पित्रे वाऽऽचा	ऐउ.	कालः संहिता	कौउ.	६८४
ह तु यज	तब्राउ.	कालः स्वभावो नि	श्वेउ.	१५७५
ह स्वाचार्य	१३४६	कालश्चाज्ञस्य	मैउ.	१६६०
करोति ना	नाउ.	कालाः संवत्सरः	तैआ.	१८०
कर्ता नाहं	"	कालात्संवन्ति भू	मैउ.	१६६०
कारयिता	"	कालादापः सम	असं.	१७८
संकरपी वि	वृउ.	कालादृचः सम	"	"
	मैउ.	कालाय नमः	नाउ.	१६४१
क्रोधलोभ	मैउ.	काली कराली च	मुउ.	१४५०
प्रं वा अहं	शब्रा.	काले गन्धर्वाप्स	असं.	१७९
प्रयवर्णं	तैआ.	काले चास्तं निय	मैउ.	१६६०
पपः पिब	छाउ.	काले तपः काले	असं.	१७८
मय एवा	वृउ.	कालेन वातः प	"	"
मेन्मे मघ	ऋसं.	कालेन सर्वा न	"	"
मवैतेना	ताब्रा.	कालेनोदेति सू	"	"
वत्साऽमृतं	तैब्रा.	काले मनः काले	"	"
सनि साम	ताब्रा.	कालेऽयमङ्गिरा	"	१७९
स्तदग्रे स	तैआ.	काले ह भूतं भ	"	१७७
३०५; ऋसं.	२४१,	काले ह विश्वा भू	"	"
२७६; असं.	३४०	कालो अर्धो वह	"	१७५
स्य यत्रासाः	ऋसं.	कालो गनिनिवृ	कौउ.	६८७
याऽऽसिं जग	काउ.	कालो भूमिमस्त	असं.	१७७
स्येन्द्रस्य व	असं.	कालोऽमू दिवम	"	"
न्यः कामय	मुउ.	कालो यज्ञं समै	"	१७९
य त्वा प्रति	असं.	कालो ह ब्रह्म भू	"	१७८
य स्वाहा	नाउ.	कालो ह भूतं भ	"	"
न त्वा प्रति	असं.	कालो ह सर्वस्ये	"	"
न मा काम	"	का वै वरणा का	जाउ.	१६६९
न मे काम	तैआ.	*काश्यपीबालाक्या	वृउ.	१३१०
"	"	काषायणः माय	"	१२६५
नाजनय	"	*काषायणः सौक	"	"
ऽकार्षीत्	नाउ.	का सत्यना याज्ञ	"	११८४
ऽकार्षीन्मो	"	का साम्नो गतिरि	छाउ.	७६५
जज्ञे प्रथ	असं.	का सावित्री	तब्राउ.	१३८७
दाता कामः	"	कासीत्प्रमा प्रति	ऋसं.	२७७
भूत्वाऽनन्तो	जैब्रा.	का स्थितता याज्ञ	वृउ.	११८६
म उदक	छाउ.	*का स्थितिता याज्ञ	"	"
म उदपा	"	किं कारणं ब्रह्म	श्वेउ.	१५७५
ं तु ध्येयः	शिखाउ.			

किं छन्दः का देव	शब्रा.	२९,
		३०
किं जप्येनामृत	जाउ.	१६६९
किं तत्	मैउ.	१६५९
किं ततः स्यादिति	तब्राउ.	१३४४,
		१३४५, १३४६
किं तत्सत्यमिति	तैब्रा.	२६
किं तथसत्यमि	कौउ.	६३८
किं तामिर्जयती	वृउ.	१११८,
		१११९, ११२०
किं त्वं तदूर्ध्वपा	जैब्रा.	३२८
किं देवनमिति	गोब्रा.	५२४
किं देवतोऽस्यां द	वृउ.	११७४
किं देवतोऽस्यां धु	"	११७६
किं देवतोऽस्यां प्र	"	११७५
किं देवतोऽस्यां प्रा	"	११७४
किं देवतोऽस्यामु	"	११७५
किं नु त आवयो	तब्राउ.	१३६२
किं नु ते मयीति	"	१३६१,
		१३६२, १३६३
किं नु तेऽस्मास्त्विति	"	१३६२,
		१३६३
किं नु नाश्रासीति	छाउ.	८३५
किं नु सोम्य किल	"	८३८
किं नूनमस्मान्कृ	शिरउ.	१६७८
किं प्रजया करि	वृउ.	१२४७
किं भगवन्तः प	नाउ.	१६५०
किं मे वासो भवि	शाआ.	३३१
किं मे हव्यमह	ऋसं.	७९
किं रजस एना	असं.	८६
किं सौम्य त आचा	गोब्रा.	११८
किं सौम्य विद्वानि	"	"
किं स्थानमित्युभा	"	५२३
किं स्वितृषुधिव्यै व	शुसं.	२५३
किं स्वितृसूर्यसमं	"	"
किं स्वितृदामीदधि	ऋसं.	१८३
*किं स्वितृदामीदार	कासं.	"
किं स्वितृदाहुर्भोः स	गोब्रा.	११८
किं स्वितृदेवैवं वि	वृउ.	१२७७
किं स्वितृद्यमस्य क	काउ.	१३९०
किं स्वितृद्वनं क उ	ऋसं.	१८४,
		१९३, २५९

किं हि स तदा भ	तब्राउ.	१३५७
कितवामो यदि	ऋसं.	७८
किमग्निं वेत्येति	शब्रा.	३२९, ३३०
किमत्र पश्यसी	छाउ.	९१९
किमन्यत्सदन्य	ऐउ.	५६५
किमभीति	तब्राउ.	१३६१, १३६२, १३६३
किमभ्यार्चन्मह	असं.	१७४
किमयमस्माभिः	शाआ.	३२२
किमयमोकारः	गोब्रा.	५२३
किमर्थमिति	,,	११८
किमर्था वयं य	ऐउ.	६२३;
	कौउ.	६९०
किमर्था वयम	ऐउ.	६२३;
	कौउ.	६९०
किमहं पापम	तैउ.	७३२
किमहं साधु ना	,,	,,
किमाग आस व	ऋसं.	७९
किमात्मकानि वा	मउ.	१६६३
किमापः सत्यं प्रे	असं.	२४८
किमावरीवः कु	ऋसं.	२३९, २७६
किमिच्छन्कस्य का	वृउ.	१२४०
किमिच्छन्ताववा	छाउ.	९७०
किमिति	शब्रा.	४६७;
	तब्राउ.	१३४५
किमित्ते विष्णो प	ऋसं.	९२
किमु तद्ब्रह्मावे	वृउ.	१०२९
किमेनेन कुर्या	तैब्रा.	२८
किमेव मा विद्वा	शब्रा.	३२९, ३३०
कियता स्कम्भः प्र	असं.	२४७
किल्बिषस्पृत्पितु	ऋसं.	४९२
कीर्तिं च वा एष	,,	४७३
कीर्तिः पृष्ठं गिरे	तैउ.	७०३
कीर्तिमान्व्युष्टिमा	छाउ.	८०५
कीर्तिश्च यज्ञश्च	असं.	४५०, ४५१
कीर्तिश्च यज्ञश्चा	,,	१७४
कुत इन्द्रः कुतः	असं.	३०९

कुतः कशान्कुतः	असं.	३०९
कुतस्तु खलु सो	छाउ.	८९०
कुतस्नौ जातौ क	असं.	१६१
कुतस्त्वष्टा सम	,,	३०९
कुनखी श्यावद	तैब्रा.	४८६
कुबेरो वारक्यो	तब्राउ.	१३६७
कुमार किं रोदि	शब्रा.	२९६
कुमारदेष्णा ज	ऋसं.	४८४
कुमारश्चित्पित	,,	१२७
कुमारहारितो	वृउ.	१११४, १२६५
*कुमारहारीतो	,,	१११४
कुमारानु त्वाऽऽशि	छाउ.	८५६
कुमारो नवमः	शब्रा.	२९६
कुर्वन्नेवेह क	ईउ.	१३१४
कुर्वाणाऽर्चौरमा	तैउ.	६९५
कुवित्सोमस्यापा	ऋसं.	६३, ६४
कुशलाज प्रम	तैउ.	७०४
कुश्रिथेज्ञवच	वृउ.	१३११
कुश्रिवाजश्रव	,,	,,
*कुश्रिवाजसव	,,	,,
कृणुष्व पाजः प्र	नाउ.	१६४३
कृणोमि ते प्राणा	असं.	३८२
कृणोम्यस्मै भेष	असं.	३८१
कृणोम्याजिं मघ	ऋसं.	७६
कृण्वन्तो मह्यम	असं.	३३९
कृण्वन्संचृतं वि	ऋसं.	७०
कृणानि या च क	,,	७५
*कृनाज्ञः पाह्यंह	मैसं.	४८७
*कृनाज्ञः पाह्येन	तैआ.	,,
कृतिं भगवो वि	छाउ.	९४१
कृतिस्त्वेव विजि	,,	,,
कृत्याकृत्यात्पूतो	कैउ.	१६७६
कृत्वैव निस्तिष्ठ	,,	,,
कृत्स्नं तदृतुल	तैआ.	१८०
कृत्स्नतायै तय	शब्रा.	११४
*कृत्स्नस्थैवाज्ञाय	,,	४७१
कृत्स्नो ह्येष आत्मा	ऐउ.	५६६
कृदन्तमर्थव	गोब्रा.	५२३
कृषञ्जित्फाल आ	ऋसं.	४७६

कृष्णदत्तो लोहि	तब्राउ.	१३६७
कृष्णधृतिः सारथ	,,	,,
कृष्णरातो लोहि	,,	१३६८
कृष्णां धेनुं कृष्ण	ऐउ.	६१७
कृष्णाजिनोऽसी (ति)	तब्राउ.	१३५७
कृष्णायाः पुत्रो अ	असं.	१७४
कृष्या न रात्स्यसी	,,	४४१
कल्मसा ऋनवः	तैसं.	५१४
कल्मसान्वै स लोका	छाउ.	९३१
*केतं पुनातु वा	कासं.	११२
केतपूः केतं नः	तैसं.	,,
*केतपूः केतं पु	कासं.	१११
केति तृतीयम	ताब्रा.	२८५
केतुमानुद्यन्त्स	असं.	१७१
केतो अग्निः	कासं.	४५८
केन कर्माणीति	कौउ.	६३८
केन गन्धानिति	,,	,,
केन देवो अनु	असं.	२४५
केन धियो विशा	कौउ.	६३८
केन नपुंसक	,,	,,
केन नु त्वमथ	असं.	८६
केन पर्जन्यम	,,	२४५
केन पाष्णां आभृ	,,	२४४
केन यज्ञं च श्र	,,	२४५
केन रूपाणीति	कौउ.	६३८
केन शब्दानिति	,,	,,
केन श्रोत्रियमा	असं.	२४५
केन सुखदुःखे	कौउ.	६३८
केन स्त्रीनामानी	,,	,,
केनाङ्गुलीः पेश	असं.	२४४
केनाऽऽनन्दं रति	कौउ.	६३८
केनाज्ञरसानि	,,	,,
केनापो अन्वत	असं.	२४५
केनाग्निं महा प	,,	,,
केनेत्या इति	कौउ.	६३८
केनेदमन्यत्र	असं.	२४५
केनेदमूर्ध्वं ति	,,	,,
केनेमगग्निं पू	,,	,,
केनेमां भूमिमौ	,,	,,
केनेयं भूमिर्वि	,,	,,
केनेषिते पत	तब्राउ.	१३७३

लभ	मैः	१६६१
भव	तैः	४७९
न्द्राय दु	असं.	१६२
नः पुरुषः	शुसं.	२५३
साशखरा	ऋसंखि.	३३६
साशखरे	"	"
	शिः	१५७४
र्यः काप्यः कु	वृः	१११४,
		१२६५
भ्रडा वेद क	ऋसं.	१२४,
		२४२, २७६
स्मिन्त्सत्यं को	असं.	२४५
स्मिन्नापो व्य	"	"
स्मिन्प्राणम	"	"
स्मिन्यज्ञम	"	"
स्मिन्रूपम	"	"
स्मिन्रेतो न्य	"	"
स्मै वासः प	"	"
स्य बाहू स	"	२४४
दर्श प्रथ	ऋसं.	२०८,
		३५३
ातुः किं प्राति	गोः	५२३
ातुरिति	"	"
आत्मा, किं ब्र	छाः	८७१
गौः क एक	असं.	१६२
त्वाऽनुशाशा	छाः	८३४,
		८३८
ाऽनुशिष्या	"	८३८
मर्त्तं मनु	तैः	४७८
मात्मेति व	ऐः	५९२
कारी च्यव	गोः	५२३
राजो मिथु	असं.	१६१
भ्याः द्विष	ऋसं.	५४
	कौः	६३१
स कतमोऽसि	शुसं.	२०१
स्म	कौः	६३१
य पाप्मेति	तः	१३३४
वै प्रजाप	जैः	४०३;
	तः	१३५९
त्वैवं ऋष	वृः	१२९४
वान्यात्कः प्रा	तैः	७२५

कौण्डिन्यः शाण्डिल्यात्	"	१११४,
		१२६५
*कौण्डिन्या और्णवा	"	१२६५
*कौण्डिन्यायनः कौ	"	१११४,
		१२६५
*कौत्सीपुत्रो बौधी	"	१३१०
कौत्सो माहित्येः	"	१३११
कौमारं थौवनं	मैः	१६६०
कौशिकः कौण्डिन्यात्	वृः	१११४,
		१२६५
कौशिकायनिः घृ	"	१११४,
		१२६५
कौशिकीपुत्र आ	"	१३१०
क्रवा नो मन्थो स	ऋसं.	३४४
कन्दाय ते प्राणा	असं.	१२९
कमध्वमग्निना	"	३६८
कमान्को अस्याः क	"	१६१
कयविक्रयाद्यो	ऋसंखि.	४८६
कव्यादाग्निना व	असं.	१६९
क्रिमिर्जिन्मपृथि	"	५०९
क्रियागुणैरात्म	श्वेः	१६१६
क्रियावन्तः श्रोत्रि	मुः	१४८८
*क्रियासु बाह्यान्त	प्रः	१५१३
क्रियासु बाह्याभ्य	"	"
क्रोधो वृकौ मन्थु	असं.	४३४
क्रौञ्चं बृहस्पतेः	छाः	७८५
क्रौञ्चिकीपुत्रौ वै	वृः	१३१०
क तर्हि यजमा	छाः	७९०
क न्वश्वमेभया	वृः	११३०
क पारिक्षिता अ	"	११२९
*क पारीक्षिता अ	"	"
क प्रेप्सन्ती युव	असं.	२४७
क प्रेप्सन्दीप्यत	"	२४६
क वा एतदभूत्	कौः	६७९
क व्रतं क श्रद्धा	असं.	२४६
क स्य ते रुद्र मृ	ऋसं.	१२६
क स्य वीरः को अ	"	५३
क सिवदस्याः पर	तैः	३४७
कार्धमासाः क य	असं.	२४६
कैतदभूत्	कौः	६७९
कैष एतद्दाला	"	"

क्षत्रम्	"	१२६९
क्षत्रम्य सायुज्य	"	१२७९
क्षत्राय स्वाहेत्य	"	१३०३
क्षमां द्वित्वा हेतु	शिरः	१६८०
क्षमा चरिष्वेक	ऋसं.	३६५
*क्षरं त्वविद्यां ह्य	श्वेः	१६१२
क्षरं त्वविद्या ह्य	"	"
क्षरं प्रधानम	"	१५८१
क्षरन्तीः पिङ्गला	तैः	२७१
क्षिप्रे बत मरि	तः	१३३१
क्षीयन्त आप ए	"	१३५४
क्षीयन्ते चास्य क	मुः	१४६४
क्षुत् कुक्षिरिा	असं.	४३४
क्षुत्पिपासामलं	नाः	१६४७
क्षुत्पिपासामलां	ऋसंखि.	५००
क्षुत्पिपासाय स्वा	नाः	१६४७
क्षुधश्च सर्वास्तृ	असं.	३११
क्षुधे स्वाहा	नाः	१६४७
क्षुरस्य धारा नि	काः	१४१७
क्षेम इति वाचि	तैः	७४०
	ख	
खं पुराणम्	वृः	१२६६
खं ब्रह्म	छाः	८३५
खं वायुज्योतिरा	मुः	१४५५;
	कैः	१६७५
खजाम्प्रियोगाद्धृ	मैः	१६६८
खरैर्वराहैर्यु	ऐः	६१७
खलः पात्रे स्फयावं	असं.	४३६
खल्वात्मन आत्मा	मैः	१६५९
खल्वेतस्यैवाक्ष	छाः	७५०
खान् गच्छतु ते म	असं.	३८६
ख्यात्रे स्वाहा	तैः	४१३
	ग	
ग इति गच्छन्त्य	मैः	१६५९
गच्छति ह वा ए	तः	१३५३
गच्छ त्वं भगवा	मैसं.	१५०
गणानां त्वा गण	ऋसं.	१८८
गताः कलाः पञ्च	मुः	१४८५
गतिः पूर्वरूपम्	कौः	६८६
गतिनिवृत्तिस्थि	"	६८७

गन्धः शुभो मूत्र	श्व १.	१५९०
गन्धद्वारां दुरा	ऋसंखि	५००;
शिशु.	१५७४; नाउ	१३३२
*गन्धर्वलोकेषु	वृउ.	११४४
" "	"	११४५
गन्धर्वा एनम	असं.	४२१
गन्धर्वाप्सरस	तैआ.	१६०,
		३०६
गन्धर्वो अस्य र	ऋसं.	४२८
गन्धो मे मोदो मे	तब्राउ.	१३६२
गम्भीरशंसो र	ऋसं.	८२
गरगिरो वा ए	ताब्रा.	४८६
गर्दभीतरा ग	वृउ.	१०२०
गर्भ एत्रैतच्छ	ऐउ.	५९१
गर्भं त अश्विनौ	वृउ.	१३०९
गर्भं धेहि सिनी	" "	" "
गर्भिण्येव भव	" "	१३०७
गर्भे नु नौ जनि	ऋसं.	९९
गर्भे नु सन्नन्वे	" "	६५;
	ऐउ.	५९१
गर्भो भारं भर	असं.	२३०
गर्भो भूत्वाऽमृत	" "	४२२
गर्वां त्वा हिंकारे	कौउ.	६५०
गवामश्वानां व	असं.	५०७
गातुं को अस्मिन्कः	" "	२४५
गायत्रं छन्दं प	नाउ.	१६४४
गायत्रं प्रातःस	छाउ.	८१४;
	तब्राउ.	१३६८
गायत्रं रथन्त	ऐउ.	५६३
गायत्रं साम ब्र	तब्राउ.	१३३०,
		१३३१, १३३२, १३३९
गायत्रं हि छन्दः	गोब्रा.	५२४
गायत्रम्य समि	ऋसं.	२१७
गायत्रिया गाय	नाउ.	१६४४
गायत्रो छन्दसां	" "	" "
गायत्रो त्रिष्टुभं	असं.	१६२
गायत्री छन्दसा	ताब्रा.	२८३
गायत्री छन्दोऽस्ति	शब्रा.	२९
गायत्री छन्दो र	तैसं.	२८१
गायत्री त्रिष्टुच्छ	तैआ.	४१६
गायत्री त्रिष्टुब्ज	कासं.	१६२

गायत्री वा इदं	छाउ.	७९९
गायत्री वै देवा	गोब्रा	५२४
गायत्रेण प्रति	ऋसं	२१६
गायत्र्यस्येकप	वृउ.	१२८३
गायत्र्याः षष्टिस	शिरउ.	१६८१
गायत्र्या लोका भ	" "	" "
गायत्र्युष्णिगबृह	ऐउ.	५६३
गार्गी माऽतिप्राक्षी	वृउ.	११४५
*गार्गीपुत्रः पारा	" "	१३१०
*गार्गीपुत्रो गार्गी	" "	" "
*गार्गीपुत्रो बाडे	" "	" "
गार्ग्यायण उदा	" "	१२६५
गार्ग्यो गार्ग्यात्	" "	" "
गार्ग्यो गौतमात्	" "	" "
गार्हपत्य ऋक्	नाउ.	१६५१
गार्हपत्यः प्रमु	तैब्रा	४८७,
		४८९
गार्हपत्यो ह वा	प्रउ.	१५०५
*गालवो विदर्भी	वृउ.	१२६६
गालवो विदर्भी	" "	१११४,
		१२६५
गावइव ग्रामं	ऋसं.	१०५
गाव उद्रीथः	छाउ.	७७६,
		७८३
गावो ह जज्ञिरे	ऋसं.	२३२
गावो हिरण्यं ध	नाउ.	१६४७
गित्यस्यै मर्त्यम	तब्राउ.	१३७१
गिरति ह वै द्वि	ऐउ.	५४१
गिरयस्ते पर्व	असं.	५०७
गिरिर्न विश्वत	ऋसं.	५९
गिरीरज्राँ अपः	" "	५६
गिरो वाश्रास इ	" "	१८
गीर्णं भुवनं त	" "	१००
गीर्भिरुध्वान् कल्प	असं.	१७०
गुणः प्रकृतिभे	मैउ.	१६६३
गुणारूपः शाङ्खाय	कौउ.	६९२
गुण.रु गच्छाङ्गाय	" "	" "
गुणान्वथो यः फ	श्वेउ.	१६१४
गुणौ चैह्यमा	मैउ.	१६५५,
		१६६३
गुरोर्दाराभिग	ऋसंखि.	४८६

३४६; तब्राउ.	३४९; शोब्रा.	३५०;
तब्राउ.	१३३२; १३४१	
गुहाऽभि देवोऽस्यु	तब्राउ.	१३६१
गुह्या एवाऽऽदेशा	छाउ.	७९५
गुयाः शुका स्थूला	असं.	३१२
गृह्मो राजा वरु	ऋसं.	८१
गृहं कृत्वा मर्त्य	असं.	३१०
गृहमेधी गृह	" "	१६३
गृहीतं चक्षुः	वृउ	१०७४
गृहीतं मनः	" "	" "
गृहीतं श्रोत्रम्	" "	" "
गृहीता वाक्	" "	" "
गृही भूत्वा वनी	जाउ.	१६७०
गृहो याम्यरंक	ऋसं.	६४
गृह्याभ्यः स्वाहा	नाउ.	१६४८
गृह्येव भवति	तैब्रा.	२८७
गोअश्वमिह म	छाउ.	९४६
गोघ्नात्स्फुरत्वा	ऋसंखि.	४८६
गौतमः सैतवा	वृउ.	१२६५
गौतमो वात्स्यात्	" "	" "
*गौतमो वैजवा	" "	१११४
गोपायंश्च त्वा जा	असं.	३७९
गोबलो वाष्णः	तब्राउ.	१३३१
गोभिर्जुष्टं धने	शिशु.	१५७४
गोभिर्जुष्टमयु	नाउ.	१६३४
गोभिर्जुष्टो धने	ऋसंखि.	३३६
गोस्तेयश्च सुरापा	नाउ.	१६४७
गौः शान्तिः	तैआ.	५१९
गौतमः अग्निवे	वृउ.	१२६५
गौतमः आग्निवे	" "	१११४
गौतमः सैतव	" "	" "
गौतम कं त्वं वै	शब्रा.	३९
गौतम कं त्वमा	छाउ.	८७६
*गौतमीपुत्र आ	वृउ.	१३१०
गौतमीपुत्रो भा	" "	" "
*गौतमीपुत्रो वा	" "	" "
गौतमो गौतमात्	" "	१११४,
		१२६५
गौतमो भारद्वा	" "	१११४
* " " "	" "	१२६५
गौतमो वात्स्यात्	" "	१११४
* " " "	" "	१२६५

पौति	१११४,	१२६५	१११४,	१२६५	१२६५
मेदनु	ऋसं.	२१८	ऋसं.	२२५	२२५
ममाय स	असं.	२२५	असं.	२२५	२२५
मेमाय स	तैब्रा.	२४८	तैब्रा.	२४८	२४८
माय स	ऋसं.	२२५	ऋसं.	२२५	२२५
जर्वालाय	तब्राउ.	१३७२	तब्राउ.	१३७२	१३७२
देवी रोद	मैसं.	१८२	मैसं.	१८२	१८२
स्य मर्त्य	तब्राउ.	१३७१	तब्राउ.	१३७१	१३७१
ममासि वि	जाउ.	१३६८	जाउ.	१३६८	१३६८
मेमाह	जाउ.	१३७०	जाउ.	१३७०	१३७०
प्रस्तावः	छाउ.	७७६,	छाउ.	७७६,	७७६,
७८३;	तब्राउ.	१३४०	तब्राउ.	१३४०	१३४०
भूमे व	असं.	५०८	असं.	५०८	५०८
न मासौ	४५१	४५१	४५१	४५१	४५१
नासा गोप्ता					
घ					
रस्तद	क्रासं.	२५	क्रासं.	२५	२५
मन्ता त्रि	ऋसं.	२३४	ऋसं.	२३४	२३४
सूर्य आदि	नाउ.	१६४४	नाउ.	१६४४	१६४४
च्छायाम	ऋसं.	१२६	ऋसं.	१२६	१२६
ो मधु	तैआ.	२७०	तैआ.	२७०	२७०
वज्रज	तैब्रा.	२५९	तैब्रा.	२५९	२५९
मिक्षिरे	नाउ.	१६३५	नाउ.	१६३५	१६३५
शकः पा	बृउ.	१११४,	बृउ.	१११४,	१११४,
		१२६५			
रोहि	असं.	१६९	असं.	१६९	१६९
ः शुच	१५७	१५७	१५७	१५७	१५७
चौण्यमि	मैउ.	१६६८	मैउ.	१६६८	१६६८
धारा अ	नाउ.	१६४५	नाउ.	१६४५	१६४५
नाम गु	१६३६	१६३६	१६३६	१६३६	१६३६
मधु	असं.	३७०	असं.	३७०	३७०
मण्ड	श्वेउ.	१६०९	श्वेउ.	१६०९	१६०९
मभ्य	असं.	१६९	असं.	१६९	१६९
२५८	२५८	२५८	२५८	२५८	२५८
दस्य शृ	ऋसं.	१५१	ऋसं.	१५१	१५१
वा	तैसं.	५१४	तैसं.	५१४	५१४
वेवैनम्	छाउ.	९७५	छाउ.	९७५	९७५
मि कृ	असं.	१७०	असं.	१७०	१७०

प्राग्निप्रियात्	कौउ.	६३८
*प्राग्निनेति व्र्यात्	कौउ.	६३८
प्रातारं विद्यात्	६७०	६७०
	च	
चक्षुः कला	छाउ.	८३३
चक्षुः परस्ताच्छ्रो	कौउ.	६४१
चक्षुः पश्यत्सर्वे	६५९	६५९
चक्षुः प्राविशत्	ऐउ.	५३४
चक्षुः श्रोत्रं मनो	तैउ.	७०१
चक्षुः श्रोत्रं यशो	असं.	४२६
चक्षुःश्रोत्रे मुख	प्रउ.	१५०१
चक्षुः संघाता	कौउ.	६८४
चक्षुः सर्वै रूपैः	६६५,	६६६, ६८०
चक्षुरज्ञाराः	छाउ.	८५९;
	बृउ.	१२९७
चक्षुरध्वर्युः	शाब्रा.	४६०;
	नाउ.	१६५१
चक्षुरनुहर	तब्राउ.	१३८६
चक्षुरसावादि	ऐउ.	५३५
चक्षुरस्मात्सर्वा	कौउ.	६६७
चक्षुरादित्यः स	तब्राउ.	१३५५
चक्षुरायत्ता हि	मैउ.	१६५८
चक्षुरिति	शाब्रा.	३२९
*चक्षुरिति होवा	बृउ.	११७१
चक्षुरुदक्कामत्	ऐउ.	५३३
चक्षुरुद्गात्रे	गोब्रा.	४७२
चक्षुरुदगीयः	छाउ.	७७७,
		७८१
चक्षुरेव चर	शाब्रा.	१५३
चक्षुरेव तत्प्रा	गोब्रा.	४६०
चक्षुरेव ब्रह्म	छाउ.	८२०
चक्षुरेवर्क	७६३	७६३
चक्षुरेव सम्रा	बृउ.	११८४
चक्षुरेव सा	छाउ.	७६३
चक्षुरेवायत	बृउ.	११८४
*चक्षुरेवासिन्स	कौउ.	६६७
चक्षुरेवास्य ए	६६८	६६८
चक्षुर्गोत्रम्	६४०	६४०
*चक्षुर्गोप्त्	६४०	६४०
चक्षुर्ज्योतिः	जैब्रा.	४०४
चक्षुर्देवानां ज्यो	तैब्रा.	३१७

यक्षुर्भूवा सर्व	जब्रा.	२०२
चक्षुर्ममन्यादि	शाआ.	३२२
चक्षुर्मनुषं वि	बृउ.	१०४२
चक्षुर्मुसलं का	असं.	४३६
चक्षुर्मं त्वयि द	कौउ.	६५५
चक्षुर्यशः	शाब्रा.	४७०
चक्षुर्वाव प्रति	छाउ.	८५०
चक्षुर्वाव साम्नो	तब्राउ.	१३४१
चक्षुर्वै ग्रहः	बृउ.	११२३
चक्षुर्वै प्रतिष्ठा	१२८६	१२८६
चक्षुर्वै ब्रह्मेति	११८४	११८४
चक्षुर्वै यज्ञस्या	१११७	१११७
चक्षुर्वै सत्यम्	१२८१	१२८१
चक्षुर्वै सम्राट् प	११८४	११८४
चक्षुर्वै प्रतिष्ठा	शाआ.	३३१
*चक्षुर्वै वै सत्यम्	बृउ.	१२८१
चक्षुर्वै वै सत्यम्	१२८१	१२८१
चक्षुर्वै दये	तैब्रा.	२६०
चक्षुर्वै च्चक्राम	शाआ.	३३१;
	छाउ.	८५९; बृउ.
चक्षुश्च द्रष्टव्यं	प्रउ.	१५०८
चक्षुश्च श्रोत्रं च	ऋसंखि.	३०७
चक्षुष आदित्यः	ऐउ.	५८१
चक्षुषः पिता म	ऋसं.	१८५
चक्षुषश्चक्षुर	तब्राउ.	१३७४
चक्षुषऽचीयन्त	शाब्रा.	३२०
चक्षुषाऽऽदित्यम्	३३०	३३०
चक्षुषा रूपाणि	तब्राउ.	१३८७
चक्षुषा वै सम्राट्	बृउ.	११८४
चक्षुषाऽशंसन्	शाब्रा.	३२०
चक्षुषा सर्वाणि	कौउ.	६६७
चक्षुषा सृष्टौ धौ	ऐउ.	५४०
चक्षुषाऽस्तुवत	शाब्रा.	३२०
चक्षुषा हि तद्वि	बृउ.	१०४२
चक्षुषा हि रूपा	११२३,	११७४
	११७४	११७४
चक्षुषा हि समे	१२८६	१२८६
चक्षुषा ह्ययं मा	मैउ.	१६५८
चक्षुषा ह्ययमा	शाब्रा.	१५३
चक्षुषि तुयस्या	छाउ.	८८१
चक्षुषी उपदि	शाब्रा.	४१
चक्षुषीति	बृउ.	११७४
चक्षुषी युक्ते	ऐउ.	५७५

चक्षुषेति	कौड.	६३८	चतुर्होतार आप्रि	असं.	४४८	चन्द्रमसैवायं	वृड.	११९१
चक्षुषे स्वाहा सं	वृड.	१३०२	चतुर्होतारं प्र	तैआ.	२६७	चन्द्रमसो विद्यु	छाड.	८४०,
चक्षुषेषु ग्रहा	शब्रा.	३२०	चतुर्होतारो य	,	"			८६१
चक्षुषोद्गात्रा दी	तब्राड.	१३४९,	चतुर्होतृणामा	,	२६८	चन्द्रमसो वै वृ	ऐब्रा	१५२
		१३५२	चतुश्चत्वारिंश	छाड.	८१५;	चन्द्रमा अङ्गाराः	जैब्रा.	४०४;
चक्षुषो रूपं रूप	ऐड.	६२१		तब्राड.	१३६८	छाड.	८५८; वृड	१२९६
चक्षुश्चेतदात्म	छाड.	८७५	चतुष्कपर्दा यु	ऋसं.	२३५	*चन्द्रमा अङ्गारा	वृड	१२९५
चक्षुष्मते शुण्व	ऋसं.	३६०;	चतुष्टयं युज्य	असं.	२४४	चन्द्रमा अथका	छाड.	७७३
तैआ. ४१३; नाड.	१६४५		*चतुष्टोममद	क्रासं.	१६२	चन्द्रमा अमः	,	७६०
चक्षुष्मान्भवती	शब्रा.	३२९	चतुष्टोमो अभ	तैसं.	"	चन्द्रमा अमावा	तब्राड.	१३३९
चक्षुष्यः श्रुतो भ	छाड.	८०५	चतुष्पाच्चक्रं द्वि	असं.	१७४	चन्द्रमा अस्मै पू	ऐड.	५४०
चक्षुस्तृप्तमादि	शाआ.	४७२;	* " "	"	४७७	चन्द्रमा आहुत	शब्रा.	३८
	कौड.	६९०	चतुष्पादिदम	शिखाड.	१६८२	चन्द्रमा इवादि	ऐड.	६१६;
चक्षुस्ते मयि जु	"	६४३	चतुष्पादेति द्वि	ऋसं.	४७७	कौड.	६८८	
चक्षुस्ते मयि द	"	६५५	चतुष्पाद् भूत्वा भो	असं.	२५०	चन्द्रमा उत्तर	"	६८४
चक्षुस्ते विदित	शब्रा.	४१	चतुश्चिंशता पु	ऋसं.	६२	चन्द्रमा एव स	गोब्रा.	११९
चक्षुस्त्वा एतद्वै	"	"	चतुरात्रः पञ्च	असं.	४४७	चन्द्रमा एव हि	तब्राड.	१३३९
चक्षुस्त्वाऽऽहास्यद्य	"	"	चत्वारः पुरुषा	ऐड.	६१३;	चन्द्रमा एवास्य	वृड.	११९१
चतस्र आशाः प्र	तैब्रा.	२५९		कांड.	६८८	चन्द्रमाः शान्तिः	तैआ.	५१९
चतस्र ऊर्जं दु	ऋसं.	३४६;	चत्वारि ते असु	ऋसं.	६१	चन्द्रमाः साम	छाड.	७६०
	तैब्रा.	३४७	चत्वारि वाक्परि	"	२२६,	चन्द्रमा नक्षत्रा	तब्राड.	१३३५
चतस्रश्चतस्रो	तैड.	६९७	३४६; तैब्रा. ३४९; शब्रा. ३५०;			चन्द्रमा निधनम्	छाड.	७८४
चतस्रो दिशः	शब्रा.	४०७	तब्राड. १३३२, १३४१			चन्द्रमा भूत्वाऽर्ध	जैब्रा.	२०२
*चतुःशिखण्डा यु	तैब्रा.	२३५	चत्वारि शृङ्गा इ	क्रा.	१२	चन्द्रमा मनः	ऐड.	५३५
चतुर्मग्निं च सं	तैआ.	४१०	चत्वारि शृङ्गा च	"	"	चन्द्रमा मनसि	शाआ.	४७२;
चतुरः कुम्भाश्च	असं.	३७१	चत्वारि शृङ्गा त्र	ऋसं.	११;	कौड.	६९०	
चतुरक्षरः प्र	शब्रा.	३००		नाड.	१६३६	चन्द्रमा मनसो	ऋसं.	२३३
चतुरुत्तराणि	"	३५	चत्वारि शृङ्गिति	गोब्रा.	१२	चन्द्रमा मनो भू	ऐड.	५८३
चतुरो वेदान	शिड.	१५७४	चत्वारोमानि च	तब्राड.	१३३९	चन्द्रमा मे मन	तैब्रा.	२६०
चतुर्गौडुम्बरो	वृड.	१३०४	चत्वारो हि तस्य	शब्रा.	२९२	चन्द्रमा वा अमा	ऐब्रा.	१५२
चतुर्जालं चतु	मैड.	१६५५	चत्वारो हि प्राणो	तब्राड.	१३५०,	चन्द्रमा वै भर्गः	तब्राड.	१३८८
चतुर्जालं ब्रह्म	तैआ.	२६५			१३५१	चन्द्रमा वै वरे	"	"
चतुर्णां वेदाना	गोब्रा.	५२४	चत्वारो हैवाऽस्या	"	१३५१	चन्द्रमा वै हिङ्गा	"	१३३०
चतुर्थं मे नाम	शाब्रा.	१५०	चत्वार्यन्यानि च	"	१३३९	चन्द्रमा श्वतुर्ध	तैआ.	४१०
चतुर्दशान्ये म	ऋसं.	२३६	चन्द्र एव सवि	"	१३८७	चन्द्रमास्तृप्तो न	शाआ.	४७२;
चतुर्धा रेतो अ	असं.	४३५	चन्द्रः कला	छाड.	८३३	कौड.	६९०	
चतुर्धाऽवस्थित	शिखाड.	१६८२	*चन्द्रज्योतिः सप्त्रा	शब्रा.	११९१	चन्द्रमा ह्यादित्या	शब्रा.	४३
चतुर्नमो अष्ट	असं.	१२९	चन्द्रमसं ह्यादि	"	४२	चन्द्रलाकेषु गा	वृड.	११४५
चतुर्भागो ह वै	तब्राड.	१३३२	चन्द्रमममिति	तब्राड.	१३६३	चन्द्रां प्रभासां य	ऋसंखि.	५००
चतुर्भिः साकं न	ऋसं.	९०	चन्द्रमसमेव	शब्रा.	४०८	चन्द्रां हिरण्मयीं	"	४९९,
चतुर्विंशतिर	शब्रा.	३६	चन्द्रमसा वाव	तैड.	६९७	५०१		
चतुर्विंशत्यक्ष	छाड.	८१४;	चन्द्रमसा ह्यादि	शब्रा.	४३	चन्द्राय स्वाहा	असं.	३९९
तब्राड. १३३४, १३६८			चन्द्रमसि तृप्य	छाड.	८८१	*चन्द्रैणैवायं ज्यो	वृड.	११९१
चतुर्विंशत्यर्थ	तब्राड.	१३६६	चन्द्रमसे स्वाहा	नाड.	१६४८	चन्द्रो मा तत्र न	असं.	३९९

ना. १६३३
अमं. ४३७
स्थण्डि
स्नावा
मे
न ऋ
प्रचा
जं भ
ध्वं
तयि
ठा
हृत्सु
संक
षामे
म्
स्वेति
ह स
प्रसा
भूयो
सं
लोका
तिम्
नां के
नामु
असं. १७२; ऐउ. ६१३;
क
वान् म
गाह्या
गर्ग्या
हन्वोः
मुद्र
श
य
व
नव
वृह
छ
नासीट्र

कौउ. ६८८
गोब्रा. ५२४
नाउ. १६४४
तब्राउ. १३३५
कामं. १६१
असं. २३५
ऋसं. २३२
असं. ३६९
श्वेउ. १६०५
गोब्रा. ११९;
तब्राउ. १३८७
शब्रा. ३५
नाउ. १६४३
कौउ. ६८९
तब्राउ. १३५२
तैउ. ६९५
तैब्रा. ४६३
असं. २३२
ऐउ. ५३७
काउ. १४१०
ऐउ. ६१६
असं. ८५
शब्रा. ४२
ज
जगता सिन्धुं दि ऋसं. २१७
जगती छन्द आ शब्रा. ३०
जगती छन्दो वै तैसं. २८१
जगतीसहस्र ऐउ. ५६५
जगद्धितं वा ए शिरउ. १६७८
काउ. १३९९
मुउ. १४५१
कासं. ३१४
असं. २४४
तैसं. ५१४
ऋसं. १८
असं. ५०९
मैसं. १६६
वृउ. ११८९
कौउ. ६७४;
वृउ. १०६६
१११५,
११८१, ११८६

जनिताभ्रैर्जनि ऋसं. ७२
जनो गन्तव्यः मैसं. १६६
जनो ह वै प्रजा जैब्रा. २८६
जन्मनिरोधं प्र श्वेउ. १५९९
जबाला तु नामा छाउ. ८३१
जमदग्निमकु तैआ. २६२
जयको लौहित्यः तब्राउ. १३६८
जयति स्वर्गं लो तैआ. २६६
जयन्तः पाराश तब्राउ. १३६७
जयन्तो वारक्यः , ,
जयन्तो वारक्यो , , १३६७,
१३७२
जरा खाल्यं पा असं. ३११
जलमिति भस्म शिरउ. १६८०
जल्पितं त्वेव दि तैआ. १८०
जहामि रिप्रं प तैब्रा. ४८९
जहाम्यन्यं न ज , , ४७८
जहि स्वं काम म असं. ३३९
जहि शत्रूँरप नाउ. १६३३
जागतं छन्दः गोब्रा. ५२४
जागतं तृतीय छाउ. ८१५;
तब्राउ. १३६८
जागरितस्थानो नाउ. १५२१,
१५२७
जाग्रत्स्वप्नसुषु कैउ. १६७६
जात एव न जा वृउ. ११७९
जातमेवैनमे शब्रा. ४६५
जातवेद एत तब्राउ. १३८०
जातवेदसे सु नाउ. १६३४
जातस्य च यच्चा ऋसंखि ४८६
जातान्यन्नेन व तैउ. ७१४
जातूकर्ष्य आसु वृउ. १११४,
१२६५
*जातूकर्ष्यो भार , , १११४,
१२६५, १२६६
जानूष्ठिरम्य प्र ऋसं. ५१
जातेऽभिमुपस वृउ. १३०९
जातो व्यख्यतिप्रो असं. ४८
जानश्रुतिर्ह पौ छाउ. ८२२;
परि. १५५०
जानाम्यहं शैव काउ. १४०१

*जीनातादेन म
जावालायनो मा
जायन्तीपुत्रो मा
जायमानो वै ब्रा
जाया तप्यन् कि
जाया पूर्वरूपम्
जित इन्वसाव
जिनौ विश्वस्य भु
*जिष्णुर्ह वा अप
जिष्णुर्ह वाऽपरा
जिष्णु रथेष्टाः स
जिष्णुशिरसं वा
जिह्वया हि रसा
जिह्वयेति
जिह्वां समिधम्
जिह्वाप्रदेशे त्र्य
जिह्वा तं मरिच्य
जिह्वा मे भद्रं वा
जिह्वा मे मधुम
जिह्वाऽर्चिः
जिह्वावान्बाध्यो
जिह्वा वै प्रहः
जिह्वा संधानम्
जिह्वैवास्या एक
जीमूता आसन्त्स
जीमूतान् प्रस्ता
जीवतां ज्योतिर
जीवति चक्षुर
जीवति बाहुच्छि
जीवति मनोपे
जीवति वागपे
जीवति श्रोत्रापे
जीवत्यूरच्छिन्न
जीवलक्ष ह का
जीवलां नधारि
जीवाक्षरेणैव
जीवा ज्योतिरशी
जीवातवे न मृ
जीवापेतं वाव
जीवाहा जीवाक्ष
जीविष्यामो याव
जीवेभ्यस्त्वा समु

तसि. ,
वृउ. १२६५
,, १३१०
तैसं. ४२०
ऋसं. ४८५
ऐउ. ६०८;
कौउ. ६८६
वृउ. १२७१
ऋसं. ७३
कौउ. ६७६
,, ,
तैसं. ५१४
ऐउ. ६१६
वृउ. ११२२
कौउ. ६३८
श्रा. ४०९
मैउ. १६६८
असं. ४४०
कासं. ३१४
तैउ. ६९५
छाउ. ८५९
वृउ. १३११
,, ११२२
तैउ. ६९४
कौउ. ६६८
असं. ४२४
तब्राउ. १३३३
असं. ३८०
कौउ. ६६४
,, ६६५
,, ,
,, ६६४
,, ,
,, ,
,, ६६४
,, ,
,, ,
,, ६६५
जैब्रा. ३२७
असं. ३८१
ऐउ. ५७५
तैब्रा. ३१७
ऋसं. ३६६
छाउ. ११९
ऐउ. ५७५
काउ. १३९७
असं. ३७९

जीवेयं प्रजा मे
जीवो मृतस्य च
जुषतां मे वागि
जुष्टं यदा पश्य
जुहु वां गच्छ य
जुहुर्दाधार या
जुहोमि ते धरु
ज्ञपयते स प्र
ज्ञाज्ञौ द्वावजावी
ज्ञात्वा तं मृत्युम
ज्ञात्वा तमेवं म
ज्ञात्वा देवं सर्व
ज्ञाननिर्मथना
ज्ञानप्रसादेन
ज्ञानमात्मनि म
ज्यायसः शःसादु
ज्यायानस्यै पृथि
ज्यायानाकाशात्
ज्यायान्तस्वर्ग्यो भू
ज्यायान्दिवः
ज्यायान्निमिषतो
ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं
ज्येष्ठतस्ते प्रजा
ज्येष्ठराजं ब्रह्म
ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च
ज्येष्ठश्च ह वै श्रे
ज्येष्ठाय नमः
ज्येष्ठाय स्वाहा श्रे
ज्येष्ठो ह वै श्रेष्ठः
ज्येष्ठयाय श्रेष्ठयाय
ज्योक्च सूर्यं दशे
* , , ,
ज्योक् ते संदृशि जी
ज्योक् पर्येयं सूर्यं
ज्योर्जीवति
ज्योतिरश्नादम्
ज्योतिरसि

ज्योतिरसि तदा
ज्योतिरेव ज्योतिः
ज्योतिर्ज्वलति ब्र
ज्योतिर्यज्ञस्य प
ज्योतिर्वसाने स
ज्योतिर्वा एतत्
ज्योतिर्वायौ प्रति
ज्योतिश्च वायुश्च
ज्योतिषस्तमः
ज्योतिषाऽऽपोऽभिप
ज्योतिष्मतो लोका
ज्योतिष्मतो ह लो
ज्योतिष्मद्भ्राजमा
ज्योतिष्मान् पक्षी म
ज्योतिष्यापः प्रति
ज्योतीरूपमय
ज्योतीरूपमसा
ज्योतीरूपमसौ
ज्वलति स उद्गी
ज्वलदसि
ज्वललिङ्गाय न
ज्वलाय नमः
ज्वलिष्याम्येवाह
ज्वालमालाकुलं
ज्वालायनः शाट्ट्या
ण
णेत्यस्य मर्त्यम
त
त आगमन्तु त
त आयजन्त द्र
त आववृत्रन्त्स
त आसं जन्यास्ते
त इदममृत
त इद्धाः सप्त ना
त इन्द्रमब्रुव
त इमं रसं दे
त इमममृत
त इमां पुरुषे
त इमामेव पृ
त इमे द्यावापृ
त इमे पथर्त

श्रा. ५१६
ऋसं. २१९,
३५३
तैब्रा. ३१७,
३४८
मुउ. १४७१;
श्वेउ. १६०५
असं. ३९४
,, ३९३
ऋसं. ३४३
छाउ. ७८१
श्वेउ. १५८०
कैउ. १६७५
नाउ. १६५१
श्वेउ. १५८२
कैउ. १६७५
मुउ. १४७९
काउ. १४१६
तैब्रा. ४८७
श्रा. २६१
,, ,
,, ,
,, ,
असं. ३४०
,, २४७
,, ४३८
ऋसं. १८८
वृउ. १२८६
शाआ. ३३१
नाउ. १६४१
वृउ. १३०२
श्रा. १५४
शाआ. ३३१
ऋसं. १५५;
तैआ. ५२०
तैआ. ५१५
शुसं. ,
ऋसं. ३६४
छाउ. ७८१,
७८२, ७८३, ७८४, ८३७
तैउ. ७३९
वृउ. १३०३

जैब्रा. ४०४
नाउ. १६३४
ऋसं. ७१
असं. १७३
तब्राउ. १३४२
गोब्रा. १२०
ऐउ. ५५७
श्रा. ५१८
गोब्रा. ११९
असं. ४७४
छाउ. ८३३
तैआ. ४२०
असं. १७२
तैउ. ७३९
वृउ. १०५३
,, १०५४
,, ,
छाउ. ७८१
वृउ. १३०३
नाउ. १६४१
,, ,
वृउ. १०६२
नाउ. १६४०
तब्राउ. १३७२
तब्राउ. १३७१
ऐउ. ५२५
ऋसं. १८६
असं. १७३,
ऋसं. २२७
असं. ३०७
श्रा. ३२८,
४६४
,, २९१
तब्राउ. १३३६
,, १३३२
श्रा. ४६४
तब्राउ. १३६६
श्रा. २९९
तब्राउ. १३४४
श्रा. २९८

९१८	तं जायमानं घो	छाउ.	८२२
८६५	तं जायोवाच	७६९,	८३५
शब्रा.	४६४		
तब्राउ.	१३७२	*तं ज्ञान्वा मुच्यते	काउ.
१३५७	तं ज्योतिः सन्तं ज्यो	शाब्रा.	३४७
शब्रा.	२९५	तं नं लोकं जय	मुउ.
तब्राउ.	१३३९	तं तथैव कुर्वन्	तब्राउ.
१३६४	तं तथैवागतं	१३६२	
४६४	तं तथैवाऽऽगत	१३६१,	१३६३
७९६,	तं तृतीयमभ्या	शाब्रा.	१५०
७९७	*तं ते गर्भं दधा	वृउ.	१३०९
वृउ.	१०६१	तं ते गर्भं हवा	११८
शब्रा.	२९१	तं ते विष्याभ्यागु	शब्रा.
तब्राउ.	१३३४	तं त्रिष्टुप् छन्दोऽन्व	ताब्रा.
ऐउ.	५५९	तं त्वा गृणामि त	ऋसं.
ऋसं.	४९२	तं त्वा देवासोऽज	२
वृउ.	१०५४;	तं त्वा पृच्छामि क्वा	प्रउ.
तब्राउ.	१३३२	तं त्वा भग प्रवि	तैउ.
१३५२	तं त्वा मन्यो अक्	ऋसं.	३४२
प्रउ.	१४९३	तं त्वा स्तोमभिरु	५०
तब्राउ.	१३३६	तं त्वाऽहं तथा वे	तैब्रा.
कौउ.	६४१	तं त्वाहम मति	ऋसं.
वृउ.	१००१	तं त्वौदनस्य पृ	असं.
तब्राउ.	१३७९	तं त्वोपनिषदं	वृउ.
गोब्रा.	५२३	तं दितिश्चादिति	असं.
तब्राउ.	१३३५	तं दिवमभिप्र	तब्राउ.
१३५९	तं दिव्यान् गन्धर्वा	१३६३	
१३५५	तं दिशोऽभिप्रव	१४०२	
८२९	तं दुर्दर्शं गूढ	ऐउ.	५४७
शब्रा.	३९	तं देवा अनुव	तैब्रा.
ताब्रा.	२८३	तं देवा अनुवन्	ऐउ.
तब्राउ.	१३५०	५३४, ५४५; तब्राउ.	१३५३
शाब्रा.	१५०	तं देवाः प्राणय	ऐउ.
तब्राउ.	१३६३	तं देवाः सर्वे अ	परि.
छाउ.	८१५	*तं देवा ज्योतिषां	काउ.
९३८	तं देवानभिप्र	वृउ.	१२४२
९५४	तं देवा बृहस्प	तब्राउ.	१३६३
वृउ.	११७७	तं देवा भक्षय	१३५१
ताब्रा.	२८४	तं देवाश्चक्रिरे	छाउ.
			वृउ.

तं द्वितीयमभ्या	शाब्रा.	१५०
तं द्विषन्तं भ्रातृ	जैब्रा.	४०६
तं धूम इति प	४०५	
तं न कश्चन पा	छाउ.	९६७
तं न निर्जनन्ति	ऐब्रा.	१५२
*तं न पश्यति	वृउ.	१०२२
तं न पश्यन्ति	१४५०	
तं नयन्त्येताः सू	मुउ.	१४५०
तं न शयाना ना	तब्राउ.	१३३४
तं नातीयात्	ऐउ.	५२७
तं नायतं बोध	वृउ.	१२०१
तं नैव हस्ताभ्यां	तब्राउ.	१३५४
तं नो ब्रूहीति	शब्रा.	३९
तं नो भूमे रन्ध	असं.	५०७
तं पञ्चममभ्या	शाब्रा.	१५०
तं पञ्चशतान्य	कौउ.	६३४
तं पत्नीभिरनु	तैसं.	२३
तं परेण मृत्युं	तब्राउ.	१३५०
तं पाकेन मन	ऋसं.	२३५;
ऐउ.	६०७; कौउ.	६८६
तं पाणावादायो	वृउ.	१०७१
तं पाणिनापेयं	१३५३	
तं पाप्माऽन्वसृज्य	तब्राउ.	१३४९,
तं पिताऽनुमन्त्र	कौउ.	६५५
तं पुष्यं गन्धं ग	असं.	१६४
तं पुरस्तात्प्रत्य	तब्राउ.	१३८६
तं पुरुषः प्रजा	१३४४	
तं पृथग्लक्षण	मैउ.	१६६२
तं प्रजापतिर	शब्रा.	२९६;
तं प्रजापतिश्च	तब्राउ.	१३३६
तं प्रतिश्रूयात्	असं.	४५३
तं प्रतिरूप इ	जैब्रा.	४०५;
तं प्रपदाभ्यां प्रा	कौउ.	६३०, ६३७
तं प्राणिनोपस	तब्राउ.	१३३७
तं प्रेतं दिष्टमि	ऐउ.	५३२
तं बृहच्च रथ	तब्राउ.	१३५०
तं ब्रह्मगन्धः प्र	छाउ.	८६१
तं ब्रह्मगिरिरि	असं.	४५०
	कौउ.	६३६
	ऐउ.	५४१

त ब्रह्मयज्ञः प्र
 तं ब्रह्मरसः प्र
 तं ब्रह्मा पृच्छति
 तं ब्रह्मालङ्कारे
 *तं ब्रह्माऽऽह कोऽसी
 तं ब्रह्माऽऽहाभिधा
 *तं ब्रह्मा हाभिधा
 तं भागं चित्रमी
 तं भूतिरिति दे
 तं भूमिश्चाग्निश्चौ
 तं मद्गुरुपनि
 तं मनसाऽख्येति
 *तं मनसाऽप्येति
 तं मनसोपस
 तं मर्तवोऽमृत
 *तं मह्यं ब्रूहीति
 तं मा देवा अव
 तं मा पुंसि कर्त

 तं मा भगवाञ्छो
 तं मामायुरमृ
 तं मासानभिप्र
 तं मे देवा ब्रह्मा
 तं यः प्रत्याह त
 तं यच्छतं वर्षा
 *तं यज्ञं प्रावृषा
 तं यज्ञं बर्हिषि
 तं यज्ञायज्ञियं
 तं यथायथोपा
 तं यदा न शृणु
 तं यदा लोकाना
 तं यदि स्वरेषू
 तं यद्देवा अब्रु

 तं रक्षांस्यन्वस
 तं रात्रीस्तिस्र उ
 तं वत्सा उप ति
 तं वरुणं मृस्यु
 तं वा अहं नार्वा
 ४३९, ४४०, ४४१
 तं वा एतं देवा
 तं वा एतं मुच्युं

त वा एतं सुव
 तं वा एतं हिङ्गा
 तं वा एनमङ्ग
 तं वा एनमाहुः
 तं वा एनमिन्ध
 तं वागन्ववद

 तं वागोव भूर्वा
 तं वाचोपसमै
 तं वायुमभिप्र
 तं वाव भगव
 तं विद्याकर्मणी
 तं विद्याच्छुक्रम
 तं विश्वे देवा दे
 तं वेद्यं पुरुषं
 तं वै नु त्वा परि
 तं वै प्रविशते
 तं वैरूपं च वै
 तं वो गृह्णाम्युत्त
 तं शतं वर्षाण्य
 तं श्यैतं च नौध
 तं श्रद्धा च यज्ञ
 तं श्रोत्रेणोपस
 तं षड्ढोतारमृ
 तं षष्ठमभ्याय
 तं संवत्सरम
 तं संवत्सरस्य
 तं सप्तममभ्या
 तं सभा च समि
 तं समन्तं पृथि
 तं समाप्नोति जू
 तं सर्वरूप इ
 तं स विदिवा
 *तं स होवाच
 तं सायूपचरेत्
 तं स्कन्द इत्याच
 तं स्त्री गर्भं वि
 तं स्वाच्छरीरात्प्र
 तं हृत्स उपनि
 तं ह कनीयान्भ्रा
 तं ह कश्यपो या
 तं ह कुमारस्य
 तं ह चिरं वसे

तं ह जीर्णिस्थ
 तं ह तन एव
 तं ह तत्रैव प
 तं ह त्रीन् गिरि
 तं ह स्वोकारल्ल
 तं ह देवमास
 तं ह न मेने शा
 तं ह नाऽऽद्वैते
 तं ह नाऽऽनूदति
 तं हन्ताभ्यागच्छा

 तं ह पप्रच्छ
 तं ह पप्रच्छ य
 तं ह पाणावभि
 तं ह पितोवाच

 तं ह प्रजापति

 तं ह प्रत्युवाच
 तं ह प्रवाहणो

 तं ह ब्रूयाद्दूरं
 तं ह य एवं वे
 तं ह यत्किंच प
 तं ह याचमानः
 तं हर्तव आन

 तं हर्तुनामेको
 तं ह वा एवंवि
 तं ह वै मनोज
 तं ह शिल्कः शा
 तं ह संग्रहीतो
 तं ह सप्राडेव
 तं ह स्म परिष्व
 तं ह स्म प्रतीक्ष
 तं ह स्मैतमेवं
 तं ह स्मोभयेऽमृ
 तं ह स्वर्गे लोके
 तं हागतं पृच्छ
 तं हाजितशत्रु

तत्राउ. १३३१
 गोब्रा. ३०४
 वृउ. १३१०
 ,, ११८७
 गोब्रा. ३०३,
 ३०४
 तत्राउ. १३५३
 ,, १३५०
 ,, १३६१
 ,, १३५८
 वृउ. १२२४
 काउ. १४४०
 तैसं. २८१
 प्रउ. १५१८
 तत्राउ. १३६४
 ,, १३५३
 असं. ४५०
 तैआ. १५८
 ऐउ. ५४४
 असं. ४५१
 ,, ४५३
 तत्राउ. १३५०
 तैआ. २६९
 शाब्रा. १५१
 तत्राउ. १३६२
 वृउ. ९९९
 शाब्रा. १५१
 असं. ४५३
 वृउ. ११३०
 असं. १७१
 तत्राउ. १३३७
 तैब्रा. २८
 काउ. ६७८
 तत्राउ. १३५४
 छाउ. ९५०
 ऐउ. ५९०
 काउ. १४४०
 छाउ. ८३०
 तत्राउ. १३५७
 शाब्रा. ४७१
 काउ. १३८९
 छाउ. ८५७
 तैब्रा. २८
 वृउ. ११९०
 तत्राउ. १३४८
 तैब्रा. २८
 मैउ. १६६३
 श्वेउ. १६२६
 वृउ. ११७७
 तत्राउ. १३५५
 ,, १३५७
 छाउ. ८७२,
 ८७३
 गोब्रा. ११८
 तत्राउ. १३४२
 काउ. ६७९
 छाउ. ८८२,
 ८८३
 ,, ९७४,
 ९७६
 तत्राउ. १३५५
 छाउ. ७६६,
 ८५६
 तत्राउ. १३५२
 तैआ. २६६
 छाउ. ९०३
 तत्राउ. १३६४
 जैब्रा. ४०३,
 ४०५
 ,, ४०४
 तत्राउ. १३५८
 जैब्रा. ४०५
 छाउ. ७६५
 तत्राउ. १३५७
 वृउ. ११८९
 तत्राउ. १३६४
 ,, १३५७
 गोब्रा. १२०
 शाब्रा. ४६४
 तत्राउ. १३५८
 जैब्रा. ४०३;
 तत्राउ. १३५९
 छाउ. ७५३
 काउ. ६७९

सुद	तब्राउ.	१३५६	तं होवाच हृप्या	”	”
य	”	१३४८	तं होवाच मृय	काउ.	१३८९
वा	”	१३६४	तं होवाच यं वै	छाउ.	९१९
”	”	१३५८	तं होवाच यत्रा	”	८२५
”	”	१३५७	तं होवाच यद्दो	”	९२०
यो	छाउ.	८५१	तं होवाच, यद्दो	”	९२७
होवा	तब्राउ.	१३५८	तं होवाचाजात	कौउ.	६७४,
प	कौउ.	६२७	६७५, ६७६, ६७७, ६७८,		६७९, ६८०
मुः	छाउ.	८७२,	तं होवाचाऽऽजाना	तब्राउ.	१३४२
”	”	८७३	तं होवाचात्र वा	छाउ.	९२०
”	”	८२५,	तं होवाचाननु	”	८५६
”	”	८२७	तं होवाचाऽयं म	तब्राउ.	१३६४
”	”	८२५	तं होवाचेति	मैउ.	१६५४
तब्राउ.	”	१३६९	तच्चक्षुः	छाउ.	८०४
पप्र	कौउ.	६२७	तच्चक्षुः श्रोत्रंम	शब्रा.	३२१
हृवा	छाउ.	७५२	तच्चक्षुर्देवहि	ऋसं.	५१५;
गाम	”	७५१	तैआ.	५२०; ऐउ.	६२६
”	बुउ.	११८९	तच्चक्षुर्वाचम	शब्रा.	३४७
”	जैब्रा.	४०३;	तच्चक्षुषाऽजिघृ	ऐउ.	५८४
”	तब्राउ.	१३५९	(तच्) चतुर्धा भ	तब्राउ.	१३४४
”	श्वेउ.	१६२६	तच्चतुर्मुखाय	मैसं.	१३४
”	कौउ.	६५६	तच्चतुर्विंशतिः	तब्राउ.	१३३४,
”	”	६५७			१३३६
”	शब्रा.	३२८	तच्चेत्वं याज्ञव	बुउ.	११४७
”	छाउ.	७६७	तच्छंयंरा वृणी	ऋसंखि.	४८१
तब्राउ.	”	१३५०	तच्छरीरस्य श	ऐउ.	५३३
”	बुउ.	१३०४	तच्छ्वस्त्वर्त्त	छाउ.	९२०
”	तब्राउ.	१३४९	तच्छान्तमशब्द	मैउ.	१६६६
”	”	१३३१	तच्छिरसः शिर	ऐउ.	५३३
”	”	१३४१	तच्छिरोऽश्रयत	”	”
”	”	१३७२	तच्छिन्नेनाजिघृ	”	५८५
”	शब्रा.	११८	तच्छुक्लं पुरुष	मैउ.	१६६५
”	”	”	तच्छुभ्रं ज्योतिषां	मुउ.	१४६६
”	”	”	तच्छीरित्युपासी	कौउ.	६४५
”	”	”	तच्छैयोरूपम	बुउ.	१०२६,
”	”	”			१०३८
”	”	”	तच्छ्रोत्रं कर्मात्	शब्रा.	३२१
”	”	”	तच्छ्रोत्रं वाचम	शब्रा.	३४७
”	”	”	तच्छ्रोत्रम्	छाउ.	८०४
”	”	”	तच्छ्रोत्रेणाजिघृ	ऐउ.	५८४

तज्ज्योतिः	मैउ.	१६५८
तज्ज्वलनाय वि	मैसं.	१३४
तत आगच्छन्	तब्राउ.	१३५२
तत आण्डं सम	शब्रा.	२९३,
		२९४. २९५
तत आदित्य उ	तैआ.	१५९,
		३०६
तत आदित्यम	तब्राउ.	१३४४
तत इदं सर्वं	”	१३७१
तत इन्द्रः	तैआ.	२६६
तत इमेऽध्यस्त	”	१६०,
		३०६
तत इहैकम्	छाउ.	७८०
तत उ एव स	जैब्रा.	४०५
*तत उ तं यष्टि	कौउ.	६७९
तत उदतिष्ठ	शब्रा.	१५०
तत उ ह बाला	कौउ.	६७८,
		६७९
तत उ हैनं य	”	६७९
तत ऋतूनस्त	तब्राउ.	१३४४
तत एकशफ	बुउ.	१०२०
तत एतं पर	शब्रा.	३००
तत एतत् तिर्य	तब्राउ.	१३४६
तत एतदर्वाह्	”	”
तत एतदूर्ध्व	”	”
तत एतन्नाम	ऐउ.	५५४
तत एव पव	मैउ.	१६६४
तत एव सत्य	छाउ.	९२४
तत एव स प	जैब्रा.	४०५
तत एवास्य म	बुउ.	१०१८
तत एवैनं य	तब्राउ.	१३३४
तत ओषधीर	”	१३४४
ततं तन्तुमन्वे	असं.	३७४
ततः कानीयसा	बुउ.	१००१
ततः क्षत्रं बल	तैआ.	२७१
ततः क्षरत्यक्ष	ऋसं.	२२५;
		तैब्रा.
		३४८
ततः पतिश्च प	बुउ.	१०१९
ततः परं ब्रह्म	श्वेउ.	१५९४
ततः परिष्वजी	असं.	२५०
ततः पशूनस्त	तब्राउ.	१३४४

ततः पूर्वं प्रति	मैउ.	१६६१
ततः पृथिवीम	तब्राउ.	१३४४
ततः प्रजा अस्तु	"	"
ततः प्रजापतिः	तैआ.	२६६
ततः प्राणोऽजाय	वृउ.	१०५४
ततः प्रातर्जाय	"	१०५५
ततः षष्ठादामु	असं.	१६१
ततः संवत्सर	तब्राउ.	१३४३
ततः संवत्सरे	शब्रा.	२९८
ततः समुद्रम	तब्राउ.	१३४४
ततः सर्वेषु लो	काउ.	१४३४
*ततः सर्वेषु लो	"	"
ततः सृष्टिरंभ	वृउ.	१०२०
ततश्चतुर्जालं	मैउ.	१६६३
ततश्चन्द्रमस	तब्राउ.	१३४४
ततश्चन्द्रमा अ	शब्रा.	२९५
ततश्चैनमन्य	असं.	४४२
ततश्चैनमन्य	"	४३९,
		४४०, ४४१, ४४२
ततश्चैनमन्ये	"	४३८,
		४३९, ४४०, ४४१
ततश्चैनमन्यैः	"	४४०
ततश्चैनमन्यै	"	"
ततस्व ऊर्ध्व व	छाउ.	९२५
ततस्वव्यथेह	शब्रा.	३३१
ततस्ववं जज्ञिषे	असं.	४३५
ततस्वमसि ज्या	"	३४०
ततस्ववा ब्रह्मोद	"	४३५
ततो गावोऽजाय	वृउ.	१०२०
ततोऽग्निमसृज	तब्राउ.	१३४४
ततोऽजावयोऽजा	वृउ.	१०२०
ततो देवमसृ	तब्राउ.	१३४४
ततो दिशोऽसृज	"	"
ततो देवमनु	तैआ.	१६०,
		३०६
ततो देवा अभ	वृउ.	१००४
*ततो देवानां नि	तैस.	१९६
ततो देवानां स	ऋसं.	"
ततो देवास्तनी	शब्रा.	४६४
*ततो धर्माणि धा	तैआ.	८७
ततो निरात्मक	मैउ.	१६६१
ततो नैकंचन	वृउ.	१२९३
ततो ब्रह्मा जन	शब्रा.	४०९

ततो भूय इव	वृउ.	१२४०१
	ईउ.	१३२१, १३२३
ततो मध्यममा	तैआ.	४१०
ततो मनुष्या अ	वृउ.	१०१९
ततो मया नाचि	काउ.	१४०१
ततो मा यदि किं	तैआ.	४८९
ततो मासानर्थ	तब्राउ.	१३४४
ततो मृत्युना पा	"	१३३५
ततो मे श्रियमा	तैउ.	६९५
*ततो यदि त्वा प्रा असं.	तैआ.	४८९
ततो यवुत्तर	श्वेउ.	१५९६
ततो याः प्रजाः सृ	जैआ.	२८६
ततो यानि सप्त	शब्रा.	३४,
		३५
ततो योषामौ जा	वृउ.	१३००
*ततो योषामौ त	"	"
ततो योऽस्य भर्गा	मैउ.	१६५९
*ततो रात्रिरजा	नाउ.	२७९
"	"	१६६३
ततो गन्धजाय	ऋमं.	२७९
ततोऽरुणाः केत	तैआ.	१५९,
		३०६
ततो वनस्पती	तब्राउ.	१३४४
ततो वर्यस्यसृ	"	"
ततो वा अभिरु	तैआ.	१५९,
		३०६
ततो वा इन्द्र उ	"	१६०,
		३०६
ततो वायुमसृ	तब्राउ.	१३४४
ततो वायुरद	तैआ.	१६०,
		३०६
ततो वि निष्ठे भु	ऋमं.	२३८
*ततो विराडजा	सामं.	२३१
ततो विष्वङ् व्यक्रा	ऋसं.	"
ततो वै तस्मै व्यौ	ताब्रा	२८५
ततो वै ते स्वर्ग	तब्राउ.	१३७२
ततो वै देवा अ	"	१३४४
ततो वै पूषोद	तैआ.	१०६,
		३०६
ततो वै यूयमे	तब्राउ.	१३४४
ततो वै सदजा	तैउ.	७२५
ततो वै स प्रत्य	तैसं.	१५७,
		२८१

ततोऽश्वः समभ	वृउ.	१९९
ततोऽसावादित्यो	शब्रा.	२९४
ततोऽसुरा अति	जैआ.	२०२;
	शब्रा.	४६५
ततो ह कहोलः	वृउ.	११३६
*ततो ह कहोलः	"	"
ततो ह गार्गी वा	"	११४५
*ततो ह जज्ञे भु	तैआ.	४६१
"	"	४६३
ततो ह जारत्का	वृउ.	११२६
ततो ह भुज्युर्ला	"	११३०
ततो ह वाचक्र	"	११६६
ततो ह वै ते दे	शिरउ.	१६७७
ततो ह होनाऽश्व	वृउ.	११२०
ततो हिरण्मयी	तब्राउ.	१३४७
ततो ह वै विदां	"	१३८२
ततो ह वै स्तोमं	"	१३५६
ततो होद्वालक	वृउ.	११५४
ततो होषस्तथा	"	११३३
ततो होव तान्प्र	शब्रा.	२९९
तत्कराटाय वि	मैसं.	१३४
तत्कर्म कृत्वा वि	श्वेउ.	१३१८
तत्कर्मणा करो	तैआ.	१५८,
		३०५
तत्कर्माग्निमसृ	शब्रा.	३२१
तत्करणं सांख्य	श्वेउ.	१६२३
तत्प्रमाराय वि	मैसं.	१३४
तत्केशवाय वि	"	"
तत्त आ वर्तया	ऋसं.	३६२,
		३६३
तत्त एव स	कौउ.	६५३
तत्ततो वक्रिय	शब्रा.	२९७
तत्तथा न कुर्यात्	तब्राउ.	१३६०
तत्तथा न गाये	"	१३३६
तत्तथैवाऽकुर्वन्	"	१३४८
तत्तदिदम्य पौ	ऋमं.	९०
तत्तपस्व	शोआ.	११९
तत्तपोऽतप्यत	शब्रा.	३१९,
		३२०, ३२१
तत्तारकाणां ता	तैआ.	२८७
तत्तेज इत्युपा	कौउ.	६४५
तत्तेज ऐक्षत	छाउ.	८९०
तत्तेजोऽसृजत	"	"

मैसं. १३४
 मैसं. १६६६,
 १६६७
 बृज. १२८४;
 १३२५; मैसं. १६६५
 रा असं. ३९७
 गृक्षत् ऐउ. ५८५
 त छाउ. ९१३,
 ९१८, ९१९, ९२०,
 ९२१, ९२३, ९२४
 मि या बृज. ११२९
 वि तैउ. ७२५
 तत् ताब्रा. २८५
 य मैसं. १३४
 ऋसंखि. ३३६;
 शिउ. १५७३
 शब्रा. ३०२
 तब्राउ. १३५३
 मैउ. १६५७
 " "
 तब्राउ. १३३३
 " १३४९,
 १३५२, १३५३
 पुत्र गोब्रा. ३०३
 तब्राउ. १३३४
 पु तैआ. १५९,
 ३०६
 मैसं. १३४;
 उ. १६३१, १६३२, १६४१
 मान छाउ. ८४०,
 ८६१
 तैब्रा. २८७
 तैसं. १५७,
 २८२; तैब्रा. २८७
 गोब्रा. ३०४
 तैउ. ७४०
 तब्राउ. १३४६
 " १३५७
 छाउ. ७५८
 " "
 ऐउ. ५३३
 बृज. १२८२

तत्प्राणे प्राताष्ठ
 तत्प्राणे प्रपन्न
 तत्प्राणेभूःक्रान्ते
 तत्प्राणे अभि र
 तत्प्राणे वै गाय
 तत्प्रातरभवत्
 तत्प्राय तदम्
 *तत्प्राय यदम्
 तत्प्रामूर्च्छत्
 तत् फलमभवत्
 *तत्र कः शोकः को
 तत्र को मोहः कः
 तत्र गच्छ यत्र
 तत्र गावः कित
 तत्र चित्तं निधा
 तत्र ता ऋचः
 तत्र ते पृथग्ध
 तत्र तेऽयोनिजा
 तत्र त्वं पितृभिः
 तत्र त्वादित्यौ र
 तत्र न्यस्यन्ते वा
 तत्र परमहं
 तत्र बुद्धयादीनि
 तत्र भगेन सं
 तत्र महर्षयः
 तत्र योनिं कृण
 तत्र शिश्रियेऽज
 तत्र ह कुरुष
 *तत्र ह कुरुषा
 तत्राऽऽगतमह
 तत्राऽऽनन्दी मोदी
 तत्रापरं, ऋषे
 तत्रायमन्तरे
 *तत्राहतास्त्रिणि
 " "
 तत्रेदं कुरु य
 तत्रेदं सर्वम
 तत्रेदमेव पू

तत्रैतदेव शु १०८
 तत्रैतान् पर्वता असं. १७०
 तत्रैतावन्नी आ
 तत्रैते द्वे ऋचौ
 तत्रैते श्लोकाः
 तत्रैव कुरु य
 तत्रोद्गातृनास्ता
 तत्रोप ब्रह्मा यो
 तत्षट्त्रिंशत् स
 तत्संपिबन्तो न
 तत्संभवस्य व्र
 तत्संवत्सरं प्रो
 तत्संवत्सरस्य
 तत्संवत्सरस्या
 तत्सत्यम्
 छाउ. ९०८, ९१३, ९१८, ९१९,
 ९२०, ९२१, ९२३, ९२४
 तत्सत्यमर्चदु तैब्रा. ४१९
 तत्सत्यमित्याच तैउ. ७२०
 तत्सत्यानृते मि ऐउ. ५६९
 तत्सत्ये प्रत्यति गोब्रा. ११९
 तत्सत्त्वमेवेरि मैसं. १६५७
 तत्सदासीत् छाउ. ८२१
 तत्ससमेन प्र जैब्रा. ४०६
 तत्ससविधं सा तब्राउ. १३६५
 तत्समभवत् छाउ. ८२१
 तत्समम् " ७८०
 तत्सममेव भ " "
 तत्सर्पिर्भवति " ९०२
 तत्सर्वे आत्मा वा शब्रा. ३४७
 तत्सर्वे सीव्यति तैब्रा. २९
 तत्सर्वम् ऐउ. ५६३
 तत्सर्वमाप्नोति शब्रा. ३०२
 तत्सर्वेषु भूते " ४७१
 तत्सर्वोऽमिलोक " ३२,
 ३३, ३४, ३५, ३६, ३८
 तत्सवितुर्वरे ऋसं. ९५;
 गोब्रा. ११९; शाआ. ३३१;
 मैसं. १६५९, १६६४

३३२; छाउ. ८५५
 तन्मावितृप्रसू शब्रा. २०३
 तन्नाम छाउ. ७६०,
 ७६३
 तत्सामेत्युपासी कौउ. ६४५
 तत् मान्न एवा प्र तब्राउ. १३४१
 तत्सथमभवत् ऐउ. ५३५
 तत्सुकृतदुष्क कौउ. ६३५
 तत्सूक्तमभवत् ऐउ. ५४७
 तत्सूर्यो रश्मिभि मैउ. १६६६
 तत्सृष्ट्वा तैउ. ७२०
 तत्सोमराजाय मैसं. १३४
 तत्स्तोमसहस्रं ऐउ. ५६३
 तत्स्त्रिया आत्मभू ,, ५९०
 तत् स्त्रियै प्रजन जैब्रा. ४०३
 तत्स्थो भुङ्क्त इति मैउ. १६६०
 तथर्षाणाम् वृउ. १०२९
 तथाक्षराद्विवि मुउ. १४५३
 तथा तत्प्रयोग मैउ. १६६१
 तथा तत्र वर्ते तैउ. ७०४
 तथा तदस्य का शब्रा. ४६८
 तथा तु व एना ,, ४१
 तथा तेषु वर्ते तैउ. ७०४
 तथा त्वं काम म असं. ३४०
 तथा नस्त्वं गौत वृउ. १२९४
 तथा नस्त्वं तात ,, १२९३
 तथा नोऽनुशाधि तब्राउ. १३३४,
 १३७२
 *तथा न्यकामद्वि असं. २३१
 तथा भगव इ तब्राउ. १३६४
 तथा मनुष्याणाम् वृउ. १०३०
 तथाऽमुष्मिल्लोके छाउ. ७६७
 तथा यदि तस्या ,, ९२४
 तथा विद्वान्नाम मुउ. १४८६
 *तथा विष्वङ् व्यक्रा सासं. २३१
 तथा समापयि कौउ. ६५५
 तथा सोम्येति ह्यो छाउ. ८८७,
 ९०१, ९०२, ९१३, ९१७, ९१८,
 ९१९, ९२०, ९२१, ९२३
 तथाह तथाह गोब्रा. २२४
 तथा ह न बहि तब्राउ. १३३१
 तथा ह सर्वं न ,, १३४८
 तथा ह सर्वमा ,, १३४१

तथा ह्वैव तद्भू कौउ. ६८६
 तथा ह्वैव भव तब्राउ. १३५३,
 १३५४
 तथा ह्वैव स्यात् ,, १३३१
 तथाति शब्रा. २०३,
 ३०१; छाउ. ७७०; वृउ. १२८८;
 तब्राउ. १३३४, १३३६, १३४४,
 १३४५, १३४६, १३७०, १३८०,
 १३८१
 तथेति तं सम वृउ. १००९
 तथेति तदभ्य तब्राउ. १३८१
 तथेति तेभ्य ए वृउ. १००४
 तथेति तेभ्यः प्रा ,, ,,
 तथेति तेभ्यः श्रो ,, ,,
 तथेति तेभ्यश्च ,, ,,
 तथेति तेभ्यो म ,, ,,
 तथेति तेभ्यो वा ,, १००३
 तथेति ह यज छाउ. ७७०
 तथेति ह समु ,, ७६५
 तथैवैतद्यज शब्रा. ९३,
 ४०७, ४७१
 तथो एवामै स कौउ. ६४१
 तथो एवैवं वि ,, ६४५,
 ६५३, ६८२
 तथो एवैष ए शब्रा. ४६४
 *तथोत्तरेण त प्रउ. १४९४
 *तथो य एवं वि कौउ. ६५३
 तथो ह स सर्व शब्रा. ५१८
 तथो हैनं न हि ,, १५४
 तदक्षरं तत्स श्वेउ. १६०९
 तदक्षरं वेद प्रउ. १५०९
 तदक्षरं देव तब्राउ. १३३६
 तदक्षरमिति ,, ,,
 *तदगच्छन्वै ते वृउ. ११३०
 तदग्निनैव दे ,, १०३८
 तदग्निर्वै प्राणो तब्राउ. १३८६
 तदग्निर्वैश्वक तैसं. ४००
 तदग्ने अनुणो तैब्रा. ४८८
 तदत्पयत् ,, २८८
 तदत्रैकधा सा तब्राउ. १३५४
 तदत्रैव यज शब्रा. ११२
 तदथ यदा प्रा तब्राउ. १३६४
 तदथर्वणोऽथ गोब्रा. ३०४

तदनवानं ये तब्राउ. १३४१
 तदनुकृतिम जैब्रा. २०२
 तदनुकृतिर ऐउ. ६२१;
 कौउ. ६८९
 तदनुप्रविश्य तैउ ७२०
 तदन्तरस्य स ईउ. १३१७
 तदन्तरिक्षम ताब्रा. २८५,
 २८९
 तदन्तरिक्षमि तब्राउ. १३३५
 तदन्तरिक्षस्या ताब्रा. २८५
 तदन्नं वै विश्वं तब्राउ. १३५५
 तदन्नम् ,, १३६५
 तदन्नमभवत् शब्रा. ३४७
 तदपराजिता छाउ. ९६५
 तदपानेनाजि ऐउ. ५८५
 तदपामप्त्वम् गोब्रा. ३०३
 तदपि भूमिः श्लो शब्रा. ४७१
 तदपोऽसृजत छाउ. ८९१
 तदप्येतदृचो गोब्रा. ३०५,
 ५२२
 तदप्येतदृषि ऐउ. ५३४,
 ६०४, ६०६, ६०७, ६०८,
 ६१३, ६१६; कौउ. ६८७
 तदप्येते श्लोकाः शब्रा. ४६७
 *तदप्येते श्लोका वृउ. १२००,
 १२३८
 तदप्येवमेव ऐउ. ६१६,
 ६१७; कौउ. ६८८, ६८९
 तदप्येष श्लोको तैउ. ७०६,
 ७१४, ७१५, ७१७, ७१८,
 ७२०, ७२५, ७२८
 तदप्सु प्रत्यति शब्रा. ३०३
 तदब्रवीदाभि गोब्रा. ,,
 तदब्रवीन्मयि तब्राउ. १३७१
 तदब्रवीन्मह गोब्रा. ३०३
 तदभवत् तब्राउ. १३८६
 तदभिष्टोद वृउ. १३०६
 तदभ्यद्रवत् तब्राउ. १३८०,
 १३८१
 तदभ्यमृशत् पु शब्रा. २९४
 तदभ्यमृशत् ,, २९३
 तदभ्यमृशत् ,, २९४
 तदभ्यमृशत् ,, २९५

गोब्रा.	३०३	तदस्य रुद्रा अ	छाउ.	८१५	तदाशा अन्वजा	ऋसं.	२७५
तैब्रा	२८८	तदस्य रूपं प्र	तब्राउ.	१३४३	तदाश्रात्	शब्रा.	२९५
तब्राउ.	१३५९	तदस्यतेवोऽनू	,	१३४४	तदासत ऋष	असं.	२४९
शाब्रा.	४०१	तदस्य वनम्प	,	,	तदासां पाप्मनो	वृउ.	१००७
तब्राउ.	१३४६	तदस्य वयाःस्य	छाउ.	७७९;	तदाहना अभ	ऋसं.	४९
ऐउ.	५७५		तब्राउ.	१३४४	तदाहुः	शब्रा.	२९,
छाउ.	९६५	तदस्य वसवो	छाउ.	८१४	११६; ऐउ. ५७२; कौउ. ६६६		
तैसं.	४२०	तदस्य वायुर	तब्राउ.	१३४४	तदाहुः किं तद	शब्रा.	२९०,
गोब्रा.	५२३	तदस्य शिरोऽभ	शब्रा.	२९१			३२८
कौउ.	६८८	तदस्य संवत्स	तब्राउ.	१३४४	तदाहुः के ते ऋ	,	२९०,
ऐउ.	५३३	तदस्य समुद्रो	,	,			३२८
छाउ.	९६५	तदस्याऽक्षिरनू	,	,	तदाहुः प्रादेश	तब्राउ.	१३६५
तैब्रा.	२८८	तदस्यामीन् विह	जैब्रा.	४०४	तदाहुः संवत्स	,	१३४०
गोब्रा.	५२३	तदस्यात्मन् निहि	,	४०२	तदाहुः स वा उ	,	१३७०
तब्राउ.	१३८६	तदस्याऽऽदित्या अ	छाउ.	८१५	तदाहुरात्मया	शब्रा.	४६६
ऋसं.	४९९	तदस्यादित्योऽनू	तब्राउ.	१३४४	तदाहुर्दुर्विदि	जैब्रा.	४०३
तब्राउ.	१३६३	तदस्याऽमृतस्या	छाउ.	९७७	तदाहुर्येज्जीव	,	,
,	,	तदस्याऽऽरण्या अ	,	७७९	तदाहुर्येऽत्य	कौउ.	६८६
देश्यः	,	तदस्येदं वाचा	ऐउ.	५३७	तदाहुर्येदय	वृउ.	११६९
पृ	१३६१	तदस्यैतच्छिरः	शब्रा.	२९२	तदाहुर्येदसु	तब्राउ.	१३४२
माः	१६६३	*तदस्यैतद्गुह्य	वृउ.	१३०९	तदाहुर्येदस्य	,	१३५६
या ग	१३६२	तदस्यौषधयो	तब्राउ.	१३४४	तदाहुर्येदही	,	१३६०
अ	२७१	तदहं वेद	वृउ.	११४७	तदाहुर्येदोवा	तब्राउ.	१३३२,
पुः	१३६२	तदहरभवत्	तैब्रा.	२९०			१३३४
दि	,	तदाज्यभागाव	मुउ.	१४४९	तदाहुर्येद्रह्य	वृउ.	१०२९
ता	२०३	तदाण्डं निरव	छाउ.	८२१	तदिच्छ्रोत्रं बहु	तैब्रा.	३१८
यभि	असं.	तदा तं ह वा ए	तब्राउ.	१३५९	तदिति पुराण	गोब्रा.	३०५
मा	१३४४	तदात्मन्दधे	,	१३६९	तदिति वा एत	ऐआ.	२६२
गुह्य	वृउ.	तदात्मन् निधत्त	जैब्रा.	४०२	तदिदं न वि	कामं.	४००
ख	शब्रा.	तदात्मभिरेव	तब्राउ.	१३४८	तदिदं कर्म कृ	ऐउ.	५३१
यं	ऐउ.	तदात्मान आगा	वृउ.	१००९	तदिदं कर्म स	शब्रा.	३२१
ोऽनू	तब्राउ.	तदात्मानं दध्या	तब्राउ.	१३३१	तदिदं चक्षुः स	,	३२०
अ	छाउ.	तदात्मानं स्वय	तैउ.	७२५	तदिदं प्रजाप	तब्राउ.	१३३४
नू	तब्राउ.	तदात्मानमन्वै	शब्रा.	३१९,	तदिदं मनः स	शब्रा.	३१९
रीयं	ऐउ.		३२०, ३२१	तदिदं मनश्च	,	४६६	
वो	छाउ.	तदादित्यमभि	छाउ.	७९४,	*तदिदं वयं भा	वृउ.	१३१०
रो	तब्राउ.		७९५	*तदिदं वयं शौ	,	१११४,	
व्य	छाउ.	तदादित्य महि	असं.	१७०		१२६५	
आ अ	१३४४	तदादित्यानाम्	तब्राउ.	१३६८	तदिदं श्रोत्रं स	शब्रा.	३२१
मं	ऐउ.	तदा देवमवि	श्वेउ.	१६२६	तदिदं सर्वमा	वृउ.	१०४२
यम	ऋसं.	तदाप्याययति	जैब्रा.	५२२	तदिदं साम स	तब्राउ.	१३४५
ुष्या	छाउ.	तदावयत्	ऐउ.	५८५	तदिदं हिरण्म	शब्रा.	२९७
सा अ	तब्राउ.	तदा विद्वान् पुण्य	मुउ.	१४७२;	तदिदन्तरिक्षं	तब्राउ.	१३६७
			मेउ.	१६६१			

तद्विदमन्नम	तब्राउ. १३३०; मैउ. १६६४
तद्विदमन्धेत	ऐउ. ५३०
तद्विदमाप ए	वृउ. १०२२, १०३०
तद्विदमिमान	ऐउ. ५४०
तद्विदमेकमे	तब्राउ. १३३३
तद्विदमेव प्रा	शब्रा. २९३; तब्राउ. १३८६
तद्विदमेवोक्थ	तब्राउ. १३५५
तद्विदास भुव	ऐउ. ५२८
तद्विमे कुरुप	ऋसं. २३६
तद्विमे द्यावापृ	तब्राउ. १३५७
तद्विमे मूढा उ	१३३१
तद्वियमभवत्	मैउ. १६६७
	तैसं. १५७, २८१
तद्विवाग्निस्तप	ऋसं. ३३६
*तद्विह न मेने	वृउ. ११७७
(तदु) अस्मा अग्निः	तब्राउ. १३६१
तदुक्तमृषिणा	ऐउ. ५२७, ५३७, ५४२, ५५५, ५६५, ५६७, ५७६, ५९१
तदुक्थम्	छाउ. ७६३
तदुक्थमभवत्	ऐउ. ५३४
तदु तथा न कु	जैब्रा. ४०५;
	तब्राउ. १३६०; जाउ. १६७०
तदु तथा नो ए	तब्राउ. १३६१
तदुतापि यत्रै	ऐउ. ५९९; कौउ. ६८४
तदुताप्याहुः	छाउ. ७७४
तदुतेव महा	वृउ. १०७४
तदुदरमभ	ऐउ. ५३२
तदुपप्रेयाय	तब्राउ. १३८१
तदु ब्रह्माऽभिसं	१३३०, १३३१, १३३२, १३३९
तदुरस उर	१३८६
तदुरोऽभवत्	ऐउ. ५३२
तदु वा आहुः	तब्राउ. १३३६
तदु वा आहुः का	१३४६
तदु वा आहुरे	१३५९
तदु वा एतं नो	१३५६
तदु सोमः	वृउ. १०२१
तदु ह कुरुप	तब्राउ. १३६९
तदु ह जानश्रु	छाउ. ८२४, ८२५

तदु ह तन्न गी	१३३६
तदु ह तथा ची	शब्रा. ३१
तदु ह न मेने	वृउ. १०७१
तदु ह पुनरे	छाउ. ८२५
तदु ह प्राचीन	तब्राउ. १३५८
तदु ह वा आत्मा	कौउ. ६९१
तदु ह शौनकः	छाउ. ८२९
तदु हापरुण	शब्रा. ४१९
तदु हैनत्समृ	जैब्रा. ४०६
तदु होवाच शा	४०६;
	तब्राउ. १३३१, १३३९, १३५२, १३५९, १३६३
तदूर्ध्वमुदस	ऐउ. ५३२
तदृगित्युपासी	कौउ. ६४५
तदृचा मण्डल	नाउ. १६४०
तदृचा समसृ	तब्राउ. १३३४
तदृत्तूनभ्यल्य	१३३३
तदेकं मिथुनं	१३८७
तदेकं सन्न व्य	वृउ. १०३६
तदेकक्रियाश्रु	तब्राउ. १३६७
तदेकमभवत्	असं. ४५०
*तदेकया वाचा	कौउ. ६३८
तदेजति तन्नै	ईउ. १३१७
तदेतं रसं त	तब्राउ. १३३६
तदेतच्चतुर्विं	१३६६
तदेतच्चतुष्पा	छाउ. ८१९
तदेतच्छ्रीश्च य	८०४
तदेतच्छ्रिवोवस्य	तैब्रा. २९०
तदेतज्जयेष्ठं ब्र	शब्रा. १५४
तदेतकीर्तिश्च	छाउ. ८०५
तदेतक्षत्रस्य	वृउ. १०३८
तदेतचुरीयं	शब्रा. ३५०
तदेतत्तेजोऽज्ञा	छाउ. ८०४
तदेतत्रयं शि	वृउ. १२६९
तदेतत्रयं स	१०६६
तदेतत्रयस्य	जैब्रा. ५२२
तदेतत्रियुत्	ऐउ. ५३५
तदेतत्रयक्षरं	वृउ. १२७०, १२७२
तदेतत् श्याश्रुता	तब्राउ. १३५८
तदेतत्पञ्चवि	ऐउ. ५६३, ५६८
तदेतत्पदनी	वृउ. १०२२

तदेतत्पर्जन्ये	तब्राउ. १३४०
तदेतत्प्राशुप	शिरउ. १६८०
तदेतत्पुरुषे	तब्राउ. १३४०
तदेतत्पुष्पं फ	ऐउ. ५६८
तदेतत्पूर्णम	छाउ. ८०३
तदेतत्प्रेयः पु	वृउ. १०२७
तदेतत्सव्यं त	मुउ. १४६०
तदेतत्सत्यम्	१४४८, १४५३
तदेतत् सत्यम	जैब्रा. ५२२, तब्राउ. १३३३
*तदेतत्सत्यम	मुउ. १४६०
तदेतत्सत्यम्	१४८९
तदेतत्सप्तवि	तब्राउ. १३३८
तदेतत् सर्वतो	१३३८
तदेतत्सर्वमा	शब्रा. ५१७
तदेतत्सर्वेभ्यो	ऐउ. ५८९
तदेतत्सहस्रम्	५६३
तदेतत् साध्वेव	तब्राउ. १३४८
तदेतत्सव्यं प्र	जैब्रा. ५२२
तदेतदक्षरं	गोब्रा. ५२२; मुउ. १४६०
* , ,	प्रउ. १५०९
तदेतदक्षर	तब्राउ. १३३६
तदेतदङ्गुथो जा	१३४८
तदेतदनन्वि	१३६६
तदेतदनृत	वृउ. १२७२
तदेतदन्न ए	तब्राउ. १३५६
तदेतदन्नं प्रा	जैब्रा. ४०२
तदेतदन्नम	तैउ. ७३९
तदेतदन्नमे	तब्राउ. १३५६
तदेतदध्रात्	१३३८, १३६६
तदेतदमृतं	वृउ. १०६६; तब्राउ. १३६७, १३६८
तदेतदमृत	शब्रा. ५१८
तदेतदापोऽधि	तब्राउ. १३३३
तदेतदाहुरि	१३३०
तदेतदिति म	काउ. १४३२; श्वेउ. १६३३
तदेतदिन्द्रमे	तब्राउ. १३३२
तदेतदुक्थं स	१३५६
तदेतदुक्थस्य	१३५५

छा. १३५
 कौ. ६३८
 छा. ८०२;
 ३३२, १३३८, १३३९,
 १३४२, १३६५
 तै. २७;
 ८, ५१७; श्रा. ३४७;
 ८५, ६८६, ६८७,
 ६९२; वृ. १२५४;
 १४८८; प्र. १४९२
 वृ. ११०९,
 १११०, ११११
 श्रा. ३०;
 ६८६; त्रा. १३६४
 त्रा. १३३५
 श्रा. ५१७
 छा. ७६०,
 ७६३
 श्रा. ११४
 वृ. १२६९
 कौ. ६४५
 छा. ८०५
 " "
 त्रा. १३४०
 श्रा. ११५
 त्रा. १३३४
 वृ. १०३०
 ऐ. ५२९
 श्रा. ३१;
 वृ. १०३८
 श्रा. ३१
 त्रा. १३६७
 " १३८६
 छा. ८०४
 श्रा. १५४;
 वृ. ११११
 श्रा. १५३
 " "
 " "
 " ३३०
 " १५३
 " १५२

तदेतद्विश्वसु
 तदेतद्विश्वामि
 तदेतद्वैर्गजं
 तदेतद्वैश्वामि
 तदेतन्नभयं य
 तदेतन्नान्दनम्
 तदेतन्नापुत्रा
 तदेतन्निदुद्धं
 तदेतन्निमथुन
 तदेनन्मूर्ति य
 तदेतन्मप्यति
 तदेतया चैनं
 तदेतया वाचा
 तदेतेन चैनं
 तदेतेनाऽऽमन्त्रे
 तदेते श्लोका भ
 तदेतेराप्नोति
 तदेतेनैश्विनं छ
 तदेते श्लोकौ भ
 तदेतेन देवलो
 *तदेतेन वाक्सर्वे
 तदेतेनस्सुष्टं प
 तदेतेनदेतेन
 तदेतेनमतो ज
 तदेतेनमन्तरा
 तदेतेनमिदमे
 तदेतेनमुपरि
 तदेतेनानिदं सा
 तदेतेनः साम प्रा
 *तदेतेन तर्ह्यव्या
 तदेतेन ज्योतिः
 तदेतेन ज्योतिर्गा
 तदेतेन तस्या अ
 तदेतेन ब्रह्म त्वं
 तदेतेन भूतं त
 तदेतेन भूयिष्ठ

तदेतेन तदु ना. १६३०
 तदेतेन शुक्रं त शु. २५५;
 का. १४३३; श्व. १६०१
 *तदेतेन शुक्रम ना. २५५
 " " " १०३०
 तदेतेन शुक्रं त का. १४२९
 तदेतेन सक्तः स वृ. १२३१
 *तदेतेन सक्तः स " "
 *तदेतेन सन्तस्त " १२४१
 तदेतेन होतृका श्रा. ४७०,
 ४७१
 तदेतेनाग्निस्तदा शु. २५५;
 श्व. १६००
 *तदेतेनाग्निस्तद्वा ना. २५५,
 श्व. १६००
 " " ना. १६३०
 तदेतेनाग्निस्तम शि. १५७३
 तदेतेनानुप्रवि तै. १६१,
 ३०६
 तदेतेनानुप्रवि " १६०,
 ३०६; तै. ७२०
 तदेतेनाभवन् का. २८२
 तदेतेनार्कस्त्यार्क वृ. ९९१
 *तदेतेनार्कस्त्यार्क " "
 तदेतेनाऽऽमुरम त्रा. १३३४
 तदेतेन श्लोकः ता. ४६१;
 छा. ७८४, ७९८, ८५५,
 ८६९, ८८२, ९५०, ९६८;
 त्रा. १३४७; प्र. १४९४,
 १५०४, १५०९, १५१७;
 परि. १५५३
 तदेतेन श्लोकौ भ श्रा. ३८,
 ११३, ११६; वृ. १०८१,
 १२३१, १२३६
 तदेतेन सर्वाऽग्नि श्रा. ३०
 तदेतेन सविता " ५१७
 तदेतेन स्वर्गं लो " ३४,
 ३५, ३६, ३८
 तदेतेनाऽऽभ्यनूक्ता तै. १५८,
 १६०, ३०५, ३०६
 तदेतेनाऽऽभ्युक्ता तै. ७०६
 तदेतेनामसुरा त्रा. १३४८
 तदेतेन " १३४२

तदक्षत
शब्रा. ४७१; छाउ. ८९०;
परि. १५५६
तदैतूप माम
तदैनं वाक्सवै
*तद्गया*स्तत्रे त
तद्गङ्गौच्याय वि
तद्गृहीत एव
तद्ग्रावाणः सोम
तद्गृहोताऽन्व
तद्ग्राधार पृथि
तद्ग्राभूतं शि
तद्ग्वो दिष्टत्वम्
(तद्) दिवोऽन्तः
तद्दुष्पण्यं प्रति
तद्देवाः समारु
तद्देवा ज्योतिषां
तद्देवानसृज
तद्देवानां देव
तद्देवानामग्रम्
तद्देवान् सृष्ट्वेषु
तद्देवा विदुः
तद्देवाभ्यामेव प्र
तद्द्विषन्तं भ्रातृ
तद्द तथा चका
तद्द तदुवाच
तद्द तद्वनं ना
तद्द तन्मन ए
तद्द पृथुवैन्धो
तद्द बको दारभ्यो
तद्द मन उवा
तद्द मुञ्जः साम
तद्द विश्वामित्रः
तद्द वै त्रयै वि
तद्द शौनकं च
तद्द स उप नि
तद्द सास्यकीर्ता
तद्द स्म तथैव
तद्द स्माह प्रातृ

तद्द स्मैतत्सत्य
तद्दपि ब्रह्मद
तद्दाराणां धारा
तद्दावतोऽन्यान
तद्दावमृश्य न
तद्दासुराः पाप्म
तद्दास्य विजज्ञा
तद्विद्धारेण मि
तद्वि तपस्तद्वि
तद्वि देवेष्वग्नि
तद्वि परिश्रितां
तद्वि प्रत्यक्षम
तद्वि मौद्गल्यस्या
तद्वि यजुष्मती
तद्वि रात्रीणां ह
तद्वि सत्यम्
तद्वेदं तद्द्वय्या
तद्वैक आहुर
तद्वैक आहुरे
तद्वैके प्राजाप
तद्वैतच्छैलना
तद्वैतज्जनको
तद्वैतपश्यन्तृ
तद्वैतस्सत्यका
तद्वैतदप्यवि
तद्वैतदुहाल
तद्वैतदेक ए
तद्वैतदेक ओ
तद्वैतदेके त्रि
तद्वैतदेके ना
तद्वैतदेके स्तो
*तद्वै तदेतदे
तद्वैतदेव जी
तद्वैतदधोर आ
तद्वैतद्ब्रह्मा प्र
९८४; परि.
तद्वैतल्लोकजि
तद्वैव९ ह९सो ह९
तद्वैषां विजज्ञौ
तद्वोचुः को नो व
तद्वोभये देवा

शाआ. ३३१
बुउ. १०१३
गोब्रा. ३०३
ईउ. १३१६
छाउ. ९२०
" ७५२
" ९०३,
९२४
तब्राउ. १३६५
तैउ. ७०२
तैब्रा. ३१६,
३३७
शब्रा. ५१८
तब्राउ. १३३९
गोब्रा. ११८
शब्रा. ५१८
" "
" ५२२
बुउ. १०२२
छाउ. ८८७
कौउ. ६५९
जाउ. १६७०
तब्राउ. १३३०
शब्रा. ४६७
" ३१;
बुउ. १०३०
छाउ. ८५४
शब्रा. ११२
छाउ. ७९९
तब्राउ. १३५६
" १३३६
" १३५६
ऐउ. ५६५
तब्राउ. १३६०
बुउ. १२७१
शब्रा. ३२९
छाउ. ८१७
" ७९९,
परि. १५६६
बुउ. १०१४
छाउ. ८२३
तब्राउ. १३८०
बुउ. १२८७
छाउ. ९७०
तद्दद्यमे रुपम्
तद्दवसुषु रम
तद्दयह्नां रूपम्
तद्दयादित्यस्य ह
तद्दयेभ्य एतत्क
तद्द्विष्पवमा
तद्द्विष्प
छाउ. ७६३; मैउ.
तद्दब्रह्म च तप
तद्दब्रह्म चामृतं
तद्दब्रह्मचारी प्रा
तद्दब्रह्मणः परि
तद्दब्रह्म वै त्रिवृत्
तद्दब्रह्म वै बृह
तद्दब्रह्महणं ना
तद्दब्रह्माऽभिव्याह
तद्दब्रह्माभिष्टूय
तद्दब्रह्माहमिति
तद्दब्रह्मेति
तद्दब्रह्मेत्युपासी
तद्दब्रह्मेतदुपा
तद्दब्रह्माः समग
तद्दब्रह्मास्कराय वि
तद्दभूमिमिति वै
तद्दभूमिरभवत्
तद्दभूमैर्भूमित्वम्
तद्दभूयोऽतप्यत
तद्दभृगोर्भृगुत्वम्
तद्य इत्थं विदुः
तद्य इमे वीणा
तद्य इह रम
तद्य इहाऽऽत्मान
तद्य एवैतं ब्र
तद्य एवैताव
तद्यच्छन्दोभिरा
तद्यच्छरीरव
तद्यच्छुक्लं तद्वा
तद्यजुः
तद्यजुरित्युपा
तद्यज्ञ एव भू
तद्यज्ञमभ्यस्य
तद्यज्ञस्वैवानु
तद्यार्त्तिकं च भाइ इ

शब्रा. ५१८
तब्राउ. १३६५
शब्रा. ५१८
" "
" ४२०,
४२१
तब्राउ. १३३१
तैउ. ६९७;
छाउ. ७६३; मैउ.
असं. १६४
मैउ. १६६२
असं. ४२४
तैउ. ७४०
तब्राउ. १३५६
" १३४१
तैब्रा. ४८६
तब्राउ. १३५६
मैउ. १६६६
कौउ. १६७६
तैउ. ७३५
" ७४०
जाउ. १६७०
असं. ४३५
मैसं. १३४
तब्राउ. १३४८
शब्रा. २९६
ताब्रा. २८५
तैब्रा. २८८
गोब्रा. ३०३
छाउ. ८६१
" ७६४
" ८६७
" ९५७
" ९६४
" ९६६
कौउ. ६८९
तब्राउ. १३६६
" १३३७
छाउ. ७६३
कौउ. ६४५
शब्रा. ४०८
तब्राउ. १३३४
शब्रा. ११४
तब्राउ. १३६७
" ९७०

किंचेमानि	शब्रा. ३१९, ३२०, ३२१	तद्यथा पेशस्का	वृउ. १२२७	तद्यथा हैवेयं	कौउ. ६८९
किंचोमिल्या	ऐउ. ५६९	तद्यथा प्रियया	" १२०८	तद्यथेदं वय	तब्राउ. १३४६
त्तचक्षुरा	तब्राउ. १३३७	तद्यथा बटर	ऐउ. ६१६	तद्यथेयं शख	कौउ. ६८९
त्तच्छ्रोत्रं दि	" १३३८	तद्यथा बिम्ब्रेन	तब्राउ. १३५६	तद्यथेयमकु	" ८८२
त्तत्त्वम	वृउ. १२७३	तद्यथा मक्षिका	प्रउ. १४९८	तद्यथेर्षीकातू	छाउ. ८८२
त्तदन्तमा	तब्राउ. १३३८	*तद्यथा मधुम	" १४९७	तद्यथेह कर्म	९५७; परि. १५६४
त्तदमृत	शब्रा. ५१७	तद्यथा महाम	छाउ. ९६७; परि. १५६४	तद्यथैतच्छस्त्रा	कौउ. ६४५
त्तमनश्च	तब्राउ. १३३७	तद्यथा मूताः प्र	वृउ. १२०५	तद्यथैतान्यमु	छाउ. ९७८
त्ते द्वे भव	शब्रा. ३४, ३५, ३६	तद्यथाऽऽन्नं वोढु	तब्राउ. १३३५	तद्यथैषोऽभ्राण्य	तब्राउ. १३३९
त्परा भाव	गोब्रा. ५२३	तद्यथाऽऽयमाका	वृउ. १२२१	तद्यदध्वर्युः स्तो	शब्रा. ४६०
त्परिश्रित्सु	शब्रा. ३३	तद्यथाऽयमात्मा	ऐउ. ५३८	तद्यदपा९ चार	वृउ. ९९४
त्प्रथमम	छाउ. ७९५	तद्यथा रथना	" ५६६	*तद्यदपा९ सर	" "
त्प्रैति तत्रा	तब्राउ. १३५२	तद्यथा रथस्या	वृउ. ११०८	तद्यदन्नवीरप्र	गोब्रा. ३०४
त्त्र वा इषु	" १३५६	तद्यथा रथेन	कौउ. ६७१	तद्यदन्नवीर	" "
त्त्राऽद आह	" १३६५	तद्यथा राजानं	" ६३५	तद्यदन्नवीदा	" ३०३
त्त्रैतच्चात्वा	" १३३१	तद्यथा राजान	वृउ. १२२२	तद्यदन्नवीन्म	" "
त्त्रैतत्सुतः	छाउ. ९६७, ९७६	तद्यथा लवणे	" १२२१	तद्यदस्त्यता	शब्रा. २९६
त्त्रैतदधी	ऐउ. ६०७;	तद्यथा वंशेन	छाउ. ८४०;	तद्यदस्मिन्निदं	तब्राउ. १३३५
त्त्रैनमदो	कौउ. ६८६	तद्यथा वा आपो	तब्राउ. १३६०	*तद्यदस्मिन्सर्पि	छाउ. ८३९
त्त्संयमित्त त	शब्रा. ४६५	तद्यथा वृक्ष आ	तब्राउ. १३४८	तद्यदस्य तच्चा	शब्रा. २९६
त्त्सत्तदमृ	तब्राउ. १३३९	तद्यथा शङ्कुना	ऐउ. ५६८	तद्यदस्येदं वि	ऐउ. ५४५
त्त्सत्यमसौ	छाउ. ९६२	तद्यथा शालाव	छाउ. ७८९	*तद्यदहोरात्रा	कौउ. ६४६
त्त्समद्रव	वृउ. १२७३	तद्यथा श्रेष्ठी स्वै	ऐउ. ६१०;	तद्यदा मृत्युम	वृउ. १००८
त्त्समधत्त	गोब्रा. ३०४	तद्यथा श्वः प्रैष्य	कौउ. ६८७	तद्यदा वै मन	जैब्रा. ४०२
त्त्समायन् त	तब्राउ. १३५६	तद्यथा सहस्र	कौउ. ६८१	तद्यदा स्त्रियां सि	ऐउ. ५८९
त्त्समुद्रण	" १३७१	तद्यथाऽस्मिन्नाका	तब्राउ. १३८७	तद्यदाहुः केन	जैब्रा. ४०२
त्त्समेत्य सा	" १३३७	तद्यथाऽस्या अह्णु	कौउ. ६८०	तद्यदाह्वयति	शब्रा. ४०८
त्त्सा चाऽमश्च	" १३४५	तद्यथाऽस्या उद	वृउ. १२०६	तद्यदिदं चक्षुः	वृउ. १११७
त्त्सार्ध समै	" १३४६,	तद्यथाऽस्याः शिर	कौउ. ६८९	*तद्यदिदं मनः	" "
त्था काष्ठेन	१३४७	तद्यथाऽस्याः शिर	" "	"	" १११८
त्था क्षुरः छु	" १३४४	तद्यथाऽस्याः स्वरा	" "	तद्यदिदं संभ	तब्राउ. १३४८
त्था गिरिं प	" १३३५	तद्यथाऽस्यै जिह्वै	" "	तद्यदिदं सर्व	वृउ. ११६८
त्था गोनायो	कौउ. ६८१;	तद्यथाऽस्यै मुख	" "	तद्यदिदमाहुः	वृउ. १०४७;
त्था तृणज	परि. १५३५	तद्यथाऽस्यै वंश	" "	तद्यदिदमाहु	तब्राउ. १३४७
	तब्राउ. १३३८	तद्यथा ह वा अ	" "	तद्यदिदमाहु	वृउ. १०२१;
	छाउ. ९०७,	तद्यथा ह वै नि	शब्रा. ४०१	तद्यदिह पुरु	तब्राउ. १३५५
	९०८	तद्यथा ह वै म	तब्राउ. १३४०	तद्यदि ह वा ए	कौउ. ६५१
	कौउ. ६४१	तद्यथा ह वै सु	" १३५६	तद्यदुदिर्युदि	तब्राउ. १३५२
	वृउ. १२२७	तद्यथाऽहिनिर्त्व	" १३६५	तद्यदेतत्सर्व	तब्राउ. १३४२,
			वृउ. १२३६		१३५५

तद्यदेतत्त्रिंशत्	एउ.	५७२	तथा दक्षिणा ज	शब्रा.	०७२	तथा इदमापः	शब्रा.	२८९
तद्यदेतदन्त	तब्राउ.	१३३५	तद्यानि तानि गु	तब्राउ.	१३३२	तद्वा एतत्तर्व	शब्रा.	३३,
तद्यदेतदिदं	बृउ.	१२२९	तद्यानि तानि भू	शब्रा.	२९६		३४, ३५, ३८	
तद्यदेतैरिदं	तब्राउ.	१३३८,	तद्याभ्यो भूयः प्र	"	५१७	तद्वा एतत्सर्व	"	३२,
		१३४३	तद्यावती क्षुर	बृउ.	११३०		३३, ३६	
तद्यदेदंमयो	बृउ.	१२२९	तद्यावत्येव वा	"	१०५३	तद्वा एतदक्ष	बृउ.	११६५
तद्यदेनं निर्धु	शब्रा.	३३०	तद्यावदेव म	बृउ.	१०५४	तद्वा एतदभि	जैब्रा.	४०३
तद्यदेनान् प्राणे	"	२९७	तद्यावानेव प्रा	"	"	तद्वा एतदन	छाउ.	८५२
तद्यदेभ्यस्तत्	तब्राउ.	१३३३	तद्याऽसौ मात्रा पू	एउ.	६०४;	तद्वा एतदनु	"	७४९
तद्यदेवमेवा	"	१३५२	तद्याऽसौ मात्रा सं	कौउ.	६८५	तद्वा एतदेक	तब्राउ.	१३८६
तद्यदेवैतद्वृ	एउ.	५६७	तद्यास्ता आपोऽञ्जं	कौउ.	६८५	तद्वा एतद्यदे	छाउ.	७९४,
तद्यदेष सर्वे	तब्राउ.	१३३३	तद्यास्ता आपोऽञ्जं	तब्राउ.	१३३७		७९५	
तद्यदेषोऽभ्युक्त	"	१३५८	तद्यास्तिस्त्र आगा	"	१३३५	तद्वा एतद्वायु	"	९३५
तद्यदेवैतद्वृ	एउ.	५६७	तद्यूर्यं तर्हि स	"	१३४१	तद्वा एतद्विदि	बृउ.	१०४१
तद्यदोभयं स	शब्रा.	४२	तद्ये च ह वा इ	"	१३६६	तद्वा एतन्मिथु	छाउ.	७४०
तद्यद्गयाः स्तत्रे	बृउ.	१२८२	तद्येयं वाक्सोऽय	बृउ.	१११६	तद्वां नरा सन	बृउ.	११०९
तद्यद्भक्तं प्रथ	छाउ.	८८०	तद्ये ह वै तत्प्र	प्रउ.	१४९६	तद्वाचाऽजिष्टक्षत्	एउ.	५८४
तद्यद्भर्त्रं हृद	तब्राउ.	१३४३	तद्ये ह वै तदि	"	१४९३	तद्वाचा यजमा	तब्राउ.	१३४८
तद्यद्यपीदः श	छाउ.	९७५	*तद्ये ह वै प्रजा	"	१४९६	तद्वाचा वदच्च	कौउ.	६५२,
तद्यद्यप्यस्मिन्स	"	८३९	तद्योऽयं प्राणः स	बृउ.	१११७		६५३	
तद्यद्यृक्तो रिष्ये	"	८४८	* " "	"	१११८	तद्वाचा वदच्छि	"	६५२
तद्यद्रजतः से	"	८२१	तद्यो यो देवानां	"	१०२९	*तद्वाचाऽवदच्छि	"	"
तद्यदेत आसी	बृउ.	९९५	तद्योऽहं सोऽसौ	एउ.	५५५	तद्वाचा वदति	तैआ.	१५८,
तद्यद्रोदयन्ति	"	११६८	तद्रजः खल्वीरि	मैउ.	१६५७		३०५; कौउ.	६८४
तद्यद्रै ब्रह्म स	तब्राउ.	१३३९	तद्रश्मिभिः संछ	तब्राउ.	१३३१	तद्वाऽऽस्मत्त्वं	श्वेउ.	१५९०
तद्यद्रै मनसा	"	१३४२	तद्रद्राणाम्	"	१३६८	तद्वाप्युपलक्ष	गोब्रा.	५२४
तद्यन्मनश्च प्रा	"	१३४५	तद्रतोऽभवत्	शब्रा.	३४७	तद्वायुना शान्तिः	मैसं.	५१५
तद्यन्मनसः पु	शब्रा.	२९७	तद्रोदसी जन	ऋसं.	१२२	तद्वाव स तर्ह्य	ताब्रा.	४०२
तद्यन्महार्मन	तब्राउ.	१३५५	तद्र एतत् पुन	असं.	३९८	तद्विजिज्ञासस्व	तैउ.	७३५
तद्यन्मिथुनाज्जा	जैब्रा.	४०५	तद्रः प्रयच्छानी	तब्राउ.	१३३३	तद्विज्ञानार्थं स	मुउ.	१४५२
तद्यया वै वाचा	तब्राउ.	१३४१	तद्रक्तारमव	एउ.	५९६,	तद्विज्ञानेन प	"	१४६३
तद्यया इत्युपा	कौउ.	६४५	६२६; कौउ.	६८३; तैउ.	६९३	तद्विज्ञाय	तैउ.	७३७,
तद्ययाः	एउ.	५७१	तद्रक्तारमावीत्	तैउ.	७०६		७३८	
तद्यस्मा एवं वि	असं.	१६४	तद्रह्मविदो	मैउ.	१६६१	तद्वियात्सर्वालो	शब्रा.	४७०
तद्यस्मिन्न उत्क्रा	एउ.	५३३	तद्रनमित्युपा	तब्राउ.	१३८३	तद्विद्वांसः श्रोत्रि	बृउ.	१२८९
तद्यस्मिन्नः प्रप	"	"	तद्रसूताम्	"	१३६८	तद्विपासो विप	ऋसं.	८७
तद्यस्य वै किल	तब्राउ.	१३६४	तद्रस्तिमभिनत्	तैब्रा.	२८९	तद्विमं लोकमा	जैब्रा.	४०६
तद्यस्यैवं विद्वा	असं.	४५३,	तद्वा अथर्वणः	असं.	२४५;	*तद्वियूय कव	एउ.	५७५
४५४; तब्राउ.	१३७०			शिरउ.	१६८१	तद्वियूया कव	"	"
तद्या अत ऊर्ध्वा	शब्रा.	३०२	तद्वा अस्यैतदा	बृउ.	१२०८	तद्विरुक्तं तथा	ऋसंखि.	३३६
तद्या इमा अक्ष	बृउ.	१०८०	तद्वा इदं बृह	एउ.	५५४,	तद्विशोकम्	छाउ.	७८०
तद्या इमोल्लोका	शब्रा.	३३	५६५, ५६७, ५७१, ५७५			तद्विश्वमुपजी	तैब्रा.	३४८
तद्यां कां चात्र	"	११७	तद्वा इदं मनः	जैब्रा.	३१६	तद्विषं सर्पा उ	असं.	१६४
तद्याः प्राच्यो नद्यो	"	४७१						

श्वेउ.	१६१३	तन्नाशक्रः संधा	कौउ.	६८५
शात्रा.	२९९	तन्नाशक्रोच्चक्षु	ऐउ.	५८४
तत्राउ.	१३३९	तन्नाशक्रोच्चिच्छने	,,	५८५
,,	१३३५	तन्नाशक्रोच्चोत्रे	,,	,,
वृउ.	१२८२	तन्नाशक्रोच्चवचा	,,	५८७
,,	१२८१	तन्नाशक्रोत्प्राणे	,,	५८४
,,	१२७१	तन्नाशक्रोद्वाचा	,,	,,
तैआ.	३३३	तन्नाशक्रोन्मन	,,	५८५
वृउ.	१०६०	तन्निधनेन मि	तत्राउ.	१३६५
तत्राउ.	१३३४	तन्निरभिद्यत	छाउ.	८२१
,,	१३४१	तन्नो अग्निः प्रचो	नाउ.	१६३२
,,	,,	तन्नो आदित्यः प्र	,,	,,
,,	,,	तन्नो गरुडः प्र	,,	,,
,,	१३४४	तन्नो गौरी प्रचो	मैसं	१३४
,,	१३३४	तन्नो दन्तिः प्रचो	नाउ.	१६३१
छाउ.	७९४,	तन्नो दन्ती प्रचो	मैसं.	१३४
,,	७९५	तन्नो दुर्गिः प्रचो	नाउ.	१६३२
,,	७८५	तन्नो ध्यानः प्रचो	मैसं.	१३४
गोत्रा.	३०५;	तन्नो नन्दिः प्रचो	नाउ.	१६३१
३९; छाउ.	७८१,७८२,	तन्नो नारसिंहः	,,	१६३२
,,	७८३, ७८४	तन्नो ब्रह्म प्रचो	,,	,,
नाउ.	१६४९	तन्नो ब्रह्मा प्रचो	मैसं.	१३४
ऋसं.	३६२	तन्नो भानुः प्रचो	,,	,,
,,	३६१	तन्नो मा हासीत्	तैआ.	५२१
असं.	२४८	तन्नो मित्रो वरु	ऋसं.	४
नाउ.	१६३३	तन्नो रुद्रः प्रचो	मैसं.	१३४;
तत्राउ.	१३३३	नाउ.	१६३१, १६४१	
नाउ.	१६६२	तन्नो वरुणो रा	नाउ.	१६३३
असं.	३४१	तन्नो वह्निः प्रचो	मैसं.	१३४
मैसं.	१३४	तन्नो वातो मयो	ऋसं.	४९५
,,	,,	तन्नो विष्णुः प्रचो	मैसं.	१३४;
तैआ.	२८७	नाउ.	१६३२	
वृउ.	१२७७	तन्म ऋतवो अ	कौउ.	६३०
,,	१२८२	तन्मन इत्युपा	तैउ.	७४०
कौउ.	६८८	तन्मनः	छाउ.	८०५
तैउ.	७४०	तन्मनसाऽजिघृ	ऐउ.	५८५
तत्राउ.	१३८०	तन्मनोऽकुरुता	वृउ.	९९१
,,	,,	तन्मनो भवति	छाउ.	९०२
,,	१३५४	तन्मनो वाचम	जैत्रा.	३१६,
,,	१३८१	३३७; शात्रा.	३२०;	
SSदा	,,	शात्रा.	३४७	
चो	मैसं. १३४	तैउ.	७४०	
छाउ.	७८०	तन्मह इत्युपा	तैउ.	७४०

६२६; कौउ.	६८३; तउ.	६९३
तन्मामावीत्	तैउ.	७०६
तन्मे त्वयि	तत्राउ.	१३६१,
		१३६२, १३६३
तन्मे त्वयि तन्मे	तत्राउ.	१३६३,
		१३८१
तन्मे त्वयि मोप	,,	१३६३
तन्मेऽनुमतिर	तैआ.	४९५
तन्मे पुनर्दत्ते	तत्राउ.	१३६२,
		१३६३
तन्मे पुनर्देही	,,	१३६१,
		१३६२, १३६३
तन्मे भगवान्ब्र	छाउ.	९२८,
		९२९, ९३०, ९३१, ९३२,
		९३३, ९३४, ९३५, ९३६,
		९३७
तन्मे मोपहृथा	तत्राउ.	१३६१,
		१३६२
तन्मे युष्मासु	,,	१३६२,
		१३६३
तन्मे समृध्यताम्	तैआ.	४०६
तप आसीद्गृह	,,	४६२
तप इति	,,	२६
तप इति तपो	तैउ.	७०२;
	नाउ.	१६४९
तप एव द्विती	छाउ.	७८६
तपःप्रभावाद्दे	श्वेउ.	१६२६
तपःश्रद्धे ये ह्यु	मुउ.	१४५२
तपन्तं न निन्देत्	छाउ.	७८२
तपन्ति वर्षन्ति	मैउ.	१६६६
तपश्च स्वाध्याय	तैउ.	७०२
तपश्चैवास्तां क	असं.	३०७,
		३०८
*तपसर्षयः सु	नाउ.	४२८
,,	,,	१६५०
तपसर्षयः स्व	तैआ.	४२८
तपसा चीयते	मुउ.	१४४७
तपसा देवा दे	तैआ.	४२८;
	नाउ.	१६५०
तपसा प्राप्यते स	मैउ.	१६५६
तपसा ब्रह्म वि	तैउ.	७३७,
		७३८

तपसा श्रीदा नाउ. १६५१
 तपसा श्रद्धा गोब्रा. ११९
 तपसा सत्यम् तैब्रा. ४२८;
 तपसा सपत्ना नाउ. १६५०
 तपसि सर्वं प्र नाउ. १६५०
 तपसा'न्तरारमा तब्राउ. १३६५
 तपू'ध्यन्ने जुह्वा नाउ. १६४३
 तपो गृहपतिः ताब्रा. ४६१
 तपोऽग्निः नाउ. १६५१
 तपो दीक्षामृष तैआ. २७१
 तपो ब्रह्मेति तैउ. ७३७,
 ७३८
 तपो मे तेजो मे तब्राउ. १३६१
 तपो ये चक्रिरे ऋसं. ३६७
 तपो ह जज्ञे क असं. ३०८
 तपो ह यक्षं प्र तैब्रा. ४२८
 तप्तो ब्रह्मचारी छाउ. ८३५
 तप्यश्वमित्यत्र शब्रा. २९६
 तप्यस्वेत्यब्रवीत् " "
 तपस्याभ्यहमित्या वृउ. १०६२
 तम आसीत्तम ऋसं. २४१,
 २७६
 तम एतत्पुरु असं. ३७८
 तम एक यस्या वृउ. ११७१
 तमक्रतुं पश्य श्वेउ. १५९९;
 नाउ. १६३५
 तमक्रतुः पश्य काउ. १४०६
 तमग्रयः सर्वं असं. ३९६
 तमाम्रमभिप्र तब्राउ. १३६१
 तमभिरभ्युवा छाउ. ८३२
 तमभिर्देवता तैसं. २८१
 तमङ्गिरसम् गोब्रा. ३०४
 तमजिह्वा अस तैआ. २६३
 तमथर्वाणं ब्र गोब्रा. ३०४
 तमथर्वाणम् " "
 तमनङ्गुलिरा तैआ. २६३
 *तमनवद्वये वृउ. ९९९
 तमनवरुध्वै " "
 तमनुरूप इ तब्राउ. १३३७
 तमनुष्टुप् छन्दो तैसं. २८१;
 ताब्रा. २८४
 तमन्तरिक्षलो तब्राउ. १३६२
 तमन्तरेणाग्नी जैब्रा. ४०४

तमन्वगायन् तब्राउ. १३४६
 तमप्रश्यममु " १३६६
 तमपानेनोप " १३५०
 तमपृच्छाम को वृउ. ११२९,
 ११४६
 तमप्रपश्यम तब्राउ. १३६६
 तमप्सरसोऽभि " १३६३
 तमब्रवीत् शोब्रा. १५१;
 तैआ. १५९, ३०६
 तमब्रवीत् पशु शब्रा. २९६
 तमब्रवीत्प्रीय काउ. १३९३
 तमब्रवीत् रुद्रो शब्रा. २९६
 तमब्रवीत् शर्वो " "
 तमब्रवीदश " "
 तमब्रवीदीशा " "
 तमब्रवीदुग्रो " "
 तमब्रवीद्भवो " "
 तमब्रवीन्नन्व गोब्रा. ३०४
 तमब्रवीन्महा शब्रा. २९६
 तमभित आसी छाउ. ९६७
 तमभिद्रुत्य पा वृउ. १००३,
 १००४
 तमभ्यतपत् ऐउ. ५८१
 तमभ्यतिसुच्य तब्राउ. १३३८
 तमभ्यवदत्क ताब्रा. ४०१
 तमभ्यवदत्को तब्राउ. १३८०,
 १३८१
 तमभ्यस्वरन् " १३३६
 तमभ्युवाचासा गोब्रा. ११८
 तमयाजयत् शब्रा. ३०१
 तमयास्य इति तब्राउ. १३५२
 तमकैभिस्तं सा ऋसं. ५७
 तमकैरभ्यर्च तैब्रा. २५८
 तमर्चत विश्व असं. ३९१
 तमर्धमासान तब्राउ. १३६२
 तमशनापिपा ऐउ. ५८२,
 ५८३
 तमष्टममभ्या शब्रा. १५१
 तमस आपः शिरउ. १६८१
 तमसृजत तैब्रा. २८८
 तमसो मा ज्योति वृउ. १०१४
 तमस्मा आकाश तब्राउ. १३६२

तमह कुमार प्रउ. १५१४
 तमहमात्मनि ऐउ. ६२६
 तमहोरात्रयो तब्राउ. १३६२
 तमागतं पृच्छ कौउ. ६३०
 तमागत्य पप्र तैब्रा. २६
 तमागायन् तब्राउ. १३४६
 तमाङ्गिरसं वे गोब्रा. ३०५
 तमाचार्यजयो छाउ. ८३५
 तमाचार्योऽभ्युवा " ८३४,
 ८३८
 तमाजुहाव गोब्रा. ११८
 *तमात्मन्परिगृ तैसं. २०,
 कासं., मैसं. " "
 तमात्मस्थं येऽनु काउ. १४३१;
 श्वेउ. १६२२; शिरउ. १६८०
 तमाथर्वणं वे गोब्रा. ३०४
 तमादित्यमभि तब्राउ. १३६३
 तमादिमध्यान्त कौउ. १६७३
 तमा रोहन्ति क असं. १७५
 तमारोहामि सु तैब्रा. ४८९
 तमाह आपो वै कौउ. ६३९
 तमाह केन मे " ६३८
 तमाह कोऽहम " "
 तमाह प्र मा व तब्राउ. १३६१,
 १३६२, १३६३
 *तमाह यो वै ख कौउ. ६३९
 तमाहरणं द तैआ. १८१
 तमाहरत् शब्रा. ४७०
 तमाहवनीय असं. ४५३
 *तमाहुः कौउ. ६६६
 तमाहुतमशी असं. १७०
 तमिच्छन्ताववा छाउ. ९७०
 तमितिहासश्च असं. ४५३
 तमित्यविष्पादे कौउ. ६३६
 तमित्यविष्पादे ग " ६३३
 तमित्प्राणं मन तैब्रा. ३१६,
 ३२८
 तमित्वा संप्रति काउ. ६३४
 तमिदं निगतं असं. १७४
 तमिदन्द्रं सन्त ऐउ. ५८७
 तमिदुद्गाता श्रि तब्राउ. १३५८
 तमिदुर्भं प्रथ ऋसं. १८७
 तमिन्द्र उवाच ऐउ. ५४९

तसः २८१	*तमेवं विदित्वा	श्वेउ. १५९५
तत्राउ. १३६१	*तमेवं विद्वान्	तैआ. २५४
शाब्रा. ४०१	,,	,, २७३
ऋसं. ४९५	तमेव तत्प्राप	छाउ. ८१३
श्वेउ १६०७;	तमेव धीरो वि	वृउ. १२४६
शिरउ. १३८०	तमेव नो ब्रूहि	छाउ. ८७३
श्वेउ. १६१९	तमेव भान्तम	काउ. १४३२;
वृउ. १२२४	मुउ. १४६७; श्वेउ. १६२४	वृउ. १२४२
तत्राउ. १३४६	तमेव मन्थ आ	तैआ. ३३२
वृउ. १२९०	तमेव मृत्युम	शुसं. २५४;
शब्रा. ४६५	तमेव विदित्वा	श्वेउ. १५९५, १६२४
कौउ. ६३८	,,	असं. २५१
छाउ. ८३१	तमेव विद्वाद्य	मुउ. १४६१
गोब्रा. ११८	तमेवैकं जान	शब्रा. ११३
तत्राउ. १३३६	तमेव वस्ते स	प्रउ. १५१४
,, १३६६	*तमोकारेणान्वे	,,
गोब्रा. ११८	तमोकारेणैवा	मैउ. १६६२
छाउ. ८२३,	तमो लक्षणं भि	,, १६५७
८२५	तमो वा इदम	ऋसं. ५६
जैब्रा. ५०४	तम्बभि प्र गाय	तत्राउ. १३४१
ऋसं. १०२	तया तृतीयस	तैसं. १३४
,, ८२	तया नस्तनुवा	कासं. ,,
असं. ४५२	*तया नस्तन्वा श	मैउ. १६६१
प्रउ. १५११	तया प्राणोकार	तत्राउ. १३४०
असं. ४५२	तया प्रातः सव	जैब्रा. ४०५
,, ४५३	तया मात्रा तथा	तत्राउ. १३४०
तत्राउ. १३६२	तया माध्यन्दिन	शब्रा. ३४५;
श्वेउ. १५७७	तया मामद्य मे	ऋसंखि. ५०२
वृउ. १३०४	तया रोहमाय	तैसं. ३६८
कौउ. ६९१;	तया वा एतया	तत्राउ. १३४१
वृउ. १२४७	तया वाचा स्वर	वृउ. १०१३
शब्रा. २९७	तया वाजान् विश्व	असं. १६९
तत्राउ. १३४६	तया शिवमशि	मैउ. १६६७
,, १३५९	तया सपत्नान्प	असं. ३३९
शब्रा. २९२	तया सर्वमात्मा	शब्रा. ३२९
तत्राउ. १३६६	तया सर्वाश्च का	गोब्रा. ५२२
शब्रा. ११७	तयाऽस्मान्विश्वत	तैसं. १३६
कौउ. ६८१	तयाऽहं चान्त्या स	तैआ. ५१९
,, ६४५	तया हतेन पा	नाउ. १६३२
ऐब्रा. १५१	तयेदं सर्वं ह	छाउ. ८३०
वृउ. १०८०		
,, ९९५		
,,		

तयैनें प्राशिक्ष्यं	४४२
तयोः कर्म पर	कौउ. ६६८
तयोः श्रयन्ते र	असं. ४२३
तयोः श्रेय आद	काउ. १३९८
तयोः संविदान	तत्राउ. १३६८
तयोरज्ञाद ए	शब्रा. ३०१
तयोरन्यः पिप्प	ऋसं. २१३;
मुउ. १४६८;	श्वेउ. १६०४
तयोरन्यतरत्	शब्रा. ३०२
तयोरन्यतरां	छाउ. ८४७
तयोरहं परि	असं. २४८
तयोरदित्या नि	मैसं. १६६
तयोरित्याः पर	कौउ. ६६८
तयोरित्या पर	,,
तयोरेष संस्ता	वृउ. ११८७
*तयोर्ध्वमायन्न	छाउ. ९६८;
	काउ. १४३९
तयोर्मिथुनात्प्र	ऐउ. ५६९
तयोर्थः संभव	तत्राउ. १३४७
तयोर्थत् सत् तत्सा	,, १३४५
तयोर्थत्सत्यं य	ऋसं. ३५४,
	४१८
तयोर्वा एतयो	शब्रा. ११३
तयोर्ह प्राचीन	तत्राउ. १३५७
तयोर्ह मंत्रेयी	वृउ. १२५९
तरणिर्विश्वद	असं. १७१
तरति शोकं त	मुउ. १४८७
तरांसि यज्ञा अ	असं. ४३५
तव चतस्रः प्र	,, १३०
तव त्यदिन्द्रियं	ऋसं. ५६
तव देवा हव	तैआ. ३३३
तव यैरिन्द्र पौ	ऋसं. ५७
तव द्रप्सा उद	,, ७३
तव प्रजास्तवी	तत्राउ. १३६१
तव प्रशास्त्रं त्व	ऋसं. ५
तव भ्रमास आ	नाउ. १६४३
तव यक्षं पशु	असं. १३२
तव वयं स्मः	ऐउ. ५३४
तव वै वयं स्मो	तत्राउ. १३३६
तव श्रिया सुह	ऋसं. १३
तव श्रिये मरु	,,

तवाग्ने होत्रं त	ऋसं.	५
तवेदं सर्वमा	असं.	१३०
तवेमाः प्रजा दि	ऋसं.	७१
तवेमे पञ्च प	असं.	१२९
तवेमे लोकाः प्र	मैसं.	२००
तवैव नाम्ना भ	काउ.	१३९३
तवैव राजन्मा	छाउ.	८५७
तस्मा अत्रसद	तब्राउ.	१३८६
तस्मा अत्रो भव	असं.	४७४
तस्मा अरं गमा	नाउ.	१६३३
तस्मा अहमिद	तैआ.	३५१
तस्मा आदित्याश्च	छाउ.	७९१
तस्मा आपो घृत	ऋसं.	३५२, ४७५
तस्मा आसनमा	बृउ.	१२९३
तस्मा इद्विश्वे धु	ऋसं.	१९३
तस्मा इमा ओष	शब्रा.	२९५
तस्मा उदीच्या दि	असं.	४५१, ४५२
तस्मा उद्यन्तसूर्यो	”	४७४
*तस्मा उपसंह	शिरउ.	१६७८
तस्मा उ राधः कृ	असं.	८६
तस्मा उररभ	तब्राउ.	१३८६
तस्मा उषा हिङ्कृ	असं.	४७४
तस्मा उ ह ददुः	छाउ.	८३०
तस्मा उ ह न द	”	८२८
तस्मा उ हैतप्रो	तब्राउ.	१३५५
तस्मा उ हैतदु	शब्रा.	४६९, बृउ १२७७
तस्मा उ हैतेन	जैब्रा.	४०३, तब्राउ. १३५९
तस्मा ऊर्ध्वाया दि	असं.	४५२
तस्मा एतं गाय	तब्राउ.	१३७२
तस्मा एतं सुर	असं.	१९८
तस्मा एतप्रोवा	गोब्रा.	११८, तैउ. ७३५
तस्मा एतेन गा	तब्राउ.	१३६९
तस्माच्च देवा ब	मुउ.	१४५८
तस्माच्चेष प्रमा	तैउ.	७१७
तस्माच्छतं वर्षा	ऐउ.	५४४
तस्माच्छतचिनः	”	”
तस्माच्छमः पर	नाउ.	१६५०
तस्माच्छमे रम	”	”

तस्माच्छक्राऽऽर्म	शब्रा.	२९६
तस्माच्छूद्र उत	ताब्रा.	२८४
तस्माच्छूद्रोऽनुष्टु	जैब्रा.	२८६
तस्माच्छूद्रो यज्ञे	तैसं.	२८१
तस्माच्छ्रान्तात्तप्ता	गोब्रा.	३०४, ३०५
तस्माच्छ्रान्तात्तेपा	शब्रा.	२९५
तस्माच्छ्राम्यत्येव	बृउ.	१०६१
तस्माज्जातं ब्राह्म	असं.	४२२, ४२५
तस्माज्जाया अभ	गोब्रा.	३०३
तस्माज्जायाया अ	शब्रा.	११५
तस्माज्जगुप्सेत	छाउ.	८६९
तस्मात् कारणं ब्रू	गोब्रा.	५२४
तस्मात्काल एव	ऐउ.	५६९
तस्मात्कुमारं जा	बृउ.	१०४७
तस्मात्क्षत्रात्परं	”	१०३६
तस्मात्क्षुद्रसूक्ताः	ऐउ.	५४७
तस्मात्त आद्याः	तैसं.	२८१
तस्मात्त इतरा	ऐउ.	५५७
तस्मात्त उपद्र	तब्राउ.	१३३३
तस्मात्ततिर इ	ऐउ.	५६९
तस्मात्तप्तात्पञ्चा	शब्रा.	१५०
तस्मात्तत्सर्वम	बृउ.	१०२९
तस्मात्तत्सुकृत	तैउ.	७२५
*तस्मात्तदातुञ्जा	बृउ.	११७८
*तस्मात्तदातृण्य	”	”
तस्मात्तदातृण्णा	”	”
तस्मात्तदाविः	ऐउ.	५६९
तस्मात्तदैन्द्रात्प्रा	”	५६७
तस्मात्तपः पर	नाउ.	१६५०
तस्मात्तपसि र	”	”
तस्मात्तप्यमान	तब्राउ.	१३३२, १३६५
तस्मात्तयोभयं	छाउ.	७५२
तस्मात्तव बहु	”	८७४
तस्मात्तव सुतं	”	”
तस्मात्तवैष सुतो	शब्रा.	४०
तस्मात्तस्मान् बी	ऐउ.	५७२
तस्मात्तस्योदयं	छाउ.	८२२
तस्मात्ता अपरि	तब्राउ.	१३४४
*तस्मात्तानि न क्षीं	बृउ.	१०४७
*तस्मात्तानि प्रप	तब्राउ.	१३४४

तस्मात्तान्निदध	छाउ.	७७९
तस्मात्तान्यन्तरि	”	”
तस्मात्तान्याददा	तब्राउ.	१३३३
तस्मात्तावेतेनै	शब्रा.	३०
तस्मात्ते धनस	छाउ.	७६४
तस्मात्तेनोभयं	”	७५१, ७५२
तस्मात्ते पराभ	तैआ.	१६०, ३०६
तस्मात्तेपानाज्ज्यो	तैब्रा.	२८८
तस्मात्तेपानाद	”	”
तस्मात्तेपानादु	”	”
तस्मात्तेपानादधू	”	”
तस्मात्तेपानान्म	”	”
तस्मात्ते पुरुषं	छाउ.	७७९
तस्मात्ते प्रतिह	”	”
तस्मात्ते प्रथम	तब्राउ.	१३३९
तस्मात्ते प्रस्तुति	छाउ.	७७८
तस्मात्ते मुख्याः	तैसं.	२८१
तस्मात्तेऽमृताः	तब्राउ.	१३३३
तस्मात्ते वान्वा कु	”	१३६०
तस्मात्ते वीर्याव	तैसं.	२८१
तस्मात्ते वृत्रहा	असं.	४३५
तस्मात्तेषां सर्वे	छाउ.	९८२
तस्मात्ते सत्तमाः	”	७७९
तस्मात्ते सत्या उ	तब्राउ.	१३६३
तस्मात्तेऽहं ब्रवी	प्रउ.	१५००
तस्मात्ते हिं कृष्व	छाउ.	७७८
तस्मात्तौ भूतसं	तैसं.	२८०
तस्मात्त्रिः पुरुषो	शब्रा.	४०७
तस्मात्त्रिगुणं भो	मैउ.	१६५९
तस्मात्त्रिवृत् स्तोमा	ताब्रा.	२८३
तस्मात्त्वं प्रतिष्ठि	शब्रा.	३९, छाउ. ८७६
तस्मात्त्वं बहुः प्र	शब्रा.	४०
तस्मात्त्वं बहुलो	छाउ.	८७५
तस्मात्त्वं रयिमा	शब्रा.	४०, छाउ. ८७५
तस्मात्त्वं समाना	शब्रा.	४१
तस्मात्त्वमस्मान्	तैब्रा.	४८७
तस्मात्त्वां पृथग्ब	छाउ.	८७५
तस्मात्त्वां पृथग्प्र	शब्रा.	४०

तस्मात्स्वबोद्धता	छाउ.	७६२	तस्मात्समान्या र	”	४६६	तस्मादप्येयद्वा	छाउ.	९७२
तस्मात्पदम्	ऐउ.	५४७	तस्मात्स मीलित	”	२०३	तस्मादप्यामित्रौ	तैब्रा.	२८७
तस्मात्पदमित्या	”	”	तस्मात्समुद्रस्य	तैब्रा.	२८९	तस्मादप्येतद्व्यौ	वृउ.	१०१६
तस्मात्परमेष्ठी ना	शब्रा.	३००	तस्मात्स रेतसः	तब्राउ.	१३४४	तस्मादप्येतर्ह्यौ	”	१०४२
तस्मात्पर्यात्तं च	तब्राउ.	१३५०	तस्मात्सर्गस्वर्गा	मैउ.	१६६३	तस्मादप्राणश्च	छाउ.	७५५
तस्मात्पर्यात्तं श्रो	”	”	तस्मात्सर्वदेव	वृउ.	९९९	तस्मादयं सर्व	शब्रा.	३२९
तस्मात्पर्यात्तोऽपा	”	”	तस्मात् सर्वमापो	गोब्रा.	५२४	तस्मादयमाका	वृउ.	१०१९
तस्मात्पर्यादत्तं	”	”	तस्मात्सर्वायुष	तैउ.	७१५	तस्मादयमुष्णः	शब्रा.	३२९
तस्मात्पर्यादत्ता	”	”	तस्मात्सर्वासु दि	छाउ.	८३०	तस्मादयास्यः	तब्राउ.	१३५३
तस्मात्पशवो व	”	१३४०	तस्मात्सर्वाेषध	तैउ.	७१४	तस्मादयो बहु	शब्रा.	२९६
तस्मात्पशवो हि	”	१३३३	तस्मात्सावित्रः	तैब्रा.	२९	तस्मादर्धर्च इ	ऐउ.	५४७
तस्मात्पशोर्जाय	तैब्रा.	२८९	तस्मात्सावित्रे न	”	२६	तस्मादर्धर्चः	”	”
तस्मात् पादावने	ताब्रा.	२८४	तस्मात् सिकताः श	शब्रा.	२९६	तस्मादलम्भो रा	तब्राउ.	१३६४
तस्मात्पादावुप	तैसं.	२८१	तस्मात् सुवेदोऽभ	गोब्रा.	३०३	तस्मादविमुक्त	जाउ.	१६६९;
तस्मात्पावमान्यः	ऐउ.	५४७	तस्मात्सूक्तम्	ऐउ.	५४७		कैउ.	१६७६
तस्मात्पितृभ्यो मा	असं.	१६३	तस्मात्सूक्तमित्या	”	”	तस्मादश्मनोऽयो	शब्रा.	२९६
तस्मात्पुत्रमनु	वृउ.	१०५८	तस्मात्सोऽपि दह	तब्राउ.	१३६५	तस्मादश्लीलना	तैब्रा.	२८७
तस्मात्पुत्रस्य जा	शब्रा.	२९६	तस्मात्स्त्रियमध	वृउ.	१३०५	तस्मादश्वा अजा	ऋसं.	२३२
तस्मात्पुमान्दक्षि	तब्राउ.	१३४६	तस्मात्स्त्राप्ययः	शब्रा.	११६	तस्मादसतः स	छाउ.	८८७
तस्मात्पुरुषं पु	ऐउ.	६१३	तस्मादक्षरम्	ऐउ.	५४७	तस्मादस्य पापी	तब्राउ.	१३३१
तस्मात्पुरुषस्य	तब्राउ.	१३४०	तस्मादक्षरमि	”	”	तस्मादाकाशाद्वा	”	१३३६
तस्मात्पुरुषात्त	शब्रा.	२९५	तस्मादग्नय आ	नाउ.	१६५०	तस्मादाङ्गिरसः	”	१३५३
तस्मात्प्रगाथा इ	ऐउ.	५४७	तस्मादग्नेव	वृउ.	१०३८	तस्मादादित्यात्मा	मैउ.	१६६१
तस्मात्प्रजननं	”	”	तस्मादग्नि नाद्रि	शब्रा.	११४	तस्मादापेरोका	गोब्रा.	५२३
तस्मात्प्रपदे इ	ऐउ.	५३२	तस्मादग्निः समि	मुउ.	१४५७	तस्मादापो अभ	”	३०३
तस्मात्प्रसाम त	तब्राउ.	१३३४	तस्मादग्निर्गृध्र	मैउ.	१६६४,	तस्मादात्विज्यं क	वृउ.	१०१३
तस्मात्प्राङ् तिष्ठन्ना	”	१३६०	तस्मादग्निहोत्रं	नाउ.	१६६५	तस्मादासु प्रजा	तब्राउ.	१३४४
तस्मात्प्राजापत्यां	साब्रा.	२०४	तस्मादग्निहोत्रे	”	१६५०	तस्मादाहुः	मैसं.	१६६;
तस्मात्प्राण एव	शब्रा.	१५३	तस्मादग्नीन्पर	”	१६५१	तैब्रा.	२८७;	
तस्मात्संवत्सर	”	२९७	तस्मादङ्गिरसो	गोब्रा.	३०५	तस्मादाहुः प्रजा	शब्रा.	३००,
तस्मात्संवत्सरो	मैउ.	१६६१	तस्मादत्रय इ	ऐउ.	५४५		४६५	
तस्मात्स तूष्णीमा	तब्राउ.	१३६०	तस्मादत्रयः	”	”	तस्मादाहुः प्राण	”	४६८
तस्मात्स तेन ब	ऐउ.	५५४	तस्मादनुष्ठुभं	ताब्रा.	२८४	तस्मादाहुः सोध्य	छाउ.	८१६
तस्मात्सत्यं पर	नाउ.	१६५०	तस्मादनुचान	शब्रा.	२९३	तस्मादाहुतिर्न	शब्रा.	३८
तस्मात्सत्यं वद	वृउ.	१०३८	तस्मादनुचय प्र	”	२९२	तस्मादाहुरिन्द्रो	”	३०१
तस्मात्सत्ये रम	नाउ.	१६४९	तस्मादनुते न	ऐउ.	५६८	तस्मादाहुर्गयि	”	२९७
तस्मात्स दहति	तब्राउ.	१३६५	तस्मादनुते न	तैउ.	७१४	तस्मादाहुर्ज्येष्ठ	तैसं.	२८१
तस्मात्सप्तार्चिषः	कब्रा.	१२	तस्मादनुते तदु	नाउ.	१६५१	तस्मादाहुर्नैते	जैब्रा.	४०३
तस्मात्स मथिता	तब्राउ.	१३४४	तस्मादनुते दद	शब्रा.	२९६	तस्मादाहुर्बल	वृउ.	१२८२
तस्मात्समान ए	शब्रा.	१५३	तस्मादनुते दीक्षि	वृउ.	११७५	तस्मादाहुर्ब्रह्मा	शब्रा.	२९२,
तस्मात्समानम	ऐउ.	५३०	तस्मादनुते पृष्ठ	”	१०५०.		२९३	
						तस्मादाहुर्मधु	तब्राउ.	१३४६

तस्मादाहुस्त्रिंशत् शब्रा. २९४
 तस्मादिदं सर्वं तैब्रा. १६०,
 ३०६
 तस्मादिदं चो ना ऐउ. ५८७
 तस्मादिदमर्धं वृउ. १०१९
 तस्मादिदानीं पु तब्राउ. १३५६
 तस्मादिमाः प्रजा प्रउ. १४९५
 तस्मादिमा भूयि तैब्रा. २८९
 तस्मादु कल्याणी जैब्रा. ४०३
 तस्मादुभ्यश्चासं शब्रा. ११३
 तस्मादु गायतां तब्राउ. १३४७
 तस्मादु चतुर " १३३६
 तस्मादु जायां जु जैब्रा. ४०३
 तस्मादु तं नाद्रि शब्रा. ४६५
 तस्मादुत कुम्ब्य तब्राउ. १३४४
 तस्मादुत गाय " "
 तस्मादुत नारा " "
 तस्मादुत ब्रह्म " १३४६
 तस्मादुत रैभ्या " १३४५
 तस्मादुत स्त्रियो " १३४६
 तस्मादु ते निध " १३३३
 तस्मादु तेषु व वृउ. १०१४
 तस्मादु तेषु वी शब्रा. ११५
 तस्मादु ते स्तुव तब्राउ. १३३३
 तस्मादुज्ञाना वृ " १३५२
 तस्मादुद्गीथः छाउ. ७६२
 तस्मादु द्वाभ्यां चि शब्रा. ११४
 तस्मादु न दश्य " ११२
 तस्मादुपवस तब्राउ. १३४६
 तस्मादुपशान्त प्रउ. १५०२
 तस्मादु पादाव जैब्रा. २८६
 तस्मादु प्रजनि " "
 तस्मादु बहुप ताब्रा. २८४
 तस्मादु बाहुभ्यां जैब्रा. २८६
 तस्मादु बाहुवी ताब्रा. २८३
 तस्मादुभयतः जैब्रा. ३२७
 तस्मादु भीमलाः तब्राउ. १३४७
 तस्मादुभौ यष्ट कब्रा. ४०७
 तस्मादु मुखं प्र जैब्रा. २८६
 तस्मादु ये न ए तब्राउ. १३४१
 तस्मादु लोकं प्र " १३५३
 तस्मादु संयत शब्रा. ४६६
 तस्मादु संवत्स " २९८

तस्मादु समान जैत्रा. ४०३
 तस्मादु सर्वेषु छाउ. ८५७
 तस्मादु ह एवै गोब्रा. ३३१
 तस्मादु ह न पु शब्रा. ५१७
 तस्मादु ह नोप तब्राउ. १३३६
 तस्मादु ह स्वप शब्रा. ११५
 तस्मादु हैतं हि तब्राउ. १३३१
 तस्मादु हैतत् शब्रा. ११५
 तस्मादु हैतत्रे " ११६
 तस्मादु हैतद्यः " २९४
 तस्मादु हैवन्वि छाउ. ७६४,
 ८८२; तब्राउ. १३५३,
 १३५४, १३५९, १३६०
 तस्मादु होपगा तब्राउ. १३३६
 तस्मादुकृ ऐउ. ५४७
 तस्मादुगिर्याच " "
 तस्मादुग्यजुः सा गोब्रा. ५२४
 तस्मादुचः साम मुउ. १४५७
 तस्मादुच्यभ्यूढं छाउ. ७६०,
 ७६३
 तस्मादुषयः शब्रा. २९०,
 ३२८
 *तस्मादेक ऋष प्रउ. १४९३
 तस्मादेकमेव वृउ. १०६३
 तस्मादेकविंशः ताब्रा. २८४
 तस्मादेका शब्रा. ११६
 तस्मादेकाकी न वृउ. १०१९
 तस्मादेकाक्षर शब्रा. २९८
 तस्मादेका सती " ११६
 तस्मादेत ऋष प्रउ. १४९३,
 १४९५
 तस्मादेत एते वृउ. १०६१
 तस्मादेतदुभ " १०२०
 तस्मादेतदृषि शब्रा. ६७,
 २२९, ३१९, ३५०
 तस्मादेतदेवो कौउ. ६६५
 * " " " ६६६
 तस्मादेतद्ब्रह्म मुउ. १४४८
 तस्मादेतमादि तब्राउ. १३६५
 तस्मादेतां रात्रि वृउ. १०५५
 तस्मादेताः सप्ता प्रउ. १५०१
 तस्मादेतेन द्व जैब्रा. ३२७
 तस्मादेतेनैक " "

तस्मादेतौ यज्ञे तैसं. १६६
 तस्मादेनं स्वपि छाउ. ९०४
 तस्मादेनमनु वृउ. १०५८
 तस्मादेनममृ शब्रा. ५१८
 तस्मादेनमुद् " ३३०
 तस्मादेनमेवं " ११७
 तस्मादिना अङ्गि " ३१
 तस्मादिनां न हि ऐउ. ५९०
 तस्मादेव उ पु कौउ. ६५१
 तस्मादेवं वदि मैसं. २५२
 तस्मादेवंविच्छा कौउ. ६९१;
 वृउ. १२५५
 तस्मादेवंविच्छ्रो वृउ. १३०७
 तस्मादेवंविदस्व शब्रा. ११५
 तस्मादेवंविद छाउ. ८४९
 तस्मादेवं विदि कैउ. १६७६
 तस्मादेवं विद्वा ऐउ. ६१६
 *तस्मादेवंविद्वा वृउ. १२८९
 तस्मादेवमाशा तैब्रा. ४१९
 तस्मादेष आत तब्राउ. १३६५
 तस्मादेष प्रवि वृउ. ११८७
 तस्मादेषां तत्र " १०३०
 तस्मादेषा धीरे तब्राउ. १३४६
 तस्मादेषा धीर्वै " "
 तस्मादेषेव प्र " १३६६
 तस्मादेषोपासी मैउ. १६५९
 तस्मादोकार ऋ गोब्रा. ५२३
 तस्मादोमित्यने मैउ. १६५८,
 १६६५, १६६८
 तस्मादोमित्येवा तब्राउ. १३६१
 तस्मादोमोमिति ऐब्रा. २८३,
 ५२१
 तस्माद्वायव्यस्य तब्राउ. १३५५
 तस्माद्गुल्ममदः ऐउ. ५४५
 तस्माद्ग्नसस्तस्मा असं. १७०
 तस्माद्मः पर नाउ. १६५०
 तस्माद्मे रम " "
 तस्माद्दानं पर " १६५१
 तस्माद्दाने रम " १६५०
 तस्माद्देवेभ्यो जु वृउ. १०४७
 तस्माद्देवेभ्योऽर्ध असं. १६३
 तस्माद्द्वयोरेव शब्रा. २९७

द जश इ	असं. १७०	८९२; जाउ. १६६९	तस्माद्यदभाव	तत्राउ. १३६९	तस्माद्भाव पापं	तत्राउ. १३५४
दर्म पर	नाउ. १६५१		तस्माद्यदनेना	वृउ. १००९	तस्माद्विद्यया त	मैउ. १३५६
दर्मात्परं	वृउ. १०३८		तस्माद्यदाऽज्ञस्य	शब्रा. १५४	तस्माद्विद्यां प्रशः	वृउ. १०५७
दर्मे रम	नाउ. १६५०		तस्माद्यदा पश	,, २९६	तस्माद्विद्यास ए	नाउ. १६५०
दाद्येतर्हि	ऐउ. ५४२		तस्माद्यदा बल	,, ,	तस्माद्विद्यानेते	प्रउ. १५१०
दारा अभ	गोब्रा. ३०३		तस्माद्यदा सुश्रु	छाउ. ९३४	तस्माद्विराळजा	ऋसं. २३१
दयेवात्मनो	वृउ. १०३९		तस्माद्यदाहिता	शब्रा. ४६४	तस्माद्विश्वामित्रः	ऐउ. ५४५
दहु किं च	तत्राउ. १३४८		तस्माद्यदिदानीं	वृउ. १२८१	तस्माद्वैतं यज्ञं	जैब्रा. २८६
दहुपुत्र	,, १३५२		तस्माद्यद्यपि द	छाउ. ९३४	तस्माद्वैतच्छि	शब्रा. २९१,
द्वष्टृचा उ	,, १३५६		तस्माद्यद्यपि ब	,, ९३२,		२९२
द्वृहतीमे	ऐउ. ५६६			,, ९३६	तस्माद्वै गौतम	वृउ. ११४८
द्वहणो म	नाउ. १६५१,		तस्माद्यद्यपि रा	वृउ. १०३६	तस्माद्वै विद्वान्पु	असं. ३१३
	१६५२		तस्माद्यद्यपि स	,, १०५६	तस्माद्वैश्यो जग	जैब्रा. २८६
द्वह्मवा	गोब्रा. ५२४		तस्माद्यद्यपि सु	शब्रा. २९६	तस्माद्वैश्योऽद्यमा	ताब्रा. २८४
द्वह्माणं ब्र	ऐउ. ६१३		तस्माद्यया कया	तैउ. ७३९	तस्माद्वै सभाउ	वृउ. ११८५,
द्वह्मा प्रात	तत्राउ. १३६०		तस्माद्यथ वेद	शब्रा. २०३		११९१
द्विष्टं ब्र	कौउ. ६८८		तस्माद्यस्मात्कस्मा	वृउ. १०१०	*तस्माद्वै सम्राड्यां	शब्रा. ११८५
द्विहणः क्ष	वृउ. १०३६		तस्माद्यस्मै कस्मै	ऐउ. ५८३	*तस्मान्न इह मु	मैसं., तैआ. ४८७
द्विहणः पा	,, ११३६		तस्माद्यां देवेष्ववा	शब्रा. १५५	तस्मान्नः परिपा	तैआ. ४११
द्विहणव	गोब्रा. ५२३		तस्माद्यावन्मात्र	,, १५४	तस्मान्न जनमि	वृउ. १००७
द्विहणस्य	ताब्रा. २८४		तस्माद्यावन्मात्रे	,, ,	तस्मान्न प्रमाद्येत्	ऐउ. ५२७
द्विहणो गा	जैब्रा. २८६		तस्माद्ये चैतद्वि	,, ५१७	तस्मान्नातिमन्ये	शब्रा. २०२,
द्विहणो ना	मैउ. १६६७		तस्माद्यो गार्हप	जैब्रा. ४०३		४६५
द्विहणो मु	ताब्रा. २८३		तस्माद्योऽस्माज्ज्याया	शब्रा. १५४	तस्मान्नानारूपा	मैउ. १६५६
द्वरगत्वा	मैउ. १६५९		तस्माद्राजन्त्यत्रि	जैब्रा. २८६	तस्मान्नाहार्हभ्यनृ	प्रउ. १५१४
द्वरद्राज	ऐउ. ५४७		तस्माद्राजन्त्यस्य	ताब्रा. २८३	तस्मान्निरध्यव	मैउ. १६६३
दीमला धि	तत्राउ. १३४७		तस्माद्वैतस इ	शब्रा. ११५	तस्मान्नेष्ट्रियाजु	वृउ. १०४७
भूयासोऽन्ये	तैसं. २८१		तस्माद्वनस्पती	असं. १६३	तस्मान्नेनं वहि	शाब्रा. ४६०
भूयिष्ठाः प्र	नाउ. १६५०		तस्माद्वसिष्ठ इ	ऐउ. ५४७	तस्मान्न्यासमेधां	नाउ. १६५१
तोक्ता पुरु	मैउ. १६६०		तस्माद्वसिष्ठः	,, ५४५	तस्मान्मन एव	ऐउ. ५९८;
इह म	छाउ. ९३२		तस्माद्वा अग्नि सा	तत्राउ. १३५४		कौउ. ६८४
विद्युद्ध	शब्रा. २९६		तस्माद्वा अयम	शाआ. ३३१	तस्मान्मनुष्येभ्यः	असं. १६३
जमान	मैउ. १६५३		तस्माद्वा इन्द्रोऽति	तत्राउ. १३८२	तस्मान्मन्त्रौषधा	मैउ. १६६५
जुः प्राण	शब्रा. १५३		तस्माद्वा एतसै	छाउ. ९६४	तस्मान्मलोद्वास	वृउ. १३०६
जुरेष	,, १५२		तस्माद्वा एतद्	,, ८५३	तस्मान्महदुक्थं	शब्रा. ११३
जं पर	नाउ. १६५१		तस्माद्वा एतमि	,, ७५५	तस्मान्माध्यमा इ	ऐउ. ५४५
ज्ञात्सर्व	ऋसं. २३२		तस्माद्वा एतस्मा	तैउ. ७०६,	तस्मान्माध्यमाः	,, ,
ज्ञे रम	नाउ. १६५०		७१४, ७१५, ७१६, ७१८;	मैउ. १६६४	तस्मान्मानसं प	नाउ. १६५१
ज्ञे स्वर	वृउ. १०१३		तस्माद्वा एते दे	तत्राउ. १३८२	तस्मान्मूर्तिरेव	प्रउ. १४९१
त्केच प्रा	शब्रा. ३३८		तस्माद्वा एष उ	मैउ. १६५९	तस्मान्मृत्युर्न मि	शब्रा. ११२
त्केचाग्नौ	असं. ४२१		तस्माद्वा मदेवः	ऐउ. ५४५	तस्मान्मेति ब्रूयात्	तत्राउ. १३५९
त्पुरुषो	तैआ. १५८,				तस्मान्मेत्याह	,, १३५८
	३०५					

तस्मिन् प्रतिस्रु १४९७,
 *तस्मिन् प्रतिस्रु १४९७
 तस्मिन्स्वयि किं वी तब्राउ. १३८०,
 १३८१
 तस्मिन्स्वयन्त अमं. ३१३
 *तस्मिन्स्वयन्त अ तैब्रा. १६७
 तस्मिन्स्वयन्त वृउ. १२३९;
 तस्मिन्स्वयन्त य परि. १५६८
 तस्मिन्स्वयन्त असं. २४८
 तस्मिन्स्वयन्त अ तैउ. ६९५
 तस्मिन्स्वयन्त अ त्रिश ऋमं. २२८
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. ४६८
 तस्मिन्स्वयन्त अ नाउ. १६४५
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. ४७१
 तस्मिन्स्वयन्त अ तैसं. १५७,
 २८१
 तस्मिन्स्वयन्त अ ऋमं. १०१
 तस्मिन्स्वयन्त अ वृउ. १२७४
 तस्मिन्स्वयन्त अ तैउ. ६९९
 तस्मिन्स्वयन्त अ तैसं. २३
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. २०३
 तस्मिन्स्वयन्त अ जैब्रा. ४०६
 तस्मिन्स्वयन्त अ तब्राउ. १३३३
 तस्मिन्स्वयन्त अ शुमं. २५७
 तस्मिन्स्वयन्त अ तब्राउ. १३३५
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ. ७७८
 तस्मिन्स्वयन्त अ प्रउ. १४९७
 तस्मिन्स्वयन्त अ जैब्रा. ५२२
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. ४०१
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, १५०
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. २९२
 तस्मिन्स्वयन्त अ जैब्रा. ४०४;
 छाउ. ८५८, ८५९, ८६०;
 वृउ. १२९५, १२९६, १२९७
 तस्मिन्स्वयन्त अ कौउ. ६८४;
 तब्राउ. १३६५
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. २९१
 तस्मिन्स्वयन्त अ शाआ. ३२२
 तस्मिन्स्वयन्त अ मैउ. १६६५
 तस्मिन्स्वयन्त अ तैआ. ३९७
 तस्मिन्स्वयन्त अ तैसं. १५७,
 २८२

तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. ४२
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ. ९५२
 तस्मिन्स्वयन्त अ अमं. २४६,
 २५१
 तस्मिन्स्वयन्त अ वृउ १०८१
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ ८६४
 तस्मिन्स्वयन्त अ एउ. ५५७
 तस्मिन्स्वयन्त अ वृउ. १२७६
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ. ८१३
 तस्मिन्स्वयन्त अ वृउ. ११९७
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, १०४६,
 १०४७
 तस्मिन्स्वयन्त अ तब्राउ. १३४३,
 १३६६
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, १३५८
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, १३६४
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, १३५१
 तस्मिन्स्वयन्त अ एउ. ६००
 तस्मिन्स्वयन्त अ जैब्रा. ४०३;
 तब्राउ. १३५९
 तस्मिन्स्वयन्त अ असं. २४९
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, २४५
 तस्मिन्स्वयन्त अ तब्राउ. १३६४
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. ३३०
 तस्मिन्स्वयन्त अ काउ. १४२९,
 १४३३
 तस्मिन्स्वयन्त अ ऋमं. ४८५
 तस्मिन्स्वयन्त अ तब्राउ. १३८१
 तस्मिन्स्वयन्त अ असं. १६७
 तस्मिन्स्वयन्त अ मैउ १६६७
 तस्मिन्स्वयन्त अ असं. ४५१,
 ४५२
 तस्मिन्स्वयन्त अ ऋसं. १८३
 तस्मिन्स्वयन्त अ असं. ४५२
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, १३२
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, १३३
 तस्मिन्स्वयन्त अ कौउ. ६६८
 तस्मिन्स्वयन्त अ असं. ४५१,
 ४५२
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, ३९६
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, ४५१
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, ४५२

तस्मिन्स्वयन्त अ ,, ३२२
 तस्मिन्स्वयन्त अ अमं. २४५
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. ४७०
 तस्मिन्स्वयन्त अ शिरउ १६७९
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ ९५०
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, ७९१
 तस्मिन्स्वयन्त अ शिरउ. १५७४
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ. ७९०
 तस्मिन्स्वयन्त अ कौउ. ६४०,
 ६४१
 तस्मिन्स्वयन्त अ तैब्रा. ४१९
 तस्मिन्स्वयन्त अ असं. ४५१
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ. ७७२
 तस्मिन्स्वयन्त अ वृउ. १२७६
 तस्मिन्स्वयन्त अ अमं. ४५२
 तस्मिन्स्वयन्त अ सुउ. १४५३
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. २९९
 तस्मिन्स्वयन्त अ सुउ. १४४४;
 प्रउ. १४९१, १४९७. १५००,
 १५०५, १५०९, १५१५;
 कैउ. १६७३
 तस्मिन्स्वयन्त अ तब्राउ. १३६४
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ. ८५७
 तस्मिन्स्वयन्त अ तब्राउ १३६४
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. ४०९;
 वृउ. ११८९
 तस्मिन्स्वयन्त अ तब्राउ. १३५६
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ. ८३५
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, ८३४
 तस्मिन्स्वयन्त अ तैब्रा. २८
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ. ८३५
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,, ८२७,
 ८३२, ८३३, ८३८, ८५७,
 ९७५, ९७७
 तस्मिन्स्वयन्त अ शब्रा. ४१९
 तस्मिन्स्वयन्त अ प्रउ. १४९५
 तस्मिन्स्वयन्त अ छाउ. ९०७,
 ९०८
 तस्मिन्स्वयन्त अ कौउ. ६६८
 तस्मिन्स्वयन्त अ एउ. ५२९
 तस्मिन्स्वयन्त अ कौउ. ६५१
 तस्मिन्स्वयन्त अ ,,

देवदेव	तब्राउ.	१३६९	तस्य प्राण एव	तैउ.	७१४	ऋसंखि.	३३५	
तावदेव	छाउ.	९२१	तस्य प्राण एवा	शाभा.	४७३;	तस्य योऽयमश	ऐउ.	६१३
तृतीयया	गोब्रा.	५२२		कौउ.	६९१	तस्य यो रसः प्रा	तब्राउ.	१३३०
मञ्जो रसो	साब्रा.	२०४	तस्य प्राणः प्रथ	जैब्रा.	४०३	तस्य राज्य ए	शब्रा.	३६;
त्रय भाव	ऐउ.	५८५	तस्य प्राणमेव	कौउ.	६५१		बृउ.	१०५५
त्रयैव वि	तब्राउ.	१३३५	तस्य प्राणेन प्र	"	६४७,	तस्य रात्रिः समित्	जैब्रा.	४०४
त्रिंशदात्म	शब्रा.	३६		"	६४९	तस्य रूपं पर	कौउ.	६६८
त्रिंशदात्म	तब्राउ.	१३४०	तस्य प्राणोऽर्कः	ऐउ.	५२९	तस्य कर्त्तृ साम च	छाउ.	७६२
स्वप्ना विद्	शुसं.	२५३	तस्य प्रियमेव	तैउ.	७१८	तस्य लोमानि प	बृउ.	११७८
दिश एव	शब्रा.	३३	तस्य प्रिया ज्ञात	कौउ.	६३५	तस्य लोमैव हि	तब्राउ.	१३४०
दाष्टर्यदे	"	३०१	तस्य फलानि त	ऋसंखि.	५००	तस्य वकारमा	गोब्रा.	५२२
देवजनाः	असं.	४५१	तस्य भर्भणे भु	ऋसं.	१००	तस्य वसन्त ए	तब्राउ.	१३४०
देवस्य क्रु	"	१७३,	तस्य भूतं च भ	कौउ.	६३६	तस्य वा एतस्य	शब्रा.	१५४;
	"	१७४	तस्य भूयो भूय	शब्रा.	४१९	ऐउ.	५५४, ५६७, ५७५;	
देवाः पृथि	ऋसं.	१००	तस्य मकारश्चु	गोब्रा.	५२२		बृउ.	११९७
द्यावापृथि	शब्रा.	३३;	तस्य मध्ये महा	नाउ.	१६४०	* " "	बृउ.	११८८
	तब्राउ.	१३३७	तस्य मध्ये वह्नि	"	"	तस्य वा एतस्या	शब्रा.	३१,
द्यौः शिर आ	साब्रा.	२०४	तस्य मन एव	शब्रा.	३१८;		४१९	
द्याः समित्	जैब्रा.	४०४	शाब्रा. ४६०; कौउ.	कौउ.	६५१;	तस्य वा एताः श	तब्राउ.	१३६५
द्यौरेव ति	छाउ.	७०२		तब्राउ.	१३४०	तस्य वाक् च मन	"	१३६०
द्वितीयया	गोब्रा.	५२२	तस्य मनश्च वा	छाउ.	८४६	तस्य वाक् च न	ऐउ.	५३७
द्वितीयेन	"	"	तस्य मर्त्यामृत	तब्राउ.	१३३७	तस्य वाक् समित्	जैब्रा.	४०४
धीः क्रामाः	कौउ.	६६८	तस्य मुखमेवा	शब्रा.	४०९	तस्य वागर्कः	ऐउ.	५२९
धीराः परि	तैआ.	२५४	तस्य मुखमेवो	ऐउ.	५२९	तस्य वागुद्धिः	"	५७५
नाक्षस्तप्य	ऋसं.	२११	तस्य मे तत्र न	कौउ.	६५७	तस्य वागेव स	छाउ.	८५९
नाव्या एव	शब्रा.	३७	तस्य मेऽन्नं मित्रं	ऐउ.	५४९	तस्य वागेव स्व	ताब्रा.	२८५
नासिकयोः	जैब्रा.	४०५	तस्य य आत्मान	"	५५९	तस्य वाङ्मयो र	तब्राउ.	१३३७
पर्णानि लो	बृउ.	११७८	तस्य यः स्थविष्ठो	छाउ.	८९९,	तस्य वाचमेवा	"	१३७०
पीळयन्त	तब्राउ.	१३६१		९०१	तस्य वाचा सृष्टौ	ऐउ.	५३९	
पीळयन्ते	"	१३३२	तस्य यन्द्गुक्लं त	तब्राउ.	१३८६	तस्य वायुमेव	कौउ.	६५१
पुत्रा दाय	जैब्रा.	४०४,	तस्य यजुरेव	तैउ.	७१५	तस्य वायुर्कः	ऐउ.	५२९
		४०५	तस्य यत्पुरोद	छाउ.	७७८	तस्य वायुरेव	छाउ.	८५९;
पुरुषवि	तैउ.	७१४,	तस्य यथा कप्या	"	७६१		तब्राउ.	१३४०
७१५, ७१७, ७१८			तस्य यथाभिन	"	९२१	तस्य वित्तमेव	बृउ.	१०५६
पुरोवात	तब्राउ.	१३४०	तस्य यदुष्णं त	ऐउ.	५६१	तस्य विद्युतमे	कौउ.	६५१
पूर्वं समु	बृउ.	९९०	तस्य यन्मन आ	साब्रा.	२०४	तस्य विभागे न	तब्राउ.	१३४५
पृथिव्येव	"	१२९६	तस्य यन्माऽसमा	तैआ.	१५९,	तस्य वृश्चामि ते	असं.	१७०
यकृत्तिली	नाउ.	१६३७		३०६	तस्य वेनीरनु	ऋसं.	८२	
प्रथमया	गोब्रा.	५२२;	तस्य यानि चतु	छाउ.	८१४;	तस्य वै ते यथो	तब्राउ.	१३६९
	तब्राउ.	१३५८		तब्राउ.	१३६८	* तस्य वै मे बलिं	बृउ.	१२८८
प्रथमेन	गोब्रा.	५२२	तस्य यानि व्यञ्ज	ऐउ.	५५४	तस्य वै वागेव	"	१०१४

तस्य वं स्वर ए वृउ. १०१३,
 तस्य व्यात्तमेव ,, १२९७
 तस्य व्रतम् शाब्रा. १५०,
 १५१
 तस्य व्रात्यस्य असं. ४५५,
 ४५६
 तस्य शब्दः पर कौउ. ६६८
 तस्य शरीर ए वृउ. ९९८
 तस्य शरीरम तब्राउ. १३५६
 तस्य शिर एव शाब्रा. ४५९
 तस्य श्रद्धैव शि तैउ. ७१७
 तस्य श्रान्तस्य त गोब्रा. ३०३,
 ३०४; वृउ. ९९४, ९९८
 तस्य श्रोत्रमेव कौउ. ६५१
 तस्य संवत्सर वृउ. ९९९,
 १२९६
 तस्य सर्वमांसं शब्रा. ४२१;
 तब्राउ. १३३३
 तस्य सर्वे देवा ,, १३४५,
 १३४८
 तस्य सर्वेषु लो छाउ. ९४७
 तस्य साध्वीरिष ऋसं. १९२
 तस्य सामोपजी साब्रा. २०५
 तस्य मुखदुःखे कौउ. ६६८
 तस्य सुप्तमशी तैब्रा. ३१७
 तस्य सौम्य यो वि गोब्रा. ११८
 तस्य स्वर एव तब्राउ. १३४९,
 १३६५
 तस्य ह केशी दा ,, १३६४
 तस्य ह जनक वृउ. १११५
 तस्य ह ज्ञानिका तब्राउ. १३५७
 तस्य ह द्वादश छाउ. ८३४
 तस्य ह नचिके काउ. १३८९
 तस्य ह न देवा वृउ. १०३०
 तस्य ह प्रजाप तब्राउ. १३५२
 तस्य ह प्रतिरा जैब्रा. ४०४
 तस्य ह प्रहर ,, ,
 तस्य ह ब्रह्मणो तब्राउ. १३७९
 तस्य ह मूर्धा वि वृउ. ११७७
 तस्य हृद्भयान्य जैब्रा. ४०५
 तस्य ह वा एत गोब्रा. ३०४;
 कौउ. ६३३, ६४०, ६४१;

* ,, ,, वृउ. १०८५
 तस्य हाऽन्तरिक्षा तब्राउ. १३५६
 *तस्य हाप्यन्यन्म वृउ. ११७७
 तस्य हाऽयास्य ए तब्राउ. १३५२
 तस्य हाहोरात्रे जैब्रा. ४०३;
 तब्राउ. १३५९
 तस्य हैतस्य दे जैब्रा. ४०४
 तस्य हैतस्य नै तब्राउ. १३३२,
 १३५३
 तस्य हैतस्य पु वृउ. १०८५
 तस्य हैतस्यर्त जैब्रा. ४०३
 तस्य हैतस्य सा वृउ. १०१३,
 १०१४
 तस्य हैतस्य ह ,, १२२४
 तस्य हैवाहोरा तैब्रा. २८
 तस्य होताऽध्वर्यु तब्राउ. १३६०
 तस्य होता भव ऋसं. १८
 तस्या अंशश्च भ मैसं. १६६
 तस्या अभिरेव वृउ. १२८४
 तस्या अक्षरसः कौउ. ६६८
 तस्या अभिनप्ता छाउ. ७८९
 तस्या अभिपीळि तब्राउ. १३३६
 *तस्या आहुतेः पु वृउ. १२९७
 तस्या आहुतेः सो छाउ. ८५८
 तस्या आहुतेर ,, ८५९
 * ,, ,, वृउ. १२९६
 *तस्या आहुते रे ,, १२९७
 तस्या आहुतेर्ग छाउ. ८६०
 तस्या आहुतेर्व ,, ८५९
 *तस्या आहुतेर्वृ वृउ. १२९६
 तस्या आहुतेर्हृ जैब्रा. ४०४
 तस्या आहुत्या अ वृउ. १२९६
 तस्या आहुत्यै पु ,, १२९७
 तस्या आहुत्यै रे ,, ,,
 तस्या आहुत्यै वृ ,, १२९६
 तस्या आहुत्यै सो ,, १२९५
 तस्या इन्द्रो वत्स असं. १६३,
 १६४
 तस्या उपस्थ ए छाउ. ८६०;
 वृउ. १२९७
 तस्या उपस्थमे शब्रा. ४०९
 तस्या उपस्थानम् वृउ. १२८३

तस्या एतस्यै वा ,, १३४०
 तस्या एवेदं दे ,, १३६३
 तस्या एष तृती ,, १३८८
 तस्या एष द्विती ,, ,,
 तस्या एष प्रथ ,, १३८५
 तस्यां प्रतिष्ठायाम् शाब्रा. २९२
 तस्यां समुद्रा अ तैब्रा. २२५
 *तस्यां समुद्रा अ ,, ३४८
 *तस्यां सुपर्णाव ,, २३५
 तस्यां सुपर्णा वृ ऋसं. ,,
 *तस्यां हिरण्ययः तैआ. २४५
 ,, ,, ,, ३२२
 तस्यां हिरण्ययः असं. २४५
 तस्या एति तृती ताब्रा. २८५
 तस्याः कुबेरो वै असं. १६४
 तस्याः पाकविशे तैआ. १७९
 तस्याः प्राण ऋष वृउ. १२७५
 तस्याः शिखाया म नाउ. १६४०
 तस्याः संवत्सर छाउ. ८५९
 तस्याः समुद्रा अ ऋसं. २२५
 तस्याः सोमो राजा असं. १६४
 तस्याग्निर्कः ऐउ. ५२८
 तस्याग्निरेवाग्नि जैब्रा. ४०४;
 वृउ. १२९७
 तस्याग्निर्मुखम् तैब्रा. २९
 तस्याग्निश्च व असं. ४५१
 तस्याऽऽदित्य एव छाउ. ८५८;
 वृउ. १२९५
 तस्याऽऽदित्यमेव कौउ. ६५१
 तस्या धाता चार्थ मैसं. १६५
 तस्याऽऽनन्दो रतिः कौउ. ६६८
 तस्यानु तृप्तिं तृ छाउ. ८८१
 तस्यान्तरात्मा त तब्राउ. १३६५
 तस्यान्तरिक्षं स जैब्रा. ४०४
 तस्यान्तर्मनसि तैआ. १५८,
 ३०५
 तस्यान्ते सुषिरं नाउ. १६४०
 तस्यान्नमेव क शाब्रा. ४३
 तस्यान्नमेव थ ,, ,,
 तस्यान्नमेवाहि ,, ४२
 तस्याप एव प ,, ३२,
 ३३

तस्याप्येव तस्य	मउ.	१६६०
तस्याभितसस्य	ऐउ.	५८१;
	छाउ.	७९४, ७९५
तस्याभिध्यानात्	श्वेउ.	१५८२
तस्याभिध्यानाद्यौ	„	१५८१
तस्याऽभिपीळित	तब्राउ.	१३३६
तस्या मनुर्वैव	असं.	१६३
तस्यामर्थ निष्ठा	वृउ.	१३०९
तस्यामश्राम्यत्	„	९९४
तस्यामश्राम्यत्प्र	तैसं.	१५७,
		२८२
तस्यामस्यां प्रति	शब्रा.	२९६
तस्या मित्रश्च व	मैसं.	१६५
तस्यामू सर्वा न	असं.	१७५
तस्यामिकं साम	जैब्रा.	३२७
तस्यामेतस्यां सं	कौउ.	६८७
तस्यामेनमाद	जैब्रा.	४०५
तस्यामेवास्य त	असं.	४५४
तस्यामेषां मनः	शब्रा.	१५०
तस्यायं देवो यो	तब्राउ.	१३३९
तस्यायं भूतात्मा	मैउ.	१६५९
तस्यायं बाङ्मय	शब्रा.	३४७
तस्यायने दक्षि	प्रउ.	१४९३
तस्यायमेव लो	शब्रा.	२०३
तस्यायमेव हि	तब्राउ.	१३४०
तस्या यमो राजा	असं.	१६३
तस्या रूपेणैमे	„	२५०
तस्यार्चत आपो	वृउ.	९९१
तस्याचयवभू	श्वेउ.	१६०६
तस्या विरोचनः	असं.	१६३
तस्या वेदिरुप	वृउ.	१३०५
तस्याऽशरीरेण	तब्राउ.	१३६६
तस्याश्चत्वारः स्त	वृउ.	१२७५
तस्याश्चित्ररथः	असं.	१६४
तस्याऽऽसत ऋष	वृउ.	२४९
” ”	„	१०८१
तस्याऽऽसते हर	नाउ.	१६४५
तस्यासावादित्यो	ऐउ.	५२९
तस्याऽसीददुहिता	वृउ.	११२९
तस्यासीद्धार्या ग	„	११४६
तस्यास्तक्षको वे	असं.	१६४
तस्यास्तप्यमाना	छाउ.	८४८
तस्यास्ते देवीष्ट	नाउ.	१६३२

तस्या ह मुखमु	छाउ.	८२७
तस्याहरेव प्रा	प्रउ.	१८९५
तस्याहुतय ए	शब्रा.	. ४३
तस्येदं मानुष	तब्राउ.	१३५९
तस्येदं विश्वं मि	ऐउ.	५४५
तस्येदं सृष्टं क्षि	तब्राउ.	१३८६
तस्येदमेव पृ	ऐउ.	६००
तस्येदमेव क्षि	तैउ.	७०६
तस्येदमेवाधा	वृउ.	१०७९
तस्येदाहुः पिप	ऋसं.	२१५
तस्येदु विश्वा भु	„	१३
तस्येन्द्रियाणि व	काउ.	१४१३
तस्येन्द्रियाण्यव	„	„
तस्येमा इष्टका	मैउ.	१६६४
तस्येमे नव को	असं.	१७४
तस्येमे लोका आ	वृउ.	९९९
तस्येमे सर्वे या	असं.	१७५
तस्येयं पृथिवी	तैउ.	७२८
तस्यै गभेः पपा	शब्रा.	३३८
तस्यैतत् तुचः	तब्राउ.	१३४६
तस्यैतत् त्रिवृद्भू	„	१३३७
तस्यैतदेव नि	छाउ.	९६०
तस्यैतद्रूपं य	मैउ.	१६६०
तस्यैतन्मिथुन	शब्रा.	११४
तस्यै तपो दमः	तब्राउ.	१३८४
तस्यैतल्लिङ्गम	मैउ.	१६६४
तस्यैतस्य तदे	छाउ.	७६३
तस्यैतस्य त्रय	ऐउ.	६१०,
	६१२; कौउ.	६८७
तस्यैतस्य पर	शब्रा.	५१७
तस्यैतस्य ब्रह्म	कौउ.	६८८
तस्यैतस्य ब्रह्मा	ऐउ.	६१३
तस्यैतस्य मूर्त	वृउ.	१०८३,
		१०८५
तस्यैतस्य योऽय	कौउ.	६८८
तस्यैतस्य साम्न	तब्राउ.	१३३५,
		१३३८
तस्यैतस्य साम्नो	„	१३३६
तस्यैतस्याकारो	ऐउ.	६१३;
” ”	कौउ.	६८८
तस्यैतस्याऽऽत्मनः	ऐउ.	६१०;
	कौउ.	६८७

तस्यैतस्यासावा	ऐउ.	६१३;
	कौउ.	६८८
तस्यैतस्यास्थनां म	कौउ.	६८८
तस्यैतां शान्ति कु	काउ.	१३९०
तस्यैतानि नामा	तब्राउ.	१३३२
तस्यैतावन्तौ य	„	१३४०
तस्यैतास्तिस्र आ	„	„
तस्यैते कथिता	श्वेउ.	१६२८
तस्यैते निष्खाताः	तब्राउ.	१३८६
तस्यैते प्रतिष्ठे	शब्रा.	३७
तस्यैते प्राणाः स्वाः	„	११६
तस्यैतौ स्तनौ य	तब्राउ.	१३६९
तस्यै द्वौ स्तनौ दे	वृउ.	१२७५
तस्यै धियो विज्ञा	कौउ.	६६८
तस्यै मन एव	जैब्रा.	३१६
तस्यै यः पराङ् र	शब्रा.	२९३
तस्यै यदुपांशु	ऐउ.	५६९
तस्यैवं विदुषो	नाउ.	१६५१
तस्यै वपामुत्खि	जैब्रा.	४०५
तस्यैव लोके प्र	मैउ.	१६५७
*तस्यैव स्यात्पद	वृउ.	४६३
” ”	„	१२५४
तस्यै वा एतस्यै	शब्रा.	३५;
ऐउ. ६२३; कौउ.		६८९
*तस्यैवाक्षरस्य	वृउ.	११६३
तस्यै वाचः पृथि	„	१०५३
तस्यैवाऽऽत्मा पद	तैब्रा.	४६३
* ” ”	वृउ.	१२५४
तस्यैष आदेशः	तब्राउ.	१३८२
तस्यैष आदेशो	„	१३८६
तस्यैष एव शा	तैउ.	७१५,
		७१६, ७१७, ७२०
तस्यैष घोषो म	वृउ.	१२७६
तस्यैष मायया	तब्राउ.	१३६६
तस्यैष मारुतो	असं.	१७४
तस्यैष श्रीरात्मा	तब्राउ.	१३५५
तस्यैष श्लोकः	„	१३५८,
		१३६०
तस्यैषा कुल्या य	„	१३४८
तस्यैषा दृष्टिर्य	छाउ.	८०५
तस्यैषा भवति	तैआ.	१८१,
		४११

तस्योपनिषत्सु
 तस्यैषैव दृष्टिः कौड. ६६५
 तस्यैषैव सिद्धिः ,, ६६६
 तस्यै हिरण्यव असं. ५०८
 तस्यो कृत्स्नता वृड. १०४२
 तस्योत्तरतः शि शिरड. १६७९
 तस्योदिति नाम छाड. ७६१
 तस्योपनिषत्सु वृड. १०७७;
 मैड. १६६४
 तस्योपनिषद् वृड. १२७४
 तस्योपनिषद् कौड. ६४१
 तस्योपव्याख्यानम् छाड. ७४६,
 ७५७, ८२१; माड. १५२०;
 मैड. १६५३
 तस्योपसर्ध समित् जैब्रा. ४०४
 तस्योपादीप्तस्य ,, ४०५
 तस्यो मे किमन्नं वृड. १२८९
 तस्यो मे वल्लि कु ,, १२८८
 तस्योर्ध्वमन्नाद्य तब्राड. १३५९
 तस्योष्णिगलोमानि एड. ५३७
 तस्यो ह युक्ति द तब्राड. १३५६
 तस्यौदनस्य वृ असं. ४३५
 तस्यौषधयश्च जैब्रा. ४०४
 ता अंशश्च भग मैसं. १६६
 ता अकामयन्त शब्रा. २९७
 ता अग्निमब्रुवन् तब्राड. १३७१
 ता अतप्यन्त शब्रा. २९६
 ता अन्तरेव ग मैसं. १६६
 ता अन्नमसृज छाड. ८९२
 ता अन्योऽन्यस्यै श्रे तब्राड. १३७१
 ता अपः सृष्ट्वाऽन्वै गोब्रा. ३०३
 ता अपाग्य व्यानन् तब्राड. १३८६
 ता अब्रवीत्किंका ,, १३३३
 ता अब्रवीत्पुनी ,, १३४७
 ता अब्रवीद्यथा एड. ५८२
 ता अब्रुवन् ,, ५३३
 ता अब्रुवन्न वा तब्राड. १३७१
 ता अब्रुवन्न वै एड. ५८२
 ता अब्रुवन्नेता तब्राड. १३७१
 ता अब्रुवन् यानि ,, ,,
 ता अब्रुवन्सुकृ एड. ५८२
 ता अभिप्रस्थाप छाड. ८३१
 ता अमृता आपः ,, ७९३,
 ७९४, ७९५

ता अशान्ता रेतः गोब्रा. ३०३
 ता अश्मैवाप्रब्रु मैड. १६५४
 ता अश्राम्यन् शब्रा. २९७
 ता अस्मै तृप्तास्त तब्राड. १३३४
 ता अस्येमाः प्रजाः जैब्रा. २०२
 ता अहिमन्ताह एड. ५३३
 ता अहिमन्तैवा ,, ,,
 ता आप ऐक्षन्त छाड. ८९२
 ता आपः सत्यम वृड. १२७२
 ता आपोऽभवन् तब्राड. १३८६
 ता आह प्र मा व ,, १३६२,
 १३६३
 ता आहुतयः शब्रा. ३३,
 ३४, ३५, ३६
 ता इमाः प्रजा अ एड. ५२७
 ता इमा दिशः प वृड. १००८
 ता इमा दिशोऽभ तब्राड. १३५३
 ता उ एव विश्वे ,, १३४९,
 १३५३
 ता उ मे पुंस आ तैआ. २६३
 ता उ सर्वा इष्ट शब्रा. ३१,
 ३५
 ता उ ह वै जाबा तब्राड. १३५७
 ता ऊरु अभव एड. ५३२
 ता ऋचः शरीरे तब्राड. १३६६
 ता एतमेवाऽपि ,, १३५४
 ता एतस्मिन् प्राण ,, १३७१
 ता एता अष्टौ दे ,, १३३२
 ता एताः शीर्षाच्छ्रु एड. ५३३
 ता एताः संहिता ,, ६२३;
 कौड. ६९०
 ता एताः सामैव तब्राड. १३४०
 ता एता देवताः एड. ५६१,
 ५८२
 ता एता नाम्ना सं जैब्रा. २०२
 ता एतानि मर्त्या तब्राड. १३७२
 ता एता व्याहृत ,, १३५२
 ता एतेन प्राणे ,, १३७२
 ता एनं पुण्यमे ,, १३३४
 ता एनं सृष्टा अ ,, १३३३
 ता एनमब्रुव एड. ५८२
 ता एवेता देव तब्राड. १३३६
 ता एवेता व्याहृत ,, ,,

ता ओषधयश्च शाब्रा. ३४७
 ता गन्धर्वाः क्रय्य असं. १६९
 तां गन्धर्वोऽवद तैआ. २७२;
 तब्राड. १३६६
 तां चेदविद्वानु छाड. ७७१
 तां चेदविद्वान्प्रा ,, ७७०
 तां तथैवाऽकुर्वे तब्राड. १३४८
 *तां तां समेवाभ वृड. १०२०
 तां तामशनया तब्राड. १३३०
 तां तिरोधामित असं. १६४
 तां ते प्राविशन् तब्राड. १३३५
 तां त्वहं तुभ्यं व वृड. १२९४
 तां देवः सविता असं. १६४
 तां देवमनुष्या ,, १६३
 तां देवा अन्वजा ऋसं. २७५
 तां देवी वाचं ह तैब्रा. ३४९
 तां द्योतमानां स्व ऋसं. १०५;
 तैआ. २७२; तब्राड. १३६६
 तां द्विर्भार्तव्योऽथो असं. १६३
 तां धृतराष्ट्र ए ,, १६४
 तां नद्योऽभिसमा तैआ. १८०
 तां न निर्जानन्ति ऐब्रा. १५१,
 १५२
 तां पद्मिनीमीं श ऋसंखि. ५००
 तां परेण सृष्टुं तब्राड. १३५३
 तां पाप्माऽन्वसृज्य ,, १३४९,
 १३५२
 तां पृथी वैन्योऽथो असं. १६३
 तां प्रोक्ष्य त्रिरप जैब्रा. ४०५
 तां बृहस्पतिरा असं. १६४
 तां म आ वह जा ऋसंखि. ४९९,
 ५०१
 *तां मनसाग्येति कौड. ६३३
 तां मनमैवात्ये ,, ६३४
 तां मनसैवाप्ये ,, ,,
 तां मा देवा व्यद ऋसं. २३७
 तां मायामसुरा असं. १६३
 तां योगमिति म काड. १४३६
 तां रजतनाभिः असं. १६४
 तां वराहो भूत्वा तैसं. १५७,
 २८२
 तां वसुरुचिः सौ असं. १६४
 तां विश्वकर्मा भू तैसं. १५७,
 २८२

द्वैविषा	तेत्रा.	४२७
कुर्यात्सु प्रा	शब्रा.	२९३
भवकार्य	तब्राउ.	१३४६
भविष्यन्न	"	१३४७
भविष्यन्ना	"	१३४६
समन्तं पृथि	वृउ.	११३०
समभवत्	"	१०१९
समेवाभवत्	"	१०२०
ते कीर्ति म	ऋसं.	६०
सृष्ट्वाऽध उप	वृउ.	१३०५
त एव पा	शब्रा.	२९९
तत्र देवा थ	वृउ.	१३००
ते प्रेत्याभिग	"	१२४०;
ईउ.	१३१५	
धधां पितर	असं.	१६३
हामसुराः पाप्म	छाउ.	७५२
हैके सावित्री	वृउ.	१२८२
नां द्वोतुर्वा	तब्राउ.	१३५६
हैतामेके सा	वृउ.	१२८२
वाऽऽनि न्येति	तब्राउ.	१३५३
ोवाच क्रिमे	"	१३८१
परिश्रितः	शब्रा.	३३
पुनः पुनरु	प्रउ.	१५०५
पुनरुदय	"	"
प्रजाः सृजेय	शब्रा.	२९५
प्राण्याऽपानन्	तब्राउ.	१३८६
फेनमसृज	शब्रा.	२९६
श्रान्तास्तप्ताः सं	गोब्रा.	३०३
श्रैष्ठ्ये व्यवद	तब्राउ.	१३७१
षष्टिश्च त्रीणि	शब्रा.	३३, ३७
षष्टिशैव त्री	"	३३, ३७
समान्योदानन्	तब्राउ.	१३८६
समिधः	शब्रा.	३३, ३४, ३५, ३६
समुद्रात्समु	छाउ.	९१७
सर्वाः पृथङ्ना	शब्रा.	४७१
सहस्रायुषो	"	३००
सृष्टाः समश्चि	तैब्रा.	२८७

तानथवेण ऋ	"	३०३,
		३०४
तानन्नरिक्ष उ	शब्रा.	२९५
तानन्तरिक्षे	"	"
तानपरपक्षे	कौउ.	६२९
तानन्नवीत्	शब्रा.	१५०;
	तब्राउ.	१३३५
तानन्नवीत् सा	तब्राउ.	१३३४
तानन्नवीदुप	"	१३३६
तानस्मै प्रदवौ	छाउ.	७६८
तानस्थामुपाद	शब्रा.	२९५
तानस्थामृच्यस्व	तब्राउ.	१३३५
ता नाम भूत्वाऽनु	जैब्रा.	२०२
ता नाम्नाऽनु प्रावि	तैब्रा.	२८७
तानाह प्र मा व	तब्राउ.	१३६२,
		१३६३
तानि कल्पद्वय	असं.	४२६
तानि ज्ञातुं दधि	वृउ.	१०६१
तानि ज्योतीष्यभ्य	ऐब्रा.	२८२,
		५२१
तानि त्रीणि च्छन्दं	ऐउ.	५६३
तानि त्वयोपास्या	तैउ.	७०४
तानि दश	ऐउ.	५६३
तानि नक्षत्राणि	तैब्रा.	२८७
तानिमाँल्लीच्छोका	तब्राउ.	१३६०
तानिमाँल्लीन् लोका	जैब्रा.	२८६
तानि मिथः संहि	कौउ.	६८७
तानि सृत्युः श्रमो	वृउ.	१०६१
तानि मे प्रतिसं	तब्राउ.	१३६२
तानि मे युष्मासु	"	"
तानि यथायत	"	१३३५
तानि यदा गृह्णा	वृउ.	१०७४
तानि वा एतानि	शब्रा.	३४,
		३५, २९८; छाउ.
		७९४; तब्राउ.
		१३४६, १३६५
तानि वा एतान्य	छाउ.	७९५;
	तब्राउ.	१३४५; नाउ.
		१६४०
तानि विदुर्ब्राह्म	तैब्रा.	३४९
तानि शुक्राण्यभ्य	ऐब्रा.	२८३,
		५२१

तानि ह वा एता	गोब्रा.	१२०;
		छाउ. ७८०, ९३०, ९३२,
		९६२; मैउ. १६५५
तानिहानेवंचि	तैब्रा.	२८
तानीमानि भूता	शब्रा.	२९६
तानीमानि वयां	ऐउ.	५२७
तानु तत्र सृत्यु	छाउ.	७५८
तानेकधा सम	ऐब्रा.	२८३,
		५२१
तानेनेन साम्ना	ताब्रा.	४०२
तानेवाद्भ्रति	शब्रा.	३१९,
		३२०, ३२१
तानेष प्राणान्म	शब्रा.	२९१,
		३२८
तानोकारेणाम्नी	गोब्रा.	५२३
तानो विश्वानि ज	ऋसं.	३६३,
		३६४
तान्खादित्वाऽमुं य	छाउ.	७६९
तान्सर्वान्ब्रह्म र	असं.	४२५
तान् दिक्षुपादधा	शब्रा.	२९५
तान्दिक्षुपादधात्	"	"
तान्दिवि	"	"
तान्दिव्युपादधात्	"	"
तान्दीक्षितांस्तेपा	शब्रा.	१५०
तान् नाविन्दत्	ताब्रा.	४०२
तान्पञ्चतूनकु	शब्रा.	२९८
तान्पिष्टान्दधनि	वृउ.	१३०४
*तान् पिष्ट्वा दधि	"	"
तान्पूर्वया निवि	ऋसं.	४९४
तान्प्रजापतिर	तब्राउ.	१३४५
तान्प्रतिगृह्य नि	छाउ.	७६९
तान् प्रतिब्रूयात्	जैब्रा.	४०५
तान् प्रेषमैच्छत्	ताब्रा.	४०२
तान् मुनिमरणे	"	"
तान् सृत्युः पाप्माऽन्व	तब्राउ.	१३३५
तान्यज्ञस्य माय	तैब्रा.	४६१;
	नाउ.	१६४६
तान्यप्सरसाव	तैब्रा.	४८८
तान्यभ्यतपत्	छाउ.	७८९
तान्यष्टौ	तब्राउ.	१३३९

तान्यस्यतेवः पु	१३६२	ता ब्रह्माब्रवोदा	तब्राउ.	१३७२
तान्यस्यार्धमासाः	"	ता ब्रह्माऽनुवन्व	"	"
तान्यस्यैतानि क	बृउ.	ताभिः प्रलवसु	वृउ.	१०७६
तान्याचरथ नि	मुउ.	ताभिः शान्तिभिः स	असं.	५१२
तान्या दिवः प्रकी	तब्राउ.	ताभिः संभूय स	कासं.	२४
तान्याप्ता मृत्युर	बृउ.	ताभिः संरब्धम	असं.	१६७
तान्याप्नोत्	"	*ताभिः स०रब्धो अ	तैब्रा.	"
तान्येकशतं सं	छाउ.	ताभिरनन्दत्	गोब्रा.	३०३
तान्येतेमेवाऽपि	तब्राउ.	ताभिरात्मानं नि	"	४७२
	१३५५	ताभिर्याति स्वयु	असं.	१७१
तान्येतान्यष्टाव	शब्रा.	ताभिष्टवमस्मौ अ	असं.	३४०
तान्येतान्यष्टौ	तब्राउ.	ता भीता अनुव	गोब्रा.	३०४
	१३३१, १३३२	ताभ्यः पञ्चभ्यो धू	षब्रा.	३२२
तान्येनं स्वर्गं ग	"	ताभ्यः पुरुषमा	ऐउ.	५८२
तान् रहस्युर्देव	ताब्रा.	ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्त	गोब्रा.	३०३,
तान्वरिष्ठः प्राण	प्रउ.			३०५
तान्वा एतान्मृत्यु	तब्राउ.	ताभ्यां दिशो मिथु	तब्राउ.	१३४७
तान्वायुरात्मनि	बृउ.	ताभ्यां देवा एतां	शब्रा.	११५
तान् विशिनोऽङ्गिर	गोब्रा.	ताभ्यां नमो यत	असं.	१३१
तान् वेदानभ्य	ऐब्रा.	ताभ्यां पतेम सु	तैसं.	२२
	५२१	ताभ्यां मे धुश्वाऽभ्या	तब्राउ.	१३६९
तान्वै त्रयस्त्रिंश	असं.	ताभ्यां यमस्य सा	असं.	३८९
*तान्वैद्युतात्पुरु	बृउ.	*ताभ्यां राजन्परि	"	३५७
तान्वैद्युतान्पुरु	"	*ताभ्यां वयं पते	कासं.	२२
तान्समतपत्	जैब्रा.	ताभ्यां सदो मिथु	तब्राउ.	१३४६
	२८६;	ताभ्यामयं प्राण	बृउ.	१०६६
	तब्राउ.	ताभ्यामयजत	शब्रा.	३००
तान्सर्वाग्नेवोप	छाउ.	ताभ्यामिदं विश्वं	कासं.	१०३;
तान् साऽच्छादयत्	तब्राउ.		तैब्रा.	३६६
*तान्सार्धं पिष्ट्वा द	बृउ.	ताभ्यामिदं विश्व	ऋसं.	१०३,
तान् खरे सतो न	तब्राउ.		३६६; वृउ.	१२९२
तान्ह स ऋषिह	प्रउ.	*ताभ्यामिष्ट्वा काम	शब्रा.	३००
तान्हानुपनीयै	छाउ.	ताभ्यामेनं परि	ऋसं.	३५७
तान्हैतानेवं वि	शब्रा.	ताभ्यामेनं प्राशि	असं.	४३९,
तान्हैतैः श्लोकैः प	बृउ.			४४२
तान्होवाच	शब्रा.	ताभ्यामेव तन्न	ताब्रा.	३१६
	छाउ.	ताभ्यो गामानयत्	ऐउ.	५८२
	८५१, ८७३, ८७६; वृउ.	ताभ्यो दारुमये	तैब्रा.	२८९
	१११५; प्रउ.	ताभ्योऽभितप्ताभ्यो	ऐउ.	५८४
	१५१९; मैउ.	ताभ्योऽश्वमानयत्	"	५८२
	१६५४	ताभ्योऽसुरा रक्षा	तैआ.	१६०,
तान् होवाच को वः	तब्राउ.			३०६
तान् होवाच दूरं	"	*तामग्निवर्णा त	नाउ.	१६३४
तान् होवाच ब्राह्म	"			
तान्होवाचेति	मैउ.			
	१६५४, १६५६, १६५७			

तामपाहृत	तब्रा.	२८९,
		२९०
तामपृच्छत का	तब्राउ.	१३४६
तामप्रथयत्	शब्रा.	२९४,
		२९६
तामभ्यतपत्	छाउ.	७८९
तामस्मा अक्षिति	तब्राउ.	१३६२
तामस्मै तृप्तिं द्यौः	"	१३६३
तामस्येक्षमाण	शब्रा.	३०३
ता महासंहिता	तैउ.	६९४
तामाभूत्या व्यद	ऋसं.	४९०
तामासन्दीं ब्राह्म	असं.	४५१
तामाह प्र मा व	तब्राउ.	१३६१
तासु नाम्नीरय	छाउ.	९३०,
		९३१
तामुपाह्वयन्त	असं.	१६३
तामूर्जा देवा उ	"	१६४
तामेतदुभय	तब्राउ.	१३४७
तामेतां प्रस्तावे	"	१३३५
तामेतां वाचं प्र	"	१३३६
तामेतां वाचं य	"	१३५४
तामेतामुपनि	कौउ.	६९२
तामेष सर्वोऽग्नि	शब्रा.	३०,
		११४
ता यत्परमे स्था	"	३००
ता यत्राभि सायं	छाउ.	८३२,
		८३३
ता यथा तत्र न	"	९१७
ता यथा नवै पा	शब्रा.	३००
ता यदा सहस्रं	छाउ.	८३१
ता या अमू रेतः	गोब्रा.	३०४
ता यो वेद	तैउ.	६९७
ता योऽस्माकं प्रचो	मैउ.	१६५९
ता रूपेणानु प्रा	तैब्रा.	२८७
ताँल्लोकानभ्यत	ऐब्रा.	२८२,
		५२१
तावज्जानाति	छाउ.	९६७
तावत्सत्यमेवो	शब्रा.	४१९
तावद्धात्युप	ऋसं.	१०४
तावन्तं लोकं ज	तैब्रा.	२९
तावन्ति पुरुषा	ऐउ.	५७५
तावन्ति शतसं	"	५५४
*तावन्तो अस्य म	असं.	२३१

युमा	असं.	५०८	१३५६
ऽन्यं रीळ्हः	ऐउ.	६०७	छाउ.
न्यं रेळ्हः	कौउ.	६८६	८१३
न्यमभि	ऐउ.	५७२	प्रउ.
नयत्	शब्रा.	३०१	१५०२
भ्यं दश	ऋसं.	३५८	शब्रा.
दपद्र	कौउ.	६३६	४७१
अस्यैता हि	वृउ.	१२०७	गोब्रा.
एता अङ्गि	गोब्रा.	३०५	३०३
एता ऋचः	छाउ.	७९३	तब्राउ.
एता एक	शब्रा.	३४,	१३३६
		३५, ३६, ३८	असं.
एताः प्रजा	"	३००	४२४
एताः सर्वा	ऐउ.	५४७;	तैसं.
	कौउ.	६५१	१४७
	कौउ.	६५३	मैसं.
एता दशै	"	६७१	"
एता देव	ऐब्रा.	१५२;	तैउ.
	तब्राउ.	१३३९	६९७
एता नव	शब्रा.	२९४	कौउ.
एताश्चत	तैउ.	६९७	२९७
वास्तून्नुइम	ऋसं.	८९	असं.
मघवन्	असं.	१७५	५०७
स्य महि	सासं.	२३१	प्रउ.
	छाउ.	८०२;	१५०२
	परि.	१५४८	गोब्रा.
स्य लोको	ऐउ.	५३९,	३०३
		५४०	"
वाऽकामये	शब्रा.	३०१	३०५
वन्तौ सं	तब्राउ.	१३४०	तब्राउ.
वर्काश्च	वृउ.	९९९	१३८६
वेवम	तब्राउ.	१३४२	शब्रा.
संरभा	वृउ.	१३०८	२९७;
न्य समानन्	तब्राउ.	१३८६	तब्राउ.
वन्ता विषु	ऋसं.	२२३,	१३८६
		३५३; ऐउ.	असं.
न्यमाना	छाउ.	८४८	१६८
त्रैवृतं त्रि	"	८९६	ऋसं.
नि चिक्युः क	ऋसं.	२३४	३४३
ब्रह्मणा प	असं.	१६८	असं.
यः स्थविष्ठो	छाउ.	९०१	१७२
या मध्ये रा	असं.	४३५	ऐउ.
			५६९
			परि.
			असं.
			ऋसं.
			२४२,
			२७६
			नाउ.
			असं.
			"
			नाउ.
			"
			"
			"
			श्वेउ.

निस इति	"	१११९,
तिस्रस्तुचाशीत	ऐउ.	११२०
तिस्रो जिह्वा वरु	असं.	४३५
तिस्रो देष्टाय नि	ऋसं.	२३४
तिस्रो व्यावो निहि	"	८१
तिस्रो महीरुप	"	९४
तिस्रो मातृस्त्रीन्पि	"	२१०
तिस्रो मात्रा मृत्यु	प्रउ.	१५१३
तिस्रो रात्रीर्यद	काउ.	१३९१
तिस्रो वाचो निहि	असं.	३४६
तिस्रो विश्वज्योति	शब्रा.	३७
तिस्रो ह प्रजा अ	असं.	२४९
तीत्यचाम्	ऐउ.	५३५
तीत्येकमक्षर	वृउ.	१२७२
तीर्णो हि तदा स	"	१२१०
तीर्णा पारमपा	मैउ.	१६६१
तीर्थमेके ब्रज	शिरउ.	१६७९
तीर्थेस्तरन्ति प्र	असं.	३९४
तीर्था अरुणा लो	"	२४५
तुच्छयेनाभ्वपिहि	ऋसं.	२४१,
		२७६
तु तत्र प्रतीत्य	वृउ.	१२९३
तुभ्यं प्राण प्रजा	प्रउ.	१४९८
तुभ्यं यज्ञो वि ता	असं.	१०९
तुभ्यं वातः पव	"	३७७
तुभ्यमारण्याः प	"	१३२
तुरं भगस्य धी	छाउ.	८५५
तुरः कावषेयः	वृउ.	१३११
तुरीयं तुरीयं	शब्रा.	३५०
तुरीयं वाचो म	तैब्रा.	३४९;
	तब्राउ.	१३३२
तुरीयमेव त	शब्रा.	३५०
तुविक्षत्रामज	असं.	१६५
तुविष्मानिति	तब्राउ.	१३३८
तूयं यथौ मधु	ऋसं.	६५
तृणानि प्राप्तः सो	असं.	४३४
तृतीयं जपवैव	शिरउ.	१६८१
तृतीयं मे नाम	शब्रा.	१५०
तृतीयं राष्ट्रं धु	असं.	४३४
तृतीयः पिता ज	तैसं.	१८८
तृतीयमस्य न	ऋसं.	९०
तृतीयां जहास्य	छाउ.	९१८

तृतीया यौः स म	शिखाउ.	१६८२
*तृतीयाधिदेव	शब्रा.	११२०
(तृतीयाम्) इच्छस्वैवे तत्राउ.		१३४७
तृतीया शुभाशु	शिखाउ.	१६८२
तृतीया ह प्रथी	असं.	३८८
तृतीयेन सहे	जैब्रा.	४०४
तृतीयो भ्राता घृ	ऋभं.	२०६
तृप्तिरिति	तत्राउ.	१३६३
तृप्तिरिति वृष्टौ	तैउ.	७४०
तृप्तिरेवास्य ग	शब्रा.	१५४
तृप्यति प्रजया	तत्राउ.	१३३६
तृष्णा चाऽऽवहता	तैब्रा.	४६३
तृष्णीमनु प्रसि	नाउ.	१६४३
ते अत्र मासे श	जैब्रा.	४०५
ते अन्तरिक्षं त	शब्रा.	४०८
ते अन्तरिक्षमा	" "	
ते अन्तरिक्षमे	" "	
ते अब्रवीदेता	ऐउ.	५८३
ते अममजन	तत्राउ.	१३४६
ते अहोरात्रे	शब्रा.	२९९
ते आण्डकपाले	छाउ.	८२१
ते आह प्र मा व	तत्राउ.	१३६२
ते इमां तर्पय	शब्रा.	४०९
ते इमामाविश	" "	
ते इमामेवाह	" "	
ते ए।मेवाऽपी	तत्राउ.	१३५४
ते (...) करोति	" "	१३३२
ते कर्मणैवाधी	शब्रा.	३२१
ते कुम्ब्याऽपुन	तत्राउ.	१३४४
ते कुम्ब्यामब्रुव	" "	
ते कृत्वा समिधा	असं.	४२३
ते कृषिं च सस्यं	" "	१६३
ते क्षुद्रसूक्ताश्वा	ऐउ.	५४७
ते गाथयाऽपुनन्	तत्राउ.	१३४५
ते गाथामब्रुव	" "	
तेऽग्निचित्येष्टका	शिउ.	१५७३
तेऽग्निनैवाधीय	शब्रा.	३२१
तेऽग्निमब्रुवन्	तत्राउ.	१३८०
ते चक्षुः समारो	" "	१३५०
ते चक्षुषैवाधी	शब्रा.	३२०
ते चक्षुषोदगा	तत्राउ.	१३४८
ते चक्षुषोद्गात्रा	" "	१३४९,
		१३५२

ते चन्द्रं प्राप्याञ्च	वृउ.	१३००
*ते चन्द्रमसमे	प्रउ.	१४९३
ते चान्द्रमसमे	" "	
ते चेद्ब्रुयुरस्मिन्	छाउ.	९५५
ते छन्दोभिरच्छा	" "	७५७
तेज उपास्वेति	" "	९३५
तेज एव तत्पू	" "	
*तेज एव यस्या	शब्रा.	११७२
तेज एव श्रद्धा	" "	४६६
तेजश्च तेजोमा	प्रउ.	१५०८
तेजश्च यत्र ब्र	ऋसंखि.	३६७
तेजश्च विद्योत	प्रउ.	१५०८
तेजस आत्मेति	कौउ.	६७६
तेजसः समृद्धयै	मैउ.	१६६५
तेजसः सोम्याशय	छाउ.	९०२
तेजसा सोम्य शु	" "	९०७,
		९०८
तेजसा हि तदा	" "	९६७
*तेजसे स्वाहेत्य	वृउ.	१३०२
तेजसो वाव भू	छाउ.	९३५
तेजस्तच्छोहित	मैउ.	१६६८
तेजस्वि नावधी	तैउ.	७०६;
	काउ.	१४४१
तेजस्विनी हास्य	वृउ.	१०६८
तेजस्वीति वा अ	" "	
*तेजस्वी वै तेज	छाउ.	९३५
तेजस्वी वै स ते	" "	
तेजस्व्यन्नादो भ	" "	७८२,
		८०४
तेजिष्ठया तप	ऋसं.	१९०
तेजोदास्त्वमस्य	नाउ.	१६५१
तेजोमध्ये स्थितः	मैउ.	१६६६
तेजोमयी वागि	छाउ.	९०१,
		९०२, ९०३
तेजो यत्ते रूपं	ईउ.	१३२६
*तेजो वा अद्भ्यो भू	छाउ.	९३५
तेजो वा एतत्त	तत्राउ.	१३४२
तेजो वावाद्भ्यो भू	छाउ.	९३५
तेजो वै पुत्र ना	कौउ.	६५०
तेजोऽशितं त्रेधा	छाउ.	९०१
तेजो ह वा उदा	प्रउ.	१५०३
ते तत आवर्ते	शब्रा.	४०८
ते तत उत्क्राम	" "	
		४०९

ते तत एव प	शब्रा.	२९९	
ते तथेत्युक्त्वा तू	गोब्रा.	५२४	
ते तमब्रुवन् भ	" "	५२३	
ते तमर्चयन्त	प्रउ.	१५१९	
तेऽतिमानेनैव	शब्रा.	२०२,	
		४६५	
ते ते देहं कल्प	तैआ.	४१२	
ते तेषु ब्रह्मलो	वृउ.	१२९८	
ते ते सन्तु स्वधा	असं.	३९१	
ते त्वा घृतस्य धा	कासं.	२५	
ते त्वा रक्षन्तु ते	असं.	३७९	
ते दिवं तर्पय	शब्रा.	४०८	
ते दिवमाविश	" "		
ते दिवमेवाह	" "		
तेऽदीक्षन्त	शब्रा.	१५०	
ते देवा अब्रुव	शब्रा.	३४७;	
ताब्रा.	४०२;	वृउ.	१००९;
		तत्राउ.	१३३४
ते देवा आप्येष्व	तैब्रा.	४८६	
ते देवाः	शब्रा.	३७	
ते देवाः प्रजाप	षब्रा.	३२२;	
	तत्राउ.	१३३४, १३३५, १३४४	
ते देवाः प्राणे निः	कौउ.	६५३	
*ते देवाः सत्यमि	वृउ.	१२७२	
ते देवाः सत्यमे	" "		
ते देवा दिवम	शब्रा.	२९९	
ते देवा देवय	गोब्रा.	५२३	
ते देवा भीता आ	" "		
ते देवा मनसो	तत्राउ.	१३४८	
ते देवा रुद्रवा	शिरउ.	१६७७	
ते देवा रुद्रम	" "		
ते देवाश्वासुरा	कासं.	२८२	
ते द्यामुदित्यावि	असं.	३८८	
ते द्वादशादित्या	शब्रा.	२९५	
ते द्वे योनी	तत्राउ.	१३८७	
तेऽधराद्यः प्र प्ल	असं.	३३९	
ते धीतिभिर्मन	ऋसं.	२२२	
ते धूममभिसं	छाउ.	८६३	
ते ध्यानयोगानु	श्वेउ.	१५७६	
तेऽध्रियन्त	तत्राउ.	१३५२	
तेऽध्रियन्त तेनो	" "	१३४९	
तेन क्लृप्तोऽमृते	तैआ.	२६९	
तेन कोऽर्हति स्प	तैब्रा.	२५९	

आदि	असं.	४३२
सुकृ	तैब्रा.	३४८
मित प्र	छाउ.	७५४
ह बको	"	"
ह बृह	"	"
हाऽऽयास्य	"	"
ऽपि न	"	९०३
ऽपि ब	"	"
पर्याप्तोत्	तब्राउ.	१३८६
ष पु	प्रउ.	१५०५
असर्वाः	तब्राउ.	१३५४
यसर्वाणि	"	१३५४,
		१३५५
असर्वे	"	१३५४
तेन भु	ईउ.	१३१३
काम भ	असं.	३४०
भगवा	मैसं.	१५०
निका	मैउ.	१६६३
अय	ऋसं.	२३२
देव	असं.	३६८
रा अपि	वृउ.	१२३८
ह वा ए	शाब्रा.	१५१
णकार	ऐउ.	६२३;
	कौउ.	६९०
इय विश्वे	ऋसंखि.	४८१
त्रेण	तैब्रा.	४२०;
	नाउ.	१६३३
मानम	ऐउ.	५७५
तुल्लोके	छाउ.	९५८
गापति	तैब्रा.	२८६
तेनै	वृउ.	१२२४
तुल्लोके	छाउ.	९५९
तुल्लोके	"	"
वन मा	कौउ.	६४८,
		६४९
काम	तब्राउ.	१३३९
श्राति	छाउ.	७५३
चं मी	तब्राउ.	१३६६
माप्नो	शाब्रा.	३०२
गमे	शुसं.	२२
पते	तैसं.	"
एतं पू	तब्राउ.	१३३१
धस्य भु	ऋसं.	७७

*तेन स ऊर्ध्वमा	तन स ऋषीणा	तब्राउ.	१३६४
	तेन संपन्नो म	छाउ.	९५९
	तेन सखिलोके	"	"
	तेन सत्येन ते	कौउ.	६३१
	तेन सपत्नान्प	असं.	३३९
	तेन सर्वैः क्रतु	शिरउ.	१६८१
	तेन सोऽसर्वैः	तब्राउ.	१३५४
	तेन स्तुत्वा स्वर्ग	ताब्रा.	४०१,
			४०२
	तेन स्त्रीलोकेन	छाउ.	९५९
	तेन स्वस्त्रलोके	"	"
	तेन ह वा एनं	शाब्रा.	१५०
	तेन ह वा एवं	गोब्रा.	११९
	तेन ह वाव त	वृउ.	१०६१
	तेन हैतेन प्र	तब्राउ.	१३७०
	तेन हैतेन व	"	१३६१
	तेन हैतेन वि	शाब्रा.	४७१
	तेन हैतेनाऽमु	तब्राउ.	१३४२
	तेन हैतेनैक	"	१३७०
*तेन ह्येष पुरु	प्रउ.	१५०५	
ते नाकपालश्च	असं.	२४९	
तेनाग्निस्त्रेधा वि	शाब्रा.	३१	
तेनानेन मनु	"	४६४	
तेनान्तरिक्षं वि	असं.	१६७	
तेनाब्जं भवति	मैउ.	१६६६	
तेनाज्ञपानलो	छाउ.	९५९	
तेनाज्ञेनाऽऽयथाय	नाउ.	१६४९	
तेनाऽपहृत्य मृ	तब्राउ.	१३४९,	
		१३५३, १३७१, १३७२	
तेनामृतत्वस्ये	कौउ.	६४७	
* " " " "	"	६४९	
तेनामृतस्य भ	असं.	१७१	
तेनायजत	शाब्रा.	४७०	
ते नाराक्षसीम	तब्राउ.	१३४४	
ते नाराक्षस्याऽपु	"	"	
तेनार्हति ब्रह्म	तैब्रा.	२५८	
तेनासौ तपति	मैउ.	१६६०	
तेनासौ लोको न	छाउ.	८६९	
तेनाऽस्मान्नोक्ताद	तब्राउ.	१३३४	
तेनास्यापीनेन	जैब्रा.	५२२	
ते निचिक्युर्ब्रह्म	वृउ.	१२४४	

*ते नु विदित्वोर्ध्वा	तेऽनेन च तप	तब्राउ.	१३३२
	तेऽनेन मुख्येन	"	१३५३
	तेनेन्द्रस्य प्रियं	ऐउ.	५४९
	तेनेमां पृथिवीं	शाब्रा.	२९३
	तेनेमे. प्राणाः	मैउ.	१६६६
	तेनेयं त्रयी वि	छाउ.	७४९
	तेनेशितं कर्म	श्वेउ.	१६१७
	तेनेषितं तेन	असं.	१७८
	तेनेष्ट्वाऽत्यतिष्ठ	शाब्रा.	४७०,
			४७१
	तेनेष्ट्वैतामेवो	"	२०३
	तेनेनं प्राप्नुवन्	तब्राउ.	१३३२
	तेनेनं प्राशिषं	असं.	४३८,
			४३९, ४४०, ४४१
	तेनेनद्वयविनक्	तब्राउ.	१३८६
	तेनेनामभ्यस्त	वृउ.	१३०५
	तेनेव जुहोति	कासं.	२८२
	तेनेव गायत्रो	शाब्रा.	३५
	तेनेव पूर्णः	तैउ.	७१४,
			७१५, ७१६, ७१८
	तेनो एवैष गा	शाब्रा.	३५
	तेनोद्गाता दीक्षा	तब्राउ.	१३५२
	तेनो नामाप्नोति	शाब्रा.	३०२
	तेनोभौ कुरुतो	छाउ.	७५०;
		परि.	१५४५
	ते नो रासन्तामु	ऋसं.	४९९
	तेनो हैवास्येष	शाब्रा.	३००
*ते पतञ्जलस्य	वृउ.	११२९	
ते पतञ्जलस्य	"	"	
ते परं मोक्षं ग	ऋसंखि.	३३६;	
	शिउ.	१५७४	
ते परा बभूवुः	ऐउ.	५४२	
तेऽपानं समारो	तब्राउ.	१३५०	
तेऽपानेनोदगा	"	१३४८	
तेऽपानेनोद्गात्रा	"	१३४९	
तेऽपामूर्ध्वं रस	शाब्रा.	३४७	
ते पुनः पुनर्ब	तब्राउ.	१३७२	
ते पुनः पुरुषा	वृउ.	१३००	
ते पुनः प्रत्याहु	तब्राउ.	१३३४	
ते पुरुषं तर्प	शाब्रा.	४०९	
ते पुरुषमावि	"	"	
तेन पुरुषेणा	पब्रा.	३२२	

ते प्रकाश्यामिव प्रउ. १४९७
 ते प्रजापतिं पि शाब्रा. १५०
 ते प्रजापतिं प्र शाब्रा. ३३८
 ते प्रम्युतुः तब्राउ. १३४३
 *ते प्राकाश्या अभि प्रउ. १४९७
 ते प्राणा एवोर्ध्वा तब्राउ. १३४७
 ते प्राणैवाधी शाब्रा. ३२०
 ते प्राणोदगा तब्राउ. १३४८
 ते प्राणोद्गात्रा ,, १३४९,
 १३५३
 ते ग्रीताः प्राणं स्तु प्रउ. १४९८
 ते बभूवुः ऐउ. ५४२
 ते बाहूभ्यां धमि ऋसं. १९१
 *ते ब्रह्मलोके तु मुउ. १४८४
 ,, नाउ. १६३६
 ते ब्रह्मलोकेषु मुउ. १४८४;
 कैउ. १६७३
 तेऽवुवञ्चैवो वा तब्राउ. १३४८
 तेऽवुवन् मैसं. १६६;
 शाब्रा. २९१
 तेऽवुवन् दूरे वा तब्राउ. १३३३
 तेऽवुवञ्चत्र वा ,, १३३४
 तेऽवुवञ्चयं वा ,, १३५२
 तेऽवुवन् न वै नो ,, १३४९;
 १३५२
 तेऽवुवन् नृच्येव ,, १३३४
 तेऽवुवञ्चदीयो ,, १३३३,
 १३३४
 तेऽवुवन् नो न्वाव ,, १३४९,
 १३५२, १३५३
 तेऽवुवन् वाचोद्गा ,, १३४९,
 १३५२
 तेऽवुवन् वायुर्वा ,, १३४५
 तेऽवुवन्वीदं क ,, १३४८
 तेऽवुवन् वीदं भ ,, १३४५
 तेऽवुवन् वैश्व ,, ,,
 तेऽवुवन् सामैव ,, १३४४
 तेभिर्यमः संर ऋसं. ३५९
 तेभिर्याहि पथि असं. ३९३
 तेभ्य इदं चक्षु तब्राउ. १३५२
 तेभ्य इदं प्राण ,, १३५३
 तेभ्य इदं मन ,, १३५२
 तेभ्य इदं वागा ,, ,,

तेभ्य एतान्धुरः शब्रा. २०३,
 ४६५
 तेभ्यः प्रजापति शाब्रा. २०३,
 ४६५
 तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्त गोब्रा. ३०४,
 ३०५
 तेभ्यः श्रियं प्राय तब्राउ १३४६
 तेभ्यः संततेभ्य जैब्रा. २८६;
 तब्राउ १३६०
 तेभ्यः स्वरं प्राय तब्राउ. १३३६
 तेभ्यः स्वराड्भु असं. ३९०
 तेऽभ्यनप्यन्त तब्राउ. १३३२
 तेऽभ्यपश्यन् ,, ,,
 तेभ्यो घृतस्य कु असं. ३९२
 तेभ्यो न सर्वमि छाउ. ८७२
 तेभ्यो बलिं पुष्टि नाउ. १६४८
 तेभ्योऽभिततेभ्य ऐब्रा. २८२,
 २८३, ५२१; छाउ. ७८९
 तेभ्यो मृन्मये पा तैब्रा. २८९
 तेभ्यो रजते पा ,, २९०
 तेभ्यो विलक्षणः कैउ. १६७६
 तेभ्योऽहं भागधे वृउ. १३०१
 तेभ्यो ह पृथगा शाब्रा. ३९
 तेभ्यो ह प्रादुर्ब तब्राउ. १३८०
 तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः छाउ ८७३
 तेभ्यो हरिते पा तैब्रा. २९०
 तेभ्यो हाऽभ्यागते तब्राउ. १३६९
 तेभ्यो हिङ्गारं प्रा ,, १३३३
 तेभ्यो हैतदक्ष वृउ. १२६८
 तेभ्यो हैतदंवा ,, १२६९
 तेभ्यो हैतामुप छाउ. ९७३
 तेभ्यो हैतेन प्र जैब्रा. ४०३
 ते मनः समारो तब्राउ. १३५०
 ते मनसैवाधी शाब्रा. ३१९
 ते मनसोद्गात्रा तब्राउ. १३४९,
 १३५२
 ते मनुष्याणाम् ,, १३६१
 ते मम ममेत्ये शाब्रा. २०३
 ते मर्तवोऽमृत जैब्रा. ४०५
 ते मिथुनमुत्पा प्रउ. १४९६
 तेऽमुष्मिन्नादित्ये तैआ. १५८
 ते य एवमेत वृउ. १२९८
 ते य एवमे मु तब्राउ. १३३६
 ते यज्ञचितेष्ट ऋसंखि. ३३५

ते यथा यत्र न छाउ. ९१६
 ते यदन्तरा त ,, ९८३
 ते यदाऽस्माच्छरी वृउ. ११६८
 *ते यदाऽस्मान्मर्त्या ,, ,,
 ते यदिदं सर्व ,, ,,
 ते यद्वयमनु ऐउ. ६२३;
 कौउ. ६९०
 ते यन्ति यत्रास्य जैब्रा. ४०४
 ते यन्मनुष्या अ कासं. २८२
 ते य शतं कर्म तैउ. ७२८
 ते ये शतं देव ,, ,,
 ते ये शतं देवा ,, ,,
 ते ये शतं पितृ ,, ,,
 *ते ये शतं पितृ ,, ,,
 ते ये शतं प्रजा ,, ,,
 ते ये शतं बृह ,, ,,
 ते ये शतं मनु ,, ,,
 ते ये शतं मानु ,, ,,
 ते ये शतमाजा ,, ,,
 ते ये शतमिन्द्र ,, ,,
 ते रक्षति तप असं. ४२३
 ते राजस्निह वि तैआ. ४१७
 ते रेतोऽस्मिन्त शाब्रा. १५०
 ते रैभामवृव तब्राउ. १३४५
 ते रैभ्याऽपुनन् ,, ,,
 तेऽर्चन्तः श्राम्यन्त शाब्रा. ४६४
 तेऽर्चिषमभिसं छाउ. ८६१
 तेऽर्चिषो वै यश मैउ. १६६५
 *ते लोकान्प्रत्युत्था वृउ. १३००
 ते वयं भगव गोब्रा. ५२४
 ते वा एते आहु शाब्रा. ४०८
 ते वा एते उभे ,, ११८
 ते वा एते गुह्या छाउ. ७९५
 ते वा एतेऽथर्वा ,, ७९४
 ते वा एते पञ्च ,, ८०५
 ते वा एते पञ्चा ,, ८३०
 ते वा एते प्राणा शाब्रा. ४६५
 ते वा एते रसा छाउ. ७९५
 ते वाचं समारो तब्राउ. १३५०
 ते वाचैवाधीय शाब्रा. ३२०
 ते वाचोदगायन् तब्राउ. १३४८
 ते वाचो देवाश्चा कासं. २८२

युप्रतिष्ठा	कौड.	१३५२
युप्रविष्ठा	"	"
युश्व पश	तब्राउ.	१३४५
लखिल्याः	तैआ.	१५९,
		३०६
दुरनेन	वृउ.	१००३,
		१००४
दुरनेन	"	१००३,
		१००४
खानसाः	तैआ.	१५९,
		३०६
ब्रध्नस्य वि	अमं.	४३५
माऽभिसंवि	वृउ.	१००९
विद्वांसो वै	तब्राउ.	१३४३
यद्रवताम्	"	१३४६
रीराः प्रप	तैआ	४१०
दधाना ब	प्रउ.	१४९७
नेत्रे समारो	तब्राउ.	१३५०
नेत्रे चक्षुषी	शिउ.	१५७३
नेत्रेणैवाधी	शब्रा.	३२१
नेत्रेणोदगा	तब्राउ.	१३४८
नेत्रेणोद्गात्रा	"	१३४९,
		१३५२
कल्याण आ	ताब्रा.	४०१
खल्वेषां भू	छाउ.	८९२;
	परि.	१५५९
चक्षुः पर्या	तब्राउ	१३५०
तप्यमाना	छाउ.	८४८;
	तब्राउ.	१३३२
त्वमस्त्युत्त	तब्राउ.	१३६८
त्वयाऽऽसने	तैउ.	७०४
न कश्चना	असं.	४७४
न पुनरा	वृउ.	१२९८
नाम्नां वाग्नि	"	१०६४
नृत्तानाम	असं.	३३९
नैकंचना	छाउ.	८५७
पद्म विधाः	शब्रा.	५१८
पज्ञानाम	असं.	३३९
पुना रस	तब्राउ.	१३३६
प्रज्ञानाय	असं.	४४३
प्राणैः पूर्व	कौड.	६२९
मनः पर्या	तब्राउ.	१३५०
य उभय	ऐउ.	५५७

तेषां यदा तप्य	वृउ.	१३००
*तेषां यो अज्यानि	तैसं.	३७१
तेषां रात्रिः कारो	शाब्रा.	३४७
तेषां वाचं पर्या	तब्राउ.	१३५०
तेषां वायुरेव	"	१३४८
तेषां श्रोत्रं पर्या	"	१३५१
तेषां संकल्प्यै व	छाउ.	९३०
तेषां सत्यानां स	"	९५९
तेषां सप्त च श	शब्रा.	३५
तेषां सप्तानामि	तैआ.	२७२,
		२७३
तेषां सर्वभूता	नाउ.	१६४३
तेषां सर्वेषु लो	छाउ.	९४७,
		९६४, ९६४
तेषां सहस्रयो	तैसं	१४७,
		१४९
तेषां ह कुरुप	तब्राउ.	१३६९
तेषां ह वैश्वान	शब्रा.	३८
तेषां ह कैकस्मा	तैब्रा.	२८
तेषामज्यानि य	असं.	३७१
तेषामपानं प	तब्राउ.	१३५०
तेषामभावे कृ	श्वेउ.	१६१८
तेषामभिपीलि	तब्राउ.	१३३६
तेषामसौ विर	प्रउ.	१४९६
तेषामासः स्पृतः	ताब्रा.	४०१
तेषामासब्राना	असं.	४७३
तेषामिष्टानि वि	ऋसं.	२११
तेषामिष्टानि स	"	१८६
*तेषामिह न पुन	वृउ.	१२९८
तेषामकैक ए	शब्रा.	३१९,
		३२०, ३२१
तेषामेतान्यमृ	छाउ.	७९५
तेषामवैतां ब्र	मुउ.	१४८८
तेषामवैष ब्र	प्रउ.	१४९६
*तेषामवैष लो	"	"
*तेषामवैष वि	"	"
तेषामेष सत्यम्	वृउ.	१०८६
तेषु प्रहान् गृह्ण	शब्रा.	३१९,
		३२०, ३२१
तेषु ता देवता	"	३०२
तेषु शंसन्ति	"	३१९,
		३२०, ३२१
तेषु स्तुषते	"	३१९,
		३२०, ३२१

तेषु हीद लोके	तब्राउ.	१३३५
तेषुभयेषु म	शब्रा.	४६४
तेऽष्टौ वसवोऽसृ	"	२९५
तेष्वेव प्रतिष्ठि	"	४०७
ते समेत्य साम	तब्राउ.	१३४५
ते सर्वगं सर्व	मुउ.	१४८३
ते साम्नाऽनृचेन	तब्राउ.	१३३४
ते सोमं प्राप्नुव	नाउ.	१६४४,
		१६४५
ते स्त्रियं तर्पय	शब्रा.	४०९
ते स्त्रियमावि	"	"
तेऽस्मा अग्रये	कासं.	२५
तेऽस्मादपदव	कौड.	६३४
तेऽस्य पुत्राः	तब्राउ.	१३५१
तेऽस्य युक्तास्तैरि	"	१३४३
ते स्वरे प्राविश	"	१३३५
ते स्वर्गं लोकम	"	१३३४
ते ह काण्ड्वियमु	"	१३५८
ते ह खलु वावो	मैउ.	१६५६
ते ह जज्ञे भुव	ताब्रा.	४६१
ते ह देवा ऊचु	वृउ.	१००१
ते ह नार्कं महि	ऋमं.	२२९,
		२३४; असं.
		४५६
ते ह नासिक्यं प्रा	छाउ.	७५१
ते ह पुरुषं जा	तब्राउ.	१३७०
ते ह प्रत्यूचुः	"	१३३३,
		१३४०
ते ह प्राणाः प्रजा	छाउ.	८५१;
	परि.	१५५३
ते ह प्राणा वाच	वृउ.	१००३
ते ह प्रातरसं	शब्रा.	३९
ते ह ब्राह्मणा न	वृउ.	१११५,
		११७८
ते ह ब्राह्मणाश्चयु	"	१११५
ते ह यथैवेदं	छाउ.	७७२
*ते ह यथैवेह	"	"
ते ह वा एते अ	तब्राउ.	१३५९
ते ह वाचमूचु	वृउ.	१००३
ते ह वश्वानरे	शब्रा.	३८
ते ह संपादयां	छाउ.	८७२
ते ह समारता	"	७६९
ते ह समित्पाण	"	८७३
ते ह समुपवि	"	७७२
ते ह समेत्योचु	शाआ.	३३१

ते हे संव एव तत्राउ. १२११
 ते ह स्म पुत्रेष बृउ. १२४७
 ते ह स्म पुत्रेष " " "
 *ते हाश्वपतिः जैत्रा. ३२८
 ते हाश्वपतिः कौ शत्रा. ३९
 ते हाषाडस्य गृ जैत्रा. ३२८
 ते हासंपावोचुः शत्रा. २०३
 ते हेमे प्राणा अ बृउ. १२८७
 ते हेमे बहु ज तत्राउ. १३५७
 ते हैते ब्रह्मणो शत्रा. ३०२
 ते हैते रैकप छाउ. ८२७
 ते हैते लोका ऊ तत्राउ. १३३३
 ते हैते विद्याचि शत्रा. ३२९
 ते होचुः शत्रा. ३९;
 छाउ. ८३५, ८३८, ८७३;
 बृउ. १२८८; मैउ. १६५४
 ते होचुः कस्य न शत्रा. २०३
 ते होचुः क नु सो बृउ. १००६
 ते होचुरथेनं शत्रा. ४६४
 ते होचुरनुधा तत्राउ. १३५८
 ते होचुरसुरा " १३५२
 ते होचुरा वै व शत्रा. ४६४
 ते होचुरुदगीधे छाउ. ७६४
 ते होचुरुभये शत्रा. ४६४
 ते होचुर्भगव मैउ. १६५४, १६५५, १६५६
 ते होचुर्हन्त त छाउ. ९७०
 ते होचुर्हन्तेद शत्रा. ४६४
 ते ह्योनप्रथमो तत्राउ. १३८२
 तैः सह न संव मैउ. १६६७
 तैरहं मनो वा तत्रा. ५९६
 तैरिदं सर्वं सि तत्राउ. १३३८
 तैरेनं प्राशिषं असं. ४४०
 तैर्मे कृतं स्वस्य " ५९२
 तैष्टे रोहितः सं " १६९
 तौ चेन्मे न विक बृउ. ११५६
 *तौ चेन्मे बक्ष्यति " "
 तौ मिथुनं समे " १०५४
 *तौ मिथुनं समे " "
 तौ मे ब्रूहीति " ११५७
 तौ यत्र विप्रदू कौउ. ६८८
 तौ यत्र विहीये ऐउ. ६९६
 तौ यदा मिथुन शत्रा. ११५
 तौ रक्षति तप असं. ४२३

तौ वा एतौ द्वौ सं छाउ. ८२८
 तौ विराड् भूवा प्रा तत्राउ. १३४६
 तौ वै संभववि " " "
 १३४७
 तौ ह द्वात्रिंशतं छाउ. ९७०
 तौ ह पुरुषं सु बृउ. १०७१
 तौ ह प्रजापति छाउ. ९७०,
 ९७१, ९७२
 तौ ह विभिक्षे तत्राउ. १३५५
 तौ ह यदूचतुः बृउ. ११२६
 तौ ह शान्तहृद छाउ. ९७३
 तौ ह साध्वलंकृ " ९७२
 तौ ह सुप्तं पुरु कौउ. ६७९
 तौ हाऽन्योन्यस्य प्रि तत्राउ. १३६४
 तौ हान्वीक्ष्य प्रजा छाउ. ९७३
 तौ हासंविदाना " ९७०
 तौ हास्मा आजगौ तत्राउ. १३७०
 तौ हृदयस्थाका शत्रा. ११५
 तौ हैतदाच्छियो " ११६
 तौ हैनमाजन्म तत्राउ. १३७०
 तौ होचतुः सर्व छाउ. ९७२
 तौ होचतुर्ये आ " ९७०
 ता होचतुर्येयै " ९७३
 तौ होत्कम्य मन्त्र बृउ. ११२६
 तौ होदशरावे छाउ. ९७२
 तौ होपजगौ तत्राउ. १३५५
 र्यस्य ह्येष रसः बृउ. १०८४,
 १०८५
 र्येख्यस्य मर्त्यंम तत्राउ. १३७१
 त्रपु भस्म हरि असं. ४३६
 त्रय इति बृउ. ११६६
 त्रय इमे लोकाः तैसं २८२;
 शत्रा. ४०७; छाउ. ७८४
 त्रयं त्वेव न ए ऐउ. ६१०;
 कौउ. ६८७
 त्रयं वा इदं ना बृउ. १०६४
 त्रयः केशिन ऋ ऋसं. २२६
 त्रयः सुपर्णा उ असं. ३९३
 त्रयश्च त्री च श बृउ. ११६६
 त्रयस्त्रिंशं ते अ कासं. २५
 त्रयस्त्रिंशत्त्वेव बृउ. ११६७
 त्रयस्त्रिंशदिति " ११६६
 त्रयस्त्रिंशेन ज असं. १६२

*त्रया देवा एका मैसं. ३१५
 त्रयो विद्या हिका छाउ. ७८४
 त्रयो अस्य पादा कत्रा., गोत्रा. १२
 त्रयो देवा एका कासं. ३१५
 त्रयो धर्मस्कन्धाः छाउ. ७८६;
 परि. १५४७
 त्रयो नारकाः जैत्रा. ४०५
 त्रयो लोका एत बृउ. १०५२
 त्रयो वा इमेऽवा शत्रा. ३२८
 त्रयो वेदा एत बृउ. १०५३
 त्रयो हि प्राणोऽपा तत्राउ. १३५०,
 १३५१
 त्रयो हैवाऽस्याऽऽजा " १३५१
 त्रयो होद्गीधे कुश छाउ. ७६४
 त्रातारं त्वा त ऋसं. १८९
 त्रायते एनं स तत्राउ. १३६६
 त्रायते हैनं प्रा बृउ. १२७९
 त्रायमाणं सह असं. ३८१
 त्रिशदात्मा शत्रा. ३४,
 ३५
 त्रिंशिनो मासाः तैसं. ५१४
 त्रिकटुकैभिः प तैआ. ४१६
 त्रिणवौ ते अग्ने कासं. २५
 त्रिणाचिकेतत्र काउ. १३९४
 त्रिणाचिकेतस्त्रि " १३९३
 त्रित एतन्मनु तैत्रा. ४८९
 त्रितं जूती सप ऋसं. ८३
 त्रिते देवा अमृ तैत्रा. ४८९
 त्रिदण्डं कमण्ड जाउ. १६७१.
 *त्रिधातुरर्को र सासं. १०
 त्रिधातु विषु वा तत्राउ. १३८६
 त्रिधा बद्ध इति कत्रा., गोत्रा. १२
 त्रिधा बद्धो वृष ऋसं. ११;
 नाउ. १६३६
 त्रिनाभि चक्रम असं. १७३;
 ऋसं. २०७; तैआ. २७१
 त्रिपञ्चाशः क्रीळ ऋसं. ४८४
 त्रिपदा गायत्री शत्रा. ३५
 त्रिपाजस्यो वृष ऋसं. ९४
 त्रिपादूर्ध्व उदै " २३१
 त्रिपाद्भ्रम पुरु असं. २३०
 *त्रिभिः पद्भिर्द्याम " २३१
 त्रिभिः पद्भिर्त्रैर ऋसं. ११

त्रियम्बकं यजा	श्रा. ५२४
" "	शिव. १५७४
" "	ना. १६४६
त्रिग्यक्षि	श्रा. ४६९
त्रिगत्रान्त आप्लु	वृ. १३०७
त्रिरुत्तगणि प	ऋसं. ८३
त्रिरुत्त स्थाप्य	श्वे. १५८७
त्रिदंनः पृथिवी	ऋसं. ९२
त्रिर्याद्वः परि	" ५२;
	तत्रा. १३४३
त्रिवैव त्रियत	तत्रा. १३५७
त्रिह वा एष ए	" १३४३
त्रिह वै पुरुषो	श्रा. ४०७;
	तत्रा. १३५८
त्रिवृत् ते अग्ने शि	कासं. २५
त्रिवृत्पञ्चदशं	ऐ. ५६३
त्रिवृत्प्रायाः सप्त	श्रा. ४६९
त्रिवृत्सामा चतु	तत्रा. १३३९
त्रिवृत्दव वै च	ऐ. ५३५
त्रेउद्भुवनं य	कासं. ४००
त्रेवृत्तभुवन	तै. "
त्रेवेदः कृष्णरा	तत्रा. १३६७
त्रेशीर्षाणं त्वाद्	कौ. ६५७
त्रेषु धामसु य	कै. १६७६
त्रेषु पात्रेषु तं	असं. ४३५
त्रेषु छन्द इन्द्रो	श्रा. ३०
त्रेषु छन्दो बृह	तैसं. २८१
त्रेषुसहस्रमे	ऐ. ५६५
त्रेषुभा त्वेव प	तत्रा. १३५६
त्रेषुमांसम्	ऐ. ५३७
त्रेषुकपाचचरे	मै. १६६८
त्रेषुपर्णमया	ना. १६४४
त्रिणि त आहुर्वि	ऋसं. ४२९
त्रिणि पदानि नि	असं. १०७;
	शुसं. २५७
त्रिणि पदा निहि	तै. १०७;
	ना. २५७
" "	ना. १६३१
त्रिणि पदा वि च	ऋसं. ८७
त्रिणि वा इमानि	श्रा. ५१८
त्रिणि शता त्रीष	तै. ९
त्रिणि शता त्री स	ऋसं. "
त्रिणि षष्टिः शता	कौ. ६८७
त्रिणि षष्टि शता	ऐ. ६११

त्रीणि सवनानि	ऐ. ५६१
त्रीण्यमृतस्य पु	तत्रा. १३६८
त्रीण्यात्मनेऽकुरु	वृ. १०४६,
	१०५०
*त्रीन्समुद्रान्सम	मैसं., शुसं. ४००
त्रीन्वेदान् ब्रूते	गो. ११८
*त्रेधा बद्धो वृष	मैसं. ११
त्रेधा विहितं वा	ऐ. ५६३
त्रेधा विहितान्यु	श्रा. ३१
त्रेधातवीयामे	जा. १६७०
*त्रैवणिरौपच	वृ. १२६६
त्रैवणिरौपज	" १११४,
	१२६५
*त्रैवणिरौपञ्च	" १११४,
	१२६६
त्रैष्टुभं छन्दः	गो. ५२४
त्रैष्टुभं माध्यन्दि	छा. ८१५;
	तत्रा. १३६८
त्रैस्वयोदात्त ए	गो. ५२३
त्रयनीकः परत्येते	ऋसं. ९४
त्रयम्बकं यजाम	ऋसंखि. ३३६;
	ना. १६४६
त्रयायुषं कश्यप	तत्रा. १३६८
त्र्यं काम सहसा	असं. ३४१
त्र्यं जीर्णो दण्डेन	" २५०;
	श्वे. १६०१
त्र्यं तत्त्वविच्छुभ्रु	मै. १६५३
त्र्यं तदाप आपो	ना. १६४८
त्र्यं तान्त्सं च प्रति	ऋसं. ८
त्र्यं ता विश्वा भुव	असं. ८६
त्र्यं द्यां च पृथिवीं	ऋसं. ७१
त्र्यं नः पूर्णहि प	असं. १०९,
	११०
त्र्यं नः श्रेष्ठोऽसि	छा. ८५१
त्र्यं नस्तद्ब्रह्मप्र	तै. ४१०
त्र्यं तु खलु नो या	वृ. १११५
त्र्यं नो योयाः पथि	ऋसं. १८९
त्र्यं नो मेधे प्रथ	असं. ३४४
*त्र्यं नो वीरो अर्ब	ऐ. १२५
त्र्यं पुत्रो भवसि	ऋसं. ७
त्र्यं पुर इन्द्रं चि	" ५८
त्र्यं प्रथमो ब्रूवे	जै. ३२८
त्र्यं प्रथमो वृणी	तत्रा. १३४५
त्र्यं ब्रह्मा त्वं च वै	मै. १६५७

त्वं ब्रह्मा रयिचि	ऋसं. ६
त्वं भगो नृपते	" ७
त्वं भर्ता मातरि	तै. ३३३
त्वं भुवः प्रतिमा	ऋसं. ४४
त्वं भूतानां श्रेष्ठो	तै. २६६
त्वं भूतानामधि	" "
त्वं मनुस्त्वं यम	मै. १६५७
त्वं मा यं प्रश्नम	गो. ११८
त्वं यज्ञस्त्वं वष	ना. १६४८
त्वं यज्ञस्त्वमु वे	तै. ३३३
त्वं यज्ञेष्वीज्यः	ऐ. ६२६
त्वं यदस्य देवे	तत्रा. १३७७
त्वं वनभ्यस्त्वमो	ऋसं. ५;
	ना. १६४९
त्वं वरुण पश्य	असं. १७१
त्वं वा अहमस्मि	जा. १६७१
त्वं वाजः प्रतर	ऋसं. ८
त्वं वातैररुणै	" ६
त्वं वि भास्यनु द	" ७
त्वं विश्वस्य जग	" ६३
त्वं विश्वा दधिषे	" ६१
त्वं विश्वानि स्वनी	" ७
त्वं विश्वेषां जनि	असं. १९९
त्वं विष्णो सुमति	ऋसं. ९१
त्वं वृषा जनानां	" ५७
त्वं वै न आचार्यो	जै. ३२८
त्वं वै पूर्वसम	तै. १५९,
	३०६
त्वं समुद्रो असि	ऋसं. ७१
त्वं सूर्यस्य रश्मि	असं. ३४४
त्वं स्त्री त्वं पुमान	" २५०;
	श्वे. १६०१
त्वं हि नः पिता व	ऋसं. ५९
त्वं हि मन्यो अभि	" ३४२
त्वं ह्यङ्ग वरुण	असं. ८६
त्वक्चर्ममांससह	ना. १६४७
त्वक्च र्शयि	प्र. १५०८
त्वक्प्रस्तावः	छा. ७८३
त्वग्गायत्री	ऐ. ५३७
त्वग्वै ग्रहः	वृ. ११२३
त्वङ्निरभिद्यत	ऐ. ५८१
त्वच एवास्य स	वृ. ११७८

त्वचा संस्पर्शान्वे	तत्राउ.	१३८७
त्वचा हि स्पर्शान्वे	वृउ.	११२३
त्वचि तुभ्यन्त्यां वा	छाउ.	८८१
त्वचे रूपाय सं	असं.	१२९
त्वचो लोमानि	ऐउ.	५८१
त्वज्जानास्त्वयि च	असं.	५०७
त्वत्प्रसृष्टं माऽभि	काउ.	१३९१
त्वद्विश्वानि भुव	ऋसं.	५८
त्वमग्न इन्द्रो वृ	,,	६
त्वमग्न ऋभुरा	,,	७
त्वमग्निं हृष्यवा	तैआ.	३३३
त्वमग्निर्वरुणो	मैउ.	१६५७
त्वमग्ने अदिति	ऋसं.	८
त्वमग्ने क्रतुभिः	असं.	१७४
त्वमग्ने त्वष्टा वि	ऋसं.	६
त्वमग्ने द्युभिस्त्व	,,	५;
	नाउ.	१६४९
त्वमग्ने द्रविणो	ऋसं.	७
त्वमग्ने राजा व	,,	६
त्वमग्ने दद्रो अ	,,	,,
त्वमग्ने वरुणो	,,	१२
त्वमग्ने व्रतपा	ऐउ.	६२६
त्वमग्ने सुभूत	ऋसं.	८
त्वमग्न तानि वि	,,	६१
त्वमनुपुनीष्वे	तत्राउ.	१३४५,
	१३४६,	१३४७
त्वमन्तरिक्षे च	प्रउ.	१४९९
त्वमर्थमा भव	ऋसं.	१२
त्वमर्थमा सत्प	,,	६
*त्वमसीति तम	कौउ.	६३१
त्वमस्माकं गति	मैउ.	१६५६
त्वमस्माकं तव	ऐउ.	५३४
त्वमस्माकमसी	,,	,,
त्वमस्मीति तम	कौउ.	६३१
त्वमस्यावपनी	असं.	५०९
त्वमात्माऽसि	कौउ.	६३७
त्वमाशुहेमा र	ऋसं.	६
त्वमिळा शतहि	,,	८
त्वमिदं पूर्वः कु	तैआ.	१५९,
		३०६
त्वमिदं सर्वम	ऐउ.	५३४

त्वमुक्थमसि	ऐउ.	५३४
त्वमुग्रः पुतना	असं.	३४१
त्वमेकोऽसि बहू	तैआ.	३३३
त्वमेव पृथिवि	असं.	५०७
त्वमेव प्रत्यक्षं	तैउ.	६९३,
		७०६
		६९३
*त्वमेव मे वरं	कौउ.	६५६
त्वमेव मे वृणी	,,	,,
*त्वमेव वृणीष्व	,,	,,
त्वमेव वृणीष्वे	,,	,,
त्वमोदनं प्राशी	असं.	४३८
त्वया जुष्ट ऋषि	नाउ.	१६४५
त्वया जुष्टश्चित्रं	,,	,,
त्वया जुष्टा मुद	,,	,,
त्वया मन्यो सर	ऋसं.	३४३
त्वया मर्त्याः स्व	,,	८
त्वया वयं युवृ	,,	१९०
त्वया वा अयं प्र	तत्राउ.	१३५५
त्वयाहृत् शान्त्या स	मैसं.	५१५
त्वया ह्यग्ने वरु	ऋसं.	५
त्वयि पञ्चमं मु	कौउ.	६४९
त्वयीदं सर्वं जा	असं.	१७०
त्वयैव संभवा	तत्राउ.	१३४६,
		१३४७
त्वष्टा पत्नीभिर	मैसं.	१८२
त्वष्टा पत्नीभिरि	,,	,,
त्वष्टारं रूपाणि	तैआ.	२६८
त्वष्टा रेतो भुव	मैसं.	१८२
त्वष्टा ह जज्ञे त्व	असं.	३०९
त्वष्टुरष्टीवद्भ्याम्	,,	४४२
त्वष्टेव विश्वा भु	ऋसं.	७६
त्वां देवासो अमृ	,,	७३
त्वां भूतान्युपप	तैआ.	२६६
त्वां रातिषाचो	ऋसं.	८
त्वां वर्धन्तु नो	,,	१७
त्वां विष्णुर्ब्रह्मक्ष	,,	५७
त्वां स्वदिग्ने ब्राह्म	वृउ.	११७३
त्वाद्देवी रुद्र	ऋसं.	१२५
त्वामग्न आदित्या	,,	८
त्वामग्ने दम आ	,,	७

त्वामहमनेन	तत्राउ.	१३६९
त्वामापः पर्वता	ऋसं.	५७
त्वामापो अनु स	तैआ.	३३३
त्वामुपेक्षामि	गोब्रा.	११८
त्वामेव जानीया	ऐउ.	५४९
त्वामेव प्रत्यक्षं	तैउ.	६९३,
		७०६
त्वा शर्धो मदत्य	ऋसं.	५७
त्विविश्वापचिति	ताब्रा.	४६१
*त्विवीमानस्मि जू	असं.	५०९
त्वे अग्ने विश्वे अ	ऋसं.	८
त्वे विश्व सहस	,,	१२
त्वै...पञ्चमुखं ते	कौउ.	६४९
		६
द इत्येकमक्ष	वृउ.	१२७०
दक्षं दधाना ज	तैआ.	१६०,
		३०६
दक्षः कात्यायनि	तत्राउ.	१३६७,
		१३७२
दक्षजयन्तो लौ	,,	१३६८
दक्षिणपूर्वस्यां	तैआ.	४११
दक्षिणवामयोः	,,	१८१
दक्षिणस्याः पिशा	गोब्रा.	३०५
दक्षिणाग्नेष्टे त	असं.	३९५
दक्षिणा दिक्कला	छाउ.	८३२
दक्षिणा दिग्दक्षि	वृउ.	११८८
दक्षिणापरस्यां	तैआ.	४११
दक्षिणा ब्रह्मणः	शब्रा.	४७०,
		४७१
दक्षिणामभिजा	तत्राउ.	१३५८
दक्षिणामाहुर्य	तैब्रा.	४९२
दक्षिणायामिति	वृउ.	११७४
दक्षिणावतामि	ऋसं.	३५२,
		४७५
दक्षिणावन्तो अ	,,	३५२,
		४७५
दक्षिणा सावित्री	गोब्रा.	११९
दक्षिणेष्टं पूर्त	असं.	४४६
दत्तास्मै भिक्षामि	छाउ.	८२९
दत्तेति न आत्थे	वृउ.	१२६९
*दत्त्वायास्मभ्यं द्र	कासं.	३९८

*ददन्त्यस्मै स्वाश्वा	"	"	दश हैवाऽस्याऽऽजा	तब्राउ.	१३५१	दिवमेव दद	तब्राउ.	१३४०
ददा इति ह वा	तब्राउ.	१३५६	दशाक्षरा विराट्	शब्रा.	४७१	दिवमेव भग	छाउ.	८७४
ददामि तद्यत् ते	असं.	८६	दशेति वै सर्वम्	ऐउ.	५६३	दिवमेव राज	शब्रा.	४१
ददाम्यस्मा अथ	"	३८८	दशेमे पुरुषे	बृउ.	११६८	दिवमेषां दद	असं.	२५०
ददश्र एषाम	ऋसं.	१२४	*दहरं विपापं	नाउ.	१६३६	दिवश्चिते बृह	ऋसं.	३
दद्भ्यो गन्धाय ते	असं.	१२९	दहं विपापं प	"	"	दिवश्चैनमादि	बृउ.	१०६०
*दधथ नो द्रवि	मैसं.	३९८	दाधार यः पृथि	ऋसं.	५२	दिवस्पयो दिधि	ऋसं.	२३४
दधाति ररं स्व	ऋसं.	७१	दानं यज्ञानां व	नाउ.	१६५०	*दिवस्पर्जन्याद	शुसं.	२३
दधाति शकः सु	मैसं.	६६	दानमिति सर्वा	"	"	दिव स्पशः प्र च	असं.	८५
दधाते ये अम्	ऋसं.	१२२	दानान्नाति दुश्च	"	"	दिवस्पृथिव्याः प	"	२१
दधाते ये सुभ	"	"	दानेन द्विषन्तो	"	१६५१	दिवस्पृष्ठं स्वर्ग	"	३६८
दधे ह गर्भम्	शुसं.	२५३	दानेनारातीर	"	१६५०	दिवस्पृष्ठ धाव	"	१७२
दध्नः सोम्य मध्य	छाउ.	९०२	दाने सर्व प्रति	"	१६५१	दिवाकरांसि द्यु	"	"
*दध्यङ्कार्यवर्णो	बृउ.	११०९	दामेव वस्ताद्वि	ऋसं.	७६	दिवा पृष्ठेन	"	४४१
"	"	१११४,	दाम्यत दत्त दय	बृउ.	१२६९	दिवायतनं प्र	कौउ.	६८५
"	"	१२६६	दाम्यतेति न आ	"	"	दिवा वै नोऽभूदि	तैब्रा.	२९०
"	"	११०९	दिक्षु तृप्यन्तीषु	छाउ.	८८१	दिवा साम सम	गोब्रा.	११९
दन्तास्ते शस्त्र्यन्ती	असं.	४४०	*दिग्भ्यः स्वाहेत्यग्नौ	बृउ.	१३०२	दिविक्षयो नभ	तैआ.	२७१
दन्द्रम्यमाणाः प	काउ.	१३९९;	दिग्भ्यो विशृणोति	ऐउ.	५४०	दिवि जाता अप्सु	तैब्रा.	४८९
	नाउ.	१६६७	दिग्भ्यो हैनमाय	"	"	दिवि तृप्यन्त्यां य	छाउ.	८८१
दम इति निय	नाउ.	१६५०	दितिः शूर्पमदि	असं.	४३६	दिवि त्वात्रिरधा	असं.	१७१
दमः शमयिता	"	१६५१	दितेश्च वै सोऽदि	"	४५३	दिवि मे अग्न्यः प	ऋसं.	६३
दमश्च स्वाध्याय	तैउ.	७०२	दिवक्षेतैवाऽक्षि	तब्राउ.	१३५६	दिविव चक्षुरा	"	८७
दमायन्तु ब्रह्म	"	६९५	दिव आत्मानं स	तैआ.	२६७	*दिवे च विश्वक	तैब्रा.	२८०
दमेन दान्ताः कि	नाउ.	१६५०	*दिवं गत्वाय म	तैब्रा.	१६८	दिवे च विश्वे	असं.	"
दमेन ब्रह्मन्वा	"	"	दिवं च पृथिवीं	ऋसं.	२७९;	दिवेदिव ईडयो	ऋसं.	११;
दमे सर्व प्रति	"	"	दिवं च पृथिवी पृ	नाउ.	१६३३	दिवे स्वाहा	नाउ.	१६४८
दमो भूतानां दु	"	"	दिवं च रोह पृ	तैब्रा.	४७८	*दिवे स्वाहेत्यग्नौ	बृउ.	१३०२
दयध्वमिति न	बृउ.	१२६९	दिवं च सूर्य पृ	असं.	१६९	दिवो धर्ता भुव	ऋसं.	९६
दयेत त्वेनेन	ऐउ.	५६८	दिवं दाधार पृ	"	१७१	दिवो नाकस्य पृ	असं.	३६८
दर्शतं पदमि	बृउ.	१२८१	दिवं देवतामा	तैआ.	५२०	(तद्) दिवोऽन्तः	तब्राउ.	१३३१
दर्शनीयं च ह्ये	तब्राउ.	१३५०	दिवं पृथिवीम	ऐउ.	६०१;	*दिवो मूर्धाऽसि ना	मैसं.	२३
दर्शनीयं चैने	"	१३४८	दिवं यश्वके मू	कौउ.	६८५	दिवो मूर्धाऽसि पृ	तैसं.	"
दश ग्राम्याणि धा	बृउ.	१३०४	दिवं रुद्धवा मह	असं.	२०	दिवो विश्वस्मात्सो	तैआ.	४१४
दश दशतस्त	ऐउ.	५६३	दिवं संहिताऽग	"	२४८	*दिव्यं सुपर्णं प	असं.	२२९
दश दश पादा	बृउ.	१११५	दिवं ससुद्रमाद्	"	१६८	*दिव्यं सुपर्णं व	तैसं.	"
दश पञ्च त्रिंश	ऋसंखि.	३३५;	*दिवः पर्जन्याद्	ऐउ.	६०६;	दिव्यं सुपर्णं वा	ऋसं.	"
	शिउ.	१५७३	दिवः पर्वज्याद्	कौउ.	६८६	दिव्यः सुपर्णः स	असं.	१७१
दश पुरुषे स्व	तब्राउ.	१३८७	*दिवः पृष्ठं स्वर्ग	असं.	१७२	दिव्यलिङ्गाय न	नाउ.	१६४१
दश प्रज्ञामात्रा	कौउ.	६७१	दिवः स्वराः	कासं., मैसं.	२३	दिव्या अङ्गारा इ	ऋसं.	४८५
*दशमे पुरुषे	बृउ.	११६८		तैसं.	३६८	दिव्यान् गन्धर्वानि	तब्राउ.	१३६२
*दश वै पशोः प्रा	"	"		ऐउ.	६२१;	दिव्यायतनं प्र	ऐउ.	६०१
दश शतानि त	ऐउ.	५६३		कौउ.	६८९			

दिव्ये ब्रह्मपुरे	मु.उ.	१४६३
दिव्यो ह्यमूर्तेः पु	,,	१४५५;
	परि.	१५७१
दिश इति	तब्रा.उ.	१३६२
दिश इति होवा	वृ.उ.	११७१
दिश एव सम्रा	,,	११८५
दिशः परिधानी	तब्रा.उ.	१३५६
दिशः प्रतिहारः	छा.उ.	७८३
दिशः शान्तिः	तै.आ.	५१९
दिशः श्रोत्रं भूत्वा	ऐ.उ.	५८३
दिशः श्रोत्रम्	,,	५३५
दिशः श्रोत्रे	शा.आ.	४७२;
	कौ.उ.	६९०
दिशः संधिः	कौ.उ.	६८४
दिशः स्थ श्रोत्रे मे	तब्रा.उ.	१३३६
दिशस्तृप्ता अवा	शा.आ.	४७२;
	कौ.उ.	६९१
दिशां प्रज्ञानां स्व	असं.	१७०
दिशामेकपुण्ड	वृ.उ.	१३०३
दिशोऽङ्गाराः	जै.ब्रा.	४०४;
	छा.उ.	८५९; वृ.उ.
		१२९५
* ,, ,,	वृ.उ.	१२९६
दिशोऽनु तृतीयं	जै.ब्रा.	४०४
दिशो मे श्रोत्रे श्रि	तै.ब्रा.	२६०
दिशो यश्चक्रं प्र	असं.	२४८
*दिशो यस्य प्रदि	कासं.	१९५
दिशोऽवान्तरदि	तब्रा.उ.	१३३५
दिशो वेद सदे	वृ.उ.	११७३
दिशो वै सम्राट् श्रो	,,	११८५
दिशो व्यन्तरं प्रा	शि.उ.	१६७७
दिशो ह्यस्य सक्त	छा.उ.	८१३
दिशो ह्युपगाय	तब्रा.उ.	१३३६
दिष्टिर्विशास्ता	ता.ब्रा.	४६१
दीक्षायामिति	वृ.उ.	११७५
दीक्षिताः सत्रमा	तै.ब्रा.	४६२
दीक्षे मा मा हिंसीः	कौ.उ.	६२७
दीक्षाप्रा ह वा अ	तब्रा.उ.	१३५०
दीप्यत इव हि	वृ.उ.	१११९
दीर्घं न आयुः प्र	असं.	५१०
दीर्घप्लुतोदात्त	गो.ब्रा.	५२३
दीर्घश्रुत्तमो भ	तै.आ.	४११
दुःखितांश्च द्विजां	ऋसंखि.	४७९

कौ.उ.	६८८; परि.	१५३५
दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं	छा.उ.	७५६,
		७७३, ७७८
दुन्दुभेस्तु ग्रह	वृ.उ.	१०९५,
		१२६१
दुरधीयानं तं	गो.ब्रा.	११८
दुरधीयानं वा	,,	,,
दुरिता यानि च	तै.ब्रा.	४८७,
		४८९
दुर्गा देवी च शर	ना.उ.	१६३४
दुर्गाग्नीः सर्वा दु	असं.	५०६
दुर्मिषज्य च हास्मै	वृ.उ.	१२०१
दुर्यष्टं दुरधी	ऋसंखि.	४८६
दक्कृतसुकृते	जै.ब्रा.	४०३
दुष्टाश्वयुक्तमि	श्वे.उ.	१५८८
दुष्प्रदहन्दुष्ट	ना.उ.	१६४४
दुष्पण्यं काम दु	असं.	३३९
दुष्पण्यं तस्मिच्छ	,,	१७०
दुष्पण्यं दुरितिं	,,	३७३
दुह एव प्रजाः	तै.ब्रा.	२९०
दुहामश्विभ्यां प	ऋसं.	२१८
दुहे सायं दुहे	असं.	४३३
दुहे ह वै वाचं	तब्रा.उ.	१३५४
दूर्तं वा प्रहिणु	कौ.उ.	६४२
दूर्गमं ज्योति	ऋसं.	३३४;
	शि.उ.	१५७३
दूर च वा अस्मा	वृ.उ.	१००६
दूर च ह्यस्या मृत्युः	,,	,,
दूरमेते विप	का.उ.	१३९९;
	मै.उ.	१६६७
दूराच्चकमाना	असं.	३४१
दूरात्सुदूरे त	मु.उ.	१४७८
दूराद्वा एष ए	तब्रा.उ.	१३३१
दूरं तन्नाम गु	ऋसं.	६२
दूरं परया च रा	तै.ब्रा.	४८८
दूरे पूर्णेन च	असं.	२४९
दुहं ह वा अस्थे	तब्रा.उ.	१३८६
दुहो हं हस्थिरो	असं.	४४४
दुहो ह्यचिदासुजे	ऐ.उ.	५२५
दुतिरैन्द्रोतिः शौ	तब्रा.उ.	१३६७
दूते दुंह मा	शुसं.	५१५
दूते दुंह मा मि	,,	,,
दूतबालाकिर्हा	वृ.उ.	१०६६

दृशे विश्वाय सू	असं.	१७०
दृश्यते त्वग्न्यया	का.उ.	१४१६
दृष्टं चादृष्टं च	प्र.उ.	१५०६
दृष्ट्वा रूपं व्याक	कासं.	२००
*देव इव सवि	ऋसं.	२५१
*देव एकः समा	श्वे.उ.	१६२१
देव एकः स्वमा	,,	,,
*देवं उप प्रैत्स	मैसं.	२७५
देवं देवत्रा सू	कौ.उ.	६८८;
	छा.उ.	८१७
देवः सविताऽम	तब्रा.उ.	१३६७
देवकृतस्यैव	ना.उ.	१६४६
देवगृहा वै न	तै.ब्रा.	२८७
देवचक्रं वा ए	शा.ब्रा.	४०१
देवजन इति	शा.ब्रा.	११७
देवजना गुदा	असं.	४३४
देवतराः श्याव	तब्रा.उ.	१३६७
देवतास्तत्र सो	ऋसंखि.	३३६;
	शि.उ.	१५७४
देवतास्तृप्ता लो	तब्रा.उ.	१३३६
देवपितृकार्या	तै.उ.	७०४
देवपुरं प्रप	तै.आ.	२६५
देवयानः पन्थाः	ना.उ.	१६५१
देवयोनिर्हैवा	जै.ब्रा.	४०३
देवरातो विश्वा	कौ.उ.	६९२
देवलोकादादि	वृ.उ.	१२९८
देवलोकेषु गा	,,	११४५
देवलोको वै लो	,,	१०५७
देवलोको हैवा	जै.ब्रा.	४०३
देववानेव भ	तै.ब्रा.	२९०
देव सवितः प्र	तैसं.	१११
देवस्त्वष्टा सवि	ऋसं.	९४
देवस्य पर्य का	असं.	२३०,
		२५०
देवस्यैष महि	श्वे.उ.	१६१७
देवा अन्वविन्दन्	तै.आ.	२७३
देवा इदस्य ह	ऋसं.	४३०
देवा उप प्रैत्स	,,	२७५
देवा च ये नम	तै.आ.	४१७
देवाः पितरः पि	असं.	३७६
देवाः पितरो म	,,	४४९;
	वृ.उ.	१०५३
देवा जीवनका	तै.ब्रा.	४८७

देवानां च ऋषी	कासं.	१३४
देवानां नु वयं	ऋसं.	२७४
देवानां पत्नीः पृ	असं.	४३४
देवानां पूरयो	तैआ.	३२२
देवानां पूर्व्ये यु	ऋसं.	२७४
देवानां बन्धु नि	तैआ.	२६८
देवानां भद्रा सु	ऋसं.	४९४
देवानां यः पित	"	१९३
देवानां युगे प्र	"	२७५
देवानां रेतो व	ऐउ.	५३१
देवानां वसुधा	तैआ.	२६९
देवानां वै षडु	तब्राउ.	१३४९
देवानां सख्यमु	ऋसं.	४९४
देवानां सुम्ने सु	"	१९३
देवानां ह वै स	जैब्रा.	४०५
देवानां हृदयं	तैआ.	२७०
देवानां हेतिः प	असं.	३८२
देवानां हव स	शब्रा.	१५५
देवानामसि व	प्रउ.	१४९९
देवानामुत यो	ऋसं.	१६
देवानामेतत्प	असं.	४२५
देवानिति	तब्राउ.	१३६३
देवा नो यथा स	ऋसं.	४९४
देवानप्रपद्ये	तैआ.	२६५
देवान्वा यच्चकृ	ऋसं.	१२३
देवा भागं यथा	"	४८०
देवा मनुष्या अ	वृउ.	१२६८
देवा यजुष्मत्य	शब्रा.	३३
देवा यज्ञमृत	असं.	३९३
देवा यद्यज्ञं त	ऋसं.	२३३
देवा वा अनया	तब्राउ.	१३६१
देवा वै ब्रह्मणो	"	१३५४
देवा वै मृत्योर्धि	छाउ.	७५७
देवा वै विजिग्या	तब्राउ.	१३४४
देवा वै स्वर्गं लो	"	१३३४
देवाश्च वा असु	शब्रा.	२०२,
४६४, ४६५; षब्रा.		३२२
देवाश्चित्ते असु	ऋसं.	१८८
देवाश्चेति संध	शिखाउ.	१६८२
देवासश्चक्रमा	तैब्रा.	४८७
देवासुरा अरुप	तब्राउ.	१३४४,
		१३४८

देवासुराः सम	तब्राउ.	१३५२
देवासुरा ह वै	छाउ.	७५१;
	मैउ.	१६६७
देवासो यत्र प	ऋसं.	१२४
देवास्त इन्द्र स	"	५९
देवास्तं पराडु	वृउ.	१०९५,
		१२६१
देवास्तेनाह २ स	छाउ.	७९८
देवास्त्रिरेकाद्	तैब्रा.	४०६
देवा ह वै स्वर्गं	शिरउ.	१६७७
देवीं वाचमज	ऋसं.	३४६;
	तैब्रा.	३४७
देवेन सवित्रा	तब्राउ.	१३६०
देवेभिन्विषितो	ऋसं.	१००
देवेभ्यः स्वाहा	नाउ.	१६४८
देवेभ्यो लोकाः	कौउ.	६६६,
		६८०
देवेभ्यो हि प्रथ	ऋसं.	९६
देवेषु च सवि	"	"
देवैः सुकृतक	ऋसंखि.	३६७
देवैरत्रापि वि	काउ.	१३९६
*देवैर्नुता व्यस	कासं.	५०९
देवो देवान् मर्च	असं.	१७०
देवो देवाय गृ	"	८६
देवो देव्या सम	तब्राउ.	१३५६
देवो भूत्वा देवा	वृउ.	११८२,
११८४, ११८५,		११८६
*देशदिगन्तरै	प्रउ.	१५०६
देशदिगन्तरै	"	"
देहाद्विसुच्यमा	काउ.	१४२८
देहि तु मे यन्मे	असं.	८६
दैवं ह्येतन्मिथु	शब्रा.	११५
दैवीं नावं स्वारि	ऋसं.	१६५,
		३६६
दैवीं मेधा सर	नाउ.	१६४५
दैवी या मानुषी	ऋसंखि.	५०१
दैवेषु वै गौत	वृउ.	१२९४
दोग्ध्री धेनुः	तैसं.	५१४
*दोहान् क्रो वेद क	असं.	१६१
दोहा ये अस्य सं.	"	४३३
दौष्वप्यन्यं दौर्जावि	"	५०६
यामारोहन्तं स	तब्राउ.	१३३८
यावा चिदस्मै पृ	ऋसं.	४७
यावापृथिवीभ्यां	असं.	४३९

यावापृथिवी श्रो	असं.	४३५	
*यावापृथिव्योः प्र	मैसं.	३१५	
यावापृथिव्योर्हि	नाउ.	१६३३	
यावापृथिव्यौ स	ऐउ.	६००;	
	कौउ.	६८४	
युभिर्हितो जरि	ऋसं.	३६४	
युत्रोदास्त्वमसि	नाउ.	१६५१	
यौः कला	छाउ.	८३२	
यौः पृष्ठमन्तरि	वृउ.	९८७	
यौः प्रतिष्ठा	ऐउ.	५८१	
यौः शान्तिः	मैसं.	५१५;	
	तैआ.	५१९	
यौः शान्तिरन्तरि	शुसं.	५१५	
यौः सावित्री	शोब्रा.	११९;	
	तब्राउ.	१३८७	
यौः स्थानम्	शोब्रा.	५२४	
यौरस्योत्तरं वि	छाउ.	८१३	
यौरहं पृथिवी	वृउ.	१३०८	
यौराहवनीयः	मैउ.	१६६४	
यौरुत्तरया	वृउ.	१०८०	
यौरुत्तररूपं	ऐउ.	५१७,	
५९९; कौउ.		६८३,	
		६८४;	
		तैउ.	६९४
यौरुद्गथः	छाउ.	७८३	
यौरैवर्क	"	७६०	
यौरैव सा	"	"	
यौरैवास्य शिरः	शब्रा.	२०३	
यौरैवोत्	छाउ.	७५६	
*यौर्नः पिता जनि	असं.	२२१	
*यौर्नः पिता पितृ	तैआ.	३७२	
यौर्नः पिता पित्र्या	असं.	३७३	
यौर्निधनम्	छाउ.	७७४	
यौर्भूत्वा सर्वम	जैब्रा.	२०२	
यौर्मही काल आ	असं.	१७८	
यौर्मै पिता जनि	ऋसं.	२२१	
यौर्यशः	शब्रा.	४७०	
*यौर्लोकै गार्गीति	वृउ.	११४५	
यौर्ह त्वेवैषोऽग्नि	शब्रा.	३३	
यौर्हस्मै वृषिम	ऐउ.	५४०	
यौर्हिकारः	छाउ.	७७५	
यौश्च म इदं पृ	असं.	५०९	
यौस्तृप्ता यर्किच	शाआ.	४७२;	
	कौउ.	६९०	
यौस्ते पृष्ठं पृ	ऋसं.	४३०	

नि वो नु मन्थुर्वि	ऋषं.	४८५
निशामितं नि शा	ऋषंखि.	५०१
निशीर्य शल्यानां	तैसं.	१३६
नि षमाद धत	ऋषं.	७५
निष्कलं निष्कियं	श्वेउ.	१६२६
निष्ठां भगवो वि	छाउ.	९४१
निष्ठा त्वेव विजि	,"	९४०
निष्पुटीयं कृत्वा	जैब्रा.	४०४
निस्त्रिष्टनेव श्र	छाउ.	९४१
निहव एकारः	,"	७७३
नि ह वा अरमादे	शब्रा.	५१८
निहिनमरमाभि	मैउ.	१६५६
नि होना सतिस ब	गोब्रा.	५२४
नीचा वर्तन्त उ	ऋषं.	४८४
नीचा सम्ममुद	,"	५१
नीचीनमध्या दु	,"	३६६
नीचीनवारं व	,"	७७
नीचीनाः स्मृरूप	,"	७४
नीचः सपरानाम	असं.	३३९
नीलः पतङ्को ह	श्वेउ.	१६०१
नीलकण्ठं त्रिने	ऋषंखि.	३३६
नीलयीवाः शिति	तैसं.	१४८
नीलनोयदम	नाउ.	१६४०
नीलमस्योदरं	असं.	४५०
नीलेनैवाधिर्यं	,"	,"
नीवारशूक्रव	नाउ.	१६४०
नीहारधूमार्का	श्वेउ.	१५८९
नीहरिण प्रावृ	ऋषं.	१८७
नुदस्व कामं प्र	असं.	३३९
(इति) नु द्विङ्कारा	तब्राउ.	१३५९
नूनं तदस्य का	असं.	१९९
नू मर्तो दयते	ऋषं.	९१
नृयक्षमं त्वा ह	तैआ.	४१२
नृषद्वरमदृ	ऋषं.	९५;
काउ.	१४२७; नाउ.	१६३५,
		१६४५
नेच्छश्चनातो भू	वृउ.	१०४२
नेति नेति होवा	,"	१२६०
*नेति स होवाच	,"	१०९१
नेति हैवोवाच	,"	१२९२
नेति होवाच	,"	,"
नेति होवाच या	,"	१०९१,
		११२४
नेतोऽन्ये विद्यन्ते	छाउ.	७६८
नेत्राणेभ्य आत्मा	शब्रा.	४६०

नेत्यनृतम्	ऐउ.	५६८
नेत्यब्रवात्	तैआ.	१५९,
		३०६
नेत्यब्रवीत्स्वसा	तब्राउ.	१३४६,
		१३४७
नेत्यां विजिज्ञासी	कौउ.	६७०
नेत्वेव सर्वस्मा	शब्रा.	४७०
नेत्सर्वस्मा इव	,"	,"
नेदममूलं भ	छाउ.	९०७,
		९०८
नेदेते देवने	शब्रा.	११५
नेन्द्रो अरनीति ने	ऋषं.	५९
नेन्मा पाप्मा मृत्यु	वृउ.	१०६३
नेयायते	प्रउ.	१५०५
नेव वा इदम	शब्रा.	३१८;
	परि.	१५३१
नेव हि सम्मनो	शब्रा.	३१९
नेष्ट्रीयामयज	तैब्रा.	४६२
नैतं सेतुमहो	छाउ.	९६३
नैतदब्राह्मणो	,"	८३१
नैतदशकं वि	तब्राउ.	१३८१
नैतदस्ति यद्वै	शब्रा.	२९९
नैतदात्मनोऽपि	कौउ.	६८८
नैतद्भूयो भव	तैब्रा.	४७८
नैतमृषि विदि	तैआ.	२६५
*नैतां शृङ्गां वित	काउ.	१३९९
नैतां सुङ्का वित	,"	,"
नैतावता विदि	वृउ.	१०७१
नैतावदेना प	ऋषं.	१९४
नैतासु योनिष्वि	गोब्रा.	११९
नैते संवत्सर	छाउ.	८६३
नैनं कृताकृते	वृउ.	१२४७
नैनं चक्षुर्जहा	शब्रा.	३२९;
	वृउ.	११८४
नैनं जहाल्यह	तैआ.	३३२
नैनं पाप्मा तप	वृउ.	१२५५
नैनं पाप्मा तर	,"	१२५४
नैनं पुरा काला	,"	१०७०
नैनं प्राणो जहा	,"	११८४
नैनं मनो जहा	शब्रा.	३३०;
	वृउ.	११८५
नैनं मृत्युराप्नो	वृउ.	९९९
नैनं वाग्जहाति	,"	११८२
नैनं वाग्जहाती	शब्रा.	३२९

नैनं वाचा खियं	ऐउ	५७५	
*नैनं विद्वान्सम	वृउ.	१२७२	
नैनं श्रोत्रं जहा	शब्रा.	३३०;	
	वृउ.	११८५	
नैनं स्वर्गालोका	मैमं.	१६६	
नैनं हृदयं ज	वृउ.	११८६	
*नैनदशकं वि	तब्राउ.	१३८१	
नैनमूर्ध्वं न ति	शुमं	२५५;	
	श्वेउ.	१६१०; नाउ.	१६३१
नैनमेने रश्म	वृउ.	१२७३	
नैनानं वृषलो न	,"	१३०७	
नैनेन किंचना	,"	११११	
नैरात्म्यवादकृ	मैउ.	१६६७	
नैवं विद्वान्सम	वृउ.	१२७२	
नैव केनचना	,"	१२८३	
नैव तथा गाय	तब्राउ.	१३३६	
नैव भगव इ	छाउ.	८५६	
नैव राजनृचे	तब्राउ.	१३४१	
नैव वाचा न म	काउ.	१४३५	
नैव स्त्री न पुना	श्वेउ.	१६१५	
नैव हि तेनाऽऽर्त्वि	तब्राउ.	१३४१	
नैवाहमोदनं	अमं.	४३८	
नैवेह किंचना	वृउ.	९९१	
नैवैतदाद्रिथे	तब्राउ	१३५९	
नैवेतेन सुर	छाउ.	७५३	
नैवेनं म्रूयः पि	,"	९३८	
नैवेषोऽस्य दोषे	,"	९७५	
नैषां शिश्रं प्र द	असं.	३६९	
नैषा तर्केण म	काउ.	१४०१	
नैषु लोकेष्वार्ति	तैब्रा.	२८९	
नो इतराणि	तैउ.	७०४	
नो एतजाना	कौउ.	६७१	
नो एव स्वयं ना	,"	६७५	
नो एवान्यत्रैव	छाउ.	९७६	
नो एवासाधुना	कौउ.	६७१;	
	वृउ.	१२४७	
नो एवेमानि	छाउ.	९७६	
नोत स्ववृष्टिं म	ऋषं.	४४	
नोपस्तिजं वः पि	,"	१०३	
नो मनसो बार्ही	जैब्रा.	३१६,	
		३३७	
न्यक्तून् प्रथिनो	ऋषं.	१६	
न्यमोधफळम	छाउ.	९१९	
न्यग्वातोऽव वाति	ऋषं.	३६६	
*न्यग्वातो वाति न्य	,"	,"	

न्यन्या अर्कमभि	ऐउ.	५२७
न्यास इति ब्रह्मा	नाउ.	१६५०
न्यास इत्याहुर्म	"	१६५१
न्यास एवात्यंर	"	१६५०
न्युत्तश्च बभ्रवो	ऋसं.	४८४
न्यूनाक्षरा छन्द	शात्रा.	३०
प		
प इत्येवाऽपान्यात्	तब्राउ.	१३५६
पक्ता सस्यम्	तैसं.	५१४
पक्षः पुरुषः	शात्रा.	२९१
पक्षाभ्यां हि संय	तब्राउ.	१३५९
पङ्क्तिर्मज्जा	ऐउ.	५३७
पङ्क्तिश्छन्दो मरु	शात्रा.	३०
पञ्चकृत्व उदगा	ऐउ.	५६३
पञ्चकृत्व उप	"	"
पञ्चकृत्वः प्रति	"	"
पञ्चकृत्वः प्रस्तौ	"	"
पञ्चकृत्वो निध	"	"
पञ्चतन्मात्रा भू	मैउ.	१६५५
पञ्चदशाहानि	छाउ.	९०२
पञ्चदशिनोऽर्धे	तैसं.	५१४
पञ्चदशौ ते अ	कासं.	२५
पञ्च दिशः पञ्च	असं.	१६२
पञ्चधा पञ्चदै	शिखाउ.	१६८३
पञ्चधा विहितो	शात्रा.	३२९
पञ्च नाकसदः	"	३७
पञ्चपञ्चाशतः	ताब्रा.	४६०
पञ्चपञ्चाशत	"	"
पञ्चपादं पित	ऋसं.	२१०;
	प्रउ.	१४९४
पञ्चमं मे नाम	शात्रा.	१५०
पञ्च मा प्रशान्	वृउ.	१२९३
पञ्च मा राजन्य	छाउ.	८५७
पञ्चम्यां विसृष्ट्यां	जैब्रा.	४०४
पञ्चवाही वह	असं.	२४९
पञ्च व्युष्टीरनु	"	१६२
पञ्चस्रोतोम्बुं प	श्वेउ.	१५७८
पञ्चस्वधिकर	तैउ.	६९४
पञ्चस्वन्तः पुरु	शुसं.	२५३
पञ्च हि प्राणोऽप	तब्राउ.	१३५०,
		१३५१
पञ्च हैवाऽस्याऽऽजा	"	१३५१
पञ्चारं चक्रं प	तैआ.	२७१
पञ्चारे चक्रे प	ऋसं.	२११
पञ्चावर्ता पञ्च	श्वेउ.	१५७८

पञ्चेमानि महा	कौउ.	६८७
पञ्चेष्टको वा ए	मैउ.	१६६४
पटरो विक्रिधः	तैआ.	१८०
पतङ्ग इत्याच	तब्राउ.	१३६५
पतङ्गः प्राजाप	"	१३६४
पतङ्गमक्तम	ऋसं.	१०५;
	तैआ. २७२;	तब्राउ. ०३६५
पतङ्गमक्तमि	तब्राउ.	१३६५
पतङ्गो वाचं म	ऋसं.	१०५;
	तैआ. २७२;	तब्राउ. १३६६
पतङ्गिव होष्व	तब्राउ.	१३६५
पतिं पत्नीनां प	श्वेउ.	१६१९
*पतिं पत्नीनां प्र	"	"
पतिं विश्वस्याऽऽमे	नाउ.	१६३७
पतिरिव जाया	ऋसं.	१०५
पतिरुत्तररू	ऐउ.	६०८;
	कौउ.	६८६
	मैमं.	२००
पतिर्विश्वस्य ज	तैसं.	२८१
पत्त एकविंशं		
पत्तो हि सृष्टः	ताब्रा.	२८४
पत्तो ह्यसृज्येताम्	तैसं.	२८१
पथ इमं तस्मा	असं.	३८२
पदं यद्विष्णोरु	ऋसं.	१३
पदानुस्वारं पु	जैब्रा.	३२७
पदानुस्वारसु	"	"
पदेनो ह वै पु	तब्राउ.	१३६६
पद्भिः सेदिमव	असं.	४३३
पद्भ्यां दक्षिणस	"	५०८
पद्भ्यां भूमिर्दिशः	ऋसं.	२३३
पद्भ्यां ह्यनं प्रति	जैब्रा.	२८६
पद्भ्यामुदरेण	नाउ.	१६४३,
		१६६४
पद्मकोशप्रती	"	१६४०
पद्मे स्थितां पद्म	ऋसंखि.	४९९
पन्थाः सौभरोऽया	वृउ.	१११४,
		१२६६
पन्थानं तु देव	ताब्रा.	४०१,
		४०२
पय एवेति	शात्रा.	४६७
पयश्च वा एष	असं.	४७३
पयसि हीदं स	वृउ.	१०४७
पयो लोमान्यस्य	तब्राउ.	१३४४
पयो वाक्	शाआ.	४७३;
	कौउ.	६९१

पयो ह्येवाग्ने म	वृउ.	१०४७
परं मृचो अनु	ऋसं.	३६०;
	तैआ. ४१३;	नाउ. १६४५
परं वा एनदा	मैउ.	१६६०
परं सस्यम्	नाउ.	१६४९
परः सो अस्तु त	ऋसं.	३५४
*परमं ज्ञानमा	कैउ.	१६७६
परमं वै शेष	मैउ.	१६६३
परमं हैव लो	वृउ.	१२७६
*परमं हैव स	"	"
परमलिङ्गाय	नाउ.	१६४१
परमां वत का	वृउ.	१३१०
परमात्मा मे शु	नाउ.	१६४७
परमाद्वा एत	शात्रा.	३००
परमाय नमः	नाउ.	१६४१
परमेणैवैनं	शात्रा.	४७१
परमेवाक्षरं	प्रउ.	१५०९
परमे वृक्ष आ	तैसं.	१४७
परमे व्योमप्रति	तैउ.	७३८
परमेष्ठिने स्वा	नाउ.	१६४८
परमेष्ठी प्राजा	तब्राउ.	१३६७
परमेष्ठी ब्रह्म	वृउ.	१११४,
		१२६६
परमो वा एष	शात्रा.	४७१
परमो ह्येष आ	"	११५
पराके अन्नं नि	तैब्रा.	४७८
पराग्वा एतद्भि	ऐउ.	५६९
पराङ्ख्यज्याम	तैआ.	३२३
पराङ्ख्यनादा	"	"
पराचः कामान	काउ.	१४०१
पराचं नाय ते	असं.	३२४
पराञ्चं चैनं प्रा	"	४३८
पराञ्चि खानि व्य	काउ.	१४२०
परात्परतरं	ऋसंखि.	३३६;
	शिउ.	१५७३
* " "	शिउ.	१५७३
परात्परतरो	ऋसंखि.	३३६;
	शिउ.	१५७३
परा दम्युन्दद	असं.	५०८
परा दुःष्वप्यं सु	ऋसं.	९८
*परा दुःष्वप्रियं	तैआ.	"
परा दुःष्वप्रियं	नाउ.	१६४५
परा पूर्वेषां स	ऋसं.	५४
पराभवस्य है	शात्रा.	२०२,
		४६५

परा यात् पित	असं.	३९८	परेऽन्ये गन्धर्वा	मैः	१६५३	पङ्क्तिगुप्तो लौहि	तत्राऽ.	१३६७
*परावत आ ज	"	८८	परेऽन्ये महाध	"	"	पवनात्पावनः	मैः	१६५९
पराशयो वैज	बृः	१११४	परेयिवांसं प्र	ऋसं.	३५६	पवमानं तु म	तैआ.	४१०
पराऽस्य द्विषन्पा	ऐः	५३३,	*परेयुवांसं प्र	तैआ.	"	पवमानायेन्दा	तत्राऽ.	१३६६
		५४१, ५४२	परेषामुपका	ऋसंखि.	४७९	पवमानो विश्वे	कौऽ.	६८६
परास्य भारं पु	तैआ.	३३३	परेहि	तैआ.	२६	पवमानो विश्वै	ऐः	६०६
पराऽस्य शक्तिर्वि	श्वः	१६२०	परेहि सौम्य ग्ला	गोब्रा	११८	पवमानो हरि	"	५२७
परिचरन्नुप	छाऽ.	९३३	परोक्षकामा हि	शब्रा.	४२,	पवित्रेण पृथि	असं.	५०८
परिणामत्वात्त	मैः	१६६०	११६, २९१, २९३, २९४, ३२८			पशव आपः	नाऽ.	१६४३
परि णो रुद्रस्य	तैसं.	१४७	परोक्षप्रिया इ	गोब्रा.	३०३,	पशव इति	बृः	११६९
परि णो हेतो रु	ऋसं.	१२७,	३०४; जैब्रा.	४०५;		पशवः सूददो	शब्रा.	३२
		१४७	ऐः	५८७; वृः	११८७	पशवो मम भू	असं.	३२४
परि ते धन्वनो	तैसं.	१३७	परोक्षगैव तु	तत्राऽ.	१३४१	पशुपतिरेन	तैआ.	२६३
परि त्वा धात् सवि	असं.	१६९	परो दिवा पर	ऋसं.	१८७,	पशुभिः कर्प	असं.	४५२
परि त्वा पातु स	"	३८५			२३९	पशुभ्य एकं प्रा	गोब्रा.	११९
*परि द्यावापृथि	नाऽ.	२५७	परो मात्रया त	ऋसं.	९१	पशुमान्भवति	बृः	१०४७
" "	असं.	१०८;	परो यदिध्यते	"	५५	पशुषु पञ्चवि	छाऽ.	७८३
शुसं.	२५७; नाऽ.	१६३१	परोरजसीति	तैआ.	२६	पशुश्च महामा	"	७७६
परि धामानि म	ऋसं.	८३	परोरजा इति	बृः	१२८१	पशुनां रूपम	नाऽ.	१६३१
*परि नो रुद्रस्य	मैसं.	१४७	परोवरीयाश्सि	छाऽ.	७७७		ऋसंखि.	५०१,
परि प्रजाता गृ	तैसं.	२८१	परोवरीयो हा	"	७६७,		५१६	
परिमण्डल आ	जैब्रा.	२०२			७७७	* " "	तैआ.	५१६
परिमण्डलो भू	"	"	परो हास्याऽऽदित्य	"	७८०	पशुन्तौश्वके वा	ऋसं.	२३२
परि येऽप्रिया भ्रा	तैः	७४०	परो हि ब्रह्मा	नाऽ.	१६५०	पशुन्देवताभ्यः	बृः	९९९
परि यो विश्वा भु	ऋसं.	१३	पर्चो यथा नः सु	ऋसं.	९२	पश्च निन्देत्	छाऽ.	७८३
परि वा व्रजेत्	कौऽ.	६५५	पर्जन्यः पिता स	असं.	५०७	पशुन्विशं मे धु	ऐआ.	५१९
परिवित्तो वार	तैआ.	४८६	पर्जन्यः संधाता	ऐः	५९९;	पश्चात् प्राञ्च आ त	असं.	१७४
परि विश्वा भुव	असं.	१०९	पर्जन्याद्धीदं स	कौऽ.	६८४	पश्चादनु प्रयु	"	१३०
परिवृत्तो मेन	कौऽ.	६८४	पर्जन्ये तुप्यति	शब्रा.	२९६	पश्चेदमन्यद	ऋसं.	१०४
परिशिष्टानि य	जैब्रा.	४०५	पर्जन्येनौषधि	छाऽ.	८८१	पश्यदक्षणाञ्च	तैआ.	२६३
परिश्रित एव	शब्रा.	५१८	पर्जन्येनौषधि	नाऽ.	१६५१	पश्यन् जन्मानि सू	असं.	१७१
परि सर्वमिदं	तैआ.	२७२	पर्जन्यो धारा म	असं.	४३२	पश्यन्ति धीराः प्र	तैआ.	४७८
परि स्पशो वरु	ऋसं.	८१	पर्जन्यो भूत्वा प्र	जैब्रा.	२०२	पश्यन्ति सर्वे च	असं.	२४९
परीक्ष्य लोकान् क	मुः	१४५२	पर्जन्यो मे मूर्ध्नि	तैआ.	२६०	पश्यन्ती वापवद	शब्रा.	५१७
परीत्य भूतानि	शुसं.	२५७	पर्जन्यो वा अग्नि	बृः	१२९६	पश्यन्मन्ये मन	ऋसं.	२७८
*परीत्य लोकान्प	नाऽ.	"	पर्जन्यो वाव गौ	छाऽ.	८५९	पश्याम त्वा सवि	असं.	१७२
" "	"	१६३१	पर्जन्यो वै भवः	शब्रा.	२९६	पश्येम त्वा वयः	छाऽ.	७९०,
परीवृत्तो वरी	तैआ.	२६५	पर्ण वनस्पते	नाऽ.	१६४५		७९१	
परेण तन्तुं प	"	२७०	पर्यस्य महिमा	असं.	१७२	पश्येम शरदः	असं.	५१३;
परेण नाकं नि	नाऽ.	१६३६;	पर्यस्यास्मिन्नलोक	"	४५४	ऋसं. ५१५; तैआ.	५२०;	
	कैऽ.	१६७३	पर्याप्तकामस्य	मुः	१४८२	ऐः	६२६	
*परेण साकं नि	कैऽ.	१६७३	पर्येण म्रियन्ते	तैः	७४०	पाकः पृच्छामि म	ऋसं.	२०८
परेण हान्तरि	शब्रा.	३३	पर्येण द्विषन्तो	ऐब्रा.	१५१	पाङ्क्तं वा इदः	तैः	७०१
*परेतन पित	मैसं.	३९८	परि णः पारमं	ऋसं.	१२५	पाङ्क्तः पशुः	बृः	१०४२
*परेत पितरः	तैसं., कासं.	"						

पुनर्नः सोमस्त	ऋसं.	३६४	*पुरुषः सोम्योप	छाउ.	९२३	पूर्णमदः पूर्ण	बृउ.	१२६६
पुनर्नो असुं पृ	"	"	पुरुषं ह नारा	शब्रा.	४६९	पूर्णमप्रवर्ति	कौउ.	६७६
*पुनर्ब्राह्मणमै	तैआ.	३१४	पुरुषः शान्तिः	तैआ.	५१९	पूर्णमप्रवर्ती	बृउ.	१०६८
पुनर्भवेमिन्द्र	प्रउ.	१५०३	पुरुषश्चाक्षुषो	मैउ.	१६६८	पूर्णमसि	"	१३०३
पुनर्मे आत्मा पु	तैब्रा.	२६१	पुरुषश्चेता प्र	"	१६५९	पूर्णस्य पूर्णमा	"	१२६६
*पुनर्मांमैत्विन्द्रि	बृउ.	१३०६	पुरुष (एव) सवि	तब्राउ.	१३८७	पूर्णात्पूर्णमुद	असं.	२५०
*पुनर्मांमैत्विन्द्रि	असं.	३१४	पुरुषस्य रेतः	बृउ.	१३०५	पूर्णांमप्रवर्ति	छाउ.	८०३
"	बृउ.	१३०६	पुरुषस्य वाग्र	छाउ.	७४७	पूर्व देवेभ्यो अ	तैब्रा.	४७७;
पुनर्मैत्विन्द्रियं	असं.	३१४	पुरुषस्य विश्व	नाउ.	१६३१	पूर्वं सर्वम्	तैउ.	७४०
पुनश्च जन्मान्त	कैउ.	१६७५	पुरुषस्य ह्येवै	शब्रा.	२९७	पूर्वमक्षरं पू	तब्राउ.	१३३२
पुनोत न्वेनाम	तब्राउ.	१३४४	पुरुषाञ्च परं	काउ.	१४१४	पूर्वमक्षरं पू	ऐउ.	६०३
पुनीष्वेत्यब्रवीत्	"	१३४६	पुरुषे त्वेवावि	ऐउ.	५५९	पूर्वमक्षरं पि	तैब्रा.	४७८
पुनीष्वैवेत्यब्र	"	"	पुरुषे ह वा अ	"	५८९	पूर्वमेवाक्षरं	ऐउ.	६०३;
पुमां एनं तनु	ऋसं.	२७७	पुरुषो निधनम्	छाउ.	७७६,	पूर्वमेवाहमि	कौउ.	६८५
पुमांसं न ब्रुव	ऐउ.	५७५			७८३		तैआ.	१५९,
पुमानेनद्रय	असं.	२४८	पुरुषोऽयं सर्व	कौउ.	६८४		असं.	३०६
* " " "	"	२७७	पुरुषो वा अक्षि	बृउ.	१०४७	पूर्वापरं चर	असं.	१७१
पुमान् रेतः सि	मुउ.	१४५७	पुरुषो वा अग्नि	"	१२९७	पूर्वाऽस्य मात्रा जा	शिखाउ.	१६८२
पुरं यो ब्रह्मणो	असं.	२४५	पुरुषो वाव गौ	छाउ.	८५९	पूर्वाऽस्य मात्रा पृ	"	"
*पुरं हिरण्मयी	तैआ.	२४६	पुरुषो वाव य	"	८१४	पूर्वाह्ने अश्वान् यु	ऋसं.	४८५
पुरं हिरण्मयी	"	३२२	पुरुषो वाव सु	ऐउ.	५८२	पूर्वं पूर्वेभ्यो व	तैब्रा.	४९३
पुरं हिरण्मयी	असं.	२४६	पुरुषो वै यज्ञः	शब्रा.	४५९;	पूर्वं प्रतामो न	असं.	१३१
पुरः स पक्षी भू	बृउ.	११११	पुरुषो वै रुद्रः	तब्राउ.	१३६८, १३७०	पूर्वं विश्वसृजो	तैब्रा.	४६२
पुरत्रये कीड	कैउ.	१६७५	पुरुषो वै समु	नाउ.	१६४२	पूर्वेषां पन्थाम	ऋसं.	२७८
पुरन्ध्रियोषा	तैसं.	५१४	पुरुषो ह नारा	तब्राउ.	१३६६	पूर्वो अग्निष्वा त	असं.	३९५
पुरमेकादश	काउ.	१४२६	पुरुषो ह वा अ	शब्रा.	४७०	पूर्वां जातो ब्रह्म	"	४२२
पुरश्चक्र द्विप	बृउ.	११११	पुरुषो ह वा अ	ऐउ.	६००	पूर्वांतराणां त्र	गोब्रा.	५२३
पुरस्तात् नम	असं.	१२९	पुरुषो ह्येतदु	तब्राउ.	१३५६	पूर्वो यो देवेभ्यो	सुसं.	२५४
पुरातनोऽहं पु	कैउ.	१६७६	पुरुष्य तत्	"	१३६६	पूर्वां विवृतक	गोब्रा.	५२३
पुरा तृतीयस	छाउ.	७९१	पुरोनुवाक्या च	बृउ.	१११८,	पूश्च पृथ्वी बहु	नाउ.	१६३४
पुरा तु जरसो	ऋसं.	३५४			११२०	पूषन्कर्ष य	बृउ.	१२८४;
पुरा प्रातरनु	छाउ.	७९०	पुरोवातो हिंका	छाउ.	७७५		ईउ.	१३२६
पुरा माध्यन्दिन	"	७९१	पुरुषः प्राचीन	तब्राउ.	१३६७	पूषा नो यथा वे	ऋसं.	४९५
पुरा संवत्सरा	गोब्रा.	११८	पुष्टिर्या ते मनु	असं.	२१	पूषेभ्य शरदः	असं.	५१३
*पुरीषं वसानः	शुसं.	४०१	पुष्पं हि फलं वा	ऐउ.	५६८	पृक्षो यदन्न म	ऋसं.	८
पुरीषमसि	कासं.	२५	पुष्पाणां फलानि	बृउ.	१३०५	पृच्छ गागीति	बृउ.	११५६,
पुरुष इत्येवं	प्रउ.	१५१७	*पुष्पाण्यादायाव	कौउ.	६३३		११५७, ११५८	
पुरुष एवाग्नि	जैब्रा.	४०४	पुष्पाण्यावयतौ	"	"	पृच्छ वत्सेत्यब्र	गोब्रा.	५२३
पुरुष एवदं	ऋसं.	२३१;	पुष्यतु भूयोऽस्तिव	शब्रा.	२९४	पृच्छामि त्वा पर	ऋसं.	२२१;
मुउ. १४५९;	श्वेउ.	१५९८	पूतं पवित्रेणे	असं.	५०४		तैआ.	४१०
पुरुष एशोकथ	ऐउ.	५२९	पूतानि ह वा अ	तब्राउ.	१३४५,	पृच्छामि त्वा पाप	तैआ.	४१०
पुरुषं कृष्णं कृ	"	६१७			१३४६, १३४७	पृच्छामि त्वा याज्ञ	जाउ.	१६७०
पुरुषः सोम्योत	छाउ.	९२४	पूतिमिव हाऽश्री	"	१३५४	पृच्छामि त्वा वृष्णो	ऋसं.	२२१
पुरुषः सोम्योतो	"	९२३	पूयति वा अन्न	बृउ.	१२७७	*पृच्छामि विश्वस्य	असं.	"

पृच्छे तदेनो व	ऋसं.	७९	पृथिव्यचं सम	गोब्रा.	११९	प्र क्षत्रमत्रमा	बृउ.	१२७९
पृच्छेति होवाच	छाउ.	७६५	*पृथिव्या अधि सा	सासं.	८६	*प्र क्षत्रमात्रमा	" "	" "
पृणन्तं च पपु	ऋसं.	४७५	*पृथिव्या अहमु	तैसं.	३६८	प्रक्षाल्य पाणी उ	" "	१३०८
पृणीयादिशाध	"	४७६	पृथिव्या आपः	बृउ.	१३०४	प्रक्षाल्यान्त्राणि प्र	जैब्रा.	४०४
पृतनाजितं स	नाउ.	१६३४	पृथिव्या आपो र	छाउ.	७४७	प्रक्षयन्ति मामिमे	छाउ.	८७२
पृथक्सर्वे प्राजा	असं.	४२५	पृथिव्या ओषध	तैउ.	७०६	प्र च सुवाति स	ऋसं.	९९
पृथगात्मानं प्रे	श्वेउ.	१५७९	पृथिव्यां तृप्यन्त्यां	छाउ.	८८१	प्रचोदयिता वा	मैउ.	१६५४
पृथगुपयमा	काउ.	१४३५	पृथिव्यां या देव	प्रउ.	१५०२	प्रचोदयिता वै	" "	" "
पृथिवी गच्छान्त	तैआ.	४१७	पृथिव्याः सप्त धा	ऋसं.	८६	प्र च्यवस्व तन्वं	असं.	३८९
पृथिवी देवता	ऐउ.	६०१;	पृथिव्यापस्तेजो	नाउ.	१६४७	प्रच्युत्यै त्वा	तैसं.	५१४
	कौउ.	६८५	पृथिव्यामाकाशः	तैउ.	७३९	प्रजन इति भू	नाउ.	१६५०
	असं.	५०८	पृथिव्यायतनं	ऐउ.	६०१;	प्रजननं वै प्र	" "	१६५१
	छाउ.	८३२		कौउ.	६८५	प्रजननं संधा	ऐउ.	६०८;
	मैउ.	१६६४	पृथिव्या रूपं रूप	ऐउ.	६२१;	कौउ.	६८६; तैउ.	६९४
	प्रउ.	१५०८		कौउ.	६८९	प्रजननमिव	तैब्रा.	२८९
	शाआ.	४७२;	पृथिव्येव यस्या	बृउ.	११७०	प्रजननाद्धि सृ	ताब्रा.	२८४
	कौउ.	६९०	पृथिव्येवाग्निर्वै	जैब्रा.	४०४	प्रजननाद्धयना	तैब्रा.	२८९
	छाउ.	७५६	पृथिव्यै चैनम	बृउ.	१०५९	प्रजनश्च स्वाध्या	तैउ.	७०२
	"	७७५	पृथिव्यै स्वाहा	नाउ.	१६४८	प्रजया कर्म	गोब्रा.	११९
	तैउ.	७१४	*पृथिव्यै स्वाहेत्य	बृउ.	१३०२	प्रजया पशुभिः	ऋसंखि.	३३६;
	ऐउ.	५९७,	पृथिव्योरसा	असं.	४४१		शिउ.	१५७४
	५९९; कौउ.	६८३;	*पृथिव्येतेजोनिल	श्वेउ.	१५८९	प्रजां च रोहामृ	असं.	१६९
	६८४; तैउ.	६९४	पृथिव्याप्यतेजोनि	" "	" "	प्रजां च लोकं चा	" "	४३३
	असं.	१७२	पृथिवी वरुण द	असं.	८६	प्रजां च वा एष	" "	४७३
	ऐब्रा.	२८२,	पृषत्श्वा मरु	ऋसं.	४९५	प्रजां पशून्धना	तैआ.	२७२
		५२१	पृष्टीर्जर्जह्ये पा	असं.	३१०	प्रजां मा मे रीरि	" "	४१२;
		५८१	पृष्टीर्मे राष्ट्रमु	कासं.	३१४		नाउ.	१६४६
		८७६	पृष्टो दिवि पृष्टो	ऋसं.	४	प्रजां मे यच्छ	कासं.	२५
		३९	पृष्ठात्पृथिव्या अ	असं.	३६८	प्रजाकामो वै प्र	प्रउ.	१४९१
		२६०	*पृष्टीर्मे राष्ट्रमु	कासं.	३१४	*प्रजाकामो ह वै	" "	" "
*पृथिवीलोकमे	बृउ.	१११८	पृष्ठे पृथिव्या नि	तैसं.	२४	प्रजा च स्वाध्याय	तैउ.	७०२
	"	११२०	पेरुरिन्द्राय पि	तैआ.	२७०	प्रजा ज्योतिः	तैसं.	४००
" " अन्नम्	तैउ.	७३९	पेशांसि देवाः प	तैब्रा.	३१७;	प्रजातिरमृत	तैउ.	७४०
पृथिवी वायुरा	ऐउ.	५५७;		३४८	प्रजानिश्च स्वाध्या	" "	७०२	
	कौउ.	६८७	*पैङ्गीपुत्रः शौन	बृउ.	१३१०	प्रजानत्यध्न्ये जीव	असं.	३८९
	छाउ.	८५९	पोषाय त्वा	तैसं.	५१४	प्रजानां च मित्रो	मैसं.	४५९
	मंसं.	५१५;	पौतिमाषीपुत्रः	बृउ.	१३१०	प्रजानां जीवनं	तब्राउ.	१३४६
	तैआ.	५१९	पौतिमाध्यो गौप	"	१११४,	प्रजानां प्रजन	असं.	४७४
	असं.	५१२		१२६५	प्रजानां रंतो ह	ऐउ.	५३१	
	गोब्रा.	११९;	प्रकाशभूता वै	मैउ.	१६६७	प्रजापतये स्वा	बृउ.	१३०३;
	तब्राउ.	१३८७	प्रकाशवतो ह	छाउ.	८३२		नाउ.	१६४८
	छाउ.	७७४,	प्रकाशेभ्यः सदो	शिखाउ.	१६८२	प्रजापतिं प्रथ	मैसं.	२००
		७८३	प्रकृतिमयोऽस्य	मैउ.	१६५५	प्रजापतिं ब्रह्मा	तब्राउ.	१३६६
	तैउ.	७०१	*प्र क्षत्रमक्षत्रं	बृउ.	१२७९	प्रजापतिं च शर	छाउ.	७८६
	श्वेउ.	१५८९						

प्रजापति ह्युद	शब्रा. २०३	प्रजापतिवै च	शब्रा. २९६	प्रज्ञया चक्षुः स	कौड. ६६८
प्रजापतिः पर	तब्राउ. १३६७	प्रजापतिवै द	तैब्रा. २८९	प्रज्ञया जिह्वां स	" "
प्रजापतिः पृथि	असं. ५०९	प्रजापतिवै म	शब्रा. २९६	प्रज्ञया पादौ स	" ६६९
प्रजापतिः प्रज	शुसं. २०१,	प्रजापतिवै य	कासं. ४९९;	प्रज्ञया प्राणं स	" ६६८
२५६; तैआ. २७२, २७३			शाब्रा. ४५९	*प्रज्ञया मनः स	" ६६९
प्रजापतिः प्रजाः	ऐउ. ६२३;	*प्रजापतिवै स	गोब्रा. ४६०	प्रज्ञया वाचं स	" ६६८
कौड. ६८९		प्रजापतिवै सा	तब्राउ. १३३४	प्रज्ञया शरीरं	" "
प्रजापतिः प्रजा	शब्रा. १५०;	प्रजापतिर्ह क	बुउ. १०६१	*प्रज्ञया शरीर	" "
तैब्रा. २८७, २९०;		प्रजापतिर्हिका	छाउ. ७७३	प्रज्ञया श्रोत्रं स	" "
तब्राउ. १३३३		*प्रजापतिर्हिका	बुउ. १०६१	प्रज्ञया सत्यं सं	" ६५९
प्रजापतिः प्रथ	तैआ. १६०,	प्रजापतिलोके	" ११४५	प्रज्ञया हस्तौ स	" ६६८
३०६; मैसं. २०१;		प्रजापतिश्च प	असं. ४३४	प्रज्ञया हि विप	" ६३६
नाउ. १६३१		प्रजापतिश्चर	" २४९;	प्रज्ञयेति ब्रूयात्	" ६३८
प्रजापतिः प्राजि	तब्राउ. १३५९	शुसं. २५४; प्रउ.	१४९८	प्रज्ञयैव धियं	" ६६९
प्रजापतिः सद	शाब्रा. ४६०	प्रजापतिश्च ह	तब्राउ. १३५२	*प्रज्ञयैवेति ब्रू	" ६३८
प्रजापतिः सप्त	तैसं. २८२	प्रजापतिस्त्वेवे	शब्रा. २९५	प्रज्ञयोपस्थं स	" ६६८
*प्रजापतिमेवा	गोब्रा. ४६०	प्रजापतेः सभां	छाउ. ९८३	प्रज्ञां ते मयि जु	" ६४३
प्रजापतियज्ञो	जैब्रा. २८६	प्रजापते त्वं नि	मैसं. २००	प्रज्ञां मे त्वयि द	" ६५५
प्रजापतिरका	तैसं. २८१;	प्रजापते न त्व	ऋसं. १९७;	प्रज्ञात्मा यश्चासा	ऐउ. ६१३
ऐब्रा. २८२, ५२१;			नाउ. १६४६	प्रज्ञानं ब्रह्म	" ५९४
गोब्रा. ४७२		* " "	बुउ. १३०१	प्रज्ञा नाम देव	कौड. ६४२
प्रजापतिरिति	कौड. ६७७;	*प्रजापते न हि	कासं. १९७	प्रज्ञानेत्रो लोकः	ऐउ. ५९४
बुउ. ११७२		" "	मैसं. २००	*प्रज्ञानेत्रोऽलोकः	" "
प्रजापतिरिव	गोब्रा. ३०४	प्रजापते रंतो	ऐउ. ५३१	प्रज्ञाने प्रतिष्ठि	" "
प्रजापतिरेवे	शब्रा. २९५	प्रजापतेरेव	तैब्रा. २९	प्रज्ञा पूर्वरूपम्	कौड. ६८६
प्रजापतिर्जन	असं. ५०५	प्रजापतेर्ब्रह्म	तैआ. ५२४	प्रज्ञा प्रतिष्ठा	ऐउ. ५९४
प्रजापतिर्देवा	तैब्रा. २८८;	प्रजापतेर्वा ए	तैब्रा. २९;	प्रज्ञामात्राः प्राणे	कौड. ६७१
बुउ. १२७२; तब्राउ.	१३३४		असं. ४७३	*प्रज्ञामात्राश्च प्रा	" "
प्रजापतिर्ब्रह्म	कौड. ६९२;	प्रजापते विश्व	मैसं. २००	प्रज्ञा वा एषा त	तब्राउ. १३४२
बुउ. १३११		प्रजापतेश्च वै	असं. ४५३	प्रज्ञैवास्या एक	कौड. ६६८
प्रजापतिर्मन	छाउ. ७९९	प्रजाभ्यः पुष्टिं वि	ऋसं. ४९	प्रणवाख्यं प्रणे	मैउ. १६६६
प्रजापतिर्लोका	" ७८९,	प्रजामेका जिन्व	असं. १६२	प्रणवानामयु	शिरउ. १६८१
८४८		*प्रजामेका रक्ष	तैसं. "	प्रणवो धनुः श	मुउ. १४६०
प्रजापतिर्वा इ	ताब्रा. २८५;	प्रजायते प्रज	तैब्रा. २९०	प्रणश्यति चित्तं	मैउ. १६६२
शब्रा. २९५, २९७; शाआ.		* " "	बुउ. १२८७	प्र तत्ते अद्य शि	ऋसं. ९२
३२२; तब्राउ. १३३०, १३३२		प्रजायते ह प्र	" "	प्र तद्विष्णुः स्तव	" ८८
प्रजापतिर्वा ए	मैउ. १६५४	प्रजायै मृत्यवे	ऋसं. २७६	*प्र तद्विष्णु स्तव	असं. "
प्रजापतिर्वाव	तैआ. १६०,	प्रजावान्भवति	तब्राउ. १३४९,	*प्र तद्वोचे अमृ	तैआ. १०७;
३०६; तैसं. २८१;			१३६५	नाउ. २५७	नाउ. २५७
तब्राउ. १३४३		प्रजा वै वाजः	ऐउ. ५४७	नाउ. १६३१	नाउ. १६३१
प्रजापतिर्वावे	जैब्रा. २०२,	प्रजा संधिः	तैउ. ६९४	असं १०७;	असं १०७;
२८६		प्रजा संहिता	कौड. ६८६	शुसं. २५७	शुसं. २५७
प्रजापतिर्वि रा	असं. ४२४	*प्रजा ह तिस्रो अ	ऋसं. २४९	ऋसं. ७९	ऋसं. ७९
प्रजापतिवै कः	तब्राउ. १३५५	" "	ऐउ. ५२७	कौड. ६५६	कौड. ६५६
		" "		" "	" "

*प्रतर्दनो ह वै	कौउ.	६५६
प्र तार्यायुः प्रत	ऋसं.	३६३
प्रति क्षत्रे प्रति	कासं.	३१४
प्रतिचक्षणाय	तब्राउ.	१३४३
प्रतिज्ञातो म ए	वृउ.	१२९४
प्रति तथा हास्य	शाब्रा.	५२१
प्रति तिष्ठति दु	वृउ.	१२८६
प्रतितिष्ठति य	तब्राउ.	१३४२
प्रतितिष्ठति स	वृउ.	१२८७
प्रति यावापृथि	कासं.	३१५
प्रतिपद्यते स्व	छाउ.	८०५
*प्रति प्रजायां प्र	मैसं.	३१५
प्रतिप्रातिष्ठद	तैब्रा.	४६२
प्रतिबोधविदि	तब्राउ.	१३७८
*प्रतिब्रवीमि त	काउ.	१३९२
*प्रति ब्रह्मन्प्रति	मैसं.	३१४
प्रतिमुञ्चस्व स्वां	तैआ.	४१२
प्रतिरूप इति .	कौउ.	६७७;
	वृउ.	१०६९
प्रतिरूपौ च चा	कौउ.	६३३
प्रतिलोमं चैत	वृउ.	१०७१
*प्रतिलोमं वै त	"	"
*प्रतिलोममेवै	"	"
प्रतिलोमरूप	कौउ.	६७९
प्रतिवेशोऽसि प्र	तैउ.	६९५
प्रतिवेशो बृह	कौउ.	६९२
प्रति शुष्यतु य	ऋसं.	३५४
प्रतिष्ठा अरिष्ठा	असं.	५१३
प्रतिष्ठां वयं लो	छाउ.	७६६
प्रतिष्ठा गार्हप	शाब्रा.	४६०
प्रतिष्ठाच्छिन्नो हि	शाब्रा.	११३
प्रतिष्ठा द्वे	"	३४,
		३५
प्रतिष्ठायां द्वे	"	३६
प्रतिष्ठाया हि सृ	ताब्रा.	२८४
प्रतिष्ठाये स्वाहे	शाआ.	३३१;
	छाउ.	८५४
प्रतिष्ठा वा एषा	तब्राउ.	१३४२
प्रतिष्ठावान् भव	तैउ.	७४०
प्रतिष्ठासंस्ताव	छाउ.	७६६
प्रतिष्ठा ह्येषा य	शाब्रा.	२९२
*प्रतिष्ठे गार्हप	गोब्रा.	४६०
प्रतिष्ठैक आसीत्	शाब्रा.	२९१

प्रति स्त्रीं सह शे	छाउ.	७८१
प्रति स्पशो विसृ	नाउ.	१६४३
प्रति स्वर्गे लोके	तब्राउ.	१३७२
प्रति ह तिष्ठत्य	शाआ.	३३१
प्रतिहर्तया दे	छाउ.	७६९,
		७७१
प्रतिहार इति	"	७८०
प्रतिहारभाजि	"	७७९
प्रतिहारमार	तब्राउ.	१३३३
प्रतिहारो वा अ	"	१३४८
प्रतिहितामाय	असं.	१२८
प्रतिहृते पुरो	जैब्रा.	४०६
प्रतिहियमाण	"	४०५
प्रतीचीं दिक्कला	छाउ.	८३२
प्रतीचीं दिक्प्रत्य	वृउ.	११८८
प्रतीच्यध्वर्याः	शाब्रा.	४७०,
		४७१
प्रतीच्यै असुर	गोब्रा.	३०५
प्रतीच्यै दिशः शृ	तैब्रा.	३१८
प्रतीमां लोका घृ	असं.	३९४
प्रतीहारो निध	"	४४७
प्र ते ब्रवीमि त	काउ.	१३९२
प्रत्नं जातं ज्योति	ऋसं.	६२;
	कौउ.	६८७
प्रत्नोषि कमीळ्यो	नाउ.	१६३४
*प्रत्यञ्जनास्तिष्ठ	श्वेउ.	१५९२
प्रत्यङ्गेषु प्रति	कासं.	३१५
प्रत्यङ्जनास्तिष्ठ	श्वेउ.	१५९२;
	शिरउ.	१६८०
प्रत्यङ् तिष्ठन् धातो	असं.	४३४
प्रत्यङ् देवानां वि	"	१७१
प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दृ	"	"
प्रत्यङ् ह्येष सर्वा	तब्राउ.	१३३७
प्रत्यचल्यङ्गुलीः	"	१३५७
प्रत्यञ्चं चैनं प्रा	असं.	४३८
प्रत्यञ्चि ह्येनं स	तब्राउ.	१३३७
प्रत्यञ्जन्त्यङ्गानि	"	१३५७
प्रत्याश्रावितम	वृउ.	१३०३
प्रत्याहाऽऽत्मात्मका	मैउ.	१६६४
प्रत्यूहेत्यब्रवीत्	तब्राउ.	१३४६
प्रत्येव तिष्ठति	तैआ.	१५८
प्रत्यौहतामश्चि	नाउ.	१६४५
प्र त्वेवासुरेभ्यो	शाब्रा.	४६४
प्रथमजं देव	तैब्रा.	४२८

प्रथमभाजं य	ऋसं.	१८१
प्रथमा रक्तपी	शिखाउ.	१६८२
*प्रथमास्त्वा द्विती	मैसं.	३१५
प्रथमेन प्रमा	असं.	३१३
प्रथमोत्तमे अ	वृउ.	१२७२
प्रथो वरो व्यचो	असं.	१७५
प्रदक्षिणं हैके	जैब्रा.	४०५
प्रधानक्षेत्रज्ञ	श्वेउ.	१६२५
प्रधिर्वित्तम्	वृउ.	१०५६
प्रध्वंसन एक	"	१११४,
		१२६६
प्र नाकमृध्वं नु	ऋसं.	७९
प्र नू महित्वं वृ	"	३
प्रपतिष्णूनीव	तब्राउ.	१३४४
प्र परमेष्ठिनो	तैब्रा.	२९०
प्र पितृयाणं प	असं.	४५४
प्रपीतां ब्रह्मचा	"	३४४
प्र पूर्वं मनसा	तैआ.	४१३
प्रप्र तान्दस्यूर	ऋसं.	१६
प्र प्र यज्ञपतिं	तैआ.	२७२
प्र बभ्रवे वृष	ऋसं.	१२६
प्र ब्रवाम शर	"	५१५
*प्रब्रवाम शर	तैआ.	"
"	"	५२०
*प्रब्रवाम शर	मैसं.	५१५
प्रब्रूह्यस्मा इति	छाउ.	८३५
प्रभवाप्ययौ हि	माउ.	१५२४
प्रभूतिरिति शै	तब्राउ.	१३५०
प्रभूरसि	वृउ.	१३०३
प्र भूर्जयो यथा	असं.	३८५
प्रभ्राजमानां ह	"	२४६
प्रमहमाणो व	तैआ.	२७०
प्र माऽऽयन्तु ब्रह्म	तैउ.	६९५
प्र मिथुनेन जा	तब्राउ.	१३६७
प्र मुञ्च धन्वन	तैसं.	१३६
प्रमेयोऽपि प्रमा	मैउ.	१६६०
प्रमोद उत्तरः	तैउ.	७१८
प्र यः सत्राचा स	ऋसं.	९१
प्रयतः प्रणवो	ऋसंखि.	३३६;
	शिउ.	१५७४
प्रयतः श्राद्धका	काउ.	१४२०
प्र यो जज्ञे विद्वा	असं.	१९८
प्रवचन संधा	तैउ.	६९४
प्र वा इमे साम्ना	तब्राउ.	१३३४

प्रविवेश ह च	छाउ. ८५१; बृउ. १२८८	प्राचीनयोग्य कं	शब्रा. ४०; छाउ. ८७४	प्राणं प्रयन्त्यभि	तैउ. ७३७
प्रविवेश ह म	छाउ. ८५१; बृउ. १२८८	प्राचीनशाल औ	छाउ. ८७१	प्राणं प्राणः	कौउ. ६५१
प्रविवेश ह रे	बृउ. १२८८	प्राजाताः प्रजा ज	तैसं. २८१	प्राणं प्राणन्तं स	” ६५९
प्रविवेश ह वाक्	छाउ. ८५१; बृउ. १२८८	प्राजापत्यमास	मैउ. १६६५	प्राणं मनः	शब्रा. ३३०;
प्रविवेश ह श्रो	छाउ. ८५१; बृउ. १२८८	प्राजापत्यो वा ए	असं. ४७३	प्राणं मा वंशं सं	छाउ. ८२८
प्र विष्णवे शूष	ऋसं. ८८	प्राजापत्यो हाऽऽह	नाउ. १६५०	प्राणं मे त्वयि द	ऐउ. ६०२
प्र विष्णुरस्तु त	” ९२	प्राण आचार्यः	छाउ. ९३७	प्राणं यन्तमिद	कौउ. ६५५
प्र वीयन्ते गर्भा	असं. ३२३	प्राण इति	तैब्रा. २६;	प्राणं वंशं सम	शब्रा. १५३
प्रवृत्तोऽध्वतरी	छाउ. ८७४	प्राण इति हैक	बृउ. ११६९, ११७६	प्राणं वंशं सम	ऐउ. ६०२;
* प्र वेधते कव	कासं. २१; तैब्रा. २२	प्राण इति होवा	छाउ. ७६५, ७७०; परि. १५४७	प्राणं वा अनु प्र	कौउ. ६८५
प्रवेपानाय मृ	तैआ. ४१२	* ” ”	बृउ. ११७१	प्राणं वा एने प्र	तब्राउ. १३५०
प्रव्रजिष्यन्वा अ	बृउ. १२५९	प्राण उक्थमित्ये	ऐउ. ५३४	प्राणं वा एने प्र	प्रउ. १४९५
*प्रशीर्य शलयानां	मैसं. १३६	प्राण उद्गामत्	” ५३३	प्राणं श्रोत्रम्	शब्रा. ३३०;
प्रसचारमाऽऽत्मनि	मैउ. १६६१, १६६४	प्राण उद्गता	शात्रा. ४६०; नाउ १६५१	प्राणः कला	छाउ. ८२८
प्र सत्राजे बृह	ऋसं. ७७	प्राण ऋच इत्ये	ऐउ. ५४७	प्राणः पवमाने	छाउ. ८३३
प्र सृ ष विभ्यो म	” ६५	प्राण एनं तद्भू	बृउ. १०५३	प्राणः पुत्रः	ऐउ. ६०६;
प्र सु स्नोमं भर	” ५९	प्राण एव उद्गा	तब्राउ. १३४७	प्राणः प्रजा	कौउ. ६८६
प्रस्तब्धमसि	बृउ. १३०३	* प्राण एव तद्भू	बृउ. १०५३	प्राणः प्रजा अनु	ऐउ. ६०७
प्रस्ताव इति त्र्य	छाउ. ७८०	प्राण एव पुरो	” ११२०	प्राणः प्राणं ददा	बृउ. १०४२
प्रस्तावं मनुष्ये	तब्राउ. १३३३	प्राण एव ब्रह्म	छाउ. ८२०	प्राणः प्राणं या	असं. ३२४
प्रस्तावभाजिनो	छाउ. ७७८	प्राण एव यजुः	शब्रा. १५३	प्राणः प्राणं शत	छाउ. ९३७
प्रस्तावो वा अस्य	तब्राउ. १३४८	प्राण एव सत्रा	बृउ. ११८४	प्राणः प्राणं य	” ”
प्रस्तुत एव पु	जैब्रा. ४०६	प्राण एव सवि	गोब्रा. ११९	प्राणः प्राणं शत	ऐउ. ५३४
प्रस्तुते पुरादेः	” ”	प्राण एवामृतम्	कौउ. ६५९	प्राणः संहिता	कौउ. ६८४
प्रस्तुवन्नेवाष्टा	तब्राउ. १३३४	प्राण एवाऽऽयत	बृउ. ११८४	प्राणः सः	शब्रा. ३६
प्रस्तोतर्या देव	छाउ. ७६९, ७७०	* प्राण एवाऽऽयत	कौउ. ६६७	प्राणः सर्वाणि भू	ऐउ. ५४९
प्र स्वर्गं लोकमा	तैब्रा. ४०७	प्राण एवाऽऽयत	” ६६८	प्राणः साम	छाउ. ७४८, ७६३
प्र ह वा अस्मै दी	तब्राउ. १३५६	प्राण एवोत्	छाउ. ७५६	प्राणः स्वरः	” ७७३
प्र ह षोडशं व	छाउ. ८१६	प्राणं गच्छ स्वाहे	जाउ. १६७०	प्राणः स्वसा	” ९३७
प्र ह षोडशश	तब्राउ. १३६८	प्राणं चक्षुः	शब्रा. ३३०; छाउ. ८२८	प्राणबन्धनं हि	” ९०६
प्रद्वितां वा अह	ऐउ. ५३५	प्राणं च हास्मै त	छाउ. ८३५	प्राणभृतोऽन्नादम्	ऐउ. ५५७
प्र हैवैनं तच्छ	तब्राउ. १३५७	प्राणं तदादित्ये	शब्रा. ३२९	प्राणभृतसु त्वेवा	” ५५९
प्राकृतमच्चं त्रि	मैउ. १६६०	प्राणं तदा वाचि	कौउ. ६४४	प्राणमध्वर्यवे	गोब्रा. ४७२
प्राची दिक्कला	छाउ. ८३२	प्राणं ते मयि जु	” ६४३	प्राणमनुहर	तब्राउ. १३८६
प्राची दिग्घोतुः	शब्रा. ४७०, ४७१	प्राणं ते मयि द	” ६५५	प्राणमनूकाम	बृउ. १२२४
प्राचीनयोगीपु	बृउ. १३१०	प्राणं देवा अनु	तैउ. ७१५	प्राणमज्ञेनाऽऽया	नाउ. १६४८
		प्राणं प्रपद्येऽमु	छाउ. ८१३	प्राणमभ्युज्जिह	छाउ. ७७०
				प्राण मा मत्पर्या	असं. ३२७
				प्राणमाहुर्मात	” ३२५
				प्राणमेवैतदा	शब्रा. ४६८
				प्राणमेवैतया	जाउ. १६७०
				प्राणश्च विधार	प्रउ. १५०८

प्राणस्न उदक्र	छाउ.	८७५	*प्राणानेव तन्म	गोब्रा.	४६०	*प्राणा वै सत्यमि	वृउ.	१०८६
प्राणस्तदा वाचं	ऐउ.	६०७;	प्राणान्प्रपीडयेह	श्वेउ.	१५८८	प्राणा हीदं सर्वं	तब्राउ.	१३६८
	कौउ.	६८६	*प्राणान्मे त्वयि द	कौउ.	६५५	प्राणा हीदं सर्वं	,,	,,
प्राणस्तृप्तौ वार्युं	शाआ.	४७२;	प्राणान् सर्वान् पर	शिखाउ.	१६८२	प्राणिषं वाऽपानि	शाब्रा.	३४७
	कौउ.	६९०	प्राणान् सर्वान् प्रली	,,	,,	प्राणी भवति	छाउ.	७८१
प्राणस्तृप्यति	छाउ.	८८०	प्राणापानव्यानो	नाउ.	१३४७	प्राणे तृप्यति च	,,	८८१
प्राणस्तेजसा यु	प्रउ.	१५०३	प्राणापानावजि	तैआ.	३३३	प्राणे त्वमसि सं	नाउ.	१६५१
प्राणस्ते विदितो	शाब्रा.	४०	प्राणापानास्त्वा हा	असं.	४४०	प्राणेन गन्धान् वे	तब्राउ.	१३८७
प्राणस्त्वम्	ऐउ.	५४९	प्राणापानौ चक्षुः	,,	३०८,	प्राणेन जातानि	तैउ.	७३७
प्राणस्त्वा एष वै	शाब्रा.	४०		३१२, ४४९		प्राणेन तिर्यङ् प्रा	असं.	२५०
प्राणस्त्वा वंशो हा	ऐउ.	६०२,	प्राणापानौ जन	,,	४२५	प्राणेन त्वा द्विप	,,	३८१
६०३; कौउ.	कौउ.	६८५	प्राणापानौ त आ	वृउ.	१३०७	प्राणेन मनोऽभि	गोब्रा.	१२०
प्राणस्त्वाऽहास्यद्य	शाब्रा.	४०	प्राणापानौ मा मा	तैआ.	३५१	प्राणेन रक्षञ्च	वृउ.	१२०१
प्राणम्भवेव संहि	ऐउ.	५९८	प्राणापानौ मृश्रो	,,	,,	प्राणेन वा अग्नि	शाब्रा.	४३
प्राणस्त्वेष आत्म	छाउ.	८७५	प्राणापानौ मे शु	तब्राउ.	१३६२	प्राणेन वायुम्	,,	३३०
प्राणस्य का गति	,,	७६५	प्राणापानौ व्रीहि	असं.	३२५;	प्राणेन सर्वाङ्ग	कौउ.	६६७
प्राणस्य प्राणमु	वृउ.	१२४४		मुउ.	१४५८	प्राणेन सृष्टाव	ऐउ.	५३९
प्राणस्य रूपं स्प	ऐउ.	६२१,	प्राणापानौ संवि	तैआ.	३३३	प्राणेन हीदत् स	वृउ.	१०१२
	कौउ.	६८९	प्राणाय त्वा	तैसं.	५१४	प्राणेन ह्युत्तिष्ठ	छाउ.	७५६
प्राणस्य वै सम्रा	वृउ.	११८४	प्राणाय ददाति	छाउ.	९३७	प्राणेन ह्येवामु	कौउ.	६५९
प्राणस्य ह्यन्वपा	ऐउ.	५६१	प्राणाय नमो य	असं.	३२३	प्राणेनाचीयन्त	शाब्रा.	३२०
प्राणस्येदं वशे	प्रउ.	१५००	प्राणाय स्वाहा	नाउ.	१६४८	प्राणेनाज्ञादेना	असं.	४५५
*प्राणस्यैव सम्रा	वृउ.	११८४	प्राणाय स्वाहाऽप्य	मैउ.	१६५९	प्राणेनाशंसन्	शाब्रा.	३२०
प्राणा आदित्या इ	छाउ.	८१५	प्राणाय स्वाहा व	वृउ.	१३०२	प्राणेनास्तुवत	,,	,,
प्राणा इत्येवाऽऽच	,,	८५२	प्राणायामः प्रत्या	मैउ.	१६६१	*प्राणेनेति	कौउ.	६३८
प्राणाश्चोत्सृजति	मैउ.	१६६०	प्राणा रुद्रा इदं	छाउ.	८१५	प्राणेनेति ब्रूयत्	,,	,,
*प्राणांस्ते मयि द	कौउ.	६५५	प्राणा वसव इ	,,	,,	प्राणेनेत्येव ब्रू	,,	,,
प्राणाश्च स्त्वं भूमान	छाउ.	७५९	प्राणा वा आदित्याः	तब्राउ.	१३६८	प्राणेनैव जुहो	जैब्रा.	४०२
प्राणाः शिष्यम्	शाब्रा.	३१८	प्राणा वा आपः	नाउ.	१६४३	प्राणेनैव वाक्च	,,	३१६
प्राणाभय एवै	प्रउ.	१५०५	प्राणा वा उद्गाता	शाब्रा.	४६०	प्राणेनैषु प्रहा	शाब्रा.	३२०
प्राणान्छृद्धां खं वा	,,	१५१६	प्राणा वा ऋषयः	शाब्रा.	२९०,	प्राणेनोद्गात्रा दी	तब्राउ.	१३४९,
प्राणादत्तं प्राणा	तब्राउ.	१३७१		३२८; वृउ.	१०८१		१३५३	
प्राणादयो वै पु	मैउ.	१६६२,	प्राणा वाव रुद्राः	छाउ.	८१५	प्राणेभ्यः प्रजा इ	मैउ.	१६६६
		१६६४	प्राणा वाव वस	,,	८१४	प्राणेभ्यो देवाः	कौउ.	६६६,
प्राणाद्धि बलान्म	ऐब्रा.	१५२	प्राणा वावाऽऽदित्याः	,,	८१५		६८०	
प्राणाद्धयेव खल्वि	तैउ.	७३७	प्राणा वै गयाः	वृउ.	१२८२	प्राणे वाचम्	,,	६९०
प्राणाद्वा एष उ	वृउ.	१०६३	प्राणा वै त्रिवृत्	तैसं.	२८२	प्राणे शरीरं प्र	तैउ.	७३९
प्राणाद्वायुः	ऐउ.	५८१	*प्राणा वै यशो नि	वृउ.	१०८१	प्राणेषु द्वे	शाब्रा.	३६
प्राणा द्वे	शाब्रा.	३४,	प्राणा वै यशो वि	,,	,,	प्राणेषु पञ्चवि	छाउ.	७७७
		३५	प्राणा वै यशो वी	,,	९९८	प्राणे ह भूतं म	असं.	३२५
प्राणानां प्रन्थिर	नाउ.	१६४९	प्राणा वै रुद्राः	तब्राउ.	१३६८	प्राणे हामानि स	वृउ.	१२७७,
प्राणानाश्च संकल्पये	छाउ.	९३०	प्राणा वै वसवः	,,	,,		१२७९	
प्राणानेतदाह	वृउ.	१०८१	प्राणा वै सत्यं ते	वृउ.	१०७७	प्राणैरेवैनमे	शाब्रा.	३१८
प्राणानेव तदा	शाब्रा.	४६०	प्राणा वै सत्यम्	,,	१०८६	प्राणैर्बलम्	नाउ.	१६५१

प्राणैर्मनः	नाउ.	१६५१	प्राणो वा अत्ता	शब्रा.	४२	प्राणो वै युवा सु	ऐब्रा.	३२७
प्राणैर्हृयमात्मा	शब्रा.	३१८	प्राणो वा अन्नम्	तैउ.	७३९	प्राणो वै रम्	वृउ.	१२७७
प्राणैश्चित्तं सर्वं	मुउ.	१४८०	प्राणो वा अन्नस्य	मैउ.	१६६०	प्राणो वै वायुः	मैउ.	१६६४
प्राणो अध्वर्युर	तैब्रा.	४६२	*प्राणो वा अमृतम्	कौउ.	६५९	प्राणो वै सम्राट् प	वृउ.	११८४
प्राणो अपानो व्या	असं.	३८८	"	वृउ.	१०६६	प्राणो वै साम	"	१२७९
प्राणोऽग्निः	मैउ.	१६६४	प्राणो वा अर्कः	शब्रा.	४३	प्राणो वै स्वयमा	शब्रा.	३२९
प्राणोऽग्निः परमा	"	१६५९	प्राणो वा अहम	ऐउ.	५४९	प्राणो व्यानोऽपान	तैउ.	७०१
प्राणोऽग्निः प्राणोऽम्	शब्रा.	५१८	* " "	कौउ.	६५८	प्राणोऽस्मात्सर्वान्मा	कौउ.	६६७
प्राणोदानावेवा	"	४६५	प्राणो वा आयु	"	६५९	प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा	"	६५८
प्राणो धूमः	जैब्रा.	४०४;	प्राणो वा आशाया	छाउ.	९३७	प्राणो ह पिता	छाउ.	९३७
छाउ.	८५९;	वृउ.	प्राणो वा इदं स	शब्रा.	३०१;	प्राणो ह वा एता	तब्राउ.	१३५२
प्राणोऽध्यात्मम्	तब्राउ.	१३५६	छाउ.	८१३	प्राणो ह वाव सा	"	१३४२	
प्राणोऽध्वर्युः	ताब्रा.	४६१	प्राणो वा उक्	शब्रा.	४३	प्राणो ह विः	कासं.	४५८
प्राणो नाम देव	कौउ.	६४२	प्राणो वा उक्थम्	वृउ.	१२७८	प्राणो ह सत्यवा	असं.	३२४
प्राणो निधनम्	छाउ.	७८१	प्राणो वा उत	"	१०१२	प्राणो ह सर्वस्ये	"	"
प्राणोऽन्ने प्रतिष्ठि	गोब्रा.	१२०	*प्राणो वा एते स्क	प्रउ.	१४९५	प्राणो ह सूर्यश्च	"	"
प्राणोऽपानो व्यान	ऐउ.	५६१;	प्राणो वाव को वा	तब्राउ.	१३८६	प्राणो हिंकारः	छाउ.	७७७
वृउ.	१०५०;	१२८१	प्राणो वाव ज्येष्ठ	छाउ.	८४९	प्राणो हि भूताना	तैउ.	७१५
प्राणो बृहतः	ऐउ.	६०५;	प्राणो वाव ज्येष्ठो	तब्राउ.	१३८६	प्राणो हि यज्ञेवे	शब्रा.	१५३
कौउ.	६८६	प्राणो वाव तद्	ऐउ.	५४४	प्राणो हि वा अङ्गा	वृउ.	१०१०	
प्राणो बृहती	ऐउ.	५३७	प्राणो वाव संव	छाउ.	८२८	प्राणो हि वै क्षत्र	"	१२७९
प्राणो ब्रह्म	छाउ.	८३५	प्राणो वाव साम्नः	तब्राउ.	१३४१	प्राणो हीदं सर्वं	"	१२७८
प्राणो ब्रह्मेति व्य	तैउ.	७३५	प्राणो वा वाचम्	ऐउ.	६२३	प्राणो हृदये	तैब्रा.	२६०
प्राणो ब्रह्मेति ह	कौउ.	६४०,	प्राणो वावामो वा	तब्राउ.	१३८६	प्राणो होच्चक्राम	शाआ.	३३१
६४१	वृउ.	१२७७	प्राणो वावैनं त	"	१३६६	प्राणो ह्यविज्ञातः	वृउ.	१०५३
प्राणो ब्रह्मेत्येक	वृउ.	१२७७	प्राणो वावोद्वाग्मी	"	१३८६	प्राणो ह्यापः	तब्राउ.	१३५८
प्राणो ब्राह्मणः	छाउ.	९३७	प्राणो विराट् प्राणो	असं.	३२४	प्राणो ह्यैवैतानि	छाउ.	८५२,
प्राणो भूत्वाऽऽदित्य	तब्राउ.	१३७१	प्राणो वै क्षत्रम्	वृउ.	१२७९	९३८	"	८२८
प्राणो भूत्वा वायु	"	"	प्राणो वै गन्धर्वः	तब्राउ.	१३६६	प्राणो ह्येष य ए	ऐउ.	५४४,
प्राणो भ्राता	छाउ.	९३७	प्राणो वै गायत्री	जैब्रा.	३२८	५४९	मुउ.	१४७६
प्राणोऽमः	"	७६३	प्राणो वै गृत्सः	ऐउ.	५४५	प्रातःसवने ब	शब्रा.	४६९
प्राणो ममेति वा	शाआ.	३२२	प्राणो वै गोपाः	तब्राउ.	१३६६	प्रातरादित्यमु	वृउ.	१३०३
प्राणो महः	शब्रा.	४७०	प्राणो वै ग्रहः	वृउ.	११२२	प्रातर्वः प्रतिव	छाउ.	८७३
प्राणो माता	छाउ.	९३७	प्राणो वै ज्येष्ठश्च	शाआ.	३३२;	प्रातायीती२३	ऐउ.	५३५
प्राणोऽमृतम्	शब्रा.	५१८	वृउ.	१२८६	प्रादुर्भूतोऽस्मि रा	ऋसंखि.	५००	
प्राणो मृत्युः प्राण	असं.	३२४	प्राणो वै पतङ्गः	तब्राउ.	१३६५,	प्रादेशमात्रमि	शब्रा.	४१
प्राणो रक्षति वि	तैब्रा.	३१६,	१३६६	जैब्रा.	३२८	प्राग्या तन्तुंस्तिर	असं.	२४८
३२८	३२८	प्राणो वै बलम्	वृउ.	१२८२	प्रापय न आचा	छाउ.	८३२	
प्राणो रज्जुः	जैब्रा.	३१६	प्राणो वै ब्रह्म	तब्राउ.	१३६६	प्राप हाऽऽचार्यकु	"	८३४
प्राणो वंश इति	ऐउ.	६०२,	प्राणो वै ब्रह्मेति	वृउ.	११८३	प्राप्ताः सोम्य सह	"	८३२
६१०;	कौउ.	६८५,	प्राणो वै यजुः	शब्रा.	३३०;	प्राप्यान्तं कर्मण	वृउ.	१२३२
६८७	कौउ.	६८६	प्राणो वै यज्ञस्यो	वृउ.	१२७९	प्राप्रणीयोऽतिरा	शब्रा.	४६९
प्राणो वसः	कौउ.	६८६	* " " "	वृउ.	१११७			
प्राणो वा अग्निः	शब्रा.	४६५			१११८			
प्राणो वा अङ्गानां	वृउ.	१०१०						

प्रावेपा मा बृह	ऋसं.	४८३
*प्रावो देवाँ आति	"	६०
प्राश्रीपुत्र आनु	बृउ.	१३१०
प्राश्याऽऽचम्याय वि	जाउ.	१६७१
प्राश्वेतरस्याः प्र	बृउ.	१३०८
*प्रास्मा आशा अशृ	तैआ.	३४१
"	"	४१२
*प्राह षोडशं व	छाउ.	८११
प्रिय एव स की	जैब्रा.	३२८
प्रियं ते नाम स	ऋसं.	३४४
प्रियं भोजेषु य	"	४२६
प्रियं श्रद्धे दद	"	"
प्रियमिति	जैब्रा.	३२८
प्रियव्रतः सोमा	कौउ.	६९२
प्रियां वाचमभि	मुउ.	१४५०
प्रियाः श्रुतस्य भू	असं.	४२७
*प्रिया खलु नो भ	बृउ.	१२६०
प्रियाप्रियाणि ब	असं.	२४५
प्रिया बतारे नः	बृउ.	१०९१
प्रिया वै खलु नो	"	१२६०
प्रियो हैव भव	कौउ.	६४३
प्रेतस्य शरीरं	छाउ.	९७४
प्रेति प्राणस्यामृ	तत्राउ.	१३७१
प्रेत्येति वाग् (इति)	"	१३५२
प्रेत्येन्द्रो भूत्वेषु	ऐउ.	५७२
प्रेमां वाचं वदि	ऐआ.	३५०
प्रेहामृतस्य य	असं.	३७३
प्रेहि	बृउ.	१२९३
प्रेहि प्रेहि पथि	ऋसं.	३५६
प्रोष्ठपादो वार	तत्राउ.	१३६७
प्लक्षं दश्यांपातिं	तैब्रा.	२६
प्लक्षस्य प्रासव	तत्राउ.	१३८७
प्लवा ह्येते अट्	मुउ.	१४५१

फ

फलस्योर्ध्वं रस	शाब्रा.	३४७
फलानां पुरुषः	बृउ.	१३०५
फलिन्यो न ओष	तैसं.	५१४
फेनादण्डं भव	शिरउ.	१६८१
फेनोऽब्रवीत् काहं	शाब्रा.	२९६

ब

बगिति ह श्रियं	तत्राउ.	१३५९
बण्महाँ असि सू	असं.	१७२
बधिर आकन्द	तैब्रा.	२६०
बधिरान्दि पश्या	कौउ.	६६४

बधिरो भविष्य	असं.	४३९
बन्धाय विषया	मैउ.	१६६५
बभ्रु कृष्णां रोहि	असं.	५०७
बल इति	तैब्रा.	२६
बलं को अस्मै प्रा	असं.	२४५
बलं च क्षत्रमो	"	३११
बलं ध्रुवगोपम्	ताब्रा.	४६१
बलं ममेतीन्द्र	शाआ.	३२२
बलं वाव विश्वा	छाउ.	९३३
बलं हृदये	तैब्रा.	२६०
बलप्रमथना	नाउ.	१६४१
बलमिति विद्यु	तैउ.	७४०
बलमुपास्त्रेति	छाउ.	९३३
बलविकरणा	नाउ.	१६४१
बलाद्वाव भूयो	छाउ.	९३४
बलाय नमः	नाउ.	१६४१
बलेन तपः	"	१६५१
बलेन लोकस्ति	छाउ.	९३३
बलेन वै पृथि	"	"
बलेनाग्नादेना	असं.	४५५
बस्तिस्ने विदितो	शाब्रा.	४०
बस्तिस्ते व्यभेत्स्य	छाउ.	८७६
बस्तिस्त्वा एष वै	शाब्रा.	४०
बस्तिस्त्वाऽहास्यद्य	"	"
बस्तिस्त्वेष आत्म	छाउ.	८७
बहव इमेऽस्मि	"	८३५
बहवो मर्यां ब्रा	बृउ.	१३०५
बहवो वै ते भ	छाउ.	७५९
बहवो ह्येत आ	तत्राउ.	१३५२
बह्विधेव वै श्रीः	"	१३३१
बह्विष्पवमान	"	१३५६
बहुचारी भवि	असं.	४४२
बहुधा ह्येवैष	तत्राउ.	१३५५
बहुरेव प्रज	"	१३६१
बहु वदिष्यन्ती	ऐआ.	३५०
बहु वा इदं सु	बृउ.	१३०५
बहु स्यां प्रजाये	तैउ.	७२०;
	छाउ.	८९०; तत्राउ.
	परि.	१५५६
बहूनाभेमि प्र	काउ.	१३८९
बहोर्भूयः सर्व	तत्राउ.	१३३२
बह्वामिन्द्र गो	तैआ.	२७०
बह्वहं चरन्ती	छाउ.	८३१
बह्वीः संधा अति	कौउ.	६५७

बह्वयः श्याम प्रजा	छाउ.	८९२
बाधस्व दूरे नि	ऋसं.	७४
*बाधस्व द्वेषो नि	तैसं.	"
बालघ्नाग्नावृषि	ऋसंखि.	४८६
बालादिकमणी	असं.	२५०
बालान्दि पश्यामः	कौउ.	६६५
बालेभ्यः शफेभ्यो	असं.	४३४
बाल्यं च पाण्डित्यं	बृउ.	११३६
बाहुभ्यां हि सृष्टः	ताब्रा.	२८३
बाहुभ्यां ह्येनमु	जैब्रा.	२८६
बाहुभ्यामूर्ध्व्या	तैब्रा.	४८७
बाहुबोर्बलम्	नाउ.	१६४९
बाहू मार्जालीय	शाब्रा.	४५९
बाहू मे बलमि	कासं.	३१४
विभर्ति भर्ता वि	असं.	४४७
विसानि भक्ष्य	ऐउ.	६१७
बुद्धयो वै धियः	मैउ.	१६५९
बुद्धिं तु सारथिं	काउ.	१४१२
बुद्धिश्च न विचे	"	१४३६;
	मैउ.	१६६३
बुद्धिश्च बोद्धव्यं	प्रउ.	१५०८
बुद्धेर्गुणनाऽऽत्म	श्वेउ.	१६१४
बुद्ध्या संचितं स्था	शिरउ.	१६८०
बुद्धेभ्यः शरदः	असं.	५१३
बृहच्च तद्विव्य	मुउ.	१४७८
बृहच्च रथन्त	असं.	१६३,
		४५१
बृहच्छरीरो वि	ऋसं.	९०
बृहज्ज्योतिः करि	तैसं.	११०;
	श्वेउ.	१५८६
बृहतः परि सा	असं.	१६१
बृहतः स्वराः	कौउ.	६८९
बृहतश्च वै स	असं.	४५०
बृहतीइव सू	ऋसं.	२
बृहती च छन्दः	शाब्रा.	३४,
		३५, ३६, ३८
बृहती छन्दो वृ	"	३०
बृहती परि मा	असं.	१६१
बृहतीमभि सं	ऐउ.	५६६
बृहतीरहर	"	६१२
बृहती संपद्य	"	५६७
बृहती स्वर्गो लो	शाब्रा.	३४,
		३५, ३६, ३८
बृहते च वै स	असं.	४५०

*बृहत्पाण्डुरवा	कौ. ६७५	ब्रवीतु भगवा	वृ. ११८६	ब्रह्मज्येष्ठा संभू	असं. १९९;
*बृहत्पाण्डुरवा	वृ. १०६८	* " "	" १२६०	ब्रह्मण आणी स्थः	पैसं. २५१
बृहत्सुम्नः प्रस	ऋसं. ९६	ब्रवीतु मे भग	छा. ८३२,	ब्रह्मण आवप	तैआ. ५२०
बृहदन्यतः प	असं. १७३	* " "	८३३, ८३८	ब्रह्मण एव सा	" "
बृहदायवर्न	" ४३७	ब्रवी'मीति होवा	वृ. ११८६	ब्रह्मणः कोशोऽसि	तैआ. २९
बृहदेनमनु	" १७३	*ब्रह्म ओषधयो	छा. ९४६	ब्रह्मणः क्षत्रं नि	तैउ. ६९५
बृहद्विः सुम्न	कौ. ६९२	ब्रह्मंस्त्रं ब्रह्मासि	पैसं. २५१	ब्रह्मणः श्रोतन्य	तैआ. २५८
*बृहद्व तस्थौ भु	ऋसं. २४९,	*ब्रह्मकृते विप	शुसं. ४५९	ब्रह्मणः सलोक	तैआ. ५२०
" "	२५१	ब्रह्मकाशं प्रप	सासं. ५८	ब्रह्मणः सायुज्य	ताआ. ४६१
" "	ऐ. ५२७	ब्रह्म क्षत्राय	तैआ. २६५	ब्रह्मणः सायुज्य	नाउ. १६४०
बृहद्बृहत्या नि	असं. १६१	ब्रह्म खल्वदं वा	ताआ. ५१६	ब्रह्मणः सोम्य ते	छा. ८३२,
बृहद्रथन्तर	ऐ. ६०५	ब्रह्म च क्षत्रं च	मै. १६५७	"	८३३
बृहद्रथन्तरे	शआ. ३०;	ब्रह्म च तपश्च	असं. ४३४	*ब्रह्मणत्विजा म	शआ. १११७
बृहद्रथो वै ना	कौ. ६३६, ६८६	ब्रह्म चतुष्टोमः	" १७४	" "	वृ. १११८
बृहन्तो नाम ते	मै. १६५३	ब्रह्मचर्यं भग	तैसं. २५२	ब्रह्मणश्च ते पा	छा. ८३२
बृहन्नैषामधि	असं. २४७	ब्रह्मचर्यं भव	छा. ८३१	ब्रह्मणस्पतिरे	ऋसं. २७४
बृहन्पाण्डुरवा	" ८४	ब्रह्मचर्यं समा	" ८३०	ब्रह्मणस्पते त्वम	" १९१
बृहन् ह तस्थौ र	कौ. ६७५;	ब्रह्मचर्यमेव	जा. १६७०	ब्रह्मणाऽऽकाशम	गोआ. ११२
बृहस्पतये स्वा	वृ. १०६८	ब्रह्मचर्यमेव	प्र. १४९५	ब्रह्मणाग्नी वावृ	असं. १७०
बृहस्पतिना शौ	असं. २४९,	ब्रह्मचर्यमेवै	तैआ. २८	ब्रह्मणाऽजादेना	" ४५५
*बृहस्पतिपुरो	२५१	ब्रह्मचर्येण ऋ	तैसं. ४२०	ब्रह्मणा परिगृ	" ४३७
बृहस्पतिप्रसू	नाउ. १६४८	ब्रह्मचर्येण क	असं. ४२५	ब्रह्मणा पुरुषो	पैसं. २५२
बृहस्पतिरुवा	असं. ४३८	ब्रह्मचर्येण त	" ४२४,	ब्रह्मणा ब्राह्मणम्	गोआ. ११९
बृहस्पतिरूर्ज	मैसं. ३१५	ब्रह्मचर्येण ह्ये	४२५	ब्रह्मणा भूमिवि	असं. २४५
बृहस्पतिर्मा आ	कासं. "	ब्रह्मचारिणं पि	छा. ९६४,	ब्रह्मणा सुखेन	" ४३९
बृहस्पतिर्मा शु	जा. १६६९	ब्रह्मचारिणं प्र	९६५	ब्रह्मणा वाव स	तै. ६९७
बृहस्पतिर्वै शु	असं. ४७४	ब्रह्मचारिणशा	असं. ४२१	ब्रह्मणा विपश्चि	" ७०६
बृहस्पते अति	" ३४५	ब्रह्मचारी जन	तैआ. २६	*ब्रह्मणा वेदिरु	असं. २५८
बृहस्पते अप	मै. १६६७	ब्रह्मचारी ब्रह्म	छा. ८३५	ब्रह्मणा सादं व	पैसं. २५२
बृहस्पते देव	ऋसं. १९०	ब्रह्मचारीष्णश्च	असं. ४२२	ब्रह्मणा स्वरवो	तैआ. २५८
बृहस्पते न प	" १८९	ब्रह्मचारी समि	" ४२५	ब्रह्मणि म आरमा	नाउ. १६४८
बृहस्पते प्रथ	" "	ब्रह्मचारी सिञ्च	" ४२१	ब्रह्मणे त्वा मह	" १६५१
बृहस्पते भीम	ऐ. ६०४	ब्रह्मचार्याचार्य	" ४२२	ब्रह्मणे नमः	वृ. १११४,
बृहस्पते मा प्र	ऋसं. ४८९	ब्रह्मचार्येति स	छा. ७८६	१२६६, १३११	असं. ४००;
बृहस्पते यो नो	" १८८	ब्रह्मचार्येति स	असं. ४२२	ब्रह्मणे स्वाहा	नाउ. १६४८
बृहस्पतेरेव	" १९०	ब्रह्मजज्ञं देव	का. १३९३	ब्रह्मणे स्वाहेत्य	वृ. १३०३
बृहस्पतेर्वा ए	" १८९	ब्रह्म जज्ञानं प्र	असं. १९७;	ब्रह्मणैव तद्	शाआ. ५२२
बैजवापायनः	तैआ. २९	ब्रह्म जज्ञानं प्र	शिउ. १५७४;	ब्रह्मणो जाता ऋ	पैसं. २५२
बो इति ह पश	" "	ब्रह्म जज्ञानं प्र	नाउ. १६३२	ब्रह्मणो लोकमि	तत्रा. १३६३
बोधश्च त्वा प्रती	वृ. १११४	ब्रह्म ज्ञेष्टमुपा	तै. ७१७	ब्रह्मणो वा एत	" १३८२
*बौधीपुत्रः शाल	तत्रा. १३५९	*ब्रह्मज्येष्टमुपा	" "	ब्रह्मणो वा एता	तैआ. २९
ब्रह्मलोको भव	असं. ३७९	*ब्रह्मज्येष्ठाः संभू	पैसं. २५१	ब्रह्मणो वायुः	शिउ. १६८१
	वृ. १३१०	*ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या	तैआ. १९९	ब्रह्मणो वावैता	मै. १६५७
	असं. ४४३	" "	" २५८		

ब्रह्मण्यं बहुपु	नाउ.	१६४७
ब्रह्म तं परादा	बृउ.	१०९४, १२६१
ब्रह्म तृतीयमि	तत्राउ.	१३१९
ब्रह्म ते ब्रवाणी	कौउ.	६७४, ६७८
ब्रह्म दासा ब्रह्म	पैसं.	२५२
ब्रह्म देवाँ अनु	असं.	२४५
ब्रह्म देवानज	तैत्रा.	२५८
ब्रह्मद्वारमिद	मैउ.	१६५६
ब्रह्मद्विषस्तप	ऋसं.	१८९
ब्रह्मन्त्वमसि वि	नाउ.	१६५१
ब्रह्मन्देवास्त्रय	तैत्रा.	२५९
ब्रह्मन्निन्द्रप्रजा	"	"
ब्रह्मन्ह विश्वा भू	"	"
ब्रह्म पुच्छं प्रति	तैउ.	७१८
ब्रह्म प्रजां मे धु	ऐआ.	५१९
ब्रह्म प्रजापति	असं.	५१२
ब्रह्म प्रजापतिम्	बृउ.	१२७२
ब्रह्म प्रपथे	तैआ.	२६५
ब्रह्मप्राप्तो विर	काउ.	१४४०
ब्रह्म प्रावादिष्म	तैआ.	५२१
ब्रह्म वृहस्पतिः	तैसं.	२५२
ब्रह्म ब्रह्मण उ	असं.	१९८
ब्रह्म ब्रह्मा	तात्रा.	४६१
*ब्रह्म ब्रह्माणो व	पैसं.	२५१
ब्रह्म ब्रह्माऽभव	तैत्रा.	४६२
ब्रह्म ब्राह्मण आ	"	२५८
ब्रह्म ब्राह्मणे ब्र	गोत्रा.	१२०
ब्रह्म ब्राह्मणैश्च	शिरउ.	१६७७
ब्रह्म ब्राह्मणो व	पैसं.	२५१
ब्रह्म ब्राह्मण्या स	तत्राउ.	१३५६
*ब्रह्म मृचो घृत	पैसं.	२५२
ब्रह्ममेतु माम्	नाउ.	१६४४
ब्रह्म मेधया	"	१६४५
ब्रह्म मेधवा	"	"
ब्रह्ममेव मधु	"	१६४४, १६४५
*ब्रह्ममे सर्वदा	पैसं.	२५१
*ब्रह्मयज्ञं देव	काउ.	१३९३
ब्रह्म यज्ञस्य त	तैत्रा.	२५८; असं. ४५८
ब्रह्मयज्ञो वा ए	मैउ.	१६५३
*ब्रह्म रथस्य दे	पैसं.	२५२

ब्रह्म रथस्य दै	पैसं.	२५२
ब्रह्मलोकमति	मैउ.	१६६३
ब्रह्मलोकेषु गा	बृउ.	११४५
ब्रह्मवधात्सुरा	ऋसंखि.	४८६
ब्रह्म वनं ब्रह्म	तैत्रा.	२५९
ब्रह्मवर्चसेन	नाउ.	१६४९
ब्रह्मवर्चसेना	तैउ.	६९४
ब्रह्मवर्चस्यचा	छाउ.	७८१, ८०४
ब्रह्म वा इदम	शात्रा.	३०१;
	बृउ.	१०२९, १०३६
ब्रह्मवादिनो व	असं.	४३८;
	छाउ.	७९०; श्वेउ १५७५
ब्रह्मवान् भवति	तैउ.	७४०
ब्रह्मविद इव	छाउ.	८३८
ब्रह्मविदाप्रोति	तैउ.	७८६;
	परि.	१५३६
ब्रह्मविदिव वै	छाउ.	८३४
ब्रह्म विश्वमिदं	तैत्रा.	२५८
ब्रह्म वेदस्याथ	गोत्रा.	५२२
ब्रह्म वै देवः स	तैसं.	२५२
ब्रह्म वै प्रणवः	शात्रा.	५२२
ब्रह्म वै स्वयंभु	शात्रा.	४७१
ब्रह्म शान्तिः	मैसं.	५१५;
	तैत्रा.	५१९
ब्रह्म क्षोत्रियमा	असं.	२४५
ब्रह्मसंस्थोऽमृत	छाउ.	७८६
ब्रह्म सन्तं ब्रह्म	तैत्रा.	२५८
ब्रह्म सभा राज	पैसं.	२५२
ब्रह्म समिद्भव	तैत्रा.	२५९
ब्रह्म सरूपम	तैआ.	४१२;
	नाउ.	१६४६
ब्रह्म सूर्यसमं	शुसं.	२५३
ब्रह्म सुचो घृत	पैसं.	२५२;
	तैत्रा.	२५८; असं. ४५८
ब्रह्म स्वयंभु	बृउ.	१११४, १२६६, १३११
ब्रह्म ह तु सन् य	तत्राउ.	१३८६
ब्रह्महत्यां वा ए	नाउ.	१६४४
ब्रह्महत्यात्पूतो	कैउ.	१६७६
*ब्रह्महत्यायाः पू	"	"
ब्रह्म ह देवेभ्यो	तत्राउ.	१३७९
ब्रह्म ह वा इद	सात्रा.	२०४;
	मैउ.	१६६१

ब्रह्म ह वै ब्रह्मा	गोत्रा.	५२२
ब्रह्म हेदं श्रियं	"	११९
ब्रह्म होता ब्रह्म	पैसं.	२५२;
	असं.	४५८
ब्रह्माँस्त्वं ब्रह्मासि	मैसं.	४५९
ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दि	तैत्रा.	२५८
ब्रह्मा च यत्र वि	ऋसंखि.	३६७
ब्रह्माणो यस्याम	असं.	५०८
ब्रह्मा त्वो वदति	ऋसं.	४९२
ब्रह्मा देवानां प	"	७२;
	नाउ.	१६३५, १६४५
ब्रह्मा देवानां प्र	मुउ.	१४४२
ब्रह्माध्यतिष्ठद्भू	तैत्रा.	२५९
ब्रह्माऽन्वविन्दद्	तैआ.	२६६
ब्रह्मा मा तत्र न	असं.	४००
ब्रह्माघोऽसि गौत	कौउ.	६२९
*ब्रह्माहोऽसि गौत	"	"
ब्रह्मा विश्वः कत	नाउ.	१२५१
ब्रह्मा विष्णुश्च रु	शिखाउ.	१६८३
ब्रह्मास्य शीर्षं वृ	असं.	३६९
ब्रह्मा स्वयंभूः	कौउ.	६९२
ब्रह्मा हि परः	नाउ.	१६५०
ब्रह्माऽऽहुतीरुप	तैत्रा.	४१९
ब्रह्मा ह्यै ता ३ई	ऐउ.	५३२
*ब्रह्मा ह्यै ता ३ई	"	"
ब्रह्मिष्ठोऽसिति	प्रउ.	१५००
ब्रह्मदं ब्रह्मणो	पैसं.	२५२
ब्रह्मदं सर्वमा	"	२५१
ब्रह्मोदमन्यन्न	असं.	२४५
ब्रह्मोदमूर्ध्वं ति	"	"
ब्रह्मोद्भावमी ई	"	१७०
ब्रह्मोद्भमग्निं ज	तैआ.	२६७
ब्रह्मोममग्निं पू	असं.	२४५
ब्रह्मोमे थावापृ	पैसं.	२५१
ब्रह्मोमे सर्वं था	"	"
ब्रह्मोक्त्वं द्विधा	शिरउ.	१६७८
ब्रह्मैतद्ब्रह्मण	तैआ.	२७८
ब्रह्मैतद्विद्यात्	असं.	१६१
ब्रह्मैव पुष्पम्	छाउ.	७९५
ब्रह्मैव भूतानां	तैत्रा.	२५९
ब्रह्मैव मनसा	तत्राउ.	१३६०
ब्रह्मैव सन्ब्रह्मा	बृउ.	१२३२
ब्रह्मैवाभवदु	पैसं.	२५२
ब्रह्मैवेदममृ	मुउ.	१४६८

ब्रह्मैवैक ऋद्वि	छाउ.	८४९
ब्रह्मैवोपाप्नोति	तैउ.	७०२
ब्रह्मैषां भद्रं सा	पैसं.	२५२
ब्रह्मोडुपेन प्र	श्वेउ.	१५८७
ब्रह्मोत्तरा हनुः	तैआ.	२६६
ब्रह्मोद्वतो निव	पैसं.	२५२
*ब्रह्मौषधयो नि	"	२५१
ब्रह्मौषधयोऽनु	"	"
ब्राह्मणं हनिष्य	असं.	४४२
ब्राह्मणः शान्तिः	तैआ.	५१९
ब्राह्मणमेव न	शाब्रा.	१५०
ब्राह्मणयोर्वद	छाउ.	७६५
ब्राह्मणस्त एकं	कौउ.	६४८
ब्राह्मणाः शान्तिः	मैसं.	५१५
ब्राह्मणाक्त निन्देत्	छाउ.	७८४
ब्राह्मणा भगव	वृउ.	१११५,
		११५६, ११६६
ब्राह्मणेन व्रतम्	गोब्रा.	११९
ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनु	नाउ.	१६४४
ब्राह्मणेभ्यो वशां	असं.	४३५
ब्राह्मणो वावैत	मैउ.	१६६२
ब्राह्मणोऽस्मि प्रातृ	तब्राउ.	१३६४
ब्राह्मणोऽस्य मुख	ऋसं.	२३३
ब्राह्मो वाव त उ	तब्राउ.	१३८४
भ		
भगव इति ह	छाउ.	८३२,
		८३३, ८३४, ८३८
भगवत्सकट	मैउ.	१६५४
भगवतो वा अ	छाउ.	७७०
भगवन् कत्येव	प्रउ.	१४९६
भगवन् किमादौ	शिखाउ.	१६८२
भगवन् कुत ए	प्रउ.	१५००
भगवन्कुतो ह	"	१४९१
भगवन्को नः श्रे	छाउ.	८५१
भगवन्तं वा अ	"	७७०
भगवन्नावप्रे	"	७६५
भगवन्नस्थिव	मैउ.	१६५३
भगवन्नाहमा	"	"
भगवन्नेतस्मि	प्रउ.	१५०४
भगवन्नेधिं	छाउ.	८५१
भगवन्वयने	मैउ.	१६५४
भगवन्वयमा	"	१६६७
भगवन् संन्यासं	जाउ.	१६६९

भगवन् हिरण्य	प्रउ.	१५१४
भगवाःस्त्वेव मे	छाउ.	७७०,
		८३४
भगेरथो हैक्षवा	तब्राउ.	१३६९
भगो अनुप्रयु	असं.	५०८
भगो प्रावस्तुत्	ताब्रा.	४६१
भद्रं कर्णेभिः शृ	ऋसं.	४९६;
	ऐउ.	५२५
भद्रं पश्यन्त उ	तैआ.	२७१
भद्रयज्ञायज्ञी	कौउ.	६३६
भद्रा ते पूषन्नि	तैआ.	१८१
भयादस्याग्निस्त	काउ.	१४३४
भयादिन्द्रश्च वा	"	"
भरनामप य	ऋसं.	३६५
भरवादि विर	"	६५
भरद्वाज	तैब्रा.	२८
भरद्वाजेल्याम	"	"
भरद्वाजो बृह	ऐउ.	६०६
भरद्वाजो ह त्रि	तैब्रा.	२८
भर्गो देवस्य धी	गोब्रा.	११९;
	वृउ.	१३०३
भर्जयनीति वै	मैउ.	१६५९
भर्ता सन्ध्रियमा	तैआ.	३३२
भव एनमिष्वा	असं.	४५२
*भवति य एवं	वृउ.	११३६
भवति हास्य सु	"	१०१४
भवति हास्य स्वं	"	१०१३
भवत्यस्यान्नम्	ऐउ.	५५७
भवत्यात्मना	"	५४२
भवत्यात्मना प	वृउ.	१००४
भवत्येव	तैब्रा.	२८९
भवत्संहिता	कौउ.	६८७
भवद्वसुरिद	असं.	१७५
भवन्ति हास्य प	छाउ.	७७७
भव राजन् यज	असं.	१३३
भवलिङ्गाय न	नाउ.	१६४१
भवानेव गच्छ	वृउ.	१२९३
*भवाम शरदः	तैआ.	५१५
"	"	५२०
भवाय च शर्वो	असं.	१३१
भवाय नमः	नाउ.	१६४१
भवाकद्रौ सयु	असं.	१३१
भवाशर्वौ तपु	पैसं.	२५२
भवाशर्वौ मृड	असं.	१२८,
		३८१

भविष्यते स्वाहे	वृउ.	१३०३
भविष्यत्प्रति चा	तैब्रा.	४६२
भविष्यत्प्रतिह	ताब्रा.	४६१
भविष्यदुत्तर	कौउ.	६८७
भवे भवे नाति	नाउ.	१६४१
भवेम शरदः	असं.	५१३
भवो दिवो भव	"	१३३
भवोद्भवाय न	नाउ.	१६४१
भस्म च करोति	जैब्रा.	३२७
भा इति हैतत्प	तब्राउ.	१३५८
भा इत्यादिद्यः	"	१३६७
भागो जीवः स वि	श्वेउ.	१६१५
भाति च तपति	छाउ.	८२०
भानीव हि ब्रह्म	तब्राउ.	१३५९
भानुः शुक्रेण शो	ऋसं.	७०
भाभिर्गतिरस्य	मैउ.	१६५९
भारद्वाज आत्रे	वृउ.	१११४,
		१२६५
*भारद्वाज औद	"	१११४,
		१२६५
भारद्वाजः पारा	"	१११४
भारद्वाजीपुत्रः	"	१३१०
*भारद्वाजीपुत्रो	"	"
भारद्वाजो भार	"	१११४
* " "	"	१२६५,
		१२६६
*भारद्वाजो वला	"	१२६५
*भारद्वाजो वैज	"	१११४
भालुकीपुत्रः क्रौ	"	१३१०
*भालुकीपुत्रः प्रा	"	१३११
भावप्राहमनी	श्वेउ.	१६१६
भावभावी च यो	ऋसंखि.	३६८
भा वा एषा तस्य	तब्राउ.	१३४२
भास्कराय विद्म	नाउ.	१६३२
भास्याम्यहमिति	वृउ.	१०६२
भिद्यते हृदय	मुउ.	१४६४
भिद्येते चासां ना	प्रउ.	१५१७
भिद्येते तासां ना	"	"
भिन्द्हीति	छाउ.	९१९
भिन्नं भगव इ	"	"
भिन्ना भगव इ	"	"
भियं दधाना ह	ऋसं.	३४४
भिया देयम्	तैउ.	७०४
*भियो दधाना ह	असं.	३४४
भीमं वत मल	तब्राउ.	१३४७

भीषाऽस्मादग्निश्चे	तैऽ.	७२८	*भूतं भव्यं भवि	माऽ.	१५२०	भूम्यां देवेभ्यो द	असं.	५०७
भीषाऽस्माद्वातः प	,,	,,	भूतं भूतेषु च	मैऽ.	१६५७	भूम्यां मनुष्या जी	,,	,,
भीषोऽपि सूर्यः	परि.	१५४४	भूतं मा तस्माद्	असं.	५०४	भूम्याऽन्नमभिप	गोब्रा.	१२०
भीष्मो हि देवः स	तैऽ.	७२८	भूतं वदिव्ये भु	तैआ.	३५१	भूम्यै पर्जन्यप	असं.	५०८
भुजः करिष्यमा	तैब्रा.	३३७	भूतं ह प्रस्तोतै	,,	४६२	भूय आत्मानं स	गोब्रा.	३०३,
भुजिष्यं पात्रं नि	तैआ.	३३३	भूतं ह भव्यं आ	असं.	११०			३०५
भुव इति	असं.	५०९	भूतानां पतिर्गृ	शब्रा.	२९६	भूय इव ह त्वे	शब्रा.	५१५
भुव इति बाहू	शब्रा.	२९८	भूतानां ब्रह्म प्र	पैसं.	२५१	भूय एव तप	प्रऽ.	१४९०
भुव इति वायुः	वृऽ.	१२७४	भूतानां ब्रह्मा प्र	असं.	१९९	भूय एव मा भ	छाऽ.	९०१,
भुव इति वायौ	तैऽ.	६९७	* , , ,	,,	२५८	९०२, ९१३, ९१७, ९१८,		
भुव इति सामा	,,	६९९	भूतानि तं परा	वृऽ.	१०९५,	९१९, ९२०, ९२१, ९२३		
भुव इत्यन्तरि	,,	,,	भूतानि तं परा	,,	१२६१	भूयः सृष्ट्वा पत	श्वेऽ.	१६१३
भुव इत्यपानः	,,	,,	भूतानि तं परा	,,	१३०३	भूयश्च शरदः	ऋसं.	५१५
भुव इत्येव य	तब्राऽ.	१३३०	भूतानि तं परा	तब्राऽ.	१३६१,	भूयसीः शरदः	असं.	५१३
भुवः प्रपद्ये	तैआ.	२६५	भूतानि तं परा	,,	१३६३	भूयानरात्याः श	,,	१७५
भुवः प्रपद्येऽमु	छाऽ.	८१३	भूतानि तं परा	,,	१३५०	भूयानिन्द्रो नमु	,,	,,
भुवः स्वाहा	वृऽ.	१३०३	भूतानि तं परा	असं.	३११	भूयान्भवति	ऐऽ.	५६९
भुवः स्वाहेत्यग्नौ	,,	१३०२	भूतानि तं परा	मैऽ.	१६६३	भूयिष्ठा हि देव	तैसं.	२८१
भुवनस्य गोपा	तब्राऽ.	१३५५	भूतानि तं परा	नाऽ.	१६४८	भूयम् शरदः	असं.	५१३
भुवरिति यजु	छाऽ.	८४८	भूतानि तं परा	तब्राऽ.	१३७९	भूयोऽतप्यत्	गोब्रा.	३०३,
भुवरित्यन्तरि	कासं.	२८२	भूतानि तं परा	असं.	१७३	भूयो वै भवति	शब्रा.	२९३
* भुवस्त्वर्य स्वत	ऋसं.	४१४	भूतानि तं परा	तैऽ.	७०४	भूरमये च पृ	नाऽ.	१६३४
भुवोऽन्नं वायवे	नाऽ.	१६३४	भूतानि तं परा	कौऽ.	६५९	भूरमये पृथि	,,	,,
भुवो वायवे चा	,,	,,	भूतानि तं परा	तैआ.	१५९,	भूरन्नमये	,,	,,
भुवो वायवेऽन्त	,,	,,	भूतानि तं परा	३०६	भूरिं द्वे अचर	ऋसं.	१२१	
भूः पादाः	मैऽ.	१६५८	भूतानि तं परा	छाऽ.	९४१	भूरि चिदर्थः सु	,,	१२३
भूः प्रपद्ये	तैआ.	२६५	भूतानि तं परा	,,	,,	भूरिति वा अग्निः	तैऽ.	६९७
भूः प्रपद्येऽमुना	छाऽ.	८१३	भूतानि तं परा	मैऽ.	१६६२	भूरिति वा अयं	,,	,,
भूः स्वाहा	वृऽ.	१३०३	भूतानि तं परा	ऋसं.	२२९	भूरिति वा ऋचः	,,	,,
भूः स्वाहेत्यग्नौ हु	,,	१३०२	भूतानि तं परा	ऐऽ.	६२१;	भूरिति वै प्राणः	,,	,,
भूतं च भविष्य	असं.	४५०	भूतानि तं परा	कौऽ.	६८९	भूरितीमामस	कासं.	२८२
भूतं च भव्यं च	,,	१७५	भूतानि तं परा	असं.	५०९	भूरित्यग्नौ प्रति	तैऽ.	६९९
भूतं च यत्र भ	,,	२४७	भूतानि तं परा	वृऽ.	१२७९	भूरित्यग्भ्यः	छाऽ.	८४८
भूतं देवानाम	ऋसं.	१२३	भूतानि तं परा	गोब्रा.	१२०	भूरित्यग्भेदाद्भू	गोब्रा.	३०४
भूतं पृथक्पृथक्	कौऽ.	६८७	भूतानि तं परा	नाऽ.	१६३२	भूरित्येव ऋग्वे	ऐब्रा.	२८२,
भूतं प्रसन्नोता	ताब्रा.	४६१	भूतानि तं परा	जैब्रा.	२०२			५२१
भूतं प्राणोऽस्य सः	तब्राऽ.	१३४४	भूतानि तं परा	असं.	३७२	*भूरि द्वे अचर	मैसं.	१२१
भूतं भवद्भवि	माऽ.	१५२०	भूतानि तं परा	,,	४७७	भूरिर्दातारं स	ऋसं.	१२७
भूतं भविष्यत्प्र	शब्रा.	३१	भूतानि तं परा	असं.	५१०	भूर्जज्ञ उत्तान	,,	२७५
भूतं भविष्यदु	असं.	४४८	भूतानि तं परा	काऽ.	१३९६	भूर्भुवः सुवर	नाऽ.	१६३४
भूतं भविष्यद्भु	,,	४३१	भूतानि तं परा	असं.	४५२	भूर्भुवः सुवरा	,,	१६४३
भूतं भव्यं च गु	तैब्रा.	३१६,	भूतानि तं परा	छाऽ.	९४१	भूर्भुवः सुवरि	तैऽ.	६९७;
		३३७	भूतानि तं परा	ऋसं.	३५३	परि.	परि.	१५३६
			भूतानि तं परा	,,	२०६			

भूर्भुवः सुवरो	नाड.	१६३४	मघाद्यं श्रविष्ठा	मैड.	१६६०	मधु मेधया	नाड.	१६४५
भूर्भुवः सुवर्म	"	"	मज्जानः स्वरू	ऐड.	६१०;	मधु मेधवा	"	"
भूर्भुवः सुवश्च	"	"	मज्जा निधनम्	कौड.	६८७	मधु वक्ष्यामि	तैआ.	३५१
भूर्भुवः सुवश्छ	"	१६३५	मज्जानो ज्योतिः	छाड.	७८३	मधु वदिष्यामि	"	३५२
भूर्भुवः स्वः	मैसं.	२५२;	मज्जानो यजुषम	शब्रा.	५१८	मधु वाता ऋता	वृड.	१३०३;
	तब्राड.	१३६९	मज्जो नाश्रियादि	"	३६		नाड.	१६४५
भूर्भुवः स्वः तत् स	तब्राड.	१३८८	मज्जो नाश्रियादि	छाड.	७८३	मधुश्चुतः शुच	ऋसं.	१५६
भूर्भुवः स्वः प्रप	तैआ.	२६५	मटर्चाहतेषु	"	७६७	* " "	तैसं.	१५७
भूर्भुवः स्वः स्वाहा	जैब्रा.	४०५	मण्डलं प्रस्तावः	तब्राड.	१३३९	मध्यं छन्दसां वृ	ऐड.	५६६
भूर्भुवः स्वः स्वाहे	वृड.	१३०३	मण्डलमेवर्चां	शब्रा.	३२	*मध्यं तदस्य य	असं.	२३३
भूर्भुवः स्वरमौ	कासं.	२८२	मर्ति भगवो वि	छाड.	९४०	मध्यंदिन उद्गा	"	४७४
भूर्भुवः स्वरिति	"	"	मतिस्त्वेव विजि	"	"	मध्यंदिन उद्गी	छाड.	७८२
	तब्राड.	१३५२	मत्वेव विजाना	"	"	मध्यं प्रति राष्ट्र	शब्रा.	४७०,
भूर्भुवः स्वरित्यु	तब्राड.	१३६१	मत्साऽऽणीः	कौड.	६२७		४७१	
भूर्भुवः स्वस्त्रयो	ऐआ.	५१९	मत्सि वायुमिष्ट	ऋसं.	७३	मध्यं भुवस्ते	शिरड.	१६७८
भूर्भुवस्तत्सवि	तब्राड.	१३८८	मत्सि शर्धां मारु	"	७२,	मध्यं ह्येषामङ्गा	ऐड.	५६६
भूर्त्स आदिः	शिरड.	१६७८		"	७३	मध्यतः सप्तद	तैसं.	२८१
भूर्स्ते दधामि भु	वृड.	१३०९	मत्सि सोम वरु	"	७२	मध्यतोऽस्मा अन्नं	तैड.	७४०
*भूर्स्त्वयि दधामि	"	"	मथ्यमानं फेनो	शिरड.	१६८१	मध्यमेतदन	असं.	४३२
भृगुरिव वै स	गोब्रा.	३०३	मदध्यभूर्ऽन्मद	तब्राड.	१३४६	मध्यादाचामेति	छाड.	९२०
भृगुर्वै वारुणिः	तैड.	७३५;	मदादित्या अधि	तैआ.	४७९	मध्ये तु समानः	प्रड.	१५०१
	परि.	१५४४	मदीयं मन्ये नि	तब्राड.	१३६०	मध्ये वामनमा	काड.	१४२७
भेदाश्चैतेऽस्य च	मैड.	१६६८	मदीयं मन्ये भु	"	"	मध्वः पीन्वा सचे	ऋसं.	३५५
भेषजकृतो ह	छाड.	८४८	मदेम तत्र प	असं.	४५६	मध्वश्चाति	ऐड.	६१७
भोक्ता पुरुषोऽन्तः	मैड.	१६५९	मदेव प्राणो म	तब्राड.	१३७१	मन इति	शब्रा.	३२९
भोक्ता भोग्यं प्रेरि	श्वेड.	१५८३	मदगुष्टे पादं व	छाड.	८३३	*मन इति होवा	वृड.	११७१
*भोक्ता भोज्यं प्रेरि	"	"	मदगुहं सस्तेजो	मैड.	१६६४	मन उत्तररूपम्	कौड.	६८४
*भोक्तारं भोग्यं प्रे	"	"	मद्रेषु चरकाः	वृड.	११२९	मन उदकामत्	ऐड.	५३३
भोक्तृत्वाच्चैतन्यं	मैड.	१६६०	मद्रेष्ववसाम	"	११४६	मन उपवक्ता	कासं.	४५८
भोग्यो भवदथो	असं.	२५०	*मद्रेष्वसाम प	"	"	मन उपास्स्वेति	छाड.	९२९
भोज्या प्रकृतिः	मैड.	१६६०	मधु क्षरन्ति त	नाड.	१६४४	मन एतानि च	शिरड.	१६८०
*भो भो भल्लाक्ष भ	छाड.	८२३	मधु जनिष्ये	तैआ.	३५१	मन एनं तद्भू	वृड.	१०५३
भ्राजन्तो अन्नयो	असं.	१७१	मधु द्यौरस्तु नः	वृड.	१३०३;	*मन एव तत्प्रा	गोब्रा.	४६०
भ्राम्यल्लोको न जा	मैड.	१६६७		नाड.	१६४५	*मन एव तद्भू	वृड.	१०५३
भ्रुवोर्प्राणस्य च	जाड.	१६६९	मधु नक्तमुतो	वृड.	१३०३;	मन एव त्वच्छे	शब्रा.	३३८
भ्रुवां ललाटे च	ऋसंखि.	३०७		नाड.	१६४५	मन एव पिता	वृड.	१०५३
भ्रूणहत्यां वा ए	नाड.	१६४५	मधुमतीं देवे	तैआ.	३५१	मन एव पुरः	शब्रा.	१५३
			मधुमतीं स्थ म	असं.	५१०	मन एव मनु	मैड.	१६६५
			मधुमतिपन्वमा	"	३७०,	मन एव वत्सः	शब्रा.	४६६
				"	३७१	मन एव सन्ना	वृड.	११८५
			मधु मनिष्ये	तैआ.	३५१	मन एव सवि	गोब्रा.	११९;
			मधुमाचो वन	वृड.	१३०३;		तब्राड.	१३८७
				नाड.	१६४५	मन एव हिड्का	तब्राड.	१३३९
			मधुमेतु माम्	नाड.	१६४४	मन एवायत	वृड.	११८५

म

*मन एवास्मिन्स	कौड.	६६७	मनसा परीक्षया	तब्राउ.	१३८६	मनस्ने मयि जु	कौड.	६४३
*मन एवास्या ए	,,	६६८	मनसा प्रसूताः	शाब्रा.	४६०	*मनस्ते मयि द	,,	६५५
मन एवास्यात्मा	बृउ.	१०४२	मनसा वा अग्ने	ऐउ.	५९८;	मनस्वी भवती	शाब्रा.	३३०
मन एवेति	,,	१११९	मनसा वागभि	कौड.	६८४	मनीषया मनः	नाउ.	१६५१
मन एवैतदा	शाब्रा.	४६८	मनसा वाचा ह	गोब्रा.	१२०	मनीषिणो मन	ऋसं.	१८४;
मनः कला	छाउ.	८३३	मनसा वै वाचं	नाउ.	१६४३,	मनुः प्रजाभ्यः	तैब्रा.	२५९
मनः कायाग्निमा	मैउ.	१६६८	मनसा वै सद्मा	१६४४	जैब्रा.	३१६	छाउ.	७९९
मनः परस्तात्प्रा	कौड.	६४१	मनसाऽशंसन्	बृउ.	११८५	मनुरेवास्मिन्नो	मैसं.	१६६
मनःपूनिमुच्छि	मैउ.	१६५९	मनसा शान्तिः	शाब्रा.	३१९	मनुर्ह वमिष्ठा	तब्राउ.	१३५९
मनः पूर्वरूपम्	ऐउ.	५९८	मनसा सर्वाणि	नाउ.	१६५१	मनुष्यकृतस्यै	नाउ.	१६४६
मनः प्रजापति	तैब्रा.	२९०	मनसा सृष्टा आ	कौड.	६६७	मनुष्याः पशव	तैउ.	७१५
मनः प्रथमम	षब्रा.	३२२	मनसाऽस्तुवत	ऐउ.	५४०	मनुष्या यजुष्म	शाब्रा.	३२
मनः प्रयन्त्यभि	तैउ.	७३८	मनसा हि कामा	शाब्रा.	३१९	मनुष्येभ्यो हन्ता	नाउ.	१६४८
मनः प्राणस्य	मैउ.	१६६०	*मनसा हि प्रसू	बृउ.	११२३	मनुष्वच्वा निधी	ऋसं.	२४
मनः प्राणे प्रति	गोब्रा.	१२०	मनसा हि वेदे	गोब्रा.	४६०	मनीकृतेनाऽऽया	प्रउ.	१५००
मनः प्राविशत्	ऐउ.	५३४	मनसा ह्येव प	शाब्रा.	३०२	*मनोऽकृतेनाऽऽया	,,	,,
मनः श्रेयसि श्रे	तैब्रा.	३१७,	मनसि तृप्यति	मैउ.	१६६३	*मनोऽग्रणीर्भव	गोब्रा.	४६०
		३३७	मनसि हि सर्वे	छाउ.	८८१	मनो धूमः	शाआ.	४७३;
मनः संप्रहीता	ऐउ.	५७५	मनसि ह्ययमा	शाब्रा.	२९७	मनो ध्यायत्सर्वे	कौड.	६९१
मनः समुद्रस्य	ताब्रा.	३१६	*मनसीति	,,	३१८	मनो नरको वा	कौड.	६५९
*मनः सर्वैर्ध्यातैः	कौड.	६६६	मनसेति	बृउ.	११७६	मनो नाम देव	तब्राउ.	१३८७
मनः सर्वैर्ध्यानैः	,,	६६५,	मनसे स्वाहा प्र	कौड.	६३८	मनो निधनम्	कौड.	६४२
		६६६, ६८०	मनसैनं निर्भ	बृउ.	१३०२	मनो नियन्ता	छाउ.	७७७
मनः साम	छाउ.	७६३	मनसैवानुद्र	तब्राउ.	१३३२	मनो निविष्टम	मैउ.	१६५५
मनश्चन्द्रमाः स	तब्राउ.	१३५५	* , , ,	बृउ.	१२४४	मनो निविष्टम	असं.	३८९
मनश्च मन्तव्यं	प्रउ.	१५०८	*मनसैवाप्तव्यं	,,	१२४५	मनोऽनुकूले न	श्वेउ.	१५८८
मनश्च ह वै वा	शाब्रा.	३३७	मनसैवास्थान	,,	१२४४	मनोऽनुहृत्च	तब्राउ.	१३८६
मनश्चिन्मे हृद	ऋसं.	५९	मनसैवेदमा	शाब्रा.	४६८	मनोन्मनाय न	नाउ.	१६४१
मनसः काममा	ऋसंखि.	५०१,	मनसैषु ग्रहा	काउ.	१४२४	मनो ब्रह्मणे	गोब्रा.	४७२
		५१६	मनसोद्गात्रा दी	शाब्रा.	३१९	मनो ब्रह्मा	नाउ.	१६५१
मनसः प्राप्यते	मैउ.	१६५६	मनसो रेतः प्र	तब्राउ.	१३४९,	मनो ब्रह्मेति व्य	तैउ.	७३८
मनसः स्वराः	ऐउ.	६२१,		१३५२	मनो ब्रह्मत्युपा	छाउ.	८१७	
		६८९		तैआ.	१५८,	मनो भूत्वा सर्व	जैब्रा.	२०२
मनसश्च विज्ञा	नाउ.	१६५१	मनसो रेतो वाक्	३०५	मनोऽमः	छाउ.	७६३	
मनसश्चन्द्रमाः	ऐउ.	५८१	मनसो वशे स	ऐउ.	५३१	मनो ममेति च	शाआ.	३२२
*मनसश्चित्तमा	तैब्रा.	५१६	मनसो वाव भू	तैब्रा.	३३७	मनोमयं प्राण	शाब्रा.	२६१
मनसश्चित्तेदम्	,,	३१६,	मनसो वै त्वं कृ	छाउ.	९३०	मनोमयः प्राण	छाउ.	८०९;
		३३७	मनसो हि वाक् प्र	शाब्रा.	३३८	मुउ. १४६३; मैउ.	१६५५	
मनसस्तु परा	काउ.	१४१४	मनसो ह्येव ख	जैब्रा.	३१६,	मनोमयोऽयं पु	बृउ.	१२७४
मनसा चन्द्रम्	शाब्रा.	३३०	मनस्तृप्तं चन्द्र	३३७	३३७	*मनो मे त्वयि द	कौड.	६५५
मनसाऽचीयन्त	,,	३१९		तैउ.	७३८	मनो मे रेतो मे	तब्राउ.	१३६३
मनसा जातानि	तैउ.	७३८		शाआ.	४७२;	मनो मे वाचि प्र	ऐउ.	५९६,
मनसाऽच्चादेना	असं.	४५५		कौड.	६९०.	६२६; कौड.	६२७, ६८३	

मनो राजानमि	तैब्रा.	३३७	मन्त्राणां संकल्पद्वयै	छाउ.	९३०	मयि प्रतिष्ठाया	तब्राउ.	१३७१
मनो वा अग्रणी	शाब्रा.	४६०	मन्त्राश्च मामभि	गोब्रा.	५२२	मयि प्राणांस्त्वयि	बृउ.	१३०९
मनो वा अनु प्रा	जैब्रा.	४०३	मन्त्रेषु कर्माणि	छाउ.	९३०,	मयि भगः	ऐआ.	५१९
मनो वा असुरम्	तब्राउ.	१३६५		९३१; सुउ.	१४४८	मयि भर्गो मयि	शाब्रा.	४७०
मनो वा आयत	शाआ.	३३१;	मन्द्राग्नेत्वरी भु	असं.	५०९	मयि भुक्तिरिति	ऐआ.	५१९
	बृउ.	१२८७	मन्द्राऽभिभूतिः के	तैब्रा.	२६०	मयि भुजः	"	"
मनो वा ऋतमे	तब्राउ.	१३६६	मन्युं विश ईड	"	३४२	मयि महः	कौउ.	६८३
मनोवाक्कायक	नाउ.	१६४७	मन्युं विश ईळ	ऋसं.	"	मयि महान्	ऐआ.	५१९
मनो वाक् प्राणस्त्वे	कौउ.	६८४	मन्युः करोति ना	नाउ.	१६४६	मयि मेधां मयि	नाउ.	१६४५
मनो वाचं प्राणं	बृउ.	१०५०	मन्युः कर्ता नाहं	"	"	मयि यशः	ऐआ.	५१९
मनो वा चक्षुर	तब्राउ.	१३४३	मन्युः कारयिता	"	१६४७	मयि लोका मयि	तब्राउ.	१३६०
मनो वाव वाचो	छाउ.	९२९	मन्युः पशुः	"	१६५१	मयि श्रीः	ऐआ.	५१९
मनो वाव साम्नः	तब्राउ.	१३४१	मन्युनाऽच्चादेना	असं.	४५५	मयि श्रीर्मेयि य	ऐउ.	६२६
मनो विष्फुलिङ्गाः	जैब्रा.	४०४	मन्युरकार्षात्	नाउ.	१६४६	मयि श्लोकः	ऐआ.	५१९
मनो वै ग्रहः	बृउ.	११२३	मन्युरकार्षाञ्च	"	"	मयि सर्वं लयं	कौउ.	१६७६
मनो वै प्राणानां	शाब्रा.	२९७	मन्युरचेयिता	शाब्रा.	४७३;	मयि स्तोभः	ऐआ.	५१९
*मनो वै ब्रह्मा	गोब्रा.	४६०	मन्युरिन्द्रो मन्यु	कौउ.	६९१	मयि स्तोमः	"	"
मनो वै ब्रह्मेति	बृउ.	११८५	*मन्युर्भगो मन्यु	ऋसं.	३४२	मय्ययमग्निर्दे	तैआ.	२७०
मनो वै यज्ञस्य	"	१११८	मन्युर्ममेशा	तैब्रा.	"	मय्यहं तं परि	असं.	२०
*मनो वै यज्ञस्या	"	१११७	मन्युर्विश ईळ	शाआ.	३२२	मय्येव सकलं	कौउ.	१६७६
मनो वै रूपम्	शाब्रा.	३०२	मन्युर्हृदये	असं.	३४२	मरणमेवाव	छाउ.	८१६
मनो वै सम्राट् प	बृउ.	११८५	*मन्युऽहं मां तद्वि	तैब्रा.	२६०	मरीचयः पुत्राः	"	७९२
मनो वै सर्वे प्रा	शाब्रा.	२९७	"	कौउ.	६४७	मरीचयः पुरी	शाब्रा.	३३
मनोऽस्मात्सर्वाणि	कौउ.	६६७	"	"	६४९	मरीचयः स्वाय	तैआ.	४१२
*मनोऽस्य दिव्यं च	छाउ.	९८१	मन्यो वज्रिन्मभि	ऋसं.	३४२	मरीचयो विष्फु	जैब्रा.	४०४
मनोस्य दैवं च	"	"	मम द्विता राष्ट्रं	"	७६	मरीचीनां पद	तैआ.	२७२;
मनो ह वा आय	"	८५०	मम वशेषु ह	असं.	४८१	मरीचीरेव शु	शाब्रा.	४०८
मनो ह वाव य	प्रउ.	१५०६	मम वा एतत्	तब्राउ.	१३४५	मरीच्य इव वा	तब्राउ.	१३६६
मनो हिंकारः	छाउ.	७८१	मम वै त्वङ्मांस्सा	तैआ.	१५९,	मरुतां च विहा	तैआ.	२६५
मनो हि द्विविधं	मैउ.	१६६४	मम समिद्धेऽहौ	बृउ.	१३०७	मरुतो जगती	मैउ.	१६६६
मनो हि प्रजाप	शाब्रा.	२०४	ममानीकं सूर्य	ऋसं.	६०	मंहत्वां अस्तु ग	तैब्रा.	३४८
मनो हि प्रथमं	शाब्रा.	१५३	ममामुध्य ओम्	नाउ.	१६३५	मर्कट एनमा	ऐउ.	६१७
मनो हि ब्रह्म	छाउ.	९२९	मया चक्षुषा क	तब्राउ.	१३७१	मर्त्यं चामृतं च	बृउ.	१०८२
मनो हि रेतस्ये	जैब्रा.	३१६,	मया भूतान्यय	तैआ.	२६३	मर्त्यैः सिवन्मृत्युना	"	१०७९
		३३७	मया सो अन्नम	ऋसं.	२३८	मर्त्यानि हीमानि	ऐउ.	५४२
मनो हि लोकः	छाउ.	९२९	*मया सोऽन्नमत्ति	असं.	"	मर्त्या ह वा अग्ने	शाब्रा.	३०२
मनो हि विजिज्ञा	बृउ.	१०५३	मयाऽऽहुतयो हू	तब्राउ.	१३७१	मर्त्या ह्यासुः	"	४६४
मनो हृदये	तैब्रा.	२६०	मयि कीर्तिः	ऐआ.	५१९	मर्त्येनामृतमी	ऐउ.	५५९
मनो होच्चक्राम	शाआ.	३३१;	मयि गर्भः	"	"	मर्त्योऽयममृत	असं.	३९८
	छाउ.	८५१; बृउ.	१२८८	"	"	मलेन ह्येते जी	तब्राउ.	१३४७
मनो ह्यात्मा	छाउ.	९२९	मयि घोषः	कौउ.	६८३	मत्वं विभ्रती गु	असं.	५०९
मन्तारं विद्यात्	कौउ.	६७०	मयि तेज इन्द्रि	ऐआ.	५१९	मस्तिष्कमस्य य	"	२४५
मन्त्रः कल्पो ब्राह्म	गोब्रा.	५२४	मयि प्रतिष्ठाय	बृउ.	१३०६	मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रै	"	"
मन्त्रयन्ते दिवो	ऋसं.	२१०		तब्राउ.	१३७१	मह इति	शिरउ.	१६८१
							तैउ.	६९७

मह इति चन्द्र	तैउ.	६९७	महान्भोगः प्रजा	तैआ.	३३३	मां हवन्ते पित	ऋसं.	५९
मह इति ब्रह्म	"	"	महान्मही अस्क	असं.	१९९	मा गतानामा दी	असं.	३७८
	"	६९९	महान्महीभिः वा	ऋसं.	५७	मा घोषा उत्सुर्बु	"	४८१
मह इत्यन्नम्	"	६९७	महान्मह्या सम	तब्राउ.	१३५६	मा च ते ख्या स्म ती	तैआ.	४१२
मह इत्यादित्यः	"	"	महापुरुष इ	ऐउ.	६१३;	मा च्छित्था मा व्यधि	कौउ.	६५०
महः पुच्छं प्रति	"	७१७		कौउ.	६८८	मा छिदो मृत्यो मा	तैआ.	४१२;
महतः परम	काउ.	१४१४	महाभूमौ नचि	काउ.	१३९६		नाउ.	१६४६
महत्तसोमो म	ऋसं.	७३	महामनाः स्यात्	छाउ.	७८१	*मा छेत्ता मा व्यति	कौउ.	६५०
महत्तचामा गु	"	६२;	महामेधे वा म	ऐउ.	६१७;	*मा छेत्था मा व्यति	"	"
	कौउ.	६८७		कौउ.	६८९	माण्डिगौतमात्	वृउ.	१११४,
महत्सधस्यं म	असं.	५०७	महायज्ञा धार	ऋसंखि.	५०१			१२६५
महद्वितीतिहा	गोब्रा.	३०५	महाराज बृह	मैउ.	१६५४	माण्डव्यः कौत्सात्	"	१२११
महद्विवाऽभिप	तब्राउ.	१३५९	महाव्याहृतिभि	शाआ.	३३२	माण्डूकायनिर्मा	"	"
*महद्व तस्यौ र	शब्रा.	२४९	महिनासि बहु	तब्राउ.	१३६१	माडूकायनीपु	"	१३१०
महद्वयं वज्र	काउ.	१४३४	महिमान एवै	वृउ.	११६७	माण्डूकीपुत्रः शा	"	"
महद्वयं भुव	असं.	२४८,	महिमानममे	असं.	३९५	मा तन्तुच्छेदि व	ऋसं.	७५
		२४९	महिमा महिमा	मैउ.	१६६१	मातरिश्वा च प	असं.	४५०,
			महिम्न एषां पि	ऋसं.	३६१			४५१
महद्वै यक्षं त	गोब्रा.	३०३	मही अपारे र	"	६९	मातरि ह्येनमा	जैब्रा.	४०५
महर्षिमस्य गो	तैआ.	२६२	मही देव्युपसो	असं.	२५०	मातली कव्यैर्य	ऋसं.	३५६
महौ अपार ओ	ऋसं.	५५	महीमू पु मात	"	१६५	माता च ह्येवेदं	कौउ.	६८६
महा० इन्द्रो वज्र	नाउ.	१६३२	महीया मासान्य	तब्राउ.	१३४४	माता पितरभृ	ऋसं.	२०९
महास्ने महतो	असं.	१७२	महीयैवाऽस्यैषा	"	१३३८	मातापित्रोर्ब्रह्म	ऋसंखि.	४८६
महास्त्वेन्द्रो रक्ष	"	५०७	महे रणाय च	नाउ.	१६३३	माता पूर्वरूपम्	कौउ.	६८५;
महास्मनश्चतु	छाउ.	८२९;	महो देव इति	कब्रा.	१२		तैउ.	६९४
	तब्राउ.	१३५५	महो देवो मर्त्या	गोब्रा.	१२	मा तु वोचोऽहम	ताब्रा.	४०१
महादेव एन	असं.	४५२	मद्यं त्वष्टा वज्र	ऋसं.	६०	मातृदेवो भव	तैउ.	७०४
महादेव० सह	मैसं.	१३४	मद्यं दत्त्वा व्रज	असं.	५१३	मा ते मनस्तत्र	असं.	३७८
महानदीषूर्म	मैउ.	१६५६	मद्यं देवा उत	"	२४३	मा ते मनो मासो	"	३८६
महान् कीर्त्या	तैउ.	७३८,	मद्यं नमन्तां प्र	"	३३९	मा ते मर्म विमृ	"	५०८
७३९;	छाउ.	७८१,	मद्यं मेधां वद	ऋसंखि.	५०१	मा ते मूर्धा व्यप	वृउ.	११७५
		७८२,	मद्यमापो मधु	असं.	२४३	मातेव पुत्रान्न	प्रउ.	१५००
		७८४	मद्यमिन्द्रो निय	तैआ.	२७०	मा ते व्योम संदृ	ऐउ.	५२५;
महान्तं विभुमा	काउ.	१४०७,	मां धुरिन्द्रं नाम	ऋसं.	६०		कौउ.	६२७, ६८३
		१४२१	मां नरः स्वश्वा वा	"	७६	मा ते हास्त तन्वः	असं.	३८६
महान्तं ह्येतस्य	तब्राउ.	१३५५	मां प्रति मां प्रती	छाउ.	७७८	मात्रा बलम्	तैउ.	६९४
महान्तमस्य म	छाउ	८२९;	मांसं म उपन	कासं.	३१५	मात्रा मात्राः प्रति	शिखाउ.	१६८२
	तब्राउ.	१३५५	*मांसं मा उपन	मैसं.	"	*मात्राऽस०सर्गस्त्व	वृउ.	१२६४
महान्तो अस्यां म	असं.	१६१	मांसं लोहितमि	ऐउ.	६१०;	मा त्वया समरा	असं.	१३१
महान्तौ चरु स	तैब्रा.	४७८		कौउ.	६८७	मा त्वा ऋव्यादभि	"	३७९
महान् प्रजापतिः	ऐउ.	५२९	मा०समुद्गीयः	छाउ.	७८३	मा त्वाऽमयः परि	छाउ.	८३५
महान्प्रजया प	छाउ.	७८१,	मा०सान्यस्य शक	वृउ.	११७९	मा त्वा जम्भः संह	असं.	३७९
		७८२, ७८३, ७८४	*मा०सान्यस्य शकं	"	११७८	मा त्वा दभन् परि	"	१७१
महान्प्रभुर्वै पु	श्वेउ.	१५९७	मांसैर्हि सह म	तब्राउ.	१३४४	मा त्वा प्राणो बल	"	३७९
महान् भवति	तैउ.	७४०						
महान्भवति प्र	"	७३८,						
		७३९						

मा त्वा रुद्र चुक्रु	ऋसं.	१२५
मा त्वा वृक्षः स बा	असं.	३८७
*मा त्वा वृक्षौ संवा	तैआ.	॥
मा त्वा व्यस्तकेऽयो	असं.	३८०
माऽद्विर्ताया भूमे	तब्राउ.	१३४४
माध्यन्दिनायनः	वृउ.	१२६५
माध्वीर्गावो भव	॥	१३०३;
	नाउ.	१६४५
माध्वीर्नः सन्वोष	वृउ.	१३०३;
	नाउ.	१६४५
मा नः पश्चान्मा पु	असं.	५०८
मा नः प्रजा५ रीरि	तैआ.	४१३
मा नः स्तेनेभ्यो ये	ऋसं.	१९०;
	कौउ.	६८६
मानवः	छाउ.	८४९
मानवान्भवति	तैउ.	७४०
मानसं वै प्राजा	नाउ.	१६५१
मानसामिति वि	॥	१६५०
मानसा ऋषयः	॥	१६५१
मानसे च विली	मैउ.	१६६२
मानसेन मन	नाउ.	१६५१
मानसे सर्वं प्र	॥	॥
मा नस्तोके तन	तैसं.	१४६;
शिउ.	१५७४;	श्वेउ.
	नाउ.	१६४६
मानुषं च स्वाध्या	तैउ.	७०२
मानुषस्य भग	छाउ.	८५७
मानुषाणां ब्रूही	वृउ.	१२९४
मानेनेव तस्मिन्	ऋसं.	७८
मा नो गोषु पुरु	असं.	१३२
मा नो भवान्बहो	वृउ.	१२९४
मा नोऽभि मांस्त न	असं.	१२९
मा नोऽभि ह्य मत्स्यं	असं.	१३१
मा नो महान्तमु	॥	१३३;
तैसं.	१४६;	शिउ.
	नाउ.	१६४६
मा नो रुद्र तक्म	असं.	१३२
मा नो वधीः पित	तैसं.	१४६;
शिउ.	१५७४;	नाउ.
	नाउ.	१६४६
*मा नो वीरान् रुद्र	शुसं.	१४६
मा नो हासीद्विच	तैआ.	३१७
*मा नो हासीन्मेत्थि	कासं.	१६८
मा नो हिंसीः पित	असं.	१३३

मा नो हिंसीजनि	ऋसं.	१९७
मा नो हिंसीज्जात	नाउ.	१६३१
मा नो हिंसीरधि	असं.	१३१
मा नो हेतिर्विव	ऋसं.	३५४
माऽन्त स्थुर्नो अरा	असं.	१७०
मा पुत्ररोद५ रु	छाउ.	८१३
*मा पुत्ररोदनं	॥	॥
मा पृथन्तो दुरि	ऋसं.	३५३,
	४७५	
मा प्र गाम पथो	असं.	१७०
मा भगव उत्क	वृउ.	१२८८
*मा भेत्था मा व्यति	कौउ.	६५०
*मा भैर्मा रौड् मा	कासं.	१४५
मा म इदं मोषे	मैसं.	१६६
मामदन्त्यहम	तैआ.	४७९
मा मद्देदोऽधि वि	तैआ.	५२०
मा मा५ श्रीश्च हीश्च	॥	॥
मा मा५ म	॥	३५०
मा मा वोचन्नरा	असं.	८६
मा मा हासीघाथि	॥	१६८
*मा मा हिंसीजनि	शुसं.	१९७
मामिह ईहेते	तब्राउ.	१३४६
मामु स देवाना	॥	१३४५
मा मे बलं विवृ	तैआ.	४१२
मामेव विजानी	कौउ.	६५७
मा मैतस्मिन्संवा	वृउ.	१०६७,
	१०६८,	१०६९,
	१०७०	
मामैतस्मिन्संवा	कौउ.	६७५,
	६७६,	६७८
मा मोहमापद्य	प्रउ.	१४९७
मायां तु प्रकृ	श्वेउ.	१६०६
मायाः कृष्वानः प	तब्राउ.	१३४३
मायाभिर्होष ए	॥	॥
मायाम् तु यज्ञि	ऋसं.	१०१
माया ह जज्ञे मा	असं.	१६१
मायेत्यसुराः	शब्रा.	११७
मायेत्सा ते यानि	ऋसं.	६१,
	६७,	२९९
मारुतस्नुरसि	मैउ.	१६६८
मा वर्षो अस्मद	ऋसं.	९२
मासां विधानम	॥	६४
मासानिति	तब्राउ.	१३६२
मासार्थमासावे	॥	१३३३

मासास्तृता अर्ध	शाआ.	४७२;
	कौउ.	६९१
मासेभ्यः पितृलो	छाउ.	८६३;
	वृउ.	१३००
मासेभ्यः संवत्स	छाउ.	८४०,
	८६१	
मासेभ्यो देवलो	वृउ.	१२९८
मासो वै प्रजाप	प्रउ.	१४०५
मा स्र प्राणमति	तैआ.	२६
माऽस्माकं प्राणेन	कौउ.	६४७,
	६४९	
माऽहं प्राणेन मा	असं.	४७७
माऽहमृषीन्मन्त्र	तैआ.	३५१
माहाचमस्यः प्र	तैउ.	६९७
मा हिंसीस्तत्र नो	असं.	५०८
माहित्थिर्वात्मक	वृउ.	१३११
*माहित्थिर्वात्मक	॥	॥
मित्र ईक्षमाण	असं.	४३४
मित्रं कृणुध्वं ख	ऋसं.	४८५
मित्रभूतिलौहि	तब्राउ.	१३६७
मित्रमेव भव	तैआ.	२८७
मित्रश्च तुभ्यं व	ऋसं.	९
मित्रश्च वरुण	असं.	४३४
मित्रस्य ह्येतद्	मैसं.	४५९
मित्रस्याहं चक्षु	॥	५१५
मित्रावरुणयो	असं.	४४१
मित्रावरुणाव	तैआ.	२६६
मित्रावरुणौ प	मैउ.	१६६६
*मित्रो नो अत्र च	असं.	१९४
मित्रो यत्र वरु	ऋसं.	॥
मित्रोऽसि सुशेवः	मैसं.	४५९
मिथुनमृक्सामे	तब्राउ.	१३६५
मिथुनान्मिथुन	छाउ.	७८२
मिथुनी भवति	॥	॥
मिथुनेन प्रजाम्	गोब्रा.	११९
मिथुनेन प्रिये	शब्रा.	११५
मित्थौ चरित्वा प्र	तैआ.	२६५
मिनोति ह वा इ	माउ.	१५२८
मित्थ५ ह्येतत्	वृउ.	१०४७
मीढुष्टम शिव	तैसं.	१४७
मीमांसध्वमिति	तब्राउ.	१३६४
मीमांसस्वेति	॥	॥
मीलित इवाश्न	ऐउ.	५३३
*मुखं किमस्य किं	शुसं.	२३३
मुखं किमस्य कौ	ऋसं.	॥

*मुखं किमस्यासी	शुसं. २३३	मृतं जीवं च य	तैआ. २६४	मेघे वा वियुतं	ऐउ. ६१७
मुखं प्रतीकं मु	बृउ. १०४७	मृतमितरमा	मैसं. १६६	मेघो जायते स	छाउ. ७७५,
मुखः ह्यस्याः सम्रा	,, १२८४	मृतस्य वावैष	तब्राउ. १३५७		७८२
मुखं ह्येतदग्ने	शब्रा. २९३	मृत्तिके देहि मे	नाउ. १६३२	मेघो भूत्वा प्रव	,, ८६५
मुखतस्ने प्रजा	असं. ४३९	मृत्तिके प्रतिष्ठि	,, ,	मेघो यत्संभव	,, ७७६
मुखतोऽस्मा अन्नं	तैउ. ७४०	मृत्तिके ब्रह्म द	,, ,	मेलि मदन्तं पि	ऋसं. ११३
मुखतो ।ह सष्टः	ताब्रा. २८३	मृत्तिके हन मे	,, ,		ऐउ. ६२६
मुखतो ह्यसृज्य	तैसं. २८१	मृत्यवे स्वाहा	,, ,	मेदं ते नमोऽक	तब्राउ. १३४८
मुखमाहवनी	शब्रा. ४५९	मृत्यव ह स आ	शब्रा. ३२	मेधया मनीषा	नाउ. १६५१
मुखादिन्द्रश्चाग्नि	ऋसं. २३३	मृत्यावमृतमा	,, ११३	मेधया हि तप	बृउ. १०४६
मुखाद्धेनमसृ	जैब्रा. २८६	मृत्युं यजे प्रथ	तैआ. ४१३	मेधां को अस्मिच्च	असं. २४५
मुखाद्वाक्	ऐउ. ५८१	मृत्युं शरणं प्र	छाउ. ७८६	मेधां देवीं मन	ऋसंखि. ५०१
मुखाय ते पशु	असं. १२९	मृत्युः प्राध्वंसनः	बृउ. १११४,	मेधां स इन्द्रो द	नाउ. १६४५
मुख्यमाकाशमु	शब्रा. ४१		१२६६	मेधां मह्यमङ्गि	ऋसंखि. ५०१
मुख्या अप उप	,, ४२	मृत्युः शमिता	ताब्रा. ४६१	मेधां मे अश्विना	नाउ. १६४५
मुग्धा देवा उत	असं. ४५७	मृत्युनैवेदसा	बृउ. ९९१	मेधां मे अश्विनौ	ऋसंखि. ५०१
मुञ्चन्तु तस्मात्त्वां	,, ३८५	मृत्युप्रोक्तां नचि	काउ. १४४०	मेधां मे वरुणो	,, ,
मुनयो वाग्वद	शिरउ. १६८०	मृत्युरपानो भू	ऐउ. ५८३	मेधां सायं मेधां	शब्रा. ३४५
मुहुर्दीक्षा ह्यास	तब्राउ. १३४१	मृत्युरस्याऽऽत्मा भ	बृउ. ९९९	मेधां सूर्यस्य र	,, ,
मुहूर्ताः प्रेष्या अ	तैब्रा. ४६३	मृत्युरिति वा अ	काउ. ६७७;	मेधा देवी शुष	नाउ. १६४५
*मुहूर्ता यष्टिहाः	काउ. ६३३		बृउ. १०७०	मेधा मनीषे मा	तैआ. ५२१
मुहूर्ता यष्टिहाः	,, ,	मृत्युरिति होवा	बृउ. ११७२	मेधामहं प्रथ	असं. ३४४
मुह्यन्ति दिशो न	तब्राउ. १३५४	मृत्युरीशे द्विप	असं. ३८४	मेधामिन्द्रश्चाग्नि	ऋसंखि. ५०१
मुह्यन्त्वन्ये अभि	ऋसं. १८५	मृत्युर्धावति प	तैउ. ७२८	मेधावी राजा स	बृउ. १२१७
मुकान्दि पश्यामः	काउ. ६६४	मृत्युर्मा मारया	तैआ. २६४	मेधाव्यहं सुम	ऋसंखि. ५०१
*मूर्तं चामूर्तं च	बृउ. १०८२	मृत्युर्यमस्यासी	असं. ३८७	मेहन्ति बहुलां	तैआ. २७०
मूर्तं चैत्रामूर्तं	,, ,	मृत्युर्यस्योपसे	काउ. १४०९	मैतं पन्थामनु	असं. ३७८
मूर्द्धा ते विदितो	शब्रा. ४१	मृत्युर्वा असत्स	बृउ. १०१४	मैत्रेयीति होवा	बृउ. १०९०,
मूर्द्धा ते व्यपति	तैब्रा. २६;	मृत्युर्विवस्वन्तं	शब्रा. ११३		१२५९
	छाउ. ८७४	मृत्युर्वै तमो ज्यो	बृउ. १०१४	मैनमग्ने वि द	ऋसं. ३५९
मूर्द्धा त्वा एष वै	शब्रा. ४१	मृत्युस्तदभव	तैब्रा. ४६३	मैव नोऽतिप्राक्षी	तब्राउ. १३४८
मूर्द्धा त्वाऽहास्यद्य	,, ,	मृत्योः स मृत्युं ग	काउ. १४२४	मोक्षमन्त्रस्त्रयी	जाउ. १६७०
मूर्धा वेष आत्म	छाउ. ८७४	मृत्योः स मृत्युमा	बृउ. १२४४;	मोक्षलक्षणमि	मैउ. १६६१
मूर्धा दिवो नाभि	ऋसं. २		काउ. १४२३	मोघमज्ञं विन्द	ऋसं. ४७६;
मूर्धानमस्य सं	असं. २४५;	* , ,	काउ. १४२४	मोक्कमीरिति	तैब्रा. ४७९
	शिरउ. १६८१	मृत्यो मर्त्याय ह	तैब्रा. ४६१	मोदाः प्रमोदा अ	छाउ. ८५१
मूर्धा भुवो भव	ऋसं. १०१	मृत्योरात्मा विव	शब्रा. ११३	मोदाः प्रमोदा अ	कासं. ३१४
मूर्धा ममेत्याका	शाआ. ३२२	मृत्योर्माऽमृतं ग	बृउ. १०१४	*मोदाम शरदः	तैआ. ५१५
मूर्धा हृदये	तैब्रा. २६०	मृत्वा पुनर्मृत्यु	तैआ. ४११	,, ,	,, ५२०
मूर्धनो देवस्य वृ	असं. २५१	मृदब्रवीत् काहं	शब्रा. २९६	मोदो दक्षिणः प	तैउ. ७१८
मृडा जरित्रे रु	तैसं. १४६	मृदाप इति त्री	,, ३५	मोपाराम जिह्व	असं. १३१
मृडा नो रुद्रोत	,, १४५	मृदु श्लक्ष्णं वायोः	छाउ. ७८५	मो षु णः सोम मृ	ऋसं. ३६४
*मृळा च नो अधि	ऋसं. ,	मृदत्सं स्थमय	मैउ. १६६२	मो षु पणौरभ्ये	असं. ८६
मृळा जरित्रे रु	,, १२७	मृषा वै किल मा	काउ. ६७८	*मौषिकीपुत्रो हा	बृउ. १३१०
		*मृषा वै खलु मा	,, ,		

म्लोचन्ति हान्या दे	वृउ.	१०६३	
*म्लोचन्तीहान्या दे	"	"	
य आकाशे तिष्ठ	वृउ.	११५२	
य आक्षिपन्ति पृ	असं.	३८९	
य आण्डकोशे भु	तैआ.	२६९	
य आत्मदा बल	असं.	१७४;	
	ऋसं.	१९५; शिउ.	१५७४
*य आत्मनि तिष्ठ	वृउ.	११५३	
य आत्माऽपहत	छाउ.	९६९;	
	परि.	१५६४	
य आदित्यं क्षत्रं	असं.	४५४	
य आदित्यः स्वर ए	तब्राउ.	१३६५	
य आदित्ये तिष्ठ	वृउ.	११५२	
य आदित्ये स प्र	तब्राउ.	१३३७	
य आदित्ये सोऽति	"	"	
य आधाय चक	ऋसं.	४७५	
य आरण्याः पश	तैआ.	२७३	
य आविवेश द्वि	असं.	१९	
*य आविवेश भु	कासं.	"	
य आविवेशोष	असं.	"	
*य आविवेशौष	मैसं.	"	
य आसां प्रियमु	जैब्रा.	३२८	
य आस्वन्क आश	ऋसं.	८३	
य आहुतिमत्य	असं.	२५०	
य आहुतीरत्य	तब्राउ.	१३३९	
य इत्तद्विदुस्त	तैब्रा.	२७	
य इदं त्रिसुप	नाउ.	१६४५	
य इदं दीर्घं प्र	ऋसं.	८९	
*य इदं मध्वदं	काउ.	१४२२	
य इदं विश्वं भु	असं.	१७३	
य इदं शिवसं	शिउ.	१५७४	
य इदमथर्व	शिरउ.	१६८१	
य इन्द्रेण सर	असं.	१९	
य इमं त्रिसुप	नाउ.	१६४५	
य इमं परमं	काउ.	१४२०	
य इमं मध्वदं	"	१४२२	
य इमं यज्ञं म	असं.	४५७	
य इमं शिवसं	ऋसंखि.	३३६	
य इमामद्भिः प	कौउ.	६९२	
य इमा विश्वा जा	ऋसं.	९९	
य इमा विश्वा भु	असं.	१२८;	
	ऋसं.	१८३	
य इमा विश्वा भू	शिरउ.	१६८१	

य इमे उभे अ	ऋसं.	९९
य इमे यावापृ	असं.	१७३
* " " "	कासं.	१९६
य ई चकार न	ऋसं.	२२०
य ई चिकेतद	"	१४
य ईशानः स भ	शिरउ.	१६७९
य ईशे अस्य ज	श्वेउ.	१६२५
य ईशे अस्य द्वि	ऋसं.	१९५;
	शिउ.	१५७४;
	श्वेउ.	१६०८
य ईशे महतो	शुसं.	२५२
य उ एनं नाऽऽरा	तब्राउ.	१३४८
य उ एनं हिन	वृउ.	१०३६
य उ एनत्तिर्य	तब्राउ.	१३४०
य उ एनत्प्रत्य	"	"
य उ एनत्सम्य	"	"
य उ चैनमेवं	तैब्रा.	४०७
य उत्तरतः स	शिरउ.	१६७९
य उ त्रिधातु पृ	ऋसं.	८९
य उदगान्मह	तैआ.	५२०
य उदानेनोदा	वृउ.	११३२
य उ वैके चान	शाब्रा.	३४७
य उ ह वा अप	तब्राउ.	१३५९
य उ ह वा अब	"	१३५६
य उ ह वा एवं	"	१३५३,
		१३७२
य उ हैवंविदं	शाब्रा.	१५४;
	वृउ.	१००९
य उ हैवंविदा	वृउ.	१०६१
य ऊष्माणः स प्रा	ऐउ.	५५४
य ऋतवस्ते प	नाउ.	१६५२
य एकः स रुद्रः	शिरउ.	१६७९
*य एकधनम	कौउ.	६४२
य एको जालवा	श्वेउ.	१५९२
य एकोऽवर्णो ब	"	१६००
*य एको वर्णो ब	"	"
य एतं देवमे	असं.	१७४,
		१७५
य एतदेवं वि	छाउ.	७७८
य एतद्विदुर	श्वेउ.	१५९६
य एतत्सर्वम	शाब्रा.	३३०
य एतमेवं वि	छाउ.	८३७,
		८३८

य एतस्य पथो	तैआ.	४१३	
य एतान्येवं वि	छाउ.	७५६	
य एतामेवं ब्र	"	७९९	
य एतामेवन् स	"	७७३	
य एतावन्तश्च	तैसं.	१४९	
*य एतावन्तो वा	कासं.	"	
*य एनं यजमा	प्रउ.	१५०६	
य एनं वेद स	तैआ.	३३२	
य एनमस्मिँल्लो	तब्राउ.	१३५४	
य एवं तपसो	तैब्रा.	२८९	
य एवं देवानां	"	२९०	
य एवं ब्रूयाद	वृउ.	१२८२	
य एवं विदुषे	असं.	४३५	
य एवंविदो ब्रा	वृउ.	१३१०	
य एवं विद्यात् स	असं.	४३५	
य एवं विद्वान	तैसं.	२८१;	
	शाआ.	४७२, ४७३, ६९०,	
		६९१; वृउ.	१३०५
य एवं विद्वानु	नाउ.	१६५२	
य एवं विद्वाने	वृउ.	११८२,	
		११८४, ११८५, ११८६	
य एवं विद्वान्पु	शाब्रा.	४७०	
य एवं विद्वान्प्रा	प्रउ.	१५०४	
य एवं विद्वान्स	शाब्रा.	४७१	
य एवं वेद	तैब्रा	२९;	
	शाब्रा.	४३; शाब्रा. १५१; तैआ.	
		१५९, १६१; तैब्रा. २८७,	
		२८९, २९०; तैआ. ३०६;	
		तैब्रा. ४०६; तैआ. ४११; शाब्रा.	
		५१८; ऐउ. ५३३, ५४२,	
		५५४; तैउ. ७३२, ७४०;	
		नाउ. १६५०	
* " " " "	वृउ.	१२७४	
*य एवं वेद प्र	तैउ.	७३८	
य एवं वेद ब्र	नाउ.	१६५१	
य एवं वेद य	ऐउ.	५४२;	
	कौउ.	६८७	
य एवं वेदैत	तैसं.	२८२	
*य एव ब्रूयाद	वृउ.	१२८२	
य एवमहोरा	तैब्रा.	२९०	
य एवमेतच्छ	ऐउ.	५३७	
य एवमेतत्स	"	५३५	
य एवमेतद्रे	शाब्रा.	४७०	

य एवमेतन्म	बृउ.	१२७१	य एवैष च्छाया	कौउ.	६७७	यं जोहवीमि पृ	असं.	१९
य एवमेतां च	ऐउ.	५४०	य एवैष दक्षि	"	६७८	यं ज्ञात्वा मुच्यते	काउ.	१४३६
य एवमेतां प्रा	"	५३९	य एवैष प्राज्ञ	"	६७७	यं ते वहन्ति ह	असं.	१७१
य एवमेतां म	"	५४०	य एवैष वायौ	"	६७६	यं त्वा पृषती र	"	१६९
य एवमेतां वा	"	५३९	य एवैष विद्यु	"	" ;	यं त्वा होतारं र	"	२०
य एवमेतां श्रो	"	५४०		तन्नाउ.	१३३७	यं देवासोऽजन	ऋसं.	१०१
य एवमेता म	तैउ.	६९४	य एवैष शब्दः	कौउ.	६७७	यं द्विध्यादमाव	बृउ.	१२८३
य एवमेषां लो	तैन्ना.	२८९	*य एवैष शब्दे पु	"	"	यं यं जजान स	तैआ.	३३३
य एवापरिमि	असं.	४५४	*य एवैष शरी	"	"	यं यं लोकं मन	मुउ.	१४८१
य एवायं काम	बृउ.	११७१	य एवैष शारी	"	"	यं यमन्तमभि	छाउ.	९५५,
य एवायं चक्षु	तन्नाउ.	१३८६	य एवष सव्ये	"	६७८			९५९
य एवायं छाया	बृउ.	१०७०,	य एवैष स्तन	"	६७६	यं वातः परि शु	असं.	१७०
		११७२	य एवैषोऽम्रौ पु	"	"	यं स्मा पृच्छन्ति कु	ऋसं.	४६
य एवायं दिक्षु	"	१०७०	य एवैषोऽप्सु पु	"	"	यं ह्येनमहं प्र	गोन्ना.	११८
य एवायं पुत्र	"	११७२	*य एष आकाश	तैउ.	७२५	यः ककुभो निधा	ऋसं.	८३
य एवायं मुख्यः	छाउ.	७५९	य एष आदित्ये	छाउ.	८३६	यः कर्ता सोऽयं वै	मैउ.	१६५४
य एवायं यन्तं	बृउ.	१०७०	य एष एगस्मि	बृउ.	१२७३,	*यः कश्चन शब्दो	"	१६५५
य एवायं वायौ	"	१०६९			१२७४	यः कश्च शब्दो वा	बृउ.	१०५०
* " "	"	११७१	य एष चन्द्रम	छाउ.	८३७	यः कारणानि नि	"	"
*य एवायं विद्यु	"	१०६८	य एष तपति	तैन्ना.	२६;	यः कालं ब्रह्मेत्यु	श्वेउ.	१५७६
य एवायं शरी	"	११७०		ऐउ.	५४४	यः पथः समन्तु	मैउ.	१६६०
य एवायं श्रौत्रः	"	११७१	य एष तपत्य	मैउ.	१६५९	यः परस्य प्राणं	मैसं.	१५०
य एवायमम्रौ	"	१०६९	य एष विद्युति	छाउ.	८३७	यः परेणाऽऽदित्यम्	असं.	१७३
* " "	"	११७२	य एष सुमेधु	काउ.	१४२९	यः पाथिवाग्नि त्रि	तैन्ना.	४०६
य एवायमप्सु	"	१०६९,	य एष स्तन इ	तैउ.	६९९	यः पाथिवाग्नि वि	ऋसं.	९०
		११७२	य एष स्वप्ने म	छाउ.	९७५		"	९७;
य एवायमाका	"	१०६८	*य एष सुमेधु	काउ.	१४२९		तैसं.	१११
य एवायमात्म	"	१०७०	य एषोऽक्षिणि पु	छाउ.	८३९,	*यः पुनरर्धच	प्रउ.	१५११
य एवायमाद	"	१०६९,			९७१	यः पुनरेतं त्रि	"	"
		११७२	य एषोऽम्रेरिव	कौउ.	६८९	यः पुष्पिणीश्च प्र	ऋसं.	५०
य एवासावादि	"	१०६७,	य एषोऽनन्तोऽव्य	जाउ.	१६६९	यः पूर्वं तपसो	काउ.	१४२२
		११७१	य एषोऽनर्हृदय	बृउ.	१२४६	यः पूर्वस्य	तैउ.	७१५,
य एवासौ चन्द्रे	"	१०६८	य ओंकारः स प्र	शिरउ.	१६७९			७१६, ७१७, ७२०
* " "	"	११७१	*य ओजोदा बल	कासं.	१९५	यः पृथिवीं बृह	असं.	४५३
य एवासौ तप	छाउ.	७५४	य ओषधेषु यो	श्वेउ.	१५९१	यः पृथिवी व्यथ	ऋसं.	४५
य एवासौ विद्यु	बृउ.	१०६८	यं कामं कामय	छाउ.	९५९	यः पृथिव्यां तिष्ठन्	बृउ.	११४८
*य एवैक इहो	श्वेउ.	१५९२	यं कामं कामये	बृउ.	१०१४	यः प्रजानामेक	तैआ.	४१३
य एवैक उद्भ	"	"	यं कामये तंत	ऋसं.	२३८	यः प्रणवः स स	शिरउ.	१६७९
य एवैकशत	शब्ना.	५१७	यं क्रन्दसी अव	"	१९६;	यः प्राज्ञो विधर	मैउ.	१६६६
य एवैनं पुर	कौउ.	६४१	यं क्रन्दसी संय	शुसं.	२५६	यः प्राणः स वरु	गोन्ना.	३३१
य एवैनमुप	तन्नाउ.	१३५३	यं गन्धर्वा अप्स	ऋसं.	४६	यः प्राणः स वायुः	ऐउ.	५६१
य एवैष आका	कौउ.	६७६	यं च वयं द्विधमः	कौउ.	६४७,	यः प्राणतो निमि	ऋसं.	१९५;
य एवैष आद	"	६७७			६४९	यः प्राणे तिष्ठन्प्रा	शिउ.	१५७४
य एवैष आदि	"	६७५					बृउ.	११५३
य एवैष चन्द्र	"	"						

यः प्राणेन द्यावा	असं.	१७३	यक्षमाणो वै भ	छाउ.	८७३	यच्छ्रियं समुदौ	शब्रा.	२९१
यः प्राणेन प्राणि	वृउ.	११३२	यक्ष्म गजन्मा मां	तब्राउ.	१३६८	यच्छ्रेयसो देवा	बृउ.	१०२१
यः प्राणे भोगस्तं	,	१००४	यच्च किञ्चिज्जग	नाउ.	१६३७	यच्छ्रोत्रं स विष्णुः	गोब्रा.	३३१
यः शतरुद्रीय	कौउ.	१६७६	यच्चक्षुः स बृह	गोब्रा.	३३१	यच्छ्रोत्रेण न शू	तब्राउ.	१३७६
यः शब्दस्तदोमि	मैउ.	१६६२	यच्चक्षुरध्वशे	शब्रा.	२०३	यच्छ्रोत्रेण शृणो	,	१३४२
यः शम्बरं पर्य	असं.	४८	यच्चक्षुषा न प	तब्राउ.	१३७६	यजमानब्राह्म	असं.	४७३
यः शम्बरं पर्व	ऋसं.	४७	यच्चक्षुषा पश्य	,	१३४२	यजमानस्य हि	तब्राउ.	१३३६
यः शर्धते नानु	"	"	यच्चत्वार आत्मा	शब्रा.	२९२	यजमानो रज	गोब्रा.	५२४
यः शश्वतो मह्ये	"	"	यच्चन्द्रमसि त	तब्राउ.	१३४२	यजमानो हवि	मैउ.	१६६४
यः श्रद्धाति स	असं.	१३३	यच्चन्द्रमसो रो	छाउ.	८९८	यजस्वयजस्वे	शब्रा.	४६९
यः श्रमात्तपसो	,	२४८	यच्चन्द्रमा नक्ष	शब्रा.	३८	यजस्वैव	"	"
*यः श्रोत्रं संश्राव	कौउ.	६४०	यच्च पुत्रः पुत्रा	गोब्रा.	३०३	यजुः	वृउ.	१२७९
यः श्रोत्रे तिष्ठच्छ्रो	वृउ.	११५३	यच्च प्राणति प्रा	असं.	४४९	यजुर्निगदो वृ	ऐउ.	५६८
यः श्रोत्रे भोगस्तं	"	१००४	यच्च माण्डूकेयी	ऐउ.	६२३;	यजुर्मय ऋङ्म	कौउ.	६४६
यः श्वेतौ अधिनि	ऋसं.	८३	यच्च वृत्वाऽतिष्ठं	गोब्रा.	३०४	यजुर्वेद एव	छाउ.	७९४
यः स त्रयोदशो	शब्रा.	३६,	यच्च स्वभावं प	श्वेउ.	१६१३	यजुर्वेदं क्षत्रि	तैब्रा.	४९३
		३७	यच्च स्वाध्यायम	कौउ.	६९०	यजुर्वेदस्योष्मा	ऐउ.	६२१;
य सप्तरश्मिरि	तब्राउ.	१३३८	यच्चान्यत्त्रिकाला	माउ.	१५२०	यजुर्वेदे तिष्ठ	तैब्रा.	४९३
यः सप्तरश्मिवृ	ऋसं.	४७;	*यच्चामिद्रोद्गोहा	असं.	१५५	यजुर्वेदो गीः	छाउ.	७५६
	तब्राउ.	१३३८	यच्चार्स्येहास्ति य	छाउ.	९५४	यजुर्वेदो महः	शब्रा.	४७०
*यः समानेन स	वृउ.	११३२	यच्चित्तस्तन्मयो	मैउ.	१६६४	यजुषः सायुज्य	वृउ.	१२७९
यः सर्वं यस्य चि	ऋसंखि.	३३६	*यच्चित्तस्तेन स	प्रउ.	१५०३	यजुषां वायुर्दे	गोब्रा.	५२४
यः सर्वज्ञः सर्व	मुउ.	१४४८,	यच्चित्तस्तेनैष	"	"	यजुषामैव त	छाउ.	८४८
	१४६३ ; परि.	१५७०	यच्चैतत्पुष्कर	शब्रा.	११४	यजुषा वायुम्	गोब्रा.	११९
यः सर्वव्यापी सो	शिरउ.	१६७९	यच्छं च योश्च म	तैसं.	१४५	यजुष्मस्यो ज्योतिः	शब्रा.	५१८
यः सर्वान्देवानी	"	"	यच्छन्नोति तस्मा	शब्रा.	३१८	यजुषि तिरश्ची	कौउ.	६३६
यः सर्वान्प्राणान्सं	"	"	यच्छतं द्यावः स्युः	तब्राउ.	१३३९	यजूष्यापः	नाउ.	१६४३
यः सर्वेषु भूते	वृउ.	११५३	यच्छन्दोभिरात्मा	ऐउ.	६२३	यजूष्येव मधु	छाउ.	७९४
*यः सर्वेषु यज्ञे	"	११५२	यच्छन्दोभिश्छन्न	ऐउ.	५३७	यजूदरः साम	कौउ.	६३८
*यः सर्वेषु लोके	"	"	यच्छयानः पर्या	असं.	५०८	यजेऽयश्चि यष्टा	तैआ.	२६३
यः सर्वेषु वेदे	"	"	यच्छरीरं सा पृ	ऐउ.	५६१	यज्जारायु ते प	छाउ.	८२१
यः सर्वे सर्वेष्वे	शिउ.	१५७४	यच्छर्वोऽग्निः	शब्रा.	१५०	यज्जाप्रतो दूर	ऋसंखि.	३३४;
यः सावित्रं वेद	तैब्रा.	२७	यच्छा तोकाय त	कासं.	२५		शिउ.	१५७३
यः सुन्वते पच	ऋसं.	४८	यच्छा नः शर्म स	ऐउ.	५२५;	यज्जातवेदो भु	ऋसं.	१०१
यः सुन्वन्तमव	"	"		नाउ.	१६३२	यज्ज्योतिः स आदि	मैउ.	१६५८
यः सूर्यं य उष	"	४६	यच्छिरोऽश्रयत	ऐउ.	५३३	यज्ञ इति	वृउ.	११७४
यः सेतुरीजाना	काउ.	१४११	यच्छुक्लं तस्सूक्ष्मं	शिरउ.	१६७९	यज्ञ इति यज्ञे	नाउ.	१६५१
*यः सेतुर्जवाना	"	"	यच्छुक्लं तदपाम्	छाउ.	८९७,	यज्ञ इति यज्ञो	"	१६५०
यः सामकामो ह	असं.	४८			८९८	यज्ञ इत्येवाऽऽच	शब्रा.	४७१
यः सोमपा निचि	ऋसं.	४७	*यच्छुक्लं तेनाग्निः	वृउ.	१०८०	यज्ञ एति वित	असं.	३९६
यः सोमे भन्तर्यो	असं.	१९	यच्छुक्लं तेनेन्द्रः	"	"	यज्ञ एव सवि	गोब्रा.	११९;
*यः स्तनयित्ना ति	वृउ.	११५२	यच्छेद्वाङ्मनसी	काउ.	१४१६		तब्राउ.	१३८७
यकारवकारा	कौउ.	६८५	यच्छोचिषा सह	ऋसं.	९	यज्ञं पाहि विभा	नाउ.	१६३५
यक्षं पृथिव्यामे	असं.	१६२	यच्छ्मात्तपसो	शब्रा.	२९६	यज्ञं प्रतितिष्ठ	छाउ.	८४७

यज्ञं यन्तं मन	असं.	३७५
यज्ञं ये विश्वतो	,,	३६९
यज्ञं रिष्यन्तं य	छाउ.	८४७
यज्ञं विमाय क	ऋसं.	२३५
यज्ञपदोराक्षी	असं.	४३४
यज्ञपात्रेषु स	जैब्रा.	४०५
यज्ञानो दक्षिणी	असं.	१६३
यज्ञवचा राज	वृउ.	१३११
*यज्ञवर्चा राज	,,	,,
यज्ञवास्तावेवा	शब्रा.	४६९
यज्ञस्यधिमनु	नाउ.	१६४९
यज्ञायज्ञियं छ	शब्रा.	३०
यज्ञायज्ञियस्य	असं.	४५०
यज्ञायज्ञियाय	,,	,,
*यज्ञास्तं परादु	वृउ.	१२६१
यज्ञेन द्विषन्तो	नाउ.	१६५१
यज्ञेन यज्ञम	ऋसं.	२२८,
	२३४; असं.	४५६
यज्ञेन वाचः प	ऋसं.	४९०
यज्ञेनासुरान	नाउ.	१६५१
यज्ञे सर्वं प्रति	,,	,,
यज्ञोऽधरा	तैआ.	२६६
यज्ञोऽध्ययनं दा	छाउ.	७८६
यज्ञोपवीतं कृ	कौउ.	६४६
*यज्ञोपवीतं धृ	,,	,,
यज्ञो बभूव स	असं.	४५६
यज्ञो भूत्वा देवान्	जैब्रा.	२०२
यज्ञो यत्र परा	असं.	२४७
यज्ञो वा अस्याऽऽत्मा	शब्रा.	४०८
यज्ञो वै प्रचोद	तब्राउ.	१३८८
यज्ञो हि देवाना	शब्रा.	२०३,
		४६५
यज्ञो हैषामास	,,	२०३,
		४६५
*यत् आ इति स आ	छाउ.	७७७
यत् इन्द्र भया	नाउ.	१६३२
यत् एतदागा	कौउ.	६८०
यत् पवमान	मैउ.	१६६४
यत् प्रसूता ज	नाउ.	१६२९
यत् सूर्य उदे	असं.	२४९
यत्तश्चोदेति सू	वृउ.	१०६३;
	काउ.	१४२३
यतो द्यावापृथि	तैब्रा.	२५९

यतो भयमभयं	असं.	२१
यतो भूमिं जन	ऋसं.	१८४
यतो यत आव	छाउ.	८४९
यतो यतस्त्वाद	वृउ.	१०९८
यतो वा इमानि	तैउ.	७३५
यतो वाचो निव	,,	७१५,
		७३२
यत्कक्षीयान्तं व	ऋसं.	४८१
यत्कर्म कुरुते	वृउ.	१२२९
यत्कर्मणाऽत्यरी	,,	१३०९
यत्कर्मिणो न प्र	मुउ.	१४५१
यत्कल्याणं जिघ्र	वृउ.	१००४
यत्कल्याणं पश्य	,,	,,
यत्कल्याणं वद	,,	१००३
यत्कल्याणं चृणो	,,	१००४
यत्कल्याणं संक	,,	,,
यत्कशिपूपव	असं.	४७३
यत्काम इदं जु	तैब्रा.	४०६
यत्काम इदम	असं.	३७५
यत्काम कामय	,,	३४१
यत्कामारस्ते जुहु	ऋसं.	१९७;
	नाउ.	१६४६
यत्कामो भवति	तैआ.	१५९,
		३०६
यत्किं च दुरितं	नाउ.	१६४३,
		१६४४
यत्किं च पुण्यम	जैब्रा.	४०५
यत्किंच यज्ञे क	शब्रा.	३१९,
		३२०, ३२१
*यत्किंच वाचो हि	छाउ.	७७७
यत्किंच वाचो हु	,,	,,
यत्किंच विजिज्ञा	वृउ.	१०५३
यत्किंच विज्ञातं	,,	,,
यत्किंचाविज्ञातं	,,	,,
यत्किंचा इवभ्य इ	शाआ.	३३१
यत्किंचिदिदमा	छाउ.	८५२
यत्किंचेदं प्राण	वृउ.	१११८
* , , ,	,,	११२०
*यत्कुसोदमः	तैसं.	५०५
यत्कुत्वा देवया	वृउ.	१२९२
यत्कुष्णं तदन्न	छाउ.	८९७,
		८९८
यत्कुष्णं तेनाग्निः	वृउ.	१०८०
*यत्कुष्णं तेनेन्द्रः	,,	,,

यत्कतुर्भवति	वृउ.	१२२९
यत्क्षत्तारं ह्वय	असं.	४७४
यत्क्षरन्नाऽक्षी	तब्राउ.	१३४३
यत्क्षुरेण मर्च	असं.	३८३
यत्खलु साधु त	छाउ.	७७३
यत् ऊनं तत्त	असं.	५०९
यत्तच्चक्षुरसौ	शब्रा.	३३०
यत्तच्छरीरम	असं.	३१०
यत्तच्छ्रोत्रं दिश	शब्रा.	३३०
*यत्तद्वृश्यम	मुउ.	१४४५
यत्तद्वृश्यम	,,	,,
यत्तन्मन एष	शब्रा.	३३०
यत्तर्पणमाह	असं.	४७३
यत्तारं तच्छुक्रं	शिरउ.	१६७९
यत्तुगीयममृ	कासं.	२८२
यत्ते अङ्गमतिः	असं.	३८७
यत्ते अपो यदो	ऋसं.	३६३
यत्ते कश्चिदन्न	वृउ.	११८२
* , , ,	,,	११८३
यत् ते काम शर्म	असं.	३३९
यत्ते कृष्णः शकु	तैआ.	४१४
यत्ते कुद्धो धन	असं.	४३५
यत्ते चतस्रः प्र	ऋसं.	३६३
यत्ते चतुर्थमा	तैब्रा.	२८
यत्ते चन्द्रं करय	असं.	१७३
यत्ते दिवं यत्पृ	ऋसं.	३६३
यत्तेऽनाधृष्टं ना	कासं.	२५
यत्ते नियानं र	असं.	३८२
यत्ते पराः परा	ऋसं.	३६३
यत्ते पर्वतान् वृ	,,	,,
यत्ते भूतं च भ	,,	,,
यत्ते भूमिं चतु	,,	,,
यत्ते भूमे विख	असं.	५०८
यत्ते मध्यं पृथि	,,	५०७
यत्ते मनस्त्वयि	,,	३८१
यत्ते मरीच्योः प्र	ऋसं.	३६३
यत्ते यमं वैव	,,	३६२
यत्ते वासः परि	असं.	३८३
यत्ते विश्वमिदं	ऋसं.	३६३
यत् ते शुक्रं शुक्रं	कासं.	२५
यत्ते सधस्थं प	असं.	१७०
यत्ते समुद्रम	ऋसं.	३६३
*यत्ते सुशीमे ह	कौउ.	६४९
यत्ते सुसीमं ह	,,	६४७

यत्ते सुसीमे ह	कौड.	६४९	यत्र क चार्या वा	ऐउ.	६२१	यत्र सुसो न कं	बृउ.	१२०६३
यत्ते सूर्यं यदु	ऋसं.	३६३	यत्र कचैति त	बृउ.	९९४		माउ.	१५२३
यत्तौ हाऽऽसति अ	तैब्रा.	४७८	यत्र गङ्गा च य	ऋसंखि.	३६८	यत्र सोमेश्वरो	ऋसंखि.	३६८
यत्पयो न स्यात्के	शब्रा.	४६७	यत्र ज्योतिरज	ऋसं.	३५५	यत्र स्कम्भः प्रज	असं.	२४७
यत्परं ब्रह्म स	कैउ.	१६७५;	यत्र तत्परमं	ऋसंखि.	३६७	यत्र ह क च पु	ऐउ.	५४१
	शिरउ.	१६७९	यत्र तत्परमा	,	३६८	यत्र हि द्वैतमि	बृउ.	११०१,
यत्परममव	असं.	२४७	यत्र तद्विष्णुर्म	,	,	१२६४; परि.	१५६९	
*यत्परात्परतो	शिउ.	१५७३	यत्र तपः परा	अमं.	२४७	यत्र होव चन्द्र	गोब्रा.	११९
" "	" "	" "	*यत्र त्वस्य सर्व	बृउ.	११०१	यत्र होव प्राण	" "	" "
*यत्परिवेष्टारः	असं.	४७४	" "	" "	१२६४	यत्र होव मन	" "	" "
यत्पशुपतिर्वा	शाब्रा.	१५०	यत्र देवा अमृ	असं.	१०९;	यत्र होव यज्ञ	" "	" "
यत्पशुषु तद्वे	तब्राउ.	१३४२	शुसं.	२५७; नाउ.	१६३१	यत्र होव वायु	" "	" "
यत्पश्चाद्वासि व	" "	१३६१	यत्र देवा ब्रह्म	असं.	२४७	यत्र होव विष्णु	" "	" "
यत्पश्चा वागन्वे	जैब्रा.	३१६	यत्र देवा महा	ऋसंखि.	३६७	यत्र होव वेदा	" "	" "
यत्पितरं मात	कासं.	४८८	यत्र देवाश्च म	असं.	२५०	यत्र होवाग्निस्त	" "	" "
यत्पिबति तद्	नाउ.	१६५१	यत्र धारा अन	तैसं.	४००	यत्र होवादित्य	" "	" "
यत्पिबति ता आ	शब्रा.	३६	यत्र नान्यत्पश्य	छाउ.	९४३;	यत्र होवाभ्रं त	" "	" "
यत्पुरस्तादवा	तब्राउ.	१३५५		परि.	१५६०	यत्र होवाहस्त	" "	" "
यत्पुरा परिवे	असं.	४७३	यत्र पुण्यकृतो	तैआ.	४१०	यत्र होवोष्णं त	" "	" "
यत्पुरुषं व्यद	ऋसं.	२३३	यत्र प्रेऽसन्तीर	असं.	२४६,	यत्राग्निश्चन्द्रमाः	असं.	२४७
यत्पुरुषेण ह	" "	२३२;		२४७		यत्रातिष्ठन्नैक	" "	२५०
	असं.	४५७	यत्र ब्रह्मविदो	" "	३९९,	यत्रादित्याश्च रु	" "	२४७
यत्पृथिव्यां तद् वे	तब्राउ.	१३४२		४००		यत्राद्वैतीभूतं	मैउ.	१६५९
यत्पृथिव्या रजः	नाउ.	१६३३	यत्र ब्रह्मा पव	ऐउ.	६१७	यत्राधि सूर उ	ऋसं.	१९६;
यत्पृथिव्या वरि	ऋसं.	९६	*यत्र भूम्यै वृण	तैआ.	३५७		शुसं.	२५६
यत्प्रजापती त	तब्राउ.	१३४८	" "	" "	४१४	यत्रा नः पूर्वै पि	ऋसं.	३५६
यत्प्रज्ञानमुत	ऋसं.	३३४;	यत्र भूयिष्ठाः कु	तब्राउ.	१३५७	यत्रानन्दाश्च मो	" "	" "
	शिउ.	१५७३	*यत्र यत्र बिभ्र	कासं.	२१	यत्रानुकामं च	" "	३५५
यत्प्रतिशृणोति	असं.	४७४	" "	असं.	२४	यत्रामूर्ध्वहती	" "	" "
यत्प्रतीति स प्र	छाउ.	७७८	यत्र यत्र विभृ	" "	२१	यत्रामृतं च मृ	असं.	२४७
यत्प्रत्याहन्ति वि	असं.	१६४	* " "	" "	२४	यत्रायं पुरुषो	बृउ.	११२४,
यत्प्रपदाभ्यां प्रा	ऐउ.	५३२	यत्र यन्ति सुकृ	तैब्रा.	४८९		११२५	
यत्प्रयन्त्यभिसं	तैउ.	७३५	यत्र यन्त्यृतवो	असं.	२४७	यत्राऽऽर्या वाचं व	कौड.	६८९
यत्प्राक् तृचाशौति	ऐउ.	५६३	यत्र यातयते	तैआ.	४१०	यत्रा वदेते अ	ऋसं.	१०३
यत्प्राक्सवनेभ्यः	" "	५६१	यत्र राजा वैव	ऋसं.	३५५	यत्रा समुद्रः स्क	" "	१०४
यत् प्राङ् प्रत्यङ् स्व	असं.	१७०	यत्र लोकांश्च को	असं.	२४७	यत्रा सुपर्णा अ	" "	२१४
यत्प्राण ऋतावा	" "	३२३	यत्र लोकास्तनु	ऋसंखि.	३६७	यत्रा सुहार्दः सु	असं.	३७३
यत्प्राण स्तनयि	" "	" "	यत्र वा अन्यदि	बृउ.	१२१४	यत्रासौ केशान्तो	तैउ.	६९९
यत्प्राणेन न प्रा	तब्राउ.	१३७६	* " "	" "	१२६४	यत्रास्य पुरुष	बृउ.	११२५
यत्प्राणो ह्येति	शब्रा.	१५३	यत्र वा अस्य स	" "	११०१	यत्रेदं ब्रह्म क्रि	असं.	३८५
यत्प्रातर्मध्यंदि	नाउ.	१६५१	यत्र वा एष ए	तब्राउ.	१३३१	यत्रैतत्पुरुष	कौड.	६६६
यत्प्रेति स प्रस्ता	छाउ.	७७७	यत्र वा पितुस्त	ऐउ.	५४१	यत्रैतत्पुरुषः	" "	६६५;
यत्र ऋषयः प्र	असं.	२४७	यत्र शङ्खचक्र	ऋसंखि.	३६८		छाउ.	९०४
यत्र कामा निका	ऋसं.	३५५					छाउ.	९०७

यत्रैतदन्वयत्रा	वृउ.	११७६
यत्रैतदभूत्	कौउ.	६८०
यत्रैतदुपदृ	तैआ.	१८०
यत्रैतदूर्ध्वोच्छ्वा	वृउ.	१२२०, १२२२
*यत्रैतदूर्ध्वोद्धया	"	१२२२
यत्रैतद्वाराट	कौउ.	६८९
यत्रैष एतत्सु	वृउ.	१०७२, १०७३
यत्रैष एतद्वा	कौउ.	६८०
*यत्रैष देवः स्व	प्रउ.	१५०७
*यत्रैष सुप्तोऽभू	वृउ	१०७३
यत्रो ह वै क्व च	तत्राउ.	१३५३
यत्संचरत्युप	नाउ.	१६५१
यत्संभितमनु	शिउ.	१५७३
यत्स दूरं परे	शत्रा.	४६८
यत्ससात्रानि मे	वृउ.	१०४६
यत्सभागयति	असं.	४७४
यत्समुद्रमनु	"	१७१
यत्समूलमावृ	वृउ.	११७९
यत्सर्वं परिप	तैआ.	४११
यत्साक्षादपरो	वृउ.	११३१
* " "	"	११३५
यत् साम स उद्गी	छाउ.	७५५
यत्सायं प्रातर	नाउ.	१६५१
यत्सीमन् क्रतु	ऋसं.	५
यत्सुवर्णं सा द्यौः	छाउ.	८२१
यत्सुषुप्तश्च जा	नाउ.	१६४६
यत्सूक्ष्मं तद्वैद्यु	शिरउ.	१६७९
यत्सोमवृहस्प	तत्राउ.	१३४८
यत्स्वपन्तश्च जा	नाउ.	१६४६
*यथा एकेन मृ	छाउ.	८८५
*यथाऽकडा अव	वृउ.	१२८८
यथा कला अव	छाउ.	८५१
यथाऽकला अव	वृउ.	१२८८
यथाक्लामं प्रश्ना	प्रउ.	१४९१
यथाक्कारी यथा	वृउ.	१२२९
यथा कूपः शत	नाउ.	१६४८
यथा कृतायवि	छाउ.	८२४
यथा केशः सह	वृउ.	११८७
*यथाकतुर्भव	"	१२२९
यथा क्लीबा अप्र	"	१२८८
यथा खं वाऽनसः	तत्राउ.	१३३०
यथा गार्ग्यं मरी	प्रउ.	१५०५

यथाऽग्निगर्भा पृथि	वृउ.	१३०९
यथाऽग्निर्वै देवा	मैउ.	१६६०
यथाऽग्नेर्ज्वलतः	कौउ.	६६६, ६८०
यथा च मरणं	काउ.	१४२८
यथा चिरात्सर्व	कैउ.	१६७३
यथा चैतद्ब्रह्म	कौउ.	६८७
यथा जातरूप	जाउ.	१६७१
यथा ज्योतिरभू	शत्रा.	२६१
*यथा लम्बरस्य	वृउ.	१२७६
यथा त उक्थ्यानि	शत्रा.	४६९
यथा तु कथा च.	ऐउ.	६०१, ६०३
यथा तु खलु सो	छाउ.	८९६
* " "	"	८९९
यथा ते तत्र व	तैउ.	७०४
यथा ते तेषु व	"	"
यथा त्वममृतो	तत्राउ.	१३६९
यथाऽऽदर्शो तथा	काउ.	१४३५
*यथा दर्शो तथा	"	"
यथा दुन्दुभेः ख	वृउ.	१२७६
यथा देवा असु	असं.	३४०;
	ऋसं.	४२६
यथा देवैः सध	तैत्रा.	४१९
यथा द्यौस्तथा	ऐउ.	५२९
यथा नः शमस	तैसं.	१४५
यथा नः सर्व इ	कासं.	४८२
यथा नः सर्वमि	तैसं.	१३५
*यथा नः सर्वा इ	मैसं.	"
यथा नद्यः किङ्कि	मैउ.	१६६२
यथा नद्यः स्यन्द	मुउ.	१४८६;
	परि.	१५७१
यथा न रिष्या अ	असं.	३८२
यथा नातः पुन	ऋसं.	३५३
यथा निरन्धनो	मैउ.	१६६४
यथानुकथा च	कौउ.	६८५
यथा नु खलु सो	छाउ.	८९८, ९०९
यथान्तरिक्षं त	ऐउ.	५२९
यथाऽन्धा अपश्य	शाआ.	३३१;
	छाउ.८५१; वृउ.	१२८८
यथाऽऽपः प्रवता	तैउ.	६९५
यथा पञ्च यथा	तैआ.	४१६
यथा पर्वतमा	मैउ.	१६६१.

*यथा पशुरेव	वृउ.	१०३०
यथा पशुरेव*	"	"
यथाऽपां धारा सं	तात्रा.	२८५
यथा पादांदर	प्रउ.	१५११
यथा पापाहे कु	तैत्रा.	२८७
यथाऽपुण्यस्य क	तैआ.	४१०
यथा पुरस्ताद्भू	काउ.	१३९१
यथापूर्वमहो	तैसं.	५१४
यथा पूर्वाभ्यां स्य	शत्रा.	१५३
यथा पृथिवी त	ऐउ.	५२९
यथाप्रज्ञं हि स	"	५५९
यथा प्राण बलि	असं.	३२५
यथा प्रिय एव	जैत्रा.	३२८
यथाऽप्सु परीव	काउ.	१४३५
यथा बधिरा अ	शाआ.	३३१;
	छाउ. ८५१; वृउ.	१२८८
यथा बाला अम	शाआ.	३३१;
	छाउ.	८५१
यथा मधुना ला	तत्राउ.	१३३२
*यथा महाराजो	वृउ.	१०७४
यथा मातृमान् पि	"	११८२, ११८३, ११८४, ११८५, ११८६
यथा मा त्वं गौत	छाउ.	८५७
यथा मा त्वं तद्वै	"	"
यथा मासा अह	तैउ.	६९५
यथा माहारज	वृउ.	१०८५
यथा मुग्धा अवि	"	१२८८
यथा मूक्ता अव	शाआ.	३३१
यथाऽमूनि त्रीणि	ऐउ.	६००;
	कौउ.	६८४
*यथाऽऽम्रं वोदुम्ब	वृउ.	१२२१
यथाऽयमग्निः पृ	ऐउ.	६००;
	कौउ.	६८४
यथा यमस्य सा	असं.	३९१
यथा युगं वर	ऋसं.	३६५
यथा रथचक्रस्य	वृउ.	१२७६
यथा राज्ञैवम्	"	१०३८
यथार्थं भवन्तो	गोत्रा.	११८
यथा लम्बरस्य	वृउ.	१२७६
यथा लातव्यो गो	गोत्रा.	५२३
यथा वा अरा ना	छाउ.	९३७
*यथा वातः पुष्क	वृउ.	१३०९
यथा वाऽसुचारि	मैउ.	१६६२

यथा वायुः पुष्क	वृउ. १३०९	यथा ह वै बह	वृउ. १०३०	यदतरन्	तैत्रा. २८७
यथा वा श्रेष्ठिनं	कौउ. ६८१	यथा ह वै स्वाय	,, १०४१	यदत्र षष्ठं त्रि	ऋसंखि. ३३५;
*यथा वा स्वाः श्रेष्ठि	,, "	यथा हिरण्यम	तब्राउ. १३४८		शिउ. १५७३
यथा विद्वान् विद्वां	जैत्रा. ४०३,	यथा ह्येवेयं लो	ऐउ. ६२१	यददीव्यन्नृण	असं. ३७२
	४०५	यथा ह्येवेयं श	,, "	यददोऽमृतं त	तब्राउ. १३३५
यथा विब्रूयाद्	वृउ. ११३३	यथा ह्येवेह प्र	छाउ. ९५५	यददो विचक्ष	जैत्रा. ४०५
यथा विलीनमे	छाउ. ९२०	यथेतमेत्य ज	वृउ. १३०३	यदद्यते लुप्य	तैत्रा. ४७८
यथा वीणागाथि	तब्राउ. १३४७	*यथेमा नद्यः स्य	प्रउ. १५१७	यदधूर्वस्नदधुरां	षब्रा. ३२२
यथा वृक्षस्य सं	नाउ. १६३५	यथेमे दंशम	मैउ. १६५३	यदध्यतिष्ठद्भु	तैत्रा. २५९
यथा वृक्षो वन	वृउ. ११७८	यथेयं न प्राकत्व	छाउ. ८५७	यदनु कुरुक्षे	जाउ. १६६९
यथा वृत्तिक्षया	मैउ. १६६४	यथेयं पृथिवी	ऋसं. ३६५	यदनेन रूपे	ऐउ. ५७२
यथा वै द्वे वाऽऽम	छाउ. ९२९	यथेयं विद्येतः	वृउ. १२९४	यदनेनोभे य	छाउ. ९६२
*यथा वै पुरुषो	वृउ. १२७६	यथेह क्षुधिता	छाउ. ८८२	यदनूचीन्द्रमै	असं. ४३४
*यथा वै ब्रूयाद्	,, ११३३	यथैतां देवतां	वृउ. १०६०	यदन्तः करोति	छाउ. ८६०;
यथा वै सप्ताणम	,, ११८६	यथैव खल्वय	छाउ. ९७४		वृउ. १२९७
यथा व्रीहिर्वा य	शब्रा. २६१	यथैद प्रजाप	शब्रा. ४६६	यदन्तरा द्यावा	असं. २५०
यथाऽऽमानमाख	छाउ. ७५३	यथैन्न बिम्बं मृद	श्वेउ. १५९०	यदन्तरिक्षं पृ	,, ३७२;
यथा श्रेष्ठिनं स्वाः	कौउ. ६८१,	यथैवैनानमु	शाब्रा. ४०१		तैत्रा. ४८८
	६८२	यथैवोपकर	वृउ. १०९१,	यदन्तरिक्षे त	तब्राउ. १३४२
यथा श्रेष्ठी स्वैः	,, ६८२	यथैषा देवतै	१२६०	यदन्ति यच्च दू	ऐउ. ६१६
यथा सतः पुरु	मुउ. १४४७	यथैषा पुरुषे	,, १०६०	यदन्ने तद् वेत्याः	तब्राउ. १३४२
*यथा समापयि	कौउ. ६५५	यथोदकं दुर्गे	प्रउ. १५००	यदन्यकृतमा	तैत्रा. ४८७
यथा सप्ताडेवा	प्रउ. १५०१	यथोदकं शुद्धे	काउ. १४२५	यदन्यदेवेभ्य	कौउ. ६३८
यथाऽसावन्तरि	ऐउ. ६०० ;	*यथोदके शुद्धे	,, १४२६	यदन्यद्वाह्मण	शब्रा. ४७१
	कौउ. ६८४	यथोर्णनाभिः स	,, "	यदन्यदभूमेश्च	,, ४७०
यथाऽसिंधारां क	नाउ. १६३५	यथौघो विध्यन्द	मुउ. १४४७	यदन्या ओषध	,, ४६७
यथा सुदीप्तात्पा	मुउ. १४५३	यथोक्षर पञ्च	तब्राउ. १३३३	यदपां क्रूरं य	नाउ. १६३३
यथा सूच्या पला	तब्राउ. १३३३	यदक्षरं भूत	ऐउ. ५७४	यदपूर्वं यक्ष	ऋसं. ३३४;
यथा सोम्य पुरु	छाउ. ९२१	यदक्षरं तस्मा	तैआ. २६२	यदप्रथयत्	शिउ. १५७३
यथा सोम्य मधु	,, ९१६	यदक्षरदेव	शब्रा. २९६	यदप्सु तद् वेत्याः	तब्राउ. १३४२
यथा सोम्य मह	,, ९०३	यदक्षरादक्ष	तब्राउ. १३३६	यदप्स्ववापद्य	तैत्रा. २८९
यथा सोम्यैकेन	,, ८८५,	यदगायत्तस्मा	ऐउ. ५७४	यदब्रुवन्नयं	तब्राउ. १३५२
	८८६ ; परि. १५५५	यदभिर्वायुरि	शब्रा. २९४	यदभिवदति	असं. ४७३
यथाऽसौ दिव्यादि	ऐउ. ६०० ;	यदभ्रे तपसा	तब्राउ. १३८२	यदभृज्यत त	गोब्रा. ३०३
	कौउ. ६८४	यदभ्रे मर्त्यस्त्वं	असं. ४२७	यदभ्यर्चता ए	तब्राउ. १३३४
यथाऽस्या उदर	ऐउ. ६२१	यदभ्रे रोहितं	ऋसं. १७	यदभ्यवचर	,, १३६८
यथाऽस्याः शिर ए	,, "	यदभ्रे स्यामहं	छाउ. ८९७	*यदमीषामदः	तैआ. ३४१
यथाऽस्याः स्पर्शा ए	,, "	यदभ्रौ तद्वेत्या	ऋसं. १७	" "	,, ४१३
यथाऽस्याः स्वरा ए	,, "	यदङ्गांसि कुर्वा	तब्राउ. १३४८	यदमीषामदो	असं. ३४१
यथास्यास्तन्त्रय	,, "	यदङ्ग तविषी	,, १३३०	यदयं वेद य	छाउ. ९३२
यथाऽस्यै जिह्वेव	,, "	यदङ्ग स तम्	ऋसं. ५५	यदरोदीत्	तैत्रा. २८९
यथा ह वा इदं	शब्रा. ३३	यदचरस्तन्वा	असं. ३२६	यदरोदीत् तस्मा	शब्रा. २९६
यथा हविषा च	,, ४६६	यदजः प्रथमं	ऋसं. ६१	यदचिमद्यद्	मुउ. १४६०
यथा ह वै पदे	वृउ. १०२२		असं. २४७		

यदवाङ् नामेस्तौ	शब्रा.	२९१
*यदविज्ञातमि	छाउ.	८९९
यदवृणोत्तस्मा	शब्रा.	२९३
यदशनकृतं	असं.	४७३
यदशनिन्द्रः	शब्रा.	१५१
यदशनाति तद्ध	नाउ.	१६५१
यदश्राति ताः स	शब्रा.	३६
यदश्रासि यत्पि	असं.	३८३
यदश्वत्न्मेध्य	बृउ.	९९९
यदश्विनोस्तद्वे	तब्राउ.	१३४८
यदष्टौ कृत्वोऽक्ष	शब्रा.	२९६
यदस्मिन्नेधा वि	,,	३१
यदस्मिन्नापोऽन्त	तब्राउ.	१३६५
यदस्मिन्निदं स	बृउ.	११६९
यदस्य गृहेषु	,,	१०४१
यदस्य दक्षिण	असं.	४५६
यदस्य विज्ञानं	नाउ.	१६५१
यदस्याग्रं तच्छा	मैउ.	१६६२
यदस्यान्यद्रिमि	,,	१६६३
यदस्यै वाचो वृ	तब्राउ.	१३४९
यदहं प्रतिष्ठा	छाउ.	८५२
यदहं वसिष्ठो	,,	,,
यदहं वेद त	तैआ.	५२०
यदहं संपद	छाउ.	८५२
यदहमायत	,,	,,
यदहरेव जु	बृउ.	१०४७
यदहायमिहा	शब्रा.	११६
यदहासावमु	,,	,,
यदहोरात्राभ्यां	कौउ.	६४५
यदह्नात्कुरुते	नाउ.	१६४४
यदह्ना पापम	,,	१६४३
यदा कर्मसु का	छाउ.	८५५;
	परि.	१५५३
यदा केशानस्थि	असं.	३०९
*यदागच्छात्पथि	{ तैसं., कासं., शुसं. ३७६	
यदा गच्छाल्यसु	ऋसं.	३६०
यदा चन्द्रोऽस्तमे	छाउ.	८२७
यदा चरिष्णु मि	ऋसं.	१०२
यदा चर्मवदा	श्वेउ.	१६२६
यदाज्जनाभ्यञ्ज	असं.	४७३
यदा तमस्तन्न	श्वेउ.	१६०९
यदाऽऽतमत्त्वेन	,,	१५९०
यदाऽऽतमानाऽऽतान	मैउ.	१६६१

यदा त्वं प्राण जि	असं.	३२५
यदा त्वमभिव	प्रउ.	१४९९
यदा त्वष्टा व्यतृ	असं.	३१०
यदादित्यमभि	,,	४५६
यदादित्यस्य रो	छाउ.	८९७
यदादित्यास्त इ	मैसं.	१६६
यदादित्ये तद् वै	तब्राउ.	१३४२
यदादित्यैर्ह्यै	असं.	४३४
यदादित्योऽस्तमे	शब्रा.	३३०
यदादीष्ये न द	ऋसं.	४८४
यदाद्यं यदना	असं.	३८३
*यदा न कश्चन	बृउ.	१०७६
यदा न कस्यच	,,	,,
यदाऽऽप उच्छ्रुष्य	छाउ.	८२७
यदा पञ्चावति	काउ.	१४३६;
	मैउ.	१६६३
यदा पदयः पश्य	मुउ.	१४७२
यदा पिपेष मा	तैब्रा.	४८८
यदापो नक्तं दु	,,	४८९
यदापो न स्युः कै	शब्रा.	४६७
यदाप्रोत्समादा	,,	२९३
यदा प्रबुध्यते	,,	३३०
यदा प्राणो अभ्य	असं.	३२४,
		३२५
यदा प्रैष्यन्मन्य	बृउ.	१०५७
यदा भारं तन्द्र	तैआ.	३३२,
		३३३
यदा मागन्प्रथ	ऋसं.	२२२
यदा यात्यमनी	मैउ.	१६६४
यदारण्या ओष	शब्रा.	४६७
यदा लेलायते	मुउ.	१४४९
यदावसथान्क	असं.	४७३
यदा वा अग्निर	शब्रा.	३३०
यदा वा अग्निरु	छाउ.	८२७
यदा वा ऋचमा	,,	७५८
यदा वाव ते रम	,,	९३६
यदा वै करोत्य	,,	९४१
यदा वै चेतय	,,	९३१
यदा वै निस्तिष्ठ	,,	९४१
यदा वै पुरुषः	शब्रा.	३३०
यदा वै पुरुषो	बृउ.	१२७६
यदा वै बह्विवि	मैउ.	१६६१
यदा वै मनुते	छाउ.	९४०
यदा वै मिथुनौ	,,	७४९.

यदा वै विजाना	छाउ.	९४०
यदा वै श्रद्धा	,,	९४१
यदा वै संकल्प	,,	९३०
यदा वै सह मि	शब्रा.	११४
यदा वै सुखं ल	छाउ.	९४१
यदाशसा निश	तैब्रा.	४८८
*यदा शृतं कर	तैआ.	३५९
यदा शृतं कृण	असं.	,,
* " " "	,,	३६०
*यदा सर्वे प्रभि	काउ.	१४३९
यदा सर्वे प्रमु	बृउ.	१२३६;
	काउ.	१४३८
*यदा सुप्तः स्वप्नं	कौउ.	६६५
	,,	६८०
*यदा सुप्तो न कं	,,	,,
*यदा सुप्तः स्व	,,	६६५;
		६८०
यदा सूर्यममुं	ऋसं.	५६
यदा सूर्योऽस्तमे	छाउ.	८२७
यदा स्तोतृभ्यो म	तैआ.	५२१
यदाह भूय उ	असं.	४७३
यदा ह वै पुरु	बृउ.	१२७६
यदाह सोमः प	तब्राउ.	१३६१
यदा होव रेतः	तब्राउ.	१३५८
यदा होव श्रद्ध	बृउ.	११७४
यदा होवैष उ	शब्रा.	१५३
यदा होवैष ए	तैउ.	७२५
यदिच्छन्तो ब्रह्म	काउ.	१४०४
*यदिच्छामि मन	तैब्रा.	३४५
यदि जाग्रद्यदि	असं.	५०४
* " " "	कासं.	,,
यदि तद्ग्रते धि	गोब्रा.	११९
यदिदं किं च	तैब्रा.	२९०;
	तैउ.	७२०
यदिदं किंच ज	काउ.	१४३३
यदिदं किंचा क्ष	बृउ.	१२८९
यदिदं कुरुष	,,	११७३
यदिदं त्वमिय	जैब्रा.	३२८
यदिदं पृथिव्यां	तब्राउ.	१३८०,
		१३८१
यदिदं सर्वं पू	बृउ.	१११७
यदिदं सर्वं तृ	,,	१११६,
		११२३
यदिदं सर्वम	,,	१११७,
		११४४

यदिदमयते	बृज.	१२७६
यदिदमन्तरि	"	१११८
यदिदमन्वाख्या	शब्रा.	२९९
यदिदमाहुरे	तब्राज.	१३५६
यदिदमाहुदीं	शब्रा.	५१७
*यदि दिवा यदि	{ कासं., मैसं., तैब्रा., शब्रा.	{ ५०४
*यदिद्वावापृथि	कासं.	१८६
*यदिद्भूमिं जन	"	१८३
यदिन्द्रे तद्वेत्याश्	तब्राज.	१३४०
यदि प्रविशेत्	तैब्रा.	२६५
यदि मन्यसे सु	तब्राज.	१३७७
यदि वदेयुर	शोब्रा.	५२३
यदि विज्ञास्यामः	प्रज.	१४९०
यदि वेतरथा	जाज.	१६७०
यदि वेत्यासतो	तैब्रा.	४१०
*यदि स्वपन्यदि	मैसं.	५०४
यदि ह वा अपि	बृज.	१२८४
यदिह वा अप्य	"	१०३९
*यदि ह वा अप्य	"	"
यदि ह वा अप्ये	"	१२८२
यदिहेनदपि	तब्राज.	१३५४
यदीं शृणोत्यल	ऋसं.	४९१;
	ऐज.	६१६; कौज. ६८८
यदीशानोऽन्नम्	शब्रा.	१५१
यदु किंचातः प्रै	ऐज.	५३०
यदु किंचेमाः प्र	बृज.	१०६०
यदु कृष्णमिवा	छाज.	८९८
यदुगो देव ओ	शब्रा.	१५०
यदुच्छिष्टमभो	नाज.	१६४३
यदुच्छ्वासानिश्वा	प्रज.	१५०६
यदुच्छिष्टे विव	मैसं.	१६६
यदुत्तरतो वा	तब्राज.	१३६१
यदुत्पत्तवद	ऐज.	६२६
यदुदरं वरु	असं.	४३५
यदुदिति स उ	छाज.	७७८
यदुद्वातास्य हा	तब्राज.	१३६४
यदुपमन्त्रय	छाज.	८६०
यदुपरिशय	असं.	४७३
यदुपरिष्ठाद	तब्राज.	१३६१
यदुपस्तृणन्ति	असं.	४७३
यदुपाऽस्मै गायता	तब्राज.	१३६६
यदुपेति स उ	छाज.	७७८
यदु रोहितमि	"	८९८

यदुत्वस्समेधो	छाज.	८२१
यदु शुक्लमिवा	"	८९८
यदु ह वा अस्मिन्	तब्राज.	१३५९
यदु ह वा आपः	"	१३३०
यदूर्ध्वं गांनि दि	बृज.	११५८
यदूर्ध्वं नाभेस्तौ	शब्रा.	२९१
यदूर्ध्वं याज्ञव	बृज.	११५८
यदूर्ध्वं सा पद्म	ऐज.	५६१, ५६३
यदूर्ध्वमुदमृ	तैब्रा.	२८९
यदूर्ध्वा स्तोमा अ	शब्रा.	४६८
यदूर्ध्वं तद्वेत्या	तब्राज.	१३४२
यदेकं ज्योतिर्व	असं.	१७३
यदेकधनम	कौज.	६४२
यदेकमव्यक्त	नाज.	१६३०
यदेजति जग	"	१६४८
यदेजति पत	असं.	२४९
यदेतद्रच्छती	तब्राज.	१३८२
यदेतद्विद्युतो	"	"
यदेतन्मण्डलं	शब्रा.	११२, ११४, ११६
(यद्) एतन्मण्डलं	तब्राज.	१३३८
यदेति स आदिः	छाज.	७७७
यदेदन्ता अद	ऋसं.	१८६
यदेदेनमद	"	१०२
यदेनस्स्पृशती	जैब्रा.	४०६
यदेनमाह वा	असं.	४५४
यदेनमृग्भिः शं	कब्रा.	१२
यदेनश्चक्रमा	तैब्रा.	४८८
यदेभिरच्छाद्	छाज.	७५७
यदेव कं तदे	"	८३५
यदेव जाग्रद्भय	बृज.	१२०७
यदेव ते कश्चि	"	११८३,
		११८४, ११८५, ११८६
यदेव पुरुषे	शब्रा.	५१८
यदेव भगवा	बृज.	१०९१, १२६०
यदेव विद्यया	छाज.	७५०
यदेव संवत्स	शब्रा.	५१८
यदेव साक्षाद्	बृज.	११३३, ११३५
यदेवामावव	शब्रा.	५१८
यदेवेह तद्	काज.	१४२३
यदेवैतस्मिन्नो	शब्रा.	३३

यदेष आकाश	तैज.	७२५
यदेष यच्चिदस्	छाज.	८४६
यदेष हेति	शब्रा.	१५२
यदेषां श्रेष्ठं य	ऋसं.	४८९
यदैतमनुप	बृज.	१२४२
यदैन्द्र तस्मादि	शब्रा.	२९१, ३२८
*यदो गच्छात्यसु	असं.	३६०
यदो याजयत्ये	तब्राज.	१३३२
यदोषधीभिः पु	नाज.	१६२९
यदोष्ण्यस्स पुरु	मैज.	१६५५
यद्वायत्रस्योर्ध्व	तब्राज.	१३३०
यद्वायत्रे अधि	ऋसं.	२१५
यद्वायत्राय	तब्राज.	१३६६
यद्वाहृपत्यास्र	प्रज.	१५०६
यद्दक्षिणतो वा	तब्राज.	१३६१
यद्दक्षिणां यःप्र	प्रज.	१४९२
यद्वाहृणि बध्य	असं.	३७३
यद्दक्षु तद् वेत्याश्	तब्राज.	१३४२
यद्दिवा च नक्तं	नाज.	१६४६
यद्दिवि तद् वे	तब्राज.	१३४२
यद्दिशो वेत्य स	बृज.	११७३
यद्दीदयच्छव	ऋसं.	१९०
यद्दृष्टं दृष्टम	प्रज.	१५०६
यद्देवत्यासु स्तु	तब्राज.	१३४८
यद्देवा अदः स	ऋसं.	२७५
यद्देवा देवहे	तैब्रा.	४८७
यद्देवा देवान् ह	असं.	४५६
यद्देवान्प्राणयो	तैब्रा.	३३३
यद्देवा यतयो	ऋसं.	२७५
यद्देवाव इन्द्र ते	"	५८;
	तब्राज.	१३३९
	ताब्रा.	५८
* यद्दिवाश्चुते	ऐज.	५६१
यद्दि किंचेदं प्रे	"	५३०
यद्दि वा इदमा	तब्राज.	१३३९
यद्दिविरमौ हू	मैज.	१६६
यद्दि वै जीवन् पु	जैब्रा.	४०
यद्दिस्ताभ्यां चक	तैब्रा.	४८
*यद्दिस्ताभ्यां चकृ	असं.	"
यद्दि स्म सुचित्तः	जैब्रा.	४०
यद्दि किंचानुजा	छाज.	७४
यद्दि किंचान्नम	बृज.	१०८
यद्दि परं तप	नाज.	१६९

*यद्धि प्रज्ञामात्रा	कौउ.	६७१
यद्धि भूतमात्रा	"	"
यद्धि मूत्रं करो	शब्रा.	३२८
यद्धि संधि विव	ऐउ.	६०१;
	कौउ.	६८५
	ऐउ.	५३१
यद्धीरामयस्त	बृउ.	१०४७
यद्धैतन्न कुर्या	शब्रा.	४९३
यद्धयमृत्नं तद्धय	छाउ.	८८७
यद्धयेतदवेदि	"	७६९
यद्धतात्रस्य ल	शब्रा.	४६८
यद्धालाक इदं	ऐउ.	५४७
यद्धिभक्ति तस्मा	तब्राउ.	१३३१
यद्ध इति निग	"	"
यद्ध इति स्त्रीणां	ऋसं.	९८
यद्धद्रं तन्न आ	तैब्रा.	"
*यद्धद्रं तन्म आ	ताउ.	१६४५
"	शाब्रा.	१५०
यद्भव आपः	जाउ.	१६७०
यद्यग्निं न विन्दे	श्वेउ.	१६१५
यद्यच्छरीरमा	तब्राउ.	१३४२
यद्यजुषि तद्वे	ऐउ.	५६१
*यद्यन्तरिक्षं लो	"	"
यद्यन्तरिक्षलो	शब्रा.	३०२
यद्यपि नाम रू	छाउ.	७९९
यद्यप्यस्मा इमा	"	८५४
यद्यप्येनच्छुष्का	ऐउ.	५९१
यद्यमुं लोकम	तैब्रा.	२८९
यद्यस्या अप्रति	प्रउ.	१५१४
यद्यहमिमम	छाउ.	८५७
यद्यहमिमान	जाउ.	१६७१
यद्यातुरः स्यान्म	शब्रा.	४७०
यद्यु ग्रामे विव	जैब्रा.	४०४
यद्यु तन्न यद्	कौउ.	६५५
*यद्यु वा उपाभि	"	"
*यद्यु वै प्रेयात्	"	"
यद्यु वै प्रेयाद्य	"	"
यद्यु ह जीवेत्	छाउ.	९३४
यद्येता आपो वा	तब्राउ.	१३३१
यद्येवं ब्रह्मणि	मैउ.	१६६४
यद्रमते तदु	नाउ.	१६५१
यद्रान्नियात्कुरु	"	१६४४
यद्रान्निया पाप	"	"
यद्रुद्रश्चन्द्रमाः	शब्रा.	१५१
यद्रोदसी रेज	असं.	२८०
यद्रोहितमज	"	१७३

यद्धवामि मधु	असं.	५०९
यद्धर्षति स प्र	छाउ.	७७६
यद्धविज्ञातमि	"	८९९
यद्धसूनां प्रातः	"	७९०
यद्वा अतिथिप	असं.	४७३,
		४७४
यद्वा अहं प्रजा	बृउ.	१२८९
यद्वा अहं प्रति	"	"
यद्वा अहं वसि	"	"
यद्वा अहं संप	"	"
यद्वा अहमाय	"	"
यद्वा ऋते प्राणा	ऐउ.	६११;
	कौउ.	६८८
यद्वा एनेऽमुर्ध्व	बृउ.	१०६३
यद्वा पक्वं परि	असं.	३७५
यद्वा कृणोष्योष	"	१७५
यद्वागभि हि प्रा	ऐउ.	५६५
यद्वागिति तद्ग	तब्राउ.	१३६७
यद्वाग्वदन्त्यवि	ऋसं.	३४६;
	तैब्रा.	३४७
यद्वाचा ओमिति	ऐउ.	५७५
यद्वाचाऽनभ्युदि	तब्राउ.	१३७५
यद्वाचा यन्मन	तैब्रा.	४८७
यद्वा जगज्जग	ऋसं.	२१६
यद्वाऽदास्यन्दसंज	तैब्रा.	४८८
यद्वा दिवा नूत	"	४८९
यद्वा नस्पत्यं न	शब्रा.	४६७
*यद्वा पूर्तं परि	तैआ.	३७५
यद्वा प्रज्ञामात्रा	कौउ.	६७१
यद्वायौ तद् वेत्याश्	तब्राउ.	१३४२
यद्वाव कं तदे	छाउ.	८३५
यद्वाव मे त्वयी	तब्राउ.	१३६१,
		१३६२, १३६३
यद्वाव मे युव	"	१३६२
यद्वाव मे युष्मा	"	"
		१३६३
यद्वाव रेतः सि	शब्रा.	२९७
यद्वाव वाचा क	तब्राउ.	१३४९
यद्वास्ते यमुद	छाउ.	८२१
यद्वाऽहमभिदु	ऋसं.	१५५
यद्विजृम्भते त	बृउ.	९८७
यद्विद्युतो रोहि	छाउ.	८९८
यद्विद्वांसश्वावि	नाउ.	१६४६
यद्विद्वांसो यद्	असं.	५०४

*यद्विधूनते त	बृउ.	९८७
यद्विधूनते त	"	"
यद्विध्वमसृज	तब्रा.	४६०
यद्विध्वसृज आ	तैब्रा.	४६२
यद्विध्वेषु देवे	तब्राउ.	१३४८
यद्विष्णुर्भूत्वाऽक	शब्रा.	९३
यद्वृक्षा वृक्णो रो	बृउ.	११७९
यद्वृष्टात्प्रजाध्वौ	तब्राउ.	१३३३
यद्वृथ तेन मो	छाउ.	९२५
यद्वृदेपूक्तं त	मैउ.	१६६७
यद्वेव चलुर	शब्रा.	३००
यद्वेव पशुशी	"	२९७
यद्वेव विद्युतः	तब्राउ.	१३३७
यद्वेव समः प्लु	बृउ.	१०११
यद्वेवा (ऽयम्) आस्ये	तब्राउ.	१३५३
यद्वेवाक्षरं ना	"	१३३६
यद्वेवाष्टावग्नि	शब्रा.	२९७
यद्वेवैषामङ्गा	तब्राउ.	१३५३
यद्वे किंच प्राणि	शब्रा.	३०१
यद्वे किंचानूर्क्तं	बृउ.	१०५८
यद्वे चतुर्थं त	"	१२८१
यद्वे तज्ज्योतिर	ताब्रा.	२८५
यद्वे तत्पुरुषे	छाउ.	८०१
यद्वे तत्सुकृतम्	मैउ.	७२५
यद्वे तदब्रह्मेती	छाउ.	८०३
यद्वे तन्न जिघ्र	बृउ.	१२१३
* " " "	"	१२६३
यद्वे तन्न पश्य	"	१२१२
* " " "	"	१२६३
यद्वे तन्न मनु	"	१२१४
* " " "	"	१२६४
यद्वे तन्न रस	"	१२१३
* " " "	"	१२६३
यद्वे तन्न वद	"	१२१३
* " " "	"	१२६३
यद्वे तन्न विजा	"	१२१४
* " " "	"	१२६४
यद्वे तन्न शृणो	"	१२१४
* " " "	"	१२६३
यद्वे तन्न स्पृश	"	१२१४
* " " "	"	१२६४
यद्वे एवं वेत्थ अ	शब्रा.	३३८
यद्वेद्युतं तत्प	शिरउ.	१६७९
यद्वेनं नाद्युः	ऐउ.	५३०
यद्वे प्राणिति स	छाउ.	७५५

उपनिषत्काण्डम्

रे	तैब्रा.	२६	यम० ह यज्ञो ग	तैआ.	४१५	यशाः पृथिव्या अ	असं.	१७०
वि	तब्राउ.	१३४४	यमः परोवरो	असं.	३८७	यशा यासि प्रदि	"	"
मवि	छाउ.	९२९	यमत्र नाधीम	तैआ.	४१३	यशोऽच्छावाकः	ताब्रा.	४६१
रा	तब्राउ.	१३३०	यमदेवत इति	बृउ.	११७४	यशो जनेऽसानि	तैउ.	६९५
ज	असं.	३९८	यमन्तः समुद्रे	नाउ.	१६२९	यशो वा एतत्त	तब्राउ.	१३४२
कृ	नाउ.	१६४६	यमयोश्चिन्न स	ऋसं.	४७७	यशोऽहं भवामि	छाउ.	९८३
	तैब्रा.	२८९	यमराज्यमग्नि	मैउ.	१६६५	*यशोऽहं संभवा	"	"
न	शाब्रा.	४६७	यमश्चिकित्वा न प्र	असं.	३८८	यशोऽहमनुप्रा	"	"
मा दे	असं.	१६३	*यमस्य बलिना	तैब्रा.	५०५	*यश्चक्षुर्गोप्तु गो	कौउ.	६४०
भां स	"	"	यमादहं वैव	ऋसं.	३६६	यश्चक्षुषि तिष्ठ	बृउ.	११५३
मिति	"	"	यमाय द्रुतव	तैआ.	४१५	यश्चक्षुषि भोग	"	१००४
त्रण	"	"	यमाय मधुम	"	"	यश्च गां पदा स्फु	असं.	१७०
इ	कौउ.	६२८	यमाय सर्वमि	"	४१६	यश्चन्द्रतारके	बृउ.	११५२
द	"	"	यमाय सोम० सु	"	४१५	यश्चन्द्रमा मन	तब्राउ.	१३६५
नद्	तब्राउ.	१३४२	*यमाहुर्मनव	मैसं.	२३	यश्च श्रोत्रियोऽवृ	बृउ.	१२१६
म	छाउ.	७६३	यमित्यसावादि	ऐउ.	५३५	*यश्च स्वभावं प	क्षेउ.	१६१३
प्रध	"	७७८	यमित्येकमक्ष	बृउ.	१२७०,	यश्चासमा अज	ऋसं.	५०
सौम्या	गोब्रा.	११८	यमे अध्वरो अ	असं.	३८७	*यश्चापश्चन्द्रा प्र	"	१९७
तो	शाब्रा.	३९	यमे इव यत	तैआ.	४१५	यश्चापश्चन्द्रा वृ	"	"
भ	बृउ.	१०९१,	यमेतत्कर्णाव	बृउ.	१२७६	यश्चाप्सु वरुणः	नाउ.	१६३३
		१२६०	यमेतमादित्ये	शाब्रा.	११२	यश्चायं दक्षिणे	शाब्रा.	११६,
द्राय	"	१२८४	*यमेन त्वं यम्या	तैआ.	३८९	*यश्चायमग्नौ ते	बृउ.	११०५
मगोः	"	१०९१	"	"	४१५	यश्चायमस्मि०श्च	"	११०६
इन्द्रः	गोब्रा.	३३१	यमेन दत्तं त्रि	ऋसं.	४२८	यश्चायमस्मिन्ध	"	११०७
म म	तब्राउ.	१३७६	यमेवैष वृणु	काउ.	१४०८;	यश्चायमस्मिन्न	"	११०५
गामा	असं.	३०७	यमो दाधार पृ	मुउ.	१४८२	यश्चायमस्मिन्ना	"	११०६,
कम	नाउ.	१६३३	यमो नो गातुं प्र	तैआ.	४१६	यश्चायमस्मिन्मा	११०७, ११०८	
ता ग	तैब्रा.	४८८	यमो राजेति वा	ऋसं.	३५६	यश्चायमस्मिन्वा	"	११०७
द	नाउ.	१६५२.	ययाति विश्वा दु	कौउ.	६७८	यश्चायमस्मिन्स	"	११०७
आ	शाब्रा.	१५०	यया द्यौर्यया पृ	ऋसं.	८४	यश्चायमस्मिन्स्त	"	११०६
पि	ऋसं.	६१	यया यज्ञः प्राङ् ता	असं.	४३४	यश्चायमस्यां पृ	"	११०३
नेत	असं.	४८८	यया रूपणि ब	"	२४९	यश्चायमस्यां वि	"	११०६
मासो म	ऋसं.	७७	ययैव ससृजे	तैब्रा.	३१७,	*यश्चायमात्मनि	"	१०७०
दाह	नाउ.	१६५१	यर्क्तसाम	३४८	५१०	यश्चायमासु दि	"	११०६
बस	ऋसंखि.	४८६	यवयावानो दे	असं.	५१०	यश्चायमास्वप्सु	"	११०५
चन्द्र	तब्राउ.	१३५८	यवे ह प्राण आ	असं.	३१९	यश्चासावादित्ये	तैउ.	७२८,
तः पृ	बृउ.	१३०६	यश इति पशु	"	३२५	७४०		
तद्र	ऋसंखि.	५०१	यशसा संपरी	तैउ.	७४०	यश्चिदापो महि	ऋसं.	१९६
भा वा	नाउ.	१६३३	यशस्तपोऽस्य तत्	तैआ.	३२२	यश्चैवंविद्वाने	गोब्रा.	११९,
तो न	असं.	३३९	यशस्विनावेव	तब्राउ.	१३४४	१२०, ३०४, ३०५		
मं त	कौउ.	६४७	यशस्वी जयन्तो	बृउ.	१३०६	यश्चैषोऽग्नौ यश्चा	मैउ.	१६६१,
तद्व	बृउ.	९८७		तब्राउ.	१३६७	१६६७		
भङ्गय	तैआ.	४१६						
ध्वो	"	४१५						
वधास्स	"	४१६						

यश्छन्दसामृष	तै.उ. ६९५;
	ना.उ. १६१५
यस्त इधर्मं जभ	तै.आ. ४१४
यस्तं न वेद कि	तै.आ. २७
यस्ततः पुत्रो जा	श.आ. ४०९
यस्तद्वेद यत	तै.आ. ३३२
यस्तद्वेद यत्स	छा.उ. ८२४
यस्तद्वेद स वे	” ७८५
यस्तन्तुनाभ इ	श्वे.उ. १६२१
यस्तन्न वेद कि	ऋ.सं. २२३;
	श्वे.उ. १६०५
यस्तपसाऽपह	मै.उ. १६५६
यस्तमग्निं वेद	श.आ. ३२९,
	३३०
यस्तमसि तिष्ठ	बृ.उ. ११५२
यस्तायन्मन्यते	अ.सं. ८४
यस्ता विजानास्स	तै.आ. २६३
यस्तित्याज सखि	” ४९१
यस्तित्याज सचि	ऋ.सं. ४९१;
	ऐ.उ. ६१६; कौ.उ. ६८८
यस्तिष्ठति चर	अ.सं. ८४
यस्तुभ्यमग्ने अ	ऋ.सं. १८
यस्तु विज्ञानवा	का.उ. १४१३
यस्तु सर्वाणि भू	ई.उ. १३१८
यस्ते अप्सु महि	अ.सं. २१,
	२४
यस्ते गन्धः पुरु	” ५०८
यस्ते गन्धः पुष्क	” ”
यस्ते गन्धः पृथि	” ”
यस्तेजसि तिष्ठ	बृ.उ. ११५२
यस्ते देवेषु म	अ.सं. २१
यस्ते प्राणेदं वे	” ३२५
यस्ते मन्योऽविघ	” ३४१
यस्ते सर्पो वृश्चि	” ५०९
यस्ते स्तनः शश	ऋ.सं. २२८;
	बृ.उ. १३१०
यस्ते स्व इतरो	तै.आ. ४१३
यस्त्रयाणां मृत्यू	त.आ.उ. १३५७
यस्त्वचि तिष्ठस्त्व	बृ.उ. ११५३
यस्त्वमसि सोऽह	कौ.उ. ६३७
यस्त्वविज्ञानवा	का.उ. १४१३
यस्त्वा जघान व	अ.सं. ३८७
यस्त्वेतमेवं प्रा	छा.उ. ८७६
यस्त्वेतर्हि ब्रूया	” ७६५,
	७६६

यस्त्वेवोभयम	ऐ.उ. ६०१;
	कौ.उ. ६८५
यस्त्वैवं ब्राह्मणो	शु.सं. २५५
यस्माज्जातं न पु	” २५६
यस्मात्परं नाप	मु.उ. १४४६;
	श्वे.उ. १५९५; ना.उ. १६३६
यस्मात्परमप	शिर.उ. १६७९
*यस्मादन्यो न प	ता.आ. २०१
यस्मादवार्क्संव	बृ.उ. १२४२
यस्मादहमुत्का	त.आ.उ. १३७१
यस्मादिदं सर्व	ऐ.उ. ५५७
यस्मादुच्चारित	मै.उ. १६६८
यस्मादुच्चार्यमा	शिर.उ. १६७९
यस्मादृचो अपा	अ.सं. २४७
यस्मादृषिभिर्ना	शिर.उ. १६७९
यस्मादेवेमे च	मै.उ. १६६१
यस्मादेवा जज्ञि	तै.आ. ४१९
यस्माद्वीजसंभ	मै.उ. १६५९
यस्माद्भक्ता ज्ञाने	शिर.उ. १६७९
यस्माद्वाता ऋतु	अ.सं. १७३
यस्माद्वेद मेत्या	त.आ.उ. १३५९
यस्माद्गतभिदं	शिर.उ. १६८०
*यस्माद्गतमेत	” १६७९
यस्माच्च ऋते किं	ऋ.सं. ३३४;
	शि.उ. १५७३
यस्माच्च ऋते वि	ऋ.सं. ४७
यस्माच्च जातः प	शु.सं. २०१
* ” ”	” २५६
यस्मिंश्चित्तं सर्व	ऋ.सं. ३३५;
	शि.उ. १५७३
यस्मिन्स्तु पच्यते	मै.उ. १६६१
यस्मिन्क्रोधं या च	शिर.उ. १६८०
यस्मिन् क्षियन्ति	अ.सं. १७३
यस्मिन्त्समुद्रो द्यौ	” ४३७
यस्मिन्त्सूर्या आर्पि	” १७३
यस्मिन्त्स्तवध्वा प्रजा	” २४७
यस्मिन्देवा अधि	तै.आ. २७
यस्मिन् द्यौः पृथिवी	मु.उ. १४६१
*यस्मिन्नाधि वित	का.सं. १९६
यस्मिन्वामा सम	ऐ.उ. ५७५
यस्मिन्निदं विचि	का.उ. १३९८
*यस्मिन्निदं सं च	ना.उ. २५६
यस्मिन्निदं सं च	” १६२९,
	१६३१.

*यस्मिन्निदं सर्व	बृ.उ. ११६९
यस्मिन्निदं सर्व	शिर.उ. १६८१
यस्मिन्निदमधि	तै.आ. २८६
यस्मिन्नुक्तानि र	ऋ.सं. ५७
यस्मिन्नुचः साम	” ३३५;
	शि.उ. १५७३
यस्मिन्पञ्च पञ्च	बृ.उ. १२४२
यस्मिन्भूमिरन्त	अ.सं. २४७
यस्मिन्युक्ता ब्रह्म	श्वे.उ. १६०९
यस्मिन्व उत्क्रान्ते	शा.आ. ३३१;
	छा.उ. ८५१
यस्मिन्विराट् पर	अ.सं. १७३
यस्मिन्विश्वानि का	ऋ.सं. ८३
यस्मिन्वृक्षे मध्व	” २१५
यस्मिन्वृक्षे सुप	तै.आ. ४१७
यस्मिन् षडुर्वीः प	अ.सं. १७३
यस्मिन्सर्वाणि भू	ई.उ. १३१८
*यस्मै कं जुहुम	मै.सं. १९७
” ”	” २००
यस्मै कृता शये	अ.सं. २५०
यस्मै देवाः सदा	” २४८
यस्मै नमस्तच्छि	तै.आ. २६६
यस्मै मे ससृजा	श.आ. २९९
यस्मै वा एतद्	छा.उ. ८२९
यस्मै हस्ताभ्यां पा	अ.सं. २४८
यस्य चतस्रः प्र	” २४७
यस्य छायामृतं	ऋ.सं. १९५;
	शि.उ. १५७४
यस्य तक्मा कासि	अ.सं. १३२
यस्य त्रयस्त्रिंश	” २४७
यस्य त्री पूर्णा म	ऋ.सं. ८९
यस्य देवा अक	अ.सं. ४३७
यस्य देवा देव	” ३४५
यस्य देवे परा	श्वे.उ. १६२८
*यस्य द्यौरुर्वी पृ	अ.सं. १९६
यस्य द्विबर्हसो	ऋ.सं. ५६
यस्य नेशे यज्ञ	अ.सं. ४३२
यस्य प्रतिष्ठोर्व	तै.आ. ४१९
यस्य प्रयागम	ऋ.सं. ९७;
	तै.सं. १११
यस्य प्रियो बुभू	कौ.उ. ६४३
यस्य ब्रह्म च क्ष	का.उ. १४०९
यस्य ब्रह्म मुख	अ.सं. २४७
यस्य ब्रह्म वर्ध	ऋ.सं. ४८
यस्य भूमिः प्रमा	अ.सं. २४८

यस्य योनिं प	शिउ.	१५७३	यस्या हृदयं प	असं.	५०७	याज्ञवल्क्य किम	बृउ.	११८३
यस्य वांतः प्राणा	असं.	२४८	यस्येदं धीराः पु	ऋसंखि.	३३६;	याज्ञवल्क्य यथा	,,	११५७
यस्य विश्वे हिम	,,	१९५		शिउ.	१५७३	याज्ञवल्क्य वेद	,,	११७०,
*यस्य वैकङ्कल्य	नाउ.	१६४३	यस्येमाः प्रदिशो	ऋसं.	१९५	याज्ञवल्क्येति हो	,,	११७१, ११७२
यस्य शिरो वैश्व	असं.	२४७	*यस्येमे विश्वे गि	कासं.	,,		,,	१११६,
यस्य शुष्माद्रोद	ऋसं.	४५	यस्येमे हिमव	ऋसं.	,,	१११७, १११८, १११९,		
यस्य इवेता विच	,,	८३	यस्यैव रेतो भ	तब्राउ.	१३६५	११२०, ११२१, ११२३,		
यस्य सूर्यश्चक्षु	असं.	२४८	यस्यो अपि नाम	शब्रा.	३०२	११२४, ११२५, ११२९,		
यस्य हि सोमः प्रा	मैउ.	१६६५	यस्योरुषु त्रिषु	ऋसं.	८८	११३१, ११३५, ११४४,		
यस्या उपस्थ उ	असं.	१६५	यस्योर्ध्वा दिवं त	असं.	१७३	११४६, ११७६		
यस्यां वस्यांचिद्दि	ऐउ.	५३७	यद्वा इव प्र व	,,	१७२	*याज्ञवल्क्यो मैत्रे	,,	१२५९
यस्यां कृष्णमरु	असं.	५०९	या अग्नि गर्भं द	असं.	१५६,	या त इषुः शिव	तैसं.	१३४
					१५७	या तिरश्ची निप	बृउ.	१३०१
यस्यां गायन्ति वृ	,,	५०८	या अधस्तात्ता आ	ऐउ.	५८१	यातुरिति यातु	शब्रा.	११७
यस्यां देवा अद	तैब्रा.	३४८	या अध्यात्ममिति	बृउ.	११२०	या ते अग्ने पव	कासं.	२५
यस्यां पूर्वे पूर्वं	असं.	५०७	या अन्या ओषध	शब्रा.	४६७	या ते अग्ने पाव	,,	,,
यस्यां पूर्वं भूत	,,	५०८	या आपस्तत्पानम्	,,	५१८	या ते अग्ने शुचि	,,	,,
यस्यां मीयन्ते स्व	,,	५०७	या आपो याश्च दे	असं.	३१२	या ते तनूर्वाचि	प्रउ.	१४९९
यस्यां वातो मात	,,	५०९	या आरण्या ओष	शब्रा.	४६७	या ते धामानि प	ऋसं.	१८५
यस्यां वृक्षा वान	,,	५०८	या इमा अन्तर्दे	शब्रा.	४५९	या ते प्राण प्रिया	असं.	३२४
यस्यां वेदिं परि	,,	५०७	*या इमा देवता	गोब्रा.	४६०	या ते रुद्र शिवा	तैसं.	१३४,
यस्यां संपद्य धी	ऐउ.	६२१	या एव यज्ञ आ	असं.	४७३			१४५
यस्यां सदोहवि	असं.	५०८	यां कां च दिशं ग	बृउ.	११८५	या ते हेतिर्माहु	,,	१३६
यस्यां समुद्र उ	,,	५०६	यां तु कुमारया	,,	१२९४	यादृशस्यो ह वै "	तब्राउ.	१३६५
यस्यां हिरण्यं प्र	ऋसंखि.	५०१	यां त्वमापः सत्य	काउ.	१४०१	या धमनयस्ता	छाउ.	८२१
यस्यां हिरण्यं वि	,,	४९९	यां दिशमभिष्टो	छाउ.	७५७	यानि कानि चिच्छा	असं.	५१२
यस्याः पुरो देव	असं.	५०९	यां द्विपदः पक्षि	असं.	५०९	यानि खानि स आ	ऐउ.	५६१
यस्याग्निहोत्रम	मुउ.	१४४९	यां प्रच्युतामनु	,,	१६१	यानि त्रीणि बृह	असं.	१६१
यस्याजस्रं शव	ऋसं.	४५	यां मेधां देवग	ऋसंखि.	५०२	यानि पञ्चधा त्री	छाउ.	७८४
यस्याऽऽण्डकोशः शु	तैआ.	२६९	यां मेघामृभवो	असं.	३४४	यानि मनुरवृ	ऋसं.	१२७
यस्यानुवित्तः प्र	बृउ.	१२४१	यां रक्षन्त्यस्वप्रा	,,	५०८	यानि वा इमानि	तैब्रा.	२८९
यस्यान्वितमनु	ऋसंखि.	३३५	यांश्च देवा वावृ	ऋसं.	३५६	यानि ह्येव जाग्र	बृउ.	१२०ः
यस्यापमृत्युर्न	,,	४७९	याः काश्च पृथिवीः	तैउ.	७१४	यानु कांश्चाऽतः प्रा	तब्राउ.	१३६
यस्यामतं तस्य	तब्राउ.	१३७८	*याः पृथिवीं पय	तैसं.	१५७	यानुष्मणोऽधिदै	ऐउ.	६११
यस्यामन्नं व्रीहि	असं.	५०८	याः प्रतीच्यः स प्र	छाउ.	७७६		कौउ.	६८
यस्यामापः परि	,,	५०७	याः प्राच्यः स्यन्दन्ते	,,	,,	यानुष्मणो रात्र	कौउ.	६८
यस्यामिदं जिन्व	,,	५०६	या कनीनका त	बृउ.	१०८०	यानुष्मणोऽवोचा	ऐउ.	६१
यस्यामिदं विश्वं	तैसं.	१६५	*या कनीनिका त	,,	,,	या नो दूरे तल्लि	ऋसं.	१९
यस्यामृचि तामृ	छाउ.	७५७	याऽमौ या रथन्त	कासं.	२५	यान्त्संधीनधिदै	ऐउ.	६९
यस्यां व्रते प्रस	असं.	१६१	*या च ते तनूर्वा	प्रउ.	१४९९	यान्त्संधीनवोचा	,,	:
यस्याश्चतस्रः प्र	,,	५०६	या च मनसि सं	,,	१५००	यान्यक्षराण्यधि	,,	
यस्याश्वासः प्रदि	ऋसं.	४६	या जाता ओषधी	तैब्रा.	४८९		कौउ.	६
*यस्यासौ पन्था र	असं.	१९६	याज्ञवल्क्य उद्वा	बृउ.	१३११	यान्यक्षराण्यवो	ऐउ.	६
*यस्यासौ सूरौ वि	,,	,,	याज्ञवल्क्य किञ्चो	,,	११९०		कौउ.	६

यान्यनवद्यानि	तै.उ.	७०४	यावदनु पृथि	ऐ.उ.	५३९	यावान्वा अयमा	छा.उ.	९५४;
*यान्यपामित्यान्य	तै.ब्रा.	५०५	यावदनु वरु	"	५४०		परि.	१५६४
यान्यस्माकं सुच	तै.उ.	७०४	यावदनु वायुः	"	५३९	या वा प्रज्ञा स प्रा	कौ.उ.	६६५,
यान्युलूखलमु	असं.	४७३	यावदन्वस्य ग	छा.उ.	९३४			६६७
*यान्येव जाप्रप	वृ.उ.	१२०२	यावदन्वमिः	ऐ.उ.	५३९	* " "	"	६६६
यान्संधीनधिदै	कौ.उ.	६८८	यावदन्वन्तरि	"	"	या वाऽस्या अग्न्यास्त	मै.उ.	१६५७
यान्संधीनवोचा	"	६८७	यावदन्वादित्यः	"	५४०	*या वित्तैषणा सा	वृ.उ.	१२४७
या पर्वतेष्वोष	ऋसं.	२	यावदन्वापः	"	"	या वित्तैषणा सा	"	"
याऽप सप विज	असं.	५०८	यावदपां गतं	छा.उ.	९३५	या विप्रुषो वि प	तै.आ.	१६०,
या पुरस्ताद्युज्य	"	२४९;	*यावदस्मिन् शरी	कौ.उ.	६५९			३०६
	गो.ब्रा.	५२२	यावदाकाशस्य	छा.उ.	९३६	या वेदादिषु गा	शि.उ.	१५७४
या प्राणेन संभ	का.उ.	१४२२	यावदादित्यस्त	ऋसं.खि.	४७९	या वै ता इमाः प्र	ऐ.उ.	५२७
या विभर्ति बहु	असं.	५०७	यावदावासा उ	त.ब्रा.उ.	१३५३	या वै सा गायत्री	छा.उ.	८०१
याभिरादित्यस्त	ना.उ.	१६५१	यावदाशाया ग	छा.उ.	९३७	या वै सा पृथिवी	"	"
याभ्यः कनोयः क	श.ब्रा.	५१७	यावदेकैकस्मा	"	८७३	या वै सा मूर्तिर	ऐ.उ.	५८४
*याभ्यामिदं विश्व	मै.सं.	१०३,	यावदेतयोर्न	ऐ.उ.	५३९,	या वै सा वाग्नि	श.ब्रा.	३३०
		३६६			५४०	या वो भेषजा म	ऋसं.	१२७
	असं.	५०९	यावदेतेषां न	"	५४०	या व्याहृतिराहु	ना.उ.	१६५१
यामन्वैच्छद्वि	"	५०७	यावद्दाताऽभिम	असं.	४३८	या शतेन प्रत	"	१६३२
यामश्विनावमि	"	३४५	यावद्द्वादशाहे	"	४७४	याश्च ते हस्त इ	तै.सं.	१३६
यामाशामेमि के	"	३४५	यावद्ध वा आत्म	त.ब्रा.उ.	१३३४	*याश्च ते हस्ता इ	मै.सं.	"
यामिषुं गिरिश	तै.सं	१३५;	यावद्धयस्मिन् शरी	कौ.उ.	६५९	याश्च दक्षिणाच्यः	श.ब्रा.	४७१
	श्वे.उ.	१५९४	यावद्धयानस्य ग	छा.उ.	९३२	याश्च प्रतीच्यः	"	"
यामृषयो भूत	असं.	३४५	यावद्धयेव प्राणे	त.ब्रा.उ.	१३६४	याश्चोदीच्यः	"	"
यामृषयो मन्त्र	तै.ब्रा.	३४९	यावदध्रियते सा	ना.उ.	१६५१	यासां देवा दिवि	असं.	१५७
या मेधाऽऽसरस्सु	ऋसं.खि.	५०१	यावदूलस्य ग	छा.उ.	९३४	यासां राजा वरु	ऋसं.	१५६,
यामेव कुमार	छा.उ.	८५७	*यावद्यस्मिन् शरी	कौ.उ.	६५९			१५७
याऽर्णवेऽधि सलि	असं.	५०७	यावद्वाचो गतं	छा.उ.	९२९	या सा तृतीया मा	गो.ब्रा.	५२३;
यावत्त्विचत्स्य ग	छा.उ.	९३२	यावद्वायुः प्लवा	ऋसं.खि.	४७९	शिर.उ.	१६८०	
यावतीर्दिशः प्र	असं.	३४०	यावद्विज्ञानस्य	छा.उ.	९३३	या सा द्वितीया मा	गो.ब्रा.	५२३;
यावतीर्दृष्ट्वा ज	"	"	यावद्वै पुरुषः	कौ.उ.	६४४	शिर.उ.	१६८०	
यावती वै वेदि	त.ब्रा.उ.	१३३१	यावद्वै पुरुषो	"	"	या सा प्रथमा मा	गो.ब्रा.	५२३;
यावत्त एनं प्र	छा.उ.	७६७	*यावन्त एनं प्र	छा.उ.	७६७	शिर.उ.	१६८०	
यावत्तेजसो ग	"	९३५	यावन्तं ह वै त्र	तै.ब्रा.	२९	या सार्धचतुर्थी	गो.ब्रा.	५२३;
यावत्तेऽभि विप	असं.	५०८	यावन्तीह वै भू	मै.उ.	१६६०	शिर.उ.	१६८०	
यावत्त्वेभ्यो धनं	छा.उ.	७७०	यावन्तो देवास्त्व	वृ.उ.	१३०१	*यासु देवीष्वधि	असं.	१९६
यावत्तयो वै काल	मै.उ.	१६६०	यावन्नाम्नो गतं	छा.उ.	९२८	यासु राजा वरु	ऋसं.	१५६
यावत्संकल्पस्य	छा.उ.	९३१	यावन्मनसो ग	"	९३०	या सूर्ये या बृह	का.सं.	२५
यावत्सत्त्रसधे	असं.	४७४	यावन्मात्रमुष	ऋसं.	१०४	यास्ते धाना अनु	असं.	३९१
यावत्संभारस्य ग	छा.उ.	९३६	यावन्मुष्य गेष्वी	छा.उ.	७६३	यास्ते प्रजा उप	त.ब्रा.उ.	१३६१,
यावदग्निष्टोमे	असं.	४७४	याऽवसानेऽस्य च	शिखा.उ.	१६८२	१३६२, १३६३		
यावदतिरात्रे	"	"	या वाक्सर्क	छा.उ.	७५५	यास्ते प्राचीः प्रदि	असं.	५०८
यावदनु चन्द्र	ऐ.उ.	५४०	या वाक् सोऽग्निः	गो.ब्रा.	३३१	यास्ते रुहः प्ररु	"	१६८
यावदनु दिशः	"	"	या वति या वाम	का.सं.	२५.	यास्ते विशस्तप	"	"
यावदनु द्यौः	"	"						

*यास्ते शिवास्तु	तैआ.	३६०	यूना ह सन्ता प्र	ऋसं.	६९	ये तेऽष्टौ ब्रह्मा अ	बृउ.	११२१
यास्ते शिवास्तन्वः	असं.	३४०	यूयं नस्तस्मान्मु	असं.	५०४	ये ते सहस्रम	तैआ.	४६१;
यास्ते शिवास्तन्वो	कासं.	२४;	यूयं हि षा भिष	ऋसं.	१५६		नाउ.	१६४६
	ऋसं.	३६०	यूयमग्ने शंत	असं.	३९५	*येतो नैषां पुन	ऋसं.	३५३
यास्ते सहस्रं हे	तैसं.	१४७	यूयमपि तप्य	शाब्रा.	१५०	येऽत्यायंस्ते परा	ऐउ.	५२७
यास्ते सोम प्रजा	नाउ.	१६४४	यूयमुग्रा मरु	असं.	१६६	*येऽत्यायंस्ते ह प	"	"
यास्ते सोम प्राणां	"	"	ये अन्नयो अप्सव	"	१९	ये त्रिषप्ताः परि	असं.	५०२
याऽस्य सा तनूरा	तैआ.	२८९,	ये अन्नवः शश	"	३८८	ये दिक्षवन्तये वा	"	२०
		२९०	ये अन्नेषु विवि	तैसं.	१४८	ये दिवि पुण्या लो	"	४५४
या हुता अतिने	बृउ.	१११९	*ये अर्वाहुत वा	कब्रा.	२४९	*ये देवयाना उ	तैआ.	३७१
या हुता अधिशे	"	"	ये अर्वाङ् मध्य उ	असं.	"	ये देवयानाः पि	असं.	"
या हुता उज्ज्वल	"	"	ये अर्वाङ्गस्तां उ	ऋसं.	२१३	*ये देवयाना उ	तैआ.	५०५
*या ह्येव पुत्रेष	"	१२४७	*ये अस्मिन् महत्य	मैसं.	१४८	ये देवा असुरे	तब्राउ.	१३४२
या ह्येव पुत्रैष	"	११३६,	ये अहोरात्रे ते	नाउ.	१६५१	*ये देवानां ऋत्वि	असं.	४९९
		१२४७	ये कर्मणा देवा	तैउ.	७२८	ये देवानां यज्ञि	ऋसं.	"
युक्तप्राणो योऽवि	ऋसं.	४६	ये के चास्मच्छेयां	"	७०४	ये देवा राष्ट्रभृ	असं.	१६९
युक्ता आयुक्ताः	तैउ.	७०४	ये गन्धर्वा अप्स	असं.	५०९	ये देवास्तास्यां प्रा	"	४३४
युक्ता मातासीद्बुधु	ऋसं.	२१०	येऽप्रयः पुरीष्याः	तब्राउ.	१३६८	*येन ऋषयस्त	शुसं.	२३
युक्ता ह्यस्य हर	तब्राउ.	१३४३	येऽप्रयो दिवो ये	कासं.	२५	ये नः पितुः पित	असं.	३८८,
युक्तेन मनसा	तैसं.	१११;	ये ग्रामा यद	असं.	५०९	ये नः पूर्वे पित	ऋसं.	३५९
	श्वेउ.	१५८५	ये ग्राम्याः पशवो	तैआ.	२७२	येन कर्माणि प्र	ऋसंखि.	३३५;
	तैसं.	११०;	*ये चत्वारः पथ	तैसं.	३७१		शिउ.	१५७३
युक्त्वाय मनसा	श्वेउ.	१५८६	ये च न	शाब्रा.	५१७	येन कर्माण्यप	ऋसं.	३३४;
	कासं.	११०	ये चित्पूर्व ऋत	ऋसं.	३६७		शिउ.	१५७३
*युक्त्वाय सविता	ऋसं.	५४	ये चेमां रुद्रा अ	तैसं.	१३५	येन केन प्रक्वा	ऋसंखि.	४७९
युजानो हरिता	तैसं.	१११;	*ये चेमे अभितो	मैसं.	"	ये नखाः	तैआ.	१५९,
युजे वां ब्रह्म पू	श्वेउ.	१५८६	ये चेमेऽरण्ये श्र	छाउ.	८६१		३०६	
	असं.	५०८	*ये चेमे रुद्रा अ	कासं.	१३५	येन छन्दसा स्तो	छाउ.	७५७
युज्यन्ते यस्यामृ	बृउ.	१२७९	ये चेह सद्येने	तैआ.	४१६	येन जातानि जी	तैउ.	७३५
युज्यन्ते हास्यै स	असं.	४३४	*ये चेनै रुद्रा अ	शुसं.	१३५	येन देवा असु	असं.	३३९
युज्यमानो वैश्व	ऋसं.	९७;	ये त आरण्याः प	असं.	५०९	येन देवाः स्वरा	"	४३८
युज्जते मन उ	तैसं.	१११;	ये त आसन्दश	"	३०९	येन देवा ज्योति	तैसं.	२१
	श्वेउ.	१५८६	येत आसीद्भूमिः	"	३०८	येन द्यौः पृथिवी	शिउ.	१५७
युज्जानः प्रथमं	तैसं.	११०;	ये तत्र ब्राह्मणाः	तैउ.	६०४,	येन द्यौरुग्रा पृ	ऋसं.	१९६
	श्वेउ.	१५८५		७०४		शुसं.	२५६; ऋसंखि.	३३
*युजे वां ब्रह्म पू	श्वेउ.	१५८६	ये तद्विदुरमृ	बृउ.	१२४१	येन पूतस्तर	तैआ.	४२
युध एकः सं सु	असं.	४३५	*ये तातृपुद्वेव	तैआ.	३५९	येन प्रजापतिः	कौउ.	६५
युध्यन्ते यस्यामा	"	५०८	ये तातृषुद्वेव	ऋसं.	"	येन प्राच्या उत	तैआ.	३१
युनक्ति युज्जते	मैउ.	१६६२	ये तिर्यञ्चो लोका	तब्राउ.	१३४०	येन मात्रामात्रं	कौउ.	६८
युयोध्यस्मज्जुहु	बृउ.	१२८४;	ये तीर्थानि प्रच	तैसं.	१४८	येन मात्राऽमात्रां	ऐउ.	६०
	ईउ.	१३२८	ये तु केचन श	कौउ.	६८७	येन यज्ञस्ताय	ऋसं.	३३
युरित्यस्य मर्त्य	तब्राउ.	१३७१	ये ते पन्थानो ब	असं.	५०९	येन रुद्रेण ज	शिउ.	१५
युवमस्मासु नि	तैआ.	२७२	ये ते पाशा वरु	"	८५	येन रूपं रसं	काउ.	१४
युवानं विश्रुतिं	ऋसं.	१८	ये ते पूर्वे परा	"	३९२	येनर्तवः पञ्च	तैआ.	२
युवा स्यात्साधुयु	तैउ.	७२८						

येनर्षयस्तप	तैसं.	२३
येन वा पश्यति	ऐउ.	५९३
*येन विक्षा पुष्य	असं.	२२८;
	बृउ.	१३१०
येन संधि विव	ऐउ.	६०३;
	कौउ.	६८५
येन सर्वमिदं	नाउ.	१६५१
येन साम्ना स्तोष्य	छाउ.	७५६
येन सूर्यस्तप	तैब्रा.	४६३
येन स्तोमेन स्तो	छाउ.	७५७
येन स्वरास्वरं	कौउ.	६८५
येन स्वरास्वरं	ऐउ.	६०३
येन हैवार्थेन	छाउ.	८७३
*येना ऋषयस्त	मैसं.	२३
येनाक्रमन्त्यृष	मुउ.	१४७८
येनाक्षरं पुरु	"	१४५३
येनाङ्गिरसो म	तैसं.	२४
येनादित्यान् हरि	असं.	१७३
येनान्तरिक्षमु	ऋसं.	१०
येना पावक च	असं.	१७१
येनाऽऽपो नयो ध	तैआ.	४१६
येनाऽऽवृत्तं खं च	नाउ.	१६२९
येनाऽऽवृत्तं नित्य	श्वेउ.	१६१७
येना समुद्रम	ऋसं.	५५
येनाहं नामृता	बृउ.	१०९१,
		१२६०
*ये नीलग्रीवाः शि	कासं.	१४८
ये नृशंसा निदि	ताब्रा.	४८६
येनेदं जगद्व्या	ऋसंखि.	३३६;
	शिउ.	१५७३
येनेदं भूतं भु	ऋसं.	३३५;
	शिउ.	१५७३
येनेदं विश्वं ज	शिउ.	१५७३
येनेदं विश्वं प	तैब्रा.	४२८
येनेदं सर्वं ज	ऋसंखि.	३३६
येनेदं सर्वं वि	बृउ.	११०१,
		१२६४
येनेदमद्य रो	असं.	३१०
येनेदमन्नं प	बृउ.	१२७६;
	मैउ.	१६५५
येनेदस्य रथं	कासं., मैसं.	१९
येनेमा विश्वा च्य	ऋसं.	४६
येनेमा विश्वा भु	तैआ.	२७१
ये नैकरूपाश्च	मैउ.	१६६३
येनैव ससजे	असं.	५१०

येऽन्तरिक्षे पुण्या	असं.	४५४
येऽन्नं ब्रह्मोपास	तैउ.	७१४
*येऽन्नेषु विविध्य	कासं.	१४८
येऽन्ये देवास्तत्स	शब्रा.	४७०
येऽन्ये प्राणास्तत्स	"	"
येऽन्ये लोकास्तत्स	"	"
येऽन्ये वेदास्तत्स	"	"
ये पञ्च पञ्चद	शिउ.	१५७३
ये पञ्चपञ्चा द	ऋसंखि.	३३५
ये पथां पथि र	तैसं.	१४८
*ये पथीनां पथि	कासं.	"
ये पन्थानो बह	असं.	३७१
ये परेणाऽऽदित्यम्	तैब्रा.	४०६
ये पाकशंसं वि	ऋसं.	३५४
ये पार्थिवं रज	"	३५८
ये पुण्यानां पुण्या	असं.	४५४
ये पुरुषे ब्रह्म	"	२४७
ये पूर्वं देवा ऋ	श्वेउ.	१६१३
ये पृथिव्यां पुण्या	असं.	४५३
ये प्रत्यञ्चो लोका	तब्राउ.	१३४०
ये प्राणं ब्रह्मोपा	तैउ.	७१५
ये बिन्दव इवा	मैउ.	१६६५
येऽब्राह्मणास्त्रिसु	नाउ.	१६४४,
		१६४५
येभिर्वात् इषि	असं.	२५०;
	तब्राउ.	१३३९
ये भूताः प्रचर	नाउ.	१६४८
ये भूतानामधि	तैसं.	१४८
येभ्यो मधु प्रधा	असं.	३६७
ये मनो हृदयं	ऋसंखि.	३३६;
	शिउ.	१५७३
ये मृत्यव एक	असं.	३८५
येयं प्रेते विचि	काउ.	१३९५
ये युध्यन्ते प्रध	ऋसं.	३६७
ये ये कामा दुर्ल	काउ.	१३९७
येऽर्धमासाश्च मा	नाउ.	१६५१
*ये वनेषु शष्पि	कासं.	१४८
येऽवरेणाऽऽदित्यम्	तैब्रा.	४०६
येऽवाह्नः प्राणास्ते	शब्रा.	२९५
ये वालाः	तैआ.	१५९,
		३०६
ये वा सहस्रद	ऋसं.	३६७
*ये वृक्षेषु शष्पि	मैसं.	१४८
ये वृक्षेषु ससिप	तैसं.	"

ये वै के च यज्ञा	बृउ.	१०५८
ये वै के च लोका	"	"
ये वै के चास्माल्लो	कौउ.	६२९;
	परि.	१५३५
ये वै तन्वं वि सु	ऋसंखि.	३६८
ये व्रीहयो यवा	असं.	४७३
ये शरीराण्यक	तैआ.	४१२
ये श्रोत्रं चक्षुषी	ऋसंखि.	३३६
येषां तपो ब्रह्म	प्रउ.	१४९६
येषां पुरुत्रा वि	असं.	२४४
येषां सक्तस्तु भू	मैउ.	१६५६
येषु ता देवता	शब्रा.	३०२
येषु सत्यं प्रति	प्रउ.	१४९६
ये संग्रामाः समि	असं.	५०९
ये संवत्सराश्च	नाउ.	१६५२
ये सत्यासो हवि	ऋसं.	३५९
ये सम्यञ्चो लोका	तब्राउ.	१३४०
ये स्तोत्रुभ्यो गोअ	ऋसं.	९
*येऽस्मिन्महलयर्ण	कासं.	१४८
यैः संचरन्त्युभ	असं.	५०९
यैरेव ससजे	"	५११
यैवैके चानन्दा	शब्रा.	३४७
यैषा क्षुद्रमिश्रा	कौउ.	६८९
यो अक्रन्दयत्स	असं.	१६१
यो अक्षेणैव च	ऋसं.	६२
यो अभौ रदो यो	असं.	१२८;
	शिउ.	१६८१
यो अदधाज्जयोति	ऋसं.	६१
यो अद्य देव सू	असं.	१७०
यो अन्तरा रोद	"	१७३
यो अन्तरिक्षं वि	ऋसं.	४५
* " " " र	कासं.	१९६
यो अन्तरिक्षे र	ऋसं.	" ;
	शुसं.	२५६
यो अज्ञादो अन्न	असं.	१७३
*यो अप्स्वन्तरग्नि	कासं., मैसं.	१९
यो अश्मनोरन्त	ऋसं.	४५
यो अश्वेषु वीरे	असं.	५०८
यो अस्कभायदु	ऋसं.	८८
यो अस्मि सो अस्मि	असं.	३७६
यो अस्य विश्वज	"	३२७
यो अस्य सर्वज	"	"
यो अस्याध्यक्षः प	ऋसं.	२४३,
		२७६

योऽक्षन् रमत इ	तब्राउ.	१३४३	यो नु कथं सयु	छाउ.	८२३,	योऽयं वरो गूढ	काउ.	१३९८
योग आत्मा	तैउ.	७१७			८२४	योऽयं विज्ञानम	कौउ.	६९१;
योगक्षेम इति	तैसं.	७४०	*योनेरिव प्रच्यु	तैआ.	३७४		बृउ.	११९२
योगक्षेमो नः क	तैसं.	५१४	यो नो अग्निः पित	असं.	२०	योऽयं शुद्धः पूतः	मैउ.	१६६४
योऽग्निं नाचिकेतं	तैब्रा.	४०७	यो नो अरातिः स	नाउ.	१६४३	योऽयं सव्येऽक्षन्पु	शब्रा.	११४
योऽग्निर्वागेव सा	तब्राउ.	१३६५	यो नो दूरे अघ	"	"	यो यज्ञस्य प्रसा	असं.	१७०
योऽमौ तिष्ठन्नग्ने	बृउ.	११५१	यो नो द्वेषत्पृथि	असं.	५०७	यो यज्ञो विश्वत	ऋसं.	२७६
यो घोषः स आत्मा	ऐउ.	५५४	योऽन्तरिक्षे तिष्ठ	"	१३२;	योऽयमग्निश्चीय	शब्रा.	२९२
यो जघान शम्ब	असं.	४८		बृउ.	११५१	योऽयमन्तरात्म	"	१५३
यो जविष्ठो भुव	शब्रा.	४६८	योन्या इव प्रच्यु	असं.	३७४	योऽयमवाङ् प्राण	जैब्रा.	३२७
यो जागार भुव	"	"	योऽन्वेव ज्ञातः	शब्रा.	४७०	यो योनिं योनिम	श्वेउ.	१६०७,
यो जात एव प्र	ऋसं.	४५	*योऽपानेनापानि	बृउ.	११३२	१६१२; शिरउ.	१६८०	
योऽग्निष्ठः स प्राणः	छाउ.	९०१	योऽपानेनापानी	"	"	यो यो ह्यन्नमत्ति	छाउ.	८६६
योऽग्निष्ठः सा वाक्	"	"	*योऽपि विज्ञानम	"	११९२	यो रत्नधा वसु	ऋसं.	२२८
योऽग्निष्ठस्तन्मनः	"	८९९	योऽप्सु तिष्ठन्नद्भ्यो	"	११५१	यो रघ्नस्य चोदि	"	४६
योऽतिथीनां स आ	असं.	४७३	योऽप्सु नावं प्रति	तैआ.	१५८	यो रसः	तैआ.	१५९,
योऽथर्वाणं पित	"	१९९	यो बुद्धयन्तस्थो ध्या	मैउ.	१६६४		३०६	
यो दध्ने अन्तरि	"	३९१	यो ब्रह्माणं विद	श्वेउ.	१६२५	यो राय ईशे श	मैसं.	२०१
यो दिक्षु तिष्ठन्दि	बृउ.	११५२	यो भानुना पृथि	ऋसं.	१००	यो राया वज्री सु	ऋसं.	५३
यो देवमुत्तरा	असं.	२५०	योऽभियातो निल	असं.	१३०	यो रुद्रः स ईशा	शिरउ.	१६७९
यो देवानां नाम	"	१०८,	यो भूतं च भव्यं	"	२४८	यो रुद्रो अग्नी यो	शिउ.	१५७४;
		१८६	यो भूतः सर्वस्ये	"	३२३		शिरउ.	१६८१
*यो देवानां प्रथ	श्वेउ.	१५९३,	यो भूतानामधि	शुसं.	३५२	यो रुद्रो अप्सु य	शिरउ.	१६८१
		१६०८	यो भोजनं च द	ऋसं.	५०	यो रेतसि तिष्ठ	बृउ.	११५४;
"	नाउ.	१६३६	यो म आत्मा या मे	ताब्रा.	५१६		परि.	१५६८
यो देवानां प्रभ	श्वेउ.	१५९३,	यो मध्यमः स म	छाउ.	९०१	यो रोहितो विश्व	असं.	१६६
		१६०८	यो मध्यमस्तन्मा	"	८९९	यो रोहितो वृष	"	१६९
यो देवानामधि	"	१६०८	यो मध्यमस्तल्लो	"	९०१	यो रौहिणमस्फु	ऋसं.	४७;
यो देवेभ्य आत	शुसं.	२५४	यो मनसि तिष्ठ	बृउ.	११५३		तब्राउ.	१३३८
यो देवेष्वधि दे	ऋसं.	१९६	यो मनसि भोग	"	१००४	योऽर्थज्ञ इत्सक	कौउ.	६९२
यो देवो अग्नी यो	श्वेउ.	१५९१	यो ममार प्रथ	असं.	३९०	यो वः कामयते	बृउ.	११७८
यो देवो देवेषु	तैब्रा.	३१६,	यो महिम्ना परि	ऋसं.	१०२	यो वः शिवतमो	नाउ.	१६३३
		३२८	यो मां द्वेष्टि तं ज	तैआ.	३३३	यो वः सेनानीर्म	ऋसं.	४८५
यो देवो विश्वाद् य	असं.	१९	यो मां वेद स दे	शिरउ.	१६७७	योऽवकाशः पूर्व	ऐउ.	६०३
यो धर्ता भुवना	ऋसं.	८३	यो मा ददाति स	तैब्रा.	४७७;	योऽवरेणाऽऽदित्यम्	तैब्रा.	४०६
यो धीता मानुषा	"	८२		तैउ.	७४०	योऽवरे वृजने	ऋसं.	१९२
यो धीरः शक्रः प	असं.	१९	यो माऽभिच्छायम	असं.	१७०	यो वा इदं कथि	बृउ.	११४७
यो नः पिता जनि	ऋसं.	१८६	यो मारयति प्रा	"	१७३	यो वा इह यज	तैब्रा.	२८७
योऽनन्तस्तत्तारं	शिरउ.	१६७९	यो मा सावित्रे स	तैब्रा.	२६	यो वा एतं पृथ	शब्रा.	४०
यो नस्तद्वेद त	तब्राउ.	१३७७	यो मृळयाति च	ऋसं.	८२	यो वा एतं प्रति	"	३९
यो नार्मरं सह	ऋसं.	५०	योऽयं चक्षुषि पु	तब्राउ.	१३४३	यो वा एतं बहु	"	४०
योनिमन्ये प्रप	काउ.	१४२९	योऽयं दक्षिणेऽक्ष	बृउ.	१२७४	यो वा एतं रथि	"	"
योनिरन्विः	छाउ.	८६०;	योऽयं पवत इ	"	११६९	यो वा एतं सुत	"	४१
	बृउ.	१२९७	*योऽयं प्राङ् प्राण ए	जैब्रा.	३२७	यो वा एतदक्ष	बृउ.	११६४
योनिर्ज्योतिः	जैब्रा.	४०४				यो वा एतमति	शब्रा.	४१

यो वा एतां सावि	तत्राज.	१३८८
यो वा एतामेव	"	१३८५
यो वा एतेन जी	जैत्रा.	४०३
यो वा एतेभ्योऽप्रो	मैसं.	१६६
*यो वाचं परिवे	कौउ.	६४०
यो वाचि तिष्ठन्प्रा	वृउ.	११५३
यो वाचि भोगस्तं	"	१००३
यो वाऽप्येतां ब्रह्म	काउ.	१३९४
यो वाचौ तिष्ठन्वा	वृउ.	११५१
यो वा शतं वर्षा	शब्रा.	५१७
यो विज्ञाने तिष्ठ	वृउ.	११५३
यो विद्यात् सप्त प्र	असं.	४३४
यो विद्यात्सूत्रं वि	"	२५०
यो विद्याद्ब्रह्म प्र	"	४७३
*यो विद्युति तिष्ठ	वृउ.	११५२
यो विद्युति स प	तत्राज.	१३३७
यो विद्युति स स	"	"
*यो विश्वचक्षुर्	कासं.	१८४
यो विश्वचर्षणि	असं.	१७१
* " " "	"	१८४
यो विश्वजिद्विश्व	"	४३२
यो विश्वस्य प्रति	ऋसं.	४७
यो विश्वाभि विप	"	९५
यो विष्टभनाति पृ	असं.	१६९
यो वेतसं हिर	"	२४८
यो वेद निहितं	तैउ.	७०६
यो वेद परमे	असं.	२४७
यो वेदादौ स्वरः	नाउ.	१६३७
यो वेदानुहो	असं.	४३३
यो वेदेदं मेऽने	शब्रा.	४६६
यो वै गायत्र्यै मु	तत्राज.	१३६९
यो वै चक्षुः साम	"	१३५४
यो वै तत्काप्य सू	वृउ.	११४७
यो वैतदेवं वे	शब्रा.	४७०,
		४७१
यो वै तां ब्रह्मणो	असं.	२४५;
	तैआ.	३२२
यो वै तां वाचं वे	ऐउ.	५६९
यो वै तां विद्यान्ना	असं.	३०८
यो वै तान् विद्यात्प्र	"	२४७,
		३०८
यो वैतामक्षिति	वृउ.	१०४६,
		१०४७
*यो वै तामक्षिति	"	१०४६,
		१०४७

यो वै ते विद्याद	असं.	२५०	
यो वै देवं महा	शिउ.	१५७४	
यो वै पुण्यकृत्या	तत्राज.	१३३१	
यो वै प्राणः स आ	शब्रा.	३२८	
यो वै प्राणः सा प्र	कौउ.	६६५,	
		६६७	
* " " "	"	६६६	
यो वै बालाक ए	"	६७८	
यो वै भूमा तत्सु	छाउ.	९४१	
यो वै भूमा तद	"	९४४	
यो वै महाक्षाने	तत्राज.	१३५४	
यो वै वेद महा	ऋसंखि.	३३६	
यो वै वेदादिपु	"	"	
*यो वै संवत्सर	वृउ.	१०५६	
यो वै स धर्मः स	"	१०३८	
यो वै स बहिर्या	छाउ.	८०३	
यो वै स संवत्स	वृउ.	१०५६	
यो वै साम्नः प्रति	तत्राज.	१३४१	
यो वै साम्नः श्रियं	"	"	
यो वै साम्नः श्रुतिं	"	"	
यो वै साम्नः सुव	"	"	
यो वै साम्नोऽपचि	"	"	
यो वै सोऽन्तः पुरु	छाउ.	८०३	
यो व्यानः सा वाक्	"	७५५	
*यो व्यानेन व्यानि	वृउ.	११३२	
यो व्यानेन व्यानी	"	"	
योऽशनायापिपा	"	११३६	
योषा वा अग्निगौ	"	१२९७	
योषा वाव गौत	छाउ.	८६०	
योऽसा आदित्ये पु	मैउ.	१६६५	
योऽसावसौ पुरु	वृउ.	१२८४	
योऽसौ परापरो	मैउ.	१६६२	
योऽसौ सर्वेषु वे	ऋसंखि.	३३६;	
		शिउ.	१५७४
योऽसौ साम्नः प्रति	तत्राज.	१३५६	
योऽसौ सोऽहम्	ऐउ.	५५५	
योऽस्मान्द्वेष्टि	कौउ.	६४७,	
		६४९	
*योऽस्मि स सन्यजे	कासं.	३७६	
*योऽस्मै स सन्यजे	मैसं.	"	
योऽस्य कौष्ठय जग	तैआ.	४१५	
योऽस्य चतुर्थः प्रा	असं.	४५५	
योऽस्य चतुर्थोऽपा	"	"	
योऽस्य चतुर्थो व्या	"	"	
योऽस्य तृतीयः प्रा	"	"	
योऽस्य तृतीयोऽपा	"	"	

योऽस्य तृतीयो व्या	असं.	४५५	
योऽस्य दक्षिणः क	"	४५६	
योऽस्य द्वितीयः प्रा	"	४५५	
योऽस्य द्वितीयोऽपा	"	"	
योऽस्य द्वितीयो व्या	"	"	
योऽस्य पञ्चमः प्रा	"	"	
योऽस्य पञ्चमोऽपा	"	"	
योऽस्य पञ्चमो व्या	"	४५६	
योऽस्य प्रथमः प्रा	"	४५५	
योऽस्य प्रथमोऽपा	"	"	
योऽस्य प्रथमो व्या	"	"	
योऽस्य महानर्थ	तैआ.	१८१	
योऽस्य षष्ठः प्राणः	असं.	४५५	
योऽस्य षष्ठोऽपानः	"	"	
योऽस्य षष्ठो व्यान	"	४५६	
योऽस्य सप्तमः प्रा	"	४५५	
योऽस्य सप्तमोऽपा	"	"	
योऽस्य सप्तमो व्या	"	४५६	
योऽस्येशो द्विपदो	"	१७४	
* " " "	"	१९५	
योऽस्यैतदेवं ना	ऐआ.	२६२	
योऽस्यैषोऽन्तराह्मा	शब्रा.	४६५	
यो ह खलु वावो	मैउ.	१६५४	
यो हत्वाऽहमरि	ऋसं.	४५	
योऽहमस्मि ब्रह्मा	नाउ.	१६३४	
योऽहमस्मि स त्व	जैत्रा.	४०३	
*योऽहमस्मि स स	तैत्रा.	३७६	
यो ह वा अग्नेर्ना	"	४०६	
यो ह वा अमुष्मि	मैउ.	१६५९	
यो ह वा आत्मानं	ऐउ.	५५७	
यो ह वा आयत	शाआ.	३३१;	
	छाउ.	८५०; वृउ.	१२८७
यो ह वा एतमो	गोत्रा.	५२३	
यो ह वा एवं वि	"	१२०	
यो ह वावैतदे	तत्राज.	१३४३	
यो ह वै ज्येष्ठं च	शाआ.	३३१;	
	छाउ.	८४९; वृउ.	१२८५;
		परि.	१५५२
यो ह वै प्रजातिं	वृउ.	१२८७	
*यो ह वै प्रजाप	"	"	
यो ह वै प्रतिष्ठां	शाआ.	३३१;	
	छाउ.	८५०; वृउ.	१२८६
यो ह वै ब्रह्मणः	ऐआ.	१५१	
यो ह वै यज्ञे य	ऐउ.	५६३	

यो ह वै वसिष्ठं	छाउ.	८५०	रश्मि२ रश्मीनां	तैआ.	२६८	रायस्वोषाय सु	तैआ.	२७२,
यो ह वै वसिष्ठां	शाआ.	३३१;	रश्मिभिरेषोऽस्मि	बृउ.	१२७३			२७३
	बृउ.	१२८६	रश्मिभिर्नभ आ	असं.	१७४	*रायो बुध्नः संग	ऋसं.	२५१
यो ह वै शिशु२ सा	बृउ.	१०७९	रश्मिभिर्वर्षम्	गोब्रा.	११९	रारन्धि नः सूर्य		३६४
यो ह वै संपदं	शाआ.	३३१;	*रश्मिभिर्वा एषो	बृउ.	१२७३	राष्ट्री देवानां नि	तैब्रा.	३४७
	छाउ.	८५०; वृउ.	रश्मिरिन्द्रः सवि	तैआ.	२७०	रुचं ब्राह्मं जन	शुसं.	२५५
यो हीहाभिखने	शाब्रा.	३००	रश्मी२स्त्वं पर्या	छाउ.	७५९	रुद्र एनभिष्वा	असं.	४५२
यो हैनं पाप्मा मा	"	"	रस२ ह्येवायं ल	तैउ.	७२५	*रुद्रं शाश्वतं वै	शिरउ.	१६७९
यो हैवंविस्स स	मैउ.	१६६५	*रसनं च रस	प्रउ.	१५०८	रुद्र यत्ते दक्षि	श्वेउ.	१६११
यो हैवं वेद सं	"	१६६०	रसश्च रसयि	"	"	रुद्रस्येषुश्वर	असं.	१३०
यो होतासीत्प्रथ	ऋसं.	१००	रसस्तृप्तोऽश्वरं	तब्राउ.	१३३६	रुद्रस्यैलबका	"	१३३
यो ह्यनिष्ट्वा पृष्ठ	गोब्रा.	४७२	रसो मज्जाऽस्य सः	"	१३४४	रुद्राणां माध्यन्दि	छाउ.	७९०
यो ह्येव प्रभवः	ऐउ.	६२३;	रसो वै सः	तैउ.	७२५	रुद्रा माध्यन्दिने	शाब्रा.	४६९
	कौउ.	६९०	राजन् मोहजाल	मैउ.	१६६७	रुद्राय नमः	नाउ.	१६४१
यौ ते श्वानौ य	ऋसं.	३५७	राजन् यक्ष्म मा हि	तब्राउ.	१३६८	रुद्रास्त्रिष्टुभं स	तब्राउ.	१३३५
			राजन्यबन्धवो	शाब्रा.	११५	रुद्रेणार्धकथा	असं.	१२९
			राजयक्ष्मस्त्वा ह	असं.	४४०	रुद्रो हि शाश्वते	शिरउ.	१६८०
र इति रज्जय	मैउ.	१६५९	राजसूर्यं वाज	"	४४५	रुषतस्त ऋषि	तब्राउ.	१३६३
रक्षतु त्वा द्यौ र	असं.	३७९	राजा कृष्टीनाम	ऋसं.	३	रुहदित्यसुर	गोब्रा.	३०५
रक्षन्तु त्वाऽन्नयो	"	"	राजा त एकं सु	कौउ.	६४८	रुहो रुरोह रो	असं.	१६७
रक्षांसि लोहित	"	४३४	राजा पवित्रम	ऋसं.	७०	रुषंरुपं प्रति	ऋसं.	५४;
रक्षा च नो अधि	तैसं.	१४६	राजा मे प्राणो अ	कासं.	३१४	बृउ. ११११; तब्राउ.	१३४३	
रक्षोदेवजने	नाउ.	१६४८	राजा समुद्रं न	ऋसं.	७०	रुषंरुपं मध	ऋसं.	५२;
रक्षो यत्सर्वं दु	असं.	३८२	राजाऽसौ यक्ष्यते	छाउ.	७६९		तब्राउ.	१३४३
*रघुत्वंमारोग्य	श्वेउ.	१५९०	राज्ञः सोमस्याजा	असं.	२५१	रुषंरुपं ह्येष	तब्राउ.	१३४३
रजस्तमोभ्यां वि	मैउ.	१६६३	राज्ञी नाम प्रती	छाउ.	८१३	रुषं वै प्रजाप	तैब्रा.	२८७
रजोभूमिस्त्व मा२	नाउ.	१६३४	रात्रिः सावित्री	गोब्रा.	११९	रुषं व्यानोऽस्य सः	तब्राउ.	१३४४
रज्ज्वा वै वत्सं च	जैब्रा.	३१६	रात्रिरपानः	ऐउ.	५३५	रुषमिति गन्ध	शाब्रा.	११७
रथः शरीरम्	मैउ.	१६५५	रात्रिरचिः	छाउ.	८५९;	*रुषविदं विद्यात्	कौउ.	६७०
रथन्तरमा ज	ऐउ.	६०६	रात्रिरेनं पश्वा	बृउ.	१२९६	रुषविद्यं विद्यात्	"	"
रथन्तरस्य रू	कौउ.	६८९	रात्रिरेव श्रीः	बृउ.	९९०	रुषसामान्याद्	गोब्रा.	५२३
रथी ह भूत्वा र	असं.	३७०	रात्रिस्तदवल्ल	शाब्रा.	५१८	रुषाणि कृष्वन् वि	मैसं.	१८२
रदत्पथो वरु	ऋसं.	८०	रात्रिस्तदवल्ल	नाउ.	१६४४	रुषाण्येव यस्या	बृउ.	११७१,
रमते तस्मिन्नु	तैआ.	३३२	रात्रेरपक्षीय	बृउ.	१३००			११७२
रमिति	बृउ.	१२७७	रात्रेरपरप	छाउ.	८६३	रुषेष्वाति	"	११७४
*रथिकेमानि षट्	छाउ.	८२५	*राथीतरीपुत्रः	बृउ.	१३११	रेत एव यस्या	"	११७२
रथिरिति मनु	शाब्रा.	११७	राथीतरीपुत्रो	"	१३१०	रेत एव शुक्रा	शाब्रा.	४०९
रथिर्वा एतत्स	प्रउ.	१४९१	राद्धिः प्राप्तिः समा	असं.	४४९	रेतः कृत्वाऽऽज्यं दे	असं.	३१२
रथीणां पति२ य	मैसं.	२००	राद्धिः समृद्धिर	"	२४५	रेतः संधिः	कौउ.	६८६
रथ्यै त्वा	तैसं.	५१४	राधसे त्वा	"	५१४	*रेतः संवत्सर	"	६३७
रथिमन्थे स्थितः	मैउ.	१६६६	रामः क्रातुजाते	तैसं.	५१४	रेतश्च सिञ्चति	जैब्रा.	३२७
रथमय एव हि	तब्राउ.	१३३९		तब्राउ.	१३६७,	रेतस आपः	ऐउ.	५८१
रथमयो धूमः	जैब्रा.	४०४;			१३७२	रेतस इति मा वो	बृउ.	११७९
	छाउ.८५८; वृउ.	१२९५	*रायस्पोषं विष्य	तैब्रा.	२००	रेतस ऊर्ध्वं रस	शाब्रा.	३४७
रथमयो यजुष्म	शाब्रा.	३३	रायस्पोष२ सह	"	४६१	रेतसीति	बृउ.	११७५

रैतसे स्वाहेत्य	वृउ.	१३०२
रैतसो रैतः प्र	ऐउ.	५३१
रैतसो हि संभ	तब्राउ.	१३४४
रैतस्तृप्तमप	शाआ.	४७२;
	कौउ.	६९१
रैतोधा आसन्म	ऋसं.	२४२;
	तैआ.	२७६
रैतोधा यस्य भु	मैसं.	१८२
रैतो वा असिञ्चा	शाब्रा.	१५०
रैतो वा एतत	तब्राउ.	१३४२
रैतो वै प्रजातिः	वृउ.	१२८७
*रैतो वै प्रजाप	”	”
रैतोऽस्माकमित्या	शाआ.	३२२
रैतो हृदये	तैब्रा.	२६०
रैतो होचचक्राम	वृउ.	१२८८
रैकेदं सहस्रं	छाउ.	८२७
रैकेमानि षट्श	”	८२५
*रैभ्यः पौलिमाष्या	वृउ.	१११४,
		१२६५
रोचसे दिवि रो	असं.	१७२
रोचिष्णुरिति वा	वृउ.	१०६९
रोचिष्णुर्हार्स्य प्र	”	”
रोदस्योरन्तर्दे	तैआ.	४१०
रोमशेन ह स्म	कौउ.	६८९
रोमाणि मांसं रु	ऋसंखि.	३०७
*रोहं रोहं रोहि	तैब्रा.	१६७
रोहन्ति पूर्व्या रु	तैआ.	४११
रोहाभ्यां रोहाभ्या	शाआ.	४७३;
	कौउ.	६९१
रोहिणीः पिङ्गला	तैआ.	२७१
रोहितं देवा य	असं.	१६८
रोहितः कालो अ	”	१७२
रोहिते वावापु	”	१७०
रोहितो दिवमा	”	१६९,
		१७१
रोहितो वावापु	”	१६७
रोहितो यज्ञं व्य	”	१६८
रोहितो यज्ञस्य	”	”
रोहितो यज्ञानां	”	१७२
रोहितो रश्मिभि	”	”
रोहितो लोको अ	”	”
रोहिम शरदः	”	५१३
*रौहिणायनः शौ	वृउ.	१११४,
		१२६५

ल

*लक्ष्म्यै स्वाहेत्यत्रौ वृउ. १३०१

लघुत्वमारोग्य	श्वेउ.	१५९०
लघ्वाच्चो भवति	तैआ.	२६६
लभते हैव	कौउ.	६४२
*लभते हैव	”	”
लम्भुको ह वासो	छाउ.	८५३
लम्भुको हास्य वा	शाआ.	३३१
लयविक्षेपर	मैउ.	१६६४
ललाटमधोकथम्	ऐउ.	५२९
लवणमिति	छाउ.	९२०
लवणमेतदु	”	”
लोकं च पुण्यपा	तैआ.	४१०
लोकं पितृषु वि	असं.	३८७
लोकंपृणामेनं	शब्रा.	३२,
		३३, ३४, ३५, ३६, ३८
लोकंपृणायै य	शब्रा.	३७
*लोकं प्रत्युत्थायि	वृउ.	१३००
लोकं ब्रह्मवर्च	ऐआ.	५१९
लोकं मे यजमा	छाउ.	७९०,
		७९१
लोकजिदसि लो	तब्राउ.	१३६१
लोऽकद्वारमपा	छाउ.	७९०,
		७९१
लोकपालान्नु रु	ऐउ.	५८१
लोकमभिजाय	तब्राउ.	१३५८
लोकस्य द्वारम	तैब्रा.	४२०
लोकस्य संकल्पस्यै	छाउ.	९३०
लोकादिमग्नि त	काउ.	१३९३
लोकाब निन्देत्	छाउ.	७८३
लोकान्प्रत्युत्थायि	वृउ.	१३००
लोकान्वाव किल	छाउ.	८३८
लोका यत्र ज्योति	ऋसं.	३५५
लोकास्तं परादु	वृउ.	१०९५,
		१२६१
लोकास्तप्ता अक्ष	तब्राउ.	१३३६
लोकी भवति	छाउ.	७८३,
		८३७
लोके दातारं स	नाउ.	१६५०
लोके धर्मिष्ठ प्र	”	१६५१
लोकेषु पञ्चवि	छाउ.	७७४
लोके साधु प्रजा	नाउ.	१६५१
लोक्यं हैते एव	शब्रा.	११५
लोक्या उच्छिष्ट आ	असं.	४४४
लोक्या शतायुते	शब्रा.	५१७
लोमभ्य ओषधि	ऐउ.	५८१
लोमशां पशुभिः	तैउ.	६९५

लोमशेन ह स्म	ऐउ.	६२१
लोम हिंकारः	छाउ.	७८३
लोमानि धूमः	वृउ.	१२९७
लोमानि प्रयति	कासं.	३१५
लोमानि बर्हिः	वृउ.	१३०५;
	नाउ.	१६५१
लोमानि हृदये	तैब्रा.	२६०
लोहितस्तोको वा	तब्राउ.	१३५७
लोहिनी वीर्भव	ऐउ.	६१६;
	कौउ.	६८८
	व	
वक्ता चास्य त्वादृ	काउ.	१३९६
वक्तरं विद्यात्	कौउ.	६७०
वचनास्फुरषो	मैउ.	१६६०
वचनेषु च स	शोब्रा.	५२३
वज्रं शिशाति धि	ऋसं.	५६
वज्रनखाय वि	नाउ.	१६३२
वडवेतरा भ	वृउ.	१०२०
वत्सं पयसा पु	तैआ.	३३३
वत्सः कामदुघो	असं.	१६१
वत्सनपाद्वाभ्र	वृउ.	१११४,
		१२६६
वत्सेन वै मात	जैब्रा.	३१६
वत्से बष्कयेऽधि	ऋसं.	२०८
वत्सो विराजो वृ	असं.	१६९
* ” ” ”	”	२५८
वत्सो विराजः स	”	१६१
वदन्तीर्यत्र ग	”	२५०
वदन्नद्वाऽवद	ऋसं.	४७६
वदन् वाकपर्यंश्च	वृउ.	१०२२
*वदन्वाक् रूपं प	”	”
वदिष्याम्येवाह	”	१०६१
वदैव शाकलय	”	११७१,
		११७२
वधाय दत्तं त	तैआ.	३३३
*वधूर्जान न	तैसं.	१६१
*वधूर्मिमाय न	कासं.	”
वनस्पतयः शा	शुसं., मैसं.	५१५;
	तैआ.	५१९
वनस्पते शत	शाआ.	३३१
वनी भूत्वा प्रव्र	जाउ.	१६७०
वनेषु व्यन्तरि	ऋसं.	७७
वनेषु शुष्मो अ	असं.	३८८
वपन्ति केशरम	तब्राउ.	१३५७
वयं त इन्द्र वि	ऋसं.	४८

वयं देवस्य धी	ऋसं.	१८२	वर्षस्य संकल्पत्या	छाउ.	९३०	वसिष्ठो ह स्वानां	शाआ.	३३०
वयं देवस्य भो	छाउ.	८५५	वर्षा उद्गीथः	,,	७७६,	*वसुपते विर	मैसं.	५०२
वयं नाम प्रत्र	नाउ.	१६३६	७८३; तब्राउ.	१३४०	वसुरण्वो विभृ	नाउ.	१६५१	
वयं स्याम पत	जैब्रा.	४०६	वर्षाज्यावत्री ई	असं.	१७०	वसुर्वसुपति	ऋसं.	१७
वयः सुपर्णा उ	नाउ.	१६४९	वर्षाणि तुभ्यं स्यो	,,	३८४	वसुर्वसूनां क्ष	,,	१८
*वयमवस्य दा	प्रउ.	१४९९	वर्षिष्ठं रत्नम	ऋसं.	११	वसूनि नो वसु	असं.	५०९
वयमावस्य दा	,,	,,	वर्षेण भूमिः पृ	असं.	५०९	वसोः पवित्रम	मैउ.	१६५९
वयमेतद्भाग	,,	१४९७	वर्षेणौषधिव	गोब्रा.	११९	वसोर्धाराणामै	गोब्रा.	५२२
वया इदमे अ	ऋसं.	२	वर्षा पर्जन्यः	तैसं.	५१४	वसोष्पते नि र	असं.	५०२
वयांसि यजुष्म	शाब्रा.	३३	*वल्काकाकौशिकः	वृउ.	१२६५	वहन्ति ह वा ए	ऐउ.	५३७
वरं ते द्दामो	ऐउ.	५४९	वशां देवा उप	असं.	४३५	वह्येयथा योनि	श्वेउ.	१५८४
वरं भगवते	वृउ.	१२९३	वशां सहस्रधा	,,	४३४	वहेश्व यद्वत्ख	मैउ.	१६६२,
*वरं भवते गौ	,,	,,	वशा यौर्विशा पृ	,,	४३५	वाक् च वक्तव्यं	प्रउ.	१५०८
वरं वृणीष्वेति	गोब्रा.	५२३	वशा पर्जन्यप	,,	४३४	वाक्तदा प्राणं रे	ऐउ.	६०७;
वरणायां नार्यां	जाउ.	१६६९	वशा माता राज	,,	४३५	कौउ.	६८६	
वराह एनं ह	ऐउ.	६१७	वशामेवामृत	,,	,,	वाक् तुष्माऽऽकाशं त	तब्राउ.	१३३६
वराहेण पृथि	असं.	५०९	वशा यज्ञं प्रत्य	,,	,,	वाक्तृताऽग्निं तर्प	कौउ.	६९०
वरुण इति हो	वृउ.	११७२	वशाया दुग्धं पी	,,	,,	*वाक्पतिर्होता	तैआ.	४५८
वरुण एव स	तब्राउ.	१३८७	वशाया दुग्धम	,,	,,	वाक्पतिश्चक्षुष्प	तैउ.	६९९
वरुणं पितर	तैउ.	७३५	वशायामन्तर	,,	,,	वाक्परिवेष्टी	कौउ.	६४०
वरुणदेवत	वृउ.	११७५	वशाया यज्ञ आ	,,	,,	वाक्पादः प्राणः पा	छाउ.	८१९
वरुणस्य ह्येत	मैसं.	४५९	वशा सभुद्रम	,,	,,	वाक् पूर्वरूपं	ऐउ.	५९८;
वरुणस्याश्विनो	तैआ.	२६५	वशा समुद्रे प्रा	,,	,,	कौउ.	६८४	
वरुणोऽपामघ	नाउ.	१६३४	वशी भवति व	तब्राउ.	१३५०	वाक्प्रस्तावः	छाउ.	७७७,
वरुणोऽसि	मैसं.	४५९	वशीयान् वशी	शाब्रा.	१५१	वाक् प्राणेन संधी	कौउ.	६८६
वरुणोऽसि विश्वौ	,,	,,	वशी सर्वस्य लो	श्वेउ.	१५९८	वाक्प्राणेन संहि	ऐउ.	६०६
वरुणोऽस्य प्रजां	ऐउ.	५४०	वशेदं सर्वम	असं.	४३५	वाक्प्राणेशत्	,,	५३४
वर्गोऽसि पाप्मानं	कौउ.	६४६	वषट्कारेणात्रा	,,	४५५	वाक् संधिः	तैउ.	६९४
वर्चोदास्तुवमसि	नाउ.	१६५१	*वषट् ते विष्ण आ	कासं.	९३	वाक् संहितेति प	ऐउ.	६०७;
वर्चोधसे यश	असं.	२०	वषट् ते विष्णवा	ऋसं.	,,	कौउ.	६८६	
वर्चो मे यच्छ	कासं.	२५	वसन्तु भगव	छाउ.	८७३	वाक् सावित्री	गोब्रा.	११९;
वर्णः स्वरः	तैउ.	६९४	वसन्तो अस्यासी	ऋसं.	२३२	तब्राउ.	१३८७	
वर्त्याधारस्नेह	मैउ.	१६६५	*वसन्तोऽस्यासीदा	शुसं.	,,	वाक्सुब्रह्मण्यः	ताब्रा.	४६१
वर्धन्तु त्वा सुष्टु	ऋसं.	९३	वसन्तो हिंकारः	छाउ.	७७६,	वाकेन वाक् द्वि	ऋसं.	२१६
वर्ष सावित्री	गोब्रा.	११९	वसवः प्रातः स	शाब्रा.	४६९	वागक्षरं प्रथ	तैब्रा.	३४९
वर्ष सूददोहाः	शाब्रा.	३३	वसवो गायत्री	तब्राउ.	१३३५	वागग्निः	ऐउ.	५३५
वर्षति च पर्ज	तब्राउ.	१३५४	वसानः शर्म त्रि	ऋसं.	७३	वागनुष्टुप्	वृउ.	१२८२
वर्षति स उद्गी	छाउ.	७७५,	वसापराणि द्वा	छाउ.	९७५	वागग्निभण्याः	,,	१३११
	,,	७८२	वसापराणि प	,,	९७६	*वागग्निभण्यात्	,,	,,
वर्षति हास्यै व	,,	७७५	वसिष्ठः स्वानां भ	वृउ.	१२८६	वागग्निः	,,	१२९७
वर्षन्तं न निन्देत	,,	७८२	वसिष्ठाय स्वाहे	छाउ.	८५४	वागष्टमी ब्रह्म	,,	१०८१
वर्षमाज्यं घ्नंसो	असं.	१७०	वसिष्ठायै स्वाहे	शाआ.	३३१	वागस्मात्सर्वाणि	कौउ.	६६७
वर्षस्य रेत ओ	ऐउ.	५३१						

वागिति तद्ब्रह्म	तत्राउ.	१३५२
वागिति हेन्द्रो वि	,,	१३५९
*वागिति होवाच	वृउ.	११७२
वागित्यस्मा उक्त	तत्राउ.	१३५९
वागुत्तररूपम्	ऐउ.	५९८;
	कौउ.	६८४
वागुदक्रामत्	ऐउ.	५३३
वागु पुनर्मेन	जैत्रा.	३१६,
		३३७
वागेनं तद्भूत्वा	वृउ.	१०५३
वागेव गीथा	,,	१०१२
वागेव देवा म	,,	१०५३
वागेव ब्रह्मण	छाउ.	८२०
वागेव यजुः	तत्राउ.	१३४१
वागेवर्क	छाउ.	७४८,
		७६३
वागेवर्षेदो म	वृउ.	१०५३
वागेव सम्राडि	,,	११८२
वागेव सा	छाउ.	७६३
वागेव साम	तत्राउ.	१३४१
वागेवात्रिः	वृउ.	१०८२
वागेवार्यं लोको	,,	१०५२
वागेवाऽऽयतन	,,	११८२
*वागेवास्मिन्सर्वा	कौउ.	६६७
वागेवास्य ज्योति	वृउ.	११९१
वागेवास्य वाक्	,,	९८७
वागेवास्य साऽऽ	शत्रा.	२९३
वागेवास्य एक	कौउ.	६६८
वागेवैतरसर्व	छाउ.	९२९
*वागेवैनं तद्भू	वृउ.	१०५३
वागेवोऽथम्	तत्राउ.	१३८४
वागेषां सुब्रह्म	तैत्रा.	४६३
वाग्गीः	छाउ.	७५६
वाग्घ वा एतस्या	शत्रा.	४६६
वाग्घि वृहती त	छाउ.	७५४
वाग्घि विज्ञाता	वृउ.	१०५३
वाग्घृदये	तैत्रा.	२६०
वाग्घोच्चक्राम	वृउ.	१२८८
वाग्घोता	शत्रा.	४६०;
	नाउ.	१६५१
वाग्घ्यष्टमी ब्रह्म	वृउ.	१०८१
वाग्घ्येवैतरस	शत्रा.	३१
वाग्जाया	वृउ.	१०४२
*वाग्ज्योतिः सम्राडि	शत्रा.	११९१

वाग्देवत्यं साम	तत्राउ.	१३४८
वाग्देवी जुषता	तैत्रा.	३१७,
		३४८
वाग् द्वितीया	तात्रा.	२८५
वाग्भूत्वा सर्व व्य	जैत्रा.	२०२
वाग्मी भवतीति	शत्रा.	३२९
वाग्वा अग्निः	तत्राउ.	१३५५
वाग्वा अग्निहोत्री	जैत्रा.	३१६
वाग्वा इदं सर्व	शत्रा.	३०१;
	छाउ.	७९९
वाग्वा इन्द्रः	शत्रा.	३४७
वाग्वा ऋग्वेदं वि	छाउ.	९२९
वाग्वाव नाम्नो भू	,,	,,
वाग्वाव वसिष्ठः	,,	८५०
वाग्वाव साम्नः प्र	तत्राउ.	१३४१
वाग्वावराट्	छाउ.	७७३
वाग्वादिः	कासं.	४५८
वाग्वा गायत्री	छाउ.	७९९
वाग्वा ग्रहः	वृउ.	११२२
वाग्वा नाम	शत्रा.	३०२
वाग्वा ब्रह्म तस्या	वृउ.	१०११
वाग्वा ब्रह्मेति	,,	११८२
वाग्वा भर्गः	शत्रा.	४७०
वाग्वा माता	ऐउ.	६०७;
	कौउ.	६८६
वाग्वा यज्ञस्य हो	वृउ.	१११६
वाग्वा रथन्तर	ऐउ.	६०५;
	कौउ.	६८६
वाग्वा वसिष्ठा	शाआ.	३३१;
	वृउ.	१२८६
वाग्वा समुद्रः	तात्रा.	३१६
वाग्वा सम्राट् प	वृउ.	११८२
वाग्वा सामेष सा	,,	१०११
वाग्वा होता	शत्रा.	४६०
वाग्वा नाम देवता	कौउ.	६४२
वाग्वा आसन्	नाउ.	१६४९
वाग्वा आसन्नसोः	असं.	५१३
वाग्वा मनश्चक्षुः	नाउ.	१६४७
वाग्वा मनसि प्रति	गोत्रा.	१२०
वाग्वा ममेत्यग्निरा	शाआ.	३२२
वाग्वा मनोम	वृउ.	१०५१
वाग्वा मनसि प्र	ऐउ.	५९६,
		६२६; कौउ. ६२७, ६८३
वाग्वा ऋग्सः	छाउ.	७४७.

वाग्वा गन्धर्वाः प	तैत्रा.	३४९
वाग्वा तदा प्राणे	कौउ.	६४४
*वाग्वा तु मे व्याच	वृउ.	१२६०
वाग्वा ते मयि जु	कौउ.	६४३
वाग्वा ते मयि द	,,	६५५
वाग्वा देवा उप	तैत्रा.	३४८,
		३४९
वाग्वा धेनुमुपा	वृउ.	१२७५
वाग्वा मे त्वयि द	कौउ.	६५५
वाग्वा चयम एवै	शत्रा.	४१९
वाग्वा वदन्ति स	कौउ.	६५९
वाग्वा ह वै होत्रे	गोत्रा.	४७२
वाग्वा ह्येवैता सं	शत्रा.	३२
*वाग्वा सत्यमशी	तैत्रा.	५१६
वाग्वा मनुहर	तत्राउ.	१३८६
वाग्वा मष्टापदी	ऐउ.	५६७
वाग्वा चमिति	शत्रा.	३२९
वाग्वा चमिव वक्त	असं.	१०८
वाग्वा चमुपास्त्रेति	छाउ.	९२९
वाग्वा चमेव तत्प्रा	शत्रा.	४६०
वाग्वा चस्पत ऋत	असं.	१६९
वाग्वा चस्पति विश्व	ऋसं.	१८५
वाग्वा चस्पतिनि य	असं.	५०३
वाग्वा चस्पतिबला	,,	५०२
वाग्वा चस्पतिहोता	कासं.	४५८
वाग्वा चस्पते पृथि	असं.	१६९
वाग्वा चस्पते सौम	,,	,,
वाग्वा च ह्येव स	वृउ.	१०१३
वाग्वा च ह्येव ए	तत्राउ.	१३६०
वाग्वा चाऽचीयन्त	शत्रा.	३२०
*वाग्वा चैव स प्रा	वृउ.	१०१३
वाग्वा छन्दांसि	ऐउ.	६०७;
	कौउ.	६८६
वाग्वा चाऽचूतमूदि	तैत्रा.	४८७
*वाग्वा चाऽचूतमोदि	मंसं.	,,
वाग्वा मित्राणि सं	ऐउ.	६०७;
	कौउ.	६८६
वाग्वा चाऽऽरम्भणं वि	छाउ.	८८५,
		८८६, ८९७, ८९८
वाग्वा रसान् वेदे	तत्राउ.	१३८७
वाग्वा वेदा अभि	गोत्रा.	१२०
वाग्वा वै वेदाः सं	ऐउ.	६०७;
	कौउ.	६८६
वाग्वा वै सम्राड्य	वृउ.	११८२

वाचा वै सह म	कासं.	२८२	वातः प्राणाय	ताब्रा.	५१६	वायुरं खं	बृज.	१२६६
वाचाऽशंसन्	शब्रा.	३२०	वातजवैर्बल	मैसं.	१३४	*वायुरनिलम	,,	१२६९
वाचा सर्वाणि ना	कौउ.	६६७	वातस्य प्रवामु	असं.	५०९	,,	,,	१२८४;
वाचा सर्वाणि भू	ऐउ.	६०७	वातात्ते प्राणम	,,	३८१	,,	,,	ईउ.
वाचाऽस्तुवत	शब्रा.	३२०	वात्सीपुत्रः पारा	बृज.	१३१०	वायुरमः	छाउ.	७६०
*वाचा ह स्मै पुर्व	,,	,,	*वात्सीपुत्रः वार्का	,,	१३११	वायुरस्मै पुण्यं	ऐउ.	५३९
वाचा ह स्मैव पू	बृज.	१२९४	*वात्सीपुत्रो भार	,,	१३१०	वायुराकाशे प्र	गोब्रा.	१२०
वाचा हि चीयते	शब्रा.	३१	*वात्सीमाण्डवीपु	,,	,,	वायुरिति भस्म	शिरउ.	१६८०
वाचा हि नाम गृ	,,	३२०	वात्स्यः कुश्रेः	,,	१३११	वायुरेव देवे	छाउ.	८२८
वाचा हि नामान्य	बृज.	११२२	वात्स्यः शाण्डिल्यात्	,,	१११४,	वायुरेव पत्र	ऐउ.	५२७
वाचा हि यजुर	तब्राउ.	१३४१	*वात्स्यो वात्स्याच्च पा	,,	१११४,	वायुरेव सवि	गोब्रा.	११९;
वाचा हि साम गा	,,	,,			१२६५	वायुर्गाः	छाउ.	७५६
वाचा हि सामाऽऽर्त्वि	,,	१३५४	वानस्पत्याः पर्व	पैसं.	२५२	वायुर्दिशां यथा	बृज.	१३०९
वाचा होताऽध्वर्यु	छाउ.	८४७	वानस्पत्येनेति	शब्रा.	४६७	वायुर्धूमः	जैब्रा.	४०४
वाचा ह्यन्नमद्य	बृज.	१०८२	वा न ह्येतं कस्य	,,	३७	* , , ,	बृज.	१२९६
वाचा ह्युक्थं शंस	तब्राउ.	१३४१	वामकशायणः	बृज.	१३११	वायुर्भूत्वा धूमो	छाउ.	८६४
वाचा ह्येवैतत्स	शब्रा.	३१	वामदेवाय न	नाउ.	१६४१	वायुर्भूत्वा प्रजा	जैब्रा.	२०२
वाचि तृप्यन्त्याम	छाउ.	८८१	वामदेव्यस्योष्मा	कौउ.	६८९	वायुर्महः	शब्रा.	४७०
वाचि वै तदैन्द्रं	ऐउ.	५६५	वायवे तद्विजा	तब्राउ.	१३८१	वायुर्मा तत्र न	असं.	३९९
वाचि सप्तविधः	छाउ.	७७७	वायवे स्वाहा	असं.	३९९	*वायुर्मा तस्मादे	मैसं., शुसं.	५०४
वाचि हि खल्वेष	बृज.	१०१४	वायुं चन्द्रमाः	शब्रा.	३३०	वायुर्मै प्राणे श्रि	तैब्रा.	२६०
वाचि हि प्राणं जु	ऐउ.	६२३;	वायुं प्राणः	कौउ.	६५१	वायुर्धैको भु	काउ.	१४३०
	कौउ.	६९०	वायुं रुद्राः	शब्रा.	२९५	वायुर्लोकम्पृणा	शब्रा.	३३
वाचीति	बृज.	११७६	वायुं समिधम्	,,	४०८	वायुर्वा अहम	तब्राउ.	१३८१
वाचीमा विश्वा भु	तैब्रा.	३४९	वायुं ह्यनुज्ञाति	,,	३३०	वायुर्वा उग्रः	शब्रा.	२९६
वाचेति	कौउ.	६३८	वायुः प्रस्तावः	छाउ.	७८४	वायुर्वाव संव	छाउ.	८२७
वाचे स्वाहा प्रति	बृज.	१३०२	वायुः प्राणे	शाआ.	४७२;	वायुर्वा गौतम	बृज.	११४७
वाचेवायं ज्योति	,,	११९१	वायुः प्राणो भूत्वा	कौउ.	६९०	वायुर्वा देवोऽन्त	तब्राउ.	१३५६
वाचैषु प्रहा अ	शब्रा.	३२०	वायुः प्राणो हृद्	ऐउ.	५८३	वायुर्व्यानः	प्रउ.	१५०२
वाचोऽग्निः	ऐउ.	५८१	वायुः शान्तिः	मुउ.	१४५६	वायुर्वाइकारः	छाउ.	७७३
वाचो रूपेण	शब्रा.	३१	वायुः संधानम्	तैआ.	५१९	वायुर्वावैतान् स	,,	८२७
वाचो रेतः कर्म	ऐउ.	५३१	वायुः संहिता	तैउ.	६९४	वायुश्च वायुमा	प्रउ.	१५०८
वाचो वाव भूयो	छाउ.	९२९		कौउ.	६८३,	वायुश्चान्तरिक्षं	बृज.	१०८४
वाचो वीर्यं तप	तैआ.	२६७			६८४	वायुस्ताः अग्रे प्र	तैआ.	२७३
वाचो ह गिर इ	छाउ.	७५६			७६०	वायुस्तृप्त आका	शाआ.	४७२;
वाच्यमि प्राणे वा	शाआ.	३२२			११९		कौउ.	६९०
वाजश्रवा जिह्वा	बृज.	१३११			,,		तैउ.	७०६
वाजस्य नु प्रस	असं.	१६५			बृज.		ऐब्रा.	१५२
*वाजस्रवा जिह्वा	बृज.	१३११			,,		तैआ.	२६८
वाजसि वाजिने	ऋसं.	३६१			छाउ.		ऐउ.	६२१;
*वाड्यीपुत्रो मौ	बृज.	१३१०			तब्राउ.		कौउ.	६८९
वातं प्राणं मन	नाउ.	१६४५			छाउ.		तैब्रा.	२९
वातः प्राणस्तद	कासं.	२५			शब्रा.			

वायोरेवाधि पु	शब्रा.	३३०
वायोरोकारः	शिरु.	१६८१
वायोर्थजूषि	छाउ.	८४८
वायोर्वा एतानि	तैब्रा.	२९
वायोर्बृष्टिम्	वृउ.	१३००
वायौ गार्गाति	,,	११४५
वायौ तृप्यत्याका	छाउ.	८८१
वायौ दिशः प्रति	शब्रा.	३३०
वारणं त्वेव व	छाउ.	७८५
वार्काङ्गीपुत्र	वृउ.	१३१०
वार्कारुणीपुत्रो	,,	,,
*वार्षगणीपुत्रो	,,	,,
वार्षिकवेनं मा	असं.	४५१
वार्षिकां मासौ गो	,,	,,
वालाग्रमात्रं ह	शिरु.	१६८०
वालाग्रशतभा	श्वेउ.	१६१५
वासन्त्यावेनं मा	असं.	४५१
वासन्तौ मासौ गो	,,	,,
वासा०सि मम गा	तैउ.	६९५
*विकिरिड विलो	कासं.	१४७
विकिरिड विलो	तैसं.	,,
*विकिरिड विलो	शुसं.	,,
*विकशाय चक्षुषा	मैसं.	४३०
विस्थाय चक्षुषा	ऋसं.	,,
विग्रहवानेध	मैउ.	१६६१
वि चक्रमे पृथि	ऋसं.	९२
विचक्षणः प्रथ	,,	९६
विचक्षणादत	जैब्रा.	४०३,
	४०५; कौउ.	६३०
विचक्षणाऽऽसन्दी	कौउ.	६३३
वि चैनि चान्ते वि	श्वेउ.	१६००
*वि चैति शान्ते वि	,,	,,
विच्छन्दाश्छन्दो वा	शब्रा.	३०
विच्छादयन्तीव	छाउ.	९७५
विजरा वा अयं	कौउ.	६३३
विजरा नदी	,,	,,
विजद्विश्वा भू	तैब्रा.	२७
विजहान्तीतरं	कौउ.	६८९
विजानन्नेव से	छाउ.	९४१
विजानाम्यहं य	,,	८३५
*विजिहार्थां यावा	वृउ.	१३०९
विजिहृथां यावा	,,	,,
*विजिहृष्वं लोका	तैआ.	३७४

वि जिहृष्व लोका	असं.	३७४
विजेषकृदिन्द्र	ऋसं.	३४३
विज्ञातं पश्यति	ऐउ.	५५९
विज्ञातं विजिज्ञा	वृउ.	१०५३
*विज्ञातमग्निः	तैआ.	४५८
विज्ञानमग्नित्	कासं.	,,
*विज्ञानमग्नीत्	मैसं.	,,
विज्ञातारमरे	वृउ.	११०१,
	१२६४	
विज्ञानं चाविज्ञा	तैउ.	७२०
विज्ञानं त्वेव वि	छाउ.	९४०
विज्ञानं देवाः स	तैउ.	७१७
विज्ञानं प्रयन्त्य	,,	७३८
विज्ञानं ब्रह्म चे	,,	७१७
विज्ञानं ब्रह्मेति	,,	७३८
विज्ञानं भगवो	छाउ.	९४०
विज्ञानं मनसः	मैउ.	१६६०
विज्ञानं यज्ञं त	तैउ.	७१७;
	परि.	१५३७
विज्ञानं याव ध्या	छाउ.	९३३
विज्ञानमानन्दं	वृउ.	११७९
विज्ञानमुपास्त्वे	छाउ.	९३३
विज्ञानवतो वै	,,	,,
विज्ञानसारथी	काउ.	१४१३
विज्ञानान्भ्रा सह	प्रउ.	१५०९
विज्ञानानानन्दो	नाउ.	१६५१
विज्ञानाद्ध्येव ख	तैउ.	७३८
विज्ञानाद्वाव भू	छाउ.	९३३
विज्ञानेन जाता	तैउ.	७३८
विज्ञानेन वा ऋ	छाउ.	९३३
विज्ञानेनाऽऽत्मानं	नाउ.	१६५१
*विज्ञायते हस्ति	वृउ.	१२९४
विज्ञायते हास्ति	,,	,,
विज्यं धनुः कप	तैसं.	१३६
विद्धु विश्वे देवाः	शब्रा.	३१
विदर्भोऽकौण्डिन्यो	वृउ.	१११४,
	१२६५	
विदानाद्विद्युत्	,,	१२७५
विद्युपां देवाना	ऐउ.	६०६
विद्युषो हेवास्यै	शब्रा.	४३
विदेवो हि	ताब्रा.	२८४
विद्धः सन्नविद्धो	छाउ.	९६४
विद्धि पूर्णस्य नो	असं.	३७६
विद्धीति होवाच	छाउ.	७६५,
	७६६	

विद्मा ते अग्ने त्रे	असं.	१७४
विद्युयेनं पापम	वृउ.	१२७५
*विद्युयेनं सर्व	,,	,,
विद्यया तदारो	शब्रा.	३८
विद्यया देवलो	वृउ.	१०५७
विद्यया ह वा अ	शब्रा.	३२
विद्यया हैवैत	,,	३२१
विद्यां चाविद्यां च	इंउ.	१३२२;
	मैउ.	१६६७
*विद्याभीप्सितं न	काउ.	१३९९
	मैउ.	१६६७
विद्याभीप्सिनं न	काउ.	१३९९
विद्यामेषि रज	असं.	१७१
विद्याया वीर्येण	छाउ.	८४८
विद्याश्च वा अवि	असं.	३११
विद्या संधिः	तैउ.	६९४
विद्या संहिता	कौउ.	६८४
विद्युजिह्वा मरु	असं.	४३४
विद्युजन्त्योतिः	जैब्रा.	४०४
विद्युति तृप्यन्त्यां	छाउ.	८८१
विद्युक्कला	,,	८३३
विद्युत् त्वा हनिष्य	असं.	४४१
विद्युत् पुंश्वली स्त	,,	४५१
विद्युत्संहिता	कौउ.	६८४
विद्युत् सावित्री	तब्राउ.	१३८७
विद्युदर्चिः	छाउ.	८५९;
	वृउ.	१२९६
विद्युदेव सधि	गोब्रा.	११९
विद्युद्धेव ब्रह्म	वृउ.	१२७५
विद्युद्ब्रह्मेत्याहुः	,,	,,
विद्युद्वा अशनिः	शब्रा.	२९६
विद्युद्धै विद्युत्य	ऐब्रा.	१५१
विद्योतते स्तन	छाउ.	७७५,
	७८२	
विद्योतमानः प्र	असं.	४७४
विद्वां आरोधनं	ऋसं.	१६
विद्वान्देवासुरा	तैआ.	३२३
विद्वान्पदस्य गु	ऋसं.	८१
विधाय लोकान् वि	तैआ.	१६०,
	३०६	
विधाय सर्वाः प्र	,,	१६०,
	३०६	
विधुं दद्राणं स	असं.	२३०
विधृतिः पापव	ताब्रा.	२८४

विनर्दि साम्नो वृ	छाउ.	७८५	विराजमूषो य	असं.	२४७	*विश्वतः परमं	नाउ.	१६३७
*वि नाकमकशत्स	मैसं.	९७	विराजश्च वै स	,,	४५३	विश्वतः परमा	,,	,,
वि नाकमखयत्स	ऋसं.	,,	विराजाऽऽद्याऽऽन्न	,,	४५५	विश्वतश्चक्षुर	ऋसं.	१८४;
विनाशमेवापी	छाउ.	९७६	*विराडग्रे सम	,,	२३१	शिव.	१५७४; श्वेउ.	१५९३;
विनाशेन मृशुं	ईउ.	१३२४	विराडापः	नाउ.	१६४३	नाउ.	१६३१	
विन्दते वसु य	वृउ.	१२५७	विराडु कृत्स्नम	शाब्रा.	४७१	विश्वभुग्विश्वमा	मैउ.	१६५७
विपर्यस्ते वा क	ऐउ.	६१६	विराड्देवी पुरो	तैब्रा.	३१७,	विश्वमृद्वै नामै	,,	१६६०
विपश्चिच्छकुनि	तब्राउ.	१३६७			३४८	विश्वमना व्यश्वात्	कौउ.	६९२
विपश्चितं तर	असं.	१७१	विराड्भूत्वाऽऽदित्या	जैब्रा.	२०२	विश्वमन्यन्नि वि	ऋसं.	४१८
विपश्चिद्दृढज	तब्राउ.	१३६८	विराड् भूत्वा प्रज	तब्राउ.	१३४६	*विश्वमन्याभिवा	तैब्रा.	२८०
विपापो विरजो	वृउ.	१२५५	विराड्वा इदम	असं.	१६३	विश्वमन्यामभी	असं.	,,
विप्रचित्तिर्व्यष्टेः	,,	१११४,	विराड्वाग्निवराट् पृ	,,	२३०	*विश्वमन्यो अभि	,,	२२६
		१२६६	विराग्निमत्रावरु	ऋसं.	२७८	विश्वमाप्रा अन्त	ऋसं.	४४
*विप्रजित्तिर्व्यष्टेः	,,	१११४,	विराण्मृत्युः साध्या	असं.	२३०	विश्वमा भासि रो	असं.	१७१
		१२६६	विरात्रे भवो भ	तब्राउ.	१३६९	विश्वमिदं वृणा	तैआ.	२६८
विप्रुड्भ्यो हि ते स	तैआ.	१६०,	विरूपाश्च सुरु	छाउ.	७८२	विश्वमेको अभि	ऋसं.	२२६
		३०६	विरूपाः सन्तो व	तैआ.	२७२;	विश्वमेनाननु	ताब्रा.	४६०
विभक्तारं हवा	शाब्रा.	५१७		असं.	२७३	विश्वमेवेदं पु	नाउ.	१६३७
विभक्त्यामृषिनि	गोब्रा.	५२४	वि रोहितो अमृ	असं.	१६८	*विश्वरूपं करि	प्रउ.	१४९२
विभु प्रभु प्रथ	ऋसं.	१९२	विवस्वान् नो अभ	,,	३९०	विश्वरूपं हरि	,,	,,
विभुप्रमितम्	कौउ.	६३३	विवस्वानो अमृ	,,	,,	मैउ.	१६५९	
विभूतिर्वा एषा	तब्राउ.	१३४२	विविक्तदेशे च	कौउ.	१६७३	विश्वरूपस्वाष्ट्रो	वृउ.	१११४,
विभूरसि	वृउ.	१३०३	विविद्व्यै स्वाहा	नाउ.	१६४७		१२६६	
विभ्राजञ्ज्योतिषा	ऋसं.	५९	विवेशापर्राजि	तैआ.	३२२	विश्वरूपोऽसि	शिरउ.	१६७८
*विभ्राजमानां ह	तैआ.	२४६	विशान्तु त्वामाहु	मैउ.	१६५९	विश्वव्यचाश्चमौ	असं.	४३४
" "		३२२	विशश्च यस्या अ	ऋसं.	१३	विश्वसृजः प्रथ	ताब्रा.	४६१;
वि मच्छथाय र	ऋसं.	७५	विशां च वै स स	असं.	४५३	तैब्रा.	४६३	
*विममशं रोहि	तैब्रा.	१६८	विश्वं तदभद्रं य	ऋसं.	१९१	विश्वसृजां सह	ताब्रा.	४६०
वि माऽऽयन्तु ब्रह्म	तैउ.	६९५	विश्वं त्मना विमृ	,,	१२१	विश्वस्मा अग्निं भु	ऋसं.	१०२
वि मिमीष्व पय	असं.	१६९	विश्वं नारायणं	नाउ.	१६३७	विश्वस्य भर्त्रां ज	तैब्रा.	४२७
विमुक्तिरिति पा	तैउ.	७४०	विश्वंभरा वसु	असं.	५०७	विश्वस्य यत्प्रह	ऋसंखि.	४८६
विमूर्तमेव ना	शाब्रा.	१५१	विश्वंभरो वा वि	कौउ.	६८१	विश्वस्य होता ह	ऋसं.	१८
विमृग्वरीं पृथि	असं.	५०८	विश्व भूतं भुव	नाउ.	१६४२	विश्वस्येशानं वृ	तैआ.	४१२
वि मे कर्णा पत	ऋसं.	१५	विश्वं भृशन्तीम	असं.	१६१	विश्वस्यैकं परि	श्वेउ.	१५९४,
वि मे मनश्चर	,,	,,	विश्वं वायुः स्वर्गो	,,	४३४	१६०८, १६०९,	१६१६	
वि य और्णोत् पृथि	असं.	१७४	विश्वं संपश्यन्त्सु	,,	१७२	विश्वस्वं मातर	असं.	५०७
वि यस्तस्तम्भ ष	ऋसं.	२०८	*विश्वं ह्यस्यां भुव	मैसं.	१६५	विश्वा आशाः प्रति	तब्राउ.	१३४०
वि यो जघान श	,,	७७	विश्वकर्मन् हवि	ऋसं.	१८५	विश्वा इदस्माद्ध्व	ऋसं.	१८९
वि यो ममे यम्या	,,	६९	*विश्वकर्मा चेद	कासं.	१८८	विश्वा एकस्य वि	,,	४९
वि यो ममे रज	,,	२०५	विश्वकर्मा चिम	ऋसं.	१८६	विश्वा जातानि श	,,	५८
वि यो रजांस्यमि	,,	१३	विश्वकर्मा विश्व	कासं.	२५;	*विश्वादमग्निं य	मैसं.	१९
विरजः पर आ	वृउ.	१२४५		ऋसं.	५८	विश्वा धामानि वि	ऋसं.	७०
विराजति प्रज	छाउ.	७८३	विश्वकर्मा ह्यज	तैसं.	१८८	विश्वानरे अक्र	असं.	४३२
विराजमाहुर्ब्र	असं.	१६१	विश्वचर्षणिः स	ऋसं.	३४२	विश्वानि देव स	ऋसं.	९८;
						नाउ.	१६४५	

विश्वानि नो दुर्ग	नाउ.	१६३४
विश्वानीति शस्त्र	परि.	१५३१
विश्वान्देवाज्जग	ऋसं.	२७८
विश्वान्यन्यो भुव	"	७३
विश्वान्येवास्य भू	असं.	४५१
विश्वाऽन्यो भुवना	"	१७१
विश्वा भूतान्यापः	नाउ.	१६४३
विश्वाभिन्ने इन्द्रात्	कौउ.	६९२
विश्वाभिन्ने ह्येन	ऐउ.	५४९;
	परि.	१५३३
विश्वाय स्वाहेत्य	बुउ.	१३०३
विश्वायुः शर्म स	तैसं.	२३
विश्वा रूपाणि प्र	ऋसं.	९७
विश्वा वसु हस्त	मैसं.	१८२
विश्वा वामानि धी	ऋसं.	९९
विश्वा हि माया अ	तैआ.	१८१
विश्वेदनु रोध	ऋसं.	५०
विश्वेदंत जनि	"	१२४
विश्वे देवा अदि	"	१६४;
	कौउ.	६८६; तब्राउ.
		१३४२
विश्वे देवा अन	ऋसं.	१६
विश्वे देवा अनु	शब्रा.	३८;
	तब्राउ.	१३३५; मैउ.
		१६६६
विश्वे देवा अभि	असं.	३७८
विश्वे देवा उपा	तैआ.	०६२
विश्वे देवा औहो	छाउ.	७७३
विश्वे देवाः शान्तिः	मैसं.	५१५
विश्वे देवाः सम	ऋसं.	१५
विश्वे देवाः स्वर्गे	ऐउ.	६०६;
	कौउ.	६८६
विश्वे देवा मम	असं.	३३९
विश्वेदेवाश्चन्द्र	शब्रा.	२९५
*विश्वेभ्यो देवेभ्यः	बुउ.	१३०२
	नाउ.	१६४८
	असं.	५१२
विश्वे मे देवाः श	मैउ.	१६५७
विश्वेदेवैः पितृ	तैब्रा.	४७८
विश्वेऽसि वैश्वान	मैउ.	१६५९
निषमिति सर्पाः	शब्रा.	११७
निषमेवास्याभि	असं.	१६४
विषाणा पाशाच्च वि	"	३७३
विषासहिरिति	कौउ.	६७६;
	बुउ.	१०६९
विषासहिर्ह वा	कौउ.	६७६
विषासहिर्हास्य	बुउ.	१०६९

विष्णुरूपे अह	तैआ.	१८१
विष्टप एव स	जैब्रा.	४०६
विष्टारिणमोद	असं.	३७०
विष्णुमुखा वै दे	नाउ.	१६३२
विष्णुर्गोपाः पर	ऋसं.	१६
विष्णुर्योनि कल्प	बुउ.	१३०९
विष्णुर्विचित्तः श	असं.	१७२
विष्णुर्हृदयम्	तैआ.	२६६
विष्णुस्त्वा युनक्त्व	तैसं.	५१४
विष्णोः कर्माणि प	ऋसं.	८७
*विष्णोर्तु कं प्रा वो	असं.	"
विष्णोर्तु कं वीर्या	ऋसं.	"
विष्णोर्यत्परमं	"	"
विष्णुलिङ्गा एव	जैब्रा.	४०४
*विष्णुलिङ्गा विष्णु	बुउ.	१२९७
वि सीमतः सुसु	तैब्रा.	२५८
विस्फुलिङ्गा विस्फु	बुउ.	१२९७
विस्वसा हैवास्मा	ऐउ.	५७२
वि ह पाप्मनो वि	तब्राउ.	१३८६
वि होत्रा दधे व	ऋसं.	९७;
	तैसं.	१११;
	श्वेउ.	१५८६
वीणा पणवला	तैआ.	२६४
वीणायै तु ग्रह	बुउ.	१०९६,
		१२६१
वीतः स्तुके स्तुके	तैआ.	२७२
वीरद्वयां वा ए	नाउ.	१६४५
वीरहा ब्रह्मह	तैब्रा.	४८६
वीराध्वने वाऽना	जाउ.	१६७१
वीरान्मा नो रुद्र	तैसं.	१४६;
	शिउ.	१५७४; श्वेउ.
		१६११;
	नाउ.	१६४६
वीर्यवन्तसु ह	शब्रा.	११५
वीर्यवान् हास्मा	"	"
वीर्याद्ध्यसृज्यन्त	तैसं.	२८१
वृक्ष इव स्तब्धो	मुउ.	१४४६;
	श्वेउ.	१५९५; नाउ.
		१६३६
वृक्षं यो वेद सं	तैआ.	२६४
वृजिनमन्तं	तैब्रा.	४१९
वृणा इति	गोब्रा.	५२३
वृथाऽसृजत्पथि	ऋसं.	५२
वृषदिति सर्प	गोब्रा.	३०५
वृषभ इति	तब्राउ.	१३३८
वृषभो रोरवी	गोब्रा.	१२
वृषा पवित्रे अ	ऋसं.	७२;
	नाउ.	१६३४

वृषा यदाजि वृ	ऋसं.	६३
वृषेन्द्रः पुर ए	नाउ.	१६३२,
		१६४६
वृष्टिः संधिः	ऐउ.	५९९;
	कौउ.	६८४
वृष्टिर्वै वृष्ट्वा च	ऐब्रा.	१५२
वृष्टेः पृथिवीम्	बुउ.	१३००
वृष्टेर्वै विद्युज्जा	ऐब्रा.	१५२
वृष्टौ पञ्चविधः	छाउ.	७७५
वेति वाचोऽमृत	तब्राउ.	१३७१
वेति वायोरमृ	"	"
वेत्य नु त्वं काप्य	बुउ.	११४७
वेत्य पथोर्देव	छाउ.	८५६
वेत्य यथा पञ्च	"	"
वेत्य यथा पुन	"	"
वेत्य यथाऽसौ लो	"	"
	परि.	१५५३
*वेत्य यथेमं लो	बुउ.	१२९२
वेत्य यथेमाः प्र	"	"
वेत्य यदितोऽधि	छाउ.	८५६
वेत्य सावित्राश्च	तैब्रा.	२६
वेत्याग्निमिति हो	शब्रा.	३२९,
		३३०
वेत्याग्निहोत्रं या	"	४६७
वेत्थो देवयान	बुउ.	१२९२
वेत्थो यतिथ्यामा	"	"
वेत्थो यथाऽसौ लो	"	"
वेत्थो यथेमं लो	"	"
*वेत्थो यावतिथ्या	"	"
वेद आस्तरणं	असं.	४५१
वेदः शिखा	नाउ.	१६५१
वेद तत् ते अम	असं.	१७०
वेद नावः समु	ऋसं.	७५
वेदपुरुष इ	ऐउ.	६१३;
	कौउ.	६८८
वेदमनूच्याऽऽचा	तैउ.	७०४
वेद मासो धृत	ऋसं.	७५
वेद लोकाऽकौ	ऐउ.	५५९
वेद वा अहं गौ	बुउ.	११४७
वेद वातस्य च	ऋसं.	७५
वेद श्वस्तनम्	ऐउ.	५५९
वेद सम्राडिति	शब्रा.	४६७
वेदस्य म आणी	ऐउ.	५९६,
		६२६
वेदा एव सवि	गोब्रा.	११९

वेदाः सर्वाङ्गानि	तत्राज.	१३८४	वैपश्चितो दाढं	तत्राज.	१३६८	वैश्वानरोऽवतू	ऋसं.	१६
वेदात्मनाय वि	नाज.	१६३२	वैयाघ्रपदीपु	बृज.	१३१०	वैश्वानर्यो समि	कासं.	२४
वेदादिशास्त्रादि	मैज.	१६६७	वैयाघ्रपथ कं	श्रात्रा.	४०;	*वैष्टुपुरेयः शा	बृज.	१११४,
वेदानां माताऽमृत	तैत्रा	३४९		छाज.	८७५			१२६५
वेदान्तविज्ञान	मुज.	१४८४;	वैराजं साम शू	तैसं.	२८१	बोचेम शंतमं	नाज.	१६४३
नाज.	१६३६;	कैज.	वैरूपवैराजे	कौज.	६३६	बोचयं ते नाभिं	अमं.	१६८
वेदान्ते परमं	श्वेज.	१६२७	वैरूपस्य च वै	असं.	४५१	बोढाऽनड्वान्	तैसं.	५१४
वेदा य उपजा	ऋसं.	७५	वैरूपाय च वै		४५०	*व्यङ्गुड विलोहि	मैसं.	१४७
वेदा ये अध्यास	"	"	वैवस्वतं संग	ऋसं.	३५६;	व्यज्ञासिष्टा ३ इति	बृज.	१२६९
वेदा यो वीनां प	"	"		असं.	३९०	व्यज्ञासिष्मेति हो	"	"
वेदा वा एते	तैत्रा.	२८	वैवस्वतेन प्र	असं.	३८२	व्यञ्जनैरेव रा	ऐज.	५५४
वेदा वाचि प्रति	गोत्रा.	१२०	वैवस्वते विवि	तैआ	४१६	व्यपोह्य शीर्षक	तैज.	६९९
वेदाश्छन्दांसि स	"	११८	वैचस्वतो न तु	"	"	*व्यपो ह्यशीर्षक	"	"
वेदान्तं पराहु	बृज.	१२६१	वैश्वो वा राज्ञे ब	श्रात्रा.	४६६	व्यवाते ज्योतिर	असं.	३८०
वेदास्तृप्ता देव	तत्राज	१३३६	वैश्वदेवं वै नु	तत्राज.	१३४१	व्यश्वः साकमश्वात्	कौज.	६९२
वेदाहं सप्त प्र	असं.	४३४	वैश्वदेवीं वाच	तैआ.	३५१	*व्यष्कभ्रा रोदसी	मैसं.	९१
वेदाहं सूत्रं वि	"	२५०	वैश्वदेवोऽयम	तत्राज.	१३४१	व्यष्टिः सनारोः	बृज.	१११४,
वेदाहमेतं पु	शुसं.	२५४;	वैश्वदेवो हि जा	तात्रा.	२८४			१२६६
तैआ.	२७३;	ऋसंखि.	वैश्वानरं कव	ऋसं.	१०२	*व्यस्कभ्रनाद्दोदसी	तैसं.	९१
शिज.	१५७३;	श्वेज	वैश्वानरं विभ्र	असं.	५०७	व्यस्तः पायुः	ऐज.	६१६
वेदाहमेतम	श्वेज.	१५९९	वैश्वानरं विश्व	ऋसं.	१०२	व्यस्तः पायुर्भव	कौज.	६८८
*वेदाहमेवं पु	"	१५९४	वैश्वानरं ह भ	श्रात्रा.	३९	व्यस्तभ्रना रोदसी	ऋसं.	९१
वेदा ह्यमृताः	छाज.	७९५	*वैश्वानरः पव	तैआ.	३७२	व्यस्मद्द्वेषो वित	"	१२५
वेदिं भूमिं कल्प	असं.	१७०	वैश्वानरः पवि	असं.	"	व्याख्यास्यामि ते	बृज.	१०९१
*वेदिमाहुः पर	तैसं.	२२१	वैश्वानरः पुत्रः	तैआ.	४१३	* " "	"	१२६०
*वेदेनैन यद्वे	बृज.	१२६६	वैश्वानरः प्रवि	काज.	१३९०	व्याचक्षाणस्य तु	"	१०९१,
वेदेनैन यद्वे	"	"	वैश्वानरः सह	ऋसं.	४			१२६०
वेदेनेकैर	कैज.	१६७६	वैश्वानरज्येष्टे	असं.	२०	व्यात्तमस्य पश	तैत्रा.	४७८
वेदैरञ्जन्यत्रि	तैत्रा.	४९३	वैश्वानरज्योति	कासं.	२५	व्याददात्येवान्त	छाज.	७५३
वेदेयज्ञोऽभिप	गोत्रा.	१२०	वैश्वानर तव	ऋसं.	४	व्याधिभिः प्रतिपू	"	८३५
वेदो ब्रह्म तस्य	तत्राज.	१३८७	वैश्वानर नाभि	"	२	व्यान इति	बृज.	११७६
वेदोऽयं ब्राह्मणा	बृज.	१२६६	वैश्वानरस्य प्र	असं.	१६१	व्यानः प्रतिहर्ता	श्रात्रा.	४६०
*वेदां वै पुत्रना	कौज.	६५०	वैश्वानरस्य वि	ऋसं.	१३	व्यानमक्षेनाऽऽया	नाज.	१६४८
वेनस्तत् पश्यत् प	असं.	१०६	वैश्वानरस्य सु	"	४	*व्यानशी पवसे	सासं.	७०
* " "	"	२५६	वैश्वानराय प्र	असं.	३७२	व्यानस्तृप्यति	छाज.	८८१
वेनस्तरपश्यन्नि	शुसं.	"	वैश्वानराय वि	नाज.	१६३२	व्यानस्य स्वराः	ऐज.	६२१;
*वेनस्तरपश्यन्वि	नाज.	"	वैश्वानरं हवि	असं.	३९७		कौज.	६८९
" "	"	१६३१	वैश्वानरो जाय	ऋसं.	१४		तैसं.	५१४
वेशं वा नित्यं व	ऋसं.	७८	वैश्वानरो दस्यु	"	३	व्यानाय त्वा	नाज.	१६४८
वैखानसा वा ऋ	तात्रा.	४०२	वैश्वानरो नो अ	असं.	३७२	व्याने तृप्यति श्रो	छाज.	८८१
*वैजवापायनः कौ	बृज.	१११४	वैश्वानरो महि	ऋसं.	४	व्यानो दक्षिणः प	तैज.	७१४
वैदभृतीपुत्रः	"	१३१०	वैश्वानरो यास्व	"	१५६	व्यानोदानौ वाङ्म	असं.	३०८,
*वैदभृतीपुत्रो	"	१३११	वैश्वानरो रक्ष	असं.	३७९			३१२
वैद्युतः संधानम्	तैज.	६९४	वैश्वानरो रश्मि	तैत्रा.	२६१			
*वैद्युतीपुत्रः का	बृज.	१३११						

व्यानोऽन्वाहार्यप	शब्रा.	४६५;
शाआ.	४७३;	कौउ.
	प्रउ.	१५०६
व्यापको हि भग	शिरउ.	१६८१
व्याप्तर्वा अस्यैषे	तब्राउ.	१३४८
व्याप्तर्वा एषा त	,,	१३४२
व्याहृतयस्तृप्ता	,,	१३३६
व्युच्छन्ती व्युच्छन्त्य	तैब्रा.	२९०
व्युषि सविता भ	तब्राउ.	१३६९
व्युष्टिर्वा एष आ	तब्रा.	२८५
व्युष्टयै त्वा	तैसं.	५१४
व्यूहच्छन्दसा वै	तब्राउ.	१३६४
व्येव त्वा ज्ञपयि	वृउ.	१०७१
व्योममेव सः	शिरउ.	१६७७
व्योमेति भस्म	,,	१६८०
व्रतेन वै ब्राह्म	गोब्रा.	११९
व्रश्चनं वातर	मैउ.	१६१३
व्रात्य आसीदीय	असं.	४५०
व्रात्यस्त्वं प्राणैक	प्रउ.	१४९९
व्रात्योऽस्येकनात्यो	तब्राउ.	१३६१
व्रीहियवाभ्यामि	शत्रा.	४६७
व्रीहियवास्तिल	वृउ.	१३०४
श		
शं गावो लोहित	असं.	५११
शं तप माऽति त	,,	३८८
शं ते सूर्य आ त	,,	३८३
शं न इन्द्राग्नी भ	ऋसं.	४९६;
	ऐउ.	५२५
*शं न इन्द्रापूष	शुसं.	४९६
शं न इन्द्रो बृह	असं.	५११;
	तैउ.	६९३, ७०६
शं न इन्द्रो वसु	ऋसं.	४९७
शं न ऋभवः सु	,,	४९८
शं न ओषधीर्व	,,	४९७
शं नः क्षेमे शमु	,,	८०
शं नः पर्जन्यो भ	,,	४९८
शं नः पर्वता ध्रु	,,	४९७
शं नः सत्यस्य प	,,	४९८
शं नः सत्यस्य सु	,,	४९६
शं नः सुकृतां सु	,,	४९७
शं नः सूर्य उरु	,,	,,
शं नः सोमो भव	,,	,,
शं नः स्वरूपां मि	,,	,,
शं नो अग्निर्ज्योति	,,	,,

शं नो अज एक	ऋसं.	४९८
शं नो अदितिर्भ	,,	,,
शं नो अपां नपा	,,	,,
शं नो ग्रहाश्चान्द्र	असं.	५१२
शं नो देवः सवि	ऋसं.	४९८
शं नो देवा विश्व	,,	,,
शं नो देवीरभि	गोब्रा.	५२४
शं नो द्यावापृथि	ऋसं.	४९७
शं नो धाता शमु	,,	४९६
शं नो निखाता व	असं.	५११
शं नो भगः शमु	ऋसं.	४९६
शं नो भवत्वर्थ	तैउ.	६९३,
		७०५
शं नो भूमिर्वेप्य	असं.	५११
शं नो महर्षयो	,,	५१२
शं नो मित्रः शं व	,,	५११;
	तैउ.	६९३, ७०५
शं नो मृत्युर्धूम	असं.	५१२
शं नो रुद्रो रुद्रे	ऋसं.	४९७
शं नो विष्णुः शमु	,,	४९८
शं नो विष्णुरुह	तैउ.	६९३,
		७०६
शं रुद्रा शं वस	असं.	५१२
शं रोदसी बृह	ऋसं.	४९७
शं रोदसी सुष	,,	३६५
शकमर्थ धूम	,,	२२५
शकनुवन् चेन्मन्ये	ऐउ.	६०२
शकः प्रविद्वान्प्र	तैआ.	२७३
शक्राय दध्न वृ	असं.	५०८
शङ्खस्य तु ग्रह	वृउ.	१०९६,
		१२६१
शङ्खो बाध्रव्यो द	तब्राउ.	१३६७,
		१३७२
शङ्गः शाटघायनि	,,	१३६७
शचीर्मदन्त उ	ऋसंखि.	३६८
शतं कंसाः शतं	असं.	४३४
शतं च दश चै	छाउ.	९५०
शतं चूर्णहस्ताः	कौउ.	६३४
शतं चैका च ह	छाउ.	९६८;
	कऋउ.	१४३९
शतं ज्वालाहस्ताः	कौउ.	६३४
शतं तेऽयुतं हा	असं.	३८४
शतं ते राजन्भि	ऋसं.	७४
शतं नियुतः प	तैआ.	२६८
*शतं फणहस्ताः	कौउ.	६३४

शतं फलहस्ताः	कौउ.	६३४
शतं भवास्त्युति	ऐउ.	५२५
शतं मा पुर आ	ऋसं.	६५;
	ऐउ.	५९१
शतं मान्यहस्ताः	कौउ.	६३४
शतं वर्षमह	तैब्रा.	४६२
शतं वा यस्य द	ऋसं.	५०
शतं वासोहस्ताः	कौउ.	६३४
शतं शता अस्य	तैआ.	२७०
शतं शुक्राणि य	,,	२६६
शतं सहस्रम	असं.	२५०
शतं सहस्राणि	तैआ.	२७१
शततमं वैश्यं	ऋसं.	६४
शततमी सा त	तैब्रा.	४७८
शतधारमुत्स	ऋसं.	११;
	ऐउ.	६२६
शतमाजनह	कौउ.	६३४
शतमिन्नु शर	ऋसं.	४९६
शतसनिः स्या इ	तब्राउ.	१३४४,
		१३४५
शतायुषः पुत्र	काउ.	१३९६
शानिराहुकेतू	मैउ.	१६६६
शान्तिवा सुरभिः	असं.	५०९
शाफाः खुरा इत्य	ऐउ.	५३२
शाबलाच्छामं प्र	छाउ.	९८२
शाब्दब्रह्मणि नि	मैउ.	१६६२
शाब्दस्पर्शरूप	नाउ.	१६४७
शाब्दस्पर्शादयो	मैउ.	१६५६
शाब्दस्याऽऽस्तेति वा	कौउ.	६७६
शाम इत्यरण्ये	नाउ.	१६५०
शामप्रयः समि	असं.	३९६
शामभ्रे पश्चात्	,,	३९५
शामभिषाचः श	ऋसं.	४९८
शामश्च स्वाध्याय	तैउ.	७०२
शामायन्तु ब्रह्म	,,	६९५
शमिताय स्वाहा	असं.	४५८
शमिन्द्रासोमा सु	ऋसं.	४९६;
	ऐउ.	५२५
शमेन नाकं मु	नाउ.	१६५०
शमेन शान्ताः शि	,,	,,
शमे सर्वं प्रति	,,	,,
शमो भूतानां दु	,,	,,
शरप्रतिहारः	छाउ.	७७६,
		७८३; तब्राउ. १३४०

शरदि ह खलु वै	तब्राउ.	१३४०	शाण्डिल्यः कौशिका	वृउ.	१११४,	शिरो यज्ञस्याहं	असं.	४३४
शरदे त्वा हेम	असं.	३८४			१२६५	शिरो हस्तावयो	"	३१०
शरीरं कृत्वा पा	"	३०९	शाण्डिल्यो वात्स्याय	"	१३११	शिला भूमिरश्मा	"	५०८
शरीरं ब्रह्म प्रा	"	३११,	*शाण्डिल्यो वैजवा	"	१११४,	शिल्पः कश्यपः क	वृउ.	१३११
		३१२			१२६५	शिवं ते तन्वे त	असं.	३८३
शरीरं ममेति	शाआ.	३२२	शातवनेये श	ऋसं.	४	शिवमसौ तपन्	तैसं.	५१४
शरीरं मे विच	ऋसंखि.	५०१;	शान्तं भूतं च भ	असं.	५१०	शिवरूपं शिव	ऋसंखि.	३३६
	तैउ.	६९५	शान्तः संवत्सरः	तैसं.	५१४	शिवलिङ्गाय न	नाउ.	१६४१
शरीरं यज्ञश्च	नाउ.	१६३३	शान्तमेकं सप्त	मैउ.	१६६५	शिवा अभि क्षर	असं.	३८३
शरीरं श्रद्धा द	असं.	३११	शान्तसंकल्पः सु	काउ.	१३९१	शिवां गिरित्र तां	तैसं.	१३५;
शरीरं सर्वे प्रा	"	"	शान्ता उदन्वती	असं.	५१०		श्वेउ.	१५९४
शरीरं हृदये	तैब्रा.	२६०	शान्ता यौः शान्ता पृ	"	"	*शिवां गिरिश तां	मैसं.	१३५
शरीरपुरुष	ऐउ.	६१३;	शान्तानि पूर्वह	"	"	शिवां स्योनामनु	असं.	५०७
	कौउ.	६८८	शान्तिं करिष्यामी	गोब्रा.	११८	शिवा नः शंतमा	ऐउ.	५२५;
शरीरप्रादेशा	मैउ.	१६६६	शान्तिः सर्वशान्तिः	मैसं.	५१५		कौउ.	६२७, ६८३
शरीरमधूनु	तैआ.	१५९,	शान्तिरसि	"	"	शिवाय नमः	नाउ.	१६४१
		३०६	शान्तिरेव शान्तिः	तैआ.	५१९	*शिवा रतस्य भे	कासं.	१४५
शरीरमनादम्	तैउ.	७३९	शान्तिर्नो अस्तु	मैसं.	५१५	शिवा रुद्रस्य भे	तैसं.	"
शरीरमस्य सं	असं.	३९१	शान्तिर्बभूव	"	"	शिवा शरव्या या	"	१३४
शरीरमिदं मै	मैउ.	१६५६	शान्तिर्मे अस्तु शा	तैआ.	५१९	शिवास्त एका अ	असं.	३४६
शरीरमिध्मम्	नाउ.	१६५१	शान्तिर्वा एषा त	तब्राउ.	१३४२	शिवास्ते सन्त्वोष	"	३८३
शरीरमेवास्या	कौउ.	६६८	शान्तिसमृद्धम	तैउ.	६९९	शिवे ते स्तां द्यावा	"	"
शरीरेणेति	"	६३८	शान्त्या चित्तम्	नाउ.	१६५१	शिवेन मा चक्षु	"	१५७
शरीरे पाप्मनो	तैउ.	७१७	शारदावेनं मा	असं.	४५१	शिवेन मे संति	नाउ.	१६४९
शरीरे प्राणः प्र	"	७३९	शारदौ मासौ गो	"	"	शिवेन वचसा	तैसं.	१३५
शर्कराः सिकता	असं.	४४९	शर्कराक्ष्य कं त्व	छाउ.	८७५	शिवो मा विशाप्र	नाउ.	१६४८
शर्कराया अश्मा	शब्रा.	२९६	*शालङ्कायनीपु	वृउ.	१३१०	शिवो ते स्तां ब्रौहि	असं.	३८३
शर्म चन्द्रश्च सू	तैआ.	३५१	शाश्वतं वै पुरा	शिरउ.	१६८०	शिशिरे शिशिरं	शिरउ.	१६८१
शर्म मे द्यौः शर्म	"	"	शिशुमारा अज	असं.	१३२	शिश्रं निरभिद्य	ऐउ.	५८१
शर्यातो वै मान	तब्राउ.	१३५१	*शिक्षा णो अस्मिन्पु	ऋसं.	४००	शिश्राद्रेतः	"	"
शर्व एनमिष्वा	असं.	४५२	शिक्षा नो अस्मिन्पु	तैसं.	"	शिश्रेण रामान्वे	तब्राउ.	१३८७
शर्वलिङ्गाय न	नाउ.	१६४१	शिक्षा सखिभ्यो ह	ऋसं.	१८५	शिश्रैर्यदनुतं	तैब्रा.	४८७
शर्वाय नमः	"	"	शिखरिणां प्रप	मैउ.	१६५३	शीक्षां व्याख्यास्या	तैउ.	६९४
शलकैरग्निमिन्धा	"	१६४६	शिखाऽस्य मनः	"	१६६२	शीतं सावित्री	गोब्रा.	११९
शश्वत्सूयमाना	मैउ.	१६५९	शिथिलमिवाधु	तैआ.	१६०	शीर्यते ह वा अ	ऐउ.	५३३
शश्वद्ध वा अमु	तब्राउ.	१३५५	शिर एव पट्त्रि	शब्रा.	३४,	शीर्षन् द्वे	शब्रा.	३६
शाकल्येति ह्येवा	वृउ.	११७३	शिरः पाणिपाद	नाउ.	१६४७	शीर्ष्णः क्षीरं दुह	ऋसं.	२०९
शाकरैरेवते	कौउ.	६३६	शिरसा धारयि	"	१६३२	शुकं ते अन्यद्य	तैआ.	१८१
शाखा आकाशवा	मैउ.	१६५८	शिरसाऽस्य चर	मैउ.	१६५३	शुकं वहन्ति ह	असं.	१७३
शाट्यायनी रामा	तब्राउ.	१३७२	शिरस्त्रिवृत्पञ्च	शब्रा.	४६९	शुकमादाय पु	वृउ.	१२००
शाण्डलीपुत्रो रा	वृउ.	१३१०	शिरो अपश्यं प	ऋसं.	४२९	शुक्रेण ज्योतीं वि	नाउ.	१६२९
*शाण्डिलीपुत्रो रा	"	१३११	शिरो दक्षिणः प	ऐउ.	५६३	शुकृकृष्णे संव	तैआ.	१८१
शाण्डिल्यः कैशोर्या	"	१११४,	शिरो मे श्रीर्यशो	कासं.	३१४	शुकमेव हिङ्गा	तब्राउ.	१३३९
		१२६५	शिरो यज्ञस्य यो	असं.	४३४	शुकस्य कृष्णस्य	कौउ.	६८०

शुक्रस्य नीलस्य	बृउ.	१२०७	श्यावाश्वं कृष्णम	असं.	१३१	श्रयन्तेऽस्मिञ्छ्रियो	ऐउ.	५३३
शुची रोचत आ	ऋसं.	१७	श्यैतमदत्कम	छाउ.	९८३	*श्रवणादिभिर्ब	काउ.	१४००
*शुची रोचता आ	मैसं.	११	श्येनः क्रोडोऽन्तरि	असं.	४३४	श्रवणादेव प्र	गोब्रा.	५२३
शुद्धः पूतः पुण्य	छाउ.	८७१	श्येनस्त एकं मु	कौउ.	६४८	श्रवणायापि ब	काउ.	१४००
शुद्धाः पूता योषि	असं.	३७५	श्येनो गृह्णाणां स्व	ऋसं.	७२;	श्रवणीयं चैने	तब्राउ.	१३४८,
शुद्धा न आपस्त	॥	५०८	नाउ.	१६३५, १६४५				१३५०
शुने क्रोष्ट्रे मा श	॥	१२८	श्येनोऽसि गायत्र	शब्रा.	४६९	श्राम्यति चक्षुः	बृउ.	१०६१
शुभं मुखं मा न	॥	३८३	श्यैतनौधसे चा	कौउ.	६३६	श्राम्यति श्रोत्रम्	॥	॥
शुभा यासि रिण	॥	१६९	श्यैतस्य च वै स	असं.	४५१	श्राम्याप्येवेति	शब्रा.	२९३
*शुभ्रमक्षरं वे	प्रउ.	१५०९	श्यैताय च वै स	॥	॥	श्रावितमसि	बृउ.	१३०४
शुम्भन्तां लोकाः पि	असं.	३९८	श्रद्धदेव म	छाउ.	९४१	श्रियं च लक्ष्मिं च	नाउ.	१६४७
शुश्रूषन्ते हास्य	कौउ.	६८९	श्रद्धत्स्व सोम्येति	॥	९१९	श्रियं च वा एष	असं.	४७४
शुश्रूषति वै प्राण	बृउ.	१२७७	श्रद्धयाऽग्निः समि	ऋसं.	४२६	श्रियं देवीमुप	ऋसंखि.	४९९
शुद्रो दुरनूचा	तब्राउ.	१३५७	श्रद्धया देयम्	तैउ.	७०४	श्रियं यशो मे तु	ऐआ.	५१९
शुद्रो मनुष्यः	ताब्रा.	२८४	श्रद्धया देवो दे	तैब्रा.	४२७	श्रियं वः प्रयच्छे	तब्राउ.	१३४६
शुर्षं पवित्रं तु	असं.	४७३	श्रद्धया मेधा	नाउ.	१६५१	श्रियं वातय मे	ऋसंखि.	५०१
शुषो नामास्यमृ	तैब्रा.	२६०	श्रद्धां कामस्य मा	तैब्रा.	४२७	श्रियमावाहया	नाउ.	१६४४
*शृणवाम शर	तैआ.	५१५	श्रद्धां देवा यज	ऋसं.	४२६	श्रियां हैतद्वाऽयां	शब्रा.	५१८
॥ ॥	॥	५२०	श्रद्धां प्रातर्हवा	॥	४२७	श्रिया देयम्	तैउ.	७०४
*शृणुयाम शर	मैसं.	५१५	श्रद्धां भगवो वि	छाउ.	९४१	श्रिया स्त्रियम्	गोब्रा.	११९
॥ ॥	शुसं.	॥	श्रद्धां भगस्य मू	असं.	४२६	श्रियै पाप्मा	शब्रा.	५१८
शृण्वन्ति विश्वे अ	तैसं.	१११;	श्रद्धां सूर्यस्य नि	ऋसं.	४२७	*श्रियै स्वाहेत्यग्नौ	बृउ.	१३०२
॥ ॥	श्वेउ.	१५८६	श्रद्धां हृदय्यया	॥	४२६	श्रीमान्यशस्वी भ	छाउ.	८०४
शृण्वन्तु नो दिव्याः	ऋसं.	४९८	श्रद्धा त्वेव विजि	छाउ.	९४१	श्रीरुपबर्हणम्	कौउ.	६३६
*शृण्वन्तु विश्वे अ	॥	१११	श्रद्धा देवानधि	तैब्रा.	४२७	श्रीर्भे भजतु	नाउ.	१६३२
शृण्वे वीर उग्र	॥	५३	श्रद्धा देवी प्रथ	॥	॥	श्रीर्वा एषा तस्य	तब्राउ.	१३४२
शृतं कृण्वन्त इ	असं.	३९६	श्रद्धा पत्नी	नाउ.	१६५१०	श्रीर्वा एषा प्रजा	॥	१३५८
*शृतं यदा कर	॥	३५९	श्रद्धा पुंश्चली मि	असं.	४५०	श्रीर्वागस्य सा	॥	१३४४
॥ ॥	ऋसं.	३६०	श्रद्धा प्रतिष्ठा लो	तैब्रा.	४२७	श्रीर्वै साम्नो द्विङ्गा	॥	१३३१
*शृतं यदाऽकर	तैआ.	॥	श्रद्धामेधे प्रजाः	नाउ.	१६४७	श्रीर्ह वा एषा स्त्री	बृउ.	१३०६
शैशिरावेनं मा	असं.	४५२	श्रद्धामेधे प्रजा	॥	॥	श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च	शुसं.	२५५
शैशिरौ मासौ गो	॥	॥	श्रद्धा यज्ञो दक्षि	तब्राउ.	१३३५	श्रीश्च लक्ष्मीश्च पु	नाउ.	१६४७
शोचिष्केशं विच	॥	१७१	श्रद्धार्यां प्राणे नि	नाउ.	१६४८	श्रीश्चरा चापरौ	कौउ.	६३६
शौङ्गीपुत्रः सांकृ	बृउ.	१३१०	श्रद्धार्यां व्याने नि	॥	॥	श्रुतं च विश्रुतं	असं.	४५१
*शौनकीपुत्रः का	॥	॥	श्रद्धायाः समाने	॥	॥	श्रुतं मे गोपाय	तैउ.	६९५
शौनको ह वै म	मुउ.	१४४३;	श्रद्धायाः ह्येव द	बृउ.	११७४	श्रुतं मे मा प्र हा	ऋसंखि.	५०१;
॥ ॥	परि.	१५६९	श्रद्धायामपाने	नाउ.	१६४८	श्रुतं श्रुतमेवा	ऐउ.	५९६, ६२६
*शौर्षणाट्यो गौत	बृउ.	१११४,	श्रद्धायामिति	बृउ.	११७४	श्रुतं ह्येव मे भ	प्रउ.	१५०६
॥ ॥	१२६५		श्रद्धायामुदाने	नाउ.	१६४८,		छाउ.	८३४,
श्यामजयन्तो लौ	तब्राउ.	१३६७	श्रद्धा विश्वमिदं	॥	१६४९		९२७	
श्याममयोऽस्य मां	असं.	४३६	श्रद्धा हैवायज	तैब्रा.	४२७	श्रुतानि कृण्वन्तो	असं.	४२७
श्यामश्च त्वा मा श	॥	३७८	श्रद्धोत्तररूपम्	॥	४६२	श्रुतिश्चापध्वस्ता	गोब्रा.	५२४
श्यामसुजयन्तो	तब्राउ.	१३६७	श्रद्धोत्तररूपम्	कौउ.	६८६	श्रुत्कर्णाय कव	असं.	२१
श्यामाच्छबलं प्र	छाउ.	९८२	श्रमेणानड्वान् की	असं.	४३३	शुषो वाह्यः का	तब्राउ.	१३६७
श्यावदन्नप्रदि	तैब्रा.	४८६				श्रेयः कतमो यः	मैउ.	१६५७

श्रेयश्च प्रेयश्च	काउ.	१३९८	श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः	कौउ.	६६५,	श्रोत्रेणोद्गात्रा दी	तब्राउ.	१३४९,
श्रेयसो वै पापी	शब्रा.	३३८			६६६, ६८०			१३५२
श्रेयांसः	"	१५४	श्रोत्रं ह वा उ सं	शाआ.	३३१	श्रोत्रे तृयति च	छाउ.	८८१
श्रेयांसमेनमा	असं.	४५३	*श्रोत्रं हि दिशः	वृउ.	११८५	श्रोत्रे पक्षसी	ऐउ.	५७५
श्रेयांसो ह वैरस्मा	शब्रा.	१५४	श्रोत्रं हृदये	तैब्रा.	२६०	श्रोत्रे हीमे सर्वे	वृउ.	१२८७
श्रेयान्वस्यसोऽसा	तैउ.	६९५	श्रोत्रं होचक्राम	शाआ.	३३१;	श्रोत्र्याम्यहमिति	"	१०६१
श्रेयो हि धीरोऽभि	काउ.	१३९८	छाउ.	८५१; वृउ.	१२८८	श्लक्ष्णं बलवदि	छाउ.	७८५
श्रेष्ठं सर्वघात	ऋसं.	१८;	श्रोत्रपतिर्विज्ञा	तैउ.	६९९	श्वः श्वः पापीयान्भ	शब्रा.	४१९
शाआ.	३३१; छाउ.	८५५	श्रोत्रमप्रीत्	नाउ.	१६५१	श्वः श्वः श्रयान्भव	"	"
श्रेष्ठं सर्वं सवि	ऋसं.	२१७	श्रोत्रमङ्गाराः	जैब्रा.	४०४	श्वघ्नाव यो जिगी	ऋसं.	४६
श्रेष्ठतमाय क	गोब्रा.	५०४	श्रोत्रमनुहर	तब्राउ.	१३८६	श्वेतं रश्मि बोभु	तैआ.	२७१
श्रेष्ठाय नमः	नाउ.	१६४१	श्रोत्रमस्माकमि	शाआ.	३२२	श्वेतकेतुर्ह वा	वृउ.	१२९०
श्रेष्ठो जातस्य रु	ऋसं.	१२५	श्रोत्रमस्मात्सर्वान्	कौउ.	६६७	श्वेतकेतुर्हाऽऽरु	छाउ.	८५५,
श्रेष्ठो ह वेदस्त	गोब्रा.	३०५	श्रोत्रमिति	शब्रा.	३३०;			८८२
श्रेष्ठ्याय कल्पन्ते	वृउ.	१२७९		तब्राउ.	१३६२	श्वेतकेतो यन्नु	"	८८३
*श्रेष्ठ्याय कल्पन्ते	"	"	श्रोत्रमुदकामत्	ऐउ.	५३३	श्वेतकेतो वस	"	८८२
श्रेणी यदुरु क	असं.	२४४	श्रोत्रमेव ब्रह्म	छाउ.	८२०	श्वेताश्वो दर्शतो	तब्राउ.	१३६७
श्रोतारं विधात्	कौउ.	६७०	श्रोत्रमेवर्क	"	७६३	श्वेतो रश्मिः परि	तैआ.	२७२
श्रोत्रं कला	छाउ.	८३३	श्रोत्रमेव सा	"	"	श्वोभावा मर्त्यस्य	काउ.	१३९७
श्रोत्रं च श्रोतव्यं	प्रउ.	१५०८	श्रोत्रमेवाऽऽयत	वृउ.	११८५			ष
श्रोत्रं तृप्तं दिश	शाआ.	४७२;	*श्रोत्रमेवास्मिन्स	कौउ.	६६७	षकारः प्राण आ	ऐउ.	६२३
	कौउ.	६९१	श्रोत्रमेवास्या ए	"	६६८	षकारः प्राणः	कौउ.	६८९
श्रोत्रं ते मयि जु	कौउ.	६४३	श्रोत्रवान्भवती	शब्रा.	३३०	पट्त्रिंशत्सहस्रा	शब्रा.	३१९,
श्रोत्रं ते मयि द	"	६५५	श्रोत्रस्य श्रोत्रं म	तब्राउ.	१३७४			३२०, ३२१
श्रोत्रं दिशस्ता म	तब्राउ.	१३५५	श्रोत्रस्योष्माणः	ऐउ.	६२१	पट्त्रिंशत् चतु	ऋसं.	२३५
श्रोत्रं देवम्	वृउ.	१०४२	श्रोत्राद्दिशः	"	५८१	पट्त्वा पृच्छाम ऋ	असं.	१६१
श्रोत्रं नाम देव	कौउ.	६४२	*श्रोत्राद्वायुश्च प्रा	शुसं.	२३३	पढाहुः शीतान्घ	"	१६२
श्रोत्रं परस्नान्म	"	६४१	श्रोत्राय स्वाहाऽऽय	वृउ.	१३०२	षडित	वृउ.	११६६
श्रोत्रं प्रतिहारः	छाउ.	७७७,	श्रोत्रियस्य चाका	तैउ.	७२८	षडुयामं भव	शब्रा.	३१८
		७८१	श्रोत्रेण दिशः	शब्रा.	३३०	षड् जाता भूता प्र	असं.	१६२
श्रोत्रं प्राविशत्	ऐउ.	५३४	श्रोत्रेण भद्रमु	तैब्रा.	३१७	षड् वै देवताः	तब्राउ.	१३७१
श्रोत्रं भूवा सर्व	जैब्रा.	२०२	श्रोत्रेण मोदश्च	"	"	षड् हि प्राणाः	शब्रा.	३१८
श्रोत्रं मे त्वयि द	कौउ.	६५५	श्रोत्रेण वाचं व	"	"	षड् हि प्राणोऽपानो	तब्राउ.	१३५०,
श्रोत्रं वाव संपत्	छाउ.	८५०	श्रोत्रेण शब्दान्वे	तब्राउ.	१३८७			१३५१
श्रोत्रं वाव साम्नः	तब्राउ.	१३४१	श्रोत्रेण सर्वा दि	तैब्रा.	३१७	षड् देवाऽऽस्याऽऽजाय	"	१३५१
*श्रोत्रं विष्फुलिङ्गाः	वृउ.	१२९७	श्रोत्रेण सर्वान् श	कौउ.	६६७	षड्भारो एको अ	ऋसं.	९४
श्रोत्रं विष्फुलिङ्गाः	छाउ.	८५९;	श्रोत्रेण सृष्टा दि	ऐउ.	५४०	षड्भिर्माभेस्तु यु	मैउ.	१६६३
		वृउ.	श्रोत्रेण हि तच्छृ	वृउ.	१०४२	षड्योगं सीरम	असं.	१६२
श्रोत्रं वै ग्रहः	वृउ.	११२३	श्रोत्रेण हि शब्दा	"	११२३	षळस्तभना विष्टि	ऋसं.	५१
श्रोत्रं वै ब्रह्मेति	"	११८५	श्रोत्रेणाचीयन्त	शब्रा.	३२१	षष्टिश्च त्रीणि च	शब्रा.	३४,
श्रोत्रं वै संपत्	"	१२८७	श्रोत्रेणाशंसन्	"	"			३५
श्रोत्रं वै सप्राट् प	"	११८५	श्रोत्रेणास्तुवत	"	"	षष्टिश्च ह वै त्री	"	३३,
श्रोत्रं सृण्वत्सर्वे	कौउ.	६५९.	श्रोत्रेणाति	कौउ.	६३८			३६, ३७
श्रोत्रं संधिः	"	६८४	श्रोत्रेणैषु ग्रहा	शब्रा.	३२१	षष्ठं मे नाम कु	शब्रा.	१५१
श्रोत्रं संश्रावयि	"	६४०				षोडशकलं ब्र	तब्राउ.	१३८७

षोडशकलं भा	प्रउ.	१५१४
षोडशकलं वै	तब्राउ.	१३६६
षोडशकलः सो	छाउ.	९०२
षोडशकलो वै	तब्राउ.	१३६७
षोडशाक्षरं गी	"	१३६६
षोडशी सप्तरा	असं.	४४७
स		
स आकाशः	छाउ.	८०५
स आगच्छति मु	कौउ.	६३४
स आगच्छति वि	"	"
		६३६
स आगच्छति सा	"	६३६
स आगच्छतीन्द्र	"	"
स आगच्छतील्यं	"	"
स आगच्छत्यप	"	"
स आगच्छत्यमि	"	"
स आगच्छत्यारं	"	६३४
स आग्रयणेने	गोब्रा.	४७२
स आचार्याय आ	"	११८
स आजगाम गौ	वृउ.	१२९३
स आजगाम जै	"	१२९०
स आजगाम पि	"	१२९३
स आत्मन एव	गोब्रा.	३०४
स आत्मनिन्द्रम	तैब्रा.	२८८
स आत्मन्येव प्र	शब्रा.	२९९
स आत्मा	"	३४,
		३५; तैउ. ६९७; छाउ. ९१३,
		९१७, ९१८, ९१९, ९२०,
		९२१, ९२३, ९२४; माउ.
		१५२५
*स आत्मान् स्वय	तैउ.	७२५
स आत्मानमन्वै	शब्रा.	३२०,
		३२१
स आत्मानमुपा	"	२६१
स आदित्यः	छाउ.	८०४
स आदित्यः कस्मि	वृउ.	११७४
स आदित्यमाग	"	१२७६
स आदित्यमाह	तब्राउ.	१३६३
स आदित्यलोकम्	कौउ.	६३२
स आदित्येन ज्यो	छाउ.	८२०
स आदित्येन दि	शब्रा.	२९५
स आदित्योऽभव	तब्राउ.	१३५३
स आपः प्रदुचे	नाउ.	१६३०
स आपोऽभवत्	शब्रा.	३००

स आवतश्च प	गोब्रा.	३०५
स आ वरीवर्ति	असं.	२४४
स आशिषा द्रवि	ऋसं.	१८३
स आस्येनैव दे	शब्रा.	२९९
स आह्राद्राक्षमि	वृउ.	११८४
स इज्जनेन स	ऋसं.	१९३
स इत आदाथा	तैआ.	१५९,
		३०६
स इतः प्रयन्ने	ऐउ.	५९०
स इत्तन्तुं स वि	ऋसं.	१४
स इत्येकमक्ष	वृउ.	१२७२
स इत्सर्वं व्यान	तैब्रा.	३१६,
		३२८
स इत्स्वपा भुव	ऋसं.	१९३
स इदं सर्वं पा	ऐउ.	५४५
स इदं सर्वं म	"	५४४
स इदं सर्वम	शब्रा.	२०३;
	ऐउ.	५४७
* " "	तैउ.	७२०
स इदं सर्वमु	शब्रा.	२०३
स इदं हिरण्म	"	२९८
स इदंभोजो यो गृ	ऋसं.	४७६
स इन्द्रः	ऐउ.	५७१;
	वृउ.	१०५४
स इन्द्रमपि ना	तैब्रा.	२८८
स इन्द्रलोकम्	कौउ.	६३२
स इन्द्रोऽम्राषोमौ	शब्रा.	३०१
स इमं त्रयं वे	तब्राउ.	१३३२
स इमं रसं पी	"	"
स इमं लोकम	जैब्रा.	२८६;
	तब्राउ.	१३५९
स इममेवाऽऽत्मा	वृउ.	१०१९
स इमां पुरुषे	तब्राउ.	१३६६
स इमां प्रतिष्ठां	तैब्रा.	२८९
स इमां प्रतिष्ठा	"	"
स इमांल्लोकान	ऐउ.	५८१;
	तब्राउ.	१३३६
स इमांल्लोकान्त्स	शब्रा.	२९५
स इमांल्लोकान् व्य	गोब्रा.	३०५
स इमां वाचं म	तब्राउ.	१३६६
स इमान् प्राणाना	जैब्रा.	४०३;
	तब्राउ.	१३५३
स इमान् लोकाने	ताब्रा.	४०२

स इमामपश्यत्	तैसं.	१५७,
		२८२
स इमा विश्वा भु	असं.	१७६,
		१७७
स इयामिति यां	ताब्रा.	४०१
स इरामयः	ऐउ.	५३१
स इष्ट्वाऽऽकामय	शब्रा.	३०१
स इष्ट्वा पापीया	छाउ.	८४७
स इष्ट्वा श्रेयान्भ	"	"
स इह कीटो वा	कौउ.	६३०
स ईक्षत	ऐउ.	५८४
स ईक्षत कत	"	५८५
स ईक्षत कथं न्वि	"	"
स ईक्षत यदि	"	"
स ईक्षत लोका	"	५८०
स ईक्षतेमे नु	"	५८१
स ईक्षांचक्रे	प्रउ.	१५१५
स ईयतेऽमृतो	वृउ.	१२०१
स उ एव चतु	तब्राउ.	१३५०
स उ एव त्रिपु	"	"
स उ एव दश	"	१३५१
स उ एव द्विपु	"	१३५०
स उ एव नव	"	१३५१
स उ एव पञ्च	"	१३५०
स उ एव बहु	"	१३५१
स उ एव षट् पु	"	१३५०
स उ एवाप्येत	"	१३३६,
		१३३७, १३३८
स उ एष सप्त	"	१३५१
स उच्चैःश्रवाः कौ	"	१३६४
*स उच्छ्रयति	वृउ.	११२४
स उच्छ्रयति	"	"
स उत्कामन्नेवै	कौउ.	६८९
स उत्कामन्म्रय	वृउ.	११९६
*स उत्तमः पुरु	छाउ.	९७९
स उत्तमपुरु	"	"
*स उत्तमपूरु	"	"
स उत्तमां दिश	असं.	४५२
स उदतिष्ठत् प्र	तब्राउ.	१६६६
स उदतिष्ठत् स	असं.	४५०,
		४५१
स उदरादेव	जैब्रा.	२८६
स उदीचीं दिश	गोब्रा.	३०४
स उदयन्नेव वा	तब्राउ.	१३३७

स उपजायोप	जैत्रा. ४०३, ४०५	स एतं देवया	कौउ. ६३२	स एव जातः स	शुसं. २५६; श्वेउ. १५९१; शिरउ. १६८०
स उपपक्षाभ्या	तैत्रा. २९०	स एतं पुरुष	शब्रा. ४७०	स एव तेन व	तब्राउ. १३६१
स उपरि मूर्ध्नो	तब्राउ. १३४३, १३६६	स एतं प्राञ्चं प्रा	बृउ. १३०५	स एव नो वरि	,, १३४५
स उपरिष्टास्ता	,, १३४६	स एतं मृत्युम	शब्रा. ४०८	*स एव पाप्मा	बृउ. १००३
स उपहृत उ	असं. ४७४	स एतदक्षर	तब्राउ. १३३६	स एव पुत्रः स	तैत्रा. ४२८
स उपहृतः पृ	,, "	स एतदधां कु	तैसं. १५७, २८१	स एव पुरुषः	शब्रा. २९२
स उपहृतो दि	,, "	स एतदेव रु	छाउ. ७९६, ७९७	स एव भूत्वा ब्र	काउ. १३९४
स उपहृतो दे	,, "	स एतन्मय ए	शब्रा. ३३०	स एव भोक्ता प्रा	मैउ. १६५९
स उपहृतोऽन्त	,, "	स एतमभ्यप	ताब्रा. २८५	स एव मायाप	कैउ. १६७५
स उपहृतो लो	,, "	स एतमेव पु	ऐउ. ५८६	स एवमिमान् लो	शब्रा. २९८
स उरस्त एव	ताब्रा. २८३	स एतमेव लो	तब्राउ. १३६३	स एव मृत्युः सो	असं. १७५
स उन्वावृत्तो ग	छाउ. ८६०	स एतमेव सी	ऐउ. ५८५;	स एवमेतत्त्रे	जैत्रा. ४०५
स उ वाव भुव	तब्राउ. १३५५	स एतमेव सु	परि. १५३५	स एवमेते दे	तब्राउ. १३६३
स उ ह तूष्णीमे	कौउ. ६७९	स एतमेव सु	जैत्रा. ४०३;	स एव विष्णुः स	कैउ. १६७४
स उ हैवाऽस्य तत्र	तब्राउ. १३५८	स एतमेव सु	तब्राउ. १३५९	स एव सं भुव	असं. १७७
स ऊर्णायुं गन्ध	ताब्रा. ४०१	स एतमेवाऽप्ये	तब्राउ. १३५४	स एव स पाप्मा	बृउ. १००३, १००४
स ऊर्ध्वगणेना	तब्राउ. १३४७	स एतस्माज्जीव	प्रउ. १५११	स एव सर्वं य	कैउ. १६७५
स ऊर्ध्वं दिशम	असं. ४५२	स एतस्मिन्नशे	शब्रा. ११६, ११७	स एवाधस्तात्स	छाउ. ९४६
स ऊर्ध्वेभ्य एव	शब्रा. २९५	स एतां त्रयीं वि	छाउ. ८४०	*स एवायतन	बृउ. ११८३
स ऊर्ध्वोऽतिष्ठत्	गोब्रा. ३०५	स एता देवता	तब्राउ. १३३६	स एवास्मिन्नोका	तैत्रा. २७
स ऊर्मिरुर्मिम	तब्राउ. १३४७	स एतानि शुक्ला	जैत्रा. २८६;	स एवास्मि यं मा	तब्राउ. १३६४
स ऋङ्मयो यजु	शब्रा. ४६६	स एतानि ह प्रा	तब्राउ. १३६०	स एवेति	,, १३५७
स ऋचां लोकः	नाउ. १६४०	स एतान् पाशान् वि	शाब्रा. ४०१	स एवैष प्रति	कौउ. ६७७
स ऋषीनत्रयी	तब्राउ. १३४६	स एतान् व्याहृत	असं. ३७२	स एवैष हिर	तब्राउ. १३४४
स एक आजान	तैउ. ७२८	स एता व्याहृत	तब्राउ. १३३६	स एवोद्गाताऽऽस्ता	,, १३३६
स एक इन्द्रस्या	,, "	स एतास्तिस्रो दे	छाउ. ८४८	स एष आहुति	,, १३३९
स एकः	,, "	स एतास्तेजोमा	बृउ. १२२३	स एष इन्द्र उ	,, १३४३, १३६६
स एकः कर्मदे	,, ७२८	स एति सविता	असं. १७४	स एष इह प्र	बृउ. १०२२
स एकः पितृणां	,, "	स एतेन प्रज्ञे	ऐउ. ५९५	स एष एकः स	शब्रा. ११६
*स एकः पितृणां	,, "	स एतेन यज्ञे	शब्रा. ४६६	स एष एतस्य	तब्राउ. १३३७, १३३८
स एकः प्रजाप	,, "	स एतेन रूपे	ऐउ. ५४९	स एष एवंवि	शब्रा. ११८; बृउ. १०१४
स एकव्रातयोऽभ	असं. ४५०	स एतैः सुप्तो न	शब्रा. ११६	* ,, ,,	बृउ. १०६०
स एकादश द्र	शब्रा. २९५	*स एनं देवया	कौउ. ६३२	स एष एव मृ	शब्रा. ११२, ११६, ११८
स एको देवग	तैउ. ७२८	स एनं यजमा	प्रउ. १५०६	स एष एव लो	,, ११४
स एको देवाना	,, "	स एनमास्पृष्ट	तब्राउ. १३५४	स एष एवाऽऽङ्गि	तब्राउ. १३५३
स एको नाशकत्	मैउ. १६५४	स एनान्ब्रह्म ग	छाउ. ८६१	स एष एवाऽया	,, "
स एको बृहस्प	तैउ. ७२८	स एभ्य उपनी	गोब्रा. ५२४	स एष एवेन्द्रः	शब्रा. ११५
स एको ब्रह्मण	,, "	स एभ्योऽथर्वा प्र	शिखाउ. १६८२		
स एको मनुष्य	,, "	स एवंविरसर्वे	बृउ. १०६०		
स एको मानुष	,, "	स एवं विद्वान	ऐउ. ५९१		
स एतं त्रिवृतं	गोब्रा. ३०५	स एव काले भु	श्वेउ. १६०९		

स एष एवोक्थम्	तब्राउ.	१३५५
स एष कोशो व	छाउ.	८१३
स एष गिरिश्च	ऐउ.	५४१
स एष जीविना	छाउ.	९१८
स एष तत्त्वम्	कौउ.	६९१
*स एष त्रयै वि	,,	६४६
स एष त्रीष्टको	शब्रा.	११७
स एष नन्ति ने	वृउ.	११७६,
		११८९, १२४७, १२६४
स एष परोव	छाउ.	७६७
स एष पाङ्क्तो य	वृउ.	१०४२
स एष पार ए	तब्राउ.	१३३७
स एष पुत्री प्र	,,	१३४९
स एष पुरुषः	ऐउ.	५६१
स एष प्रजाप	जैब्रा.	२०२
स एष प्रहितो	ऐउ.	५३५
*स एष प्राण ए	कौउ.	६६६,
		६८०
		६७१
” ”	वृउ.	९९४
स एष प्राणल्ले	तब्राउ.	१३४२,
स एष प्राणो वा		१३६५
स एष ब्रह्मण	,,	१३६५
स एष ब्रह्मणः	ऐब्रा.	१५२
स एष भूतिश्चा	ऐउ.	५४२
स एष मृत्युः	शब्रा.	३२,
		४०८
स एष मृशुश्चै	ऐउ.	५४२
स एष यज्ञः प	,,	५६१
स एष यज्ञानां	,,	,,
स एष ये चामु	छाउ.	७६२
स एष ये चैत	,,	७६४
स एष रसानां	,,	७४८
स एष वशी दी	तब्राउ.	१३५०
स एष वाग्निष्टो	जैब्रा.	२०२
स एष वाचश्चि	ऐउ.	५६१
स एष वायुः प	,,	,,
स एष विमुक्त	कौउ.	६३५
स एष वैश्वान	प्रउ.	१४९२
स एष श्वित्रः	ताब्रा.	४०२
स एष संकल्पः	छाउ.	९३०
स एष संवत्स	ऐउ.	६१४;
	वृउ.	१०५५
स एष सप्तर	तब्राउ.	१३३७,
		१३३८

*स एष सर्वस्य	वृउ.	१२७४
स एष सर्वस्ये	”	”
स एष सर्वस्यै	कौउ.	६४६
स एष सर्वासो	शब्रा.	३७
स एष सर्वेभ्यः	छाउ.	७६१
स एष सर्वेषां	तब्राउ.	१३५०
स एष सर्वैः का	शब्रा.	३७
स एष सर्वैर्लो	तब्राउ.	१३३३
स एष ह्योकार	शिखाउ.	१६८२
स एष हृदः का	तब्राउ.	१३४८
स एषां यज्ञो अ	ऋसं.	१०१
स एषि सुधृत	असं.	१७१
स एषोऽकलोऽमृ	प्रउ.	१५१७
स एषोऽकामः स	शब्रा.	३७
स एषोऽक्षरसं	ऐउ.	६१२;
	कौउ.	६८८
स एषोऽग्निर्वैश्वा	शब्रा.	४२
स एषोऽग्निविधो	,,	४३
स एषोऽग्नेरिव	ऐउ.	६१७
स एषोऽधिदेव	तब्राउ.	१३४७
स एषोऽनन्तः	छाउ.	७६७
स एषोऽन्नं काम	जैब्रा.	४०२
स एषोऽपहत	,,	४०५;
	तब्राउ.	१३६७
स एषोऽप्पु प्रति	वृउ.	९९४
स एषोऽभ्रण्यति	तब्राउ.	१३३९
*स एषोऽमृतोऽक	प्रउ.	१५१७
स एषोऽश्माखणः	छाउ.	७५३
स एषोऽश्माऽऽखणो	तब्राउ.	१३४८,
		१३५०
स एषोऽश्वरथः	ऐउ.	५९८;
	कौउ.	६८४
स एषोऽष्टनामा	शब्रा.	१५१
स एषोऽसपत्नः	वृउ.	१०५४
स एषोऽसुः स ए	ऐउ.	५४२
स एषोऽहः संमा	,,	६१०;
	कौउ.	६८८
स एषोऽहरह	जैब्रा.	४०३
स ऐक्षत	ताब्रा.	२८५,
		२८६
स ऐक्षत क्तु	तब्राउ.	१३८६
स ऐक्षत प्रजा	शब्रा.	३००
स ऐक्षत यदि	वृउ.	९९७
*स ऐक्षत लोका	ऐउ.	५८०
स ऐक्षंत, हन्त	तब्राउ.	१३५९

स ऐक्षतेत्थं चे	तब्राउ.	१३३०,
		१३३२
स ऐच्छत्	ताब्रा.	२८५
स ऐत्कल्याणः	,,	४०२
स ऐलबेनाऽपु	तब्राउ.	१३४५
स ओमिति वा हो	छाउ.	९६८
*स ओमिति वाऽऽहो	,,	”
स ओमित्येतद	गोब्रा.	५२२
संकल्पज्जति दे	तैब्रा.	३३७
संकल्पनस्पर्श	श्वेउ.	१६१५
संकल्पमुपास्त्वे	छाउ.	९३०
संकल्पादेवास्य	,,	९५८,
		९५९
संकल्पादेवास्या	,,	९५९
संकल्पाद्वाव भू	,,	९३१
संकल्पो वाव म	,,	९३०
*संकल्पान्वै स लो	,,	९३१
संख्याता अस्य नि	असं.	८५
सं गच्छध्वं सं व	ऋसं.	४८०
संगच्छमाने यु	,,	१२२
सं गच्छस्व पि	,,	३५७;
	असं.	३८६
सं चक्षुर्मनसा	ऐशा.	५१९
सं जागृवद्भिर्ज	ऋसं.	१८
संजानानाः सं म	असं.	५०५
सं जानामहै मन	,,	४८१
*सं जानीध्वं सं पृ	,,	४८०
*संज्ञानं नः स्वैभिः	,,	”
	,,	५०६
संज्ञानं नः स्वैभ्यः ऋसंखि.		४८०;
	कासं.	४८२
* ” ”	{ ऋसंखि.	५०६
	कासं.	”
*संज्ञानं नः स्वैः सं	तैब्रा.	४८०,
		५०६
संज्ञानं नो दिवा	कासं.	४८२
संज्ञानं मे वृह	,,	”
संज्ञानं सविता	तैब्रा.	”
संज्ञानमश्विना	ऋसं.	४८०;
	तैब्रा.	४८२; असं.
		५०६
संज्ञानमाज्ञानं	ऐउ.	५९३
संज्ञानमिन्द्रश्चा	ऋसंखि.	४८०
संज्ञानमुशाना	,,	”
*संज्ञानमेवान्व	वृउ.	१२२४

संततं शिलाभि	नाउ.	१६४०	संवत्सरः सह	असं.	४२५	संसृष्टं धनमु	ऋसं.	३४४	
सं तद्विदे प्रति	जैब्रा.	४०५	संवत्सरः साम	तब्राउ.	१३६६	संस्तीर्थोपादीप	जैब्रा.	४०५	
संतस्थाने अज	ऋसं.	१९३	संवत्सरकृतं	ऋसंखि.	४८६	संस्थानाध्यायिनः	गोब्रा.	५२३	
संतापयति रवं	नाउ.	१६४०	संवत्सरमिति	तब्राउ.	१३६२	संस्थाश्च सर्वशः	तैब्रा.	४६३	
संतोषं द्वन्द्वति	मैउ.	१६६३	संवत्सरश्च य	मुउ.	१४५७	संस्पर्शोऽङ्गाराः	जैब्रा.	४०४	
सं त्वमग्रे दिव्ये	कासं.	२४	संवत्सरस्तृप्तो	शाआ.	४७२;	सं हास्मै कामाः प	शाआ.	३३१	
सं दक्षेण मन	ऋसं.	६९		कौउ.	६९१	सं हास्मै पद्यते	वृउ.	१२८७	
सं देव्या प्रमत्या	,	४८२	संवत्सरस्य सा	कौउ.	६८७	सं हि वानेनाऽऽग	असं.	४३५	
संदेहस्ते व्यशी	छाउ.	८७५	संवत्सरात्खत्वे	मैउ.	१६६१	सं हि सूर्येणाऽऽग	,	,	
संदेहस्त्वेष आ	,	,	संवत्सरादादि	छाउ.	८४०,	सं हि सोमनाऽऽग	,	,	
संधां च यां संद	तैआ.	३३२		८६१	सं हंवास्मै स का	शब्रा.	१५५		
संधीनां पञ्चेतः	कौउ.	६८८	संवत्सरेणेह	मैउ.	१६६१	*स कर्मणाऽतिग्र	वृउ.	११२३	
संधीयते प्रज	तैउ	६९४	संवत्सरे त्वेव	शब्रा.	२९७	स कर्मणाऽतिग्रा	,	,	
संध्यं तृतीयं स्व	वृउ.	११९७	संवत्सरेऽनुब्रू	,	,	सकलस्य वा ए	मैउ.	१६६०	
*सं नो महानि स	कासं	१८६	संवत्सरे प्रत्य	मैउ.	१६६१	सकल्पाः सरह	शब्रा.	४७१	
संपदे स्वाहित्य	शाआ.	३३१;	संवत्सरे वै त	शब्रा.	२९७	स कविः काव्या पु	ऋसं.	८३	
	छाउ.	८५४	संवत्सरे हि प्र	,	२९८	स क्रस्मा अङ्गि	तैब्रा.	२८९	
संपरेतोऽस्यात्मा	ऐउ.	६१६;	संवत्सरोऽग्निः पु	,	५१८	स करिभन्त्वेव इ	,	२६	
	कौउ.	६८८	संवत्सरोऽशुक्लि	असं.	४४८	स करिभन्प्रतिष्ठि	,	,	
संपश्यन् ब्रह्म प	कैउ.	१६७५	संवत्सरो भूत्वा	जैब्रा.	२०२	स काम कामेन	असं.	३४०	
संप्रति खलु न्वा	शब्रा.	३९	संवत्सरो वै प्र	प्रउ.	१४९३	*स कामेनातिप्र	वृउ.	११२३	
सं प्राणा वाचा	ऐआ.	५१९	संवत्सरोऽसावा	नाउ.	१६५१	स कामेनातिग्रा	,	,	
संप्राप्यैनमृष	मुउ.	१४८३	संवत्सरो ह त्वे	शब्रा.	३६	स कामेभ्यो नालं	ऐउ.	५६९	
संप्रियः पशुभिः	कासं.	२५	संवत्सरोऽसि पाप्मा	कौउ.	६४६	स कारणं कर	श्वेउ.	१६२०	
सं बाहुभ्यां धम	ऋसं.	१८४;	संवत्सरोऽसीति	वृउ.	१३०३	*स कारणं कार	,	,	
	श्वेउ.	१५९३	सं वचेसा पय	ताब्रा.	५१६	स किं म एतदु	छाउ.	८१६	
*सं बाहुभ्यां नम	तैसं.	१८४	सं विज्ञानेन म	,	,	स किं विद्वान् प्रवृ	जैब्रा.	४०४	
" "	शिउ.	१५७४;	संविदा देयम्	तैउ.	७०४	स किं वेत्थेति सा	तब्राउ.	१३६४	
सं बाहुभ्यां भर	नाउ.	१६३१	संविदाना दिवा	असं.	५१०	सकृन् तृतेव ह्ये	,	१३६३	
	असं.	१७१	संविदानात्मना	माउ.	१५२८	सः दुच्चारित	शिखाउ.	१६८२	
* " "	,	१८४	*संवेशनस्तन	तैब्रा.	३६१	सकृद्दिवा हैवा	छाउ.	७९९	
*सं बाहुभ्यामध	मैसं.	,	*संवेशनस्तनु	तैआ.	,	सकृद्दियुत्तेव	वृउ.	१०८५	
संभूतिं च विना	ईउ.	१३२४		,	४१५	सकृद्भिभातो ह्ये	छाउ.	९६४	
संभूतिरिति सा	तब्राउ.	१३५०	*संवेशनस्तन्वे	सासं.,	कासं.	३६१	सकृत्तुभिव तित	ऋसं.	४९०
संभूतीं रेतोऽस्य	,	१३४४	संवेशने तन्व	ऋसं.	,	स कर्तुं कुर्वीत	छाउ.	८०७	
संभूद्वोऽसि स	,	१३६१,	*संवेशने तन्वा	असं.	,	स क्षपः परि ष	ऋसं.	८२	
		१३६३	सं वो मनांसि जा	ऋसंखि.	४८१	स क्षियति विश्व	असं.	४४८	
संभूत्वादात्म	मैउ.	१६५५	सं वो मनांसि सं	असं.	,	स खलु पादाभ्या	गोब्रा.	३०४	
संमोहो भयं वि	,	१६५६	सं शांम्यति तन्नि	छाउ.	७८१	स खलु पृथिव्या	,	,	
संयुक्तमेतत्क्ष	श्वेउ.	१५८०	सं श्रुतेन गमे	असं.	५०३	स खलु प्राच्या ए	,	३०५	
संयोग एषां न	,	१५७५	सं श्रोत्रमात्मना	ऐआ.	५१९	स खलु ब्रह्मा सृ	,	५२२	
संवत्सर एव	तैआ.	१८१	संसमिद्युवसे	ऋसं.	४७९	स खल्वेवं वर्त	छाउ.	९८४	
संवत्सरं मज्ज्ञौ	छाउ.	७८३	संसर्पन्त्रीन् समु	कासं.	४००	स खल्वैवंविद्वा	तैआ.	४११	
संवत्सरः प्रज	तैआ.	२६६	संसिचो नाम ते	असं.	३१०	स गन्धर्वाप्सर	तब्राउ.	१३४६	
संवत्सरः प्रत्य	,	१८०							

स गर्भ्यभवत्	श्रा. २९५
स ग्रामाद् ग्रामं पृ	छा. ९२१
*स ग्रामाद्ग्रामान्त	” ”
स चन्द्रमसमा	बृ. १२७६;
	तब्रा. १३६३
स चन्द्रमा अभ	तब्रा. १३५३
स चन्द्रमाः	छा. ८०४
सचाश्च शिक्यः पुरो	ना. १६३५
स चातिसृजेज्जु	असं. ४५४
स चातुर्मास्यैरि	गो. ४७२
स चापि तत्प्रव	का. १३९३
स चेतसौम्य दुर	गो. ११८
*सच्च त्यं च	बृ. १०८२
सच्च त्यच्च	” ”
सच्च त्यच्चाभवत्	तै. ७२०
सच्चाऽसच्चाऽसच्च	तब्रा. १३८७
स च्छन्दोभिरात्मा	ऐ. ६२३
स छन्दोस्थेवाऽभि	तब्रा. १३५८
स छन्दोभिश्छन्नाः	ऐ. ५३७
स जघनादसु	तै. २८९
सजातशःसादु	” ४८७
सजाता अङ्गान्य	तब्रा. १३४४
स जातो अत्यरि	ऋसं. २३१
स जातो भूतान्य	ऐ. ५८६
स जातो यावदा	छा. ८६१
स जाय उपजा	कौ. ६३०
स जायमान ए	श्रा. ४२०
स जीवति याव	बृ. १२९७
सजोषा इन्द्र स	ना. १६३३
सगकारं ब्रवा	ऐ. ६२३
सगकारमेव	” ”
स तं मणिमवि	तै. २६५
स तत एव नि	तब्रा. १३८१
स तत एव स	कौ. ६७९
स तत्र तपसा	प्र. १५११
स तत्र परमे	मै. १६५३
स तत्र पर्येति	छा. ९७९
स तत्राजगाम	गो. ११८
स तथैव चिक्री	जै. ४०५
*स तद्गच्छति य	कौ. ६५३
स तद्ध सुदक्षि	तब्रा. १३५७
स तद्भवति य	कौ. ६५३
स तन्मयो ह्यमृ	श्वे. १६२५
स तपस्तप्त्वा	तै. १५९,
३०६; तै. ७२०, ७३५, ७३८	

*स तपस्तप्त्वा मि	प्र. १४९१
स तपस्तप्त्वा स	” ”
स तपस्तप्त्वेमौ	ऐ. २८२,
	५२१
स तपस्तप्त्वेक	तब्रा. १३५०
स तपोऽतप्यत	तै. १५९,
३०६; ऐ. २८२, ५२१;	
जै. २८६; तै. २८९,	
२९०; श्रा. २९२, २९३,	
२९५, ३२०, ३२१; तै.	
७२०, ७३५, ७३७, ७३८;	
बृ. ९९८; तब्रा. १३५०,	
१३५९; प्र. १४९१	
स तपो वा अभू	तब्रा. १३३२
स तया वाचा ते	बृ. ९९७
*स तया वाचा स्व	” १०१३
सतश्च योनिम	तै. २५८
स तस्मा एतत्सा	तब्रा. १३६४
स तस्मिन्नेवाऽऽका	” १३८१
स तस्मिन्ब्रह्मच	गो. ११८
स तस्मै नमः कृ	मै. १६५३
स तांस्त्रीलोकान	गो. ३०४
स तांस्त्रीन् देवान	” ”
स तांस्त्रीन् वेदान	” ”
सतां हि सत्यम्	ना. १६४९
स तान् पञ्च वेदा	गो. ३०५
स तु खलु मन्त्रा	” ५२२
स तु तपदमा	का. १४१३
स तूष्णीं मनसा	शा. २०४
स तूष्णीं रथमा	प्र. १५१४
स तृतीयमाद्	जै. ४०४
स तृप्तः प्राणं त	शा. ४७२;
	कौ. ६९०
स तृप्तः श्रोत्रं त	शा. ४७२;
	कौ. ६९१
स तृप्तश्चक्षुस्त	शा. ४७२;
	कौ. ६९०
स तृप्तस्तदेत	शा. ४७३;
	कौ. ६९१
स तृप्तो मनस्त	शा. ४७२;
	कौ. ६९०
स तृप्तो रेतस्त	शा. ४७२;
	कौ. ६९१
स तृप्तो वाचं त	शा. ४७२;
	कौ. ६९०

स तेजसि सूर्ये	प्र. १५११
स तेनैव संव	” ”
सतो बन्धुमस	तै. १५८,
३०५; ऋसं. २४१, २७६	
सतो ह्येष रसः	बृ. १०८३,
	१०८५
सत्त्वेव मोम्येद	छा. ८९०
सत्य इति	तै. २६;
	बृ. ११७५
सत्यं चर्तं च च	असं. ४३५
सत्यं च स्वाध्याय	तै. ७०२
सत्यं च ह्येनया	तब्रा. १३५०
सत्यं चानृतं च	तै. ७२०
सत्यं चैनया व	तब्रा. १३४८
सत्यं ज्ञानमन	तै. ७०६
सत्यं त्वेव विजि	छा. ९३९
सत्यं परम्	ना. १६४९
सत्यं वृद्धवृत्	असं. ५०६
सत्यं ब्रवीमि व	तै. ४७९
सत्यं ब्रह्म	बृ. १२७२
सत्यं ब्रह्मेत्युपा	तै. २६१
*सत्यं ब्रूयात्	कौ. ६३८
सत्यं भगवो वि	छा. १३९
सत्यं वद	तै. ७०४
सत्यं वदिष्यामि	ऐ. ५९६,
६२६; कौ. ६८३; तै. ६९३	
सत्यं वाचः प्रति	ना. १६५०
सत्यं वै चक्षुः	मै. १६५८
सत्यं वै तद्रस	ना. १६४४
सत्यं वै वाग्चा	ऐ. ५६७
सत्यं श्रद्धायामि	श्रा. ४६७
सत्यं संधानं	कौ. ६८६
सत्यं संहिता	” ६८४
सत्यं ह होतैषा	तै. ४६२
सत्यं हीन्द्रः	कौ. ६५६
सत्यं हंवाभ्योदि	ऐ. ५३५
सत्यं ह्येषा देव	तब्रा. १३३१
सत्यं होता	ता. ४६१
सत्यं ह्येव ब्रह्म	बृ. १२७१
सत्यकामो नाम	छा. ८३१
सत्यकामो ह जा	” ८३०
सत्यभूयमेव	बृ. १२७२
*सत्यम्	” ”
सत्यमया उ दे	शा. ३४७
सत्यमवादिषम्	तै. ७०६

सत्यमस्मि	जैत्रा.	४०५	स त्वं नो ब्रूहि	मैउ.	१६६७	स देवेभ्य आत्मा	शब्रा.	४६५
सत्यमहं गभी	असं.	८६	स त्वं नो ब्रूहीति	,,	१६५३	स देवो देवान्प्र	ऋसं.	१९२
सत्यमाज्यम्	शब्रा.	४६६	स त्वं प्रियाग्निप्रय	काउ.	१३९९	सद्मेव प्राचो वि	,,	५२
सत्यमापः	नाउ.	१६४३	*स त्वमग्निं स्वर्ग	,,	१३९२	सयः सो अस्य म	,,	५५
सत्यमायतनम्	तब्राउ.	१३८४	स त्वमग्निं स्वर्ग्य	,,	,,	*सयश्चकमाना	तैआ.	३४१
सत्यमिति ब्रूयात्	कौउ.	६६८	स त्वमङ्ग कषा	बृउ.	१३०६	,,	,,	४१२
सत्यमिति सत्य	तैउ.	७०२	स त्वां स्वर्ग्यं स्वर	जैब्रा.	४०३;	सद्यो जज्ञानो वि	ऋसं.	२३६
सत्यमिति होवा	बृउ.	११७१		तब्राउ.	१३५९	सद्यो जातं प्रप	नाउ.	१६४१
सत्यमिवावृतं	मैउ.	१६६७	सत्त्वादधि महा	काउ.	१४३५	सद्योजातमुत	तैआ.	३३२
सत्यमुत्तरः प	तैउ.	७१७	स त्वा पृच्छामि या	बृउ.	११२९	सद्वा आभिक्षा	मैसं.	४५९
सत्यमुषेव ह	तब्राउ.	१३३१	स त्वा यं प्रश्नम	गोब्रा.	११८	स द्वादश द्रप्सा	शब्रा.	२९५
सत्यमेव	बृउ.	१२७१	स त्वा युनक्तु	तैसं.	५१४	स द्वितीयमैच्छत्	बृउ.	१०१९
सत्यमेव जय	मुउ.	१४७८	स दक्षिणां दिश	गोब्रा.	३०३	स धाता स विध	असं.	१७४
सत्यमेव वदे	शब्रा.	१५१	स दर्शतथीर	ऋसं.	१८	स धाम पृथ्व्यं म	ऋसं.	८३
सत्ययज्ञः पौलु	शब्रा.	३८;	स दर्शपूर्णमा	गोब्रा.	४७२	स धारयत्पृथि	,,	५१
	तब्राउ.	१३६७	स दशधा भव	तब्राउ.	१३३७,	*सधीः स्वप्नो भूत्वे	बृउ.	११९२
सत्यश्रवा लौहि	तब्राउ.	१३६७			१३३८	सध्रीचीश्च ह्येष	ऐउ.	५३७;
सत्यसवं सवि	ऋसं.	९९	सदसस्पतिम	ऋसंखि.	५०१;	सध्रीमा यन्ति प	तब्राउ.	१३६६
सत्यस्य पन्था न	तब्राउ.	१३६३	सदसि	नाउ.	१६३१	स ध्रुवां दिशम	ऋसं.	४९
सत्यस्य सत्यम	ऐउ.	५७४	सदस्या ऋतवो	मैसं.	४५९	स न इन्द्रः काम	असं.	४५२
सत्यस्याऽऽत्मा विद्यु	कौउ.	६७८	सदस्येव वयं	तैब्रा.	४६२	स नः पर्षदति	तैआ.	२७१
*सत्यस्याऽऽस्मेति वा	,,	६७६	स दह्यते	कौउ.	६२८	स नः पिता जनि	नाउ.	१६३४
सत्यात्म प्राणारा	तैउ.	६९९	स दाधार पृथि	छाउ.	९२४	*स नः पूर्णेन य	असं.	१०७
सत्यान्तुतोपभो	मैउ.	१६६८		ऋसं.	१९४;	स नः पूर्णेन वाव	,,	१८२
सत्यान्न प्रमदि	तैउ.	७०४	स दिग्भिज्योतिषा	असं.	४२१	स नः पूषाविता	ऋसं.	,,
सत्ये अन्यः समा	असं.	१७०	सदिति प्राणः	छाउ.	८२०	स नः शर्म त्रिव	,,	९५
सत्ये ज्योतिषि जु	नाउ.	१६४३	*सदित्येकमक्ष	ऐउ.	५३५	स नः सुवः सश्चि	,,	८४
सत्येन न सुव	,,	१६४९	स दिशोऽनु व्यच	बृउ.	१२७२	स नः सूर्य प्र ति	नाउ.	१६३३
सत्येन ब्रह्म	गोब्रा.	११९	स दिशोऽन्वेक्षत	असं.	४५३	स नः स्तोमाञ्जम	असं.	१७२
सत्येन लभ्यस्त	मुउ.	१४७७	स दूरो ह नाम	गोब्रा.	३०५	*सनकः परमे	ऋसं.	९९
सत्येन वायुरा	नाउ.	१६५०	सदृशं त्रिगु लि	तब्राउ.	१३५२	सनगः परमे	बृउ.	१११४,
सत्येनादित्यो रो	,,	,,	सदेव सोम्येद	गोब्रा.	५२३			१२६६
सत्येनोत्तमिता	ऋसं.	४१९		छाउ.	८८७,	स न तिर्यङ्गत	,,	१११४,
सत्येनोदरेण	असं.	४४१	स देवानपिग	८९०; परि.	१५५६	स न दह्यते	तब्राउ.	१३४६
सत्येनोर्ध्वस्तप	,,	२५०	स देवानब्रवी	बृउ.	१०४६,	*स न साधुना	छाउ.	९२४
सत्ये प्रतिष्ठाय	,,	४४२	स देवानसृज	१०४७	१०४७	स न साधुना क	कौउ.	६७१
सत्ये सर्वं प्रति	नाउ.	१६५०	स देवानामधि	तब्राउ.	१३४६	स नाऽणु सान्नोऽन्वि	बृउ.	१२४७
सत्ये ह्येव दीक्षा	बृउ.	११७५	स देवानामीशां	तैसं.	१५७,	सनातनः सन	तब्राउ.	१३५८
स त्रयीं विद्याम	तब्राउ.	१३३६	स देवानान्तर्वाचु	२८२	२८२	सनातनमेन	बृउ.	१११४,
स त्रय्यामेव वि	शब्रा.	४९३	स देवानाभ्यवह	असं.	४५६			१२६६
स त्ना त्वं पुरुषु	ऋसं.	५७		,,	४५०	सना ता का चिद्भु	असं.	२५०
स त्ना विश्वा स्वप	,,	,,		,,	१७२,	सना ता का चिद्भु	ऋसं.	१९१
स त्रेणोभयतो	गोब्रा.	४७२		,,	१७३, २५०	सना पुराणम	,,	१२४
स त्रेधात्मानं व्य	बृउ.	९९४;		मैसं.	४५९			
स त्रेधात्मानं व्य	मैउ.	१६५८						

स नामरूपम्	तब्राउ. १३८६	सपत्ना वाचं म	तैब्रा. ३४८	सप्तविधेयं त	मैउ. १६६२
*स नाम्राऽतिग्रहे	वृउ. ११२२	स पद्भ्यामेव प्र	जैब्रा. २८६	सप्त वै देवलो	शाब्रा. ४०७
स नाम्राऽतिग्राहे	" "	स परमां दिश	असं. ४५३	सप्त वै विशतिः	कौउ. ६८७
स नारमत	मैउ. १६५४	स परमेष्ठी प्र	शावा. ३०१	सप्त शीर्षण्याः प्रा	तब्राउ. १३५१
स नारमतैकः	" "	स परमेष्ठी ब्र	नाउ. १६५१	सप्त सत्रेण वे	असं. ५०८
सनाहः सनाह	वृउ. १११४,	स परेऽक्षर आ	प्रउ. १५०८	सप्त सुपर्णाः क	" १६२
	१२६६	स पर्जन्यः	छाउ. ८०५	सप्त सूर्यो हरि	" १७१
स नार्वाहत्पत्	तब्राउ. १३४६	स पर्यगाच्छुक्र	ईउ. १३१९	सप्त स्वसारो अ	ऋसं. २०७
सर्नि मेधामया	ऋसंखि. ५०१;	स पशुबन्धने	गोब्रा. ४७२	सप्त हस्तास इ	कब्रा. १२
	नाउ. १६३१	स पारिषत्कतु	ऋसं. ४५	सप्त हस्तासो अ	गोब्रा. "
स निरुक्तः	तब्राउ. १३६५	स पुत्रः प्रत्याहा	वृउ. १०५८	सप्त हि शीर्षण्याः	तब्राउ. १३५१
सनेमि चक्रम	ऋसं. २११	स पुत्रेणैवारिम	" "	सप्त हीमे शीर्ष	" "
*स नैव रेमे	वृउ. १०१९	स पुनरपानि	शाब्रा. ४६५	सप्त हैवाऽस्याऽऽजा	" "
स नैव व्यभवत्	" १०३७,	स पुरस्ताद्वाति	तब्राउ. १३३०	सप्त होता सप्त	तैआ. २७०
	१०३८	स पुरुषमेधे	गोब्रा. ४७२	सप्त होत्रा अनु	तैसं. २४
स नैषु लोकेषु	तब्राउ. १३३२	स पुरुषमेव	तब्राउ. १३८६	*सप्त होत्राः सप्त	" "
स नो जुषाण उ	तैब्रा. ३३७	स पुरुषोऽभवत्	शावा. ३४७	सप्त होमाः सभि	असं. १६२
स नोत्तस्थौ	वृउ. १०७१	स पुरोवातमे	तब्राउ. १३३३	सप्त ह्येत आदि	तब्राउ. १३३८
*स नो ददातु द्र	तैब्रा. २००	स पूर्णः खलु वा	मैउ. १६५३	सप्त ह्येते सिन्ध	" "
स नो ददातु श्र	मैसं. "	स पृथिवीमध	तैब्रा. २८६	सप्ताज्यानि परि	असं. १६३
स नो देवः सवि	ऋसं. ९६	सप्त इमे लोका	मुउ. १४५८;	सप्तापः स्वपतो	शुसं. ३१५
स नो देवेष्वाय	तैआ. ४१५		नाउ. १६३५	सप्तार्धगर्भा भु	ऋसं. २२१
*स नो नेदिष्ठं ह	कासं. १८५	*सप्त इह लोका	मुउ. १४५८	सप्तार्थासन्परि	" २३३
*स नो नेदिष्ठा ह	तैसं. "	*सप्त ऋत्विजः स	कासं. २५	स प्रजननादे	तैब्रा. २८९
स नो बन्धुर्जनि	शुसं. २५७;	सप्त ऋषयः प्र	शुसं. ३१५	स प्रजया अनु	असं. ४५५
	नाउ. १६३१	सप्तकृत्व उद्गा	तब्राउ. १३६५	*स प्रजानन्प्रति	तैआ. ३७४
*स नो ब्रुहि याज्ञ	वृउ. ११८५	सप्त चक्रान् वह	असं. १७६	स प्रजापतिं पि	शाब्रा. १५०
स नो भवः परि	असं. १२९	सप्त च वै शता	ऐउ. ६१०	स प्रजापतिः	शाब्रा. २९८,
स नो मयोभूः पि	तब्राउ. १३६८	सप्त च्छन्दांसि च	असं. १६२		३०१
स नो मृड पशु	असं. १३०	सप्त ते अग्ने स	तैसं. २४	स प्रजापतिः पु	तैसं. १५७,
स नो मृत्योन्नाय	नाउ. १६४५	सप्त त्वा हरितो	असं. १७१		२८१
स नोर्ध्वोऽतपत्	तब्राउ. १३४६	सप्तदशस्ते अ	कासं. २५	स प्रजापतिः सु	असं. ४५०
स नो विश्वानि ह	ऋसं. १८५	सप्तधा नवधा	छाउ. ९५०	स प्रजापतिरि	शाब्रा. ३०१
सन्तमेनं ततो	तैउ. ७२०	सप्तपुरुषो ह्य	शाब्रा. २९२	स प्रजापतिरे	तैआ. १५८,
सन्ध्यक्षरमव	गोब्रा. ५२३	सप्त प्राणाः प्रभ	मुउ. १४५८;		३०५
सन्नुच्छिष्टे असं	असं. ४४४		नाउ. १६३५	स प्रजापतिर्म	शाब्रा. ३३८
सन्मूलाः सोम्येमाः	छाउ. ९०७,	सप्त प्राणाः सप्ता	असं. ४५५	स प्रजापतिर्ह	तब्राउ. १३३६
	९०९	सप्तभिः पुत्रैर	ऋसं. २७६	स प्रजापतिर्हि	शाब्रा. १५०
स न्यवर्तत	गोब्रा. ३०३,	सप्तमं मे नाम	शाब्रा. १५१	स प्रजापतिलो	कौउ. ६३२
	३०४	सप्त मर्यादाः क	ऋसं. ४८३	स प्रजाभ्यो वि प	असं. १७४
स पचामि स द	असं. ३७६	सप्त युञ्जन्ति र	असं. १७३;	स प्रणीतः प्राता	ऐउ. ५३५
स पञ्चधाऽऽत्मानं	मैउ. १६५४	ऋसं. २०७; तैआ.	२७१	स प्रतिष्ठां नावि	तैसं. १५७,
स पत्नीत्वरं	ऋसं. १००	सप्तर्षिभिः प्राणा	असं. ४४०		२८१
स पत्त एव प्र	ताब्रा. २८४	सप्तविंशतिः स	शाब्रा. ३४	स प्रतीचौ दिश	गोब्रा. ३०४
स पत्नहनृत्	असं. ३३९			स प्रत्यङ् विश्वा भु	ऋसं. १०३

स प्ररिक्त्वा त्वक्ष	ऋसं.	४५	स भगवः कस्मि	छाउ.	९४४	समस्तसाक्षि स	कैउ.	१६७६
स प्राचीनान्पर्व	"	५२	स भरण्डकेष्णे	तब्राउ.	१३४६	समस्तस्य खलु	छाउ.	७७३
स प्राणः	कौउ.	६३६	स भाणकरोत्	वृउ.	९९५	समहं मनसा	ऐआ.	५१९
स प्राणमसृज	प्रउ.	१५१६	*स भाणमकरोत्	"	"	समहं वाचा	"	"
स प्राणमेवाऽभि	तब्राउ.	१३५८	सभामेति कित	ऋसं.	४८४	समहं विश्वैर्दे	मैसं.	४५९
स प्राणश्चक्षुर	शब्रा.	३२०	सभायाश्च वै स	असं.	४५३	समहमात्मना	ऐआ.	५१९
स प्राणस्यात्मा	"	२६१	स भारद्वाजाय	मुउ.	१४४३	स महात्मा देवः	तब्राउ.	१३५५
स प्राणेन देवा	तब्राउ.	१३५२	स भूतानामधि	ऐउ.	५७१	स महिमा सद्गु	असं.	४५३
स प्राणेभ्य एवा	शब्रा.	२९७	स भूतो भव्यं भ	असं.	३२६	स मां राजेशानो	वृउ.	१३०३
स प्राणोऽभवत्	"	३०१	स भूमि विश्वतो	ऋसं.	२३०;	समाः सहस्रं स	तब्राउ.	१३४७
स प्राणो भवति	छाउ.	९०२		श्वेउ.	१५९७	समागमस्तयो	मैउ.	१६६८
स प्राणो वा अया	तब्राउ.	१३५२	*स भूमि सर्वतः	वृसं.	२३०	समागादितो	ऐउ.	५३५
स प्रामूच्छत्	शब्रा.	३२०,	*स भूमि सर्वतो	सासं.	"	स मा जयैष्टयं श्रैष्टयं	छाउ.	८५४
		३२१	स भूय एवेन्ध	श्वेउ.	१५८४	स मातरा विच	ऋसं.	६३
स प्रीतः प्रीणानु	मैउ.	१६५९	स भूयोऽश्राम्यत्	गोब्रा.	३०३,	स माता पूर्व्य प	"	८३
सबलां सप्राणां	ऐउ.	६२३			३०५	स मातुर्योना प	"	२२०
स बाहुभ्यामेवो	जैब्रा.	२८६	स भूयोऽश्राम्यद्भू	"	३०४	समाधिनिधांत	मैउ.	१६६५
स बिभर्ति पित	असं.	३९७	स भूरिति व्याह	शब्रा.	२९८	समान इति	वृउ.	११७६
*स बुध्नादाष्ट ज	तैसं.	१९९	स भूरित्येवर्गे	तब्राउ.	१३३०	समान उ एवा	छाउ.	७५५
*स बुध्निया उप	"	१९७	स भृगुं सष्ट्वाऽन्त	गोब्रा.	३०३	*समानं केतो अ	तैब्रा.	४८०
"	तैब्रा.	२५८;	स भृगुः सष्टः प्रा	"	"	*समानं क्रतुम	मैसं.	"
शिवः १५७४;	नाउ.	१६३२	स भृतो भ्रियसा	तैआ.	३३२	समानं चिद्वथ	ऋसं.	४६
स बुध्न्या उपमा	असं.	१९७	स भोर् इति प्रति	वृउ.	१२९०	समानं मन्त्रम	"	४८०
स बुध्न्यादाष्ट ज	"	१९९	स म आत्मेति	कौउ.	६७२	समानं ह्यत्र पि	कौउ.	६८४
स वृहतीं दिश	"	४५३	समं तद्विदे प्र	जैब्रा.	४०३	समानं ह्येतद्ग	ऐउ.	५९७
स वृहस्पतिः स	शब्रा.	२०३	समं धीर आत्म	शब्रा.	४६९	समानजन्मा क्र	असं.	१६२
स ब्रह्मचर्यम	गोब्रा.	५२२	(स) समः पृथिव्या	तब्राउ.	१३४३	समानमग्निमि	"	१७०
स ब्रह्मणः पर ए	मैउ.	१६५६	समकल्पन्ताऽऽप	छाउ.	९३०	समानमग्नेना	नाउ.	१६४९
स ब्रह्म त्यदित्या	वृउ.	११६९	समकल्पतां वा	"	"	समानमर्थं प	असं.	४५६;
स ब्रह्मलोकम्	कौउ.	६३२	समकल्पतां वा	"	"		तैब्रा.	४७८
*स ब्रह्मलोकमा	वृउ.	१२७६	समचीकल्पमि	शब्रा.	३४७	समानमशीत	ऐउ.	५३०
स ब्रह्मविद्यां स	मुउ.	१४४२	समज्ञानो धाम	मैसं.	१८२	समानमस्तु वो	ऋसं.	४८०
स ब्रह्म स शिवः	नाउ.	१६४०	स मध्यत एव	तैब्रा.	२८४	समानमस्मिन्को	असं.	२४५
स ब्रह्मा प्राङ् उदे	तब्राउ.	१३६०	स मन एव हि	तब्राउ.	१३३४	समानमा सांजी	वृउ.	१३११
स ब्रह्मालङ्कारे	कौउ.	६३४	स मनस एत्र	गोब्रा.	३०५	समानमिन्मे क	ऋसं.	७९
स ब्रह्मा समम	साब्रा.	२०४	स मनसा ध्याये	"	"	समानमेतदु	"	२२९
स ब्रह्मा स शिवः	कैउ.	१६७४	स मनसा वाचं	शब्रा.	२९५;	*समानमेव त	गोब्रा.	४६०
*स ब्रह्मेति विज्ञे	कौउ.	६३८		वृउ.	९९५	समानश्च भव	माउ.	१५२८
स ब्रह्मेति स वि	"	"	स मनसैव वा	शब्रा.	२९५	स मानसीन आ	तैआ.	२६६,
स ब्राह्मणः केन	वृउ.	११३६	स मनोरूपम	तब्राउ.	१३८६			२६७
स ब्रूयात्	छाउ.	९५४,	समभूत्	तैआ.	१५९,	समानस्तृप्यति	छाउ.	८८१
		९५५			३०६	समानाय स्वाहा	नाउ.	१६४८
स ब्रूयादपश्यो	तब्राउ.	१३३१	समभ्रेण वस	ऋसं.	७८	*समाना व आकू	कासं.	४८०
स ब्रूयादर्धभा	"	१३६०	समर्धयिता ह	छाउ.	७४९	*समाना वा आकू	मैसं.	"
स ब्रूयाद्यद्वाचा	"	१३५६	समविद्यचुह	ऋसं.	३६१			

समानी व आकू	ऋसं.	४८०
समाने तृप्यति	छाउ.	८८१
*समानेन वो ह	असं.	४८०
समाने वृक्षे पु	मुउ.	१४७०;
	श्वउ.	१६०५
समाने वै तत्प	ऐउ.	५९७
समानो अध्वा प्र	ऋसं.	४९
समानो मन्त्रः स	,	४८०
समा नौ बन्धुर्व	असं.	८६
समान्या वियुते	ऋसं.	१२४
समासाऽथर्वशि	शिखाउ.	१६८३
समाप्तिः कर्मास्य	तब्राउ.	१३४४
स मा भग प्रवि	तैउ.	६९५
स मा यं प्रश्नम	गोब्रा.	११८
स माया अर्चिना	ऋसं.	८३
*स मा राजेशानो	वृउ.	१३०३
समारूढः प्रह	तैआ.	१८०
समाववर्ति पृ	कासं.	२५
*समावृत्तपृथि	मैसं.	,
स मा वृषभो लो	तैआ.	५२०
समासकं यथा	मैउ.	१६६४
स मा सर्वैरत्वि	छाउ.	७६९
समित्सत्यम्	शाआ.	४७३;
	कौउ.	६९१
समित्समित्	वृउ.	१२९७
समिद्धो अग्निः स	असं.	१६९
समिधः सोम्याऽऽह	छाउ.	८३१
समिन्द्र राया स	ऋसं.	४८२
समिन्द्रेरय गा	,	३६५
समीचो मनुष्या	तब्राउ.	१३६३
स मुखत एव	ताब्रा.	२८३
स मुखतस्त्रि	तैसं.	२८१
स मुखाच्च योने	वृउ.	१०२०
स मुखाद्देवान	तैब्रा.	२९०
स मुच्युरभवत्	गोब्रा.	३०४
समुद्र इत्याच	शब्रा.	४७१
समुद्र इत्येवं	प्रउ.	१५१७
समुद्र एवास्य	वृउ.	९९०
समुद्रः कला	छाउ.	८३२
समुद्रश्च मध्यं	शिउ.	१५७३
समुद्रस्तृप्तो य	शाआ.	४७२;
	कौउ.	६९१
समुद्रादर्णवा	ऋसं.	२७९;
	नाउ.	१६३३

समुद्रादूर्मिर्म	नाउ.	१६३६	
समुद्रे अन्तः क	ऋसं.	१०५;	
तैआ.	२७२;	तब्राउ.	१३६५,
			१३६६
समुद्रेण वस्ति	असं.	४४१	
समुद्रे ते हृद	तैसं.	२३	
समुद्रो निधनम्	छाउ.	७७६,	
		७८३	
समुद्रो यस्य ना	असं.	२४७	
समु विश्वमिदं	कासं.	२५	
समूळहमस्य पां	ऋसं.	८७	
समूलो वा एष	प्रउ.	१५१४	
समूह तेजो य	वृउ.	१२८४	
स मृत्युपाशान्पु	काउ.	१३९४	
स मृदमसृज	शब्रा.	२९६	
समृद्धिं तत्र जा	छाउ.	८५५	
समृद्धिरोज आ	असं.	४४८	
समेतं साम प्र	तब्राउ.	१३४४	
स मे त्वयि तन्मे	,	१३६२	
स मेने न वदि	वृउ.	११८९	
*समेनेन वदि	,	,	
स मेन्द्रो मेधया	तैउ.	६९५	
स मे मा क्षेष्ट स्व	असं.	३७१	
स मेऽशरीरेण	तब्राउ.	१३६४	
समे शुचौ शर्क	श्वेउ.	१५८८	
स मोदते मोद	काउ.	१४०३	
समौ चिद्धस्तौ न	ऋसं.	४७७	
सम्यङ् त्वमसि	तब्राउ.	१३६३	
सम्यङ्च तन्तुं प्र	असं.	१७३	
*सम्यङ्चि हास्मिन्	वृउ.	१२७९	
सम्यङ्चि हास्मै स	,	,	
सम्राडापः	नाउ.	१६४३	
स य आकाशं व्र	छाउ.	९३६	
स य आत्मानमे	वृउ.	१०२०,	
		१०३९	
स य आशां ब्रह्मे	छाउ.	९३७	
स य इच्छेत्पुत्रो	वृउ.	१३०७	
स य इच्छेत्सर्वा	गोब्रा.	३०५	
स य इच्छेत्सर्वै	,	३०४,	
		३०५	
स य इदमवि	छाउ.	८८१	
स य इमांऽस्त्रील्लो	वृउ.	१२८३	
स य उद्गातारं	तब्राउ.	१३४८	
स य एतदन्न	तैउ.	७३९	

स य एतदुपा	वृउ.	१०४७
स य एतदुचा	तब्राउ.	१३३४
स य एतदेवं	जैब्रा.	२८६;
	छाउ.	७५८, ७७४;
		१३३२, १३४३, १३८३
स य एतदेव	छाउ.	७९६,
		७९७
स य एतद्वाया	तब्राउ.	१३४५
स य एतमेवं	छाउ.	७६७,
		८१३, ८२२, ८३२, ८३३,
		८३७
स य एतमेव	वृउ.	१०६७,
		१०६८, १०६९, १०७०
स य एतानि स	शब्रा.	४२१
स य एतानेवं	छाउ.	८०५
स य एनं तत्र	तब्राउ.	१३३१
स य एनं निर्भुं	कौउ.	६८५
स य एनं प्राणं	ऐउ.	६०२;
	कौउ.	६८५
स य एनमृच्छा	तब्राउ.	१३५३
स य एवंवित्	तैउ.	७२८,
		७४०
*स य एवंवित्स	वृउ.	१०६०
स य एवं विदु	असं.	४४३,
		४५४
स य एवं विद्वा	शब्रा.	४०९;
	असं.	४७३, ४७४; तैउ.
		७३२;
	तब्राउ.	१३३०, १३३३, १३५२
स य एवं वेद	तैउ.	७३८
स य एवमेतं	ऐउ.	६१४;
	कौउ.	६८७; तब्राउ.
		१३५०, १३६५
स य एवमेत	ऐउ.	५७१,
		६१०, ६१२; कौउ.
		६८८;
	छाउ.	७८१, ७८२, ७८३,
		७८४; तब्राउ.
		१३३५, १३३८,
		१३४०, १३४७, १३५०,
		१३५४, १३५५, १३८६,
		१३८७
स य एवमेतां	जैब्रा.	३२८;
	ऐउ.	५९८, ६००, ६०३,
		६०४, ६०६, ६०७, ६०८;
	कौउ.	६८४, ६८५, ६८६,
		६८७, ६८९
स य एवमेताः	छाउ.	७८३

स य एवमेता	कौड. ६८६;	स यत्करणीयं	ऐड. ६१६;	स यथा दुन्दुभे	वृड. १०९५,
छाड. ७८३ ; तब्राड. १३५०			कौड. ६८८		१२६१
स य एवमेते	तब्राड. १३८७	स यत्कुमारं ज	ऐड. ५९०	स यथाऽद्विरापः	तब्राड १३३१
स यं एवममु	,, १३३२	स यत्तत्र किंचि	वृड. १२०३,	स यथा नवै पा	शब्रा. २९८
स य एवं वे	,, १३५१		१२०४	स यथा पक्ष्यबि	तब्राड. १३५९
स य एष संव	कौड. ६८७	स यत्ते ऋचि गा	तब्राड. १३३४	स यथा पुरुष	,, १३६०
स य एषोऽणिमै	छाड. ९१३,	स यत्पशूननु	असं. ४५५	स यथा प्रयोग्य	छाड. ९७९
९१७, ९१९,	९२०, ९२१,	स यत्पिनूननु	,, "	स यथा प्रोक्तेऽश	तब्राड. १३५४
	९२३	स यत्पूर्वोऽस्मात्स	वृड. १०१६	स यथा मधुधा	,, १३३६
स य एषोऽन्तर्ह	तैड. ६९९	स यत्प्रतीचीं दि	असं. ४५५	स यथा मधुना	जैब्रा. ५२२
स य ओदनस्य	असं. ४३७	स यत्प्राचीं दिश	,, ४५४	स यथा मध्वालो	तब्राड. १३३६
स यं तमसुरा	शब्रा. ४६४	स यत्प्राणो गृत्सो	ऐड. ५४५	स यथा महान	शाआ. ३२२
स यं मनस आ	,, ३०२	स यत्त्र चन्द्रस्त	तब्राड. १३८७	स यथा महान् वृ	,, "
स यं ह र्मैषां ब्र	,, ४६४	स यत्त्र पुरुष	,, "	स यथा महारा	वृड. १०७४
स यः कश्च पश्य	तब्राड. १३३८	स यत्त्र प्रस्तुया	वृड. १०१४	स यथाऽऽर्द्धधामे	,, १०९६,
स यः कश्च प्राणि	,, "	*स यत्त्र प्रस्तुया	,, "		१२६१
स य कश्च मनु	,, १३३७	स यत्त्र प्रस्वपि	,, ११९७	स यथा वीणाथै	,, १०९६,
स यः कश्च वद	,, "	स यत्त्र मनस्त	तब्राड. १३८७		१२६१
स यः कश्च ज्ञणो	,, १३३८	स यत्त्र यज्ञस्त	,, "	स यथा वृक्षमा	तब्राड. १३३०
स यः कश्चाश्नात्ये	,, "	स यत्त्र वरुण	,, "	स यथा शकुनिः	छाड. ९०६
स यः कश्चाऽसुमा	,, "	स यत्त्र वायुस्त	,, "	स यथा शङ्खस्य	वृड. १०९६,
*स यः कामयते	वृड. १३०१	स यत्त्र स्तनथि	,, "		१२६१
स यः कामयेत	,, "	स यत्त्र स्वपिति	,, १३५५	स यथाऽऽमानमा	तब्राड. १३३२,
स यः प्राणस्तत्सा	तब्राड. १३३७	स यत्त्र ह वा अ	,, १३५७		१३४८, १३५०
स यः स आकाश	,, १३३६,	स यत्त्राग्निस्तत्पृ	,, १३८७	स यथाऽऽमानमृ	वृड. १००४;
१३३७, १३३८, १३३९		स यत्त्रादित्यस्त	,, "	तब्राड. १३४८, १३५०	
स यः स आकाशो	,, १३३६	*स यत्त्रायं प्रस्व	वृड. ११९७	स यथा श्रेयस	तब्राड. १३४६
स यः स इन्द्र ए	,, १३३७,	*स यत्त्रायं शारी	,, १२२३	स यथा श्रेयसा	,, १३५८
	१३३९	स यत्त्रायमणि	,, १२२१	स यथा श्रेयसे	शब्रा. ४६६
स यः स इन्द्रः सा	,, १३३८	स यत्त्रायमात्मा	,, १२२३	स यथा सर्वासां	वृड. १०९७
स यः संकर्षं ब्र	छाड. ९३१	*स यत्त्रैतत्स्वप्न	,, १०७४	स यथा सर्वासां	,, १२६१
स यः सत्यं वद	शब्रा. ४१९	स यत्त्रैतत्स्वप्य	,, "	स यथाऽसावमी	तब्राड. १३३६
स यः स पाप्मा य	वृड. १००३,	स यत्त्रैष चाक्षु	,, १२२३	स यथा सैन्धव	वृड. १०९८,
	१००४	स यत्त्रोपाकृते	छाड. ८४७		१२६३
स यः स पुरुषः	शब्रा. २९२	स यत्सर्वे नेति	ऐड. ५६९	स यथा सोम्य व	प्रड. १५०८
स यः स प्राणो वा	तब्राड. १३३८	स यत्सर्वमो कु	,, "	स यथा स्थाणुम	तब्राड. १३५९
स यः स रस आ	,, १३३६	स यत्सर्वानन्त	असं. ४५५	स यथा हत्वा प्र	,, १३५३
स यः स्मरं ब्रह्म	छाड. ९३६	स यत्सायमाहु	जैब्रा. ४०३	स यथाऽहिस्त्वचो	शब्रा. ४६६
स यजुषां लोकः	नाड. १६४०	स यथाकामो भ	वृड. १२२९	*स यथा हि हन	छाड. ९२१
स यजुषा मण्ड	,, "	स यथा कुमारो	,, १०७६	स यथा हैवम	शब्रा. ३०२
स यजूं व्येव हि	तब्राड. १३३४	स यथाऽण्डं प्रथ	तब्राड. १३५९	स यथेन्द्रो न कं	तब्राड. १३३८,
स यजुहोति यः	जैब्रा. ४०३	स यथाऽण्डं विदि	,, "		१३४३, १३६६
स यजुहोति य	वृड. १०४१	*स यथा तत्र न	छाड. ९२४	स यथेमा नद्यः	प्रड. १५१७
स यज्ञः प्रथमो	असं. १७०	स यथा तत्र ना	,, "	स यथैकपाद्म	छाड. ८४७
स यज्ञस्तस्य य	,, १७५	स यथा तत्र प्रा	,, ९२१		

स यथैषां प्राणा	वृउ.	१०६३
स यथोच्छ्रायं प्र	तब्राउ.	१३३१
स यथोभयाप	छाउ.	८४७
स यथोभयाप	तब्राउ.	१३७२
स यथोर्णवाभि	वृउ.	१०७७
*स यथोर्णवाभि	"	"
*स यदत्र किंचि	"	१२०४, १२१९
स यदनुदितः	तब्राउ.	१३३३
स यदवोचं प्रा	छाउ.	८१३
स यदशिक्षिष	"	८१६
स यदस्माल्लोका	जैब्रा.	४०३
स यदस्मै देवा	शब्रा.	२९९
स यदस्य सर्व	"	२९३
स यदहं न स्यां	तब्राउ.	१३७१
स यदाजायते	"	१३५९
स यदा तेजसा	प्रउ.	१५०७
स यदादित्योऽस्त	तब्राउ.	१३५४
स यदा प्रतिबु	कौउ.	६६६, ६६७, ६८०
*स यदा प्रैष्यन्म	वृउ.	१०५८
स यदा बली भ	छाउ.	९३३
स यदा मनसा	"	९२९
स यदा मृत्युम	वृउ.	१००८
स यदा विजज्ञे	कौउ.	६८२
स यदा वै म्रिय	तब्राउ.	१३३१
स यदाऽस्माच्छरी	कौउ.	६६७
स यदा स्वपिति	शब्रा.	११६;
	छाउ.	८२८
स यदाहासतो	वृउ.	१०१४
स यदि कामये	तब्राउ.	१३६३
स यदि तत्साम	"	१३६४
स यदि तस्य क	छाउ.	९२४
स यदिदं सर्व	ऐउ.	५४४, ५४५
स यदिदं सर्व	"	५४७
स यदि परेण	"	६०६;
	कौउ.	६८६
स यदि पितरं	छाउ.	९३८
स यदि पितृलो	"	९५८
स यदि प्राणं वं	कौउ.	६८५
स यदि ब्रूयाच्च	तब्राउ.	१३५१
स यदि ब्रूयात्त्री	"	"
स यदि ब्रूयात्प	"	"
स यदि ब्रूयात् ष	"	"

स यदि ब्रूयात्स	तब्राउ.	१३५१
स यदि ब्रूयादे	"	"
स यदि ब्रूयाद्	"	"
स यदि ब्रूयाद्द्वौ	"	"
स यदि ब्रूयान्न	"	"
स यदिमानि स	ऐउ.	५४७
स यदि यज्ञ ऋ	तब्राउ.	१३६०
स यदि विचिकि	ऐउ.	६२३
स यदि स्त्रियं प	शाआ.	३३२;
	छाउ.	८५५
स यदि ह वा अ	ऐउ.	५३५
स यदुदीचीं दि	असं.	४५५
स यदूर्धा दिश	"	"
स यदेते देव	तैब्रा.	२९
स यदेभ्यः सर्वे	ऐउ.	५४७
स यदेव चक्षु	तब्राउ.	१३४९, १३५२
स यदेव प्राणे	"	१३४९, १३५३
स यदेव मन	"	१३४९, १३५२
स यदेव यजे	शब्रा.	४२०
स यदेवशाऽप्रे	तब्राउ.	१३४७
स यदेव वाचा	"	१३४९, १३५२
स यदेव विद्यु	"	१३३७
स यदेव श्रोत्रे	"	१३४९, १३५३
स यदेवाऽपाने	"	१३४९
स यदेवैविद	शब्रा.	११८, ३३०, ४०८; वृउ.
		१०५८
स यदेव ते ब्र	शब्रा.	३०२
स यदेव इन्द्र	तब्राउ.	१३४३, १३६६
स यदोत्क्रमिष्य	वृउ.	१२७३, १२७६; मैउ.
		१६५५
स यदोत्क्रामति	शब्रा.	११६
स यदोपतापी	जैब्रा.	४०४
स यदोपहन्य	शब्रा.	२९६
स यदोमिति सो	तब्राउ.	१३३०
स यदोमित्याद्	जैब्रा.	५२२
स यदृक्षिणां दि	असं.	४५५
स यद्वाननु	"	"
स यद्द किञ्च कि	तब्राउ.	१३३९

स यद्द वा एन	तब्राउ.	१३५७, १३५८
स यद्द सोऽपि स्तु	"	१३६०
स यद्विद्धरोत्य	"	१३४९
स यदुनोति त	जैब्रा.	४०५
स यद्वैनचक्षु	ऐउ.	५८४
स यद्वैनच्छिन्ने	"	५८२
स यद्वैनच्छोत्रे	"	५८५
स यद्वैनत्त्वचा	"	"
स यद्वैनत् प्राणे	"	५८४
स यद्वैनन्मन	"	५८५
स यद्वैनद्वाचा	"	५८४
स यद्दधुवां दिश	असं.	४५५
स यद्यगदः स्था	कौउ.	६५५
स यद्यदेवास्तु	वृउ.	९९७
स यद्यनेन किं	"	१०५८
स यद्येकमात्र	प्रउ.	१५११
स यद्येतेषां किं	ऐउ.	६१७
स यद्येनमेत	तब्राउ.	१३६८
स यद्वेष्माणं ज	"	१३३०
स यद्वाचा पूर्वा	जैब्रा.	४०३
स यद्व्रतमुपै	शब्रा.	४६६
स यज्ञ स्थाममु	तब्राउ.	१३७१
स यन्नु नः सर्वा	"	"
स यन्मनुष्यान	असं.	४५५
स यमः कस्मिन्प्र	वृउ.	११७४
स यमेव लोक	तब्राउ.	१३५२
स यश्चायं पुरु	तैउ.	७२८, ७४०
स यश्चायमश	ऐउ.	६१३, ६१६; कौउ.
		६८८
स यश्चत्तं ब्रह्मे	छाउ.	९३२
स यस्तं न विद्या	"	७९०
स यस्तां देवतां	तब्राउ.	१३५७
स यस्तान्पुरुषा	वृउ.	११७७
स यस्तेजो ब्रह्म	छाउ.	९३५
स यस्मा अन्वाह	वृउ.	१२८२
स यस्माल्लोकादे	जैब्रा.	४०३
स यस्य कस्य च	शब्रा.	३०२
स यां प्रथमामा	छाउ.	८००
स यां ह कां चैवं	तब्राउ.	१३४५
स यां ह वै त्रयथा	"	१३६१
स यामिच्छेत्काम	वृउ.	१३०६
स यामेचामूसा	"	१२८२

स यावतीयं त्र	बृज.	१२८१	स यो विज्ञानं त्र	छाज.	१३३	स राजसूयेने	गोब्रा.	४७२
स यावत्क्षिप्येनम	छाज.	१६८	स यो वै त्रयीं वि	तैब्रा.	२८६;	*स रात्रिभिरिव	बृज.	१०५५
स यावदप्येते	बृज.	१०४२		तब्राज.	१३६०	स रात्रिभिरिवा	"	"
स यावदस्माच्छ	छाज.	१६७	स योऽस्य प्राङ् सुषिः	छाज.	८०४	स रुद्रो वसुव	असं.	१७५
स यावदादित्यः	"	७९६,	स यो ह नाम्ना वा	जैब्रा.	४०३;	*स रूपेणातिग्र	बृज.	११२३
	"	७९७		तब्राज.	१३५९	स रूपेणातिग्रा	"	"
स यावदादित्य	"	७९७	स यो ह वा अमू	तब्राज.	१३६५	सर्गो न सृष्टो अ	ऋसं.	८०
स यावदादित्यो	"	"	*स यो ह वा एत	कौज.	६४०	सर्प इति सर्प	शब्रा.	११७
स यावदिदं प्रा	बृज.	१२८१	*स यो ह वै तं म	बृज.	१२७१	सर्पस्त्वा हनिष्य	असं.	४४२
स यावद्ध वा इ	कौज.	६८२	स यो ह वै तत्प	मुज.	१४८७	सर्पो गन्धर्वाः पि	छाज.	७८४
*स यावद्धयस्मिन्	"	६५९	*स यो ह वै तत् म	बृज.	१२७१	सर्वे ऊष्माणः प्र	"	७८५
*स यावान्वै वाज	बृज.	१३०५	स यो ह वै तद्	प्रज.	१५०९	सर्वे ऊष्माणोऽग्र	"	७८६
स यावान्ह वै वा	"	"	स यो ह वै तद्भ	"	"	सर्वे एते पुण्य	"	"
स युक्तः करोति	तब्राज.	१३५६	*स यो ह वै तम	"	१५०७	सर्वे खल्विदं ब्र	"	८०७;
स येन देवेभ्य	असं.	४२१	स यो ह स समु	तब्राज.	१३३७	परि.	१५४८	
स यो गर्भोऽन्तरा	शब्रा.	२९४	स यो हास्य दान	जैब्रा.	४०४	सर्वे चेदं क्षयि	मैज.	१६५३
स योऽत एकैक	बृज.	१०२२	स यो हैतं मह	बृज.	१२७१	सर्वे जहाति स	छाज.	९१८
स योऽतोऽश्रुतोऽग	ऐज.	६१८	स यो हैतदेवं	शब्रा.	३२,	सर्वे तं परादा	बृज.	१०९५,
स योऽतोऽश्रुतोऽम	कौज.	६८९	३३, ३४, ३५, ३६, ३८,			१२६१		
स योऽत्र विचिक्रि	"	"	१५३, १५४, ३१८			सर्वे तदात्मान	शब्रा.	३२९
स यो ध्यानं ब्रह्मे	छाज.	९३२	*स यो हैतन्मह	बृज.	१२७१	सर्वे तदा प्र मो	असं.	३२३
स यो नाम ब्रह्मे	"	९२८	स यो हैतमुपा	कौज.	६७८	सर्वे तद्राजा व	"	८५
स योनिमैति स	असं.	१७१	स यो हैतमेव	शब्रा.	४२,	सर्वे तेजः साम	तैब्रा.	४९३
स योऽन्नं ब्रह्मेत्यु	छाज.	९३४	४३; कौज. ६७५, ६७६,			सर्वे पाप्मानं त	बृज.	१२५५
स योऽन्यमात्मनः	बृज.	१०२७	६७७			सर्वे पाहि शत	नाज.	१६३५
स योऽपो ब्रह्मेत्यु	छाज.	९३५	स यो हैतयोर्ज्या	शब्रा.	३०२	सर्वे पुनन्तु मा	"	१६४३
स यो बलं ब्रह्मे	"	९३४	स यो हैतां दैवीं	ऐज.	६२१	सर्वे पुरुषमे	शब्रा.	४७०
स यो ब्रह्मवर्च	तब्राज.	१३४१	स यो हैतानन्त	बृज.	१०५४	*सर्वे र्हः पश्यः	मैज.	१६६७
स यो मनसश्च	जैब्रा.	३१६,	स यो हैतामव	ऐज.	६०६	सर्वे वा अक्षय्यम्	शब्रा.	३०२
		३३७	स यो हैते ब्रह्म	शब्रा.	३०२	सर्वे वा अतीति	बृज.	९९७
स यो मनुष्याणां	बृज.	१२१६	स यो हैतौ णका	ऐज.	६२३	सर्वे वा एभ्यः सा	तब्राज.	१३३६
स यो मनो ब्रह्मे	छाज.	९३०	स यो हैनमतो	शब्रा.	३२	सर्वे वै तेऽन्नमा	तैज.	७१४
स यो ममाऽऽयुर	कौज.	६५९	स यो हैवं विद्रा	तब्राज.	१३४४,	सर्वे वै ब्राह्मणः	शब्रा.	४७०
स यो मां विजानी	"	६५८			१३६५	सर्वे संपश्यन्सु	असं.	१७२
*स यो मां वेद न	"	"	*स यो हैवमेतं	बृज.	१२५७	सर्वे संसिच्य म	"	३१०
*स यो मामायुर	"	६५९	स यो हैवमेत	शब्रा.	३००	सर्वे सर्ववेद	शब्रा.	४७०
स योऽयं चक्षुष्ये	तब्राज.	१३३७	* " " "	बृज.	१२७१	सर्वे ह पश्यः प	छाज.	९५०
स योऽयं पवते	"	१३३९	स यो हैवमेतां	शब्रा.	३०१	सर्वे हर्तु मे	नाज.	१६३२
स योऽयं मध्ये प्रा	शब्रा.	२९१,	स रसः	शाआ.	४७३;	सर्वे ह वा इदं	शिरज.	१६८०
		३२८		कौज.	६९१	सर्वे हि देवेभ्यो	बृज.	१०४७
स योऽयं रस आ	तब्राज.	१३३२	सरसा ह वा ए	तब्राज.	१३३२,	*सर्वे हि पश्यः प	छाज.	९५०
स यो वस्तत्साम	"	१३६४			१३६१	सर्वे हि पश्यन् प	मैज.	१६६८
स यो वाचं ब्रह्मे	छाज.	९२९	*स रसेनातिग्र	बृज.	११२२	सर्वे हि पुरुष	शब्रा.	४७०
स यो वाचः स्वरो	तब्राज.	१३५४	स रसेनातिग्रा	"	"	सर्वे हीदं नाम	ऐज.	५३७
स यो वायुः प्राण	"	१३६५	*सरस्वत्यै स्वाहे	"	१३०३	सर्वे हीदं प्राणे	"	५३८

सर्व हेदं ब्रह्म	तैत्रा.	४९३
सर्व हैतद्भव	शब्रा.	११७
सर्व हैतमेतद्	"	"
सर्व हैवाऽस्याऽऽसं	तब्राउ.	१३३८
सर्व हैतद्ब्रह्म	माउ.	१५२०
सर्वः कश्चित्प्रभुः	मैउ.	१६६१
सर्वः पश्यति	प्रउ.	१५०६
सर्वः सप्राणः स	ऐउ.	६२४
सर्वकरणानि	शिखाउ.	१६८२
सर्वकरणोप	"	"
सर्वकर्मा सर्व	छाउ.	८१२
*सर्वजिद्ध स्म कौ	कौउ.	६४६
*सर्वज्ञः सर्व भ	प्रउ.	१५०९
सर्वतः पाणिपा	श्वेउ.	१५९८
सर्वतः शर्वश	मैसं.	१५०
*सर्वतः शर्व स	तैआ.	"
सर्वतः श्रुतिम	श्वेउ.	१५९८
*सर्वतश्चक्षुरु	शिउ.	१५७४
सर्वत्सरो ह वै	शब्रा.	३००
सर्वदा वा एष	असं.	४७३
सर्वदा समस्ते	छाउ.	७७८
सर्वपरत्वाय	मैउ.	१६६२
सर्वभावपरि	"	"
सर्वभूतदम	नाउ.	१६४१
सर्वभूतस्थमा	कौउ.	१६७५
सर्वभूतेभ्यः स्वा	नाउ.	१६४८
सर्वभूतेषु चा	ईउ.	१३१८
सर्वमन्त्रमनु	शब्रा.	१५४
सर्वमपानोऽस्य	तब्राउ.	१३४४
सर्वमवरुध्य	तैआ.	१६१,
		३०६
सर्वमस्मीत्युपा	छाउ.	७८५
सर्वमस्यान्नं भ	वृउ.	१०८२
सर्वमस्येदं ह	छाउ.	८३०
सर्वमात्मा जानी	मैउ.	१६५९
सर्वमात्मानं प	वृउ.	१२५५
सर्वमायुः सर्व	कब्रा.	१२
सर्वमायुरया	तैआ.	५२१
सर्वमायुरस्मि	कौउ.	६५९
सर्वमायुरिही	शब्रा.	५१७
सर्वमायुरेति	"	३९,
		४०, ४१, ४२, ४६४, ४७०,
		५१८; ऐउ. ५१८, ६००,
		६०३, ६०४, ६०६, ६०७,
		६०८, ६१०, ६१२; कौउ.

		६८४, ६८५, ६८६, ६८७,
		६८८; छाउ. ७८१, ७८२,
		७८३, ७८४, ८३७
सर्वमित्याकाशे	तैउ.	७४०
*सर्वमिदं प्रशा	वृउ.	१२४७
सर्वमिदं ब्रह्म	शिखाउ.	१६८३
सर्वमु ह्येवेदं	शब्रा.	२०३
सर्वमेतद्विश्व	श्वेउ.	१६१३
*सर्वमेनं पश्य	वृउ.	१२५४
सर्वमेव त आ	तैउ.	७१५
सर्वमेव नाश्री	शब्रा.	१५०
सर्वमेवेदमा	तैआ.	१६१,
		३०६
सर्वयाऽस्य वाचा	तब्राउ.	१३३२
सर्ववर्णं महा	नाउ.	१६४४
सर्ववेदसं द	शब्रा.	४७०
सर्ववेदसं वा	नाउ.	१६५२
सर्वव्यापिनमा	श्वेउ.	१५८४
*सर्वव्यापी च भ	"	१५९६
सर्वव्यापी स भ	"	"
सर्वस्तोमं सर्व	शब्रा.	४६९
सर्वस्थितं सर्व	ऋसंखि.	३३६
सर्वस्माद्भुवना	तैआ.	१७९
*सर्वस्य प्रभुम	श्वेउ.	१५९८
सर्वस्य प्रभुमी	"	"
सर्वस्य वशी	वृउ.	१२४७
*सर्वस्यात्ता भव	"	९९७
"	"	१०८२
*सर्वस्यात्मा भव	"	१२५४
"	"	१२४७
सर्वस्याधिपतिः	"	"
सर्वस्याप्त्यै सर्व	शब्रा.	४७०
सर्वस्येशानः	वृउ.	१२४७
सर्वस्यैतस्यात्ता	"	९९७
सर्वस्यै वाच ई	ऐउ.	५२५,
		६२१
सर्वा अरातीर	असं.	१६९
सर्वा च सावित्री	वृउ.	१३०३
सर्वा हैतां दीप्तिं	शब्रा.	४३
सर्वाः प्रजा यत्रै	तैआ.	२६६
सर्वा गतिर्याजु	तैब्रा.	४९३
सर्वाङ्ग एव स	असं.	४३८,
		४३९, ४४०, ४४१, ४४२
सर्वाङ्ग सर्व तै	"	३८०
सर्वाजीवे सर्व	श्वेउ.	१५७९

सर्वाणि छन्दांसि	गोब्रा.	५२४
सर्वाणि तस्मिन्	असं.	२४८
सर्वाणि वृंहय	शिखाउ.	१६८२
सर्वाणि रूपाणि	तैआ.	२७३
सर्वाणि वामानि	छाउ.	८३९
सर्वाणि शं भव	असं.	५१२
सर्वाणि ह त्वेव	शब्रा.	३७
सर्वाणि ह वा अ	वृउ.	१२७७
सर्वाणि ह वा इ	छाउ.	७६६,
		७७०, ७७१; मैउ. १६६०
सर्वाणि हाऽस्मिन् रू	तब्राउ.	१३३७
सर्वाणि हास्मै भू	कौउ.	६४५
सर्वाणि हि चित्रा	शब्रा.	२९७
सर्वाणि ह्यत्र भू	"	३८
सर्वाणि ह्येतस्मि	तब्राउ.	१३३७
सर्वाण्येनं भूता	वृउ.	११८२,
		११८४, ११८५, ११८६
सर्वाण्येनं वामा	छाउ.	८३९
सर्वा ता वि ष्य शि	ऋसं.	७८
सर्वा दिश ऊर्ध्व	श्वेउ.	१६१३
सर्वा दिशः सम	असं.	१७३
सर्वा दिशः सर्वे	वृउ.	११८८
सर्वा दिशो बलि	छाउ.	७८५
सर्वा देवता आ	नाउ.	१६४३
सर्वाननशिरो	श्वेउ.	१५९६
सर्वानवयजा	तैब्रा.	४६१
सर्वाग्निद्वियकृ	जाउ.	१६६९
सर्वानुभूमात्मा	तैब्रा.	४६३
सर्वान् कामान्त्सम	तैउ.	७१७
सर्वान्देवानात्म	शब्रा.	४७०
सर्वान्प्राणानात्म	"	"
सर्वान्वा वः पृच्छा	वृउ.	११७८
सर्वान्वेदानात्म	शब्रा.	४७०
सर्वाभिर्ह वा अ	गोब्रा.	३०५
सर्वाभ्यो देवता	जाउ.	१६७०
सर्वाय स्वाहेत्य	वृउ.	१३०३
सर्वा हरोह रो	असं.	१६९
सर्वा ह्येकानभि	"	१७९
सर्वा वाक् सर्वमि	तब्राउ.	१३३२
सर्वा वाग्ब्रह्मेति	कौउ.	६८७
सर्वास्वप्सु पञ्च	छाउ.	७७६
सर्वा ह वै देव	कौउ.	६५२;
	तब्राउ.	१३३४
सर्वा हैवेमाः स	कौउ.	६८९
सर्वा ह्यस्मिन्देव	असं.	३१३
सर्वा ह्येवेमाः स	ऐउ.	६२१

सर्वे अरिमन् देवा	असं.	१७४	सलिलं वा इद	तैब्रा.	२८७	*स वा एष नेति	बृज.	११७६
सर्वे गर्भादवे	,,	४३५	स लोकमागच्छ	बृज.	१२७६	स वा एष पञ्च	मैउ.	१३५५
सर्वे तस्मै बलि	,,	३२५	सवनात्सविता	मैउ.	१६५९	स वा एष पुरु	तैउ.	७०६,
सर्वे देवाऽउपा	,,	३१०	स वरमवृणी	गोब्रा.	५२३	७१४, ७१५,	७१६, ७१८;	
सर्वे देवाऽसंवि	शिखाउ.	१६८२	स वराहो रूपं	तैब्रा.	२८६	स वा एष महा	बृज.	१२४६,
सर्वे नन्दन्ति य	ऋसं.	४९२	स वरुणः कस्मि	बृज.	११७८	१२५७, १२५८; परि.	१५६८	
सर्वे निमेषा ज	शुसं.	२५५;	स वरुणः साय	असं.	१७३	स वा एष वाचः	ऐउ.	५६८
	नाउ.	१६३०	स वरुणलोकम्	कौउ.	६३२	स वा एष शुद्धः	मैउ.	१६५५
सर्वेन्द्रियगुणा	श्वेउ.	१५९८	स वसन्तमेव	तब्राउ.	१३३३	स वा एष सर्व	शब्रा.	४७१
सर्वे पाप्मानोऽतो	छाउ.	९६३	स वसन्मत्स्येषु	कौउ.	६७४	स वा एष सूक्ष्मो	मैउ.	१६५४
*सर्वेभ्यः सर्वे श	नाउ.	१५०	स वह्निः पुत्रः पि	ऋसं.	२०५	स वा एषोऽभिर	तैब्रा.	२९
,,	,,	१६४१	स वा अग्नेरजा	असं.	१७५	स वा एषोऽभिभू	मैउ.	१६५५
सर्वेभ्यो दुःखम	शिखाउ.	१६८२	स वा अद्भ्योऽजाय	,,	,,	स वा एषोऽस्माद्भू	,,	,,
सर्वेभ्योऽन्तःस्थाने	,,	,,	स वा अन्तरिक्षा	,,	,,	स वा एहोति हो	तब्राउ.	१३७२
सर्वे वा मा पृच्छ	बृज.	११७८	स वा अपानोऽभ	तब्राउ.	१३८६	स वा ओऽभित्येव	शब्रा.	५२२
सर्वे वेदा यत्प	काउ.	१४०४	स वा अयं त्रेधा	शब्रा.	३२७	स वां मधु प्रवो	बृज.	१११०
सर्वे वेदा यत्रै	तैआ.	२६६	स वा अयं पुरु	बृज.	११११,	स वाचं प्रथमा	तब्राउ.	१३५३
सर्वेषां देवानाम्	शब्रा.	४९३			१११६	स वाचं व्यसृज	ताब्रा.	२८५
सर्वेषां प्राणानाम्	,,	,,	स वा अयमात्मा	,,	११०८,	स वाचः सत्यं नि	कासं.	२८२
सर्वेषां स्तोमानाम्	,,	,,			१२२९	*स वाऽऽदित्यमाग	बृज.	१२७६
सर्वेषु देवेष्व	,,	४७०	* ,,	,,	१२४६	स वायुः	छाउ.	८०५
सर्वेषु प्राणेष्व	,,	,,	स वा अहोऽजाय	असं.	१७५	स वायुना ज्योति	,,	८२०
सर्वेषु लोकेषु	छाउ.	८४०	स वा आकाशान्	तब्राउ.	१३५३	स वायुनाऽन्तरि	शब्रा.	२९४
सर्वेषु लोकेष्व	शब्रा.	४७०	स वा इदं विश्वं	शब्रा.	२०५	*स वायुपूतो भ	कैउ.	१६७६
सर्वेषु वेदेष्व	,,	,,	स वा इन्द्र ऊर्ध्वं	मैसं.	१६६	,,	शिरउ.	१६८१
सर्वे समवय	तैआ.	१८०	स वा उदानोऽभ	तब्राउ.	१३८६	स वायुप्रतिष्ठ	कौउ.	६५३
सर्वे समाः	शिरउ.	१६७७	स वा ऋभ्योऽजाय	असं.	१७५	*स वायुप्रविष्ट	,,	,,
सर्वे स्पर्शा मृत्यो	छाउ.	७८५	स वा ऋषे तृती	ऐउ.	५४९	*स वायुमाह य	तब्राउ.	१३६१
सर्वे स्पर्शा लेशे	,,	७८६	स वा ऋषे द्विती	,,	,,	स वायुरभव	,,	१३५३
सर्वेऽस्मै देवा व	तैउ.	६९७	स वा एकाक्षर	शब्रा.	२९८	स वायुरिवात्मा	मैउ.	१६५४
सर्वे स्वरा इन्द्र	छाउ.	७८५	स वा एवं प्रव	मैउ.	१६५९	स वायुलोकम्	कौउ.	६३२
सर्वे स्वरा घोष	,,	७८६	स वा एष आत्मा	छाउ.	९६०	स वाव प्राणोऽभ	तब्राउ.	१३८६
सर्वे हीतारो य	तैआ.	२६६	स वा एष आत्मे	मैउ.	१६५५	स वाव मार्ताण्डो	मैसं.	१६६
सर्वैरेव विधा	,,	१७९	स वा एष इन्द्रो	तब्राउ.	१३७०	स वाव विवस्वा	,,	,,
सर्वैर्हे वा अस्मै	गोब्रा.	३०४,	स वा एष उद्गी	मैउ.	१६५७	स वाव व्यानोऽभ	तब्राउ.	१३८६
		३०५	स वा एष एक	बृज.	१२०३,	स वाव समानो	,,	,,
			स वा एष एत		१२०४, १२०५, १२१९	*स विजायमानः	नाउ.	२५६
सर्वो वा एष ज	असं.	४७३	स वा एष एते	छाउ.	९८१	,,	,,	१६३१
सर्वो वा एषोऽज	,,	,,	स वा एष एवं	,,	९३८,	सविज्ञानमेवा	बृज.	१२२४
सर्वो वै तत्र जी	,,	३८५			९४७	सविज्ञानो भव	,,	,,
सर्वो वै रुद्रस्त	नाउ.	१६४२	स वा एष ओमि	मैउ.	१६५८	स विज्ञेयः	माउ.	१५२५
*सर्वोऽस्यात्मा भव	बृज.	१२५४	स वा एष दिव्यः	तैआ.	२६६	सवितर्कं ज्ञान	गोब्रा.	५२४
सर्वो ह्येष रुद्र	शिउ.	१५७४;	स वा एष न स	शब्रा.	४७०	सवितां यन्त्रैः पृ	ऋसं.	१०४
	नाउ.	१६४२, १६४३	स वा एष निरि	बृज.	१३०७	सवितारं वृच	शब्रा.	५१७
सलिल एको द्र	बृज.	१२१५						

ता वै देवः	मैस.	१६५९	*स शब्देनातिग्रा	बृउ.	११२३	स सर्वाश्च लोका	छाउ.	९६९,
ता वै देवा	शब्रा.	२०३	स शब्देनातिग्रा	"	"	स सर्वांनन्तर्दे	असं.	९७०, ९८२
ताऽसि सत्य	मैसं	४५९	सशरीर एव	जैब्रा.	४०६	स सर्वेषु तीर्थे	शिरउ.	१६८१
तुः प्रयदा	असं.	४४२	स शिरःपक्षसी	मैस.	१६६४	स सर्वेषु लोके	छाउ.	८७६
वेतैनेवाऽऽय	बृउ.	१०५६	स शीर्षत एव	जैब्रा.	२८६	स सर्वैर्देवैर्ज्ञा	शिरउ.	१६८१
त्रा प्रसवे	श्वेउ.	१५८७	स शुष्मति स उ	ऐउ.	५६८	स सर्वैर्देर	"	"
त्रे स्वाहेत्य	बृउ.	१३०२	स शोवधि नि द	ऋसं.	५०	स सविता भूत्वा	असं.	१७३
वेद्यादहमे	तब्राउ.	१३३४	स शौद्रं वर्णम	बृउ.	१०३७	स सविता सावि	गोब्रा.	११९
वेद्यादागम	"	१३४३,	स श्रद्धामवाऽभि	तब्राउ.	१३५८	स सहस्रशीर्षा	तैब्रा.	१५९,
		१३६६	स श्रान्तस्तेपानः	शब्रा.	२९३			३०६
वेद्यावेह क	"	१३५३	स श्रान्तस्तेपानो	"	२९२,			२९८
वेद्यान् ज्येष्ठं म	असं.	२५०	सषकारं ब्रवा	ऐउ.	६२३	स साम्रां लोकः	नाउ.	१६४०
वेशः सबन्धू	"	४५३	सषकारमेव	"	"	स सूर्यपूतो भ	शिरउ.	१६८१
विशमसृज	बृउ.	१०३७	स षट्त्रिंशत् स	शब्रा.	३२०,	ससुव हि तामा	असं.	४३५
विशोऽनु व्यञ्च	असं.	४५३		३२१		*स सेतुर्विधर	बृउ.	१२४७
विश्वकृतस हि	बृउ.	१२४१	स षोडशधाऽऽत्मा	तब्राउ.	१३४३	स सोमः कस्मिन्प्र	"	११७५
विश्वकृद्विश्व	श्वेउ.	१६२५	स संनयः स वि	ऋसं.	१९२	स सोमपूतो भ	शिरउ.	१६८१
विश्वरूपस्त्रि	"	१६१४	स संप्रतिवित्	ऐउ.	५५७,	स सोमलोके वि	प्रउ.	१५११
विश्वान्देवान	शब्रा.	२९५		५६३,	५६९	स स्तनयति स	असं.	१७५
वृक्षकालाकृ	श्वेउ.	१६१९	स संवत्सरमू	असं.	४५१	स स्नोभ्यः स हव्यः	ऋसं.	५७
वृक्षि विश्वं न	"	१५९९	स संवत्सरे कु	शब्रा.	२९६,	स स्नानो बभूः पि	असं.	४२६
वृक्षि वेद्यं न	"	"		२९७		*स स्वर्शेनातिग्रा	बृउ.	११२३
वेद ब्रह्म	तैउ.	६९७	स संवत्सरे व्या	"	२९८	स स्वर्शेनातिग्रा	"	"
वेदैतम्पर	मुउ.	१४८१	स सत्यं प्रजाप	मैस.	१६५८	सस्यमिव मर्त्यः	काउ.	१३९०
वै खलु प्रस्तो	बृउ.	१०१४	स सत्यकाम ए	छाउ.	८३१	स स्वर्गं लोकं प्रति	तैब्रा.	२७
वै गुह्यः प्रजा	असं.	२४८	स सत्यपूतो भ	शिरउ.	१६८१	स स्वर्गं लोकमा	तब्राउ.	१३३४
वै गौतम ती	बृउ.	१२९४	स सत्यमेव व्या	कासं.	४१०	स ह कामप्रश्न	बृउ.	११८९
वै त्वमित्यत्र	शब्रा.	१५०,	स सत्याभिसंधः	छाउ.	९२४	स ह कृच्छ्री बभू	छाउ.	८५७
		१५१	स सय एति पू	असं.	४२२	स ह क्षत्ताऽन्विष्य	"	८२५
वै दिग्भ्योऽजाय	असं.	१७५	स सध्रीचीः स वि	ऋसं.	१०६,	स ह क्षत्ताऽविद	"	"
वै दिवोऽजाय	"	"		२२०; ऐउ.	५३७;	स ह खादित्वाऽति	"	७६९
वै दैवः प्राणो	बृउ.	१०६०	(स) समः पृथिव्या	तब्राउ.	१३६६	स ह गवाश्च सह	बृउ.	१११५
वै नैव रेमे	"	१०१९	स समानः सन्तु	बृउ.	११९२	स ह गौतमो रा	छाउ.	८५७
वै नो ब्रूहि या	बृउ.	११८२,	स समित्पाणिः पु	छाउ.	९७४,	स ह तथा चका	"	९२०
		११८४, ११८५, ११८६		९७६		स ह तथैव प	तब्राउ.	१३६४
वै भूमेरजा	असं.	१७५	स समुद्र एव	"	९१७	स ह तृष्णीमास	बृउ.	१०७०
वै यः सोऽत्ता	शब्रा.	४२	स समुद्रादसु	गोब्रा.	३०४	सह देवैरिमश्च	तैब्रा.	३१७,
वै यज्ञादजा	असं.	१७५	स समुद्रो अपी	ऋसं.	८३			३३७
वै रात्र्या अजा	"	"	स समुद्रोऽभवत्	तैब्रा.	२८९	स ह द्यामधि रो	असं.	१७४
वै वाचमेव	बृउ.	१००८	स सर्वज्ञः सर्वो	प्रउ.	१५०९	स ह द्वादशव	छाउ.	८८३
वै वाशोरजा	असं.	१७५	स सर्वत्सरोऽभ	शब्रा.	३००	स ह न तावन्तं	शब्रा.	४६६
वै सप्तपुर	शब्रा.	२९२	स सर्वपूतो भ	शिरउ.	१६८१	स ह न प्रतिधि	गोब्रा.	११८
वै सर्वमिदं	नाउ.	१६५१	स सर्वमेधेने	गोब्रा.	४७२	स ह नावयं लो	तब्राउ.	१३६१,
वै सायं जुहो	शब्रा.	३४७	स सर्वस्मै वि प	असं.	१७४			१३६२, १३६३
वै स्वयमात्	शब्रा.	३२९						

सह नाववतु	तै.उ. ७०६;	स ह संजिहान	छा.उ. ८२४	सहसाक्षरा भु	असं. १७०
	का.उ. १४४१	स ह संपादयो	,, ८७२	सहसाणि सह	तैसं. १४७
स ह नैमिषीया	छा.उ. ७५४	सहसः सूनवा	ऋसं. १७	सहसाह्यं विय	असं. १७२,
*स ह नैमिषीया	,, ,	स ह स न मनु	शत्रा. १५५		१७३, २५०
स ह नोऽयं लोक	तत्रा.उ. १३६२,	स ह समिप्पाणि	कौ.उ. ६२९	सहस्व मन्यो अ	ऋसं. ३४३
	१३६३	स ह सर्वत आ	छा.उ. ८२२	स ह हारिद्रुम	छा.उ. ८३१
सह नौ ब्रह्मव	तै.उ. ६९४	स ह सोपानादे	तत्रा.उ. १३५७	सह होतावस्मि	कौ.उ. ६६७
सह नौ भुनक्तु	,, ७०६;	सहस्तोमाः सह	ऋसं. २७८	सह होतावस्मिन्	,, ६६५
	का.उ. १४४१	स ह स्म कुरुप	तत्रा.उ. १३६४	स हाजातशत्रुं	,, ६७४
सह नौ यशः	तै.उ. ६९४	स ह स्म तथैव	शत्रा. १५५	स हानुशिष्ट आ	तत्रा.उ. १३६४
स ह पञ्चदशा	छा.उ. ९०३	स ह स्मान्यानन्ते	छा.उ. ८३४	स हान्नमित्यभि	ऐ.उ. ५४९
स ह पितरमा	कौ.उ. ६२८	स ह स्माह पाणि	वृ.उ. १२७७	स हान्नमित्येवा	,, ,
स ह पुत्रं श्वेत	,, ६२७	स ह स्माऽऽह सुचि	तत्रा.उ. १३३४	सहान्वाब्रवीथ	जैत्रा. ३२८
स ह प्रजापति	वृ.उ. १३०५	स ह स्माऽऽह सुद	,, १३५७	स हापराणि द्वा	छा.उ. ९७५
स ह प्रवाहणो	छा.उ. ७६५	स ह स्मैभ्यः कामा	छा.उ. ७५४	स हापराणि प	,, ९७६
स ह प्रस्तोतार	,, ७६९	सहस्रं तत्र नी	तै.आ. १८०	स हापरिवृतो	कौ.उ. ६८४
स ह प्रातः संजि	,, ,	*सहस्रं दद्या ए	कौ.उ. ६७४	स हाप्राप्यैव दे	छा.उ. १७५,
	,, ,	सहस्रं दद्यास्त	,, ,		९७६
	,, ,	सहस्रं धारा इ	असं. ५०९	स हायमीक्षां च	वृ.उ. १०१८
स ह प्रातः सभा	,, ८५७	सहस्रं परिध	तै.आ. ४६२	स हाऽऽयस्तः पितु	छा.उ. ८५६
सहमाना नाम	,, ८१३	सहस्रं यस्य ज	असं. १७०	स हाविपरिहृ	ऐ.उ. ५९७
स ह मैत्रेयः प्रा	गोत्रा. ११८	सहस्रं हैत आ	तत्रा.उ. १३४३,	स हाऽऽश	छा.उ. ९०३
स ह मैत्रेयः स्वा	,, ,		१३५१	स हाऽऽस्मै मधुप	तत्रा.उ. १३४८
स ह मौद्गल्यः स्व	,, ,	सहस्रं हैवाऽऽस्या	,, १३५१	स हाऽऽस्य तत्र मृ	,, १३५८
स ह रथमास्था	तत्रा.उ. १३५७	सहस्रणीथाः क	ऋसं. ३६७	स हाहं यशसा	छा.उ. ९८३
स हरिर्वसुवि	तै.आ. २७०	सहस्रधा पञ्च	,, २३६	स हि कर्तो	वृ.उ. ११९९
सह रेतो दधा	वृ.उ. १३०८	सहस्रधा महि	,, ,	स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो	छा.उ. ८५४
स ह वर्षण्यं	छा.उ. ८३१	सहस्रधारं श	असं. ३९८	स हि दिवः स पृ	असं. १९८
स ह वा आत्मव्या	शत्रा. ४६६	*सहस्रधा सह	कासं. १४७	स हि प्रज्ञानेन	ऐ.उ. ५५९
स ह वाव ब्रह्मा	तत्रा.उ. १३६०	सहस्रपरमा	ना.उ. १६३२	स हि रत्नानि दा	ऋसं. ९८
स ह वाव साम	,, १३५४	सहस्रपादैक	शिर.उ. १६८१	स हि राजेशानो	वृ.उ. १३०३
सह वीर्यं कट	तै.उ. ७०६;	*सहस्रबाहुः पु	असं. २३०	स हि सर्वकाम	मै.उ. १६६३
	का.उ. १४४१	सहस्ररश्मिः श	प्र.उ. १४९३;	स हि सुवर्गच्छ	जैत्रा. ४०३;
स ह वै सामवि	तत्रा.उ. १३३३,		मै.उ. १६५९		तत्रा.उ. १३५९
	१३३९, १३४२, १३५५	सहस्रशीर्षं दे	ना.उ. १६३७	स हि स्वप्नो भूत्वे	वृ.उ. ११९२
स ह व्याधिनाऽन	छा.उ. ८३५	*सहस्रशीर्षाः पु	सासं. २३०	स हीदं सर्वम	तत्रा.उ. १३६६
सह व्रतेन भू	ऋसं.खि. ५०१	सहस्रशीर्षा पु	ऋसं. २३०;	स हीदमन्नं धि	वृ.उ. १०४७
स ह शान्तबह	छा.उ. ९७३,		श्वे.उ. १५९७	स हेक्षांचके प्र	शा.आ. ३२२
	९७५, ९७६	सहस्रशृङ्गो वृ	असं. १६८	स हेक्षांचके ह	तत्रा.उ. १३५१
स ह शिलकः शा	,, ७६५	*सहस्रसमं प्र	तै.आ. ४६१	स हेभ्यं कुलमापा	छा.उ. ७६८
स ह श्वोभूते गा	,, ८३२,	,, ,	,, ४६३	स हेयत्ता देवे	जैत्रा. ४०३
	८३३	सहसाक्षः सह	तै.आ. १५९,	स हेथरो यश	ऐ.उ. ५६५
स ह षोडशं व	,, ८१६		३०६		५६६, ५६८
स ह षोडशश	तत्रा.उ. १३६८	सहसाक्षमति	असं. १३१	स हैकराडेव	तत्रा.उ. १३७
स ह स ईशानो	,, १३३८	सहसाक्षरा प	तै.आ. ३४८		
स ह संमहीता	,, १३५७				

स हैतजगार	तब्राउ.	१३५५
स हैतदेव प्र	„	१३५८
स हैतमागच्छ	जैब्रा.	४०३
स हैतयैव नि	बुउ.	११६६
स हैतावानास	„	१०१९
स हैनं पप्रच्छ	„	१११५
स हैवं विद्वान	जैब्रा.	४०५
स हैवं विद्वानो	तब्राउ.	१३३८
स हैवं विद्वान् ब्या	जैब्रा.	४०३, ४०४
स हैवं षोडश	तब्राउ.	१३४४
स हैव देवलो	जैब्रा.	३१६, ३३७
स हैव वाचा म	तब्राउ.	१३६५
स हैव संतं न	तैआ.	२६९
स हैवाऽस्य तत्र	तब्राउ.	१३५८
स हैवैतदमृ	शब्रा.	५१७
स हैष न मनु	जैब्रा.	४०५
स हैषोऽननुतो	तब्राउ.	१३५४
स हैषोऽमृतेन	„	१३३७
स हैषोऽस्तं नाम	„	१३५४
स होता सेदु दू	ऋसं.	१६
*सहोत्क्रमतः	कौउ.	६६५
सहोत्क्रामतः	„	६६७
स होत्तरथौ	बुउ.	१०७१
*स होपायनक	„	१२९४
स होपायनकी	„	„
स होपोयमानो	तब्राउ.	१३४१
सहोभिर्विश्वं प	ऋसं.	३६२
स होवाच	तैब्रा.	२८;
	शब्रा.	३९, ३५०, ४६७, ४६९;
	गोब्रा.	११८; ऐउ.
		५४९; कौउ.
		६२९, ६५७, ६५८, ६७८;
		छाउ.
		७७०, ८२९, ८३१,
		८३५, ८५७, ९२५, ९७४,
		९७६; बुउ.
		१०९१, ११००,
		१११५, ११३०, ११४७,
		११५८, ११५९, ११६७,
		११८६, १२६०, १२६४,
		१२९३, १२९४; तब्राउ.
		१३४१; परि.
		१५३५, १५६८
* „	बुउ.	११८६,
		१२९३
*स होवाच इन्धो	„	११८७

स होवाच काम	शब्रा.	४०९
स होवाच किं मे	गोब्रा.	५२३;
	छाउ.	८५२, ८५३
स होवाच गाय	जैब्रा.	३२८
स होवाच गार्गि	बुउ.	११४५
स होवाच गार्ग्यः	„	१०६७,
		१०६८, १०६९, १०७०,
		१०७१
*स होवाच जन	„	११८१
„	„	११८९
स होवाच ते मै	शब्रा.	४१९
स होवाच त्रिवै	तब्राउ.	१३५७
स होवाच त्वं मे	„	१३५२
स होवाच देवा	„	१३५१
स होवाच देवे	„	„
स होवाच धूर्वै	जैब्रा.	३२८
स होवाच नम	तब्राउ.	१३४८
स होवाच न वै	छाउ.	९०३
स होवाच नाह	कौउ.	६२७
स होवाच पित	काउ.	१३८९
स होवाच पितृ	तब्राउ.	१३५१
स होवाच प्रजा	शाआ.	३३१
स होवाच प्रत	कौउ.	६५६
स होवाच प्राणः	शाआ.	३३१
स होवाच प्राणो	शब्रा.	३३०
स होवाच प्लक्षो	तैब्रा.	२६
स होवाच बाल्य	कौउ.	६७५,
		६७६, ६७७
स होवाच बृह	तब्राउ.	१३५१
स होवाच मूर्द्धा	शब्रा.	४१
स होवाच यथा	तब्राउ.	१३६९
स होवाच यद्वै	„	१३६४
स होवाच याज्ञ	बुउ.	१०९१,
		११८२, ११८४, ११८५,
		११८६, १२६०; जाउ.
		१६६९, १६७०, १६७१
*स होवाच याज्ञ	बुउ.	१०९१
		११००, १२६३
स होवाच वेदे	तैब्रा.	२६
स होवाच हरी	तब्राउ.	१३७०
स होवाचाजात	बुउ.	१०६६,
		१०६७, १०६८, १०६९,
		१०७०, १०७१, १०७२,
		१०७३
स होवाचाऽनुचा	तब्राउ.	१३६९

स होवाचाऽनूत्था	तब्राउ.	१३५७
स होवाचाऽप्रक्ष्यं	„	१३४८
स होवाचाऽभिप्र	„	१३५५
स होवाचारुण	शब्रा.	३९
स होवाचाषाढ	जैब्रा.	३२८
स होवाचाऽसुरे	तब्राउ.	१३५१
सहोवाचाहम	कौउ.	६२८
स हेवाचेदं वै	तब्राउ.	१३४१
स होवाचोषस्त	बुउ.	११३३
स ह्येतेनाग्नेऽय	तैसं.	२८१
स ह्येनशेदिष्ठे	तब्राउ.	१३८२
स ह्येवारिम सना	तैआ.	२६५
सा एषा विद्युत्	तब्राउ.	१३३८
सांक्रुतीपुत्र आ	बुउ.	१३१०
*सांजीवीपुत्रः का	„	१३११
सांजीवीपुत्रः प्रा	„	१३१०
सांजीवीपुत्रो मा	„	१३११
साकंजानां सप्त	ऋसं.	२११
साकं स एको भू	शिरउ.	१६७९
सा कद्रीची कं स्वि	असं.	१७०;
		ऋसं.
		२१२
साकमश्वो देव	कौउ.	६९२
सा गायत्री गाथ	तब्राउ.	१३४७
सा गौरभवद्	बुउ.	१०२०
*सा गौरभवद् वृ	„	„
साऽय एव सुभि	छाउ.	७६९
साग्रं वर्षशतं	ऋसंखि.	४७९
साङ्गो हैव सत	तब्राउ.	१३७०
सा चित्तिभिर्नि हि	ऋसं.	२१८
सा चेदरमै दद्या	बुउ.	१३०६
सा चेदरमै न द	„	„
सा चेदरमै नैव	„	„
सा जोऽस्नाऽभवत्	तैब्रा.	२८९
सा तपोऽतप्यत	शब्रा.	३२०
साऽतप्यत	„	२९६
सा तमिस्राऽभवत्	तैब्रा.	२८९
सा तृतीयां विरवा	तब्राउ.	१३४७
सा ते काम दुहि	असं.	३३९
साऽऽत्मानमन्वैच्छत्	शब्रा.	३२०
सा त्रयीं विद्याऽभ	तब्राउ.	१३३६
सा त्वं वीरवती	बुउ.	१३१०
सा त्वमस्यमोऽह	„	१३०८
सा दक्षिणा दिक्	तैआ.	१५९,
		३०६
सा दौरभवत्	तैब्रा.	२८९

सा द्वितीयां विच्वा	तब्राउ.	१३४७	साऽऽब्रवीन्न वै तं	तब्राउ.	१३४६,	साम्नामेव तद्र	छाउ.	८४८
साधुकारी साधु	वृउ.	१२२९	साऽऽब्रवीन्मयैवे	,,	१३४७	साम्ना ये साम सं	असं.	२५१
सा नो जुषाणोप	तैब्रा.	३४९,	सा ब्रह्मेति होवा	,,	१३७१	साम्नेनमुपागा	छाउ.	७७४
		४२७	सा भावयित्री भा	ऐउ.	५९०	साम्नो हिक्रियमा	जैब्रा.	४०५
सा नो दधातु सु	,,	३४९	साम	वृउ.	१२७९	साम्राज्याथ सुक्क	ऋसं.	७५
सा नो भूतस्य भ	असं.	५०६	साम इति छन्दो	शब्रा.	११७	सायकायनः कौ	वृउ.	१२६५
*सा नो भूतस्य भु	मैसं.	,,	सा मधुनाऽपुनी	तब्राउ.	१३४६	* " " "	,,	१२६६
सा नो भूमिः प्र णु	असं.	५०८	सा मनोनेत्रा वा	जैब्रा.	३१६,	सायको जानश्रु	तब्राउ.	१३६७
सा नो भूमिः प्राण	,,	,,			३३७	*सा यदा मृत्युना	वृउ.	१००८
सा नो भूमिरा दि	,,	,,	साम नो बतेति	छाउ.	७७४	सा यदा मृत्युम	,,	,,
सा नो भूमिर्भूरि	,,	५०७	सामन्तु राये नि	ऋसं.	३६३	सा यन्मम त्वं कृ	शब्रा.	३३७
सा नो भूमिर्वर्ध	,,	,,	*साममये स ए	कौउ.	६४६	सायवस कं त्वं	,,	४१
सा नो भूमिर्वि सृ	,,	,,	सामवेद एव	छाउ.	७९४	सा या ब्रह्मणो जि	कौउ.	६३९
सा नो भूमिस्त्विषि	,,	,,	सामवेद एवोत्	,,	७५६	सा या मनुष्ययो	जैब्रा.	४०३
सा नो भूमे प्र रो	,,	,,	सामवेदस्य स्व	ऐउ.	६२१;	सा या मन्द्रा साऽऽमे	तब्राउ.	१३४०
सा नो मधु प्रियं	,,	,,	सामवेदेनास्त	कौउ.	६८९	सा यावदेषु त्रि	वृउ.	१२७९
सा नो मन्द्रेषमू	ऋसं.	३४६;	सामवेदो ब्राह्म	तैब्रा.	४९३	सा या साऽऽकान्तिर्वि	तब्राउ.	१३३७
	तैब्रा.	३४७	सामवेदो यशः	,,	,,	सा या सा वाक् अ	शब्रा.	३२
सा नो लोकममृ	तैब्रा.	४२७	सामवैर्यं प्रप	तब्राउ.	१३४८	सा या सा वागग्निः	तब्राउ.	१३३७
सा नो विराडन	,,	३१७,	साम संतानः	तैउ.	६९४	सा या सा वागासी	,,	१३४९
		३४८	सामाथो यः कश्च	ऐउ.	५६८	सा या सा वागृक्	,,	१३३७
सा नो हवं जुष	,,	३४९	सामाध्वर्युः	कासं.	४५८	सा या सा वाग्ब्रह्मी	,,	१३५४
साऽऽन्तर्धीयते	ऐब्रा.	१५१,	सामानि यस्य लो	असं.	२४७,	सायुज्यं विनियो	नाउ.	१६४४
		१५२			४७३	सारणी सा तयो	मैउ.	१६६८
साऽऽचेनोपसमा	छाउ.	९०३	सामान्यादित्यात्	छाउ.	८४८	सालज्यं संस्थानम्	कौउ.	६३३
साऽपरमपचत्	मैसं.	१६५,	सामान्येव उदृ	तब्राउ.	१३४७	*सालजुं संस्थानम्	,,	,,
		१६६	सामान्येव मधु	छाउ.	७९४	सा वा अदितिरा	मैसं.	१६६
सा पराऽप्लवत	तब्राउ.	१३४७	सा मा प्रत्यब्रवी	,,	८३१	सा वा एषा देव	वृउ.	१००६,
साऽपुनीत गाथ	,,	१३४६	सा मामनुवता	तब्राउ.	१३४६		१००७	
साऽपुनीत यदि	,,	,,	सा मा सत्योक्तिः	ऋसं.	४१८	सा वाक्	छाउ.	८०४
सा पुरस्तादशि	मैसं.	१६६	सामाऽऽसाद उद्री	असं.	४५१	सा वाक् प्राणमसृ	शब्रा.	३२०
सा पृथक्सलिलं	तब्राउ.	१३३२	सामाहमस्मि ऋ	वृउ.	१३०८	सा वागभवत्	,,	३०१
सा पृथिव्यभवत्	तैसं.	१५७,	सामैव नो द्विती	तब्राउ.	१३४४	सा वागभवति	छाउ.	९०२
	२८२; तैब्रा.	२८९; शब्रा.	सामैव भगव	,,	१३४२	साऽविच्वा न्यऽप्लव	तब्राउ.	१३४७
	२९४, २९६; वृउ.	९९४	सामैवाहं संहि	ऐउ.	६०४;	सावित्रं ब्रह्मणो	पैसं.	२५१
सा प्रज्ञा	कौउ.	६३६		कौउ.	६८५	सावित्रीमावाह	नाउ.	१६४४
सा प्रतीची दिक्	तैआ.	१६०,	सामोत्तरः पक्षः	तैउ.	७१५	*सावित्रे ब्रह्मणो	पैसं.	२५१
		३०६	साम्न उद्गीथो र	छाउ.	७४७	सावित्र्या गायत्री	शिरउं.	१६८१
साऽऽप्रथत	तैसं.	१५७,	साम्नः सायुज्यं स	वृउ.	१२७९	सा वृष्ट्या शान्तिः	मैसं.	५१५
		२८२	साम्नाऽऽदित्यम्	गोब्रा.	११९	सा वै दैवी वागप	वृउ.	१०५९
सा प्राची दिक्	तैआ.	१५९,	साम्नामादित्यो द्वे	,,	५२४	सा वै द्वितीयामि	तब्राउ.	१३४७
		३०६	साम्नामुदीची म	तैब्रा.	४९२	सा वै पुनीष्वेत्य	,,	१३४६
सा प्रामूर्च्छत्	शब्रा.	३२०						
सा बीभर्त्सुर्गर्भं	ऋसं.	२०९						
साऽऽब्रवीत् कवेदं भ	तब्राउ.	१३४६						

सा षट्त्रिंशत् स	शब्रा. ३२०	सुखादीं दुःखनि	तैआ. ४१२	सुवर्णं खादित्वा	ऐउ. ६१७
सा संवत्सरं त्रौ	छाउ. ८५१;	सुत्रामाणं पृथि	ऋसं. १६५,	सुवर्णं घर्म प	तैआ. २६६
	बृउ. १२८८		३६६	*सुवर्गज्योतीः	तैउ. ७४०
सा संहितेति	ऐउ. ६०३;	सुदक्षिण इति	तब्राउ. १३५७	सुवर्णलिङ्गाय	नाउ. १६४१
	कौउ. ६८५	सुदक्षिणो ह वै	" "	सुवर्णाय नमः	" "
सा समाः सहस्रं	तब्राउ. १३४७	सुदक्षो दक्षैः क	ऋसं. १८	सुवर्णेन रज	छाउ. ८४८
सा सिकता असृ	शब्रा. २९६	सुदत्तः पाराश	तब्राउ. १३६७	सुवर्नं ज्योतीः	तैउ. ७४०
साऽसौ चौरभवत्	" २९८	सुधायं ह्वैचं	" १३५४	सुवर्नतो नापे	तैसं. ३६९
साऽस्थैतमात्मान	ऐउ. ५९०	सुनिर्मलामिमां	श्वेउ. १५९७	सुविज्ञानं चिकि	ऋसं. ३५४,
साऽहं भगवते	बृउ. १२०३	सुनीतिभिर्नय	ऋसं. १८९		४१८
सा ह तस्य नेशे	तब्राउ. १३३१	सुपर्णं विप्राः क	" २३५	सुवितो धर्म प्र	" ३६१
साऽहमस्मोऽब्र	" १३४६	सुपर्णो अह्म स	" १०४	सुविद्वांसं चक्रे	" ५८
साऽहमेतन्न वे	छाउ. ८३१	सुपर्णोऽसि गरु	ऐआ. ३५०	सुशीमं वा दुःशी	शाब्रा. ३४७
सा ह वाक् परोक्ता	शब्रा. ३३८	सुपर्णोऽसि त्रिष्टु	शब्रा. ४६९	सुश्रुतिश्च मोप	असं. ५१०
सा ह वाक् प्रजाप	" "	सुपावः पवमा	तैसं. ५१४	सुश्रुतौ कर्णो भ	" "
सा ह वागुच्चक्रा	शाआ. ३३१;	सुपिप्पला ओष	" "	सुश्लोक सुमङ्ग	शुसं. २०१
	छाउ. ८५१	सुप्तः स्वप्नं न कं	कौउ. ६६५	*सुश्लोकां सुमङ्ग	तैब्रा. "
सा ह वागुवाच	बृउ. १२८९	सुप्तस्थेवावुद्धि	मैउ. १६५४	सुषारथिरश्वा	ऋसं. ३३५;
सा ह वेद सत्यं	तब्राउ. १३३१	सुप्रजाः सन्तस उ	असं. ४३१		शिउ. १५७३
सा हैनमुवाच	छाउ. ८३१	सुप्रवाचनं त	ऋसं. ५१	सुषुप्तस्थान ए	माउ. १५२३
सा हैषाऽखला दे	तब्राउ. १३३१	सुप्रावीरिद्धन	" १९३	सुषुप्तस्थानः प्रा	" १५२८
सा हैषा गयाऽस्त	बृउ. १२८२	सुभूः स्वयंभूः प्र	शुसं. २५३	सुषुप्तिकाले स	कैउ. १६७५
सा हैषा ब्रह्मास	तब्राउ. १३८६	सुभूता नामोदी	छाउ. ८१३	सुहस्तः सुवासाः	तैब्रा. २६०
सा हैषैव देवा	शब्रा. १५४	सुभूतेन मे सं	नाउ. १६४९	सूक्तं बतावोच	ऐउ. ५४७
सा होवाच	बृउ. ११५७,	सुमित्रा न आप	" १६३३	सूक्तवाकं प्रथ	ऋसं. १०१
	११५८, ११६६	सुमेधा अमृतो	तैउ. ७०३	सूक्ष्मः पुरुषः स	शिरउ. १६७८
सा होवाच मैत्रे	बृउ. १०९१,	*सुमेधा अमृतोऽ	" "	सूक्ष्मातिसूक्ष्मं क	श्वेउ. १६०८
	११००, १२६०, १२६३	सुम्नयुद्धाल	कौउ. ६९२	सूक्ष्मात्सूक्ष्मतं	ऋसंखि. ३३६;
साहातिरात्रावु	असं. ४४७	सुम्नः शाण्डिल्यो	तब्राउ. १३७२	शिउ. १५७३; कैउ.	१६७६
साह्याम दासमा	" ३४१	सुरभि च हेने	" १३५०	सूत्रं सूत्रस्य थो	असं. २५०
सिकताभ्यः शर्क	शब्रा. २९६	सुरभि चैनेन	" १३४८	सूत्रं सूत्रस्याहं	" "
सितासिताः क्रदु	मैउ. १६६३	सुरापानात्पूतो	कैउ. १६७६	सूत्रमिव वा म	शब्रा. ४६९
सितासिते सरि	ऋसंखि. ३६८	सुवन्मह्यं पशू	तैआ. २७३	सूत्ररूपो ह्येष	तब्राउ. १३५५
सिध्यत्यस्यार्थोः	गोब्रा. ५२३	सुवरजमादि	नाउ. १६३४	सूत्रता संनतिः	असं. ४४७
सीताः पशवः सि	असं. ४३६	सुवरादित्याय	" "	सूपसदनोऽग्निः	तैसं. ५१४
सुकेशा च भार	प्रउ. १४९०	*सुवरिति प्रति	बृउ. १२७४	सूपस्थाना द्यौः	" "
सुखं त्वेव विजि	छाउ. ९४१	सुवरिति यजू	तैउ. ६९७	सूयवसाङ्गग	ऋसं. २२४
सुखं भगवो वि	" "	सुवरिति व्यानः	" "	सूराय विश्वच	असं. १७१
सुखं रात्रीः शयि	काउ. १३९१	सुवरित्यसौ लो	" "	सूर्ये चक्षुर्गच्छ	ऋसं. ३६०
सुखं सूर्य रथ	असं. १७१	सुवरित्यादित्यः	" "	*सूर्यं चक्षुषा ग	असं. "
सुखदुःखमोह	मैउ. १६६०	सुवरित्यादित्ये	" ६९९	*सूर्यं ते चक्षुर्ग	तैआ. "
सुखदुःखयोर्वि	कौउ. ६७०	सुवर्गोऽयाय श	तैसं. १११;	सूर्यं वयं रज	असं. १७२
सुखदुःखे ते म	" ६५५		श्वेउ. १५८५	सूर्यः कला	छाउ. ८३३
सुखदुःखे मे त्व	" "	सुवर्ज्योतिरुता	तैब्रा. ३१७	सूर्यद्वारेण ते	मुउ. १४५२
सुखमेव लब्धा	छाउ. ९४१	सुवर्णं कोशं र	तैआ. २६९	*सूयपत्नी विच	कासं. १६२

सूर्यपत्नी सं च	असं.	१६२
सूर्यराज्यं षोड	मैउ.	१६६५
सूर्यश्चक्षुर्वातः	असं.	३१२;
	वृउ.	१८७
सूर्यश्चक्षुषे	ताब्रा.	५१६
सूर्यश्च मा मन्यु	नाउ.	१६४४
सूर्यस्ते तन्वे शं	असं.	३७७
सूर्यस्य चक्षु र	ऋसं.	२११
सूर्यस्याश्वा हर	असं.	१६९
सूर्या हिरण्ययी	ऋसंखि.	५०१
सूर्याचन्द्रमसा	असं.	४३९
सूर्याचन्द्रमसौ	शब्रा.	२०३;
	ऋसं.	२७९; नाउ.
सूर्याभिनिष्पुक्तः	तैब्रा.	४८६
सूर्याभ्युदितः सू	"	"
सूर्याय स्वाहा	असं.	३९९;
	नाउ.	१६४८
सूर्ये ज्योतिषि जु	नाउ.	१६४४
सूर्ये बुक्क समा	तैआ.	१५८
सूर्यो ज्योतिषां	ऐउ.	६२६
सूर्यो द्यौं सूर्यः पृ	असं.	१७०
सूर्यो भूतस्यैकं	"	"
सूर्यो मरीचिमा	तैआ.	१७९
सूर्यो मा तत्र न	असं.	३९९
*सूर्यो मा तस्मादे	कासं., मैसं.	५०४
सूर्यो मे चक्षुर्वा	असं.	३०७
"	कासं.	"
सूर्यो मे चक्षुषि	तैआ.	२६०
सूर्यो यथा सर्व	काउ.	१४३०
सूर्यो योनिः काल	मैउ.	१६६०
सूर्यो रश्मिभिरा	"	"
रुद्राणं घर्मम	ऋसं.	२१८
रुद्राण्यदरमा अ	"	६६
रुद्राणां ह्यस्यैतस्यां	वृउ.	१०२०
सेदं सर्व विभ	ताब्रा.	२८५
सेदं सर्वमाप्रो	शब्रा.	२९३
सेन्द्रयोनिः	तैउ.	६९९
सेयं दिक्	तैआ.	१६०,
		३०६
सेयं देवतेमा	छाउ.	८९६
सेयं देवतैक्ष	"	८९३;
	परि.	१५५९
सेयं पूता	तब्राउ.	१३४५
सेयं पृथिवी प्र	मैउ.	१६६४

सेयं पृथिव्यभ	शब्रा.	२९८;
	तब्राउ.	१३३०
सेयं वाक् सृष्टाऽऽवि	शब्रा.	३२०
सेयं वागभवत्	तब्राउ.	१३३०
सेयं सर्वा कृत्स्ना	शब्रा.	२९४
सेयं सर्वाप ए	"	२९३
सेयमित्याद्याऽऽत्री	ऐउ.	५३०
सेयमृगस्मिन् सा	तब्राउ.	१३४६
सेयमृगिदं सा	"	१३४७
सेयमेव प्राण	"	१३५५
सैक्षत	मैसं.	१६६
*सैतवः पाराश	वृउ.	१११४
"	"	१२६५
सैतवप्राचीन	"	१११४
सैनं तत्रैव ह	ऐउ.	५६९
सैव वागभवत्	वृउ.	९९५
सैवर्गभवदि	तब्राउ.	१३३४
सैवाक्षरसंपत्	शब्रा.	३०
सैवाग्नेस्त्रिवृता	"	२९६
सैवालम्भस्याऽऽल	तब्राउ.	१३६४
सैवास्मै प्रतिष्ठा	शब्रा.	२९२
सैवेष्टकासंपत्	"	३०
सैषा ऋक् साम्नोः प्र	तब्राउ.	१३४९
सैषा ऋषीणां श्रीः	"	१३४६
सैषा क्षत्रस्य यो	वृउ.	१०३६
सैषाक्षरा ऋक्	गोब्रा.	५२२
सैषा गन्धर्वाप्स	तब्राउ.	१३४६
सैषा गायत्र्येत	वृउ.	१२८१
सैषा चतुर्धा वि	तब्राउ.	१३८६
सैषा चतुष्पदा	छाउ.	८०२
सैषाऽऽत्मविद्यैव	शब्रा.	३०
सैषा त्रय्येव वि	"	११२;
	नाउ.	१६४०
सैषाऽदितिः संहि	ऐउ.	६०८
सैषाऽदितिसंहि	कौउ.	६८६
सैषा देवता प्र	छाउ.	७७०,
		७७१
सैषा देवतोद्गी	"	७७१
सैषा देवानां श्रीः	तब्राउ.	१३४६
सैषा दैवी वीणा	कौउ.	६८९
सैषा द्यौः प्रजाप	मैउ.	१६६४
सैषाऽऽनन्दस्य मी	तैउ.	७२८
सैषाऽनस्तमिता	वृउ.	१०६३
*सैषा नास्तमिता	"	"
सैषा प्रजापति	कौउ.	६८६

*सैषा प्राणे सर्वा	कौउ.	६६६
"	"	६६७
सैषा ब्रह्मणोऽति	वृउ.	१०२१
सैषा भागवो वा	तैउ.	७३८
सैषाऽवरपरा	ऐउ.	६०६;
	कौउ.	६८६
सैषा वाक् सर्वश	कौउ.	६८७
सैषा विदृतिर्ना	ऐउ.	५८५
सैषा विराडना	छाउ.	८३०
सैषा शाटयायनी	तब्राउ.	१३७२
सैषा संहितैता	कौउ.	६८७
सैषा सत्यसंहि	"	६८६
सैषा सर्वभूत	"	६८७
सैषा सर्वस्यै वा	"	६८९
सैषा स्पशोष्मभि	ऐउ.	५६९
सैषैकैवेष्टका	शब्रा.	३०
सैषोक्ताग्निर्ब्रह्म	तब्राउ.	१३३७
सैषोऽन्नस्य ग्रहो	ऐउ.	५८५
सो अग्निः स उ सू	असं.	१७४
सो अन्तरिक्षे र	तैब्रा.	१६७
सो अग्निगा पृथि	ऋसं.	१०१
सो अर्यः पुष्टीर्वि	"	४६
सोऽऽशोऽर्यं यश्चेता	मैउ.	१६५७
सोऽकामयत	तैउ.	७२०;
	तब्राउ.	१३४३
सोऽकामयत आ	शब्रा.	२९३
सोऽकामयत जा	वृउ.	१०४२
सोऽकामयत द्वि	"	९९५
सोऽकामयत प्र	तैब्रा.	२८९,
		२९०, २९४
सोऽकामयत प्रै	जैब्रा.	२८६
सोऽकामयत व	"	"
सोऽकामयत भू	शब्रा.	२९३,
		२९४, २९५; वृउ.
		९९८
सोऽकामयत मे	वृउ.	९९९
सोऽकामयत य	ताब्रा.	२८३
सोऽकामयत स्यां	शब्रा.	२९५
सोऽकामयतानं	"	२९७
सोऽकामयताह	जैब्रा.	२०२
सोऽकामयतैक	तब्राउ.	१३५०
सोऽग्निः	छाउ.	८०४
सोऽग्निः कस्मिन्प्रति	वृउ.	११७६
सोऽग्निना ज्योतिषा	छाउ.	८२०
सोऽग्निना पृथिवी	शब्रा.	२९४
सोऽग्निपूतो भव	शिरउ.	१६८१

सोऽभिमाहाऽभिजि	तत्राउ.	१३४५
सोऽभिरेव भूर्वा	जैआ.	२०२
सोऽभिष्टोमेनेष्ट्वा	गोआ.	४७२
सोऽभिहोत्रेणेष्ट्वा	”	”
सोऽभिनाधाय पू	”	”
सोऽप्र एव कुमा	ऐउ.	५९०
सोऽप्रभुग्निवभज	नाउ.	१६४०
सोऽप्रोवः प्रत्यमु	तैआ.	२६५
सोऽङ्गसोऽभवत्	गोआ.	३०४
सोऽजिहो असश्च	तैआ.	२६५
सोऽजिष्टमाश्रात्	मैसं.	१६५,
		१६६
सोऽत आहुतिम	जैआ.	४०३,
		४०४
सोऽतप्यत	शआ.	२९६
सोऽत्मानमभिध्या	मैउ.	१६५४
सोऽत्र पञ्चम्यां वि	जैआ.	४०४
सोऽदक्रामत्सा ग	असं.	१६४
सोऽदक्रामत्सा गा	”	१६३
सोऽदक्रामत्सा द	”	”
सोऽदक्रामत्सा दे	”	”
		१६४
सोऽदक्रामत्साऽन्त	”	१६३
सोऽदक्रामत्सा पि	”	”
सोऽदक्रामत्सा म	”	”
सोऽदक्रामत्साम	”	”
सोऽदक्रामत्सा व	”	”
सोऽदक्रामत्सा स	”	”
		१६४
सोऽदक्रामत्सामु	”	१६३
सोऽदक्रामत्साह	”	”
सोऽदक्रामत्सेत	”	”
सोऽदीची दिक्	तैआ.	१६०,
		३०६
सोऽद्वृह्यत सो	असं.	४३२
सोऽद्वय एव पुर	ऐउ.	५८१
सोऽधस्ताच्छकट	छाउ.	८२५
सोऽधुव इवासी	तत्राउ.	१३४६
सोऽध्वनः पारमा	काउ.	१४१३
सोऽनङ्गुलिरा	तैआ.	२६५
सोऽनया त्रय्या वि	शआ.	२९३
सोऽनादिष्टां दिश	असं.	४५३
सोऽनावृत्तां दिश	”	”

सोऽनुवीक्ष्य नान्य	बृउ.	१०१६
सोऽनुताभिसंधो	छाउ.	९२४
सोऽनेन त्रेधा वि	शआ.	३१
सोऽन्तमेवापश्यत्	गोआ.	४७२
सोऽन्तरादन्तरं	शिरउ.	१६७७
सोऽन्तरिक्षं यजु	प्रउ.	१५११
सोऽन्तर्धीयते	ऐआ.	१५२
सोऽन्तर्वानभवत्	तैआ.	२८९,
		२९०
सोऽन्तवेलायामे	छाउ.	८१७
सोऽन्नमत्ति प्रती	बृउ.	१०४७
*सो न्वीक्ष्य नान्यदा	”	१०१६
सोऽपश्यत्पुष्कर	तैआ.	२८६
सोऽपहतपाप्मा	गोआ.	१२०
सोऽपहृत्य पाप्मा	जैआ.	४०६
*सोऽपानेनातिप्र	बृउ.	११२२
सोऽपानेनातिप्रा	”	”
सोऽपाम्	तैआ.	१५९,
		३०६
सोऽपि प्रगवाख्यः	मैउ.	१६६२
सो पुनरेकैव	बृउ.	९९९
सोऽपोऽभ्यतपत्	ऐउ.	५८४
सोऽपोऽसजत वा	शआ.	२९३
(सो)ऽप्यन्यान् बहून्	तत्राउ.	१३५६
सोऽबिभेत्तस्मादे	बृउ.	१०१८
सोऽब्रवीत्	शआ.	२९६;
	ऐउ.	५४७; शिरउ.
		१६७७
सोऽब्रवीत्कबन्ध	बृउ.	११४६
सोऽब्रवीत्क्रौञ्चं सा	तत्राउ.	१३४५
सोऽब्रवीत् ज्यायान्वा	शआ.	२९६
*सोऽब्रवीत्पतञ्च	बृउ.	११४६
सोऽब्रवीत्पतञ्ज	”	११४६,
		११४७
सोऽब्रवीत् पुनर्वा	तत्राउ.	१३३६
सोऽब्रवीत्पुरुषः	”	१३४४
सोऽब्रवीत्प्राणो भू	”	१३७१
सोऽब्रवीत् बहु वा	”	१३४४
सोऽब्रवीत्सुधन्वा	बृउ.	११२९
सोऽब्रवीदन्न वै	तत्राउ.	१६४७
सोऽब्रवीदनिर	”	१३४५
सोऽब्रवीदहं दे	”	१३७१
सोऽब्रवीदहमे	”	”
सोऽब्रवीदातो वै	ताआ.	४०२
सोऽब्रवीदासन्दी	असं.	४५१
सोऽब्रवीदिमान्वै	तत्राउ.	१३३३.

सोऽब्रवीदुग्रं सा	तत्राउ.	१३४५
सोऽब्रवीदिकं वा	”	१३३३
सोऽब्रवीदेतावा	शआ.	२९६
सोऽब्रवीद्यद्वो न	तत्राउ.	१३४५
सोऽब्रवीद्यस्त्वैते	”	१३३५
सोऽब्रवीद्वल्गु सा	”	१३४५
सोऽब्रवीन्न वै मां	”	१३४४
सोऽब्रवीन्मन्द्रं सा	”	१३४५
सोऽब्रवीन्मृत्युरे	”	१३५३
सोऽभिमानादूर्ध्व	प्रउ.	१४९७
सोम एकैभ्यः प	असं.	३६७
सोम एवाक्षम	बृउ.	१०२१
सोमं दधानोऽप	असं.	१६६
सोमं भरद्वाह	ऋसं.	६५
सोमं यश्चके के	असं.	२४८
सोमः पवते ज	ऋसं.	७२
सोमः प्रातिवेश्यः	कौउ.	६९२
सोमदेवत इ	बृउ.	११७५
सोऽमन्यत	तैआ.	२८६;
	मैउ.	१६५४
सोमपः सोमात्प्रा	कौउ.	६९२
सोमपाः सोमपा	असं.	३९१
*सोममाहुर्वृष्णो	तैसं.	२२१
सोममिन्मा सुन्व	ऋसं.	६०
सोममेनामेके	असं.	४३५
सोमराज्यमुक्थे	मैउ.	१६६५
सोमशुष्मः सात्य	तत्राउ.	१३६७
सोमसज्ञोऽयं भू	मैउ.	१६६०
सोमसूर्यः पुर	शिरउ.	१६७८
सोमस्ये त्वा शुम्ने	मैसं.	४५९.
सोमस्येव मौज	ऋसं.	४८३
सोमांशव उप	कौउ.	६३६
सोमान् स्वर्णं	नाउ.	१६३३
*सोमापूषणा अं	मैसं.	७३
सोमापूषणा ज	ऋसं.	”
सोमापूषणाव	”	७४
सोमाय स्वाहा	असं.	३९९
सोमाय स्वाहेत्य	बृउ.	१३०२
सोऽमावास्यां रात्रि	”	१०५५
सोऽमुनेव स ए	छाउ.	७६४
सोऽमृतत्वं गच्छ	जैआ.	४०३
सोऽमृतादेवोदे	तत्राउ.	१३३७
सोऽमृतो भवति	शआ.	३२,
		११८
सोमो गन्धाय	ताआ.	५१६

सोमो यत्रातिरि	श्वे. १५८६	सोऽथमेघेनेध्वा	गोब्रा. ४७२	स्तनयित्पुरेवा	जंब्रा. ४०४
सोमो राजाऽन्नस्या	कौ. ६७६	सोऽष्टौ द्रप्सान्गर्भ्य	शब्रा. २९५	स्तनयित्पुरेवे	बु. ११६९
सोमो राजा मस्ति	असं. ४३४	सोऽध्यन्तीमद्भिर	बृ. १३०९	स्तनो हिरण्यस्य	छा. ८७१
सोमो राजाऽसि वि	कौ. ६४८	सोऽसावस्या अवी	तत्रा. १३४४	स्तव्ध्वाऽधिकं क्षण	शिखा. १६८३
सोमो विश्वान्यत	ना. १६३५	सोऽसावादित्यः	,, १३४७	स्तम्बशाखेवाप	मै. १६५६
सोऽयं क्रुमारो रु	शब्रा. २९७	सोऽसावादित्यः प	बृ. १००८	स्तवाम सूर्य भु	असं. १७०
सोऽयं पुरुषः प्र	,, २९२	सोऽसौ चन्द्रः परे	,, ,,	स्तविष्यमाणो नो	,, ४८
सोऽयं पुरुषेऽन्तः	,, ३२८	*सोऽसौ चन्द्रमाः प	,, ,,	स्तुता मया वर	,, ५१३
सोऽयं पुरुषो यः	शब्रा. ३४७	सोऽसौ यौरभवत्	तत्रा. १३३०	स्तुतो मया वर	ना. १६४४
सोऽयं प्राणः सृष्ट	शब्रा. ३२०	सोऽस्मिन्नन्धे तम	ताब्रा. २८५	स्तुषे जनं सुव्र	ऐ. ५२५
सोऽयं मनुष्यलो	बृ. १०५७	सोऽस्य लोकः पुनः	जैब्रा. ४०४	स्तुहि श्रुतं गर्त	ऋसं. १२७;
सोऽयं वायुः परे	,, १००८	सोऽस्य संकल्पादे	छा. ९५९	स्तुहि श्रुतं गर्त	तैसं. १४६
सोऽयं शरीरैः प	ऐ. ३२७	सोऽस्याऽऽत्माऽमुष्मि	जैब्रा. ४०३	स्तेगो न क्षामस्ये	ऋसं. १९४
सोऽयमग्निः सृष्ट	शब्रा. ३२१	सोऽस्यायमात्मा पु	ऐ. ५९०	स्तेयं दुष्कृतं वृ	असं. ३११
सोऽयमाकाशः प्रा	ऐ. ५३८	सोऽस्यैष सर्वस्या	शब्रा. ३७	स्तोत्रं मे विश्वमा	,, ८६
सोऽयमात्मा चतु	मा. १५२०	सोऽस्यैषोऽन्तरात्म	,, ४६५	स्तोत्रियोऽनुरूपो	तत्रा. १३५६
सोऽयमात्मा त्रेधा	शब्रा. ३१	सोऽहं नित्यानित्यो	शिर. १६७७	स्तोमः	ताब्रा. ४०२
सोऽयमात्माऽध्यक्ष	मा. १५२७	सोऽहं भगवः शो	छा. ९२७	स्तोममहदुरु	का. १४०२
सोऽयमात्मा सर्व	ऐ. ५६६	सोऽहं भगवः स	,, ९३९	स्तोमेन हि दिवि	ऋसं. १०२
सोऽयमात्मेममा	,, ५७२	सोऽहं भगवते	बृ. १२०२,	*स्तोमैर्विधेमात्र	मैसं. २०
सोऽयमेक इवै	शब्रा. ३२८	१२०४, १२१६, १२३६, १२५५		स्तोमो वा एष त	तत्रा. १३४२
सोऽयास्य आङ्गिर	बृ. १००६,	सोऽहं भगवो म	छा. ९२७	*स्त्रिय इति होवा	बृ. ११७०
	१०१०	सोऽहं सत्यकामो	,, ८३९	,, ,, ,,	,, ११७१
सोऽरज्यत ततो	असं. ४५३	सोऽहमपापो वि	ना. १६३३	स्त्रियं दृष्ट्वाय कि	ऋसं. ४८५
सोऽरिष्ट न मरि	,, ३८५	सोऽहमस्मीत्यग्रे	बृ. १०१६	स्त्रियः सतीः	तैआ. २६३
सोरुः सती न नि	तैआ. १८०	सोऽहमेतमेवं	छा. ८१३	*स्त्रियः सतीस्ता उ	,, २१२
सोऽरुक्ष उपासि	तत्रा. १३६५	सोऽहीनैरदक्षि	गोब्रा. ४७२	स्त्रियः सतीस्ता उ	ऋसं. ,,
सोऽरोदीत्	शब्रा. २९६	सोऽहीनैरदक्षिणा	,, ,,	स्त्रियन्नपानादि	कौ. १६७५
सोऽरोदीत्प्रजा	तैब्रा. २८९	सो हेयमीक्षांच	बृ. १०२०	स्त्रिया एव विव	शब्रा. १५०
सोऽर्चन्नचरत्	बृ. ९९०	सोऽहोरात्रयोः सं	तैब्रा. २९०	स्त्रिया मिथुनम्	गोब्रा. ११९
सोऽर्चन् आम्यंश्चार	शब्रा. २९९	सौकरायणः का	बृ. १२६५	स्त्रिया सह शेते	छा. ७८१
सोऽर्ध्व दिक्	तैआ. १६०,	*सौकरायणत्रै	,, १२६६	स्त्रियो वा अग्निर्वै	जैब्रा. ४०४
	३०६	सौक्ष्म्यत्वादेतत्प्र	मै. १६६०	स्त्री च वै पुरुष	तत्रा. १३८८
सोऽर्थमा स वरु	असं. १७४	सौषधीभिः शान्तिः	मैसं ५१५	स्त्रीपुंनपुंसके	मै. १६५८
सोऽवर्धत स म	,, ४५०	स्कम्भ इदं सर्व	असं. २४९	स्त्रीपुंसौ ब्रह्मणो	पैसं. २५२
सोऽवसदुशीन	कौ. ६७४	स्कम्भं तं ब्रूहि क	,, २४७	स्त्रीप्रज्ञैव तर्हि	बृ. १२५९
सोऽविमुक्त उपा	जा. १६६१	स्कम्भ त्वा वेद प्र	,, ,,	स्त्री सावित्री	तत्रा. १३८७
सोऽविमुक्तं ज्ञान	,, ,,	स्कम्भस्तदग्रे प्रा	,, ,,	स्त्री स्मैवाग्रे संच	,, १३४७
सोऽविमुक्तः कस्मि	,, ,,	स्कम्भेनेमे विष्ट	,, २४९	स्थलमिति भरम	शिर. १६८०
सोऽवेत्	शब्रा. २९९	स्कम्भे लोका स्कम्भे	,, २४७	स्थाणुमन्येऽनुसं	का. १४२९
सोऽवेदन्यद्वा ए	,, २९३	स्कम्भो दाधार द्या	,, २४८	स्थाणुरयं भार	कौ. ६९२
सोऽवेदहं वाव	बृ. १०२०	स्कम्भो दाधार प्र	,, ,,	स्थानादपसर	मै. १६५३
सोऽनुते सर्वान्का	तै. ७०६	स्तनयित्तुः सावि	गोब्रा. ११९	स्थावरं जङ्गमं	ऋसंखि. ३३६;
सोऽआम्यत्	शब्रा. २९२,	स्तनयित्तुरेव	तत्रा. १३८७	स्थावरोऽस्म्यथ ज	शि. १५७३
२९३, २९५;	बृ. ९९८			स्थावरोऽस्म्यथ ज	तैआ. २६३

स्थितं च यच्च	वृ. १०८२
स्थितिः संहिता	कौ. ६८७
स्थिरं मनः कृणु	ऋ. ४७५
स्थिराणि न परा	" ५६
स्थिरेभिरङ्गैः पु	" १२६
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु	" ४९६;
	ऐ. ५२५
स्थूणां दिवस्तम्भ	तब्रा. १३३३
स्थूणामेव दिव	" "
स्थूलमेतद्भ्रस्त्र	शिखा. १६८२
स्थूलानि सूक्ष्माणि	श्वे. १६३६
स्फुलिङ्गिनी विश्व	मु. १४५०
स्मरन्ति हैवास्य	कौ. ६४३
स्मरन्ति हैवास्यात्	" "
स्मरन्ते हैवास्य	" "
स्मरमुपास्वेति	छा. ९३६
स्मराद्वाव भूयो	" "
स्मरेण वै पुत्रा	" "
स्मरो वावाऽऽकाशा	" "
स्मरेण विज्ञान	ना. १६५१
स्मृतं कालविशे	तै. १७९
स्मृतिः प्रयक्ष्मै	" "
स्मृतिलम्भे सर्व	छा. ९५०
स्मृत्या स्मरम्	ना. १६५१
स्याम ते सुमता	ऋ. १७
स्युष्ट्रे सत्या इहा	" "
स्योना पृथिवि भ	ऐ. ५२५;
	ना. १६३२
स्योनास्ता मह्यं च	असं. ५०८
स्योनेन मे सन्ति	ना. १६४९
स्योमो भविष्यसी	असं. ४४२
स्युर्द्विर्नेक्षण	" ४७३
स्युचा हस्तेन प्रा	" "
स्युचौ बाहू तावि	श्रा. ३७
स्युताद्यमत्त्रिर्दि	असं. १७१
स्युं योगश्च ततो	मै. १६६२
स्युं लोकं न प्रति	तै. २७
स्युं ह्यपितो भव	छा. ९०४
स्युः प्रपद्ये	तै. २६५
स्युः प्रपद्येऽमुना	छा. ८१३
स्युः स्वाहेति	वृ. १३०३
स्युः स्वाहेत्यमौ हु	" "
स्युः देहमरणि	श्वे. १५८४
स्युः पितृभ्य आ	छा. ७८५

स्वधाकारं पित	वृ. १२७५
स्वधाकारेणान्ना	असं. ४५५
स्वधा च यत्र तृ	ऋ. ३५५
स्वधा पितृभ्यः	ना. १६३४,
	१६३५
स्वधा पितृभ्यः पृ	असं. ३९९
स्वधा पितृभ्यः स्वा	ना. १६४८
स्वधा पितृभ्यो अ	असं. ३९९
स्वधा पितृभ्यो दि	" "
स्वधा याश्चकृषे	" ३८६
स्वधिचरणेयम्	तै. ५१४
स्वधेति पितरः	श्रा. ११७
स्वध्यक्षमन्तरि	तै. ५१४
स्वनवत्येषाऽस्य	मै. १६५८
स्वपितीत्याचक्ष	प्र. १५०५
स्वप्रस्थानस्त्रैज	मा. १५२८
स्वप्रस्थानोऽन्तः प्र	" १५२२
स्वप्रान्त उच्चाव	वृ. १२०१
स्वप्रान्तं जागरि	का. १४२१
स्वप्रान्तं मे सोम्य	छा. ९०४
*स्वप्रान्तमेव सो	" "
स्वप्नेन शारीर	वृ. १२००
स्वप्ने स जीवः सु	कै. १६७५
स्वप्ने वै तन्दीर्नि	असं. ३११
स्वभावमेके क	श्वे. १६१७
स्वमपीतो भव	छा. ९०४
स्वयं कैलासप	क्या. १२
स्वयंशु ब्रह्म प	तै. ४२८
स्वयंसूः कद्रयपः	असं. १७८
*स्वयमात्मानम	तै. ७२५
स्वयमिदं मनो	तब्रा. १३५६
स्वयमु तत्र य	" १३५७
स्वयमेनमभ्यु	असं. ४५४
स्वयाऽऽगया तृती	तब्रा. १३४१
स्वयाऽऽगया प्रातः	" १३४०
स्वयाऽऽगया माध्य	" "
स्वयोनानुपशा	मै. १६६४
स्वर इति होवा	छा. ७६५
स्वर इतीममा	" ७५५
स्वरस्य का गति	" ७६५
स्वरस्य तु घोषे	तब्रा. १३३५
स्वराडापः	ना. १६४३
स्वरिति	श्रा. २९८
स्वरिति दिवं सू	का. २८२

स्वरिति प्रतिष्ठा	वृ. १२७४
स्वरिति सामभ्यः	छा. ८४८
स्वरितोदात्त ए	गो. ५२३
स्वरित्यस्याः शिरः	मै. १६५८
स्वरित्येव साम	तब्रा. १३३०
स्वरैरहानि	ऐ. ५५४
स्वर्गं लोकमभि	तै. २८
स्वर्गं लोकमिया	" "
स्वर्गं लोकमेति	" २९
स्वर्गं वयं लोकः	छा. ७६५
स्वर्गकामः प्रतृ	ऐ. ६०१;
	कौ. ६८५
स्वर्गलोकः पुण्य	ता. ४०२
स्वर्गलोका अमृ	का. १३९२
स्वर्गस्तस्तावहि	छा. ७६५
स्वर्गा लोका अमृ	असं. ३९३
स्वर्गेण लोकेन	कौ. ६८६
*स्वर्गेयाय शक्त्यै	श्वे. १५८५
स्वर्गे लोके न भ	का. १३९१
स्वर्गे लोको ज्योति	तै. ३२२
स्वर्गे लोको ब्रह्म	ऐ. ६०६;
	कौ. ६८६
स्वर्ग्यं वा एतत्सा	ता. ४०२
*स्वर्ग्यया शक्त्या	का. १११
*स्वर्ग्याय शक्त्ये	मै. "
*स्वर्ग्याय शक्त्या	शु. "
स्वर्गज्ञानो नभ	ऋ. ७१
*स्वर्गस्नेयात्पूतो	कै. १६७६
स्वर्गियो यो नः प्र	तब्रा. १३८८
स्वर्ग्यन्तो नापेक्ष	असं. ३६९
स्वर्ग्यस्य च केव	" २४८
स्वर्ग्यो ह्येषा मनी	तब्रा. १३६६
स्वर्ग्ये सत्यशु	ऋ. २
स्वर्ग्यो रोहित	असं. १७०
स्वस्ति	तब्रा. १३८७
स्वस्ति ते सूर्य च	असं. १७१
स्वस्तिदा विशस्य	ना. १६३२,
	१६४६
स्वस्ति न इन्द्रो वृ	ऋ. ४९५;
	ना. १६३२
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अ	ऋ. ४९५;
	ना. १६३२
स्वस्ति नो मघवा	ना. १६३२
स्वस्ति भूमे नो भ	असं. ५०८

स्वस्ते शीर्षम्	शिरः	१६७८
स्वां चाग्ने तनुवं	नाड.	१६३४
स्वां प्रजां पितरः	ऋसं.	३६२
स्वां प्रजां बृहद्	"	"
स्वाधीर्देवः सवि	"	९९
स्वाध्यायप्रवच	तैज.	७०२, ७०४
स्वाध्यायान्मा प्रम	"	७०४
स्वाप्ययो ह वैतं	शब्रा.	११६
स्वायुधः पवते	ऋसं.	७१
स्वाराज्यमतिरा	मैज.	१६६५
स्वार्थे स्वाभाविके	"	१६५७
स्वाहाकारं च व	बृज.	१२७५
स्वाहाकारवष	तब्राज.	१३३४
स्वाहाकारेणाद्या	असं.	४५५
स्वाहाकारो वष	बृज.	१२७५
स्वे महिम्नि यदि	छाज.	९४४
स्वैर्मन्त्रैरनु	तब्राज.	१३४२
स्वोर्ध्वोदातनोत्	ताब्रा.	२८५
ह		
हंसः शुचिषद्	ऋसं.	९५;
काज. १४२७; नाज.	१६३५,	१६४५
हंसस्ते पादं व	छाज.	८३३
हवाय शत्रून्वि	ऋसं.	३४३
हन्तकारं मनु	बृज.	१२७५
*हन्त खलु भव	"	१२६०
हन्त त इदं प्र	काज.	१४२८
*हन्त त इदं व	"	"
हन्त तर्हि भव	बृज.	१२६०
हन्त तिरोऽसानी	"	१०२०
हन्त तेऽनया का	"	१०९०, १२५९
हन्त त्रयस्य वे	ईज.	१३३०
हन्त नु प्रतिष्ठां	जैब्रा.	२८६
हन्त पत इम	छाज.	७६९
हन्त सार्धं समे	तब्राज.	१३७१
हन्ताऽऽचार्यं पुच्छा	कौज.	६२७
हन्ता चेन्मन्यते	काज.	१४०६
हन्तानुपानमि	छाज.	७६८
हन्तास्माच्छरीरा	शाभा.	३२२; ऐज.
हन्तास्मै प्रतिष्ठां	बृज.	१३०५
हन्तास्मै प्रब्रवा	छाज.	८३५
हन्तास्यैव सर्वे	बृज.	१०६१

हन्ताहं पृथिवी	ऋसं.	६३
हन्ताहं भूतेष्वा	शब्रा.	४७१
हन्ताहं मदेव	गोब्रा.	३०३
हन्ताहमन्यम	छाज.	८७२
हन्ताहमिमारित	"	८९३
हन्ताहमेतद्ग	"	७६५, ७६६
हन्ति पाप्मानं ज	बृज.	१२७४
हन्ति रक्षो हनत्या	ऋसं.	३५४
हन्तेदं पुनः श	ऐज.	५३३
हन्तेमं त्रयं वे	तब्राज.	१३३२
हन्त्वेनान् प्र दह	असं.	१६९
हन्वोर्हि जिहाम	"	२४४
हयो भूत्वा देवा	बृज.	९९०
हरिः हरन्तम	तैआ.	४१२;
हरिः पतङ्गः प	नाज.	१६४६
हरितः कश्यपः	तैआ.	२७१
हरिततृणाभ्यां	बृज.	१३१०
*हरिततृणे वा प्र	कौज.	६४७
हवनश्रुचो रु	"	"
हविर्भिरैके स्व	ऋसं.	१२७
हविर्होष देवा	ऋसंखि.	३६८
हविषा वर्धया	शब्रा.	४६६
हविष्पान्तमज	तैब्रा.	४२७
हवीमभिर्हव	ऋसं.	१००
हव्यवाडनपा	"	१२६
हसितः रुदितं	तैब्रा.	३१७, ३४८
हसो नरिष्टा नृ	तैआ.	२४६
हसो मे क्रीळा मे	असं.	३११
हस्ताभ्यां कर्माणि	तब्राज.	१३६३
हस्ताभ्यां स्पृशति	"	१३८७
हस्ताभ्यां हि कर्म	"	१३५४
हस्ताभ्यामिति	बृज.	११२३
हस्तावेवास्या ए	कौज.	६३८
हस्तिना गाधमै	"	६६८
*हस्तो वै ग्रहः	तब्राज.	१३५७
हस्तौ चाऽऽदातव्य	बृज.	११२३
हस्तौ वै ग्रहः	प्रज.	१५०८
हस्त्यृषभः सह	बृज.	११२३
हा इदं नो मासु	"	११८२, ११८४, ११८५, ११८६
*हारिकर्णांपुत्रो	शाब्रा.	१५०
*हावनश्रुचो रु	बृज.	१३१०
	तैब्रा.	१२७

हाश्चु हाश्चु हाश्चु	तैज.	७४७
हिकार इति त्र्य	छाज.	७८०
हिकार उच्छिष्टे	असं.	४४५
हिकारभाजिनो	छाज.	७७८
हिकारश्चाऽऽहाव	तब्राज.	१३४६
हिकारो वा अस्य	"	१३४८
हिकृण्वती वसु	ऋसं.	२१८
हिकृतमसि	बृज.	१३०३
हिक्रियमाणम	"	"
हिता नाम नाड्यो	"	१०७६
हिता नाम हृद	कौज.	६८०
हित्वायावचं पु	ऋसं.	३५७
हित्वावचं पुन	असं.	"
हिमं ग्रंसं चाधा	"	१७०
*हिरण्यमयः शकु	तैब्रा.	४६१
"	"	४६३
हिरण्यमयी अर	बृज.	१३०९
हिरण्यमेन पा	"	१२८४;
ईज. १३२५; मैज.	१६६५	
हिरण्यमे परे	मुज.	१४६६
*हिरण्यमे पुरे	"	"
हिरण्यमयो ह वा	ऐज.	५३१
हिरण्यं वा अग्ने	तैब्रा.	४०६
हिरण्यकक्ष्यान्सु	तैआ.	४१६
हिरण्यगर्भ इ	शुसं.	२५५
हिरण्यगर्भं ज	श्वेज.	१५९३
*" " "	"	१६०८
हिरण्यगर्भं प	असं.	२४७;
श्वेज १६०८; नाज.	१६३६	
हिरण्यगर्भः स	ऋसं.	१९४
हिरण्यज्योतिः स	तैआ.	२७१
हिरण्यदन्तो र	तब्राज.	१३५५
हिरण्यदा अग्नौ	ऋसं.	३६६
हिरण्यपक्षं व	तैआ.	४१४
हिरण्यपक्षः श	तैसं.	२२
हिरण्ययो वेत	नाज.	१६४५
हिरण्यलिङ्गाय	"	१६४१
हिरण्यवर्णः श	मैज.	१६६४
हिरण्यवर्णां ह	ऋसंखि.	४९९
हिरण्यवर्णाः शु	असं.	१५६
हिरण्यवर्णास्त	तैब्रा.	४८९
हिरण्यशृङ्गं व	नाज.	१६३३
हिरण्यशृङ्गोऽयो	ऋसं.	४३०
हिरण्यस्तूपः स	"	१०५

हिरण्यय नमः	नाउ. १६४०	हृदयं वै ब्रह्म	बृउ. ११८६	हृदि प्रतीष्या क	तैआ. १५८,
*हि व्येव त्वा ज्ञप	कौउ. ६७९	हृदयं वै सम्राट्प	" "		३०६
हीना वा एते ही	ताब्रा. ४८६	हृदयं वै समाट्स	" "	हृदिस्था देवताः	शिरउ. १६७९
हीयतेऽन्यतरा	छाउ. ८४७	*हृदयं वै सर्वे	" "	हृदि ह्ययमात्मा	प्रउ. १५०२
हुं बगिति श्रीका	तब्राउ. १३५९	हृदयमेव मे	जैब्रा. ३१६	*हृदि ह्येष आरमा	" "
हुं बो इति पशु	" "	हृदयमेव सन्ना	बृउ. ११८६	हृदैव ह्येते प	तब्राउ. १३६६
हुं भा इति ब्रह्म	" "	हृदयमेवाय	" "	हृद्याकाशमयं	मैउ. १६६२
हुं भा ओं वागित्य	" १३७०	हृदयस्य रेतो	ऐउ. ५३१	हेमन्तो निधनम्	छाउ. ७७६,
हुं भा ओवा इत्ये	" १३५९	हृदयादायता	मैउ. १६६८	७८३; तब्राउ.	१३४०
हुं मेर्याह, माऽत्र	" १३५८	हृदयाद्धृदयं	तैआ. ४१२	हैमनावेनं मा	असं. ४५२
हुतं च प्रहुतं	बृउ. १०४७	हृदयान्मनः	ऐउ. ५८१	हैमनौ मासौ गो	" "
*हुतादमग्निं यमु	कासं. १९	हृदयेन हि रू	बृउ. ११७४	हो इति तृतीय	ताब्रा. २८५
हुतोऽयं संस्थितो	असं. ३९६	हृदयेन हि श्र	" "	होता भोक्ता हृवि	मैउ. १६६१
हृस्वोद्धृत्य प्राश्ना	बृउ. १३०८	*हृदयेन हि स	" ११८६	होता यक्षद्यज	ऋसं. १८१
हुमिति चन्द्रमाः	तब्राउ. १३६७	हृदयेन हि सत्यं	" ११७५	होतारं रत्तधा	" १;
ह इत्येकमक्ष	बृउ. १२७०	हृदये होव रू	" ११७४	गोत्रा.	५२४
हृत्पुण्डरीकं वि	कैउ. १६७३	हृदये होव रे	" ११७५	होतारमग्निं म	ऋसं. १३
हृत्प्रतिष्ठं यद	ऋसं. ३३५;	हृदये होव श्र	" ११७४	होतृषदनाद्वै	छाउ. ७५९
	शिउ. १५७३	हृदये होव स	" ११७५,	होत्रत्विजाऽग्निना	बृउ. १११६
			११८६	हो होऽयि भल्लाक्ष	छाउ. ८२३
हृत्सु क्रतुं वरु	ऋसं. ७७	हृदा तष्टेषु म	ऋसं. ४९१	हृस्वोदात्त एका	गोब्रा. ५२३
हृत्स्वाशय आल्ल	तब्राउ. १३६७	हृदा पश्यन्ति म	तैआ. २७२;	हादनयो विष्फु	छाउ. ८५९
हृदय इति	बृउ. ११७५,		तब्राउ. १३६६	*हादुनयो विष्फु	बृउ. १२९६
	११७६	हृदा मनीषा म	काउ. १४३६;	हादुनयो विष्फु	" "
हृदय इति हो	" ११७४,	श्वेउ. १५९७, १६०९;	नाउ.	हिया देयम्	तैउ. ७०४
	११७५		१६३१	*हीश्व ते लक्ष्मीश्व	तैआ. २५५
हृदयं निरभि	ऐउ. ५८१	* " " श्वेउ.	१६११	हादनयो विष्फु	जैब्रा. ४०४
हृदयं ब्रह्मोस्या	" ५३२	हृदा हृदिस्थं	" "	हयामि ते मन	असं. ३८६
हृदयं मयि	तैआ. २६०	हृदि त्वमसि यो	शिरउ. १६७९	हयामि वां ब्रह्म	तैआ. ३३३
हृदयं यूपः	नाउ. १६५१				

Index of the important Sanskrit Words

अंश a name of an *Āditya* viz. भग; a part
६, १६६, १६५७, ६५.

अंशप्राप्त the portion allotted to अंश १६६.

अंशु a filament of the *Soma* plant; a
ray (of the Sun); *Soma*; *Soma*-
shoots ४९, ६५, ६९, १०५, २५१, ४७३,
६४७.

अंशुधारय a lamp; one that possesses rays
१६६५.

अंशुमत् radiant; rich in filaments १७१,
३७७.

अंस shoulder २४४, ३१४, ४३४, ३६, ६५५.

अंहस् anxiety; sin; trouble ७६, ९६, १२५,
८९, ३८३, ५०४, १६४५.

अंहुर straitened; distressed; sinful ४८३.

अंहूर्णा distressing; distress; sin ३३९.

अकर्ण without ears १३३१, १५९९, १६७६.

अकर्तृ not an agent ९२४, १५८०, १६५५.

अकल dumb; entire; without parts
१२८८, १५१७, १६१८, ६०.

अकाम without desire; free from desire;
insatiability ३७, २५१, १२०९, ३२, १३८७,
१४८१, १६५६.

अकामचार without freedom ९४७, ५७.

अकामयमान free from desire १२३२.

अकामहत not smitten with desire ७२८,
१२१६.

अकाय bodiless ३३६, १३१९, १५७४.

अकार the letter or sound 'अ' २८३, ५२१,
६९, ६१३, ८८, १५२७, १६८२.

अकार्यकारिन् an evil-doer १६३४.

अकाल timeless १६६०.

अकुमार not a boy ९०.

अकुशल not clever ६८९.

अकृत incomplete; not done; uncreated;
not created ४०३, ९८२, १०३९, ५८, १४०३,
५२, १६७८.

अकृतार्थ having one's object unaccom-
plished १६५५.

अकृतवच् possessing unimpaired splen-
dour ३४३.

अकृत्स्न incomplete ३२१, १०२२, ४२.

अकोविद unwise १३६८.

अक्त smeared with; adorned; decorated
१०५, २७२, १३०७, ६५, ६६.

अकृत् a ray १७१, ३५७, ४१७.

अकृत् above thought or will or intellect;
without sacrifice ३४२, १४०६, १५९९,
१६३५.

अक्रोधमय free from anger १२२९.

अक्ष an axle; a die for gambling; an
eye ६२, २११, ३२२, ४८३, ८४, ८५, ८८,
९२९, १३३५.

अक्षुण्वत् having eyes २१२, ६३, ४९१.

अक्षत uninjured ५०७.

अक्षय undecaying ३४१, १३३६.

अक्षय्य undecaying; inexhaustible १८०,
३०२, ४०६, ०७, १६५६, ६३.

अक्षर immutable; imperishable; a sylla-
ble; the immutable i.e. *Brahman*
२७, ३०, ३१, ३५, १६९, ७३, ७५, २१६, २३,
२५, ६२, ९६, ९८, ३०४, ०५, ४८, ४९, ५२१,
२२, २३, २४, ४७, ५४, ६९, ७४, ७५, ६०१,
०३, ०४, ११, १२, ८५, ८७, ८८, ७४६, ४८,
४९, ५०, ५४, ५७, ५८, ८०, ८९, ८१४, १५,
९६२, ११५९, ६५, १२६८, ६९, ७०, ७२, ७४,

७९, १३३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३९,
४२, ४३, ५०, ५६, ५८, ५९, ६१, ६६, ६७,
६८, ६९, ७१, ७२, १४०४, ११, ४५, ४७, ५३,
५४, ६०, १५०८, ०९, ११, २०, ७९, ८०,
१६०५, ०९, १२, २९, ३७, ४०, ४४, ५८, ६२,
६६, ६७, ७४, ७७, ७८, ८१, ८२.

अक्षररूप of the form of a syllable ६८७.

अक्षरवत् united with the imperishable
१३४३.

अक्षरसंपद् the perfection of syllables ३०.

अक्षरसमान like the syllables in number
६१२, ८८.

अक्षरसामानाय alphabet ६१३, ८८.

अक्षसेन name of a king—according to
Hume and Monier-williams it is
उक्षसेन १६५३.

अक्षाध्यक्ष overseer of senses १६५८.

अक्षि an eye ८५, ११४, १५, १६, १७, १८, ७५,
४३५, ३९, ५६, ६९, ९६, ५१३, २५, ८१, ८३,
६१६, ८९, ७६१, ६३, ८३९, ९७१, १०८०,
८५, ११८७, १२७३, ७४, १३४२, ४३, ५६, ८६,
१६४९, ६५, ६८.

अक्षित undecaying; unexhausted; inde-
structible; inexhaustible ६९, १७९, ८२,
३५५, ९७, ९८, ४७०, ८१७, १६४८.

अक्षिति imperishableness; indestructibi-
lity; inexhaustibility; an imperisha-
ble deity or being; probably 10,000
billions ३०८, १२, ४४९, ६५९, १०४६, ४७०,
८०, १३३२, ३३, ३७, ३८, ५९, ६२.

अक्षिपत् as much as could fall into the
eyes; a little; a glance ६३.

अक्षीयमाण unfailling; inexhaustible;
imperishable ११, ८९.

अक्षेत्रज्ञ not knowing the spot ९६०.

अक्षण्याकृत done wrongly (M. W.) (see
comm. अक्षण्या + अकृतम् = कोणच्छिद्रतोऽन्तरा
अकृतम्) १०५८.

अखण्डबोध uninterrupted cognition;
absolute knowledge १६७५.

अखला not mischievous १३३१.

अगत not reached ६१८.

अगद free from disease ४०४, ६५५, ८१५,
१३६८.

अगन्ध odourless ११५९.

अगन्धवत् odourless १४१७.

अगस्त्य name of a *Rṣi* १३७२.

अगार a house; abode ६५४.

अगीत that which is not to be sung १३४५.

अग्रहता homelessness १३५३, ५४.

अग्रह्य unseizable ११७६, ८९, १२४७, ६४.

अगोत्र without family १४४५.

अगोह्य not to be concealed ५९.

अग्नि the deity अग्नि; sacrificial fire; fire;
a specific altar called अग्निचयन; concei-
ved as अग्नि १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०,
११, १३, १४, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२,
२३, २४, २५, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३,
३४, ३५, ३६, ३७, ४२, ४३, ४५, ७२, ७७,
९३, १००, ०१, ०२, ०३, ०८, १०, १२, १४,
१६, १७, २८, ३२, ५०, ५२, ५३, ५५, ५६,
५७, ६०, ६६, ६८, ६९, ७०, ७३, ७५, ८१, ९१,
९४, ९६, २०२, १०, २७, २९, ३३, ४५, ४६,
४७, ४८, ५०, ५१, ५५, ५९, ६०, ६५, ६६,
६७, ७०, ७२, ७४, ७७, ८१, ८२, ८३, ८६,
८८, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ३००, ०१,
०४, ०५, ०६, ०८, ०९, १२, १४, १८, १९,
२०, २१, २२, २९, ३०, ३१, ३६, ३७, ३९,
४०, ४३, ४५, ४७, ६०, ६८, ६९, ७२, ७३,
७५, ७७, ७९, ८१, ८२, ८५, ८८, ९५,
९६, ९८, ९९, ४००, ०२, ०४, ०६, ०७, ०९,
१०, १३, १४, १९, २१, २३, २४, २६, २७, ३२,
३४, ४०, ४४, ५२, ५३, ५४, ५६, ५८, ५९,
६१, ६२, ६४, ६५, ६७, ६८, ७०, ७१, ७२,
७८, ७९, ८०, ८३, ८५, ८७, ८८, ८९, ९६,
९७, ९९, ५०१, ०२, ०५, ०७, ०९, १२, १४,
१८, १९, २१, २२, २४, २५, २७, २८, ३५,

३९, ७२, ८१, ८२, ६००, ०६, १३, १४, १६,
 १७, २१, २६, २७, ४२, ४३, ४९, ५१, ५४,
 ६६, ७६, ७८, ८०, ८३, ८४, ८८, ८९, ९०,
 ९४, ९७, ९९, ७०१, ०२, ०४, २८, ५६, ६०,
 ७३, ७४, ७५, ८१, ८४, ८५, ९०, ९५, ९६,
 ८०४, १४, १९, २०, २७, ३२, ३३, ३४, ३५,
 ३६, ३८, ४८, ५४, ५५, ५८, ५९, ६०, ६१,
 ८१, ८२, ९७, ९३५, ५४, ८७, ९४, ९९, १००८,
 २१, ३८, ५३, ५९, ६२, ६९, ७७, ८०, ११०५,
 १६, २३, २५, ५१, ६८, ६९, ७०, ७६, ९२,
 १२८४, ९५, ९६, ९७, १३०१, ०२, ०३, ०६,
 ०७, ०८, २८, ३०, ३१, ३५, ३६, ३७, ३९, ४०,
 ४२, ४४, ४५, ४७, ४८, ४९, ५३, ५४, ५६,
 ५८, ६०, ६१, ६५, ६६, ६७, ६९, ७०, ७१, ७२,
 ८०, ८२, ८६, ८८, ९२, ९३, ९४, १४०१, २३,
 ३०, ३२, ३४, ५६, ५७, ६७, ९७, ९८, १५७३, ७४,
 ८४, ८५, ८६, ९१, १६००, २४, ३०, ३२, ३३,
 ३४, ३५, ४०, ४३, ४४, ४८, ४९, ५१, ५३,
 ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६४,
 ६५, ६६, ६७, ७०, ७४, ७८, ८०, ८१, ८२.

अग्निकल्प like अग्नि २९३.

अग्निगर्भा containing the germ of fire
 १३०९.

अग्निचित् one who has performed अग्नि-
 चयन ३२१.

अग्निचिल्लेष्टका a brick used in arranging the
 sacrificial fire-place or altar or
 अग्निचयन १५७३.

अग्निजिह्वा whose tongue is अग्नि; consum-
 ing ४९५.

अग्निदत्त-शाण्डिल्य name of a *Brāhmana*
 १३७२.

अग्निदूत having अग्नि for a messenger ४१५.

अग्निदेवत having अग्नि for deity ११७६.

अग्निध् kindler; the sacrificial priest
 called आग्नीध्र ५, ४५८.

अग्निपूत purified by fire १६७६, ८१.

अग्निप्रवेश entering into fire; self-immol-
 ation by entering fire १६७१.

अग्निमय composed of fire ३२१.

अग्निमुग्ध foolishly devoted to अग्नि,
 attached to sacrifice neglecting the
 spiritual knowledge २७.

अग्निरूप a form of अग्नि; having the
 form of अग्नि २९६, ९७, ३४३.

अग्निलोक the world of अग्नि ४०१, ६३२.

अग्निवर्णा having the colour of fire १६३४.

अग्निविध like अग्नि ४३.

अग्निष्टोम name of a protracted ceremony
 or sacrifice forming one of the chief
 modifications of the *Jyotistoma*
 offered by one who is desirous of
 obtaining heaven २०२, ८१, ८६, ४४५,
 ७२, ७४, १६६५.

अग्निसंज्ञ known as अग्नि १६६०.

अग्निहोत्र name of a particular sacrifice
 to be performed every day; name of
 an optional sacrifice; an oblation to
 अग्नि २८२, ४०३, ०४, ०७, ०९, ४६, ५४, ६६,
 ६७, ६८, ७२, ७३, ५६१, ६४४, ९०, ९१,
 ७०२, ८८१, ८२, ११८९, १४४९, १६५०, ५१,
 ५२, ६५, ६६.

अग्निहोत्रगृह place where the *Agnihotra*
 is performed १६७१.

अग्निहोत्रवेला time when the *Agnihotra* is
 performed १३६९.

अग्निहोत्रहवणी a ladle used at the time o
 the *Agnihotra* ४०५ १६४३.

अग्निहोत्रिन् one who practises the *Ag-*
hotra; one who maintains the sacrifi-
 cial fire ४६६, ६७.

अग्नीध् the priest who kindles the fi
 ४६१, १६५१.

अग्नीषोम *Agni* and *Soma* १६२, २४४, ३०१.

अग्नीषोमीय related or sacred to *Agni* and
Soma ४७४.

अग्न्यर्चिस् (or अग्न्यर्चि) a flame of fire
 १०८५, १३६४.

अग्न्याग्नेय placing the fire on the sacrificial fire-place; consecrated fire १६६, ४१९, ४६, ६४.
 अग्र the summit; top; front; tip; point; first; aome २४९, ९३, ३२८, ४३, ६३६, ७२५, ६५, ६९, ८२१, ८७, ९०, ९१८, ९१, १०१६, २९, ३६, ४२, ४७, १२२४, ७२, १३४३, ४४, १६१२, ५०, ५४, ६२, ७७.
 अग्रणी leader ४६०.
 अग्रदिधिषु one who marries a girl whose elder sister is unmarried ४८६.
 अग्रभुज् getting the precedence in eating १६४०.
 अग्रस्त well open ७८६.
 अग्राह्य ungraspable १४४५, १५२५, १६५४, ७९.
 अग्राह्यत्व incomprehensibility १६५५.
 अग्नि first २९३.
 अग्निव foremost १४१, ३१६, ३७.
 अग्नीव neck-less २६३, ६५.
 अग्र one who is in the front or takes the lead ३८८.
 अग्रेयावन् going before or in the fore-front १८२.
 अग्नेवध hitting or killing whatever is in front १४३.
 अग्र्य (ग्र्या) primeval; foremost; superior १२४४, १४१६, १५९९, १६५७.
 अघ ill; sin; sinful ६४७, ४९.
 अघमर्षण destroying the sin १६३३, ३४.
 अघहद् howling fearfully; evil wailer १३०, ३८०.
 अघशंस wicked १६४३.
 अघत् seeking to do mischief ४१४.
 अघायु malicious; intending to injure १४७, १३६९.
 अघुष्ट not proclaimed ६८९.
 अघोर not terrific १३४, १५०, १५९४, १६४१.
 अघोरघोरतर (form of *S'iva*) both not more terrific and more terrific १५०.

अघ्न्या cow (not to be killed); most probably a milch cow ८१, २१८, २४, ३६६, ८९, ४३४.
 अग्रत् non-smeller १६६०.
 अङ्क numerical figure ५२४.
 अङ्कस् curve; bend १३३०.
 अङ्कुर sprout १६६४, ६५.
 अङ्कुशिन having a hook ४८४.
 अङ्ग a limb; a member; part; a particle implying attention; body; one of the ancillary sciences called वेदाङ्ग ३१, १२६, २९, ७३, २०९, ४३, ४६, ४७, ६४, ७६, ३०४, ०९, १४, ४७, ८६, ८७, ९८, ४०५, ४५, ५७, ६०, ६६, ६९, ७२, ९६, ५२५, ८९, ९०, ६४२, ४३, ५०, ६८, ९७, ७५३, ८३, ९२०, ८७, १००६, १०, ११४८, १२२१, १३०६, ४४, ५३, ५७, १६४९, ५४, ७७, ७९, ८०.
 अङ्गरस name of a *R̥ṣi* ३०४.
 अङ्गार ember; heated charcoal; one of the prominent seers of *Atharvaveda*; name of fire-god; indirectly applied to the principle of Breath ४७३, ८५, ६९१, ७८१, ८२४, ५८, ५९, ६०, ८१, ९०३, १२९५, ९६, ९७.
 अङ्गारावक्षयण remover of burning coals; instrument for extinguishing coals; cat's paw, -Muller ११७३.
 अङ्गिर name of a ऋषि who received the *Brahmavidyā* from *Atharvan* and imparted it to *Satyavāha* teacher of *Angiras* १४४३.
 अङ्गिरस् name of a ऋषि or his descendants; name of a sage deified as अग्नि; name of a seer, acc. to *Sāyaṇa*; name of a deity; a teacher of Hymns of *Atharvaveda* २४, ११८, ७९, २४७, ४८, ३०४, ०५, ५६, ८५, ९३, ९५, ४०१, ०४, ७३, ८१, ९२, ५०१, २२, २५, ७५३, १३६९, १४४३, ८९, ९९, १६६६, ८२.

अङ्गिरस्वत् accompanied by or connected with अङ्गिरस् ३२.
 अङ्गुलि a finger २४४, ६२१, ८९, १३६५.
 अङ्गुलिनिग्रह finger-pressure ६८९.
 अङ्गुली a finger ३१४, १३५७ १६८१.
 अङ्गुष्ठ thumb; a thumb's breadth; usually regarded as equal to an *angula* १३०६, १६४९, ६६.
 अङ्गुष्ठमात्र having the length or size of a thumb १४२५, ४०, १५९७, १६१४, ४९.
 अचक्रा not having wheels ६५.
 अचक्षुःश्रोत्र without sight or hearing १४४५.
 अचक्षुष्क without eye ११५९.
 अचक्षुस् without eye १५९९, १६७६.
 अचर immovable १६२९.
 अचरन्ती immovable. १२१.
 अचल unswerving; unmoving; immovable १६५५, ६२, ६६.
 अचाण्डाल not a चाण्डाल १२१०.
 अचातुर्मास्य not followed by the four months' sacrifice १४४९.
 अचारुकासन ugly face ४८.
 अचिकित्वात् ignorant; unwise २०८.
 अचित्त ignorant ८०.
 अचित्त without thought; non-thought ९३२, १६६१.
 अचित्ति infatuation; ignorance; folly ८०, ९६, ४८२.
 अचिन्त्य inconceivable ३३६, १५२५, ७३, १६५७, ६१, ६६, ७३.
 अचिन्त्यशक्ति having inconceivable power १६७६.
 अचीर्णव्रत one who has not observed or performed the vow. १४८९.
 अचेतन without intelligence १६५४.
 अचेतस् insentient २६४.
 अच्छ towards; to १२४, ३५, ७२, ४३०.
 अच्छाय without shadow ११५९, १५०९.

अच्छानाक 'the inviter' title of a particular priest or *Rtvij*, one of the sixteen, required to perform the great sacrifice with the *Soma* juice ४६१, ६२.
 अच्छिद्यमाना unsevered ३८०.
 अच्छिन्न unbroken ३७४.
 अच्छ्युत imperishable; unstirred; unshaken; firm or solid २७०, ३३९, ८१७, १६३७, ५७, ६२, ६६, ६७.
 अच्छ्युतक्षिति being having solid ground १६४८.
 अच्छ्युतच्युत् shaking the unshakable (objects) ४७.
 अज not born; a goat ८३, १२९, ३२, ६७, ८७, २०८, ३२, ४७, ५१, ८१, ८६, ९३, ९७, ३३६, ६०, ६८, ४३४, ९८, १२४५, ४६, ५७, ५८, १४०५, २६, ५४, १५७४, ८०, ९०, १६०१, ३५, ५४, ६१, ६३, ६६, ७९.
 अजगर kind of serpent; boa १३२.
 अजगधपाप्मन् one having his sin undevooured or undestroyed ४७३.
 अजर undecaying; not subject to old age; ever young २२, १००, ६२, ७३, ७५, ९३, २०५, ०७, ११, ५०, ५१, ५९, ७१, ६७१, १२५८, ८४, १५१४, ९९, १६४०.
 अजरन्ती not growing old १६५.
 अजस्र perpetual; exhaustless १०, २१, २५, ४५, १७२, २७१, ३५५, ५१०, १६६५.
 अजा she-goat; unborn ५१९, ७७६, ८३, १०२०, १५८०, १६०१, ३५.
 अजात unborn ३०८, १३५९, १६११.
 अजातपुत्र one to whom a son is not born ६४७.
 अजातशत्रु name of a king of *Kās'ī* ६७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, १०६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३.
 अजातशोक one without sorrow; always happy ४६९.
 अजामि not related १६४३.

अजायमान eternal २५४.
 अजिर agile (unaged acc. to comm.)
 १४१, ३३५, १५७३.
 अजिराचरिष्णु unaged and not wandering
 ५०१.
 अजिर्वि not old ३७८.
 अजिह्व tongueless २६३, ६५.
 अजीत not faded; not faint. (सायण
 explains this as अजित i. e.
 unconquered by an enemy) ५०७,
 १५, २०.
 अजीति the state of being uninjured ३७१.
 अजीर्यत् undecaying; not growing old
 १३९७.
 अजुर्य not subject to old age १०२.
 अज्ञ ignorant; unknowing ६९२, १५८०,
 १६६५.
 अज्ञान ignorance ४८६, १६५६.
 अज्ञेय unknowable ३३६.
 अज्यमान being smeared; being kindled
 or propelled; being manifested १९४.
 अज्यानि state of being uninjured ३७१.
 अज्यामयी free from old age and disease
 ३२३.
 अञ्ज a field; a plain ५६, ३६४.
 अञ्जत् anointing १७६.
 अञ्जलि the open hands placed side by
 side and slightly hollowed १५९,
 ३०६, ८५४.
 अणकार without the sound or letter 'ण';
 without power (acc. to *Sāyana*) ६२३.
 अणिमन् minuteness; finest essence; one
 of the eight सिद्धिः ६८०, ९०२, १३, १७,
 १८, १९, २०, २१, २३, ६६, १२०७, २१.
 अणिष्ठ most minute ८९९, ९०१, १६५४.
 अणीयस् very minute ८११, १४००, ०६, ४६,
 १५९५, ९९, १६३०, ३५, ३६, ६१, ६७, ७६.
 अणीयस्क more minute than usual २५०.
 अणीया (=अणीयसी) more subtile १६४०.
 अणु minute; subtile; an atom of time;

the subtile १८०, ४४६, ६८०, ९१९, १२३८,
 १३५८, ९६, १४०३, ०६, ६०, ८०, १५९९,
 १६३५, ६१, ६५, ६६, ६८, ७६, ८१.
 अणुप्रमाण of subtile measure १४००.
 अणुवातेरित stirred by a gentle breeze
 १६६५.
 अणूपमा like an atom १६४०.
 अण्ड testicle; an egg ३१४, ५८१, १३५९,
 १६५९.
 अण्डज egg-born; oviparous ५९४.
 अण्वन्त subtile point ११८१.
 अतन्द्र free from lassitude; alert १७१,
 ३२७, ३२.
 अतपस्क not practising austerity १६५६.
 अतप्यमान not suffering १२२.
 अतमस् without darkness ११५९.
 अतमाविष्ट not enveloped in darkness
 १६६२.
 अतर्क्य inconceivable १४००, १६६१.
 अतव्यस् not very strong ९२.
 अतसि a wandering mendicant (M. W.).
 (सायण explains this as अतन्तीनां i. e.
 सततगामिनीनां स्तुतीनाम्) ५५.
 अतस्कर free from robbers ५०९.
 अतापस not an ascetic १२१०.
 अतिक्रान्त gone beyond; crossed १००८.
 अतिग्रह over-apprehender ११२१, २३.
 अतिग्राह over-apprehender ११२२, २३.
 अतिघ्नी summit (of bliss) १०७६.
 अतिघ्न्य one who is in the 'atighnā'
 condition ४४८.
 अतिच्छन्दस् name of अग्नि kindled by all
 metres; name of a class of metres
 ३०, ३५.
 अतिजन uninhabited place ९२१.
 अतिजीव surviving ३८५.
 अतितार्या that which is to be overpassed
 ३८५.
 अतितिसृ beyond the three (viz. द्विद्वार,
 स्तोम and निघन) १३४७.

अतिथि a guest १३, १८, ९५, ११८, ४११, ५३,
५४, ७३, ७४, ७०२, १३९०, ९१, १४२७,
१६३५, ४५.
अतिथिग्न name of *Divodāsa* ६४.
अतिथिदेव one to whom a guest is as a
divinity ७०४.
अतिथिपति host; entertainer of a guest
४७३, ७४.
अतिथिवर्जित unattended by or devoid of
guests १४४९.
अतिदीर्घ very long १३९७.
अतिदुश्चर very difficult to perform १६५०.
अतिदुष्कर very difficult to perform १६५०.
अतिद्युम्न great or superior glory ६०१, ०३,
८५.
अतिघ्नन् name of a Vedic teacher; a des-
cendant of *S'unaka* ७६७.
अतिपश्य looking beyond or through १३१.
अतिपितामह surpassing his own paternal
grandfather १३१०.
अतिपितृ surpassing his own father १३१०.
अतिपुरुष the highest Being or पुरुष १३३७.
अतिप्रश्न extravagant question १५००.
अतिमान great haughtiness २०२, ४६५.
अतिमुक्त entirely liberated ४०८.
अतिमुक्ति final liberation (from death)
१११६, १७, १८.
अतिमुच्यमान being entirely liberated १३३९.
अतिमृत्यु beyond death २५४, ७७९, ८०.
अतिमोक्ष final liberation १११८.
अतिरात्र performed overnight; name of a
sacrifice ४४७, ६९, ७२, ७४, १६६५.
अतिलवण very saline ३०३.
अतिवादिन् a superior speaker (Hume)
very talkative (M. W.) ९३८, १४७६.
अतिवाह passing beyond १३५७.
अतिविस्मित exceedingly amazed १६५६.
अतिव्याधि piercing through; wounding
१३३१.
अतिशिष्टा remaining ९०३.

श. को. २४

अतिशेष remainder; remnant ७६९.
अतिष्ठा standing superior to all (epithet
of वैश्वानर) ४१.
अतिसाम name of a deity १३८७.
अतिसूक्ष्म exceedingly fine १६०९.
अतिसुष्ट्र permitted ४५४.
अतिसृष्टि higher creation १०२१.
अतिहित put over at a distance ३८७.
अतीन्द्रियभूत supersensuous being १६५४.
अतीपान excessive drinking १६३३.
अतृष्य beyond the reach of thirst २६४.
अतेजस्क without energy ११५९.
अत्क traveller ८३.
अत्ति eating (Hume) eater (M.
W. & Sayana) १०८२, १३६१.
अतृ eater; consumer ४२, ११६, १७, ५३०,
९९७, १०८२, १४९९, १६५९.
अल्यंह beyond sins २६.
अल्यम् whose point is jutting over १३५६.
अल्यन्तं absolutely; completely १३९३.
अत्याप्ति complete attainment ४४९.
अत्याय over-going २४९, ५२७.
अत्याशन immoderate eating १६३३.
अत्याश्रमस्थ who is beyond the आश्रमस
१६७३.
अत्याश्रमिन् superior to the आश्रमस
an ascetic of the highest degree
१६२६, ७६.
अन्न food ४३४, ३५.
अन्नि name of a great ऋषि; author of
number of hymns; descendants
अन्नि १७१, ७३, २६६, ५४५, १०८२, १६६९,
७०.
अन्निवत् like अन्नि १६३४.
अन्विद् not violent ११८.
अथकार the sound 'Atha' ७७३.
अथर्वण belonging to *Atharvaveda* १६८२.
अथर्वत्वं the duty of अथर्वन् ३०४.
अथर्वन् name of a seer of the *Atharva-
veda*; the hymn in the *Atharvaveda*;

अद्रोहिन् free from malice or treachery
१६७१.
अद्वय without a second १६७६.
अद्वितीय without a second ८८७, ९०, १३४४,
१६७६.
अद्वैत without duality; non-duality;
without a second १२१५, १५२५, २८.
अथ now; then; moreover etc. ५२, ५९,
६५, ६६, ७८, १४६, ३४३, ९८.
अधःशायिन् lying or remaining below
१६४०.
अधःस्तम्ब a low shrub १६६७.
अधम lowest १६९, ३३९, ४०, ७३, ८५.
अधर lower; vile; inferior; downward
१६९, २४४, ८४, ३८३, ९५, ५०८, ६९४,
१०८०.
अधरहनु lower jaw-bone ४३४.
अधरात् tending downwards ३३९, ९२१.
अधराचीन downward rushing ५२.
अधरात् below ३९५, ५०४.
अधरेय (अधरे+अयाः) lower (throw) ८२४.
अधर्म wrong; unrighteousness; demerit;
guilt; irreligion ९२९, ३३, १४०३, १६४८.
अधर्ममय made up or full of wickedness
१२२९.
अधस् below २४२, ७६, ३५४, ५९१, ६७२,
१३०५, १४६८, ९२, १६१३, ७७.
अधस्तात् under; below ८२५, ९४६, ४७,
१६६६, ७९.
अधस्पद placed under the feet २४.
अधि in addition; to; on; upon; above
३४, १६२.
अधिकरण a paragraph or minor section
६९४.
अधिकृत a superintendent; an overseer
१५०१.
अधिक्षित् lord; ruler ४३.
अधिगम study; obtainment; acquiring
१४०२.
अधिगवम् coming from the cow ४७४.

अधिज्यम् having the bow-string
stretched ११५७.
अधिज्यौतिषम् on or among the luminaries
६९४.
अधिदिवम् above the heaven ४०१.
अधिदेवतम् on the subject of the deity
४२, ४३, ११३, १६, ५३, ५४, ३३०, ५१८,
१३४७, ५६, ६५.
अधिदेवता the supreme or presiding deity
३००.
अधिदैवतम् among the deities; on the
subject of the deity ५२९, ३०, ७५, ९७,
६००, ११, ७७, ८४, ८७, ८८, ७५४, ५९, ६२,
८१८, १९, २७, १०६२, ८४, ११५२, १३३९,
८२.
अधिदैवत्व state of supreme divinity
१६५६.
अधिनिर्मिता fashioned better than or
superior to ३४८.
अधिप protector; ruler; king; comman-
der ३४३, ७३, १६०८, २०.
अधिपति commander; ruler; king; fore-
most leader १४८, ५४, ७१, ७२, २५२,
६६, ३३७, ६८, ४५६, ५७१, ७२, ८५४,
१००८, ०९, १२१६, ४७, ७४, १३०३, १६४०
४१, ५७.
अधिपतिवती containing the lord in herse
१६५८.
अधिपत्नी female sovereign or ruler ४२.
अधिप्रजम् with regard to progeny ६९४.
अधिप्रज्ञम् with regard to intelligen
६७१.
अधिभूतम् on material objects; mate
existence ६७१, ७०१, ११५२, ५३.
अधिमात्रम् with regard to the elements
१५२७.
अधियज्ञम् with regard to the sacrifice
११४, ५१८.
अधिराज emperor; supreme king ३३०.
अधिलोकम् with regard to the world ६९४.

अधिवक्तु advocate; comforter १३५, ८९.
 अधिवास an inhabitant १४५०.
 अधिविद्यम् with regard to knowledge ६९४.
 अधिश्रित rested on; resided in २५०, ५२,
 ८०, ४१९, ५४, १६०८.
 अधिषवण press for extracting and strain-
 ing the *Soma*-juice १३०५.
 अधिष्ठान station; foundation १८३.
 अधिष्ठित founded on; established १५७५.
 अधिष्ण्य place other than the side-altar
 ४६०.
 अधिसंवत्सरम् above the year or time १८०.
 अधिसत्त्व above the beings १८०.
 अधिहिता put on ४३७.
 अधीत attained; studied; learning; study
 ५९६, ६२६, २७, ८३, ९२, ७०४, १४४१.
 अधीतवेद one who has studied the Vedas
 ११८६.
 अधीयान student; studying ३०५, ६२१,
 ९८४, ११४६.
 अधीश supreme lord or master १५७३.
 अधूम smokeless २६१, ३०६.
 अधूमक smokeless १४२५.
 अधृति lack of steadfastness १०५०, १६६३.
 अधेनु not nourishing; barren ४९०.
 अधोपहास sexual intercourse १३०५.
 अधोमुख having the face downwards; up-
 side down १६४०.
 अधोवचस् of degraded speech ८६.
 अधोपेक्ष inspector; superintendent; over-
 seer ४४, १०२, २४३, ७६, ३३९.
 अधोक्षरम् with regard to the word १५२७.
 अधोक्षरम् tip १६६१.
 अधयत study ७८६.
 अध्यर्थ having an additional half; one
 and a half ११६७, ६९.
 अध्यवसाय determination १६५७, ६०, ६३.
 अध्यवसायसंकल्पामिमानलिङ्ग having the marks
 of determination, conception and
 self-conceit १६६३.

अध्यवसायात्मबन्ध binding of the self with
 determination १६६३.
 अध्यात्मन् the supreme spirit ३३६.
 अध्यात्मनिष्ठ based on or related to the
 supreme spirit or the soul १६७१.
 अध्यात्मम् the supreme spirit or soul;
 with regard to self; pertaining to or
 within the body ४२, ४३, ११४, १७, ५३,
 ५४, ३१८, ३०, ४६९, ५२२, २३, २४, २९, ३०,
 ३५, ९८, ६००, ११, ७७, ८४, ८७, ८८, ९४,
 ७०१, ५४, ५९, ६३, ८१८, १९, २८, १०६१,
 ८५, ११०३, ०५, ०६, ०७, २०, ५३, १२८२,
 १३३७, ३९, ४७, ५५, ५६, ६५, ८३, १४४०,
 १५००, ०४.
 अध्यात्मयोग means of approaching the self
 १४०२.
 अध्याय chapter ४०१, ६२३, ९०, १३६९.
 अध्यायक well-read ७२८.
 अध्याहित deposited २४६, ४७, १३४६.
 अध्यूढ resting upon ७६०, ६३.
 अध्यूह (= अध्यूढ) resting upon ५६३.
 अध्रुव uncertain १६०, ५१८, १३४६, १४०१,
 २१.
 अध्वगत् traveller ३१६, २८.
 अध्वगत roadster १६९, ७०.
 अध्वन् road; journey; course ४९, १७१,
 ४३१, ८६४, १०९७, ११८६, १२६२, १३८७.
 अध्वर solemn rite; sacrifice ८, २३५, ३८७,
 ४४५, १६३४.
 अध्वर्यु the officiating priest ६६, ११७, ५३,
 ५४, २५२, ३९६, ४५८, ६०, ६१, ६२, ७०, ७१,
 ७२, ६१४, ४५, ८८, ७०२, ८४७ १११७, १९,
 १३५८, ६०, ६१, १६५१.
 अन breath; respiration १०५०.
 अनकाममार not killing undesiredly ५७५.
 अनन्न not naked ३३१, ८५३, १२८९.
 अनग्निम् not maintaining a sacred fire
 १६७०.
 अनग्निचित् not kindling the sacred fire
 १६६५.

- अनग्निहोत्र not performing the *Agnihotra* sacrifice १६६५.
- अनङ्गुलि destitute of fingers २६३, ६५.
- अनडुह् ox; bull ३२५, ६५, ४२५, ३०, ३२, ३३, ५१४, १६१३.
- अनणु not fine; not minute or atomic ११५९.
- अनत् having breath; breathing २१९, ३५३.
- अनत not bent ६१८.
- अनतिप्रश्नया about which further questions cannot be asked ११४५.
- अनतिव्याध्य invulnerable ३३९.
- अनतिसृष्ट not being permitted ४५४.
- अनत्युद्य far above expression; which cannot be sufficiently described २४७.
- अनथर्वन् not belonging to the *Atharva-veda* ३०४.
- अनद्यमान not being eaten १३५५.
- अननुभूत that has not been experienced १५०६.
- अननूक्त not studied; not recited २८, १०३९.
- अननृत not false; true १३५४.
- अनन्त endless; eternal; infinite २८, २०२, ४९, ३४८, ४०६, ०७, ५१७, ६४४, ७०४, ६७, १०५४, १०९८, ११११, १९, २५, ८५, १२९४, १३४०, ८५, १४१८, १५८०, १६१२, १६, ४०, ६१, ६३, ६६, ६९, ७९.
- अनन्तता endlessness ११८५, १३४०.
- अनन्तर having no interior ६९१, ११११, ५९, १२६३.
- अनन्तरूप having innumerable forms or shapes १६३०, ७३.
- अनन्तर्हित not placed within १३०९.
- अनन्तलोकान्ति attainment of the infinite world १३९२.
- अनन्तवत् endless; one of *Brahma's* four पादस ८३२, ३३.
- अनन्तशक्ति of endless power १६६६.
- अनन्तेवासिन् not dwelling close by; not a student ६२३, ९०, ९२, १३०४.
- अनन्त्य endlessness १४०२.
- अनन्त्यश्री infinite glory १२०.
- अनन्द joyless; cheerless १२४०, १३८९.
- अनन्ध not blind ३१७, ९६४, ७५.
- अनन्न what is not food १२८९.
- अनन्यप्रोक्त not declared by another १४००.
- अनन्यभक्त one who is devoted to none other; a single-minded devotee १६६३.
- अनन्वागत not followed १२०३, ०४, १०.
- अनन्वित unconnected; not attended with; destitute of १३६६.
- अनपग not departing from ६७७.
- अनपगामिनी not departing from ४९९, ५०१.
- अनपजय्य never to be defeated or overpowered १६३२.
- अनपत्य childless २६६.
- अनपत्यवत् childless ३८८.
- अनपप्रोषित absence of wrong departure or of evil caused thereby ४६७, ६८.
- अनपर without another; single; sole ६९१, ११११.
- अनपरुद्ध not driven out or expelled १३५०.
- अनपरोध्य that cannot be checked or prohibited ४१६.
- अनपरस्पृक् not refusing; not obstinate १६९.
- अनपरस्फुरत् not resisting ३९८.
- अनपरस्फुरन्ती not resisting ३१७, ४८, ५०९.
- अनपहतपाप्मन् not free from evil २९, १३७१, ७२.
- अनपायिनी not going away; constant in the same state; not perishing or disappearing; unchanging ३१७, ४८.
- अनपेता not gone off; not separated ४००.

अनपन्सु destitute of means १९०.
 अनभिगत not understood ३३७.
 अनभिध्यायिन् not knowing १६६५.
 अनभिनिहित not merged; openly or clearly
 ७८६.
 अनभिमानमय free from self-conceit १६६३.
 अनभिस्मृत lit. 'non-fading'; name of the
 chief of a *Gotra* १११४.
 अनभ्यारूढ not mounted on ४२५.
 अनभ्युदित not expressed १३७५.
 अनभ्र cloudless ६८९.
 अनमित्रं freedom from enemies; the
 state of having no enemies ५०४.
 अनमित्र free from enemies ५०७.
 अनमीव freedom from disease, health;
 free from disease ३५७, ५०९.
 अनरणि name of a king of *Ayodhyā*,
 according to some the father of
Pythu (v. l. अनरण्य see Hume) १६५३.
 अनर्घ्य useless; worthless १३६४.
 अनर्थ worthless १६५६.
 अनर्ष unassailed; uninjured १७३, २०७,
 ७१.
 अनल fire १५८९, १६२६.
 अनवकल्लत not fitted २८१.
 अनवजित unconquered ४०४.
 अनवद्य irreproachable ७०४, १६६६.
 अनवद्राण unslumbering ३७९.
 अनवधर्ष्य not to be defied ३८२.
 नवप्रव irreproachable ३४३.
 नवसृष्ट not thrown down १३६१.
 नवस्थ unstable १४०७.
 षानम् in one breath; without inter-

from food

३९०, ९१, १४६८,

red ४१६.

अनसु cart १२२०, १३३०.
 अनसूरि wise one ८२९.
 अनस्तमित never going to rest १०६३.
 अनस्थ boneless २०८, ३५३, ६९.
 अनस्थिक without a bone १३५५.
 अनाकाश without space ११५९.
 अनागसु sinless; blameless ८०, ८२, ९९,
 १६५, ८९, ३६६.
 अनाशयण not followed by the harvest
 sacrifice १४४९.
 अनाजानत् not acknowledging ३७२.
 अनाज्ञात unknown ४८७.
 अनातत not stretched or strung १३६.
 अनातुर healthy; not sick १४५.
 अनारमन् not knowing the आत्मन्; ignorant
 of आत्मन् ४६४.
 अनात्म्य impersonal; bodiless ७२५.
 अनादर indifferent; indifference २६१,
 ८०९, १२.
 अनादि without beginning १४१८, १६१६.
 अनादिनिधन without beginning and end
 १६५७.
 अनादिमत् having no beginning १६०१.
 अनादिष्ट unindicated ४५३, ६१८, ८९.
 अनाद्य what should not be eaten ३८३.
 अनाद्यन्त without beginning and end
 १६६६.
 अनाधृष्ट invincible २५.
 अनाधृष्य invincible २५, ३६७.
 अनानुभूति neglectful or irreligious
 people ५४.
 अनाप्त unattained १३३९.
 अनाभोग without enjoyment ४१०.
 अनामक nameless ५२३.
 अनामय healthy; free from illness.
 १३५३, १५९६, १६५६, ६२, ७०.
 अनामिका ring-finger १३०६.
 अनायत unbound ३४६.

having no abode or resting-
ce ४४२.
not imparting long life १३३०.
without support; a place with-
out any thing to lean on ७७९, १११८.
having no commencement;
without support (Sayana) ३५३.
निवेशन unobstructed dwelling
ce १३५२.
not sick; well १५४, १३७२.
not honourable; inferior १३३१.
undressed; uncovered; open
२, ११११.
unreturned ४५३.
fasting; not eating food ६९१,
७७, १६७१.
अभ्यसन a course of fasting १६५.
free from death ३२३.
गमि one who has not established
sacred fires ४६४, ८७३.
वासिन् not living in a house;
homeless १६७१.
inconstant; perishable १४०१, ३१.
non-reviling ३११.
मान never slumbering or lying
down २२०, ५३७, १३६६.
not bound २४६.
not down-fallen ५१३.
मृ without winking; constantly
continuously २१४.
त without being slurred over
६.
करण without impedence १६३५.
त unexplained; unuttered; un-
breakable ३३०, ६२०, ७२५, ७३, ८५,
४०, ४५.
य indescribable; which cannot
be pointed out १४३२, १६२३, ६६.
वृत्त unbroken २६९.
त unproduced १६६६.

अनिल wind १२८४, १३२७, १५८९, १६१७,
७६.
अनिलयन that which is non-based ७२०,
२५.
अनिशितसर्ग having an unceasing flow
६२.
अनिषेध not the *Niṣedha* (which is the
name of a particular *Sāman*). १३३८.
अनिष्ट unpleasant; undesirable १६५६.
अनिष्टसंप्रयोग union or contact with the
undesirable १६५३.
अनीक lustre; face; army ६०, ६९, ९३, १७२,
४९७, ६१३, ८८.
अनीडाख्य one who is called incorporeal
१६१६.
अनीश one who is not the Lord; power-
less; impotent १५७५, ८०.
अनीशा impotence; powerlessness १४७०,
१६०५.
अनीशान powerless; not the Lord ५३५.
अनुकामम् at will ३५५.
अनुकृति imitation; copy; compliance
२०२, ६२१, ८९, ७०२.
अनुकल्पित imitated; agreed २६७.
अनुगत followed १५७६.
अनुगाथा song ८४९.
अनुगीत after-song १३४६, ४७.
अनुगृह्णान that which helps १५०२.
अनुग्रहण favour; kindness १६५६.
अनुचर companion; follower १३५६.
अनुचरण pursuit; following १६५६.
अनुच्छित्तिधर्मन् possessing the virtue
being indestructible १२६४.
अनुज्ञा assent ७४९.
अनुज्ञाक्षर syllable of assent ७४९.
अनुत्तमालोफ; in scerecy (*Sāyana*)
११५.
अनुत्क्रान्त not-departed ९६७.
अनुत्तम unsurpassed; highest ८०५.

अनुदात्त not raised; not pronounced with
 the *udatta* accent ५२३.
 अनुदित unuttered ३५०, १३३३.
 अनुद्रष्टव्य to be perceived १२४४.
 अनुध्यात considered १६८१.
 अनुनामयत् causing to bow १६८०.
 अनुन्मत्त sane; not intoxicated १६७१.
 अनुन्यञ्जान anointing २०२.
 अनुपदस्वत् unfailing ४३३.
 अनुपनीत not initiated into the twice-
 born class १६८१.
 अनुपश्यत् one who perceives १३१८.
 अनुपस्पृशान one who opens or shows ३५६.
 अनुपस्मृत not remembered १३६०.
 अनुपान drink ७६८.
 अनुपृष्ठम् on the back ४०५.
 अनुप्रभूत penetrated; pervaded ९१८.
 अनुप्रविष्ट entered ३३३, १३९८, १४०२.
 अनुप्रश्न appurtenant question ७२०.
 अनुभूत experienced १५०६.
 अनुमति name of a goddess; Divine
 favour personified ३६४, १३०८.
 अनुमन्त्र a hymn used in consecrating
 १३६०.
 अनुमान practice of the elite (शिष्टाचारः);
 inference १७९.
 अनुमार्जन discussion,मीमांसा; laws of inter-
 pretations ४७१.
 अनु रूप fit; suitable; the antestrophe
 which has the same metre as the
Stotriya or strophe the second of
 the three verses recited together
 ३३७, ५६.
 अनुलब्ध grasped or taken hold of १३४६.
 अनुलोम regular; comfortable ३०७.
 अनुलोमा in her natural order; begin-
 ning from the head and ending
 with the feet १३०९.
 अनुवक्तु speaking after; replying १३३१.
 अनुवर्त्म according to its course १३३०.

अनुवर्त्मन् follower; one whose path is
 previously walked by another ३३७,
 ३८, ४८१.
 अनुवाक reciting; a particular section
 ४०१.
 अनुवित्त found १२३८, ३९, ४१.
 अनुविद्वस् having found २४.
 अनुविषण्ण directed; fixed upon ९८०.
 अनुव्याख्यान explanation १०९६, ११८२,
 १२६१, १६६४.
 अनुव्याहार cursing ६०२, ८५.
 अनुव्रता submissive; devoted to १६९,
 ४८३.
 अनुशासन instruction; direction ४७१, ५२२,
 ६९१, ९२, ७०४, १११२, १४३९.
 अनुशिष्ट taught; instructed ८५६, १०५८,
 १२९०, ९३, १३६४, ९५.
 अनुषक्त attached १६५७.
 अनुष्टुप्सहस्र thousand verses in the
anustup metre ५६५.
 अनुष्टुम् kind of metre consisting of four
Pādas of eight syllables each ३०,
 १६२, २७७, ८१, ८४, ८६, ५३७, ६५, ६७,
 १२८२, १३३५, ५६, १६६६, ७७.
 अनुष्ठान् undertaker of any work ४५१,
 ५२.
 अनुष्ठया immediately १३६५.
 अनुसंचरन्ती moving upon ३८९.
 अनुसंहितम् in the *Samhitā* ६२३.
 अनुस्तरणी cow sacrificed at the funeral
 ceremony ४०४, ४०५.
 अनूक spine; back-bone ३०, ४६९.
 अनूक recited after; study ५०१, ६१६, ८८,
 १०५८, १३४५, ४६.
 अनूक्य spine ४३६, ७३.
 अनूचान learned in the scriptures ३९,
 २९३, ४२०, ७०, ६७४, १०६६, १३६९.
 अनूचानतम most learned in the scrip-
 tures १११५.

नूचानपुत्र son of one learned in the scriptures ३९.
 नूचानमानिन् one regarding himself as well-versed in the scriptures ८८३.
 नूचीन coming in succession ९६.
 नूच्य elbow-piece of a seat; lengthwise piece ४५१, ६३६.
 नूत्कामत् going out after १२२४.
 नूत्थात् rising after १३५७.
 नूबन्धय to be fastened (as a sacrificial animal) for slaughtering (comm. explains it as अनुबन्धवान् i. e. संबन्धवान्) २६३.
 नूह्य incomprehensible १६६१.
 नूक्षर thornless ५२५.
 नूच not containing a *Rc* from the *Rgveda*; hymnless १३३४.
 नृण guiltyless; free from debt ३७१, ४१४, २०, ८८, ५०५, १६५१.
 नृत falsehood; false; lie १५५, ५६, ५७, ९१, २००, ३०, ४४, ४५, ८२, ३५३, ४०२, ८२, ८७, ५६८, ६९, ७२०, ५२, ९२४, २९, ३२, ५९, ६०, १२७२, १३४८, ५०, १४७८, ९६, १५१४, १६६४, ६७.
 नृतद्विद् persecuting or hating untruth १२०.
 नृतवादिन् speaking untruth; a liar ४१६.
 नृतापिधान having a covering of what is false; covered with falsehood १५९, ६०.
 नृताभिषंसिन् one who praises what is false १६६७.
 नृताभिसंध one who speaks untruth ९२४.
 नृतुषा not drinking in time ५२, १३४३.
 निकरूप of manifold forms १३९३, १६०८, १६.
 निकशततार where from many a hundred are to be saved ३०३.
 निजत् unmoving १३१६.

अनेनस् sinless ७९, ४८७, ८९.
 अनेवंबित् one who does not know this ३८.
 अनेवंबिद्वस् one who does not know this २८.
 अनेहस् unrivalled (M. W.); sinless; free from sorrow (comm.) १२२, ३६६.
 अनौपम्य incomparable १६५९.
 अन्त end; limit ४४, ९१, ११५, ७१, ८६, २२१, ४७, ४८, ३४८, ४५३, ७२, ८५, ७४०, ९२०, ५५, ७१, १००७, ५०, ९०, ११२९, ८५, १२०६, १७, २७, ३१, ५९, ९४, १५०५, ७३, १६००, २६.
 अन्तःकरण inner organ १६६५.
 अन्तःप्रज्ञ inwardly cognitive १५२२.
 अन्तःशुद्ध pure within १६६६.
 अन्तःसदसं inside the sacrificial hall ४६०.
 अन्तक who causes death; destroyer; an epithet of *Mrtyu* or *Rudra*; God of death; *Mrtyu*; *Yama*; name of the son of *Mrtyu* १६३, ३७६, ५११, १३९७, १६४९.
 अन्तकाल time of death; time of destruction (of the world) १२२२, १५९२, १६८०.
 अन्तर् within; in; inside; between १९, २०, २१, २३, ४५, ४८, ६१, ६६, ६८, ७९, ८१, ८६, १०५, १२, २४, २८, ३२, ५१, ५२, ५५, ५८, ६१, ६६, ७०, ७२, ७३, २१२, २०, २१, ३८, ४४, ४९, ५०, ५३, ५४, ५९, ६०, ६६, ६८, ६९, ७०, ८७, ९४, ३०५, ०७, ०८, १६, २६, २८, ३४, ४६, ५३, ४२१, २९, ३१, ३५, ४४, ४५, ५०७, ०८, ०९, २७, ३७, ६४९, ९९, ७६३, ८०१, ०३, ११, १२, ६०, ९५२, ५१, १०७४, ८५, ११८७, १२४६, ७४, ७६, ९७, १३१७, ३५, ३६, ३९, ४२, ५५, ५९, ६०, ६३, ६५, ६६, ६८, ८६, १४६२, ७७, १५१५, ७३, ९०, १६२९, ३१, ३६, ३९, ४०, ४८, ५५, ५७, ५८, ६२, ६५, ६७, ७९, ८१, ८२.
 अन्तर interior; inside; within; existing inside (something) ११३, ७१४, १५,

१६, १८, ६०, ११४७, ४८, ५१, ५२, ५३, ५४,
१३५८.

अन्तरतर nearer १०२७.

अन्तरतस् from within ३०६.

अन्तरपुरुष the soul ६१८.

अन्तरा between; within २५०, ५२, ९३,
३१३, २५, ६६, ७१, ४२३, ५००.

अन्तराकाश the inner space १६६३.

अन्तरात्मन् the inner self; the soul १५३,
२६१, ४६४, ६५, १०८५, १३८५, १४२०, ४०,
५८, १५९७, १६३५, ४७, ५८.

अन्तरान्तर innermost १६६६.

अन्तरालोक the mid region; the world
between this (अयं लोकः) and that
(असौ लोकः) १३४१.

अन्तरिक्ष mid-region; atmosphere; aerial
region १०, २०, २४, २५, ३३, ३७, ४४, ४५,
५१, ५५, ५६, ६६, ६९, ७५, ७८, ९३, १००,
१९, २९, ३०, ३२, ३३, ४८, ४९, ५३, ५७,
६३, ६४, ६५, ६७, ६८, ६९, ७२, ७३, ७४,
७५, ९६, २०२, ०३, ०४, ३०, ३३, ४५, ४६,
४७, ४८, ५०, ५६, ५८, ७९, ८०, ८२, ८५,
८६, ८८, ८९, ९४, ९५, ९८, ३०१, ०४, ०७,
३६, ६४, ६८, ७२, ७९, ८९, ९०, ९१, ९३,
९४, ९५, ९९, ४०४, ०८, १७, १९, २२, ३०,
३१, ३४, ४०, ५४, ५५, ५९, ७४, ७७, ८८,
९७, ५०३, ०७, ०९, १०, ११, १४, १५, १९,
२०, २१, २२, २४, २९, ३९, ८१, ६००, ०१,
१३, २१, ८५, ८६, ८८, ८९, ९७, ७०१, ६०,
७४, ७५, ७९, ८३, ९१, ९२, ८११, १४, ३२,
४८, ९३२, ३३, ३५, ८७, ९४, १०८३, ८४,
१११८, ५१, ६८, ६९, १२७९, १३३०, ३१, ३३,
३५, ३८, ४०, ४२, ४६, ५२, ५६, ६०, ६७,
८६, १४६१, ९९, १५११, १४, ७३, १६३३,
३४, ४८, ५१, ६४, ७८, ८१, ८२.

अन्तरिक्षित् dwelling in the atmosphere
or mid-region १६६४.

अन्तरिक्षत्रा travelling through the atmos-
phere ७१.

अन्तरिक्षलोक the intermediate region or

sky as a peculiar world २८६, ४७०,
५६१, १०५२, ११२०, ४५, १३५९, ६२.

अन्तरिक्षसद् dwelling in the atmosphere
९५, १४२७, १६३५, ४५.

अन्तरिक्षायतन having its abode in the
atmosphere ६८५.

अन्तरिक्षोदर having the atmosphere for
the belly or cavity ८१३.

अन्तरित discarded; neglected १३३६.

अन्तर्गत entered in १६६५.

अन्तर्ज्योतिस् light within ११९२.

अन्तर्देश intermediate region ४१०, ५२, ५३,
५५.

अन्तर्धि concealment; covering १३६९.

अन्तर्निहित hidden; placed inside ७४.

अन्तर्बक्ष that in which stands every thing
(i. e. अन्तरिक्ष) १३३५.

अन्तर्बाण्डोपयोग combination of the Inner
One and the world-egg १६६५.

अन्तर्याम name of a vessel used at a
Soma libation १६५४.

अन्तर्यामिन् inner controller ११४७, ४८,
५१, ५२, ५३, ५४, १५२४.

अन्तर्वत् pregnant २८९, ९०.

अन्तर्वैदि within the sacrificial ground
१३५७.

अन्तर्हित hidden २५२, ४५८, १३६९, १६५९.

अन्तर्हितेन्द्रिय one who has indrawn his
senses १६६२.

अन्तर्हृद् turned inwards in the heart
१६४५.

अन्तर्हृदयाकाश the interior of the space
within the heart १६६२, ६३.

अन्तवत् having an end; finite २४९, ४०६,
७६६, १०५४.

अन्तवती limited ६४४.

अन्तवेला hour of death ८१७.

अन्तस्थ (अन्तःस्थ) term applied to the
semivowels as standing between the
consonants and vowels ६१०.

ear-by २५०, ४९६.
 from near २३५.
 one who has deities or gods
 for him १३६५.
 his pupil who dwells in the house
 of his teacher ११८, ६९४, ७०४, ९९,
 १३०४.
 blind; pitchy; thick (darkness) ५१,
 ६०, ६३, ८५, ३३१, ३९, ४३९, ६६४,
 ७५, ९६४, ७४, ७५, १२४०, ८८, १३१५,
 २३, ५७, ९९, १४५१, १६६७.
 Soma juice; food ६६.
 the lord of the Soma plant १४५.
 food; eatable २५, ३३, ३४, ३५, ३६,
 ४२, ४३, ११६, १७, १८, १९, २०, ३७,
 ४९, ५०, ५१, ५३, ५४, ७४, ७५, ९०,
 ९१, ३८, ४५, ५०, ५२, ८९, ९५, ९७,
 ११५, १८, ३१, ४७, ६३, ८३, ४०२, ०४,
 २६, ३४, ५३, ५५, ५९, ६५, ७१, ७५,
 ७७, ७८, ७९, ८६, ५०३, ०६, ०७, ०८,
 १८, २८, २९, ३१, ३५, ४९, ५७, ६३,
 ८४, ८५, ६१७, ७६, ८६, ९५, ९७, ७०६,
 ३५, ३७, ३९, ४०, ५६, ६५, ६९, ७१,
 ७३, ८२२, २९, ३६, ५२, ५९, ६३, ६६,
 ७५, ७६, ९२, ९७, ९८, ९९, १०२, ०३,
 ३०, ३३, ३४, ९७, १००८, ०९, १४, २१,
 ४७, ६८, ७९, ८०, ८२, ११२३, ६९, ८७,
 १, ७६, ७७, ८९, ९६, ९७, १३००, ०३,
 ३३, ३४, ३७, ३८, ३९, ४२, ५५, ५६,
 ६५, ७१, ७२, १४४७, ४८, ६३, ९५, ९९,
 १, १६, १६३४, ४०, ४३, ४७, ४८, ४९,
 ५४, ५७, ५८, ६०, ६१, ६५, ६६, ६७, ८१.
 desirous of food ४७६, १६६०.
 yearning for food १३३३.
 gluttonousness १६५६.
 receptacle of food i. e. the belly
 of the lord of food १७३, ७७२.
 food and drink ९५९, १६४७, ६५,

अन्नवहु abundance of food १६६६.
 अन्नभाग food-portion ५०८.
 अन्नमय consisting of food ७२८, ४०, ९०१,
 ०२, ०३, १३३८, १६४७, ६०.
 अन्नरस flavour or sap of food ६३८, ५५,
 ६८, ६९, ७०.
 अन्नरसमय consisting of flavour or sap
 of food ७०४, १४.
 अन्नवत् possessing food; possessed of
 food ७३८, ३९, ७३, ७८, ९३४, १६६०.
 अन्नसंदेह body made of food ३२१.
 अन्नाद eater of food १७३, ३०१, ४५४, ५५,
 ५३०, ५७, ६४८, ४९, ७३८, ३९, ४०, ७३,
 ७८, ८१, ८२, ८०४, ३०, १००९, २१, १२५७,
 १३४५, ६१, १६५९, ६०.
 अन्नादी an eater of food ४५५, ८३०.
 अन्नाद्य food-eating १७४, ३१५, ४०१, ५३,
 ७१, ५४० ६५५, ९४, ७९४, ९५, ८०४, ८१,
 ९२, १००८, १४, ४७, १३३३, ३५, ३८, ४०,
 ४५, ५६, ५७, ५९, ६३.
 अन्नाद्यकाम desirous of eating food ६०१,
 १३३३.
 अन्नायुस् living by food ५८५.
 अन्यतस्त्वजायिन् conqueror of foes ६७६,
 १०६९.
 अन्यतोद्धार having door only on one side
 १३३८.
 अन्यत्रमनस् one having one's mind else-
 where १०५०.
 अन्यद्वयत्त another mode of life १२५९.
 अन्यराजन् heteronomous; having another
 for a king; subject to another ९४७.
 अन्यरूप having another form ९२.
 अन्यत्रत devoted to others; infidel ३५५.
 अन्योन्यसक्त closely sticking to or con-
 nected with one another; one after
 the other १५१३.
 अन्वच् following; going after १३३७.
 अन्वर्थवाचिन् expressing the proper mean-
 ing ५२३.

अन्वाख्यात an explanation keeping close to the text ४७१.

अन्वाख्यान an explanation keeping close to the text २९९.

अन्वागन्तु follower; going after ३७५, ७६.

अन्वागम following १३६१.

अन्वाभक्त entitled to take a share after or with another ४७०, ७१.

अन्वायत्त connected with; dependent ७६९, ७०, ७१, ७८, ७९, ८१४, १५, १०८०, १३६०.

अन्वारूढ mounted by १२२०.

अन्वाहार्यपचन the southern sacrificial fire used in the *Anvāhārya* sacrifice ४०४, ०५, ६५, ७३, ६९१, ८३७, ७९, १३८७, १५०६, १६५१.

अन्वित movement ३३५.

अन्वेतवे to follow; to go along ७४.

अन्वेषणा investigation; seeking for ८२५.

अन्वेषमाण being in search of १४९०.

अन्वेष्टव्य to be searched or investigated ९५२, ५४, ६९, १६५९.

अप् water २, ५, ९, १९, २१, २३, २४, २५,

३०, ३२, ३३, ३५, ३७, ४०, ४२, ४५, ४६,

४९, ५२, ५५, ५६, ५७, ६०, ६२, ६३, ६४,

६९, ७०, ७१, ७३, ७६, ७७, १०९, ०१, ०२,

०३, ०४, १४, १९, २०, २८, २९, ३२, ५०,

५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६२, ६६, ६९,

७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ८७, ८८, ९६, ९७,

२०२, २७, २९, ३८, ४३, ४४, ४५, ४७, ४८,

५०, ५१, ५३, ५५, ५६, ६०, ६५, ७१, ८१,

८२, ८५, ८६, ८९, ९३, ९५, ९६, ९७, ३००,

१०३, ०४, ०५, ०६, १२, १३, १५, २२, ३१,

३३, ४०, ४७, ५२, ५५, ५७, ६०, ६३, ७७,

७९, ८३, ९९, ४००, ०४, ०५, १६, १७, १८,

२२, २४, २९, ३४, ३५, ४१, ४४, ४९, ५०,

५३, ५४, ५५, ६७, ७२, ७३, ७५, ८९, १७, ९८,

५०१, ०४, ०६, ०७, ०८, ०९, १०, १५, १८,

१२, २४, ४०, ४१, ५७, ६१, ८३, ८४, ९४,

१४, ३८, ७६, ८७, ८८, ९०, ९१, ९२, ९४,

९५, ७०१, ०६, ४७, ६५, ७६,

८२७, ३७, ३८, ५३, ५६, ६०,

९७, ९८, ९०१, ०२, ०७, ०८,

३३, ३४, ३५, ७१, ९१, ९४, १

९७, ११०५, २३, २५, ४४, ४५,

१२६१, ७२, ८९, ९२, १३०५,

३१, ३३, ३५, ३७, ३८, ३९, ४२

५७, ५८, ६०, ६१, ६४, ६५,

१४२२, ३५, ५५, ९७, १५०८,

८४, ८९, ९१, १६०१, १७, ३०,

४३, ४४, ४८, ४९, ५८, ५९,

७०, ७१, ७५, ७६, ७७, ७८, ८१

अपक्ष without wings १३५९.

अपक्षपुच्छ without wings and

अपक्षीयमाणपक्ष the dark half

when the moon wanes ८

१३००.

अपगल्भ not fully developed

(comm. अपरूढेन्द्रिय or बाल)

अपगुरमाण threatening with

१४४.

अपगूढ (अपगूह) hidden; covered

अपचिति honour; worship ३८

६२, ७४९, १०५५, १३३५, ४१,

अपद् without a foot; footless

१२८३.

अपद a place which has a

where to set one's foot

अपदी footless १२१.

अपघा shutting up; hiding; covered

in a secret place ४५.

अपध्वान्त sounding like a broken

cymbal; a *Sāman* char

broken bell or cymbal ४

अपला not fallen down १३६१

अपभर्तवे to take away ३५६.

अपभर्तु remover; destroyer १

अपमित्य debt; what is borrowed

अपमृत्यु sudden or accidental

अपर posterior; later; further; inferior;
lower; subsequent; another; western
३९२, ४३४, ६०, ७४, ६३६, ९१, ९७६, ९०,
१२०५, १३९०, १४४४, ४५, ४६, १५१०, ९५,
१६१६, ३६, ५५, ५८, ५९, ७८, ७९, ८०.
अपरज born later; younger १४२.
अपरपक्ष latter half of the month ५४०,
६२९, ८६३, १११७.
अपरपक्षीय opponent ५२४.
अपरपाद hind foot २६६.
अपरपुत्र descendant १५४.
अपरप्रयोज्य not to be moved by another
१६६६.
अपररात्र latter half of the night १३६९.
अपरवत् not having followed by some-
thing १५४.
अपराजयिष्णु unconquerable; invincible
६७६.
अपराजित unconquered २४६, ४०१, ०६, ६३३,
७६, ९६५, १०६९.
अपराजिष्णु unconquerable; invincible
१०६९.
अपराध transgression; missing १३३४.
अपराह्ण afternoon ४७४, ७७९, ८२, १३३३,
६९, ७०.
अपरिग्रह not accepting; who does not
take anything from others; having
no belongings १६७१.
अपरिच्छिन्न not limited १६६६.
अपरिपर not beset with enemies (comm.);
not going by a tortuous course i. e.
straight (M. W.) ३८८.
अपरिमित indefinite; unlimited; unnum-
bered २०२, ४५४, ५५, १३४३, ४४, १६५६,
६१, ६३, ६५, ६६, ६८.
अपरिविष्ट not enclosed; unclouded ५०.
अपरिवृत not hedged or surrounded ६८४.
अपरी another or inimical (army);
other (woman) २७९, ४७६.

अपरीत not surrounded or encircled
४९४.
अपरोक्षात् (=अपरोक्षम्) not invisible; omni-
present ११३१, ३३, ३५.
अपर्यन्त unlimited १२९४.
अपर्याप्त incomplete; insufficient १३८६.
अपलापत् one who dissembles ४१३.
अपलित not grey ५१३.
अपवर्ग final beatitude १६६३.
अपवाद denial; refutation; exception
६८५.
अपवृत opened १३५७.
अपवेष्टित stripped off १३५७.
अपश्यत् not seeing ३३१, ८५१, ११८४, १२८८.
अपश्रय a bolster; support ४५१.
अपश्रित resting or dwelling in; resorting
to ११६, १७.
अपस् work; action; activity; skilful;
active ७५, २०५, ३३४, १५७३.
अपसलीम् from right to left ४०५.
अपसेधन्ती warding off; dispelling; chas-
ing away १३३१.
अपस्तम most skilful or active १२१, २०५.
अपहतमस्क freed from darkness ९३५.
अपहतपाप्मन् having the evil warded off;
free from evil or sin १२०, ४०५, ०६,
७५३, ९५५, ६३, ६९, ७०, १२०७, १३६३,
६७, ७२, १६५४, ५६, ५८, ६७.
अपहति destroying; removing; destru-
tion ९७७.
अपहन्तु destroyer; dispeller ७५४.
अपाख्यातु a slanderer ४१३.
अपाच् downward; lower २२३, ३५३,
अपाणिपाद without hands and feet १४४५,
१५९९, १६७६.
अपाण्यपादकेश having no hands, no feet
and no hair ४१०.
अपात् full share; an asset १२९४.
अपाद् footless २३०, ५०.

अपान respiration; that of the five vital
 airs which goes downwards and out
 at the anus १७३, २४५, ४८, ५२, ६०,
 ३०७, ०८, १२, १३, २२, २५, २७, ४७, ५१,
 ७६, ८२, ८७, ८८, ४२५, ३५, ४०, ५५, ६०,
 ६१, ६२, ७३, ७९, ५१४, ३५, ४२, ४५, ६१,
 ८१, ८३, ८५, ६२१, ८९, ९१, ९७, ७०१, १४,
 ४०, ५५, ८०४, ८१, १०५०, ११२०, २२, ३२,
 ७६, १२८१, १३०७, ४३, ४४, ४५, ४६, ४८,
 ४९, ५०, ५१, ५२, ६२, ६५, ८६, १४२७, २८,
 ५८, १५०१, ०२, ०६, १६४४, ४७, ४८, ५४,
 ५८, ५९, ६४, ६६.

अपानत् breathing out ३२४.
 अपापकाशिनी not ill-looking (M. W.)
 not bringing or showing evil
 (comm.) १३४, १५९४.

अपापविद्ध unpierced by evil १३१९.
 अपाय going away; departure ५६१.
 अपार unlimited; boundless ५५, ६९, ७७,
 ४०६, ०७, ९२, १०९८, १६६१.

अपित्व share १३५१.
 अपिधान cover ४३६, ९५९, १६४८.
 अपिपास free from desire; thirstless ८१७,
 ९५५, ६९, ७०.

अपिहित covered; concealed २४१, ७६,
 ४७२, ६२१, ९०, ९१, १२८४, १६६५.

अपिच्य hidden; concealed ७१, ८३.
 अपि गत gone to; merged in or into; dis-
 solved in to ९०४, ७६, १३५४.

अपि ति dissolving; dissolution; merging
 १५२८.

अपि ति impure; wicked ४१०.
 अपुत्र sonless ६९१, १३०४, १६२७, ६३.
 अपुष्पा not bearing flowers i. e. useless,
 senseless ४९०.

अपूत impure १३४४, ४६.
 अपूप honeycomb ७९२.
 अपुष्पापिहित covered with cakes ३९१.

led; unparalleled १५३, २५०, ३२३,
 ६९१, ११११, १५७३.

अपृणत् not propitiating by gifts; stingy
 ३५३, ४७५, ७६.

अपृथग्धर्मिन् having no separate marks
 १६६२.

अपृथग्विवेक्य which cannot be discrimi-
 nated separately; indistinguishable
 १६६२.

अपेय unfit for drinking ३०३.

अपोच्छन्तीपक्ष dark half of the month ४०५.

अपोदित gone away altogether; with-
 drawn from १३५७.

अपौलकस not a *paulkasa* (the name of a
 low cast; son of a *S'udra* father and
 a *Kṣatriya* mother) १२१०.

अप्य belonging to the waters or the
 mid-region ४९८.

अप्यय vanishing; merging; dissolution;
 end ६२३, ९०, १४३७, १५२४.

अप्रकेत indiscriminate; unrecognizable;
 indistinguishable २४१, ७६.

अप्रचेतस् deficient in understanding;
 foolish ४७६.

अप्रजज्ञि inexperienced; an ignorant per-
 son; a fool ४९२.

अप्रजस्ता childlessness ३३९.

अप्रजायमान not procreating १२८८.

अप्रतिगृह्य one from whom one should not
 accept anything ११८४.

अप्रतिमन्युयमान impotent in fury; being
 unable to show resentment or re-
 taliate anger for anger १६९.

अप्रतिरूप not corresponding with; unfit
 ६७७, १००३.

अप्रतिष्ठा instability; something having
 no firm or solid foundation २८९.

अप्रतिष्ठान having no solid ground ४४२.

अक्षित unlimited; unsupported २८६,
 ३६५.
 अक्षित unopposed; unobstructed ७६.
 अक्षित not given back; not repaid ५०५.
 अक्षित not being consumed by fire
 ६४८.
 अक्षित careful; vigilant ७८५, १४३७, ६०,
 १५८८.
 अक्षित vigilantly; carefully; without
 default १६९, १७३, ३१५, ५०७.
 अक्षित immeasurable; unlimited; what
 cannot be perceived by any means
 of proof ३३६, १२४५, १५७३, १६५७, ६६.
 अक्षित vigilant; not committing any
 mistake ९९.
 अक्षित unmixed; untainted ९१.
 अक्षित one who does not teach or
 impart ६२३, ९०.
 अक्षित non-active ६७६, ८०३, १०६८.
 अक्षित self-possessed; not capable of
 being overpowered ८५५.
 अक्षित without breath ११५९, १४५४, १६६३,
 ६६.
 अक्षित what is not breathing २४९, ७५५,
 ११८४.
 अक्षित called or known as non-breath
 १६६२.
 अक्षित assiduous; not careless ४९४.
 अक्षित unfriendly; unpleasant; undesira-
 ble; disliked १६३, ६४, २४५, ४५०, ७३,
 ५०८, ७४०, ९७७, १०३०, १३६४.
 अक्षित one who experiences what is
 unpleasant ९७५.
 अक्षित a class of female divinities
 inhabiting sky, but often visiting
 the earth ११७, ५०, ६०, ६४, ७९, ३०६,
 ४०१, ४९, ८८, ५०१, ०८, ०९, ६३३, ३४,
 १३३३, ४२, ४६, ५६, ६३, १६६४.
 अक्षित same as अप्सरस् १६४५.

अप्सुचर aquatic; moving or residing in
 waters ४०१.
 अप्सुचारिन् aquatic; moving or residing
 in waters १६६२.
 अप्सुसत् possessed of or rich in water
 ७७६, १६३३.
 अप्सुसत् not bearing any fruit; useless;
 senseless ४९०.
 अप्सुसत् without relatives ३७४, १३५६.
 अप्सुसत् weak ८३१.
 अप्सुसत् free from *balāsa* (a particular
 disease, consumption or phthisis)
 ३८३.
 अप्सुसत् weakness ९६७.
 अप्सुसत् weak; not very strong १०३८.
 अप्सुसत् weakness १२२३.
 अप्सुसत् of unbroken vows १२०.
 अप्सुसत् without an outside ६९१, १११२,
 ५९, १२६३.
 अप्सुसत् without awareness १६५४.
 अप्सुसत् not awakened १२४०.
 अप्सुसत् baseless; bottomless ७४.
 अप्सुसत् non-perceiver ९३४.
 अप्सुसत् born of flood; born in water ९५,
 १४२७, १६३५, ४५.
 अप्सुसत् not keeping a vow of conti-
 nence; unchaste ६९०.
 अप्सुसत् not brahman ५२३.
 अप्सुसत् ignorant of *Brahma* १४८७.
 अप्सुसत् non-*Brāhmana* ८३१.
 अप्सुसत् going to the clouds १३३८.
 अप्सुसत् absence of fear; security; with
 fear; fearlessness; fearless; a
 or position above fear २१, ७१,
 २६६, ३७८, ९०, ५०३, १२, १५, १९, ७२५,
 ५८, ८३९, ९६१, ७१, ७३, ७५, ११८९, १२५८,
 १४०२, ११, ९४, १५१४, १६३२, ३३, ४५,
 ५४, ५९, ६२, ६६, ६७.
 अप्सुसत् causing safety or freedom
 from fear १६३२, ४६.

अभाग having no share ३४२, ६८८.
 अभाव absence १६१८.
 अभिकल्पन framed १४३६, १५९७, १६०९, ३१.
 अभिकन्दत् roaring on ४२३.
 अभिघ्नत् smiting १४४.
 अभिचक्षणा observation ३४०.
 अभिचक्षण beholding; observing ७३.
 अभिचार witchcraft ३८५, ५११.
 अभिजिघ्रत् smelling; caressing; touching
 closely १२२.
 अभिजित् victorious ४४७, ६९, १३६१.
 अभितप्त scorched; burnt; afflicted well
 heated २८२, ८३, ५२१, ८१, ८४, ७८९,
 ९४, ९५.
 अभितस् near to; towards; about १३३१,
 ३३.
 अभियु going to heaven; heavenly; bright
 ४०६, ८२.
 अभिधानी halter; rope १६३.
 अभिध्यातव्य deserving to be meditated
 upon १६६४.
 अभिध्यातृ meditator १६६२, ६८.
 अभिध्यान meditation १५८१, ८२.
 अभिध्यायन् meditator १३९७, ९९.
 अभिध्यायमान meditating upon १६६६.
 अभिध्येय to be meditated upon १६५३, ६१,
 ६४.
 अभिनद्धाक्ष one with eyes bandaged ९२१.
 अभिनन्द pleasure (of sensuality); deli-
 cious ४०४, ८६०, १२९७.
 अभिनिहत near the clouds or the sky ६३.
 अभिनिहन् bandage ९२१.
 अभिनिहन्त issued or issuing forth;
 going out towards ९६८, १४३९.
 अभिनिमुक्त upon whom while not doing
 any work or while sleeping the sun
 has set ४८६.
 अभिपद्यमाना approaching ४७१.
 अभिपन्न seized; reached; overcome ११९,
 २०, १११७.

अभिपरिवर्तयन् giving turns १३५९.
 अभिपर्यक्त clung around १३४०.
 अभिपीडित = (अभिपीडित) pressed thro-
 ughly १३३६.
 अभिप्रतारिन् name of a descendant of
Kakṣa-sena ८२८, २९, १३४८, १३५५.
 अभिप्रयन् going to; approaching १३६९.
 अभिप्राणित breathing; imparted life;
 breathed ५८५.
 अभिप्रातर् toward morning १३०८.
 अभिह्वन् name of a religious ceremony
 (lasting six days and performed
 five times during the sacrifice
Gavām-ayana) ४३९.
 अभिभू one who surpasses; overpowerer
 ५८, ६७, १६४४.
 अभिभूत overpowered १५०७, १६५६.
 अभिभूति overpowerer or vanquisher (of
 enemies) ५७, २६०, ३४४.
 अभिभूत्योजस् possessed of overpowering
 vigour ७६, ३४२.
 अभिमन्त्रित consecrated by a certain
 formula १६३२.
 अभिमाति a proud enemy ३४३.
 अभिमातिषाह conquering or overpowering
 proud enemies ३४२.
 अभिमान pride; ego १४९७ १६५७, ६०.
 अभिमानाध्यक्ष lord of ego १६६३.
 अभिमानित्व state of ego-feeling; self-
 conceit १६५५, ६३.
 अभिमुखतस् face to face; in front of
 ६५४.
 अभिरूप fit; worthy; proper १६१.
 अभिलालपन् one who tells in detail (the
 good deeds of men to Gods) ४१३.
 अभिवदन् one who refers to; one who
 expresses by name; one who descri-
 bes २७३, ४००.
 अभिवदन्ती one who addresses or descri-
 bes १४५०.

अवादिन् explainer १६५६.
 अविज्ञान full or complete knowledge
 or perception ५५९.
 अवृता encompassed २१८.
 अवृष्ट over which it has rained; sprin-
 kled by rains ३२४.
 अव्यक्तिकर producing the manifesta-
 tion १५८९.
 अव्याहरत् uttering; pronouncing ६८६.
 अव्याहार pronunciation; utterance
 ६८६, ९८०.
 अव्याहृत what has been said ५८५.
 अवशस्ति imprecation; damnation; curse
 १७, ३७२, १६४५.
 अवश्राव hearing (a prayer); granting
 an answer १२३.
 अवश्री glory; glorious; possessed of
 grandeur २७८, ३८३.
 अवषवणी utensil used for pressing out
 (the Soma juice) ४७३.
 अवषाच् one who follows or accompa-
 nies; closely clinging ४९८.
 अवषिक्त anointed; sprinkled १६६०.
 अवष्टि protection ७०.
 अवष्टुत praised ३३९.
 अवबुद्ध्य overfondness १६५६.
 अवसंपद्यमान changing into ४६८.
 अवसंपन्न attained; merged into ४१, ३३७,
 १२८७.
 अवसमेत assembled १११५.
 अवस्वर invocation १७४, ४७७.
 अवहत afflicted with १६५३.
 अवहित harnessed; tied together ३१६.
 अवोके near ६२.
 अवोक्षणम् repeatedly १३८३.
 अवपिति assault; attack १२५.
 अवोद्ध inflamed; well kindled; well
 heated २१७, २७९.

अभीपतस् at the right time; from near;
 favourably; from the waters or
 clouds २२९.
 अभीमोदमुद् one who enjoys enjoyments
 ३११, ४४९.
 अभीलापलप् excessively whimpering ३११.
 अभीवर्ग sphere of the sky; compass १२९.
 अभीवृत decked ४३५.
 अभीशु rein ३३५.
 अभीषाह overpowering १६९, ५०९.
 अभीषु rein १५७३.
 अभूति Adversity; dirth; non-existence;
 destruction ३११, ५००, ४२, १०३०,
 १६४७.
 अभोज्य not to be eaten १६४३.
 अभ्यञ्जन unguent ४७३.
 अभ्यनुज्ञात allowed १६४४.
 अभ्यनूक्त stated or uttered with reference
 to ३७, १५८, ६०, २९९, ३०५, ०६, १९.
 अभ्यन्तर internal १५१३.
 अभ्यपानित breathed towards ५८५.
 अभ्यवचरण a weapon; a missile १३६८.
 अभ्याख्यात (person or matter) which
 is censured or decried (by people)
 ७०४.
 अभ्यात्त which has encompassed or
 covered or pervaded ८०९, १२.
 अभ्यात्मम् pertaining to or towards one's
 self ५६९.
 अभ्यादान beginning ५२३.
 अभ्याप्त reached; got; pervaded २६१.
 अभ्यारूढह (= अभ्यारूढ) ascended ४७३, ६९१
 अभ्यारोह praying १०१४.
 अभ्यावर्तम् repeatedly; clearly ४६८.
 अभ्याश prospect; shortly (comm. अभ्याशः=
 क्षिप्रमेव) ७५७, ७४, ८२२, ६७.
 अभ्याशम् nearly; in the near future;
 very shortly ६०१, ०३, ८५.
 अभ्याहित laid on (as fuel); kindled
 ९०३, १०९६, १२६१, १६६४.

अभ्युक्त spoken; stated; declared २७, ३५०,
५१७, १२५४, १३५८.
अभ्युदित expressed; said ३४७.
अभ्युक्त concluded; inferred ४५५.
अन्न welkin; rain-cloud; mist ३८, ७८,
११९, ६३, २८८, ४०४, २४, ३४, ३६, ४९,
७४, ७८२, ८५९, ६४, ६५, १२९६, १३३९,
४०, ६७, ७२.
अभ्रातृ brotherless ३५३.
अभ्रातृव्य name of a particular *Sāman*
१३३८, ४३, ६६.
अभ्रूणहन् one who has not destroyed an
embryo १२१०.
अभ्व fearful danger; horror; monstro-
sity; monster १२१, २२, २७, ७५,
३०२, ५०६.
अम power; strength; the imaginary
constituant of the word *Sama*;
name given to the potion or
mantha at a particular ceremony
(see पृ. ८५४) ५६, ७२, १७५, ७६०, ८५४,
१३०८.
अमत not perceptible by the mind,
what is not thought of; unthou-
ght ६१८, ८९, ८८३, ९८, ११५४, ६५,
१३७८.
अमति misery २४५.
अमतीवन् dull of intellect; entertaining
wicked thought; evil intentioned
१७.
अमनस् mindless ३३१, ८५१, ११५९, ८५,
११४५४.
अमनस्क unmindful १४१३.
अमनीभाव mindlessness १६६४.
अमन्तु ignorant; thoughtless २३८.
अमन्तु non-thinker १३४, १६६०.
अमन्त्र unaccompanied by Vedic verses
or texts ४८६.

अमन्यमान not being aware of; disrespect-
ful; paying no heed; not caring for
४७.
अमन्वान not a knower ७२५.
अमन्नि undying ३८५.
अमर undying; deathless १२५८.
अमर्त्य immortal; god; immortality १५,
१६, १७, ६७, ७०, १०४, २१, २९, ७०, ३१९,
२३, ३५३, ५०८, ४२, ६३०.
अमलाकाण्ड prob. the name of a particular
Sāman १३४१.
अमा with; together ४२४, ८५४.
अमातृ not a mother १२१०.
अमात्र without measure; without an
element ११५९, १५२८.
अमात्रा not the time required for the
utterance of a syllable ६०३.
अमानव non-human ८४०, ६१.
अमानुष not a human being (comm. one
not liked by worshippers of *Indra*)
३५५.
अमानुषी superhuman; divine १३५७.
अमावास्या the new moon day; the last
day of the dark half of the month
१५२, ३३१, ४५०, ५५, ५६, ६४२, ४७, ८५४,
१०५५, १३३९.
अमित infinite; boundless; unmeasured
२४८, ३६२, ५६८.
अमितौजस् of unbounded energy; almi-
ghty ६३३, ३६.
अमित्र foe; not having a friend ४३, ६७,
२८७, ९९, १६४३.
अमित्रदम्भन hurting enemies १८८.
अमित्रहन् killing enemies ३४२.
अमीवचातन driving away pains and disea-
ses or tormenting spirits ३८५.
अमुख having no mouth ११५९, १३६६, ७१.
अमूर् wise; sharp-sighted; not foolish
६५, ८६.

without a root १०७, ०८.

क unhurt १५६.

nectar; immortal; immortality २,
८, १०, १३, १४, १५, १८, २०, २८, २९, ३१,
३२, ४४, ६७, ६८, ७३, ७६, ८४, १०७, ०९,
११, १२, १३, १६, १८, २०, २१, २२, ६७,
६९, ७०, ७१, ७३, ७५, ७६, ८३, २१४, ३१,
४०, ४५, ४७, ५०, ५१, ५७, ६०, ६१, ६५,
६८, ६९, ७३, ७६, ३०२, १४, १७, ३२, ३४,
३५, ३६, ४२, ४९, ५२, ५६, ६७, ६८,
७३, ७६, ७७, ७८, ८०, ८२, ८५, ९०, ९३,
९९, ४०१, ०२, ०३, ०४, ०५, २०, २२, २५,
२७, ३०, ३२, ३५, ४७, ६१, ६२, ६४, ७५,
७७, ७९, ९३, ९९, ५०७, १७, १८, २०, ४२,
५९, ९१, ९४, ६४४, ५३, ५८, ५९, ७१, ९५,
९९, ७४०, ५८, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ८८२,
३९, ९४४, ६०, ६२, ७१, ७३, ७५, ८३,
१०१४, २१, ५८, ६६, ८२, ८४, ८५, ९१,
११०३, ०५, ०६, ०७, ०८, ४८, ५१, ५२, ५३,
५४, ७०, १२०१, ३६, ४१, ४२, ५८, ६०, ८४,
१३२२, २४, २७, ३१, ३२, ३३, ३५, ३६, ३७,
३८, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७४,
७८, ७९, ९७, १४२९, ३३, ३४, ३६, ३८,
३९, ४०, ४७, ५२, ६०, ६१, ६३, ६८, ८७,
९४, ९८, १५०४, १४, १७, ७३, ७४, ८६, ९२,
९४, ९६, ९७, १६०९, ११, १२, १३, १९, २५,
२६, ३०, ३१, ३६, ४०, ४३, ४४, ४५, ४६,
४८, ४९, ५४, ५५, ५७, ५९, ६२, ६५, ६६,
६७, ६९, ७३, ७८, ८१.

तकुम्भ vessel containing nectar ३२२.

तकोश the sheath of nectar or immor-
tality; the अव्यक्त which is the sheath
as it were of सूत्रात्मा (see comm.)
२६५.

तज्योतिस् immortal light १२०.

तत्व immortality ९६, २१६, ३१, ३६६,
६८, ९०, ९८, ४०१, ०३, ५६, ५९, ६४, ६४७,

अमृतवन्धु a friend or keeper of immor-
tality २७५.

अमृतमय immortal ५५४, ११०३, ०५, ०६,
०७, ०८.

अमृतयोनि the home of the immortals
१६४३, ४४.

अमृतवाक्त्रा a kind of bird ११५.

अमृतशरीर immortal body ४०३.

अमृताक्षर immortal and imperishable
१५८१.

अमृतोक्षित sprinkled with immortality
or nectar ७०३.

अमृषा surely; not false ११७८.

अमेघ without a cloud ६१७.

अमेध्य impure १६३३.

अमोघ efficacious; unfailing ९३७.

अमौन non-ascetic state ११३६.

अम्बर sky १६७६.

अम्बरीष name of a *Rājarsi* १६५३.

अम्बा name of a nymph; name of an
Apsaras ६३३.

अम्बायत्री name of a nymph ६३३.

अम्बिकापति the lord of *Ambikā*; an
epithet of god *S'iva* १६४१.

अम्भण the body of the *Vīna* lute. ६२१.

अम्भस् water १७४, ७५, २३९, ७६, ५८१,
१६२९.

अम्भिणी name of a woman teacher १३१

अयःशफ having iron hoofs ४१६.

अयक्ष्म healthy; free from disease १
५०९.

अयक्ष्मा not causing any trouble or
disease १३६.

अयज्ञ neglecter of sacrifice; one who
does not perform sacrifices ६४.

अयज्ञिय not fit for sacrifice २८४.

अयज्ञोपवीतिन् one who has no sacred thread १६७१.

अयज्यु one who does not perform a sacrifice १९३.

अयज्वन् one who does not perform a sacrifice १३२, ३५५.

अयन place of refuge; name of various periodical sacrificial rites; going; path २५४, ७३, ३९५, ९६, ४१२, ३५, ५५७, १३३९, १४९३, १५९५, १६२४, ४६.

अयस्य inglorious १३०६.

अयस् metal; iron; iron-weapon २९३, ९६, ४३०, ३६.

अयस्कार iron-worker १६६२.

अयस्पात्र metal-vessel १६३.

अयस्पिण्ड lump of iron १६५५, ६२.

अयस्मय made of iron or of metal ४०५, १३६८.

अयाचित not asked for १६४४, ४५.

अयाजित one for whom a sacrifice is not offered ४८३.

अयाज्य person for whom one must not offer sacrifices ११८४.

अयाज्ययाजक one who offers a sacrifice for a person for whom no sacrifice should be offered १६६७.

अयातयाम not weak; not worn out by use ५२२.

अयास्य name of an *Angiras* (composer of the hymns RV. IX-44-46, and X-67 and 68); agile १००६, १०, १३, १११४, १२६६, १३५१, ५२, ५३.

अयत्त not held firm; improper १४१३, १६५६.

अयुज् unattached; alone १६३४.

अयुत unrepelled; ten thousand; myriad ३१३, १३३३, ३७, ३८, १५७३.

अगोध्या impregnable; unassailable २४५, २.

without origin १६६१.

अयोनिज not born from the womb ४१०.

अर spoke or radius of a wheel; name of an ocean in Brahma's world १७२, २५०, ६७१, ९३७, ६५, ६६, ११०८, १४६२, ९८, १५१८, ७३.

अरम् speedily; enough ३३५, ४७६, ९२, १६३३.

अरंक्रुत् one who honours or worships or offers a sacrifice ७.

अरंक्रुत prepared; ready ६४, ४५१, ५०७.

अरञ्जु a place having no ropes; without cords ५०.

अरण one who does not give (comm. अदाता); a lord (अर्य); a stranger (as opposed to स्व); an enemy; an opponent ७८, ४७६, ८२, ५०६.

अरणि friction-stick; lower friction-stick ११, २५०, ४७०, १३०९, १४२३, १५८४, १६७५.

अरण्य forest; wilderness; name of a tree ४७०, ५०७, १२७७, ९८, १३६४, ६९, १४५२, १६५०, ५३, ५९, ७७.

अरण्यायन betaking oneself to hermit life in the forest ९६५.

अरति a manager; administrator २.

अरतिन् elbow ३१४.

अरथ not having a chariot १४१.

अरपस् beneficial; not hurting १२६.

अरस tasteless ३३९, ११५९, १४१७.

अरसयित् one who does not taste १६६०.

अरति malignity; fiend; niggard; foe ६५, ६६, ९४, १६९, ७०, ७५, ८९, ३११, ८२, ४२०, २८, ८५, १६३३, ४३, ५०, ७८.

अरातीवन् inimical १८९.

अराधस ungenerous ८६.

अराय destitute of wealth; a thief; wicked ३८४, ५०६, ०९.

अरि enemy १६९.

अरिप्र spotless ४८९.

unhurt; imperishable; security

५४, ३८२, ८५, ५१३, ८१३, १०४१, १६४९.

सुख security; safeness ३६५, ६६,

१.

नेमि the felly of whose wheel is

unhurt ४९५, १६३२.

सुख security; safety ६५०.

सुख red; name of a pupil of *Upavesi*

, ३८, ३९, १३५, ४३, ५९, ७२, ७५, २४५,

०६, ४१९, २३, ५०९, १३११.

सुख radiant ३५८.

सुख (plural) name of certain *Yatis*

५७.

सुख not harsh; not dry १६६५.

सुख formless १४१७, १५९६, १६७३.

सुख not knowing the form १२२३.

सुख without seed १३०७.

सुख light; the sun; flame; praise; song;

brilliancy; worthy of veneration

(*Sāyana*); religious ceremony;

सुख fire in the Horse-sacrifice १०, ११,

५५, ४३, ५७, १६९, ७४, २१६, ३४, ४९, ५८,

००, ३१९, २०, २१, ५९, ४४५, ५२७, २८,

९, ९९१, ९४, ९९, १५०५, ८९, १६५९.

सुख लेन् that which stands absorbed in

the sun (the अर्कलिनिः are रश्मयः, इष्टकाः

अथ ऋचः acc. to शङ्कर) ६१२, ८८.

सुख वेध like *Arka* ४३.

सुख the *Rig-veda*; collections of ऋक्स

३८६.

सुख respectful welcome १२९३.

सुख praising १०५, २९९, ३००, ४६४, ९९१.

सुख प्रान् praising; worshipping १४५०, १५१९.

सुख येत् one who praises or worships

५७३, ६९१.

सुख light; flame ८३.

सुख मत् shining; flaming; possessed of

days ४२०, १४६०.

सुख र्स् radiance; light; flame ३२, १०१,

२, १३, ७०, ३६०, ४२४, ५०९, १७, ८४०,

५८, ५९, ६०, १२९५, ९६, ९७, ९८, १४४९,

१६४०, ६५.

अर्जुन bright; white १४, १७४.

अर्ण flood; water; sea ६९, ८०, २६६.

अर्णव wavy; sea; watery (*Sāyana*);

ocean १०, १४८, ६९, ७०, ७१, २५३, ७९,

३०७, ०८, ६३. ५०७, ०९, २०, ८२, ९६५,

६६, १६३३, ६५.

अर्ण्य belonging to the time fit for

generation; son of *Rtu*. १६३.

अर्थ advantage; purpose; substance;

meaning; subject; notion; object;

object of sense; wealth २७, १८१, ४५६,

७८, ५२३, ६०६, ४२, ९२, ८७३, १३०६, ०७,

०९, १९, ९८, १४१४, १६२८, ५५, ५६, ५७,

६७.

अर्थज्ञ one who knows the meaning ६९२.

अर्थवत् significant ५२३.

अर्थसामान्य same meaning ५२३.

अर्थोपार्जन acquisitiveness १६५६.

अर्ध half; place; region ११४, ९९, २१०,

१२, ४९, ३२६, ८५७, १३६०, १४९४.

अर्धकषातिन् half-smiter (*Whitney*);

killing the water-snake (*M. W.*);

one who kills half the number of

the soldiers in an army १२०.

अर्धगर्भ half a descendant (*M. W.*);

holding water in them during half

the year (*comm.*); unripened

२२१.

अर्धचतुर्थमात्र three and a half १६८०.

अर्धदेवता demi-god १३५४.

अर्धदृगल half a portion १०१९.

अर्धभाज् sharing half १३६०.

अर्धमात्रा half a short syllable १६८२.

अर्धमास half month ३६, १६३, २४६, ८२,

४०४, ०५, ४९, ५३, ६२, ७२, ५१४, १७, ६८७

९१, ९८७, १३३३, ४४, ६२, ६६, १६३०, ५१.

अर्धमास्य of or belonging to half month

४०३, ०५.

अर्धर्च half a verse २३०, ५४७.

अर्धोदित half-uttered १३३३.

अर्पित set; fixed; contained १६२, ६७१,
१४२३, ९४, १५८४.

अर्बुद ten millions १३३३, ३७, ३८, १५७३.

अर्भक small १३३, ४०, ४६, १५७४, १६४६.

अर्य of or belonging to the foe; lord;
foe ४६, ८०, ९२, १२३, ९०, ३६४, ४७९,
८५.

अर्यमन् name of an *Āditya* who is com-
monly invoked together with
Varuna and *Mitra*, also with *Bhaga*,
Brhaspati and others; he is supposed
to be the chief of the *Manes*, *Bhaga*
etc; he presides over the *Nakṣatra*
Uttarāphalguni; a bosom friend ५,
६, ९४, ९९, १६५, ७४, ४३४, ७६, ९४, ९६,
५११, ६९३, ७०४.

अर्यम्य intimate; very friendly ७८.

अर्वत steed; horse; courser १२५, ४३०,
८२, ९८.

अर्वती mare ८०.

अर्वन् horse; courser; steed ४२८, २९, ३०,
८२, ९९०.

अर्वाणिवल having the mouth downwards
१०८१.

अर्वाणिवल् belonging to this world २६.

अर्वाणिवल् turned downwards; hitherward;

तowards १७३, २१३, ४२, ४९, ५०, ७०,
७६, ३०४, ४२, ५९, ७८, ८०, ४२३, ३८, ४०,

४१, ९२, ७६४, ९७, १३३२, ३८, ४६, १६५८.

अर्वाणिवल् being below; posterior ३२, १३४१.

अर्वाणिवल् worship; honour ८७३.

अर्वाणिवल् worthy; deserving १२६, २७.

अर्वाणिवल् honour ८५७.

अलकम् in vain; for nothing ४९१, ६१६,
८८.

अलङ्कार ornament ९७४.

अलङ्कृत ornamented; prepared; made
ready ६३४, ९७२.

अलक्षण having no distinctive mark;
inauspicious १५२५.

अलक्ष्मी evil fortune; misfortune; adver-
sity ५००, १६३२, ४७.

अलम् capable; sufficient; a match; ade-
quate १५४.

अलम्भ name of a *Rṣi* and of a *Sāma*
१३६४.

अलम्भता state of *Alamma* १३६४.

अलातचक्र wheel or circle formed when
a fire-brand is moved in a circle
१६६२.

अलाबुपात्र jar made of the bottle-gourd
१६४.

अलाभ non-acquirement १६७१.

अलिक्रव a kind of carrion bird (M. W.)
not timid; bold (comm.) १२८.

अलिङ्ग having no mark १४३६, ८२, १६६४,
६५, ६६.

अलुप्त not harsh ७०४.

अलोप्य stainless १६५५.

अलोक not the world ५५९, १२१०.

अलोकता the state of having no 'लोक' i. e.
future world hereafter १३५३, ५४.

अलोक्य not conducive to (the other)
world ५१७.

अलोक्यता loss of the other world १०१४.

अलोमक hairless १०२०, २१.

अलोलुप्यव steadiness; absence of attach-
ment or greed १५९०.

अलोहित not glowing; bloodless ११५९,
१५०९.

अल्प slight १३९७.

अल्पमेघस् of little understanding; dull-
witted; foolish १३९०.

अल्पविद् knowing little; ignorant १३२.

अवश that which has no support; the
ether ५१, १९३.

अवकाश space १६६२.

निग्नि one who has violated his vow of chastity १६३४.
 अतु one who does not speak १६६०.
 अचेतस् uncrooked-minded; upright of heart १४२६.
 अघ name of a people ५२७.
 अघा ditch १६६३.
 अकृत one who makes a ditch or a hole १६६३.
 अकृत् living in a hole १४२.
 अकृती cleaving down; descending ११.
 अकृत् not speaking ३३१, ८५१, १२८८.
 अकृतमन्स् pure-minded १६५८.
 अकृतान cutting or dividing into pieces; portion; present ४२०, २१, १६६४.
 अकृतो reproachful; reproach; vice; blameworthy; worthy of reproach or censure ६, १२३, ३५७.
 अकृतो deathless १२२.
 अकृतो stream; course of a river; a night (comm.) ५०, ७८, ८०.
 अकृतो जन washing ४३६.
 अकृतो नी protecting ३४९.
 अकृतो द fastened on; fixed १६४९.
 अकृतो मन्द्त् piercing; killing १४२.
 अकृतो थ purificatory bath; final ablution ७४, ८१६ १६५२.
 अकृतो दिन् splitting; dividing १४२.
 अकृतो न् next; lowest १२३, २४, ८५, २४७, ४१०.
 अकृतो च्चत् loosening ३८०.
 अकृतो च्चमान cutting; loosening ३७७.
 अकृतो जन expiation; means for expiation ६४६.
 अकृतो व part; limb १६०६.
 अकृतो न् expiation; downgoing १२३, ३७८.
 अकृतो पो posterior; weaker; nearer; below; inferior; without a boon; lower १४, ६, १०३, ०४, १३, ८३, ९२, २१२, २५, ४७,

४९, ३५८, ६२, ८७, ४०६, ३०, ६०१, ५६, ८५, १२०१, १३३१, १४००, ५१, १६१४, ५०.
 अवरपर one upon the other ४३७.
 अवरपर closely connected on either side ६०६, ८६.
 अवरपुरुष descendant ८३७.
 अवररुद्धि obtainment; attainment ४७०, ७१, ५२१.
 अवरोधन innermost part ३५५.
 अवरोधिनी procurer ६४२.
 अवर्ण without caste; without colour १४४५, १६००.
 अवर्णलेश partial pronunciation of the letter 'a' ५२३.
 अवर्ति bad fortune; poverty २४५, ३३९, ७०.
 अवर्ष्य not coming from rain १४२.
 अवश्य uncontrolled १४१३.
 अवस् below; protection; favour; downwards १४, ४७, १२२, २३, ६५, ८५, ९६, २२९, ५६, ३४४, ४२९, ९५, ९६.
 अवसान rest; release; end; death ३५७, ८८, ४१७, १६८२.
 अवसान्य related to the end; who is described in the last portion of the *Veda* i. e. *Vedānta* १४२.
 अवस्तात् below; before २४२, ७६, ४५९.
 अवस्था state १६६०.
 अवस्थित stable १४०७.
 अवस्पृत् saviour १८९.
 अवस्वन्य roaring; living in steady way (*Sāyana*) १४१.
 अवहित plunged into; hidden; place kept ६८१, १०२२, १६३५.
 अवाकिन् unspeaking; one who does not perceive with his sense-organs ८०९, १२.
 अवाक्क speechless २६१.
 अवाक्कख with its branches turned down २६४, १४३३.

अवाच below; downwards; turned downwards; lower; situated below ३०, २०३, ४५, ९२, ९५, ९९, ३२७, २८, ४६९, ११५८, ५९, ८८, १३५१, १६५५, ५६, ६१.

अवाची situated below ३२७, ११८८,

अवाचीन situated below; lower १६९.

अवाच्य difficult to say; that which cannot be described १६५९.

अवात windless atmosphere; without wind २४०, ७६.

अवान one of the vital airs (which are said to be five or six) १२५०, ५१.

अवान्तरदिश intermediate quarter २९५, ६९१, ७०१, ८५९, ९८७, १२९५, १३३५.

अवान्तरदिशा intermediate quarter ५१९, १६५१.

अवाप्त taken; attained १३९९.

अवायु windless ११५९.

अवार्य being on the near side of the river (comm.); unrestrainable; irresistible (M. W.) १४३.

अवि sheep १२९, ३२, २३२, ४९, ५०, ८१, ८६, ९७, ७७६, ८३, १०२०.

अविकल indeficient १६५३.

अविकृत unchanged; being in the natural condition; undeformed १३४८.

अविचाल immovable; unshakable २४९.

अविचिन्तित free from doubt १२५५, १६६७.

अविचेतन unintelligible ३४६, ४७.

अविच्छिन्न uninterrupted; continuous ११९.

अविच्छेद continuity ४७४.

अविज्ञान ignorant; one who does not know २०८, ९४०.

अविज्ञात unknown; not realised २८, ६१८, ८९, ८८३, ९८, ९९, १०५३, ११५४, ६५, १३७८.

अविज्ञान absence of knowledge; ignorance ७२०.

अविज्ञानवत् not possessing knowledge १४१३.

अवितृ protector ६७, १६३४.

अवित्ति not finding; non-obtainment ७७०.

अविदि not finding; non-obtainment ७७०.

अविदित unknown १०३९, १३७४.

अविद्ध unhurt; unpierced; unimpaired. ९६४.

अविद्या ignorance; nescience ३११, ७५०, १२०७, २७, ४०, १३२१, २२, ९९, १४५१, १५१९, १६१२, ६७.

अविद्याग्रन्थि knot of ignorance १४५९.

अविद्वस् ignorant ३८, ११२, ४०३, ०४, ७३, ७२०, ६९, ७०, ७१, ८७३, ८१, ९६८, ११४७, १२४०, ८८, १३०५, १६४६.

अविधि not the rule १४४९.

अविनाशित्व imperishability १२१२, १३, १४.

अविनाशिनः imperishable १२६४.

अविपरिहृत unforsaken; not left out ५९७.

अविमुक्त name of a *Tirtha* near Benares; (etymologically) not loosened १६६९, ७६.

अविरत one who has not ceased (from); incessant १४०९.

अविवश not controlled (by something else) १६६२.

अविशेषविज्ञान unqualified understanding १६६२.

अविश्वमिन्वा not all-embracing; not pervading everything २१०.

अविष not poisonous ३८३.

अविषादिन् name of a hell (said to be situated in the north-west direction) ४११.

अविष्यु desirous; vehement; searching for flesh or food १२८.

अविसर्पिन् name of a hell (said to be situated in the south-west direction) ४११.

non-offensive; not wicked; unendangered १०, ३५८.

not crooked; sinless १२१६.

not the Veda १२१०.

not knowing the Vedas; who has not studied the Vedas ४६३, ६९०.

what is non-Vedic or not sanctioned by the Vedas १६६७.

without the ceremony to all gods १४४९.

not fit to be sprinkled down १३५८.

coming from sheep; the woollen strainer ७२, १६३४.

not manifest ३३६, १४१४, ३५, ३६, ७३, ८०, १६३०, ५५, ६०, ६२, ६९, ७३.

one whose feelings are not manifest १६४७.

one whose mouth is the mouth of the non-manifest १६६०.

one whose signs are not manifest १६७१.

one whose behaviour is not manifest १६७१.

not becoming manifest १६८०.

unconfused; steady १६५५.

not trembling; unwavering १, ३२.

what cannot be defined or specified १५२५.

woollen strainer; indeclinable word; particle; imperishable ७०, ३, ६३८, १४१७, ४५, ८५, १५९७, १६४०, ६४, ६५.

imperishable १६५४.

of imperishable nature; eternal १४५२.

become unchangeable ५२३.

uninterrupted; continuous ७७, ४२१, ६४४.

श. को. २७

अव्यवहार्य with which there can be no dealing १५२५, २८.

अव्याकृत undifferentiated; unmanifest; not drawn out १०२२.

अव्यासिक्त unscattered १३४१.

अव्याहृत unuttered १६५८.

अव्यृद्धि no ill-success; absence of adversity २४५.

अत्रण scatheless; unwounded १३१९.

अत्रती not observing religious rites or obligations १६७०.

अशन food; eating ४२१, ५६३, १०४१.

अशनकृत् food-maker ४७३.

अशनया hunger; desire of eating or consuming १३३०, ८७.

अशना hunger ५५९, ८२, ८३, ९०७, १३५८.

अशनाया hunger ३२२, ५१८, ९०७, ९१, ९५, ११३६, १३९२.

अशनि thunderbolt १५१, २९६, ४०४, ८५९, ११६९, १२९६.

अशब्द soundless; non-sound १४१७, १६६१, ६२, ६६.

अशया (?) hunger (?) ४०६.

अशरीर bodiless; incorporeal ४१०, ५६९, ६१३, १६, ८८, ८९, ९७८, १३६४, ६६, १४०७, १५०९, १६६२.

अशस्ति curse; not wishing well; imprecation ३८०.

अशस्तिहन् destroying or averting curses or cursers ७१.

अशान्त unappeased; not calm ३०३, १४०, १६३३, ६३.

अशान्तमानस not of peaceful mind १४०.

अशिरस् headless ६१६.

अशिव unkind; inauspicious ३४६, १६६७.

अशिष्य not a pupil १६२७, ६३.

अशिष्यत् about to eat ३३१, १२८९.

अशीति the eighty triads of Rks ५२८, २९, ३०.

अशरीर्य indestructible; what cannot be
shattered ११७६, ८९, १२४७, ६४.

अशुचि impure; not bright १४१३.

अशुद्ध impure १६६४.

अशुभ evil; inauspicious १६६१, ६४, ८२.

अशुभकर्मनिर्मूलन annihilation or complete
destruction of an evil deed १६७१.

अशून्य not empty; not useless ११९, ४९३.

अशृण्वत् not hearing or not liking to
hear ३३१, ८५१, ११८५, १२८८.

अशोक sorrowless; free from sorrow or
mental grief १२७६, १६६२, ६६.

अशोण not deformed or decayed ५१३.

अश्र voracious २०६.

अश्मन् cloud; stone; rock ५, १९, ३७, ४५,
१६९, ७५, ९१, २९३, ९४, ९६, ४४९, ५०७,
०८, ६५०, ७५२, ५३, १००४, १३३२, ४८, ५०,
६९, १६४९.

अश्ममय made of stone १३६८.

अश्रद्धान not trusting in; one who has
no belief or faith १४९७.

अश्रद्धा want of trust or faith; unbelief
२००, ३११, ७०४, १०५०, १६६३.

अश्रमण not a mendicant १२१०.

अश्रवणीय what should not be listened to
७५२, १३४८, ५०.

अश्रु tear २९३, ९४, ९५, १६५३.

अश्रुत unheard ६१८, ८९, ८८३, ९८, ११५४,
६५, १५०६.

अश्रुमुख having tears on the face १३५७.

अश्रोतृ non-hearer ९३४, १६६०.

अश्रोत्र earless ११५९.

अश्रित्य not versed in the Vedas १६८१.

अश्लिनामन् a village whose name is
Aslila (the comm. describes it as
being inhabited mostly by
Mlecchas) २८७.

अश्व horse ४६, ८३, १०५, २९, ३२, ३३, ४०,
४६, ६९, ७१, ७३, ७५, ८२, २०७, २१, ३२,
७१, ८१, ८६, ९३, ९७, ३१४, ३५, ४४, ८५,

९५, ४१६, २५, २८, ३५, ३६, ८३, ८५, ९९,
५०१, ०७, ०८, ०९, १९, ८२, ९४, ७७६,
८३, ८४९, ९८७, ९०, ९९, ११०९, ३३, १३६५,
९६, १५७३, ७४, १६११, ३१, ४६.

अश्वकान्ता traversed or gone over by
horses १६३२.

अश्वतर mule १३३१.

अश्वतरी she-mule १३३१.

अश्वतरीरथ car drawn by a she-mule
८२५, २७, ७४.

अश्वत्थ the holy fig tree १४३३, १६५८.

अश्वद giver of a horse ३६६.

अश्वनाय leader of horses ९०७, ०८.

अश्वपति name of a *Kaikeya*; lord of
horses ३९, १४०, ८७३, १६५३.

अश्वपूर्वा led by horses; with horses in the
fore-front ४९९.

अश्वशेखर decorated with horses ९.

अश्वमेध horse-sacrifice ४४५, ९९९.

अश्वमेधयाजिन् one who performs the
As'va-medha ११३०.

अश्वरथ carriage drawn by horses ५९८,
६८४.

अश्वल name of the *Hotṛ*-priest of
Janaka king of *Vaideha* १११५, १६,
२०.

अश्ववत् rich in horses ३९०.

अश्वरुष stallion; a strong or mighty horse
१०२०.

अश्ववत् rich in horses ९२.

अश्ववती rich in horses ३८७, ४८२.

अश्विन् name of two divinities consider-
ed as the physicians of heaven २१८,
३७, ५५, ६५, ६६, ३०८, १५, ४३४, ८०,
८२, ९४, ९५, ९७, ५०१, ०६, ०७, ११०९, १०,
११, १४, १२६६, १३०९, ४८, १६४५.

अश्व्य of a horse १११०.

अषकार without the consonant 'ष' ६२३.

अषाढ name of a teacher ३३७, २८.

अषाढ-उत्तर-गाराचार्य name of a teacher १३६७.

day of the moon's quarter; the
fifth day of the dark half of a
month ४५५.

अष्टा having eight names १५१.

अष्टा having eight sons १६२.

अष्टा having eight wombs १६२.

अष्टा of eight verses ३०४.

अष्टा consisting of eight syllables

६, ९७, १३३१, ३२.

अष्टा having eight wheels २४५, ४९,

२, २६.

अष्टा one who has (seen or visua-
ed) eighteen (verses) ३०५.

अष्टा eight-footed; having eight parts

०, २२५, ३४८, ५६७.

अष्टा having eight hoofs or claws

३०, ३१, ३२, ३९.

अष्टा knee ३०, २४४, ३१०, ४३४, ४१, ८७.

अष्टा what should not be imagined

२.

अष्टा incalculable; innumerable १६६१.

अष्टा innumerable २५०.

अष्टा not distressing ३८३.

अष्टा unoppressive; unoppressedness;

confined ३८६, ५०६, ९३६.

अष्टा non-origin; without origin; non-

coming १३२४.

अष्टा beyond comprehension १३५२.

अष्टा non-becoming १३२३, २४.

अष्टा the keeping apart; non-contact

३, १२४७.

अष्टा not eating together ४८६.

अष्टा with whom one should not

offer sacrifice ४८६.

अष्टा (अष्टासिन् not staying a whole year

with the teacher) ६२३, ९०.

अष्टा insensible ११५.

अष्टा being at variance with one

other ३९, ९७०.

अष्टा not hidden ११११.

असंस्फुटगिल swallowing without chewing

(M. W.); speaking ill (comm.) १३३.

असङ्ग without stickiness; unattached;

without attachments ११५९, ७६, ८९,

१२०३, ४७, ६४.

असच्छाखा branch of the non-existent

२४७.

असत् not existing; non-entity; non-

existent; a lie ११०, ५८; ९७, २३९, ४१,

४७, ५८, ७४, ७५, ७६, ८८; ९०, ३०५, १८,

१९, २८, ३३, ५४, ४१०, १८, ४४, ८३, ७२०,

२५, ८२१, ८७, ९०, १०१४, १३८७, १४९८,

१५०६, ७४, १६०९, ३२, ४३.

असत्य unreal; untrue; false ३५३, १६५८.

असपत्न free from rivals; without rivals

५०८, १०५४.

असम matchless; unparallelled ५०.

असमत्वं unequableness; being unmat-

ched or unparallelled १६५६.

असमाहित one who is not composed १४०९.

असमृद्धि adversity १६४७.

असर्वं not complete १३५४, ६५.

असाधु bad; evil; not good ६७१, ७२, ७७३,

७४, ९२९, ३३, १२४७, ७७, १६३३.

असामन् deficiency; no *Sāman* ७७३, ७४.

असमीक्ष्यप्रवृद्धि difficulty or trembling

due to thoughtlessness ५२४.

असार unsubstantial १६५६.

असि sword १३९.

असिनी name of a river १६३३.

असित black; unbound; name of a man

१३१, ३६८, ११७६, ८९, १२४७, १३१९,

१६५५, ६३.

असितज्ञू black-kneed ५०७.

असिधारा edge of a sword १३५९, १६३५.

असु life; (pl.) the vital airs १९६, २०८,

३३३, ५८, ६४, ७६, ७७, ७९, ८०, ८५, ८६,

९०, ४०५, ४८, ५४२, ९३, ६७७, १०७०,

११७२, १३४२, ६५.

असुप्त enjoying or profiting by another's life; bringing it into one's possession; not easily satiable; devoted to worldly pleasures १८७, ३५८.

असुनीति the world of spirits personified as a female deity; lord of spirits; Yama ३६४, ८९, ९०.

असुप्त not asleep १२००.

असुप्त living; possessed of life १३३८.

असुप्त consisting of life १३३८.

असुर divine; supreme spirit; opponent of the gods; evil spirit ६, ४४, ८४, ८६, १०५, १७, २०, ३४, ६०, ६२, ६३, ८७, २०२, ७२, ८२, ८८, ८९, ९९, ३०६, २२, २३, ३९, ४०, ४४, ५३, ६२, ४२२, २६, ३५, ६४, ६५, ५०७, २३, ४२, ६८१, ७५१, ५२, ९७०, ७३, ९०, १००१, ०४, १२६८, ६९, १३३४, ४२, ४४, ४८, ५०, ५१, ५२, ६५, १६४३, ५३, ६७.

असुरत्व divine dignity ९४.

असुरवेद Veda of the demons ३०५.

असुर्य spiritual; demoniacal; strength ६१, ७६, १२६, ८८, १३१५.

असूर्त unknown; remote; unvisited १८७.

असू barren ४३५.

असृज् blood २०८.

अस्त setting; home २५, १५०, २४९, ३३२, ३३. ५७, ४९०, ८५, ६४६, ७८२, ९८, १००, ६१, ६२.

arance ७७९,

६९, ७०.

not bringing

ctible; not-

अस्त्रीपुंस् neither a female nor a male ५७५.

अस्थन्वत् bony २०८, ३५३.

अस्थि bone ३६, ३०७, ०९, १२, १५, ५१८, ३७, ६१०, ८७, ८८, ७०१, ८३, ९०१, ८७, ११७७, ७९, १३४०, ७०, १६४७, ५३, ५६.

अस्थिरत्व unsteadfastness; fickleness १६५६.

अस्थूल not coarse; not big ११५९.

अस्नातक not a Snātaka १६७०.

अस्नाविर sinewless १३१९.

अस्नेह not adhesive ११५९.

अस्पर्श touchless १४१७.

अस्पृष्ट non-toucher १६६०.

अस्मयु liking us; one who likes or loves us १८९.

अस्यत् thrower १४०.

अस्रवन्ती not leaking; not flowing १६५, ३६६.

अस्याम not lame ९७५.

अस्त्रिध्व not failing; not erring ४९४.

अस्वगता homelessness ३३९.

अस्वप्न watchful; sleepless; unslumbering ३७९, ५०७.

अस्वप्नज sleepless ३१५.

अस्वर having no vowel ६०३, १३३५.

अस्वर्ग्य one who is not worthy of heaven १६६७.

अस्वातन्त्र्य dependence; absence of freedom १६५६.

अस्वादु not sweet ५९३.

अस्वाद्य not fit to be tasted ३०३.

अहंकर्तव्य to be done by self; what can be connected with 'me' १५०८.

अहंकार egoism १५०८, १६१४, ४७, ५८.

अहंकारादेश instruction (about the उपासना of ब्रह्मन् in the form) of अहङ्कार (ego) ९४६.

अहंनामन् the name 'I' १०१६.

claiming superiority for one's
 f ३३७.
 claiming superiority for one's
 f ६५२, १२८७.
 thinking oneself to be the most
 perior १३७१.
 मान of the measure of the day ६८८.
 unhurt ५०७.
 day; day and night १४, ३६,
 , ९९, ११९, २१, २२, ६१, ७०, ७१,
 , ७५, ८१, ९३, ९९, २२९, ४०, ४५, ७६,
 , ८५, ९०, ३२६, ३२, ५७, ८४, ४०३, ०४,
 , १६, १७, १८, ५०, ५१, ५६, ६३, ८१,
 , ५१८, ३५, ४९, ५४, ७५, ६१०, ११,
 , १६, ८७, ८८, ८४०, ५१, ५८, ९०३, ६०,
 , ६२, ९०, १०६८, १२७४, ९५, ९८,
 ५४, ७१, ८७, १४९५, १५०६, १६४३, ४४,
 , ६०, ७०.
 गीय not worthy of death; not to be
 lled १४२.
 not to be killed; one who cannot
 e killed १३८.
 see अहन्त्य १३८.
 series of days १६५२.
 म् by and by (M. W.) (the comm.
 explains अहर्जर as संवत्सर year) ६९५.
 क idiot; name of S'ākalya ११७६.
 वाह not the oblation-bearer ३३८.
 without hands २६०, ४८४.
 the demon *Vṛtra*; cloud; snake;
 ragon ४५, ४७, १३५, ३५४, ४६६, १३४०.
 त्र harmless; not causing injury
 ८४.
 त्र harmlessness; absence of injury
 १६.
 सेत unharmed; uninjured ४८८.
 नामन् one to whom no name is
 iven २९६.
 त्र free from physical trouble; not
 old १२७६.

अहिर्बुध्न्य name of *Rudra* ४९८.
 अहिहन् *Indra*; the slayer of *Ahi* ४९.
 अहीन name of a sacrifice lasting sever-
 ral days ४७२.
 अहुत unoffered ४५४, १४४९, १६७८.
 अहृणान friendly; not being angry ७९.
 अहृणीयमान friendly; not being angry
 ३८४, ९४.
 अहृदय without a heart ११८६.
 अहृदयज्ञ not pleasing to the heart १२९,
 ३३.
 अहोरात्र day and night; a day and
 a night; (pl.) day and night २८, ११३,
 ७१, ७२, ७३, २४७, ५०, ५५, ७९, ९०, ९९,
 ४०३, ०४, ०७, २५, ४७, ५२, ५६, ६१, ६३,
 ७२, ५०७, ०८, ०९, १४, १७, ५९६, ६००,
 १०, ११, २६, २७, ३३, ४६, ८३, ८७, ९१,
 ९६३, ८७, १११७, १३३५, ४४, ५९, ६१,
 १४९५, १६३०, ३३, ५१, ५८.
 अह्यम् attainable by good deeds;
 pertaining to or taking place by day
 १९८.
 अहस्र not short ११५९.
 अहुत not stumbling ३६१.
 आकाश vacuity; free or open space; the
 sky; atmosphere; the subtle and ethe-
 real fluid supposed to fill and per-
 vade the universe and to be the
 peculiar vehicle of life and of sour-
 ४०, ४१, ११५, १९, ५२, ५३, २६१, ३३,
 ३६, ४०३, ७२, ५२३, ३८, ५७, ६१, ९४, ९,
 ६००, १४, ३७, ७६, ८३, ८८, ८७, ९०,
 ९९, ७०१, ०४, १४, ३९, ४०, ६६, ८०३,
 १८, ३५, ३७, ५९, ६३, ६४, ७५, ८१, ९२९,
 ३०, ३३, ३६, ५४, ७८, ८०, ८३, १०१९, ६८,
 ७४, ८५, ११०७, २५, ३०, ५२, ५८, ५९, ६५,
 ७१, ८२, ८४, ८६, ८७, १२०६, २९, ४२, ४५,
 ४६, १३००, ३१, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४३,
 ५३, ६२, ६४, ७१, ८१, ८६, ८७, १४९७.

१५०२, ०८, ७३, १६२६, ४०, ५८, ६१, ७८, ८३.

आकाशमय of ether; ethereal १६६२.

आकाशमात्रा element of space १५०८

आकाशशरीर one having the sky as one's body ६९९.

आकाशात्मन् having the nature of space; having space as the self ३५३, ८०९, १६६१, ६५.

आकृत intention; intended meaning २६१.

आकृति intention; design ३०८, ३७, ४५, ४२६, ४८, ६३, ८०, ८१, ५०१, १६, १६४७.

आके near ७.

आकोशसंनिभ like a bud of lotus १६४०.

आखिदत् troubling a little १४४.

आक्रन्द shout; a loud cry ५०८.

आक्रन्दयित् one who shouts २६०.

आक्रम means of ascent; approach; step १११८, ९७, १२२७.

आक्रमण ascent १७०.

आक्षिणक inexhaustible १४४.

आखण solid; hard; tough ७५२, ५३, १३४८, ५०.

आखिद troubling a little १४४.

आखिदत् troubling a little १४४.

आख्यात verb ५२३.

आख्यान telling; legend ५६३.

आगत arrived १३६९.

आगतश्री visited by prosperity; rich १६४५.

आगति arrival ३१५.

आगत् transgression; offence; sin ७५, ७८, ७९, ८२, १२३, ७३, ७४.

आगस्त्य descendant of *Agasti* ५९७, ६८४.

आगीत intonation १३३५, ४०, ४१, ४५.

आगात् one who sings to obtain anything ७५४, १३४१.

आगीत singing in a low voice १३३५, ४६, ४७.

आग्निवेश्य name of a teacher (descendant of *Agniवेशa*) १११४, १२६५.

आग्नीध्र the priest who kindles the fire ४६२, १३६०.

आग्नीधीय the fire within the *Āgnīdhra*; the fire-place within the *Āgnīdhra* ४५९, ५२३, ७९१.

आग्नेय belonging or consecrated to fire or its deity *Agni*; sacred to *Agni* २८६, १६६०, ६६.

आग्नेयी belonging or consecrated or sacred to *Agni* १३४०, १६७०.

आग्रयण the first *Soma*-libation at the *Āgnīstoma* sacrifice; oblation consisting of first-fruits at the end of the rainy season ४७२.

आङ्गिरस descendant of *Angiras*; name of *Bṛhaspati* १०५, ६४, ३०५, २५, ४५, ४०१, ८१७, १००६, १०, १३, १११४, २९, १२६६, १३५१, ५२, ५३.

आङ्गिरसी descended from the *Angirasas* or from an *Angiras* ३२५.

आचरण wagon १७९.

आचान्त one who has sipped water १६५९.

आचार्य spiritual guide or teacher (especially one who invests the student with the sacrificial thread, and instructs him in the *Veada*s, in the law of sacrifice, and religious mysteries) २६, ११८, ३२८, ४२१, २३, २४, ५२३, ६१६, २३, २७, ९०, ९२, ९४, ७०४, ८३४, ३८, ९३७, ३८, ११८६, १३५७.

आचार्यकुल house of the teacher ७८६, ८३१, ३४, ९८४.

आचार्यकुलवासिन् living in the house of the teacher ७८६.

आचार्यदत्त given by the teacher १३४६.

आचार्यदेव one to whom the teacher is as a god ७०४.

आचार्यवत् one who has a teacher ९२१, ११८२, ८४, ८५.

आचार्यहन् slayer of one's teacher ९३८.

accumulated ११२.
 clothed; covered १३५८.
 name of a family १३३२.
 name of a man; son of अज-
 १३५१.
 born २४२.
 birth; descent २५३.
 god by birth; born in the world
 gods (*Sāyana*) ७२८.
 god by birth १२१६.
 battle; conflict; race ६३, ७६, १७१,
 ३, ७५६, १३३६.
 one who directs ६१.
 noticing; perceiving ५९३.
 melted or clarified butter १००,
 २७७, ३१२, ३९, ४०४, २४, ५८, ६६,
 ५०४, ८५४, १३०८, ५६, ६०, ६९,
 ५१, ६५, ७०.
 portion of clarified butter
 ४४.
 smearing of the melted butter
 २, ४३.
 oblation of melted butter ६४२.
 ointment ४७३.
 one having ointments in
 hands ६३४.
 name of the wife of *Us'asti*
krāyana ७६७.
 a great king-sage; descendant
Atnāra १३५१.
 wealthy ११८६.
 egg; (dual) the testicles १६६,
 ३, ९४, ९५, ९७, ९८, ४०५, ३४, ६८४,
 १, १३५५.
 egg-shell ८२१.
 egg २६९.

८९२.
 आण्डीक egg-shaped ३७०.
 आण्डीम् to be born in this (cosmic) egg
 ४१२.
 आतत stretched; extended १७०, ३६२,
 १५००.
 आतताविन् having one's bow drawn; pro-
 tector (*Sāyana*); murderer (M. W.)
 १३७.
 आतनि penetrating; pervading ७.
 आतन्वान stretching (the bow) १३९.
 आतप light १४३५.
 आतप्य of light; of heat (*Sāyana*)
 १४२.
 आतार्थ giver of desired fruit (*Sāyana*);
 of the crossing १४३.
 आतुर suffering; sick १४५१, १६७१.
 आतृष्ण pierced ११७८.
 आत attained ९८२.
 आत्मकाम desirous of Soul; loving one's
 self १६५९, ६७.
 आत्मकृत committed against one's self;
 committed by oneself १६४६.
 आत्मकैवल्य salvation of the soul ५२४.
 आत्मक्रीड playing with the supreme
 spirit; having delight in the Soul
 ९४७.
 आत्मगुण having the qualities of self;
 quality of oneself १६१४, १६, १८.
 आत्मज्ञ knower of the Soul १६५४.
 आत्मज्ञान knowledge of the Soul १६५४,
 ७९.
 आत्मज्योतिस् receiving light from one's
 soul १६८२.
 आत्मतत्त्व the real nature of the Soul
 १५९०.
 आत्मद giver of soul १५७४.
 आत्मदा granting breath or life १७४, ९५.
 आत्मन् self; individual soul; body;

soul; spirit; nature; the person or whole body considered as one and opposed to the separate members of the body; the highest personal principle of life; *Brahma*; abstract individual ६ (त्मन्), २५, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६, ३७, ४०, ८१, ९३, ११३, १४, १८, २१, ५१, ५३, ५४, ५५, ६०, ७२, २०३, ०८, ५१, ५७, ५८, ६०, ६१, ६६, ६७, ६८, ६९, ८८, ९२, ९९, ३००, ०३, ०४, ०५, ०६, ११२, १३, १४, १५, १६, १८, १९, २०, २१, २२, २८, २९, ४७, ५३, ६०, ८२, ४०२, ०३, ०५, ०६, ०७, ०८, १९, २४, २५, २९, ३०, ५०, ५३, ६०, ६३, ६५, ६६, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७७, ९३, ५०७, १६, १९, २२, २४, ४२, ५४, ५५, ५७, ५९, ६३, ६५, ६६, ६८, ६९, ७२, ८०, ८९, ९०, ९२, ९४, ६००, १०, १२, १३, १४, १६, २३, २६, ३७, ४५, ४६, ५०, ६६, ७२, ७७, ७८, ८०, ८२, ८४, ८७, ८८, ८९, ९१, ९५, ९७, ७०१, ०६, १४, १५, १६, १७, १८, २०, २८, ३२, ४०, ५७, ७३, ७९, ८५, ८६, ८११, १२, २९, ३८, ३९, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७९, ८१, ८२, ९३, ९६, ९१३, १७, १८, १९, २०, २१, २३, २४, २९, ३२, ४७, ५५, ५७, ६०, ६३, ६४, ६५, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७५, ७६, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८७, ९१, ९४, ९५, ९७, ९९, १००३, ०४, ०८, ०९, १४, १६, १९, २०, २२, २७, २९, ३०, ३९, ४१, ४६, ४९, ५०, ५१, ५६, ६०, ६५, ६६, ७०, ७७, ९१, ९२, ९४, ९५, ११०१, ०५, ०६, ०७, ०८, १२, २५, ३०, ३२, ३३, ३६, ४८, ५१, ५२, ५३, ५४, ६८, ७०, ७१, ७२, ७६, ८६, ८७, ८९, ९२, १२०९, २०, २२, २४, २७, २९, ४०, ४१, ४२, ४५, ४६, ४७, ५५, ५७, ५८, ६०, ६१, ६४, १३०५, ०६, १८, ३१, ३४, ३६, ३९, ४२, ४३, ४४, ४८, ४९, ५३, ५५, ५७, ५८, ५९, ६२, ६५, ६९, ७८, १४०६, ०७, ०८, १२, १४, १६, २१, २२, २५, २६, २८, ३१, ३५, ६०, ६१, ६२, ६३, ६६, ७६, ७७, ८०,

८१, ८२, ८५, ९४, ९७, १५००, ०२, ०३, ०८, २१, २५, २७, २८, ७४, ७५, ७६, ७९, ८०, ८१, ८४, ९९, १६१५, ३१, ३७, ४०, ४१, ४७, ४८, ५१, ५३, ५४, ५५, ५६, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६४, ६५, ६६, ६७, ६९, ७१, ७५, ८२.

आत्मनिष्कयण ransoming one's self ४७२.

आत्मन्वत् animated; having a soul १३०, ७०, २४६, ४९, ५१.

आत्मन्विन् having a self; embodied one (Hume) १९९, १०७०.

आत्मबुद्धिप्रकाश one lighted by one's own intellect १६२६.

आत्मभाव existence of the soul १५७५.

आत्मभूय unity with self ५९०.

आत्मभेषज्य cure of the soul ५२४.

आत्ममिथुन having intercourse with the soul ९४७.

आत्मयाजिन् one who sacrifices oneself; performer of the sacrifice to the soul ४६६, १६६०.

आत्मयोनि 'self-sourced'; name of *Brahmā* १६२५.

आत्मरति having pleasure in the soul ९४७.

आत्मलिङ्ग symbol of the self १६४१.

आत्मवत् having a soul १३४३.

आत्मवित् knowing the nature of the soul or supreme spirit ९२७, ११४७, १६५३, ६४.

आत्मविद्या knowledge of soul or the supreme spirit ३०.

आत्मविद्यातपोमूल rooted in self-knowledge and austerity १५८४.

आत्मसंबोधनार्थम् for the cognizance of the thing itself १६६०.

आत्मसंमित measured in itself ७७९, ८०.

आत्मसंस्थ present or fixed in the self १५८३.

आदित्यदेवत having the sun as the deity

११७४.

आदित्यमण्डल the sun's orb ३७, १७९.

आदित्यरश्मि ray of the sun १३५१, ५२.

आदित्यलोक the sun's world ६३२, ११४५.

आदित्यवर्ण having the sun's colour २५४,

७३, ३३५, ३६, ५००, १५७३, ९४, १६६२.

आदित्यात्मन् soul of the sun १६६१.

आदिभाजिन् partaker in the beginning

७७९.

आदिमत्त्व being first १५२७.

आदिमध्यान्तविहीन without beginning, middle and end १६७३.

आदिष्ट instruction ८१८.

आदेश teaching ७०४, १५, ९५, ८२१, ८३, ८७, १०८५, १३८२, ८६.

आदेष्टृ teacher; one who orders ६१८, ८९.

आद्य what is eaten; eatable; food; first ४२, २८१, ८४, ३८३, ५३०, १४९९, १५७४.

आघातव्य should be laid; fit to be laid or placed १६५०.

आधार support; stay १६६५, ७५.

आधिपत्य supremacy; sovereignty; power २०२, ४७१, ६८२, ७९६; ९७, ८५४, १३५६, ५७.

आधीत object of thought ४५८.

आघृषु assault; attack ७.

आध्मात blown; filled with wind or air ११२४.

आध्यात्मिक relating to self or to the soul ४७२, ६९०.

आध्र weak; poor; destitute ४७५.

आति stooping; submission ३१५.

आनन्त्य eternity; immortality; infinity ४७१, ७२, १४२०, १६१५.

आनन्द happiness; joy; pure happiness; one of the three attributes of *Ātman*

or *Brahman* in the *Vedānta* philosophy; sensual pleasure; bliss ११५,

५४, ५५, २४५, ३११, १४, ४७, ५६, ४३४,

४९, ६३८, ५५, ६८, ६९, ७०, ७१, ७१६, १८, २५, ३२, ३८, ४०, १०७६, ९७, ११७९, ८५, ९०, ९७, १२१५, १६, ४०, ६१, १६५१, ६०, ६२, ६६, ७५.

आनन्दभुक् enjoying bliss १५२३.

आनन्दमय consisting of bliss ७१८, २८, ४०, १५२३, १६४७.

आनन्दयितव्य the object to be enjoyed; what can be enjoyed १५०८.

आनन्दयितृ gladdener १६५१.

आनन्दरूप blissful १४६३, ९९.

आनन्दवत् possessed of bliss १६६०.

आनन्दात्मन् one whose essence consists in happiness १५४.

आनन्दिन् blissful ७२५, ९३४, १६६४.

आननशान pervading २५७, १६३१.

आनिर्हित one who has destroyed or dispelled sin on all sides (comm.); of indestructible nature (*M. W.*); unconquerable १४४.

आनुपूर्वेण respectively; in due order ५२४.

आनुषक् uninterruptedly; one after another ४४, ३४१.

आनुष्यता acquittance of debt or obligation; freedom from debt १६४७.

आनुशंस्य mildness; kindness ११८.

आनुहत one who has killed men on all sides १४४.

आन्तर interior; inward ४७२, ६४४, ८९, ९०, १२०९.

आन्त्र entrails; bowels ४३४, ३५, ३६.

आन्द the egg of the universe ६००.

आपनेय to be attained १४०१.

आपयितृ procurer ७४९.

आपादतलमस्तक from top to toe; from the head to the sole of foot १६४०.

आपान्तमन्यु giving zeal or courage when drunk १६३२.

आपि friend; ally ३४२, ४७६.

आपित्व friendship २४९.

filled with ६६.
 lumb; fat; full; nourished ५२२,
 ५२३.
 the waxing moon; the
 ht half of a month ४०५, ८४०,
 ९३०१.
 consisting of water ५२४, ९०१, ०२,
 १२२९.
 elements of water १५०८.
 reached; overtaken; received;
 e to ३१, ३२, ३५६, ४२१, १११७, १३३३,
 ६३, ६५, ६६.
 one who has gained his wish;
 who has attained his desires
 १, १४७८, १५८२.
 what is to be reached; obtainable
 ४.
 acquisition; gain; reaching; abun-
 ce ४७०, १११६, १७, १४०२, १५२७.
 passage to the place of sacrifice
 ४.
 me of a class of deities; obtaina-
 ४८६, १२८३.
 causing to swell १६५९.
 वती causing or effecting welfare;
 lling-form १६५८.
 me of certain hymns ४४८.
 bathed; drawn ३६८.
 weakness ६६६.
 bringing; offering १६२.
 looking like; semblance ३३६.
 empty; void; stinky; assisting;
 lling १३६, २४१, ७६.
 produced; existing ६७, ३२६.
 superhuman power or strength;
 me of a teacher; origination; rea-
 ing; attaining ३४४, १११४, १२६६,
 ३, ४४, ५०, ६१, ६३.
 brought; produced; filled up;

offered १७०, ७४, २४४, ४०३, ०५, २४,
 २५, ६३०.
 आभोग enjoyment ४१०.
 आमन्त्रण addressing १६३.
 आमन्त्रणीय fit for address १६३.
 आमन्त्रित one who is addressed १०१६.
 आमपात्र unannealed vessel; unbaked
 vessel १६४, १३०७.
 आमय disease १६५६.
 आमलक fruit of the Emblic Myrobalan
 १२९.
 आमहीयव name of several *Sāmans* ५२२.
 आमिक्षा mixture of boiled and coagulated
 milk; curd ४५९.
 आमिष flesh १६६५.
 आभीवृत्क pushing; pressing (M. W.);
 growing fat (comm.); destroyer १४४.
 आम्र mango-tree १२२१.
 आयच्छत् one who stretches the bow १३९.
 आयत् coming; approaching १३१, ३२४,
 १२०१.
 आयत् extended; long; future ४००.
 आयतन home; resting-place; abode;
 altar; place of the sacred fire;
 support ११७, १९, २०२, ३३१, ३२, ४५४,
 ५८२, ६०१, ३३, ३६, ८५०, ५२, ५४, ९०६,
 ४६, ११७०, ७१, ७७, ८२, ८४, ८५, ८६,
 १२८७, ८९, १३०२, ३५, ४५, ५३, ८४, ८७,
 ९६, १४९४, १५१०, १६४०, ७५.
 आयतनवत् possessing a support ८३३.
 आयति entrance; arrival १५०४.
 आयत्त resting on; dependant on ६००,
 ८४.
 आयद्वसु of coming good १७५.
 आयन course ३७४.
 आयमन bending ७५६.
 आयवन stirring-stick; spoon for stirring
 ४३७.
 आयस made of iron ६०, ६५, ५९१.

आयस्थूण name of a teacher १३०४.

आयु see आयुस् २७४, ४१८, ८३.

आयुक्त devoted ७०४.

आयुज् combination; junction; plan ३११.

आयुध weapon; missile; implement; a bow १३६, ४७, ३४३, ४३५.

आयुधिन् wielding a weapon १४२.

आयुर्गन्तु completion or passing away of the destined duration of life ४९६.

आयुर्गुध् struggling for one's life १४८.

आयुस् duration of life; life; long life; strength १३, २३, २८, ४०, ४१, ४२, ११९,

४६, ६९, ७२, २४५, ६१, ६८, ९८, ३००, १४,

१७, २२, २४, २८, ३६, ५२, ६०, ६३, ६४, ६६,

७७, ८०, ८१, ८२, ८३, ८६, ८८, ४१२, १५,

६४, ६९, ७५, ९४, ९६, ५०८, १०, १३, १४,

१७, १८, १९, २०, २५, ६५, ६६, ९८, ६००,

०३, ०४, ०६, ०७, ०८, १०, १२, ५८, ५९, ८४,

८५, ८६, ८७, ८८, ७१५, ८१, ८२, ८३, ८४,

९०, ९१, ८३७, ६१, ९८४, १३०७, ३०, ३१,

४१, ५६, ६८, १५७४, १६११, ४४, ४६, ७७.

आयुष्मत् endowed with life; long-lived ३८२, ४२७.

आयुष्य giving long life; duration of life ६२३, ९०.

आर name of a lake (which is an impediment to the attainment of ब्रह्मलोक) ६३३, ३४.

आरण्य wild; belonging to the forest १३२, ३९, २३२, ७३, ४०१, ६७, ५०९, ७७९.

आरब्ध commenced; begun ४०४.

आरम्भण commencing; originating; creating २३९.

आरम्भण support; commencement; beginning १८३, ८८५, ८६, ९७, ९८.

आराममात्र of the size of the point of an awl १६१४.

आराद्धोष sounding from afar ५१४.

आराम pleasure-ground १२०१.

आरुजत् breaking; demolishing ३४३.

आरुणि name of a teacher २५, ३२७, २८, ४०९, ६२७, ९२, ७९९, ८७२, ७६, ९०४, १११६, ५४, १३०४, ०५, ४२, १६५०, ७१.

आरुणिकेय name of a teacher ६८७.

आरुणेय son of *Aruni*, S'vetaketu ८५५, ८२, १२९०, १३५०.

आरुह् off-shoots going upwards १६८.

आरुह् ascended; one who has taken to (a path) १३८६, १६६३.

आरे far; away १३७.

आरोग्य freedom from diseases; good health १५८०.

आर्क्षिकायण name of a teacher १३४१.

आर्जव uprightness; straightforwardness; honesty ८१६.

आर्जाकीया name of a river १६३३.

आर्जुनेय son of *Arjuni*; the saga *Kutsa* ६४.

आर्त sick; wretched; perishable; useless ६६६, ११३३, ३६, ५४.

आर्तभाग name of a person; son of *Jarat-kāru*; a pupil or disciple of याज्ञवल्क्य ६८७, ११२१, २५, २६.

आर्तभागीपुत्र name of a teacher १३१०.

आर्तव period of time; days and nights of seasons; product of a season (comm. explains it at one place as ऋतुजः शुक्रशोणितशरीरात्मक इत्यर्थः ६३१) २४७, ४३७, ४९, ५३, ५६, ६१, ६२, ६३१, ३७.

आर्ति pain; affliction; deficiency; calamity; injury ११८, २४५, ८९, ९०, १३३२, ५३.

आर्तनी the end of a bow १३६, ५०३.

आर्तिवज्य the duty of the *Rtvik* priest at a sacrifice ४३७, ७६९, ७०, १०१३, १३४१, ५४.

आर्द्रि wet; moist २८०, ३२२, १३०३, १६३४.

आर्द्रिपवित्रं having a wet strainer ४७३.

fire fed with wet fuel १०९६,
 १, १६६४.
 moistness; moisture; wetness ३०३.
 belonging to or sacred to the
 hu ४७०.
 respectable; venerable २, ६४, २४१,
 of a grown up bull १३०८.
 addressed to or pertaining to the
 १६४४.
 belonging to a ऋषि. (७५७यदाषेय)
 ०५, ७५७, १३४८.
 speaking; conversing; addressing
 support १४०५.
 यनीपुत्र name of a teacher १३१०.
 पुत्र name of a teacher १३१०.
 (अखाद- full-enjoyer of the fruit
 Karma viz. personal soul) relat-
 to the soul (Sāyana); relating
 the ocean १४३.
 conversation ३११.
 what is near ३०५.
 sowing, soil (which hold what is
 n) ५२०, ५७.
 sower ५०९.
 covering; weaving; stem; lid ६३३.
 condition; transmigratory exist-
 ce ८४०, १३३०, ६५.
 desirous of returning or turn-
 ; about to turn or return ४५३.
 dwelling; residence ३९, ४७३,
 १२२१.
 invoked १५०.
 whose root is manifest or unco-
 ed or exposed ५६८.
 one who sucks up or dries up
 mpletely १३६८.
 exposed; manifest; laid bare
 ४.

आविष्ट entered; pervaded by १९, १६६२,
 ६४.
 आविस् bright; shining; manifest ६१,
 १९०, ३०१, ०२, १९, ७६, ४८९, ५०९, ३५,
 ५९, ६९, ९६, ६२६, २७, ८३, १३४०, ५४,
 ६४, १४५९, १६६२.
 आविस्तराम् (comparative of आविस् adv.)
 more clearly or manifestly ३२१, ५५९.
 आवृत (ता) covered; surrounded; encir-
 cled; enveloped २११, ४५, ५१, ३२२,
 ५०७, ०९, ३८, ६४३, ४६, ४७, ४८, ४९,
 ९९१, १२४०, १३००, १५, ४५, ५८, १६१०,
 २९.
 आवृतीशयान going round and resting १३६४.
 आवृत्त turned again ४३४, ७७५.
 आवृत्तचक्र a rolling chariot wheel १६६३.
 आवृत्तक्षुस् one whose eyes turned in
 ward; introspective १४२०, १६५८.
 आवेशयन्ती causing to enter or merge
 २३७.
 आव्याधिनी assailer; a band of robbers
 १३८, १४०.
 आशय abode; seat; resting place ८३.
 आशस् will; desire ४८८.
 आशा hope; desire; expectation; pros-
 pect; direction; region; space
 २५०, ५९, ७५, ३४०, ४१, ४५, ७२, ४१२,
 ६१, ५०९, ७८५, ९३६, ३७, १०१४, ९१,
 १२६०, १३०७, ४०, ५८, ८६, ९०.
 आशातिका small insects like bugs (comm.)
 ४११.
 आशित eating; the act of eating; food
 ११८२, १२६१.
 आशिन aged; having reached old ag
 १४१.
 आशिष्ठ (superlative of आशु) most agile;
 speediest; quickest ७२८.
 आशिस् expectation; hope; blessing १७,
 ३०, १६२, ८३, ३१२, ४७५, ५१६, ९३७,
 १३६९.

आशीःसमृद्धि fulfilment of wishes ७५६.

आशीन see आशिन १४१.

आशु quick; speedy १४१, ५१४.

आशुपत्वन् flying quickly ६५.

आशुरथ possessing a fast chariot १४२.

आशुशुक्लि gleaming or shining forth or around (said of *Agni*) ५, १६४९.

आशुषेण having swift arrows १४२.

आशुहेमन् inciting his horses (name of *Agni* especially when regarded as अपानपात्) ६.

आशेद्ध kindled by hope ९३९.

आश्चर्य wonderful i. e. rare १४००.

आश्रमिन् one belonging to one of the four stages of religious life १६५६.

आश्रय resort; seat; support १२०.

आश्रवणीय loud voice; which can be heard around १३६६.

आश्रावित name of a *Sāman* (?) १३६९.

आश्वतराश्वि a teacher named बुडिल; son or descendant of अश्वतराश्व ४०, ८७१, ७५, १२८४.

आश्वलायन name of a teacher १६७३.

आश्वलायन-कौसल्य a teacher named कौसल्य, son of अश्वल १४९०.

आसक्त attached to; connected with ३१८.

आसङ्गव the time when the grazing cow go back to their pens for milking १३३३.

आसज्जन a handle; a hook ३१८.

आसन् mouth ५१३, १६४९.

आसन seat ७०४, १२९३.

आसीदी a raised seat; a chair ४५१, ६३३, ३६.

आसन्न seated down; set down ४७३.

आसन्य belonging to or existing in the mouth १००४.

आसमाल्य name of a teacher १३७०.

आसीन seated; sitting ५९, १४०, ३२४, ५८.

आसुत pressed out; pressed out *Soma*

juice; a manner of pressing out *Soma* juice ८७४.

आसृति brew; mixture; distillation ८.

आसुर devilish; spiritual; divine ७८, ९७३.

आसुरायण a descendant of *Āsuri* १११४, १२६५, १३१०.

आसुरि name of a teacher १११४, १२६५, १३१०.

आसुरिवासिन् name of the teacher १३१०.

आस्तरण a layer of sacred grass spread out at a sacrifice ४५१.

आस्ताव a place for singing the *stotras* or सामन्स ७६९.

आस्तेयी (आस्नेयी) being in blood ३१२.

आस्थान stay; prop; ground २८०.

आस्य face; mouth ८, ५०, १२९, २४८, ९९, ४३५, ६५, ५१३, ८७९, १००६, १३५३, ७२, १६६५.

आस्रवत् that which flows on ११८७.

आहत beaten; struck; fastened ६५४, ११७८.

आहनन्य (sound) produced or generated by beating with a drum-sticks १४२.

आहनस् which is to be beaten or pressed out ४९, २३७.

आहवनीय one of the three sacred fires, especially the eastern one १६३, ४०४,

०५, ०८, ०९, ५३, ५९, ६५, ७३, ६९१, ७९१, ८३८, ७९, १३८७, १५०६, १६५१, ५८, ६४, ६५, ७७, ८२.

आहार eating; food १६४०.

आहारशुद्धि purity in food ९५०.

आहार्य what is to be gathered or brought ४७३.

आहाव a particular invocation by which the होतृ addresses the अश्वर्यु १३४६.

आहित placed; kept; kindled ४३२, ४४, ४९, ६५, १३३५.

आहितानि one has placed the sacred fire upon the altar; a *Brāhmaṇa*.

maintains a perpetual sacred
in the family ४१९, ६४.
that which placed i. e. thrown in
fire; oblation ४२.
ffered; offering; oblation ८, १७,
१७०, ३६०.
an oblation ३२, ३३, ३४, ३६, ३८, ४२,
२५९, ३१५, ४०३, ०४, ०८, ०९, १९,
५६, ६८, ५०७, ६४४, ९१, ८२६, ५८,
६०, ८०, १११९, १२९२, ९५, ९६, ९७,
९९, ५८, ७१, १४४९, ५०, १५०६, १६४३,
६६.
consisting of oblations ४०३,
६६.
क्रतु intending to accomplish a
pared sacrifice ४७३.
hunder ९३५.
the race of इक्ष्वाकु १६५४.
consisting of desire १६६३.
(श) refreshing draught; a par-
lar deity; cow ८, २७३, ४४८, ५३,
६२७, ८३, १३१०.
the place of sacred libation i. e.
altar १८, ४७९.
a ladle for the *Idā* oblation ४०५.
one who has obtained help १९३.
offering from hence i. e. from
world ५४१.
prepared from here ५४१.
ence; from here ३८२.
a sacrifice which a night
hout विद्या or knowledge (एतादृशी
हित्वा राष्ट्रियस्मिन् कर्मणि तदर्थम् comm.) २८.
legend; tradition; traditional
points of former events २९९, ४५३,
५२२, ६९०, ७९४, ९५, ९२६, ३८, २०,
१०९६, ११८२, १२६१, १३४६, १५७४,
४, ८१.
इतिहास literature conceived as
la ३०५.

इत्थंविद् one who knows thus or this
६३३, ३६.
इत्था thus; in this manner ६३८, ५५, ६९,
७०.
इत्वर going; walking; moving १००, ५०९.
इदंमय consisting of this १२२९.
इददसु rich in this and that १७५.
इन्द्र one who sees the *Brahman* or the
Puruṣa pervading everything; a
name of इन्द्र ५८७.
इद्ध kindled २९१, ३२८, ४६३, १६६७.
इध्म fuel; wood; sacrificial stick २३२,
४१४, ६३, १६५१.
इध्मवाह one of the sixteen priests offi-
ciating at a sacrifice ४६१.
इन Lord; king ९०, २१४.
इन्दु a drop of *Soma*; *Soma*; the moon
२२, ५५, ७०, ७१, ७२, ७३, ३३६, ५५, ५६,
६७, ६८, ४१५, ५९, १३६६, १५७३, १६३४,
५९.
इन्द्र name of a deity ६, १२, १९, २८, २९,
३०, ३१, ३७, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ५१, ५२,
५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१,
६२, ६३, ६६, ६७, ७१, ७२, ७३, ७६, ९४,
१०९, १२, १५, ५१, ६०, ६२, ६३, ६४, ६६,
६९, ७०, ७३, ७५, २०२, १३, २७, ३३, ३६,
३७, ४७, ५१, ५३, ५९, ६०, ६६, ६७, ६८, ६९,
७०, ७१, ७८, ८१, ८३, ८६, ८८, ९१, ३००,
०१, ०६, ०८, ०९, १६, २२, २८, ३१, ३७,
३९, ४०, ४२, ४३, ४७, ४८, ५३, ५४, ५५, ५
५९, ६५, ६७, ६८, ७५, ७७, ७९, ८४, ९६, ९९,
४००, ०१, ०२, ११, २२, २४, २५, २८, ३०,
३१, ३२, ३४, ४४, ५३, ५४, ५५, ५९,
८१, ८२, ९५, ९६, ९७, ५०१, ०३, ०४, ०७, ०८,
१०, १६, २३, २५, ४९, ५४, ६७, ६९, ७२, ८७,
९४, ६५०, ५६, ५९, ७६, ९२, ९३, ९५, ७०६,
२८, ८५, ८६, ९६, ९७०, ७४, १०३६, ५४,
६९, ८०, ११११, ३०, ६७, ६९, ८६, १३०९,
३२, ३३, ३६, ३७, ३८, ३९, ४३, ४५, ४८,
५५, ५९, ६१, ६६, ६७, ६९, ७२, ८१, ८२,

८६, १४३४, १९, १६३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ४५, ४६, ४८, ४९, ५७, ५९, ६४, ६६, ६७, ६८, ७४, ७८, ७९, ८३.

इन्द्ररूपमा impregnated by *Indra*; having *Indra* as a bull ५०७.

इन्द्रगुप्ता guarded or protected by *Indra* ५०७.

इन्द्रगोप a kind of insect १०८५.

इन्द्रजा descended from *Indra* १५७४.

इन्द्रजाल jugglery १६५६, ६७.

इन्द्रजालवत् like इन्द्रजाल; illusory १६६७.

इन्द्रयुज्ज name of a great monarch; name of a teacher, son of पुलुष; name of a teacher, son of माळवि ४०, ३२७, ८७१, ७५, १६५३.

इन्द्रधनुस् the bow of *Indra* ४५०.

इन्द्रपत्नी *Indra's* wife ३४९.

इन्द्रप्रजापती *Indra* and *Prajāpati* ६३३, ३६.

इन्द्रयोनि *Indra's* place of exit; (*Indra* here stands for individual soul) ६९९.

इन्द्रलोक the world of *Indra* ४०१, ६३२, ११४५.

इन्द्र-वैकुण्ठ the name given to सवितृ (the sun) at mid-day १३७०.

इन्द्र-वैश्वध name given to the sun (सवितृ) at its rise १३७०.

इन्द्राणी wife of *Indra* ११५, ४३४, ५३.

इन्द्रावत् associated with or accompanied by *Indra* ६६.

इन्द्रिय strength; power; limb; part of the body; belonging to *Indra* ५५, ५६, ७१, १८०, २७०, ९१, ३१४, १५, २८, ४५३, ५९, ५११, २२, ६१०, २६, ५४, ७२४, ९५, ९८४, १३०६, ०७, ५०, ९७, १४१२, १३, १४, ३५, ५५, १५०३, १६, ८७, १६३५, ४५, ६१, ६२, ६३, ७३, ७५, ७६, ८३.

इन्द्रियकर्मन् the function of a sense-organ ६०.

इन्द्रियधारणा holding back of the senses १४३७.

इन्द्रियविल the pit of the senses १६६२.

इन्द्रियवत् possessed of senses or strength; mighty; powerful ४५३, १३४३.

इन्द्रियार्थ an object of senses १६५६, ५९, ६०, ६१, ६३.

इन्द्रियार्थविमूढ deluded by an object of sense १६६४.

इन्द्रियावत् mighty; powerful ४५९.

इन्द्रोत-द्वैवाप-चौनक name of a teacher १३६७.

इन्ध kindler (name given to the *Puruṣa* in the right eye); kindler (name given to *Indra* because he kindled the *Prāṇas* by remaining in them, *Indra* conceived as the chief (*Prāṇa*) २९१, ३२८, ११८७.

इन्धन fuel १६२६.

इन्धनयोनियुह्य which can be caught again by means of the drill in its source: fuel १५८४.

इभ an elephant १६४३, ६६.

इभ्य a rich man; elephant-driver ७६८.

इभ्यग्राम the village of a rich man or elephant-drivers ७६७.

इयक्षमाण desirous of performing a sacrifice ३६९.

इरपाद reptile; serpent (=उर:पाद); *Asura* ५२७.

इरा food; refreshment ४३३, ३४, ५१, ६१, ६३, ६३६,

इरामय consisting of *Irā* ५३१.

इरावती possessed of *Irā* or food ९१, १६३.

इरिण dice-board ४८३, ८५.

इरिण्य belonging or relating to a desert or cleft १४४.

इर्य active; powerful ३१६, २८.

इल्य name of a particular tree ६३३, ३६.

इष् food; drink; sap; vigour २५, १२३, ८६, ३४६, ४७, ९३, ४८२, ५२४, १६८०.

longing for or seeking food १८.
 killed in archery ५१४.
 name of a teacher १३७२.
 urged on; inspired; moved २५०,
 ७३.
 refreshing; vigorous; active ३३१,
 ६२७, ८३.
 an arrow-shaft १४४०
 the point or the upper part of
 the shaft ८८२.
 an arrow १३०, ३४, ३५, ३६, ४९, ९२,
 १६६, १५९४, १६६३.
 preparing an arrow; hurting like
 an arrow (M. W.) १४१.
 a quiver १३७.
 possessed of or having a quiver
 ४२.
 having an arrow १३९, ४१.
 of the measure or length of an
 arrow १५०.
 a sacrifice; sacrificial offering;
 a man; body; desire; desired object;
 a man given to celibacy १८६, २११,
 ७३, ९६४, ११८२, १३०७, १४९५, १६८१.
 a brick ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६,
 ११८, २८२, ४००, १३९३, १६३२, ६४.
 a brick contemplation as having the
 character of the brick; perfection of
 a brick ३०.
 the desired fruit or result १५०६.
 separation from the dear ones;
 bereavement १६५३.
Iṣṭa and *Pūrta* rites; sacrifice
 of merit ३५७, ७६, ८६१, १३९०, १४५१,
 १६३०,
 a sacrifice; desire; search ७, ७३, ४८८,
 ७००.
 one who merely offers a
 sacrifice १०४७.
 seeking; desirous of २५५, ४२१.
 को. २९

इष्म probably इष्म (or इष्मा) passion ४०४.
 इष्वास a bow ४५२.
 इष्यमान being urged on ५६५.
 इहकार the sound *iha* used as a *Stobha*
 in a *Sāman* ७७३.
 ईकार the letter ई ७७३.
 ईक्षमाण looking; seeing ३०३, ४३४.
 ईजान performing a sacrifice; one who
 has sacrificed ३९२, ९३, ९५, ९६, ४७४,
 १४११.
 ईज्य praiseworthy; fit to be worshipped
 or praised; fit to be invoked ६, ११,
 ६२६, १३९३, १४२३, १६०७, १८, १९, ३४,
 ८०.
 ईक्षित praised; invoked ३४३.
 ईन्द्रिय belonging to the bright autumnal
 clouds १४२.
 ईम् a particle of affirmation and res-
 triction ६६, १९४, २०९, १०, २०, ३८, ४९१,
 ५००.
 ईर्म arm; fore-quarter of an animal
 ४३५, ९९४.
 ईर्मि here; in this place; going constantly
 ६६.
 ईर्य to be excited (M. W.) the lord
 (comm.) ८३.
 ईर्ष्या envy; jealousy; malice १६५३, ५६.
 ईश to be master of १३१३.
 ईश the lord; master १४७१, ७२, १५८०,
 ९४, ९९, १६३५, १६४९, ६१, ७६, ८३.
 ईशान ruling १६२५.
 ईशानी ruling power १५९२, १६७९, ८०.
 ईशासंस्थ existing as the lord १६२५.
 ईशा ruling power; rule ३१०, ४५०.
 ईशान the ruler; master; name of *Rudra*;
 name of *Prajāpati* ५६, ६७, १२०, २६,
 ४७, ५१, ५६, ८२, २३१, ६०, ९६, ३२२, ३९,
 ४१२, २७, ४८, ५०, ५२, ५५, ९५, ५२५,
 ६२१, ४७, १०३६, १२४२, ४६, ७४, १३०३,

३८, ६१, १४२२, २५, १५९७, ९८, १६०७, ४१,
 ४६, ५९, ६६, ६७, ७९, ८०, ८३:
 ईशानकृत् making use of one's faculties;
 able ५२.
 ईशानदेवत्या having *Īśāna* for its deity
 (said of the third *mātrā* of the *Pra-
 nava*) १६८०.
 ईशितृ the ruler; lord; master १६२०.
 ईश्वर the lord; master; ruler १७८, ३२३,
 २४, ३६, ४०४, ५६५, ६६, ६८, १०२७, १३०७,
 ०८, ३६, ४६, ५४, १५७४, १६१९, ३७, ४१,
 ८३.
 ईश्वरा the ruler (said probably of मेधा)
 ५०१.
 ईश्वरी the ruler ५००, १५७४, १६३२.
 ईषा pole or shaft of a carriage or a
 plough ४३६.
 उक् name given to *Agni* ४३.
 उकार the letter or sound उ २८३, ५२१,
 ७७३, १५२७, २८, १६८२.
 उक्तोपनिषत्क one who has been taught
 the Upaniṣats ११८६.
 उक्त्य a song of praise; a hymn ४३, ४५,
 ५७, ६१, ७७, ११७, २३६, ७४, ७७, ३३१,
 ५२७, २९, ३३, ५७, ६४५, ६५, ७६३, १०६४,
 ६५, १२७८, १३४१, ४३, ५५, ५६, ५९, १६६५.
 उक्त्यविद् conversant with hymns of
 praise १२७८.
 उक्त्यविध verse-like ४३.
 उक्त्यशास् uttering a hymn; praising ११३.
 उक्त्यशास् see उक्त्यशास् १८७.
 उक्त्य worthy of or accompanied by
 praise or hymn ४९, ५०, ५१, ९६, १०१,
 १३, ९०, २०१, ४४६, ५९, ६९.
 उक्षत् a bull १४६, १५७४, १६४६.
 उक्षन् a bull १९४, २२५, १३३१.
 उक्षमाणा sprinkling ७६.
 उक्षान्न one who has strong bulls for his
 food. i. e. oblation २०.
 उक्षित sprinkled १५७४, १६४६.

उख् a boiler; vessel ४३७.
 उगणा consisting of extended troops
 (M. W.); the seven mothers etc.
 which consist of the best groups
 (comm.) १४०.
 उग्र fierce; intrepid; formidable ५३, १२६,
 २७, ३०, ३१, ३२, ४३, ४६, ६६, ७३, ९०,
 ९६, २३६, ३८, ४५, ५६, ९६, ३३६, ३९, ४१,
 ४३, ४२६, ५२, ६३, ८४, ८६, ५०६, ११०९,
 १२२१, २२, १३४५, १६३३, ३४, ४६.
 उग्रप्रस्था name of an *Apsaras* ४८८.
 उग्रजित् name of an *Apsaras* ४८८.
 उग्र-देव name of a teacher १३६९, ७०.
 उग्रपुत्र son of a powerful man or क्षत्रिय
 ११५७.
 उग्रवक्रा impetuous and crooked १५७८.
 उच्चरत् going upward ३२६, ६४.
 उच्चा high ३६६.
 उच्चैःश्रवस्-कौपथेय-कौरव्य name of a teacher
 १३६४.
 उच्चैर्घोष sounding aloud; roaring १३८.
 उच्छिष्ट left; rejected; remnant of food
 ४३७, ४४, ४५, ४७, ४८, ४९, ७४, ७६८,
 ८८१, १६४३.
 उच्छिष्टोपहत what has been touched by
 leavings १६५९.
 उच्छ्राय height; growth; increase १३३१.
 उच्छ्रलङ्ख् a particular part of the human
 body २४४.
 उच्छ्वसित breathing १६८१.
 उच्छ्वास breath १५०६.
 उज्जिह्वान getting up from the bed;
 waking up १७२.
 उज्ज्य unstrung; not having its string
 stretched ११५७.
 उज्जिष्ट see उच्छिष्ट १६५, ६६.
 उज्जिष्टभाग having उच्छिष्ट for his share
 १६६.

उत् the first syllable of the the word
 उद्गीथ identified with the sky (द्यौः)
 ७५६, ६१.
 उत्कर्ष prosperity १५२८.
 उत्क्रम upward movement or march;
 going up or out; passing away १६३०.
 उत्क्रमण death; passing out or up १६८८,
 १४३९.
 उत्क्रममाण going out or passing away
 १६६९.
 उत्क्रमिष्यत् about to pass away or go out
 १२७६, १६५५.
 उत्क्रान्त passed away; gone up or away
 ३३१, ८५१, १२८६, १३३९, १५१५, १६५४,
 ६२.
 उत्क्रान्तप्राण whose life has passed away;
 dead १३८.
 उत्क्रान्ति evolution १३३७.
 उत्क्रामत् passing out; going up or away
 १२२४, १४९८.
 उत्खिदत् cutting off ४३३.
 उत्तत well heated ४०६.
 उत्तब्ध upheld १०१२.
 उत्तमित upheld ४१९.
 उत्तम uppermost; best; highest ८, २२, ९६,
 २८२, ३२४, २५, ७३, ९१, ४१५, ५०७, ८०५,
 १७, १२७२, १३६८, ६९, १४३५, १६६१.
 उत्तमपुरुष the highest *puruṣa*; supreme
 person ९७९.
 उत्तमाङ्ग head; uppermost part of the
 body ६९२.
 उत्तर answer; reply; upper; higher;
 superior; crossing ३५, ६५, ८८, १८९,
 २४४, ४६, ४७, ५१, ५२, ७४, ३१०, ४४, ८३,
 ४०६, २२, ७८, ५०४, ०९, २३, ६३, ६०१,
 ०३, ५१, ८५, ८८, ७०६, १४, १५, १७, १८,
 ८१३, १७, १३३२, ५५, १४६८, ९३, ९४,
 १६८०.
 उत्तरण crossing; who crosses १४३.
 उत्तरतर higher; beyond; yonder १५९६.

उत्तरतस् to the north ३३१, ९५, ७९७, ९४६,
 ४७, १३३०, ५१, ५२, ५५, ६१, १६६६, ७९.
 उत्तरपूर्वा north-east ४११.
 उत्तररूप the latter form or part ५९७, ९८,
 ९९, ६०३, ०४, ०८, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७,
 ९४.
 उत्तरवर्त्मन् having a superior or higher
 path ४०६.
 उत्तरसत्त्वं having superior or higher
 strength ४०६.
 उत्तरदन्तु the upper jaw ४३४.
 उत्तरा the latter; upper २६६, ४०३, ६९४,
 १०८०.
 उत्तरात् from the north ३१८, ५०८.
 उत्तरापरा north-west ४११.
 उत्तरायण the six months of the year
 when the sun's course is northward
 ४७०.
 उत्तरारणि the upper fire-stick १५८४, १६७५.
 उत्तरावत् being above; victorious २५०.
 उत्तरोत्तरिकम् serial order; ascending order
 ५६१.
 उत्तान lying on the back; spread out
 २४६, १३८६.
 उत्तानपद् name of a particular creative
 agency २७५.
 उत्ताना stretched out; extended २११.
 उत्थात् a rising man ९३३.
 उत्थित risen; raised; stood १३४१.
 उत्पट sap ११७८.
 उत्पतित sprouted; sprung up ९०७, ०८.
 उत्पत्ति origination १५०४.
 उत्पाटिका bark ११७८.
 उत्पात an evil portent ५११.
 उत्स a fountain; spring ११, ६८, ८९,
 ३०७, ४४, ९७, ९८, ६२६.
 उत्सन्न exterminated; destroyed ४४६.
 उत्सन्नामि whose fire is destroyed or
 extinguished १६७०.
 उत्सर्जत् groaning १२२०.

उद water ५०.

उदक water २३, ८५, २०९, २४, २९, ४९, ३३९,
७०, ७१, ४१९, ५४, ७३, ७४, ६१६, ८८, ७५८,
८२१, ३९, ९२०, १०४१, ९८, १२९३, १३९०,
१४२५, २६, १६५८.

उदकुम्भ a jar of water ६५४.

उदकप्रवण inclined to the north ८४९.

उदगयन the six months of the year when
the sun's course is northward १३०१,
१६५२.

उदङ्क a bucket; a vessel ११८३.

उदङ्मुख facing northward ७९१.

उदच् turning north-ward; facing the
north; northern; turned upward;
northward ४३४, ७९४, ८०५, ४०, ९२१,
११८८, १३३८, ८७, १६७७, ७९.

उदत् flowing out; issuing out ३२७.

उदधि ocean २३.

उदन्वती abounding in or full of water
३८८, ५१०.

उदपात्र a jar or pot of water ६४६, १३०८.

उदपान a well; tank ७६८.

उदप्लुत् causing water to flow; swimming
or splashing in water ७३.

उदय rise; going up; arising ८२, ७७८,
८२२, १४३५.

उदयत् going up; rising १४९२.

उदर belly; inside; dropsy १२९, २४८, ८६,
३०४, ०७, १४, ६९, ४०५, २१, २६, ३४, ३५,
४१, ५०, ५९, ६९, ५३२, ६२१, ३८, ८९, ७२५,
९८७, ९४, १३५९, ८७, १६४३, ४७, ६२.

उदरदार a particular disease of the
abdomen ४४१.

उदरपात्र stomach serving as a vessel
१६७१.

उदरशाण्डिल्य name of a teacher ७६७.

उदरस्थ existing or residing in the belly
१६६१.

उदशाराव a tray or plate of water ९७२.

उदहारी a female water-carrier १३५.

उदहार्य a water-carrier २४९.

उदात्त highly or accutely accented ५२३.

उदात्तोदात्तद्विपद having two syllables both
accutely accented ५२३.

उदान one of the vital airs (which are
said to be five) ३०८, १२, २२,
२८, ५६१, ६८९, ७०१, ८०५, ८१, १०५०,
११३२, ७६, १३५०, ५१, ८६, १५०२, ०३, ०६,
१६४४, ४७, ४८, ४९, ५४, ५९, ६४, ६६.

उदार a big flame २८८.

उदारा big; great; worthy ५००.

उदित risen; gone high or up १९६, २५६,
३३६, ४१०, २६, ६२६, ७६१, ८२, १३३६,
५६, ६९, ७०.

उदिति rise; prosperity २४५.

उदीची northern; north; turned upward
or to the north १४९, १६०, ३०४, ०५,
०६, ४५१, ५२, ५५, ७०, ७१, ५०८, २२, ८१३,
३२, ९९४, ११८८, १३३८, १४९२, १६६१.

उदीच्य northern ७९४.

उदीराणा moving out; sprouting; shooting
up ५०८.

उदुम्बर name of a tree १२२१.

उदुम्बल very strong (said of the dogs of
Yama) ३५८.

उदच् completion; conclusion; remain-
der १५४, १३७२.

उदेष्यत् about to rise १३६९.

उदौदन riced (boiled) with water १३०८.

उद्गन्तु one who goes forth १६६४.

उद्गातृ an officiating priest whose duty
is to sing *sāma* chants at a sacrifice
४६०, ६१, ६९, ७०, ७१, ७२, ६४६, ७५४,
६२, ६४, ६९, ७१, ८४७, १००३, ०४, १४,
१११७, २०, १३३६, ४३, ४६, ४८, ४९, ५१,
५२, ५३, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६४, ६५,
६६, ७०.

उद्गीत sung; a particular mode of sing-
ing; declared १३३५, ४६, ४७, १५७९.

ting of the *Sāmaveda*;
 ble *Om*; the second part
Sāmaveda; a loud chant
 ५२४, ६३६, ७४६, ४७, ४८, ४९,
 ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५९, ६२,
 ९, ७१, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८,
 १, ८२, ८३, ८४, ८५, ७५४, १००१,
 , ३३, ३४, ३५, ३६, ३८, ३९, ४०,
 ८, ४९, ५०, ५१, ५२, ६६, ७०, ७२,
 , ६६.
 artakers of the *Udgītha* ७७९.
 syllable of the *Udgītha* ७५६.
 ng sung aloud १३०३.
 eathening loudly १४४.
 ing and lifting up ४७४.
 be sung aloud १३४०, ४१.
 ng; atching hold of; lifting
 .
 e of the son of अरुण; name of
 r ४०९, ६९२, ७९९, ८७२, ७६,
 ६, ५४, १३०४, ०५, ११.
 descendant of the teacher
 ६५.
 udence; immodesty १६५६.
 g out; the act of taking up
 .
 of a carriage) ५७५.
 ed; built ४५८.
 ation; sprouting; birth १५९२,
 ८.
 n from a sprout; sprout-
 minating ५९४, ८९२.
 king forth; germinating ४९४.
 which has originated or
 to being; born १६५७.
 which comes into being and
 ; ephemeral १६५३.
 going up १५०, ६९, ७२, ३३९,
 ९८७, १३६९, ७०.
 prepared ६९, ८६, २९९.

उद्यमान being spoken or declared ३१७,
 १८.
 उद्यान going up; upward movement ३७८.
 उद्यास्यत् about to go forth १०९०.
 उद्गत high; height; elevation २००, २५२,
 ५०६.
 उद्घर्षि destroyer ६४६.
 उद्घर्षिन् a side-path १६६३.
 उन्नेतृ one of the priests officiating at a
 sacrifice ४६१.
 उन्मत्त infatuated १६५६, ७१.
 उन्मृजान् blotting out; effacing ३९२.
 उपकक्ष reaching to the shoulder ४९१.
 उपकरणवत् one possessed of implements
 (i e. worldly possessions) १०९१,
 १२६०.
 उपकोशल name of a man ८३४, ३८.
 उपगात् one who accompanies the song
 of the उद्गात्; a chorister ४६१, ६२, १३३६,
 ४३, ६६.
 उपगीत sung; proclaimed १३५९.
 उपशृङ्ख to be apprehended १६६४.
 उपघात a mixture; a kind of oblation
 १३०९.
 उपचर्य one who can or should be ap-
 proached, attended or worshipped
 १३५४.
 उपचार attendance; reverence; worship
 ४१९.
 उपजग्मिन्वस् one who has approached ४७५.
 उपजन appendage; increase ९७९.
 उपजाय increase; appendage ४०५.
 उपजायमान arising; being born; coming
 in to being ४०३, ०५.
 उपजिघ्रमान one who has touched or gone
 after ४८८.
 उपजीवनीय affording or serving for live-
 lihood १६३, ६८.
 उपतप्त a disease १२२१, १३६८.
 उपतापिन् sick; ill ४०४, ९२३, ६४.

उपतिष्ठमान attending; becoming friendly with; doing worship १६१, ७४, ४७७.
 उपदिश an intermediate region or point of the compass १६५८.
 उपदिशत् advising ४१, ४२.
 उपदिष्ट described; mentioned; specified १३६२, ६३.
 उपदेश instruction; advice ७०४.
 उपदेश्य something to be taught ३११.
 उपदोहनी a milk-pail; a post or pillar for milking ३१६.
 उपद्रव affliction; disease; the fourth of the five part of *Sāma* stanza; violence; outrage; approach to the end ४०६, ७७८, ७९, ८०, १३३३, ३५, ३८, ४८.
 उपद्रवभाजिन् partaker in the *upadrava* (of the *Sāma*) ७७९.
 उपद्रष्टा one who watches or observes ४४३.
 उपद्रुत chanting of the *upadrava* (portion of a *Sāma*) ४०६.
 उपनति inclination; attainment ३१५.
 उपनयन initiation ceremony १६४४.
 उपनयमान initiating ४२१.
 उपनिषद् a class of works forming the concluding portion of the *ब्राह्मण*s; the secret teaching (*रहस्य*); mystical words or meaning; secret doctrine १२०, ४७१, ५२२, ९७, ६०५, २१, ४१, ८३, ८६, ८९, ९२, ९४, ७३२, ४०, ५०, ७३, ९७३, १०९६, ११८२, ८६, १२६१, ७४, १३७२, ८४, ८६, १६३५, ४०, ५०, ५१, ६४, ८३.
 उपनिहित placed near; set forth or before ७६८.
 उपनीत one who is initiated १६८१.
 उपपक्ष the arm-pit २९०.
 उपपृच्छमान one who consults or asks anything १३६४.

उपबर्हण cushion; pillow ४५१, ७३, ६३६.
 उपब्दि noise ६१७, ८९.
 उपब्दिमती noisy; loud १३४०.
 उपभृत् a wooden sacrificial vessel or ladle ३९४.
 उपभृत offered; brought near ४०५.
 उपभोक्तृ the enjoyer; one who enjoys or experiences १६१४.
 उपम uppermost; most excellent; first १३, ७६, ४८३.
 उपमश्रवस्तम the best of the most famous १८८.
 उपमा similarity; equality; comparison ६७, १९७, २५८, १५७४, १६३२, ६२.
 उपमास the intercalary month ६३०.
 उपमास्य monthly १६३.
 उपमित् a prop; stay २.
 उपमोदमान approaching and enjoying ४१९.
 उपयाम a ladle १६५१.
 उपयामगृहीत taken in or by a ladle ४५९.
 उपर the lower pressing stone; the cloud; posterior; later ८१, २१०, ३९३, १३३३.
 उपरत ceased; patient; quiet ६९१, १२५५.
 उपरि above २४२, ७६.
 उपरिशयन an elevated resting-place ४७३.
 उपरिष्ठात् above; from above; further on; below; later ३०३, २७, ३१, ४०८, ८५३, ९४६, ४७, १३३०, ३१, ४६, ४७, ६१.
 उपर्युपरिवर्तेन moving upward and upward १३६५.
 उपल a stone ४०५.
 उपलब्धव्य something to be obtained १४३७.
 उपलब्धि obtainment १६६०.
 उपवक्तृ a kind of priest ४५८.
 उपवसथीया belonging to the उपवसथ day or the preparation for a सोम sacrifice १३४६.
 उपवाक addressing; praising २०९.

re; blame ६०१.
 who has put on the sacred
 ३७.
 of a teacher १३११.
 explanation; interpretation
 ५७, ८२१, १५२०, १६५५, ५९.
 ne whose heat has ceased

 mness; tranquility १६६४.
 ght forth; placed near १४८.
 r-garment ६३६.
 g ear to; listening atten-
 १०.
 erent or closely united १६५५.
 ho sits near; attendant ९३३.
 of the ज्योतिष्टोम sacrifice ४३४,

 emony constituting a part
 योतिष्टोमयाग ८१६.
 ne who performs the उपसद्
 य १३०१.
 who has approached १४४३,

 aced; kindled ९०३.
 ce of refuge ७५६.
 क ५२३.
 ose roots are watered ३२२.
 ached; actuated ६०६.
 ated; created; put forth ३२२,

 e ४३६, १४०९.
 ering; a substratum (gene-
 ater) which is sipped before
 ood ३५१, ६३६, ८९, १६४८.
 secure or sheltered place;
 rative organ ११, ४८, ८४, १२२,
 ७०, २७४, ३५४, ५८, ४०४, ०५,
 ६००, २६, ३८, ६८, ६९, ८४, ८६०,
 ६१, ९७, १३०५, ०६, १५०१, ०८;

उपस्थान veneration १२८३.
 उपस्तिजम् emulatively; with emulation
 १०३.
 उपस्पृष्ट touched १०५०.
 उपहतु hitting; hurting; destroying १२७,
 ४६.
 उपहव्य name of a particular variety of
 सोमयाग ४४७.
 उपहास joke; jest; sport १३०७.
 उपहृत invoked; invited ३७५, ४७४, ५०३, १०.
 उपांशु in secret; in a low voice; in a
 whisper ३३०, ३८, ४३, १६३६, ५४.
 उपांश्वायतन kept inaudible; having a
 silent abode ३३०.
 उपाकरण commencement ७९०, ९१.
 उपाकृत begun; commenced ८४७.
 उपाख्यान tale १४२०, १६५३.
 उपादीप्त well kindled ४०५.
 उपापपात pouncing; jumping upon १३३३.
 उपाप्त taken; covered up ३१६, २३, ३७,
 ६९०.
 उपाय a remedy; means १४८२.
 उपायनकीर्ति the acknowledgement of
 coming as a pupil १२९४.
 उपार offence; sin ८०, ४८२.
 उपावसर्पन् descending (from the seat)
 and approaching ११८६.
 उपासन waiting upon; adoration; wor-
 ship ६४६, ७७३.
 उपासामिश्रित sharpened by meditation
 १४६०.
 उपासित adored; worshipped १६५८.
 उपासितव्य to be worshipped or adored
 or approached ७०४, १३४३, ५२, ६५,
 ८३, ८७, १६३६, ७०, ७२.
 उपास्तमय in the evening; at sun-set १३३३.
 उपास्य to be adored or worshipped ७०४.
 उपेत possessed of; endowed with ३९.
 उपोदक name of a world ४०१, ०६.
 उपोद्यमान being censured or reviled १३४१.

उभ both ३०, ६३.

उभय both ४२.

उभयतःप्राण having vital air on both sides ३२७.

उभयतोदन्त having teeth in both the jaws ५५७.

उभयात्मन् of both natures or kinds १६५९.

उभयादत्त having teeth in both the jaws २३२.

उभयापादी having feet on both sides. १३७२.

उभयापाद् having both the feet or legs १३६०.

उमा name of the consort of god *Śiva* १३८१.

उमापति the lord of *Umā*, god *Śiva* १६४१.

उमासहाय having *Umā* for companion; (god *Śiva*) with *Umā* १६७३.

उरग reptile; serpent १६५३, ६६, ६७.

उरस् breast; chest; bosom १७२, ७३, २०४, ४४, ५०, ८१, ८३, ८६, ३०७, १४, ४०४, ३४, ४१, ६९, ८७९, ९९४, १३५६, ८६, १६५१.

उरु broad; wide; extensive १०, ३०७, ८६, ४०६, १३८६.

उरुक्रम of wide strides ८९, ६९३, ७०४.

उरुक्षिति spacious dwelling or habitation ९२.

उरुगम्युति having a wide domain or territory ७१.

उरुगाय of far-reaching fame; sung far and wide; of wide strides; wide space ६, ८८, ८९, ९१, ४९९, १४०२.

उरुगायवत् offering ample space for motion; unconfined ९३६.

उरुचक्षस् seeing far and wide ४९७.

उरुच्य to be protected or guarded against ४१४.

उरुची going wide १६५, ४९६.

उरुणस long-nosed; broad-nosed ३५८.

उर्वरा fertile soil; field yielding crop ४३४.

उर्वर्य belonging to a fertile soil १४२.

उर्वरक cucumber ३३६, १५७४, १६४६.

उर्वी broad; wide; the earth and heaven (du.); earth; the space or region (six in number) ७४, १६२, ६७, ७०, ७३, ९३, २४८, ३३९, ४१६, ३१, ४८, १६३४, ४३.

उल a kind of wild animal ५०९.

उलप soft grass १४४.

उलुक्य-जानश्रुतेय name of a teacher १३३१.

उल्लखल mortar ४०५, ३६, ७३.

उल्लु hurrah (Hume); crying aloud; noise (M. W. who reads उल्लुलि) ८२२.

उल्का a falling star; meteor ५११.

उल्काभिहत struck by a falling star or meteor ५११.

उल्ब a cover; a membrane surrounding the embryo ३६९, ८२१.

उल्बण singular; strange; clear ६१३, ८८.

उल्बणिष्णु rather strange ५७५.

उल्बावृत covered by उल्ब. ८३०.

उल्मुक fire-brand; a piece of burning charcoal ४०४.

उशत् loving; desiring for; longing for ८५, ३५९, १३८९.

उशती loving; desiring or longing for ४९०, १६३३.

उशनस् name of शुकाचार्य; the preceptor of दैत्यस ६४, ४८०.

उशनस्-काव्य name of a teacher १३५१.

उशिज् desiring; zealous १३.

उशीनर name of an ancient people in central India ६७४.

उशीनराणी queen of the *Uśīnara* people; name of a plant (*Sāyana*) ३६५.

उषस् dawn; dawn conceived as a deity

४६, ५२, ६८, ६९, ७०, ७२, ८२, ९७, १०२,

०३, ०४, ५०, ६१, ७२, ९३, २४५, ४७, ५०,

७४, ९६, ३६३, ४५०, ७४, ४९८, ९८७, १३०३,

४४, ८७, १६४५.

उषस्त-चाक्रायण name of a teacher ११३१, ३३.

उषस्ति-चाक्रायण name of a teacher ७६७, ७०.
उष्ण hot ११९, ६२, ३२९, ५६१, ७५५.
उष्णतर very hot १३६५.
उष्णिमन् heat; warmth ८०५.
उष्णिह् name of a vedic metre ३०, १६९,
४३५, ५३७, ६३.
उष्णिहा name of a vedic metre viz. उष्णिह्
२७७.
उष्णीष crown; head-dress; turban ४५०, ५१.
उष्णीषिन् having a head-dress or turban
१३९.
उस्र shining; bright; cow; morning
light ८२, ८३, १८८.
ऊति protection; help; favour १६, ४५,
५३, १२३, ८५, ८८, ४१५, ५२५.
ऊधस् udder; name of a passage in the
महानाम्नी verses १६३, २४७, ४३२, ३४,
१३६९.
ऊन less २५१.
ऊनातिरिक्त too little or too much ३०.
ऊवध्य undigested grass in the bowels
(of an animal killed for sacrifice)
४३४, ३६.
ऊम helper; friend २३६.
ऊरु broad; thigh; lap ३०, २३३, ४४, ३१०,
१४, ४३४, ४१, ८७, ५१३, ३२, १३०९, १६४७,
४९.
ऊरुच्छिन्न whose thighs or shanks are cut
off ६६५.
ऊर्ज् food; strength; vigour; sap २३, २५,
११७, ५६, ६२, ३४६, ४७, ५८, ९३, ९७, ९८,
४६१, ६२, ५०३, ०७, ०८, २४, १०४६, ४७,
१६३३, ३५.
ऊर्ज् strength; sap; vigour; name of a
month ४१५, १६८०.
ऊर्जस्वती lustrous; bright; possessed of
food; powerful; strong २४, १६४५.
ऊर्जा strength; vigour १६३, ६४, ४४७, ७३,
७४.
ऊर्णनाभि a spider १०७७, १४४७, १६६२.
श. को. ३०

ऊर्णायु name of a Gandharva ४०१.
ऊर्ध्व rising upwards; erect; raised;
upward direction १४९, ५०, ६६,
६८, ७३, २१०, ३१, ४४, ४५, ४६, ५०,
८५, ८९, ९३, ९५, ३०२, ०४, ०५, ०६,
२७, ४७, ४०३, ०६, ३५, ५१, ५५, ८१, ५०७,
३२, ३३, ६१, ७७४, ७५, ७९, ९५, ९७, ९८,
८०५, ९०२, २५, ३५, ६८, ११५८, ८८, १२०२,
०३, ०४, १६, ३८, ७६, १३३२, ३३, ३८, ४३,
४६, ४७, ५९, ६१, ६६, १४२७, ३९, ९२, ९७,
१५०२, १६१३, ३१, ४०, ४३, ६१, ६२, ६३,
६६, ६७, ७७, ७९, ८१.
ऊर्ध्वगण name of a group of particular
साम chants १३४७.
ऊर्ध्वगा going upward १६६१.
ऊर्ध्वपवित्र pure above ७०३.
ऊर्ध्वबाहु with one's arms raised up १६५३,
७७.
ऊर्ध्वबुध्न having roots upwards; with its
bottom raised up; turned upside
down २४९, १०८१.
ऊर्ध्वम् upwards; aloft; above २४९, ५५,
१३३१, १४६८, १६१०.
ऊर्ध्वमूल having its roots above २६४,
१४३३, १६५८.
ऊर्ध्वरेत keeping the semen above; living
in chastity १५७४, १६४१.
ऊर्ध्वरेतस् see ऊर्ध्वरेत १६५४; ५६.
ऊर्ध्वलिङ्ग having the membrum above
i. e. chaste १६४०.
ऊर्धा the upper region or direction; high;
moving or going upwards; erect
१६०, ७०, २०३, ३०५, २७, ४५२, ५५, ६८,
५२२, ११८७, ८८, १६५५.
ऊर्ध्वोच्छ्वासिन् breathing one's last १२२०,
२२.
ऊर्मि a wave; speed; velocity; wave of
pain १३४७, १६३६, ५६.
ऊर्म्य undulating; wavy १४१, ४४.
ऊर्व्य see ऊर्म्य १४४.

ऊवध्य see ऊवध्य १८७.

ऊषिकत granular salt २९३.

ऊष्मन् heat; warmth; vapour; glow;
sibilant ५५४, ६९, ६११, २१, ८७, ८८,
८९, ७८५.

ऊष्मरूप having the form of ऊष्म ६१०, ८७.

ऊक्तत्व being a ऊक्त; the quality of a verse
from the *Rg-veda* १३०८.

ऊक्तपद a word from a hymn of the
Rg-veda १३३४.

ऊक्त्वं praising; jubilant with praise ९०,
३५६.

ऊक्ष star; constellation ७४, १६६१.

ऊक्षाक infested with boars ३८७.

ऊक्षीका name of an evil spirit ५०९.

ऊग्विधान name of a work; employing ऊक्त
verses १६४७.

ऊग्वेद the first of the four Vedas २८२,
८६, ३०४, ५२१, २२, २३, २४, ६१३, २१,
८८, ८९, ७९३, ९४, ८१४, ९२६, २८, २९,
३३, १०५३, ९६, ११८२, १२६१, १३३०, ६०,
१४४५, १६६४, ८२.

ऊङ्मय consisting of verses from the
Rg-veda ३२, ४०३, ०४, ०५, ६६, ६४६.

ऊङ्मूर्ति embodiment of *Rik* verses ६३८.

ऊक्त्वं a verse from the *Rg-veda*; a vedic
verse in general; an old verse; a
praise; prayer २७, ३२, ३८, ११२, १७,
१८, ५३, ७५, ७८, २२३, ३०, ३२, ३५, ४७, ४९,
३०५, ११, १५, ३५, ४७, ४३५, ३७, ४५, ४५,
५१, ५२, ७३, ९२, ९३, ५८८, १७, २२, २३, २४,
४७, ६७, ६८, ६१८, २१, २३, ३६, ३८, ४७,
८६, ८७, ८८, ९०, ९२, ९७, ७१५, ४७, ४८,
५५, ५७, ५८, ६०, ६२, ६३, ९३, ८०२, १७,
४८, ५५, ९०३, ९७, १११८, १२५४, ८१, १३३२,
३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ४२, ४३,
४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ६०, ६५, ६६,
१४८८, ९२, ९८, १५११, १४, ७३, ७४, १६०५,
४०, ४५, ५१, ५८, ६४, ७७, ७९, ८२.

ऊजिप्य going straight upward; moving
upwards ६६.

ऊजीपिन् going straight upwards ६५.

ऊजीयस् very upright or honest ३५४, ४१८.

ऊजीष the sediment of the *Soma* juice;
residue ४७३.

ऊजीषिन् drinking *Soma* to the dregs
(said of *Indra* and the *Maruts*) ६५०,
१६३२.

ऊजु straightforward; upright; honest
१२०, ५३.

ऊजुकर्म an honest or upright act ४१९.

ऊजुनीति right guidance १२०.

ऊजूयमान straightening; sharpening;
whetting १०२.

ऊण debt ३०५, ७२, ४२०, २१, ८८.

ऊणवन् debtor; indebted ४२०, ८५.

ऊत sacrifice; sacred act; vow; truth;
cosmic order; divine law ५९,
६७, ६९, ७५, ७६, ८०, ९४, ९५, १००,
०५, ०८, ०९, २०, २२, २३, २४, ६०, ६१,
६२, ६५, ७३, ८८, ९५, २००, ०१, १०, २२,
२७, ३०, ४६, ४७, ५०, ५२, ५७, ५८, ६८,
६९, ७४, ७९, ३०६, ४९, ५५, ६५, ७४, ९३,
४१३, १८, १९, २७, ३०, ३५, ३६, ४२, ४८,
५२, ६१, ६२, ७७, ८३, ८५, ८७, ५०९, ९६,
६२६, २७, ८३, ९३, ७०२, ०४, १७, ४०,
१३३२, ६६, १४१०, २७, १५७४, १६३०, ३१,
३३, ३५, ४१, ४३, ४५, ८१.

ऊतज born of or springing from ऊत
१४२७, १६३५, ४५, ५१.

ऊतजात born of ऊत ३६७.

ऊतज्ञ knowing ऊत; conversant with ऊत
३५८, ४९९.

ऊतज्य having ऊत for its string (said of
the bow of *Brahmanaspati*) १९२.

ऊतधामन् having ऊत for its lustre ४०१,
०६.

ऊतप्रजात born of ऊत १९०.

ऊतुमुज् enjoying ऊत १६५५.

ऋतरक्षक guardian of ऋत १२०.
 ऋतव्या kind of bricks (इष्टकाः) ३७.
 ऋतसद् residing in the ऋत १४२७, १६३५,
 ४५.
 ऋतसात filled with ऋत ३६७.
 ऋतसाप् touching or following the ऋत
 ३६७.
 ऋतस्था standing by or following or
 obeying ऋत १९८.
 ऋतस्पृश touching or sticking to ऋत ५६७.
 ऋतायत् loving ऋत; maintaining ऋत ५,
 ८०, १११०.
 ऋतावन् possessed of ऋत; truthful; keep-
 ing with the fixed order or rule;
 regular; just २२, ५२, ७५, ७६, ८१,
 १२०, ९१, ३६७, १३४३.
 ऋतावरि (fem. of ऋतावन्) see ऋतावन् ४३४,
 ३५.
 ऋतावृध् fostering ऋत ३६७.
 ऋतु season; fixed time; menses ४९, ७५,
 १२०, ६१, ६२, ६९, ७४, २०२, ४४, ४७, ६९,
 ८३, ८४, ९०, ९६, ९८, ३०८, २३, ९३, ४०३,
 ०४, २५, ३७, ४०, ४९, ५३, ५५, ६१, ६२,
 ७२, ५०८, १४, १७, २२, ६३०, ३१, ३७, ९१,
 ७७६, ८३, ९८७, १३३३, ३५, ४०, ४४, ५९,
 ६२, १६०२, ०५, ३०, ५२.
 ऋतुथा according ऋतु; at the proper time;
 regularly १४, १७३, २२६.
 ऋतुमत् coming at regular or proper
 times ७७६.
 ऋतुलक्षण indicated by the season; mark
 of a season १८०.
 ऋतुशः every season; season after season
 ६२.
 ऋत्विज् an officiating priest of sacrifice
 १, १६२, २३६, ५८, ४५८, ७३, ५०८, २४, ६८८,
 ८४९, ७३, १११६, १७, १८, १३६०, ६१.
 ऋत्विय regular; proper; being in time
 २५३, १६७०.

ऋदूढर having a soft or pleasant inner
 nature १२६.
 ऋद्धि prosperity; abundance; growth;
 success ४६१, ५०० १४, १३६१.
 ऋधत् growing ८२.
 ऋध्व clever; skilful; wise १८१.
 ऋध्वस् see ऋध्व ७०.
 ऋध्वम a strong bull; a male animal २५२,
 ३३९, ४३४, ६९५, ८३२, १०२०, १२७५,
 १६३५.
 ऋषि a sage; a seer (of vedic mantras)
 २२, २३, ३१, ५६, ५७, ६१, ६४, ६७, १३४,
 ५९, ६१, ६२, ७०, ८३, ८६, २११, ३२, ३८,
 ४७, ४९, ५२, ६५, ७१, ७८, ९०, ९९, ३०४,
 ०५, ०६, १०, १५, १९, २८, ४४, ४५, ४९,
 ५०, ५१, ६७, ९१, ४०२, ११, १५, १६, २०,
 ३५, ३८, ४०, ४१, ४२, ९०, ५०८, २४, २५,
 २७, ३३, ३७, ४२, ४९, ५५, ६५, ६७, ७६, ९१,
 ६०४, ०६, ०७, ०८, १६, २३, २७, ३८, ८३,
 ७०१, ५७, १०२९, ३०, ४१, ८१, ११०९,
 १०, ११, १२९२, १३४३, ४६, ५०, ६३,
 ६४, ६७, ७२, १४७८, ८३, ८९, ९०, ९३, ९५,
 ९९, १६१२, १३, ३५, ४४, ४५, ४९, ५०, ५१,
 ७९, ८०.
 ऋषिकल्प almost like a ऋषि १३३१.
 ऋषिष्टुता praised or sung by a seer ३४४.
 ऋषिसंघजुष्ट liked by or waited upon by a
 group of sages १६२६.
 ऋष्यशृङ्ग-काश्यप name of a teacher १३६७.
 ऋष्व wide; vast; very high; sublime
 ७५, ७९, ९१.
 ऋष्ववीर inhabited by sublime heroes (as
 the sky) ४४.
 एक one; only or unmatched; having
 no second ४४, ४९, ५०, ५१, ५६, ५७, ६४,
 ९१९.
 एकऋषि the only seer १६२, १४९९.
 एकक all alone; single ३६५.
 एकचक्र having one wheel १७३, २०७, ४९,
 ७१, १३६०.

एकज solitary; single of its kind २४९, ३४३.
 एकदाय having the same or only paternal share or property ४०४.
 एकधन choice property (said of प्राण) ६४२.
 एकधनावरोधन putting together of the choice property ६४२.
 एकधाभूय gathering together; by centring into a unity १२७७.
 एकधर a single; uninterrupted current ४०२.
 एकनीड having a common abode २५६, १६३१.
 एकनेमि having one felly २४९, ३२६, १५७७.
 एकपत्नी a faithful wife; one devoted to her husband २५०.
 एकपद one word १७१.
 एकपदा consisting of only one quarter ३५.
 एकपदी upon or with only one foot १७०, २२५, ३४८.
 एकपर of singular importance (M. W.); always showing the number one ४८३.
 एकपाद् having one foot; name of a vedic deity; having one quarter or line १६७, ७१, ७४, ४७७, ९८, ८४७, ११८२, ८४, ८५, १३६०, १६६८.
 एकपुण्डरीक the only lotus (a symbolic expression for pre-eminent) ६१७, १३०३.
 एकपुत्र having only one son १३५०.
 एकभूय the becoming one; union ६५९.
 एकमात्र consisting of one syllabic instant १५११.
 एकमूर्ध्नी having the head or face turned towards the same direction १६२.
 एकयोनि of the same mother; of the same origin ४०३.

एकराज् the only or supreme king or master ६७, ४१३, १३६९, ७०.
 एकरात्र one night ४४६.
 एकरूप of one form; similar; uniform; having the same form १०६, २७१, ७२, ७३.
 एकर्च consisting of or having one *Rk* verse; a single verse ३०४, ०५.
 एकर्वि the only or chief ऋषि २४७, १११४, १२६६, ८४, १३२६, १४८८, १६८२.
 एकविंश twenty-first ५२२, १६६६.
 एकविंशतिसंस्थ standing in twenty-one places; having twenty-one parts ३०५.
 एकविंशसंपत् completion of the number twenty-one; the full number twenty-one ३२८.
 एकवीर an unmatched warrior; unparalleled hero ४८, १३५०, ५२.
 एकवृत् being one; simple १६२, ७४, ७५.
 एकत्रात्य the only or supreme ब्राह्मण १३६१.
 एकशफ an animal having one hoof; not cloven-hoofed; whole-footed १०२०.
 एकशीर्षिन् having the face turned towards the same direction १७४.
 एकसभ the only meeting place or resort १३०३.
 एकसाम्नी having only one *Sāman* ३२७.
 एकस्तोमभागानुमन्त्र a chant for the share in the prayer १३६१.
 एकहंस the only destroyer of ignorance; the supreme soul १२००, ०१.
 एककिन् single-handed; all alone; simple; alone १०१८, १९, ४२.
 एकाक्षर one syllable; having one syllable; the sacred syllable *Om* २९८, ५२३, १६४४.
 एकाक्षरा having one syllable; mono-syllabic ३४८, ५२२ २४.
 एकात्मन् the one spirit ४०३, ०४.

आत्मप्रत्ययसार the essence of the assurance of which is the oneness of the self १५२५.

एकादशाक्ष having eleven eyes or limbs ११८.

एकादशाक्ष-मौद्गल्य name of a teacher ११८.

एकामृतन the one abode or resort १२६१.

एकामृतन centre of union; the one resort or resting place; worldly wisdom १२४, २६, २९, ३२, ३३, १०९७.

एकार the sound or the letter ए ७७३.

एकीभूत unified १५२३.

एकोनविंशतिमुख having nineteen faces १५२२.

एजत् trembling; waping; moving to and fro १०३, ७२, २१९, ३०, ४९, ३१६, २८, ५३, ६६, ५०६, ०७, १२९२, १४५९.

एतश shining; brilliant; variegated; all-pervading ९७, १११.

एतु goer; one who goes ६७०, १००९.

एतु prosperity; happiness ४४९.

एतस् sin; calamity; mischief; crime ७४, ७९, ३५३, ४८७, ८८, ८९, ५०४, १२८४, १३२८, १६३५, ४६.

एतस्य wicked; sinful ५०४.

एतनी white; bright ७८, ३९७.

एतवकार the attendants of god *Śiva* (generally known as the प्रथमगणः) १३३.

एतव force; speed १२४, ६०, ३५४.

एतवित् one who knows this or thus ३८, १२०.

एतवयान् going quickly ९१.

एतवणा desire; longing; wish; impulse १२४७.

एतवका a descendant of इक्ष्वाकु १३३१.

एतवका-भणेरथ name of a teacher १३६९.

एतवृद (v. l. for एतवृद) bringing or procuring plenty of food १४८.

एतदात्म having this for its soul ९१३.

एतदात्म्य the state of having this for its soul ९१७, १८, १९, २०, २१, २३, २४.

एतरेय the name of a teacher ५४१, ६९, ८१६.

एतिह्य traditional instruction; tradition १७९.

एतुरेय name of a man १३८७.

ऐन्द्र belonging or sacred to इन्द्र २८५, ५६७, १३४०.

ऐन्द्रनगर the city of इन्द्र ५२३.

ऐन्द्राम belonging to or sacred to इन्द्र and अग्नि ४४५.

ऐन्द्री belonging to or sacred to इन्द्र १३४०.

ऐर relating to or consisting of water or refreshment or food or cream ९६५.

ऐरसदीय name of a lake in Brahman's world (affording refreshment and ecstasy ९६५.

ऐरावत name of a man १६४.

ऐलव name of a teacher १३४५.

ऐलवृद procuring or securing plenty of food १४८.

ऐशान relating to or coming from शिव ५२३, १६८०.

ऐश्वर्य prosperity; wealth ६५५.

ऐष्टक made of bricks; sacrificial bricks collectively ६४५.

ओ particle of addressing; calling; reminiscence १३५९.

ओकस् abode; resting place ५३, ३८९, ४१५, ७६, ५०९,

ओगीयस् see ओजोयस् १२८२.

ओघ flood; flow १३३३.

ओंकार the syllable ओम्; pronouncing or exclaiming the sacred syllable ३३६, ५२२, २३, २४, ७८९, १५०९, १०, १४, २०, २७, २८, ७४, १६६२, ७९, ८१, ८२.

ओंकारगति attainment of *Brahman* १६८३.

ओंकाररुव a boat in the form of the syllable ओम् १६६३.
 ओजस् lustre; brilliance ५२, ५५, ५६, ५८, ६०, ७३, २७१, ३११, ४१, ४२, ४३, ४४८, ६१, ६२, ८०५, १३६३, १६४०, ४४, ४९.
 ओजस्त्रिं lustrous; bright ८०५,
 ओजीयस् very lustrous १२७, ४५७.
 ओत interwoven २५७, ३३५, ४४६, ६९, ११४४, ४५, ५८, ५९, ६५, १४६१, ८०, १५७३, १६३१, ६७, ८१.
 ओतप्रोत sewn or woven lengthwise and crosswise १६७९.
 ओतवे to weave the cross-threads of web २७७.
 ओतवै see ओतवे २०८.
 ओता woven २५०.
 ओतु the woof or cross-threads of a web १४.
 ओदन rice; boiled rice १६५, ३६९, ७०, ७१, ४३५, ३६, ३७, ३८, ४०, ४१, ४२, ४३, ६४, १४०९.
 ओपाकारि name of sage ११९.
 ओम् a mystic monosyllable comprising three *mātrās* viz. अ, उ and म् ३९, ४०, ४१, २८३, ३०३, ५१, ५२१, २२, २४, २५, ६८, ६९, ७५, ७०२, ४६, ४८, ५७, ५८, ५९, १६८, ११६६, ६७, १२६९, ९०, १३३०, ३२, ३३, ३५, ३६, ३८, ५७, ५८, ५९, ६१, ६४, ६६, ७०, १४०४, ४१, ६२, १५२०, १६३४, ३५, ४१, ४३, ४४, ४८, ५१, ५८, ६२, ६५, ६६, ६७, ६८, ७८, ८१, ८२, ८३.
 ओमन् help; protection; favour १५६.
 ओवा a particular exclamation at sacrifices १३३८, ३२, ५९, ६७.
 ओवाश्च a particular exclamation at sacrifices १३३०, ६७, ७२.
 ओषधि herb; medicinal herb; plant ३२, ११९, ५०, ८८, २२९, ५१, ६०, ९३, ९५, ९६, ३०५, २४, २५, ४७, ६३, ७९, ८३, ४०९, २४, २५, ३४, ४९, ५२, ६७, ५०८, १४, १५, १७,

१९, २२, ३१, ३९, ५७, ५९, ८१, ८३, ७०१, ०६, ४७, ८६५, ९८७, १३०३, ०५, ३३, ३५, ४०, ४४, ४८, ५५, ६०, ६१, १४४७, ५७, ५८, १६३३, ३५, ४८, ५१.
 ओषधी see ओषधि २, ४, ५, ९, १९, २०, २१, २३, २४, १००, ०२, २८, ३८, ६२, ६३, ६६, ७५, २७९, ३२३, ६०, ८१, ८४, ४१७, ५५, ८९, ९७, ५०६, ०९, १०, १४, २०, ६१४, ८८, ११२५, १३०६, १५७४, ९१, १६२९, ४५, ४९, ८१.
 ओष्ठ lip ३०७.
 ओष्ठाविधान having lips for a covering; covered by lips ५२५, ६२१.
 ओहन्वन् (a priest) possessing or conveying *Brahman* or sacred knowledge ४९१.
 औक्ष coming from or belonging to a young bull १३०८.
 औदुम्बर coming from or pertaining to उदुम्बर १३०१.
 औद्दालकि-आरुणि the name of a teacher १३९१.
 औपजन्धनि name of a teacher; a descendant of उपजन्धनि १११४, १२६५.
 औपनिषद् declared in or taught in the *Upaniṣats* ११७७, १४६०.
 औपमन्यव a descendant of *Upamanyu* ४०, ८७१, ७४.
 औपवेश name of a teacher; a descendant of *Upaveśa* ३८.
 औपवेशि name of a teacher ३९, ४१९.
 औपस्वतीपुत्र name of a teacher १३१०.
 और्णायव name of a *Sāman* ४०२.
 औशिज name of the ऋषि कक्षीवत् १६३३.
 औषध a herb; herbs (collectively) १६६५.
 औषधि see ओषधि ४०१.
 औषसी day break; morning २९६.
 औष्ण्य heat; warmth १६५४, ५५, ६२, ६४, ६८.

the sound or the syllables
to be uttered as a स्तोम in a
addressed to विश्वेदेवाः) ७७३.
which; प्रजापति ४, १७, ४३, ७३,
००, ०२, २००, ३६५, ३८५, ८३५,
९.
bell-metal; a goblet; name
on ३३१, ४३४, ६४२, ८५५, १३०१,
me of a teacher १३६७.
me of a teacher १३६७, ७२.
particular part of the frontal
the best; chief; head ४३४,
summit ८३, ९१, १६८.
excellent; distinguished
shrubs; hiding place १३८,
of a person ६४, ४८१, १३५१,
pertaining to or residing
s and thickets १४२, १११०.
article ४३६.
region of the throat or neck;
neck १६६८.
ral ५२३.
(of many); who (of many)
४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ३२६,
, ५१, ५७.
n what manner ३७९, ७६४,
r ८७३.
interior or the pith of a
tree १६५६.
to some indefinite desti-
७०, २१२.
miniature (?) १५७४, १६४३.

कद्रुनील brown and blue १६६३.
कनिष्ठ youngest; lowest; least १४२, २५०,
४८६, १३५८.
कनी a maiden; virgin १२, ४२९.
कनीनिका the pupil of the eye ५३५, ६८९,
१०८०.
कनीयस् younger; smaller १४२, ४६३,
१२४७, ५४.
कन्दर valley; cliff १६७१.
कन्यकुमारी a name of *Durgā* १६३२.
कन्या a daughter; a virgin ४२५, ५०८.
कन्याका the pupil of the eye ६१६.
कर्पिन् possessed of knotted hair (epithet
of *Rudra*) १३६, ४१, ४४, ४५, ४८.
कपाल skull; potsherd २४५, ९३, ९४, ९५,
३०७, ४५६.
कपिल tawny; reddish; name of a ऋषि
१३०८, १६१२, ६३.
कपिलवर्ण of tawny or reddish colour
५२३.
कपिला tawny; reddish १६८०.
कपूयचरण of evil or objectionable
demeanour or behaviour ८६७.
कपूया evil; stinking ८६७.
कप्यास the buttocks of a monkey ७६१.
कफ phlegm १६५३, ५६.
कफोड an elbow २४४.
कबन्ध a trunk; headless body २४४, ६९२,
११४६.
कबन्धी-कात्यायन name of a teacher १४९०,
९१.
कद्रु (perhaps erroneous for कम्बु=कम्बुक)
husk of rice (M. W.) (सायण reads
कद्रु and explains it as 'animals whose
head and eye-brows are indistin-
guishable) ४३६.
कमण्डलु a gourd १६७१.
कर hand; trunk ३०७, १६६४,
करण sense organ; a limb; means ५७,
१६२०, ५५.

करणाधिपाधिप Lord of the lords of sense-organs १६२०.
 करणीय something to be done or achieved ६८८.
 कराट name of *Ganes'a* १३४.
 कराली name of one of the seven flames of fire १४५०.
 करिष्यन्ती desirous of or about to do ३५०.
 करिष्यमाण about to do ३३३.
 करीषिणी abounding in dung ५००, १५७४, १६३२.
 कर्करि a kind of lute ६२६.
 कर्ण ear १५, २४४, ३०७, ४०५, १८, ५६, ६९, ९६, ५१३, २५, ८१, ८३, ६१७, ५०, ८९, ९५, ८०५, १२७६, १३०९, ५५, ५६, १६३५, ४९, ५५.
 कर्णयोनि having the ear as a source or starting point १९२.
 कर्णवत् having ears ४९१.
 कर्तव्ये to do १७१.
 कर्तव्य duty; what is to be done or ought to be done १३९०.
 कर्तु agent; doer; subject ६७, २६८, ६९, ४०३, ०५, ५३८, ६३०, ७०, ७८, ९२४, ३४, ११९९, १२४१, १३३१, १४४२, ७२, १५०८, १६३५, ४६, ५५, ५९, ६१.
 कर्त्तव्य what is to be done; what ought to be done ६०, ७५, १९१.
 कर्दम mud ५०१.
 कमकृत the doer or agent of an action; one who acts ४१३.
 कर्मक्षय annihilation or termination of all activity १६१८.
 कर्मचित् gathered by actions; resulting from actions; achieved by work ३२१.
 कर्मचित् see कर्मचित् १४५२.
 कर्मजित won by or resulting from actions ९५७.
 कर्मण्य devoted to ones's duties; skilful in work; clever १६८१.

कर्मदेव a god through religious actions ७२८, १२१६.
 कर्मन् act; action; activity; result of one's past actions ५२, ६१, ६७, ८७, ११८, १९, ५३, ५८, ९०, २००, ४५, ३०७, ०८, ०९, १४, १७, १९, २०, २१, ३२, ३४, ३५, ३७, ६२, ४१०, ४८, ६३, ५२३, २४, २५, ३१, ३७, ४०, ९०, ६३८, ५५, ५८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७८, ८६, ७०४, १७, २८, ४०, ५६, ८३८, ५५, ९२९, ३०, ३१, ३६, १०३९, ४२, ४७, ५७, ६१, ६४, ६५, ६६, ९७, ११२३, २६, ९०, ९१, ९२, १२१६, २४, ३१, ३२, ४७, ५४, ५५, ६१, १३०९, १४, ३२, ३४, ३५, ४२, ४४, ७१, ८४, ८७, १४४७, ४८, ५१, ५९, ६४, ७९, ८५, १५१६, ७३, १६१७, ३३, ३५, ३६, ६४, ७३.
 कर्मनामन् a name derived from or in accordance with actions १०२२.
 कर्मफल the fruit or the result of actions १६३४, ५५.
 कर्ममय consisting of actions ३२१, ६४४, ४५.
 कर्मवत् busy with or doing his proper duties १३४३.
 कर्मवशानुग being under the sway of (results of one's past) actions १६६४.
 कर्मविचिकित्सा doubt regarding some act or action ७०४.
 कर्मसिद्धि accomplishment of an action; successful achievement of an act १६५६.
 कर्मतिशेष left over after doing the work (for the teacher) ९८४.
 कर्मध्यक्ष the superintendent of actions १६२२.
 कर्मनुग following one's actions (i. e. results of one's own past actions) १६१५.
 कर्मरि a blacksmith; an artisan १४१, २७४.
 कर्मिन् a follower of the path of action १४५१.

sense of activity १६५५.
 enjoyment of the results of
 e's actions १६६३.
 umb ८५१.
 an epithet of रुद्र or महादेव १६४१.
 pot; jar ६६.
 quarrelsome ९३२.
 part; digit २६९, ६८७, ८३२, ३३,
 ३, १०५५, ५६, १३६६, ६७, १४८५, १५१५,
 १८, १६३०, ६०.
 कर the maker of the creation and
 parts १६१६.
 name of a class of mystic beings
 connected with *Gandharvas*) ४३५.
 covering; shroud; confusion
 ०८, १६.
 the second of the six वेदाङ्गs; ritual;
 divinity; capacity; energy १६१, ४७१,
 ३, २४, १४४५
 the ritual stated in the कल्प;
 work discussing the details of the
 ritual ४६३.
 n from giver; manufacturer;
 maker २६९, ३९६, ४६८.
 imagined; imaginary १६१५, ७५.
 splendour; brightness ४५०, ५१.
 किन् flaming; burning १२६.
 good; auspicious ११८, ४०१, ०२,
 ०३, ०४, १२४७.
 कीर्ति of good fame or reputation
 ५, ६६, ६८.
 तर very good or auspicious १२२७,
 , १३६५.
 तम most auspicious or good १२८४,
 २६.
 ती auspicious; benign; good २५०,
 ३.
 (armoured; having an armour
 ४२.
 a trunk ७७.
 श. को. ३१

कवि a wise man; wise; a poet ८, १८, २१,
 ६४, ६७, ६९, ७०, ७१, ७२, ७८, ७९, ८०,
 ८१, ८३, ८६, ९६, १७, १०२, ०३, ०५, १८,
 २०, २१, २४, ५८, ६२, ६८, ६९, ७०, ७५,
 ८८, ९१, ९९, २०८, १२, ३४, ३५, ४१, ६०,
 ६३, ६८, ६९, ७२, ७६, ३०६, ३६, ३९, ६७,
 ९१, ४८२, ५१०, २४, ६५, ७५, १३१९, ६५,
 ६६, १४१७, ४८, १५१४, ७३, १६१७, २९, ३०,
 ३५, ४०, ४५, ५५.
 कवीयमान thinking one'self to be wise
 २१३.
 कव्य an offering to the पितृs (manes)
 ३५६, ५९.
 कशिपु mat; pillow; cushion ४७३.
 करयप name of a sage and teacher १६१,
 ६९, ७३, ७८, २६५, ४१०, ११, ७१, १०८२,
 १३११, ६८.
 कषमाण scratching ८२५.
 कषाय the essence १३०६.
 कपायकुण्डलिनं who wear red robes and
 ear-rings १६६७.
 कषोत्क *Parames'vara* (comm.) १६४७.
 कसाम्बु a heap of wood (M. W.); bones
 and water (comm.) ३९८.
 कसी lustre; weapon. ४८.
 कहेल name of a teacher ६९२, ११३५, ३६.
 कांस्य cymbal; bell-metal ३३२, १६३२.
 काककुलायगन्धिक having the smell of a
 crow's nest ६१६.
 काक्षसेनि son or descendant of कक्षसेन ८२८,
 १३४८.
 काक्षसेनि-अभिप्रतारिन् name of a person; son
 of कक्षसेन १३५५.
 काख्य being in a hole १४२, ४४.
 काण्ड a section; part २६६, १६३२.
 काण्ड्विय name of a man who was made
 an उद्गातृ १३५८.
 काण्वीपुत्र name of a teacher १३१०.
 कात्यायन name of a teacher १६३२.
 कात्यायन-कवन्धी name of a teacher १४९०.

कात्यायनी name of one of याज्ञवल्क्य's two wives १०९०, १२५९.
 कात्यायनीपुत्र name of a teacher ६८९, १३१०.
 कानीयस less in number १००१.
 कापालिन् one who wears skulls १६६७.
 कापीपुत्र name of a teacher १३१०.
 कापिय belonging to *Kapi gotra*; a descendant of *Kapi* ८२८, २९.
 कापिय-शौनक name of a teacher belonging to the *Kapi gotra* १३५५.
 काप्य name of a teacher १११४, २९, ४६, ४७, ६५.
 काविरक name of a man १६४.
 काम desire; wish; passion; lust; attachment १९, २५, ३७, ३८, ६१, ८६, १५५, ५८, ५९, ६७, ९७, २०२, ४१, ७३, ३०३, ०५, ०६, १५, ३१, ३८, ४०, ४१, ४५, ५५, ५६, ५९, ७५, ९४, ४०२, ०६, १२, २७, ३६, ४७, ५९, ८४, ५०१, १४, १६, २२, ६९, ९१, ९३, ९५, ६१६, ३८, ५५, ६९, ७०६, १७, ४०, ४९, ५४, ५७, ६४, ६८, ८२२, ३४, ५०, ९३५, ३७, ५५, ५७, ५९, ६०, ६९, ७०, ८१, ८२, १०१४, ४२, ५०, ९१, ९२, ११२३, ७०, ८४, १२०१, ०६, ३६, ४०, ६०, ६१, ८३, ८७, १३०१, ०६, ३०, ३६, ३९, ४५, ४६, ४८, ४९, ५४, ५९, ६३, ६५, ७०, ९६, ९७, ९९, १४०२, २१, २९, ३१, ३८, ८१, ८२, ९९, १५२३, २७, १६४६, ४८, ५१, ५३, ६३, ६५, ६६, ६७.
 कामचार acting at one's sweet-will; unrestricted actions ९४७, ५७, ६४, ६६, १६६३.
 कामचारिन् one who acts at one's sweet-will ६८७.
 कामज्येष्ठा led by *Kāma*; having the god desire at the head ३३९.
 कामद्दुषा wish-yielding; yielding desires ३७१, ९७, ५०९, १३३२.
 कामप्र fulfilling wishes; gratifying desires ३००, ४४६, ५१७, १३६९.
 कामप्रश्न asking unrestrainedly ४०९, ११८९.

कामभाज् partaking of sensual enjoyment; enjoying all desires १३९६.
 कामम् at will ९०२.
 काममय full of desires; consisting of desire or passion ११७१, १२२९.
 कामयमान desiring; longing for; having a passion for ३४१, १२३२.
 कामरूपिन् one who can assume any form at will २६१, ६८७.
 कामलायन name of a teacher; a descendant of *Kamala* ८३४.
 कामवत्सा having the wish for a calf ४२७.
 कामवर a gift chosen as one's own will २७१.
 कामविवर्जित्त utterly destitute or devoid of passion or attachment or desire १६६४.
 कामसंपर्क contact with passion or attachment १६६४.
 कामसनि bestower of desires or desired objects; fulfilling wishes ४०२.
 कामगायिन् one who sings (chants for fulfilling) desires (?) १३५१.
 कामान्निन् having as much food as one likes ७४०.
 कामिनी a lady १६६०.
 कामोपभोग enjoyment of sensual or worldly objects १६५३.
 काम्य desirable; actuated by or done with a view to fulfil one's desire (a kind of action, the other kinds being निस्र and नैमित्तिक) ५०१, ८५५, १३६८, १६३१.
 काया body १६४३.
 कायाम्नि body's fire १६६८.
 कारण cause ५२३, २४, १५७५, ७६, १६२०, २३, ६५, ८३.
 कारयित् one who causes to do १६४६, ४७, ५५.

- name of a ऋषि or family ३२७,
 filtering vessel ३४७.
 n of the कृत्तिकास; an epithet of
 a son of शिव and पार्वती १३४.
 serliness १६५६.
 y; something to be done or
 red; to be done; effect १६२०.
 निर्मुक्त being devoid of action;
 or effect १६५९.
 name of a teacher १३१०.
 hide of a black antelope ४२२.
 made of a black metle namely
 ८६, १३६०.
 es; period of time; death; black
 r; dark १७२, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९,
 ६७७, ८४, ८७, ७८२, ९९५, १०७०,
 ८७, १५७५, ७६, १६०९, १७, १८, १९,
 ६०, ६१, ७४, ७८, ८१.
 the principle of time; the author
 e १६१७, २५.
 = कालखण्ड) name of a class or
 of demons ६५७.
 having the form of time १६५८.
 particular measure or dura-
 of time १७९.
 rmed or named काल १६६१.
 the joint (i. e. continuity) of
 ६८७.
 amed or known as काल १६५८.
 ne of one of the seven flames
 e १४५०.
 me of a teacher ६२३, ९०, १३११.
 me of a teacher १३, १८, ८३, ८६,
 २३०, ५०, ४६७, ६८.
 स् name of a teacher १३५१.
 the region of काशी (banaras)
 वदेह (i. e. मिथिला) ६७४.
 lord of काशी, अजातशत्रु; a person
 ging to the काशी ६७४, १०६६, ११५७.
 काश्यप name of a teacher ६८६, १३६७,
 १६३२.
 काषायण name of a teacher १२६५.
 काष्ठ wood; piece of wood १३३५, १६६२.
 काष्ठा end; limit; waters ३, ६८७, १३१०,
 १४१४, १६३०.
 कासिका cough १३२.
 किंशिल (land) having small stones or
 gravelly particles १४४.
 किंस्वित what ४६७.
 किङ्किणी a tinckling bell १६६२.
 किंगोत्र belonging to what गोत्र or family
 ८३०.
 किंज्योतिस् with what lustre ? having
 what light ११९०, ९२.
 किंदेवत having what as a deity ? ११७४,
 ७५, ७६.
 कितव a gambler; a cunning fellow ७८,
 २५२, ४८३, ८४, ८५.
 किनाट the inner part of a tree ११७९.
 किम् what; which; who ९९, १९४, ९५, ९६,
 ९७, २०१, ५६, ४०२, ९९, ५१०, ६३१, १६०८,
 ३४, ४०.
 किमीदिन् name of a class of evil spirits
 ५०९.
 किरिक bounteous (said of the incarna-
 tions of रुद्र) १४४.
 किलालोधनी having food (i. e. milk) in
 the udder ५०९.
 किल्बिष sin; calamity; danger; evil ४८६-
 ८८, १६५०.
 किल्बिषस्युत् destroyer of sin; evil or dan-
 ger ४९२.
 कीकस the breast-bone and the cartila-
 ges of the ribs connected with it
 ४३४.
 कीट worm; insect ६३०, ९१७, १८, २९, ३३,
 ३५, १२८९, १३००.
 कीनाश a cultivator ४३३.
 कीरि a poet; praiser ४६, ९२.

कीर्ति fame; making mention of; report
 ६०, १२०, ७४, ३२२, २८, ४५०, ५१, ७३,
 ५००, १३, १९, ६९, ६२१, ५५, ८९, ७०३,
 ३८, ३९, ८१, ८२, ८४, ८०५, २०, १०२२,
 १३३२, ४५, ५०, १६४७.
 कीर्तिमत् famous ८०५.
 कीलाल food; sweet beverage ४३३.
 कुक्षि side; belly; interior ८५, ४३४, १३४७.
 कुचर moving on the ground ८८.
 कुटुम्ब family; household; members of a
 family ९८४, १६६३.
 कुत्स name of a ऋषि; a protege of इन्द्र ६४.
 कुनखिन् having bad nails ४८६.
 कुबेर name of a chief of a class of spi-
 rits namely यक्ष १६४.
 कुबेर-चारक्य name of a teacher १३६७.
 कुम्भ a hump-backed bull १३३१, ६७.
 कुमार a boy; a child; a son १२७, ३४, २५०,
 ९६, ९७, ९८, ५९०, ८५६, ५७, १०४७, ५६,
 १२९०, ९३, १३८९, १५१४, १६०१.
 कुमारदेष्ण granting perishable gifts;
 making childish offerings ४८४.
 कुमारहारित name of a teacher १११४, १२६५,
 १३०५.
 कुमारी a virgin; a maiden २५०, १६०१.
 कुमुद the white water lily ३७०.
 कुम्ब्या a precept in the form of a verse
 or formula ५६८, १३४४, ४६.
 कुम्भ a pot; jar १७७, २४९, ३७१, ९१.
 कुम्भी a small jar ४३६, ३७.
 कुरु name of a land or region or its
 inhabitants ७६७, ८४९, १३४१, ४८.
 कुरुक्षेत्र name of a battlefield १६६९.
 कुरुपञ्चाल name of a land or region ६७४,
 १११५, ७३, १३५७, ६४, ६९.
 कुरुर a species of worm ३४०.
 कुल family; race; group ५०१, ८०५, ७४,
 ७५, ७६, १०६१, १३६३, १४८७, १५२८.

कुलाय a receptacle; home; the dwelling-
 place of the soul i. e. body १५७,
 २८१, १२०१.
 कुलायिन् the inhabitant of a dwelling
 place १६४५.
 कुलाल a potter १४१.
 कुलालशाला a potter's work-shop १६७१.
 कुलीदन्त well-set or thickly set teeth
 ५२५, ६२१.
 कुलीन nobly born; high-born ८८२.
 कुलुञ्ज one who plucks out hairs १३९.
 कुलमाष an inferior kind of grain; half-
 ripe barley ७६८, ६९,
 कुल्य relating to a family or race १४२,
 १३६४.
 कुल्या channel ३९२, ४३६, १३४८.
 कुलयाश्व name of a prince १६५३.
 कुवित् whether; where; at all ६३, ६४.
 कुशल skilled; clever; right; proper ६०१,
 ०३, ७०४, ६४, ८३५, १३५७, १४००.
 कुशलानुशिष्ट taught by a clever person
 १४००.
 कुश्रि name of a teacher १३१०.
 कुसिन्धु a trunk २४४.
 कुसीद usury; loan ५०५, १६३३.
 कुह where २३९, ७६.
 कुहक delusion; deception १६६७.
 कूट a horn; concealed weapon; the bone
 of the forehead trick ४०५.
 कूटहस्त having a कूट in the hand; with a
 hand concealed ४०४, ०५.
 कूप a well; reservoir of water; a tank
 ४०४, १६४८.
 कूप्य situated in a well (said of Rudra)
 १४२.
 कूर्च a cushion ११८६.
 कूर्म a tortoise १५९, २९३, ३०६.
 कूल bank; shore १२०५.
 कूल्य situated on the bank (said of
 Rudra) १४३.

hard १०५५.

point of the neck ४३४.

bled; overpowered by pain

८५७.

done; what has been done;

best throw or the winning

at dice; the number ten; the

the four *Yugas* ६०, ७४, ७५,

१, ६१६, ८३०, १२८४, १३२७, ५४,

२, ९३, १६१४, ३२, ५५, ७८.

no has done (his) duty;

४२१.

the destruction of the actions

११८.

used; one who has done or

and what was ought to be done

evaded ५९०, १६५४, ६३, ७६.

done and not done; partly done

not done; what has been

his duty and what has not

done ५१०, १२४७.

perfected soul ९८२, १४८२, ८३.

imitating what is done (by me)

.

one who has won with the

throw (called *कृत*) at dice ८२४.

used; one who has done or

finished his object १४५१, १५९०.

; activity; act ३१९, २१, ९४१,

४७.

name of a constellation ४३४.

; clever; able to work ५०.

evil spirit ५११.

official ३५४.

probably incorret for *कृत्स्नवीत*

.

all; complete ११४, ८०, २९४,

६, ६८९, १०४२, १२६३, १३५४, ५५,

३७८, ८३.

कृत्स्नक्षय destruction of the whole; complete destruction i. e. dissolution of the world १६५७, ६१.

कृत्स्नवीत who has encircled the whole (army) (said of *Rudra*) १३८.

कृत्स्नायता (?) probably incorrect for *कृत्स्नवीत* १३८.

कृदन्त a verbal formation ५२३.

कृपणा slender; little ३१२.

कृमि insect १२८९.

कृश lean; slender ४६, ४७६.

कृशातु bending the bow; a name applied to a good archer (*अस्ता*) ६६.

कृषि cultivation; tilling; plowing १६३, ३८३, ४४१, ८५, ८६.

कृष्टराधि successful in agriculture १६३.

कृष्टि race of men; men (plural) ३, ६३, ६७, ७६, ५०६, ०८.

कृष्ण dark; black; name of a person १४, ८३, ११४, २८, ३१, ७३, ७४, ८१, २२७, ३९७, ४१४, ५००, ०९, २३, ३५, ६१७, ८०, ७६०, ९४, ९५, ८१७, ९७, ९८, १०८०, १३३७, ३९, ८६, १६३२, ४७, ७८, ८०, ८२.

कृष्णदत्त-लौहित्य name of a teacher १३६७.

कृष्णदन्त having black teeth ६१७.

कृष्णद्र black-runner (?) ४३४.

कृष्णधृति-सात्यकि name of a teacher १३६७.

कृष्णपक्ष the dark fortnight of a month १४९५.

कृष्णपिङ्गल dark tawny १५७४, १६४१.

कृष्णरात-लौहित्य name of a teacher १३६८.

कृष्णवत्स having a black calf ६१७.

कृष्णवर्मन् fire १६६५.

कृष्णहारित name of a teacher ६२२, ८९.

कृष्णाजिन the skin of a black antelope ४०५, ७३, १३५७.

कृष्णायस black iron; steel ८८७.

क्लृप्त effected; made ready; destined; settled १६२, २६८, ६९, ४३५, ५१४, ९३१.

केत thought; will; desire; perception;
knowledge ६४, १११, ४५८.

केतपू purifying the desire or will ११२.

केतु banner; sign on the banner; mark;
the name of a ग्रह १३, ४३, ७४, १०२,
५९, ७०, ७१, ७२, ७४, २४५, ४९, ६०, ३०६,
२६, ४८०, १६६६.

केतुमत् bright; clear १३३, १६९, ७१.

केतुमती bright; possessed of lustre १६२.

केवल mere; only ६१, ६४, १३५३, १५८२,
१६०९, २२.

केवलत्व the absolute unity १६६१.

केवलाच incurring sin only; alone guilty
४७६.

केवलादिन् one who merely eats or enjoys
himself (without giving anything
to others) ४७६.

केवली alone; one; only ३४५.

केश hair ३०९, १४, ४०४, ५०, ५१३, ६८०,
११२५, ८७, १२०७, १३५७, ६९, १४४७.

केशव a name of विष्णु १३४.

केशवमश्रु the hair on the head and those
on the cheeks and chin ३८३.

केशान्त end of hair; the border of the
hair on the forehead ६९९.

केशिन् having fine or long hair १३१,
२२६.

केशिन्-दाभ्य-पाञ्चाल name of a teacher १३६४.

केशिनी having long hair (said of the
female attendants of Rudra) १३३.

कैकेय name of a king of the *Kekayas*
३९, ८७३.

कैलासशिखर the top of the कैलास mountain
३३६, १५७४.

कैवल्य final release; oneness (i. e. with
ब्रह्मन्); absolute unity १६७६.

कैशोर्य patronymic from *kais'ori*, name
of *Kāpya* १११४, १२६५.

कोटर hollow or cavity in the trunk of
a tree १६७१.

कोल the jujube tree fruit ९२९.

कोश a sheath; treasure ३३, १३०, ७४, २४५,
४७, ६९, ३२२, ६९५, ८१३, १४६६, १६५६, ६२-
कौण्डरव्य name of a teacher ६०६, ११, ८६,
८७.

कौण्डिण्य name of a teacher १११४, १२६५.

कौत्स son of कुत्स १३११.

कौत्सायनी relating to कौत्सायन १६५७.

कौपयेय-कौरव्य-उच्चैःश्रवस् name of a teacher
१३६४.

कौमार childhood १६६०.

कौरव्य-उच्चैःश्रवस्-कौपयेय name of a teacher
१३६४.

कौरव्यायणीपुत्र name of a teacher १२६६.

कौशिक name of a teacher १११४ १२६५.

कौशिकायनि name of a teacher १२६५.

कौशिकीपुत्र name of a teacher १३१०.

कौषीतिकि son of कौषीतिक ६४०, ४६, ९२, ७५९.

कौषीतिकेय name of a teacher ११३५, ३६.

कौसल्य name of a teacher; belonging to
the *Kosala* country १५००, १४.

ऋतु sacrifice; might; power; thought;
will; intention ५, १८, ४५, ५१, ५६, ६०,
७६, ७७, ८४, १२४, ६२, ७१, २६१, ३६१,
८६, ४००, ५९, ८०, ९४, ५९३, ८०७, १२२९, ८४,
१३२७, ६७, १४०२, ५७, १६५१, ५४, ८१.

ऋतुमत् intelligent; wise; powerful;
vigorous ७२, ३६३.

ऋतुमय consisting of will; endowed with
intelligence २६१.

ऋतुशत a hundred sacrifices १६८३.

ऋन्द cry; roar; calling out १२९, ३२, ३२३.

ऋन्दसी the roaring two worlds; two
contending armies shouting defi-
ance १९६, २५६.

ऋम order; series १६१, १६६०.

ऋय buying ४८६.

ऋव्याद् consuming flesh or corpses (said
of अग्नि in his terrible form) ३७९, ८२.

ऋमि (=ऋमि) an insect ४११, ५०९.

action; a sacrifice; act १३६७, १५१३.
 the quality of the act १६१६.
 one who performs the (sacrifi-
) rites or acts १४७६, ८८.
 playing ९७९.
 (ख) play; sport १३६३.
 araged; angry १४७, ७३, ७४.
 rsh; hard-hearted; fierce; fero-
 us ५७५, १६३३.
 ap ४३४.
 anger; rage ४३४, १६५३, ५६, ६३, ६६,
 consisting of anger; of angry
 position १२२९.
 jackal १२८, ३०.
 name of several *Sāmans* ७८५,
 ४५.
 वाक्) a particular kind of recita-
 n १३४१.
 पुत्र name of a teacher १३१०.
 mpotent; a eunuch १२८८.
 affliction १५८२.
 the lung ९८७.
 standing below on the earth
 ९७.
 moment ६८७, १६८३.
 one who changes dresses every
 moment १६५३.
 charioteer १४१, ४७४, ८२४, २५.
 person of the क्षत्रिय caste; the
 second of the four *Varnas* ३१, २४५,
 ७१, ३११, १४, ३४, ४४८, ५३, ५४, ५१६,
 १, ८५७, १०३६, ३८, ९२, ९४, ९५, १२६०,
 १३०३, १४०९, ९८.
 art of warfare ९२६, २८, २९.
 the second of the four *Varnas*;
 person belonging to that *Varna*
 ३५४, ४९३, ६७८, १०३६, ३८, ७१.
 ग्रीणि the womb of a क्षत्रिय ८६७.
 right ८२.

क्षमा forgiveness; forbearing ३६५, ५०८,
 १६८०.
 क्षय end; destruction ५७, ९६, ३६३, १३३०,
 १६३३, ६७.
 क्षयण an inhabitable region १४४.
 क्षयत् ruling; governing ९२.
 क्षयद्वीर ruling or governing men १४५, ४६.
 क्षयन्ती ruling; governing १५६.
 क्षय्य what can be exhausted ४०६.
 क्षय्यलोक a perishable or exhaustible
 world ९४७.
 क्षर perishable १५८०, ८१, १६१२, ७७.
 क्षस्त diminishing; perishable १३४३.
 क्षा the earth; ground १९४.
 क्षित habitant; dwelling; residence २६६.
 क्षिति the earth; ground ९, ५५, ५७, ३०५,
 ०८, १२, ४४९.
 क्षिप्र quick १३३१.
 क्षिप्रधन्वन् quick with one's bow ३२७.
 क्षिप्रयेन a species of bird ११५.
 क्षियत् ruling; dwelling ४७, १७२.
 क्षीण exhausted; emaciated १५८२, ८८.
 क्षीणदोष whose sins or evils are exha-
 usted १४७७.
 क्षीणलोक whose *Loka* (obtained as a
 result of his past deeds) is exhaus-
 ted १४५१.
 क्षीर milk; sap २०९, ३७०, ७१, ४३४, ३५,
 ७४, १३३१, १५८४.
 क्षीरौदन rice with milk १३०७.
 क्षुद्र minor; insignificant; small ३०५, ५०,
 १३६२.
 क्षुद्रमिश्र hybrid and small ५९४.
 क्षुद्रसूक्त an author of short hymns ५४७.
 क्षुब्ध hunger ३११, ४३४, ६१, ६३, ७५, १६४७,
 ५३, ५६.
 क्षुधित hungry ८८१.
 क्षुमत् abounding in food; nutritious ७.
 क्षुर a razor; a sharp blade attached to
 an arrow ३८३, ६८१, १०२२, ११३०, १४१७.

क्षुरधान a razor-case ६८१, १०२२.
 क्षुरधारा the sharp edge of a razor १३५९.
 क्षुल्लक tiny; small १४०.
 क्षेण a dwelling; habitable १४४.
 क्षेत्र field; world (figuratively); body
 (as in क्षेत्रज्ञ) ९२, १३७, ४९८, ५०९, ९४६,
 १६१३.
 क्षेत्रज्ञ the soul; the knower of the क्षेत्र
 i. e. body १६५४.
 क्षेत्रभाग a part of a field ९५५.
 क्षेत्रिन् the owner of the क्षेत्र i. e. body
 ३१६, २८.
 क्षेम auspicious; happy; welfare ६३, ८०,
 १६९, ९८, ४४७, ७४०.
 क्षेम्य leading to or resulting in well-
 being; auspicious १४२.
 क्षैमि name of a teacher १३५६.
 क्षैमि-सुदक्षिण name of a teacher १३५७.
 क्षोणी the earth ५५.
 क्षोदस् powder ३६२.
 क्षमा the earth ४५.
 ख zero; vacuum; sky; *Brahma* ५२, २४४,
 ५२३, ८३५, १२६६, ७६, १३३०, १४२०, ५५,
 १५१६, ८९, १६१७, २९, ५५, ५७, ६५, ६७,
 ७५, ८०.
 खचर moving in the sky; a bird १६५५, ६३.
 खजामियोग contact with fire of friction
 or lightning १६६८.
 खद्योत a fire-fly १५८९.
 खद्योतमात्र a mere fire-fly; no better than
 a fire-fly ९०३.
 खल a threshing-floor; granary ४३६.
 खल्य being on a threshing-floor १४२.
 खा digging; a river; channel ७५.
 खात dug, a pit १३३१.
 खाद solid article of food ४७३, ५६३.
 खाल्य baldness ३११.
 खिलश्रुति name of a work; compendium
 of appended or addition hymns ५२४.
 खील (=कील) a post २४९.

खुर hoof ५३२.
 ख्यात one who reveals or gives out the
 fame ४१३.
 गगन sky १६३६.
 गङ्गा the *Ganges* ३६८, १६३३.
 गण a tribe; troop; band; group १४०, ७४,
 ८८, ४८५.
 गणपति the lord of a गण; epithet of the
 vedic deity बृहस्पति १४०, ८८.
 गणशस् group by group १०३७.
 गणाधिपत्य lordship or suzerainty over
 a गण १६८१.
 गति moving; arriving at; obtaining;
 state; mode of existence; the final
 resort १५४, ५५, ६८७, ७४०, ६५, ६६,
 ८३८, १२१५, १४००, ३६, १६३२, ५४, ५५,
 ५६, ५९, ६२, ६२.
 गतु way; course ४८८.
 गन्तु goer; one who goes ५३, १६५९.
 गन्ध smell; fragrance; scent ११६, १७,
 २०, २९, ६४, ४३६, ५०८, १६, २२, ३९, ९३,
 ६३८, ६७, ६८, ६९, ७०, ९८०, १०९७,
 ११२२, १२६१, १३४९, ५३, ६२, ८७, १४२१,
 १५९०, १६३५.
 गन्धद्वारा perceptible through odour ५००,
 १५७४, १६३२.
 गन्धमाल्या fragrances and garlands ९५९.
 गन्धमाल्यलोक the world of perfume and
 garlands ९५९.
 गन्धमाल्यलोककाम one desirous of the world
 of perfume and garlands ९५९.
 गन्धर्व a class of semi-divine beings; one
 of this class ७०, १०५, ०७, ११, १७, ६०,
 ६४ ६९, ७९, ८८, २५७, ३०६, ३९, ७०, ४०१,
 २१, २८, ३५, ४९, ५०१, ०८, ०९, ७८४, ९९०,
 १३३३, ४२, ४६, ५६, ६२, ६३, ६६, १६३१,
 ४३, ४५, ५३.
 गन्धर्वगृहीता possessed of by a गन्धर्व ११२९,
 ४६.

गन्धर्वजुष्टा liked or accepted by a गन्धर्व
५०१.
गन्धर्वलोक the world of गन्धर्वs ३१६, ३७,
४०५, ११४५, १२१६, १४३५.
गन्धार name of a region ९२१, १६४७.
गभीर deep; serious २३९, ७६, ३५३, ४१८,
१६६६.
गमन going ४८६.
गम्भीर deep; serious ३९८, ४२३.
गम्भीरशंस ruling secretly or in a hidden
manner (M. W.); whose praise is
inexhaustible (सा०) ८२.
गय a house; property; wealth; a name
given to प्राण; a house-servant ८३,
१२८२.
गरगिर् a poison-eater; one who swallows
poison ४८६.
गरुड an eagle १६३२.
गरुत्मत् having wings; a bird ; an eagle
१०४, २२७, ३५०.
गर्त the seat of a war-chariot; a high
seat ५२२.
गर्तसद् sitting on the seat of a war-
chariot १२७, ४६.
गर्दभ an ass १०२०, १३३१.
गर्दभविपीत name of a teacher ११८५.
गर्भ a foetus; womb; interior; inside ८,
११, ६५, ६९, ७३, ९९, १०५, २१, ५१, ५६,
५७, ६०, ६६, ६७, ६९, ७३, ८७, ८८, २१०,
२१, २९, ३०, ४९, ५०, ५३, ५४, ७९, ९३,
९४, ९५, ३२३, २५, २६, ३८, ७४, ४००, २१,
२२, ३५, ४५, ८६, ८८, ५२२, ८९, ९०, ९१,
७७९, ८६०, १३०७, ०९, ३१, ५८, ६६,
१४२३, ९८, १५९१, १६०१, २९, ३१, ७९.
गर्भरस desirous of impregnation २०९.
गर्भवास a stay in the womb १६८३.
गर्भिणी pregnant; a pregnant woman ११,
१३०७, ०९, १४२३.
गर्हयमाण censuring १३३४.

श. को. ३२

गलूनस name of a teacher १३४१.
गव्य pertaining to the cow or bull;
bovine १३६४.
गव्यु desirous of milk; desirous of battle
४१८.
गव्यूति a pasture; a piece of pasture-
land ३५६.
गहन deep २३९, ७६, १२४१, १६६६.
गह्वरेष्ठ seated in or dwelling in a cave;
being at the bottom or lowest depths
१४४, १४०२.
गह्वरेष्ठ see गह्वरेष्ठ १४४.
गाङ्गौच्य name of a divine being १३४.
गातु going; way; path १७२, २४५, ३५६,
४८१.
गातुविद् knower of the path १७२.
गातृ singer ७६१, १३४१.
गात्र a limb; part of the body; body २४७,
३८९, ४१४.
गाथा a verse or a stanza (belonging to
the epic poetry of legends or आख्यायिकs)
४३५, ५३, ५२२, ३८, १३४४, ४६, ४७, १६५३.
गाथ shallow ४९९, १३५७.
गान्धर्व like that of the गन्धर्वs १२२८.
गायत् singing १३४५.
गायत्र the गायत्री metre; a period of twenty
four years; the गायत्री *Sāman*; requir-
ing or possessing the गायत्री metre
२५, ३५, ५७, २१५, १६, १७, ९४, ९७, ३२७,
४९२, ५२२, २३, २४, ६३, ७८१, ८१४, १३३०,
३१, ३२, ३९, ४१, ५५, ५८, ६६, ६७, ६८,
६९, ७२, १६४४, ६६.
गायत्रत्व being or nature of the गायत्री
metre. १३६६.
गायत्री name of a Vedic metre २९, ३५,
१६२, ६३, ६८, ७३, २५१, ७७, ८१, ८२, ८३,
८६, ९४, ९६, ९७, ३२७, ३६, ४१६, ५३०, ३७,
६३, ७९९, ८०१, ०२, १४, १२७९, ८१, ८२,
१३३०, ३१, ३२, ३४, ३५, ३९, ४६, ४७, ६८,
६९, १५७४, १६४३, ४४, ७७, ८१, ८२.

गायत्रीछन्दस् the metre गायत्री in which a stanza contains three verses (पाद) of eight syllables each २८६.

गायत्रीमुख the mouth of गायत्री १३६९.

गायत्रीविद् knower of गायत्री १२८४.

गार्गी name of one of याज्ञवल्क्य's two wives ११४४, ४५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६५.

गार्ग्य name of a teacher ६७४, १०६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, १२६५, १५०४, ०५.

गार्ग्य-सौर्यायणी name of a teacher १४५०.

गार्ग्यायण name of a teacher १२६५.

गार्ग्यायणि name of a teacher ६२७, २९.

गार्हपत्य one of the three sacred or sacrificial fires १६३, ३७२, ७३, ९५, ४०३, ०४, ०५, ५३, ६५, ७३, ८७, ८८, ८९, ६९१, ७९०, ८३६, ७९, १३८७, १५०५, ०६, १६५१, ५८, ६४, ७७, ८२.

गार्हपत्यव्रतश्रव(प)ण the *Gārhapatya* and the fire for cooking the fast milk ४६८.

गाल्व name of a teacher १११४, १२६५.

गिर speech; sound; words २, ८, १७, १८, ५६, ६२, ६८, ९३, १०१, ७०, ५२१, २५, ७५६, १६३५, ६५.

गिरि mountain ४८, ५६, ५९, ३३६, ६४, ५०७, ४१, ७०३, १३३८, १४५८, १६३५.

गिरिक (v. l. for किरिक) १४४.

गिरिकुहर a cave in a mountain १६७१.

गिरिक्षिप्त dwelling on a mountain ८८.

गिरिचर moving on mountains १३९.

गिरिञ्ज mountain-protector १३५, १५९४.

गिरिरूप mountain-shaped २८.

गिरिश the lord of the mountain १३५, ४१.

गिरिशन्त inhabiting mountains १३४, ३५, १५९४.

गिरिष्ठ dwelling on or standing on a mountain ८८.

गिरिस्तुत mountain-son; name of a divine being १३४.

गीत music; vocal music; song २६४, ५२२, १३३६, ४५, ४७, ६६, ६८, ९७, १६५८.

गीतवादित्र vocal and instrumental music ९५९.

गीतवादित्रलोक the world of singing and music ९५४.

गीतवादित्रलोककाम one desirous of the world of song and music ९५९.

गीथा song १०१२.

गीर्ण swallowed १००.

गुण quality; a string; a chord २५१, १६१३, १४, ५४, ६३.

गुणभुक् enjoying qualities १६६६.

गुणमय consisting of qualities १६५५.

गुणाख्य name of a teacher ६९२.

गुणान्वित possessed of qualities १६१८.

गुणिन् possessed of qualities १६१७, २५.

गुणेश master or lord of the गुण १६२५.

गुद entrails; rectum; anus ४३४, ९८७, १३८७.

गुपित्त protected; covered ४३४.

गुप्त secret; covered; protected ३७५, १६६६.

गुप्ति protection १३४३.

गुरु heavy; teacher; elderly person; father ४८६, ९८४, १४५२, १६२८.

गुरुतल्पग contaminating the bed of his preceptor १६३४, ४७.

गुरुमनस् possessed of heavy (i. e. deluded) mind १६४६.

गुर्वागम instruction of a spiritual teacher १६६३.

गुल्फ ankle; ankle-joint २४४.

गुह्य one of the seven व्याहृति ५२२.

गुहा cave; cavern; a secret place; the heart; in a secret place (ind.) ४६.

६१, ६९, ९४, १०६, ६१, २२६, ४९, ५६, ५७

६८, ३३६, ४६, ४९, ५०, ४२३, ३६, ४७, ५९

८९, ५०९, ७०६, १३३२, ४१, ६१, ९२, १४०६

१०, २२, ५९, १५८८, ९९, १६३१, ३५, ३६

४८, ५५, ५८, ७३.

हृत्प्रस्थि the knot of the गुह्य (i. e. the heart) १४८७.
 ह्यचर moving in the cave; moving in secret १४५९.
 ह्यचरत् moving in a cave २४९.
 ह्यशय lying in a cave; dwelling in the secret place (of the heart) १४५८, १६३५, ७६.
 ह्यहित placed or kept in a cave (i. e. the heart) २७३, १४०२.
 ह्य a secret; secret part of the body; the heart; cave; cavern १२, १३, ६१, ८१, ८३, १२४, २३४, ४८, ३३५, ४२८, ६८७, ७९५, १३०९, १४२०, २८, १५७३, १६२७, ३५, ५१, ६१, ६३, ६४, ७७.
 ह्यतम most secret १६५७, ६३.
 ह्या being in caves or recesses of the mountains ३१२.
 ह्योपनिषद् a secret teaching; the mystic doctrine १६१३.
 ह्य (गूढ) hidden; covered up; secret २४१, ७५, ७६, १३९८, १४०२, १६, १५९४, १६०९, १२, १३, २१.
 ह्यत् praising; singing; a singer ५५.
 ह्यान singing; praising; a singer ५२४, १६३४.
 ह्यस्स clever; dexterous; judicious ८०, ८१, १४०, ५४५.
 ह्यस्यपति the chief of a number of shar- pers १४०.
 ह्यसमद name of a sage ५४५.
 ह्य a vulture ७२, १२८, ६२, १६३५, ४५.
 ह्यमि holding; containing ५०९.
 ह्यभीतः (गृहीतः) held; caught; taken २२३, ३५३, ५४२.
 ह्यष्टि a cow which has had only one calf १६२.
 ह्य a house; a dwelling place १८, ६४, १६३, २५०, ८९, ३०७, १०, २८, ३६, ५५, ८६, ८७, ९८, ४१०, ५३, ५४, ६७, ७०, ७३,

७४, ७६, ५००, ०१, ११२९, ४६, १३०९, ४१, ५३, ९०, ९१, १६५१, ७०.
 ह्यद्वपति the lord of the house ५, १६३, २९६, ४६१, ६२, १३५७.
 ह्यद्वेषिन् one leading a house-holders life; householder १६३.
 ह्यद्विन्न a kind of स्तोत्र in a Saman(?) १३५६.
 ह्यद्विन् a householder; one belonging to the second आश्रम २८७, १६७०.
 ह्यद्वीता caught; held; restrained १०७४.
 ह्यद्व्य what can be seized or held or perceived १४४, ६९१.
 ह्येय fit to be sung; what can or should be sung १३३०, ४०, ४१.
 ह्येष्ण song (Hume); a joint (comm. पर्वन्); उद्गीथ chanting of the *Sāma-veda* ५६८, ७६२, ६३.
 ह्येह्य domestic; favourable to the house १४४.
 ह्यो a cow; a bull; the earth; the sense-organ १२, १३, १९, ४५, ४६, ६६, ६८, ७१, ८२, ८३, ८९, ९४, १०५, २९, ३२, ४६, ५०, ६२, ६९, ७०, ८२, ९१, २०७, ०९, १०, १२, १८, ३२, ५२, ५३, ८१, ८६, ९७, ३१३, १४, ३६, ४४, ६५, ८५, ४१६, १८, २९, ३६, ५७, ६९, ८५, ९८, ९९, ५०१, ०७, ११, १९, ८२, ९४, ६०५, ५०, ९५, ७७६, ८३, ८२५, २७, ३१, ३२, ३३, १०२०, ११२५, ३३, १३०३, ३३, ५६, ६५, १५७४, १६११, ३१, ३४, ३६, ४५, ४६, ४७, ७७.
 ह्योअग्रा having cows in the front; rich in cows ९, ४८२.
 ह्योअश्व cattle and horses ९४६, १२९४.
 ह्योकाम wishing for or desirous of cows or cattle १११६.
 ह्योघ्न a cow-killer १४६, ४८६.
 ह्योचर province १४१२.
 ह्योजा born in cattle; born in the earth ९५, १३३५, १४२७, १६४५.
 ह्योजात born in the starry sky ४९८.

गोजित् the winner of cows; conquering or winning cattle १७०.
 गोतम name of a ऋषि ८७६, १०८२, १२६५.
 गोत्र family; race; kin; mountain; enclosure; fence ३७४, ४०३, ५२१, २३, ६४०, ८३१, १३५९.
 गोत्रभिद् the shalterer of mountains; an epithet of इन्द्र १८८.
 गोदुग् one who milks cow; a milk-man; cow-herd २१७.
 गोनाय a cow-herd ९०७, ०८.
 गोप a cow-herd १३५, २२०, ३३३.
 गोपति the lord of cows; leader; chief ३८४, ८९.
 गोपा a cow-herd; herdsman; a guardian १३, १४, ७३, ८३, ८४, ८७, १०६, २०, २१, ८९, २१४, ४९, ६१, ७१, ४६१, ६३, ५०९, १०, ३७, ८२९, १३५५, ६६, १५९२, १६४५.
 गोपायत् protecting ३७९, ४५१, ५२.
 गोपीथ protection; a drought of (*Soma* mixed with) milk ३०७, ४१९, ५१०.
 गोषोष increase of cowherds १६८.
 गोप्तु a protector; a milk-man; cowherd २६२, ३३२, ४०४, १३, ३४, ५१, ५२, १३६४, १४४२, १६०९, २५, ३३, ८०.
 गोबल-वार्ण name of a teacher १३३१.
 गोमत् possessed of cattle; rich in cattle ३९०.
 गोमती rich in or accompanied by cattle or cows २७०.
 गोरूप having the form of a cow; the form of a cow ४३४.
 गोश्रुत् name of a teacher ३३१, १३५७.
 गोश्रुति name of a teacher ८५४.
 गोष्ठ a cow-pen १६९, ३१३.
 गोष्ठ्य pertaining to or belonging to the cow-pen १४४.
 गोस्तेय theft of a cow १६४७.

गौतम name of a sage ३९, ६२७, २९, ८३१, ५७, ५८, ५९, ६०, १११४, ४७, ४८, १२९२, ९४, ९५, ९६, ९७, १३४२, ९१, १४२६, २८.
 गौतमीपुत्र name of teacher १३१०.
 गौपवन name of a teacher १११४, १२६५.
 गौर white; yellowish bright १६३६.
 गौरी name of a deity; *S'iva's* wife; *Pārvatī* १३४, २२५, ३४८, १६७७.
 गौतुक्ति name of a teacher १३७२.
 ग्रन्थविस्तर big volume; voluminous work; diffusiveness १६६४.
 ग्रन्थि a knot; difficulty १४३९, १६४९.
 ग्रसित swallowed; seized ११९, २०.
 ग्रह seizing; laying hold of; an organ of perception; eclipse; a planet १५३, ५४, २३५, ३१९, २०, २१, ४४८, ५९, ५११, १२, ८५, ११२१, २२, २३, १३५४, ६०, ६८, १६५३, ६१, ६७, ७८.
 ग्रहण perception १६८०.
 ग्ना nymph; a divine female ६, १८२, ४९७.
 ग्ना earth ६०.
 ग्राम a village; a band; a group; a race; troop ४६, १०५, ४५, ३८७, ४७०, ५०३, ०९, ६४१, ८२७, ६१, ९२१, ६७, १३४०, १५०१, १६७०.
 ग्राम्य urban; belonging to a village; vulgar; domesticated २३२, ७२, ४०१.
 ग्रावर a stone ४६२, ७३, ९५, ९७, १३०५.
 ग्रावस्तुत् praising the stone (i. e. the pressing stone); one of the १६ priests at a sacrifice ४६१.
 ग्रास eating १६१५.
 ग्रासाम्बुवृष्टि shower of food and drink १६१५.
 ग्राहि a female spirit seizing men (and causing death) (an epithet of निर्ऋति) ३८२, ४८९.
 ग्राह्य fit to be accepted; what can be or should be taken १६७९.

वा neck ३०, २४४, ३१४, ४३४, ६९, १३४०.
 षम summer; heat २३२, ८३, ३८४, ४५१,
 ५०८, २२, ७७६, ८३, १३३३, ४०, १६६४,
 ६६.
 षम belonging to summer ४५१.
 षव-मैत्रेय name of a teacher ११८, ७७१,
 ७२.
 (षा in the संहितापाठ) surely; verily;
 a particle of emphasis १७, ६६.
 षन compact १६६६.
 षिन्नत् constantly striking or chasing
 away ७२.
 षीम sweat; hot; heat; hot season; a boi-
 ler; cauldron; a hot beverage १०,
 २५, १६२, ९८, २१७, १८, ३४, ६६, ४११,
 २२, ३१, ३२, ३४, ३७.
 षीमसिद् sitting near the fire or living in
 the heat (of the sky) ३५९.
 षस grass; fodder; morsel ३८७, ४२५.
 षिणि glowing; shining १६४४.
 षिन् scorched by the heat of the sun
 १२६.
 षत ghee; melted or clarified butter ९,
 १०, २२, २४, २५, १६८, ६९, ८५, २२७, ५८,
 ५९, ७०, ९०, ३३९, ५२, ६४, ६७, ७४, ९२,
 ४००, १५, १९, २४, ३५, ७५, ५०८, १०४७,
 १३०१, ०९, १६०९, ३५, ३६, ४५, ६२, ६८.
 षतकौशिक name of a teacher १११४, १२६५.
 षतपावन् drinking ghee १६९.
 षतपृष्ठ butter-backed (epithet of *Agni*)
 २०६, ३९४.
 षतप्रतीका butter-faced (said of the flame
 of *Uṣas*) २३५.
 षतप्री loving butter or ghee; enjoying
 ghee ५०७.
 षतवत् possessed of or accompanied by
 ghee; rich in ghee १८२, २७३, ३३९.
 षतवती possessed of or accompanied by
 ghee; filled with ghee २५२, ४५८.

घृतवृद्ध growing by ghee; fostered or fed
 on ghee १६९.
 घृतश्चुत् dripping with ghee; sprinkling
 ghee १५७, ३९१.
 घृतहृदा (a lake) having a basin consis-
 ting of ghee ३७०.
 घृताची abounding in ghee; filled with
 ghee १६९.
 घृताहुत one to whom ghee is offered
 (said of *Agni*) १६८, ६९.
 घोर venerable; formidable; evil; danger-
 ous; violent; dreadful १५०, ३९५,
 ८१७, १६४१.
 घोरतर very formidable or fierce १६४१.
 घोष sound; din; tumult particular
 letters of the alphabet; the parti-
 cular effort required for uttering
 these letters १५१, ३४३, ४६, ४८१, ५१४,
 १९, ४७, ५४, ८२२, १२७६, १३३५, १६५५.
 घोषवत् requiring the *Ghoṣa* type of
 effort for uttering; sonant ७८६.
 घोषिणी sonant १३३, ४४९, १३४०.
 घोष्ट् a proclaimer ६१८, ८९.
 घंस् sunshine; brightness १७०.
 घ्राण the sense of smell; nose ५२२, ९८०,
 १५०८, १६४७, ६९.
 घ्रातव्य which can or should be smelt
 १५०८.
 घ्राति act of smelling; smelling १२१३.
 घ्रातु one who smells ६७०, १२१३, १५०८,
 १६५९, ६०.
 चकमान a source or cause of fear or
 danger (said of *मृत्यु*); longing for;
 desirous of ४१२, ३४१, ४७५.
 चक्रवत् who has done ६५८.
 चक्र a disc; a wheel; cycle; a circle
 १६८, ७३, ७५, ७६, २१०, ११, २८, ४९, ७१,
 ४४४, ७६, ८४७, १३३५, १६५५.
 चक्रक a wheel १६६२.
 चक्रवर्तिन् an emperor १६५३.

चक्षुः the eye २४४.

चक्षुःपीडन an eye-sore; troubling the eye
१५८८.

चक्षुरपेत bereft of the eye ६६४.

चक्षुर्मय consisting of eyes ३२०, ४०३, ०४,
६१०, १२, १४, ८७, ८८, १२२९, १३३७.

चक्षुश्चित् enlivened by the eye ३२०.

चक्षुष्टः through the eyes १२२४.

चक्षुष्पति the lord of the eye ६९९.

चक्षुष्मत् possessed of or having eyes
३२९, ६०, ४१२, १६४५.

चक्षुष्य beautiful to see ८०५.

चक्षुस् fame; eye; sight; look; for looking

or seeing १०, १३, १५, २५, ४१, ६३,
८७, ९३, ११६, १८, २९, ५३, ५७, ७०,
७१, ७२, ७३, ७७, ८५, २०२, ०३, ११, ३३,
४५, ४७, ४८, ४९, ६०, ७८, ९७, ३०७, ०८,
१२, १३, १४, १६, १७, २०, २१, २२, २८,
२९, ३०, ३१, ३६, ३९, ४७, ६०, ६४, ६९,
८०, ८१, ८८, ९९, ४०३, ०४, २६, ३०, ३५,
३६, ४९, ६०, ७०, ७२, ५०८, १०, १३, १५,
१६, १९, २०, २२, २९, ३३, ३४, ३५, ४०,
४१, ६१, ७५, ८१, ८३, ८४, ८५, ६००, १०,
१३, २१, २६, २७, ३८, ४०, ४१, ४२, ४३,
५१, ५२, ५३, ५५, ५९, ६५, ६६, ६७, ६८,
६९, ८०, ८३, ८४, ८८, ९०, ७०१, ३५, ५२,
७७, ८१, ८०४, १९, २०, २८, ३३, ५०, ५१,
५२, ५९, ७५, ८१, ९८०, ८१, ८७, १००४,
०८, २२, ४२, ६५, ७४, ८५, ९७, १११७, २३,
२५, ५३, ७१, ७२, ७४, ८४, १२४४, ६१, ८१,
८६, ८८, ८९, ९७, १३०२, ३२, ३४, ३७, ३९,
४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४८, ४९, ५०, ५२,
५३, ५४, ५५, ५६, ६३, ७०, ७१, ७३, ७४,
७६, ८६, ८७, १४३०, ३६, ३७, ५६, ७९, ९७,
९८, ९९, १५०१, ०८, ७३, १६१०, ३१, ३३,
४०, ४७, ४९, ५१, ५८, ६४, ६८, ८०, ८१.

चण्डाल (चाण्डाल) a man of the lowest
caste ८८२, १२१०.

चण्डालयोनि belonging to the *Cāṇḍāla*
caste ८६७.

चतुःशिखण्डा having four tufts or locks
of hair on the head २३५.

चतुःशिरस् having four heads १६८२.

चतुःशृङ्गा having four horns १६३६.

चतुरक्ष having four eyes ३५७.

चतुरक्षर having four syllables ३००, १६८२.

चतुरन्तर name of particular *Sāmāns* ४६९.

चतुर्कृच seers of four ऋक् verses (a group
of अङ्गिरसः) ३०५.

चतुर्गृहीत caught or hold of by four
persons ४०४.

चतुर्जाल four-fold (said of the sheath of
Brahman); having a fourfold
covering २६५, १६५५, ६३, ६६.

चतुर्थमात्र having a fourth मात्रा or instant
१६८२.

चतुर्भुज having four arms ३३६.

चतुर्भृष्टि having four extremities; ending
in four directions ३६३.

चतुर्मात्र having four syllabic instants or
parts ५२२.

चतुर्मुख having four mouths or faces
१३४.

चतुर्विंशतियोनि having twenty-four sources
or syllables (said of गायत्री) ११८.

चतुर्होतृ having four priests; name of
particular मन्त्रस २६७, ६८, ४४८.

चतुष्कपर्दी having four locks of hair (see
comm. it means चतुष्कोणा) २३५.

चतुष्कल having four digits or parts ८३२,
३३.

चतुष्पद् having four feet or parts; a
quadruped animal १२८, ३३, ४५, ६६,
७४, ९५, २१६, ३८१, ८४, ४८१, ५१९, ११११,
१५७४, १६०८.

चतुष्पदी having four words or feet or
parts १००, २२५, ३४८.

तुष्पाद् having four parts or feet; a quadruped animal १९, ९७, १७४, २४४, ५०, ४३२, ७७, ५०७, ८१९, १३३९, १५२१, १६८२.

तुष्पुत्र having four sons १३५०.

तुष्टोम a स्तोम consisting of four parts (identified with ब्रह्मन्) २५२.

तुल्लिंशदक्षरा having thirty-four syllables ३५.

तूरात्र four nights ४४७.

तृणस् delight; satisfaction; food ९९.

तृण the moon १३४, ७३, ९७, ३३०, ५१, ९९, ४१८, ५२, ८२, ८२७, ३३, ९८, ९८२, १००८, ५४, ६८, ११०६, १८, २५, ५२, ६८, १३००, ३२, ८७, १४२६, ६७, १६६१.

तृणतारक the moon and the stars ११५२, १४३२, १६२४.

तृणमस् the moon ३८, ४२, ४३, ७४, ११९, ५०, ५१, ५२, ७५, २०२, ०३, ३३, ४६, ४७, ४८, ५५, ६०, ६९, ९५, ९६, ३०५, २२, २४, ३०, ४०, ७९, ४०४, ०८, १०, २४, ४४, ५५, ७२, ७९, ५१९, २२, २४, ३५, ४०, ८१, ८३, ६१४, १६, २९, ४७, ४८, ५१, ७५, ८४, ८८, ९०, ९७, ७०१, ६०, ७३, ८४, ८०४, ३७, ४०, ५८, ६१, ६३, ८१, ९८, ९३५, १००८, ६०, ६२, ११९१, ९२, १२९६, १३३०, ३५, ३९, ४०, ४२, ४४, ४७, ४९, ५३, ५४, ५५, ५८, ५९, ६३, ६५, ६६, ६७, ७०, ८६, ८७, ८८, १४९१, १६००, ३०, ३४, ४८, ५१, ५२, ५८, ६५, ६६, ७४.

तृणलोक the world of the moon ११४५.

तृणदा delightful shining like the moon ४९९, ५००, ०१.

तृणमस a sacrificial vessel or cup १५०, ६४, २४९, ४०५, ६४२, ८५५, १०८१, १३०१.

तृणमसाध्वर्यु the priest who manages the drinking vessels ४६२, ७४.

तृण the great receptacle of all living beings (said of heaven and earth) २२१.

तृण्य a heap; collection ७६८.

चयन gathering; collecting; storing; heaping ३९८, १६५३.

चर movable, (as opp. to स्थावर) १५९८, १६२९.

चरक a wanderer ११२९.

चरण foot; action; wandering १५३, ३५५, ४२०, ८६, १६३३, ५३.

चरणि movable; active; a human being ५८.

चरत् moving; acting १२१, ७१.

चराचर the movable and the immovable २७३.

चरित action; practice १४९९.

चरित्र movement; going ४७६.

चरिष्णु moving constantly १०२, ३६५.

चरु an offering of boiled rice; an oblation ४३७, ७८, ६१८.

चर्कृत्य to be mentioned with praise; renowned ५८.

चर्च्यमाण moving constantly or incessantly ५६५.

चर्मन् skin; hide ७७, ३३२, ४०५, ३४, ६२१, ८९, ७०१, ८४८, ५५, १३०५, ६०, १६२६, ४७, ५३, ५६.

चर्षणि active ५७, ६७, १२१, ५६, ७०, ४१३.

चलत्व fickleness १६५६.

चलाचल movable and immovable २२८.

चाक्रायण patronymic of *Uṣasta* ७६७, ७०, ११३१, ३३.

चाक्षुष depending or produced from sight; relating to sight ६३३, ९८०, ११०६, १२२३, १४३०, १५०२, १६६८.

चाक्षु the observer of all १९२.

चाट a cheat; rogue १६६७.

चातुर्मास्य name of the three sacrifices performed at the beginning of the three seasons of four months ४४८, ७२, ५६१, १६५२.

चात्वाल a hole in the ground for constructing the उत्तरवेदि १३३१.

न्द्रमस belonging to the moon; lunar

५१२, १४९३.

गर agreeable; beautiful; pretty; bright

१३, १७०.

वकित् one who knows ५८.

वकित्वत् knowing; wise; one who has

known ७५, ७९, १७२, २०९, ३७, ३५४,
८८, ४१८.

वक्रेतत् has known or perceived or
observed १४.

वत् a particle implying emphasis or
indefiniteness sentience २२, ३१६,
१६७६.

वत् gained; collected; gathered; procu-
red ३०, ३२, ३३, ३५, ३६, ३७, ११९, २९२,
९७, ३९६, ९८.

वता a pyre; funeral pyre ४०५.

वति pile; stack; understanding; know-
ledge ११४, १३५७, ५८, ९४, १६६४.

वेत्त the mind; memory; intelligence;

heart ३१२, १४, ३५, ४५, ४३५, ५८, ८०,
८१, ५६१, ६६६, ९३१, ३२, १४०१, ८०,
१५०३, ०८, ७३, १६५१, ६२, ६४.

वेत्तमध्यस्थ residing in the heart or mind
१६६१.

वत्तवत् endowed with understanding;

possessed of thought or thinking
capacity ९३२.

वत्तात्मन् having thought as the soul ९३२.

वत्ति thinking; thought; understanding;

lisdon १७, २१८, ४५८.

वत्तैकाग्र्यन having thought as their only
or ultimate resort or source or
union-point ९३२.

चित्रदृशीक looking brilliant ६९.

चित्रनामन् of brilliant or conspicuous
name २९७.

चित्रभानु shining with light १७३.

चित्रभित्ति a painted wall; a picture on
wall १६५६.

चित्ररथ name of a semi divine being
१६४.

चित्रा bright; brilliant; shining ३५२.

चिदानन्द sentience and joy १६७३.

चिन्ता thought; care; anxiety; con-
sideration ५२४, १६५६.

चिन्त्य to be thought about or imagine
to be meditated upon १५७५, १६१
६१.

चिन्त्यमान being meditated upon or con-
sidered १४००.

चिन्मात्र consisting of pure thought
१६७६.

चिन्वान collecting; gathering ४६२.

चिरजीविका long life १३९३.

चिरलोकलोक one whose world is a long
existing world (the manes) ७२८.

चीर्ण practised; observed १४८८.

चूर्णहस्त having scented powder in the
hand ६३४.

चूल name of a man १३०४.

चेकितान knowing; wise २४, १२७.

चेतन animate; sentient २६४, १४३
१६५४.

चेतनवती (तनूः) intelligence १६५८.

चेतयितव्य to be perceived; to be know
object of perception १५०८.

Index of the important Sanskrit words

चेतोमुख whose mouth is thought १५२३.
 चेष्टद् moving ३२७.
 चैकितानेय patronymic of चैकितान १०१३,
 १३४१, ४८, ५०.
 चैकितायन patronymic of दाल्भ्य ७६४, ६५.
 चैतन्य consciousness; sensation; spirit
 १६६०, ६६.
 चैत्ररथ name of a particular *Sāman* ५२२.
 चैत्ररथि patronymic from चित्ररथ १३४१.
 चोद goad; whip ५०.
 चोदित् one who impels or animates;
 inspirer; impeller ४६, ६०, ३५०.
 चोर a thief १६४७.
 चोरभय the fear of a thief ४७९.
 च्यवान name of a ऋषि, a protege of
 अश्विनः ३६३.
 च्युत dropped; fallen ३३९.
 छन्दःपुरुष metre personified; the अक्षर-
 समाम्नाय conceived of as a man ६१३,
 ८८.
 छन्दतस् at will; at pleasure १३९७.
 छन्दषि the metre and the ऋषि १६४४.
 छन्दस् metre; vedas; vedic verse २५, २९,
 ३०, ३४, ३५, ३६, ३८, ११८, १९, ६१, ६२,
 ६४, २३२, ३५, ३६, ७७, ८१, ८३, ८४, ८६,
 ३६९, ४१६, ४६६, ४९, ९३, ५२२, २३, २४,
 ३७, ६५, ६६, ६०७, २३, ८६, ८९, ९५, ७५७,
 ९९७, १३३४, ३७, ५२, ५८, ६९, ८७, १४४५,
 १६०५, ३२, ३५, ४३, ४४, ७७.
 छन्दस्तः from the point of view of
 metre ५६३.
 छन्दस्त्व the state of a sacred hymn or
 of its metre ५३७, ७५७.
 छन्दस्वती possessed of will १६१.

छन्न covered १०६६.
 छाया shade; shadow; ima-
 १२६, ७०, ९५, ३०३, ६१६,
 १५००, ७४.
 छायापुरुष *Puruṣa* in the fo
 ६७७.
 छायामय consisting of sh
 ११७२.
 छिद्र hole; cavity १३३०, ३१
 छिन्न cut; torn ३३९.
 छुबुक the chin ४२, ३०७.
 जक्षत् eating; consuming
 जगच्छन्दस् one to whom th
 belongs; connected wi
 जगत् the world; movi
 composed in the जगती
 of a *Sāman*; the earth
 ९६, १००, २१, ३५, ३७, ५१
 १६, १७, ५८, ५९, ६७, ७०
 ६३, ४१६, २७, ९५, ५०७,
 ८८, १३१३, १४०२, ३४,
 १६०६, २५, २९, ३१, ४९, ५१
 जगतस्पति the lord of the
 १८२.
 जगती world; name of a Ve
 १६२, २७८, ८१, ८२, ८४,
 १३१३, ३५, ४६, ४७, ६८
 ४५, ६६, ७७, ८२.
 जगतीछन्दस् one to whom t
 belongs; one connect
 metre २८६.
 जगतीसहस्र a thousand जगती
 जगद्धित beneficial or bene
 world १६७८.

जग्धवाप्मन् whose sin is consumed or blotted out ४७३.

जघन the hinder portion or part; buttocks २८९, १३०३.

जघनार्धे the hinder part ९८७.

जघनेन (ind.) behind ७९०, ९१.

जघन्य the hindmost; last; lowest; worst १४२.

जघन्वस् who has killed or struck ३.

जङ्गम moving; locomotive २६३, ३३६, ४८६, ५२२, २४, ९४, १५७३.

जङ्घन्यमान being constantly struck १४५१.

जङ्घ्या the shank; leg २४४, ३०७, १४, ४३३, ५१३, १६४७.

जज्ञान being born; having been born; as soon as born ७१, १९७, २३६, ५८, ३५६, १५७४, १६३२.

जट wearing twisted locks of hair १६६७.

जटा twisted lock of hair; matted hair १६६५.

जठर belly १७३.

जडभरत name of a man simulating stupidity १६७१.

जतु a kind of small insect ३४०.

जत्रु the continuations of the vertebrae; collar-bones; and cartilages of the breast-bone ४३६.

जन people; a person; man; a land; region २, १८, ३८, ४१, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ५७, ६१, ६६, ६७, ९२, ९६, १२०, ३५, ४८, ६४, ६६, ७१, ७२, ८५, ८९, ९०, ९२, ९३, २३८, ४७, ५६, ६४, ६६, ६७, ७९, ८६, ३५४, ५६, ५८, ६८, ९०, ४१०, १६, १८, ८१, ८२, ८८, ५०९, २५, ६७४, ९५, ८७१, ७५, १००७, ६६, १२४०, ८७, १३१५, ३८, ९४, १४४०,

जनन generator; creator ७३.

जनपद a community; nation ८७३, ९५५, १०७४.

जन्मान creating; generating

जन्मयत् generating; producing ४४.

जनयितृ generator; father १३६

जनश्रुत-वारक्य name of a teacher

जनायन (a path) leading to n

जनि wife; woman २७९, ३५३.

जनित produced; created १८८

जनितृ generator; creator; father ६७, ७१, ७२, ९९, १०७, २१, ८२, ८६, ९७, ९९, २००, २

४४७, ४८, ८२९, १३४४, १६२०

जनित्र birth-place; home; country २०२, ३१७, ४८, ६१, ७२, ४२९

जनित्री a mother ४९, १२२, ५६,

जनित्र what is to be born of १६४, ६८६, १३४२.

जनिमन् birth; generation; genus; race १३, ६५, ६९, ८७४, ९८, ५९१.

जनिष्ठ the best generator or creator

जनिष्यमाण to be produced १६८

जनुस् birth; descent ६७, ७८,

जन्तु child; off-spring; a creature ६०, १४०६, ३६, १५९९, १६३५

जन्मन् birth; production; origin ९३, २७४, ८९, ९०, ४८३, ५८

१६१५, ७६, ७९.

जन्मनिरोध exemption from birth

जन्ममृत्युप्रहाणि cessation of death १५८२.

जन्मान्तरकर्मयोग connection w

दग्नि name of a ऋषि २६२, १०८२, १३५६, ६८.

दन्त tooth; tusk; a grinder १४९, ३७९.

दय victory; success ७८०.

दयक-लौहिल्य name of a teacher १३६८.

दयन्त-पाराशर्य name of a teacher १३६७.

दयन्त-वारक्य name of a teacher १३६७, ७२.

दय्य which can be conquered १०५७.

दय्यत singing; praising २४९, ३३२, ४८३.

दय्यते a singer; one who sings a praise or prayer ५९, ८६, १८६, ३६३, ५२५.

दय्यत्र a prayer; song; hymn १२२, २७, ४६.

दय्यति attaining great age; very old; longevity ३८०, ५०८.

दय्यमाण praying; singing १८.

दय्यरा old age २१०, ४५, ३११, ५४, ७४, ७५,

८२, ४४४, ७९, ९६, ९५५, ६३, ११३६,

१२२१, १३९१, १४५१, १५८९, १६४५, ५३,

५६, ६०, ७९.

दय्यरम्य continuing throughout life till death १६५२.

दय्यरायु the outer membrane ८२१, १३०९.

दय्यरिमन् old age ३६४, ९०.

दय्यराल water ३०७, १६८०.

दय्यरालपवित्र a strainer for purifying water १६७१.

दय्यरालाश्रय a pond १५८८.

दय्यरालाष appealing; healing १२६, ४९७.

दय्यरालिपित spoken; talk १८०.

दय्यरालितल्प्य who is talked about १८७.

दय्यरालव speed २४५, ५१३.

दय्यरालवस् speed; swiftness ६५.

दय्यरालविष्ठ very swift ३३५, ४६८, १५७३.

दय्यरालवीयस् more speedy; very speedy or swift ३३५.

जागरितदेश the waking state १२०२.

जागरितस्थान having the wakeful state for its substratum १५२१.

जागरितान्त state of wakefulness १४२१.

जागरूक wakeful; watchful १२४.

जागृवस् who is awakened ८७.

जागृव् watchful; attentive २६०, ३७४, ४८२.

जाग्रत् waking, wakeful १४०, ३३४, ५०६, ६४४, १२०२, ०७, १३०५, १५७३, १६४७, ७५, ७६.

जाठर belonging to or being in the belly or the womb १६६४.

जात sprung; born; generated; created ४४, ४५, ४८, ४९, ५८, ५९, ६२, ८३, ८६, ९९, १००, २४, ६४, ७८, ९४, ९७, ९९, २००, २२, ५८६, ६८६, ८७, ९९५, १०४१, ११७५, ७९, १३०९, ३९, ४२, १४२२, १५७९, १६०१, ३०, ३१, ४२, ४६, ७९, ८०.

जातपुत्र one to whom a son is born ६४.

जातरूप beautiful; brilliant; golden १३०९, १६८०.

जातविद्या (words) conveying the idea of what is to be done ४९२.

जातवेदस् fire; the Vedic deity अग्नि ३, ११, २१, २४, ८६, १००, ०१, ६८, ७१, २५३, ३३६, ४२, ५९, ६०, ६९, ७५, ७९, ८२, ९२, ९६, ९८, ४०४, १३, ८७, ८८, ९९, ५०१, १३०१, ८०, १४२३, ९२, १५७३, १६३१, ३४७, ५९.

जाति prosperity ४१५.

जातूकर्ण्य name of a teacher ६८९, १११२, १२६५.

जातूष्ठिर ever solid; never yielding ५९.

जातूष्ठिर name of a person ५९.

जानश्रुत-वारक्य name of a teacher १३६७.

जानश्रुति patronymic from जनश्रुत ८२२, ८४.

जानश्रुतेय-काण्ड्विय name of a teacher १३६७.

जातु the knee २४४, ३१४, ३१, ६४२.

जाबाल metronymic of महाशाल; metro-
nymic of सलकाम ४०, ३२९, ३१, ८३०,
३४, ५४, ११८५.

जाबाल-प्राचीनशालि name of a teacher १३५७.

जाबालायन name of a teacher १२६५.

जामि relative; brother; sister; (comm.
takes it to mean जाया or भार्या in जामि-
शंस) ६९, १२२, २४, ३०५, ७३, १६४३.

जामिशंस curse pronounced by a relative
(M. W.); the praise of (i. e. uttered
by) a wife (comm.) ४८७.

जायन्तीपुत्र name of a teacher १३१०.

जायमान being born; spring up ९१, २०८.

जाया wife १०५, १५, ३०३, ०७, १०, ७४, ४८३,
८४, ८५, ९०, ६०८, ३०, ४९, ६८६, ७६७,
६९, ८२७, ३५, १०४२, ९२, १२६०, १३०७,
०८, १६६८.

जार a paramour; a lover; a confidenti-
al friend १३०७.

जारज viviparous ५९४.

जारत्कारव patronymic from जरत्कारु ६८७,
११२१, २६.

जारिणी an unchaste woman ४८४.

जाल a net; a cob-web १६१३, ६३.

जालक a net ११८७.

जालवान् cunning; deceptive १५९२.

जारपति the head of a family १२२.

जिगीर्षा desire to swallow १६५६.

जिघत्सु hungry; desirous of eating ३८४.

जिघांसत् desiring to kill or strike १३९.

जिघ्रत् smelling १२१३.

जिज्ञासितव्य to be investigated, cogn-

जिति gaining; obtaining
१३३०, ३४, ६१.

जित्वन् victorious ११८२.

जिन्वत् urging; impelling

जिर्वि old ३७८.

जिष्णु victorious; triumph
४९७, ६७६, १०६९.

जिह्व transverse; squinted

जिह्वशिरस् oblique-headed

जिह्वायन्ती turning off f
way; going wrong

जिह्वा tongue; flame; t
८, २४, १२९, ३१, २४४, ४
८१, ४०९, ३४, ३५, ४०
६९, ८९, ९४, ९५, ८५

१२६१, १४५०, १६३५, ३६

जिह्वाग्रदेश the tip of the t

जिह्वावत्-बाध्योग name of a

जीमूत a cloud ४२४, १३३३

जीरदानु dropping or sp
dantly १२३, ३९०.

जीर्ण old; decrepit; worn
१६०१.

जीर्यत् wearing out १३९७.

जीव life; a living being
२१९, ६४, ३१७, ५३, ७
५०५, ८९३, ९६, ९१८,
१६१५, २९, ६१, ७५.

जीवधन the highest living

जीवज born from a living

जीवत् living ३८६, ४०३, ९

जीवधन्य rich in vital p
comm.) २००.

जीवन life; duration of
living ११९, ३३९, ७६७

Index of the important Sanskrit words

वलोक the world of living beings ३८९,

४०१, १६७५.

वसे to live १३४, ३२४, ८६, ९१, ४९४.

वाक्षर the syllable अ (so called because it signifies जीव i. e. the प्राण) ५७५.

वातु life; life-giving medicine or herb १८२, ३६४, ६६, ७८, ८२, ४७९, १३६८.

वापेत dead; abandoned by life ९१९.

वाहन् name of the महाव्रत sacrifice ५७५.

वेष्यत् desiring to live ३२९.

वित life; duration of life ९६, १०९१, १२६०, १३९७.

माण longing; liking; enjoying २१, १६०१, ३५, ४५.

माण taking; pleasureing; enjoying १८२, ३३९, ४९, ४१९, २७.

ए enjoyed; liked; accepted १००, २३८, ३३६, १४७१, १५७४, ७९, १६०५, ४५.

एतम most liked; most delighted ४३०.

ए enjoyment; pleasure २३४.

रण keeping away १२८४, १३२८.

रा a sacrificial ladle ३९३, ९४, ४०५, ८१३.

रात् invoking २०२, ०३, ४६५, १६४३.

रा name given to the sky १५२, ५३.

रा speed; velocity; energy ८३, १७१, ५९३.

रामन् possessed of force or speed; mighty; powerful; intrepid ५०९.

रा winner; conqueror ११५६.

रात् desirous of winning; about to win ९७४.

रामान gaping; pervading; going gradu-

ज्ञात known; perceived ४७०.

ज्ञाति kinsmen ४१९, ७७, ६३५, ९२३, ७९.

ज्ञातिक a kinsmen; relative १३५७.

ज्ञातृ knower; perceiver ९६४, १४००, १६

ज्ञान knowledge; the sense-organ; p
ception ३३६, ५२२, ७०६, १४१६,
१६१२, ६३, ६४, ६९, ७६, ७९, ८३.

ज्ञानतृप्त satisfied with knowledge १४८३

ज्ञाननिर्मथनाभ्यास repeated practice of t
churning (of the fire) of knowled
१६७५.

ज्ञानप्रसाद the peace of knowledge; cle
knowledge १४७९.

ज्ञानबलक्रिया the working of intelligen
and strength १६२०.

ज्ञानमय consisting of knowledge ५३
१४४८.

ज्ञानवत् possessed of knowledge ९३३.

ज्ञानविधूतपाप्मन् whose sins are shaken o
or destroyed by knowledge ६९२.

ज्ञानसंतति continuity of knowledge १५

ज्ञानोपसर्ग hindrance to knowledge १६

ज्ञेय what is to be known; to be inqu
ed about or investigated or perc
ved ५२२, १५७३, ८३, १६५८.

ज्या string of a bow ६६, १३६, ५०३, १६

ज्यायस् elder; greater; superior १
५४, ३०२, ८११, १०००, १३३९, १४
१५९५, १६३६.

ज्येय most excellent; best १३८५.

ज्येष्ठ most excellent; best; first; great

७९, १४२, ५४, ७७, ९९, २३६, ४७, ४८,

५०, ५१, ५८, ५९, ८१, ३०८, ३१, ४२२,

५०, ५२३, ९८, ७१४, १७, ९९, ८४९,

ज्येष्ठब्राह्मण having the oldest *Brāhmaṇa*
१३८६.

ज्येष्ठयज्ञ the most ancient or the oldest
sacrifice (said of the अग्निष्टोम sacri-
fice) २८१.

ज्येष्ठराज् a sovereign ६७, १८८.

ज्येष्ठवर a chief wooer ३०७.

ज्यैष्ठ्य superiority; precedence ३३१, ८५४.

ज्योक् long; for a long time or while,
(brightly or with bright fame acc.
to comm.) १५५, ३६४, ५१५, २०, ७८१,
८२, ८३, ८४, ८३७, १६४५.

ज्योक्तमाम् for the longest time; longest
५१७.

ज्योतिर्मय consisting of light or lustre
१४७७.

ज्योतिष्कृत् the maker or giver of light १७१.

ज्योतिष्टोम name of a particular sacrifice
४७२.

ज्योतिष्त्व luminousness २८५.

ज्योतिष्मत् luminous; brilliant, celestial;
the third foot of *Brahmā* १७२, ८८,
३५५, ९६, ४२०, ७४, ८३३, १३४३.

ज्योतिष्मती possessed of lustre or flame
(said of the समिध्) २४.

ज्योतिस् light; brightness; light as the
divine principle of life; heaven;
heavenly body; a luminary २, ११,
१४, १५, २४, २५, ३७, ५२, ५५, ५६, ५९,
६१, ६२, ६७, ६८, ७१, ७३, ११०, १९, २०,
२१, ५०, ६८, ७१, ७२, ७३, ८८, ९९, २०१,
४३, ४५, ४८, ५३, ५६, ६१, ७१, ८२, ८५,
८८, ३१७, २२, ३१, ३४, ३६, ४७, ५५, ६१,
६८, ७८, ८०, ९१, ४००, ०४, १४, ३५, ९७,
५०७, १०, १८, २१, २२, २३, २४, ४०, ५७,

४३, ४४, ४७, ४८, ५१, ५४,
६२, ६५, ७५, ७७, ७८, ८१.

ज्योतीरूप light-form १०५४.

ज्योत्स्ना moon-light २८९.

ज्वल a name of god *Śiva*

ज्वलत् burning; flaming ३

ज्वलन fire १३४.

ज्वलन्ती burning; flaming ५

ज्वललिङ्ग a name of god *Śiva*

ज्वालायान name of a teacher

टीत्र a particular स्तोम in

Sāman १३५६.

णकार the letter or sound ण

ण्य name of an ocean in t
६६.

तकमन् name of a disease
३२४.

तक्रवी a bird; a bird of pre

तक्षक-वैशालेय name of a se
(or young one) of विरा

तक्षती cutting; carving; fa

तक्षन् a cutter; a carpenter

तज्जलान् name of *Brahman*

springs every thing;

merges and through v

thes or lives) ८०७.

तडिन् lightning १६०१.

तलितः near; in the vicini

तण्डुल rice (after the
winnowing) ४३६.

तत् the name of the महत्

मात्मन्); name of the महत्

from the पुराणवेद (i. e. t

३०५, ५२२.

anything; in truth; accurately
१४५३.

त्त्वब्रह्ममार्ग the path leading to the real or
accurate (perception) of *Brahman*
१६७१.

त्त्वभाव existing or entering in to his
being १४३७, १५८१.

त्त्ववित् knowing the true nature of
१६५३.

पुरुष that *Purusa* (i. e. the highest
being or od *Viṣṇu*) १६३२.

झावगत directed to the essence of that
१४६०.

द्विद knowing that; one who knows
that ६३०.

नय a son; an offspring २५, १२७, ४६,
५६, ८२, ९१, १५७४, १६११, ३४.

नीयस् very small; very slender or
little ४६४.

तु body; thin; slender; little; small १५,
६१, १४६, ८९, २७५, ३५४, ५७, ६०, ७७,
८६, ८९, ४१४, १५, १३३३, ४३, ६८, १६१६,
३४, ४६, ५७.

तन्वा) तना (च) in uninterrupted succes-
sion; continually ३५४.

तन् body २१, २४, २५, ५२, ७९, ९१, १३३,
३४, ४५, ५५, ५७, ६१, ६९, ७१, ७२, ७३, ७५,
८५, २८९, ९०, ३२४, ४०, ४२, ६०, ६१, ६२,
६४, ६८, ८३, ८८, ९०, ९५, ४०५, ७८, ८४,
९०, ९६, ५०२, ०३, ०७, ०८, २५, ६७, १४०८,
८२, ९९, १५९४, १६४९, ५८, ५९, ६०.

तनूयज् one who abandons the body; one
who dies ३६७.

तनूपा one who protects the body १०१.

तनूरुच् illuminating the bodies; poss-
essed of a glowing body ७.

तन्तस्यमान being constuntly decorated
१३३३.

any one propagating his family in
regular succession; an off-shoot; of
spring १४, ७५, १०९, १९, ६७, ७०, ७१,
२०८, ४५, ४८, ५८, ७०, ७६, ३६२, ७१,
४५१, १०७७, १६२१, ३१, ५१, ६२.

तन्तुनाभ a spider १६२१.

तन्त्र tilling activity; a piece of clot
(being woven) २४८, ४९२.

तन्त्रि (तन्त्री) the string of a lute ६२१, ८९.

तन्द्दी weariness; lassitude २४५, ३१,
१६५६, ६३.

तन्द्दीराधवेत्त्रि having lassitude; drunken-
ness and impurity as one's sta-
१६६३.

तन्वान stretching forth; making; cre-
ating; performing २३३, ४६३.

तन्वी slender; small; minute १६४०.

तपःप्रभाव the prowess or effect of auster-
ties १६२६.

तपत् shining; suffering from a disease
ill २६८, ४०३.

तपनी the bright weapon (of बृहस्पतिः) १९

तपस् heat; penance; austerity २३, २६, ३१,
११९, ५०, ५९, ६१, ६४, ६८, ७१, ७४, ७५,
२४१, ४६, ४७, ४८, ६७, ७१, ७६, ७९, ८०,
८६, ८९, ९०, ९२, ९५, ९६, ९७, ३०५, ३०६,
०७, ०८, १९, २०, २१, २८, ३६, ४०,
४९, ५१, ६०, ६७, ६९, ७५, ९९, ४००, ४०१,
२२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, ३२, ३३,
४६, ४८, ५०, ६१, ६२, ७०, ५००, ०६, ०७,
१६, २०, २१, २२, ६३१, ९१, ७०२, २०, ३०,
३७, ३८, ८६, ८१६, ९९८, १०४६, १२४७, १२४८,
१३००, ३२, ३३, ४४, ५०, ५५, ५९, ६१, ६२,
७२, ८४, ८६, ८७, १४०४, १०, २२, ४७, ४८,
५२, ५८, ५९, ७७, ७९, ८२, ९०, ९१, ९२,
१५११, १६, ८४, १६३३, ३४, ३५, ४४, ४५,
५०, ५१, ५३, ५६, ५८, ६५, ८०, ८१.

तपस्विन् possessed of lustre; austerities;
heat ३८, १७१, १६५६.

तपिष्ठ sharp weapon १६४३.

तपुषी burning २५२.

तपुस् burning; hot; an enemy १६४३.

तपोज springing from heat or penance
२४३, ३६७.

तपोनिस्व devoting one's self incessantly
to religious austerities; name of a
teacher ७०२.

तप्त heated; hot २९५, ९६, ३०३, ०४, ०५,
८३५, ९२४, ९४, ९८.

तप्तोर्वि a heated caldron १६६२.

तप्तोर्विसर्पिस् Ghee in a heated caldron
१६६२.

तप्यतु hot (sun) १९२.

तप्यमाना shining; burning २९७, ४२६,
८४८.

तमस् darkness; ignorance; one of the
three गुण of प्रकृति १४, १६, ५२, १००, ०२,
६९, ७१, ७२, ८८, ९१, २४१, ४८, ५४, ७३,
७६, ८५, ९९, ३३५, ३९, ४०, ५३, ७८, ७९,
८०, ८२, ८५, ५१८, ६१६, ८८, ७५४, ८१७,
१०१४, ११५२, ७१, १२४८, १३१५, २१, २३,
५७, १४६२, १५७३, ९४, १६०९, ३०, ५४,
५७, ६२, ६३, ७०, ७३, ७९, ८१.

तमसस्पर the further shore of darkness
९५०.

तमिस्रा a dark night २८९.

तमोभिभूत overpowered by तमस् १६७५.

तमोदक्षण characterized by or of the
nature of तमस् १६६२.

तरण crossing २७७.

तरणि the sun १०३, ७१, ७२.

तरस strength; power १६३४

तर्पयन्ती pleasing; gratifying of
४९९.

तर्थाभिघातिन् destroying (one
troys) the saving raft १९

तल्प couch; bed; sofa १६९.

तल्प्य lying on a bed (said
१४४.

तवस् strong; courageous ९२,

तविष strong; energetic ५६, १

तविषीयत् acting violently o
ously ७८.

तवीयस् stronger than the st
strong or powerful ९२, ३

तव्यस् very strong ४७६, १६४३

तट्ट carved out; fashioned.
४९१.

तसर a shuttle २४८.

तस्कर a thief १३९, ४८६, १६६७.

तस्तभाना supporting; standing
२५६.

तस्थिवस् stationary; standing
stood or remained १६, ९

४९५, ५५५, ६१४, ८८, ७९.

ताण्डबिन्द name of a teacher

तात my boy (a term of en
१२९३.

तापयिष्णु troublesome; inflict
distress. ४८४.

तापस an ascetic १२१०.

तामस pertaining to the qua
१६५६, ५७.

ताम्र coppery red colour; c
the ruddy one १३५, ४३, १

ताम्रधूम्र reddish dark २४५.

ताय a thief ७९, १७१

आरका constellation; star २८७, ३७३, ११५२, १४६७.

आश्वर्य a mythical being described as a horse with the epithet अरिष्टनेमि ४९५, ६०५, ८६, १६३२.

आप्य a garment made of a particular vegetable substance ३९७.

आलु palate १६६१.

आलु the artery of the palate ६९९.

आलुरसनाग्रनिपीडन pressing the tip of the tongue against the palate १६६१.

आल्वन्तर्विच्छिन्ना piercing through the palate १६६१.

आगम sharp; pointed १६८, ७२.

आगमतेजस् of a violent character; of bright lustre ५१२.

आगमशुङ्ग sharp-horned १६९.

आगमहेति having sharp weapons १६४३.

आगमेषु having sharp arrows ३४३.

आतत a sieve; cribble ४९०.

आतिक्षु bearing; enduring patient; patient ५०९, ६९१, १२५५.

आतीर्षत् cross over १४११.

आतिविक्षाण exciting; instigating; urging on ६२.

आतिश्री oblique; stanting; low ९३५, १३०१.

आतिश्रीन see तिरश्ची २४२, ७६, ६३६.

आतिश्रीनवंश a bee-hive ७९२.

आतिश्रु invisible; imperceptible ५६९.

आतिरोधा concealment; secrecy १६४.

आतिरोहित concealed; hidden; removed from sight १०१४.

आतिश्रुबल having its opening on the side २४९.

आतिश्रुच oblique; transverse; low; obliquely

तिलवस्त्रा having sesamum seeds for children ३९७.

तिलौदन a sesamum dish १३०८.

तिष्ठत् standing १४०, ३२४, ४०.

तिष्ठमान standing ११७९.

तीक्ष्णदंष्ट्र having sharp teeth or tusks १६३२.

तीक्ष्णेषु having sharp arrows १४२.

तीर a bank; a shore १०८१, १३३७.

तीर्ण who has crossed; what is crossed १२१०.

तीर्थ passage; way; road; the right place or moment १४८, २३६, ३९४, ९८१, १२९४, १६३३, ७९, ८१.

तीर्थ्य relating to a sacred place १४३.

तीव्र sharp; strong; intense २४५, ७५.

तुच्छव्य emptiness; void २४१, ७६.

तुर quick; swift; strong; name of teacher ५५, ७९, ८३, १३११.

तुरगतु going quickly २१९, ३५३.

तुरम् (ind.) quickly ९८, ३३१, ८५५.

तुरया going quickly ४१८.

तुरीय the fourth state of the spirit; fourth part १२८१, ८३, १३३२, ४१६८२.

तुर्य the fourth (state of the soul) १६६८.

तुर्याख्य known as तुर्य १६६१.

तुर्वाति name of a man ५१.

तुर्विकूर्मि very active ५७.

तुर्विभ्रा ruling powerfully १६५.

तुर्विभ्रत powerful ४७, ८२, १३३७, ३८.

तुष chaff ४३६, ७३.

तुष्ट contented १३९३.

तूल a tuft of grass or reeds; panicle of a flower or plant ५४१.

तृहती crushing १४०.

तृच a strophe consisting of three verses ३०५, १३४६, ४७.

तृचाशीति name of particular groups of verses from the *R̥gveda* ५६३.

तृण grass; herb; blade of grass २२४, ४३४, ४९, ६४, ६५४, ९०३, २९, ३३, ३५, १०४१, १२२७, १३८१, १६५३, ६२.

तृणकूट a heap of grass १६७१.

तृणजलयुक्ता a cater-pillar १२२७.

तृणवत् name of a *Stoma* ५२२.

तृणाद् graminivorous १०४७.

तृणोदक grass and water ७८५.

तृतीयसवन the third *Soma* preparation ४६९, ७०, ७९०, ९१, ८१५, १३३४, ४१, ६८.

तृपलप्रभमर्मन् striking hastily or impetuously १६३२.

तृप्त contented; satisfied २५, २५१, ४७२, ७३, ९९, १३०१, ३४, ३६, १६६२, ६६.

तृप्ति contentment; satisfaction १५४, ५५, ३५५, ७४०, ८८१, ९३५, १३६३.

तृष्टदंशमन् biting roughly ५०९.

तृष्णा thirst; greed; avarice ३११, ४६३, १६५६, ८०.

तृष्णेष्याकुण्डलिन् having thirst and jealousy for ear-rings १६६३.

तृष्णी greedy; eagerly desirous १६४३.

तेजस् lustre; brilliance; light; heat; spirit १६८, ६९, ७३, ७५, ७७, २०४, ६५, ७०, ३१४, १५, ३९, ५१, ६७, ४०६, १९, ५९, ६२, ६३, ६६, ९३, ५२२, ८९, ६३७, ४५, ५०, ५१,

तेजस्वत् bright; spirited ९३५.

तेजस्वितम most brilliant
तेजस्विन् bright; brilliant ९३५, १०६८, १३४३.

तेजिष्ठा very hot; very bright
तेजोमण्डल the disc or halo
तेजोमय consisting of splendour
shining; brilliant; clear ११०३, ०५, ०६, ०७, ०८,

तेजोमात्रा element of heat
तेजोरस heat and essence
तेजोवृष possessed of splendour १६६४.

तेजोहर remover of lustre
तेजान् practising persistence
bright १५०, २८८, ९२,
तेजस the soul in the disc
tion; immortal person
heat; the shining orb १५२२, २८.

तैल oil १५८४.

तोक off-spring; child ५६, ५२४, १५७४, १६११,

तोय water १६२९.

त्यक्त abandoned १३१३.

त्यज्य the recitation of the
त्यद् that १२६, ७२०, १०८२
त्याग abandonment; renunciation ७३.

त्रयु tin ४३६, ८४८, १३६०.

त्रयत्रिसादक्षरा consisting of three syllables ३५.

त्रयी triad; consisting

ण protection १६५.
 त् protector; saviour १०.
 यमाण protecting ३७९, ८१, ४९८.
 शदक्षरा consisting of thirty syllables
 ३५०.
 क triad; a group of three ३६५, १६५६.
 कद्रुक the three *Soma* vessels ४१६.
 कर्मकृत् performing three chief duties
 १३९३.
 काल the three times or tenses १६१८.
 काल्यतीत beyond or not circumscribed
 by the three tenses or times १५२०.
 गुण containing the three *Gunās* or
 qualities १६१४, ५९.
 गुणभेदपरिणाम the result of the diversity
 of the three *Gunās* १६६०.
 चित्त consisting of three layers of fuel
 ३२८.
 षण्त्र consisting of 3×9 parts २५, ४६९,
 १३५६, १६६६.
 षण्चिकेतस् one who has thrice kindled
 the *Nāciketa* fire or studied the
Nāciketa section of the *Kāthopani-*
śad १३९३, ९४, १४१०.
 षत name of a vedic deity ६८, ८३, ४२८,
 ८९.
 षदण्ड the three staves of a परिव्राजक १६७१.
 षदिव the third or most sacred heaven;
 heaven ३५५, ४३५, १५००.
 षधातु triple consisting of three parts
 १०, १८, ७६, ८९, १३८६.
 षननाक heaven; the third or the highest
 heaven ३५५.
 षेनाभि three-naved (wheel) १७३, २०७,
 ७१.
 षेत्रेन्द्र having three eyes; (epithet of
 god *Śiva*) ३३६.
 षेपद having three feet; three-footed

१६४४.
 त्रिपाद् having three feet; three-footed
 १७१, ७४, २३०, ३१, ४७७, १६६८.
 त्रिपुत्र having three sons १३५०.
 त्रिप्रतिष्ठित having a threefold footing
 २४५.
 त्रिमात्र having three parts or मात्राs १५११.
 त्रिमार्गभेद having three different paths
 १५७७.
 त्रियम्बक the three-eyed i. e. god *Śiva*
 १५७४.
 त्रिरात्र three nights or days ३३१.
 त्रिरात्रोपोषित who had fasted for three
 days ५२२.
 त्रिरुन्नत having three parts of the body
 stretched upward १५८७.
 त्रिलोचन the three-eyed god i. e. *Śiva*
 १६७३.
 त्रिवरूथ protecting in three ways ७३, ८४,
 ९६, १६५, ३३९.
 त्रिवर्त्मन् going by three paths १६१४.
 त्रिविष्टप heaven ५०९, १३६१.
 त्रिवृत् threefold; triple; consisting of
 three parts २५, १६२, २३४, ५०, ८१,
 ८२, ८३, ८६, ९४, ९६, ३०५, ४००, ६०,
 ६८, ५२२, ३५, ८९६, ९९, ९०९, १३३७, ३९,
 ५६, १५७७, १६६६.
 त्रिवृद्रूप threefold or triple form १३३७.
 त्रिवेद-कृष्णरात-लौहित्य name of a teacher
 १३६७.
 त्रिशङ्कु name of a king of *Ayodhyā* ७०.
 त्रिशीर्षन् three-headed ६५७.
 त्रिष्टुप्छन्दस् the metre त्रिष्टुम् २८६, ४६९.
 त्रिष्टुप्सहस्र a thousand त्रिष्टुम् ५६५.
 त्रिष्टुम् name of a Vedic metre; name of
 two particular *Sāmāns* ३०, १६२, २७,
 ८१, ८२, ८३, ८६, ३२७, ४१६, ५३७, ६,
 ८१५, १३३५, ४६, ४७, ५६, ६८, १६६६, ७

त्रिसुपर्ण name of R.V. X. 114. 3-5. १६४४,
४५.

त्रिसूत्र having three threads १६६५.

त्रीष्टक furnished with three bricks ११७.

त्रेता the three Vedas १४४८.

त्रेषा in three ways or parts; triply ३१,
८५.

त्रैघातवीया name of a closing ceremony
१६७०.

त्रैलोक्य the three worlds ३३६.

त्रैवणि name of a teacher १११४, १२६५.

त्रैष्टुभ relating to or composed in the
त्रिष्टुभ् metre २५, २१५, १६, ५२२, २४,
८१५, १३६८.

त्रैस्वर्योदात्त three accents and the उदात्त
५२३.

त्र्यणुक a combination of three atoms;
anything formed of three त्र्यणुकः;
a trebled १६६८.

त्र्यनीक three-faced; triple-arrayed ९४.

त्र्यम्बक three-eyed god i. e. *Siva* ३३६,
१६४६.

त्र्यर having three fellies २४५.

त्र्यायुष threefold vital power; threefold
period of life i. e. childhood, youth
and oldage १३६८.

त्र्यावृत्त consisting of three series १३५८.

त्वं one; several ४९०, ९१, ९२.

त्वक्षस् energy; vigour ४५, ६६.

त्वक्षीयस् bright; brilliant; strong १२६.

त्वच् skin; hide; bark; surface ३६, १२९,
५९, ९४, ३०६, १५, ५९, ४६६, ५३७, ८१,
८३, ८५, ७०१, ८३, ८८१, १०९६, ११२३, ५३,
७८, १२६१, १३७०, ८७, १५०८, ११, १६४७.

त्वत् partly ३९९

hymns ६, ५४, ६०, ७६
८२, २३७, ५३, ६८, ३०९
७४, ९७, १३०९.

त्वानत् similar to thee; w
४४.

त्वाद् belonging to or con
name of a teacher ६
१२६६.

त्विष् vigour; light; lustr
mence ३१४, ५०७, ४६१,

त्विषित violently agitate
३४३.

त्विषीमत् vehement; brilli
१३७, ५०९.

त्वेष brilliant; vehemen
strong १०, ९२, १२६, २७

त्वेषन्मृग्न of brilliant power

थम् the latter syllable of
mystically identified

tions; the last syllab
उद्गीथम्, mystically id

अन्न, पृथ्वी, अग्नि and ऋग्वेद
दंश a gnat; a small in

१६५३,

दंष्ट्र a fang; a tooth ४९.

दंसस् a marvellous feat १

दक्ष thought; will; consi
of the vital airs; stre

a Vedic deity २, १८, २
९६, १६०, ९६, २७४, ७५,
९४.

दक्ष-कालायनि-आत्रेय name
१३६७, ७२.

दत्तजयन्त-कौटिल्य name of a

१०८५, ११८७, ८८, १२७३, ७४, १३००, ०९,
५५, ८६, १४९३, १६११, ५२, ६८.

दक्षिणतस् to the right; in the southern
direction ३०५, ४३, ९६, ९४६, ४७, १११९,
१३३०, ४६, ५१, ५५, ६१, १४६८, १६६१,
६६, ७९.

दक्षिणपूर्वा the south-east ४११.

दक्षिणहस्त the right hand ४०५.

दक्षिणा south; fee; largess; fem. of
दक्षिण ३८, ११९, ४९, ५९, ७०, २१०,
३०३, ०५, ११, १८, ५२, ६८, ४३२, ३४, ४६,
५०, ५१, ५२, ५५, ७०, ७१, ७२, ७४, ७५,
९२, ५२२, ७९४, ८१३, १६, ३२, ६३, ९९४,
११७४, ८८, १३३५, ३७, ३८, ४८, ५८, ६०,
६९, १३८९, १४५७, ९२, १६५०, ५१, ७९.

दक्षिणाम्नि one of the three sacred fires
१६३, ३९५, ४५३, ७३, ८४८, १६५८, ६४,
७७, ८२.

दक्षिणाच् turning to the south or right;
southward १६७७.

दक्षिणाच्य flowing southward ३०४, ४७१.

दक्षिणापरा southwest ४११.

दक्षिणामुख facing the south ६१७.

दक्षिणायन the six months during which
the sun's course is to the south ३९५.

दक्षिणावत् having or affording gift or
दक्षिणा ३५२, ६६, ४७५.

दक्षिणावृत्त in the manner of a प्रदक्षिणा i. e.
going round a thing keeping it
always to one's right ६५५.

दक्षिणीय fit for दक्षिणा १६३.

दण्ड a staff; fine; punishment २५०, ४८६,
६८९, १३५४, १६०१, ६३.

दण्डोपानद् a staff and shoes १३६९.

दत्त given; imparted १२५, ३३३, ७४, ७६,

ददावत् one who has bestowed or given
८६.

ददृशिवस् who has perceived १३९१.

ददृह्यण being firm ६५.

दद्राण shattering; chasing way २३०.

दद्यान holding; bestowing ३४४.

दधि curds; coagulated milk ३३१, ७०
७१, ८५४, ९०२, १३०९, १५८४.

दध्यन् आथर्वण name of a sage ११०९, १०
१४, १२६६.

दध्योदन rice mixed with curds १३०८.

दन्त tooth; nail; tusk १२९, ३०७, ४२४, ४०
५१३, १६६५.

दन्तिन् having a tooth or tusk (epithe
of *Ganapati*) १३४.

दन्दशूक a gnat; a small insect १३००.

दन्दम्यमाण moving constantly through
various lives १३९९, १६६७.

दम self control; control of senses ५, ७
१८, ७०२, १२६९, १३८४, ८७, १६३५, ५०
५१.

दमितृ who controls (one's self) ६७.

दमूनस् fire १८.

दम्पति husband and wife १२, ९९, ३७५.

दया compassion १२६९.

दद्यांपाति name of a teacher २६.

दरिद्र poor; pauper १४५.

दरिद्रत् being poor; or reduced to poverty
१४५.

दर्भ sacred grass १३६७.

दर्वि a (sacrificial) ladle ४३७.

दर्शित sightworthy; agreeable to look at
८२, ८३, २२९, १२८१, ८३, १३६८.

दर्शितश्री of beautiful grandeur or glory

१८.

moon days of a month respectively
३००, ४७२, ५६१, १०४७, १६५१.
दलसंस्था the petals १६५८.
दवीयस् very far २४९.
दशतय of ten kinds; tenfold; consisting
of ten parts ३०४, ०५.
दशन् ten ५०.
दशपदी having ten pads or syllables १३८७.
दशपुत्र having ten sons १३५१.
दशयन्त्र having ten weapons or machi-
nes ६८, ३०७.
दशरात्र ten nights or days ४६९, ७१.
दशर्च having ten verses ३०४.
दशस्यत् honouring; worshipping ९२.
दशहोतृ requiring ten priests २६६.
दशाक्षरा having ten syllables ३५, ४७१.
दशाङ्गुल measuring ten finger-lengths
२३०, १५९७.
दस्म a wonder-worker; performer of
marvellous feats ६.
दस्यु a thief; an *Anārya* ३, ४७, ५०, ३३९,
४०, ५५.
दस्युहन् killer of दस्युs (epithet of इन्द्र) ३४२.
दस्म wonder-worker १११०.
दहर a little; to some extent; small;
little ९५२, ५४, १३७७, १६३६.
दह (prob=दहर) small; little १६३६.
दातृ giver १९, ६१, १२७, ८२, ३३८, ४३२,
३५, ३८, ११७९, १४९९, १६५०.
दान a gift; religious gift ५०, ५१, ४१६,
७८६, ८१६, १२४७, ६९, १३००, १६३५, ५०,
५१.
दानजित won by religious gifts ४०४.

दारु wood ३७३, ४०४, ६४,
१३५७, ६०.
दारुभूत wooden; turned
being wood ६५२.
दारुमय made of wood; wood
दारुभ्य-पाञ्चाल-केशी name of a t
दारुभ्य name of a teacher ६
४८.
दारुभ्य-वक्र name of a teac
७२, १३६९.
दावन् a gift ७.
दाश a fisherman; a fowler
दाशत् offering; giving १८.
दाश्वस् one who has given o
१२, ५९, ६४, १८३, ३५८, ४३
दास a slave; a name given
gins of India ४६, ६०,
३४१.
दासभार्य slaves and wives ९
दासवेश destruction of the D
दासी a maid; female slave
दासीनिष्क a female slave and
दास्य slavery; service १२५५
दिगन्तर another direction १
दिग्धविद्ध pierced or hurt b
(weapon; arrow) १३०६
दिति name of a deity (sa
mother of the असुरs) ४३
दिदासत् desirous of giving
दिधिषाण holding २३४.
दिव् sky; heaven; light २,
११, १३, १८, २०, २१, २
४१, ४४, ४५, ४९, ५०, ५
६०, ६३, ६५, ६७, ६८, ६९

५३, ५६, ५८, ६१, ६७, ७९, ८०, ८२, ८५,
८८, ९५, ९८, ९९, ३००, ०१, ०४, ३६, ४०,
५१, ५४, ५५, ६०, ६१, ६३, ६५, ६८, ७०,
७३, ७९, ८५, ९१, ९६, ४०४, ०८, १४, १६,
१७, १८, १९, २१, २२, २३, २८, २९, ३०,
३४, ३५, ३६, ३७, ४७, ४९, ५२, ५३, ५४,
५५, ७०, ७४, ७५, ७८, ८९, ९३, ९४, ९५,
९९, ५०७, ०९, १०, १४, १५, १९, २०, २१,
२२, २४, २९, ४०, ८१, ९७, ९९, ६००, ०१,
०६, १४, १६, २१, ५७, ८३, ८४, ८५, ८६,
८८, ८९, ९०, ९४, ७०१, ६०, ७४, ७५, ८३,
९२, ८०२, ०५, ११, १३, १४, २१, ३२, ३७,
४८, ८१, ९२९, ३२, ३३, ३५, ६५, ८७, ९४,
१०५४, ६०, ८०, ११५२, ५८, ६८, ६९, १२७९,
१३०३, ०९, ३०, ३१, ३४, ४०, ४२, ४३, ४४,
५६, ६०, ६३, ८६, ८७, १४२३, ४६, ६१, ९४,
९५, १५७३, ८६, ९५, १६२९, ३३, ३४, ३६,
४५, ४८, ४९, ५०, ५१, ५८, ६४, ७८, ८२.

देवत्व fitness for being termed दिव् २८५.

देवस्तम्भनी supporting or propping up
heaven १३३३.

देवस्वपति lord of heaven ६७.

देवा by day ४, १३१, ८७, २९०, ९९, ४४१,
८१, ८९, ५०४, १०, ७९९, १३४३, १६०९,
४६, ४८.

देवाकर the sun १७२.

देवानक्तम् day and night १६४८.

देवायतन having heaven as abode; sub-
sisting in heaven ६८४.

देविक्षय dwelling in or inhabitant of
heaven २७१.

देविक्षित् dwelling in heaven ७९१, १६६५.

देविचर moving in the sky or heaven
५११.

दिवोदास name of a protege of इन्द्र ६४.

दिव्य heavenly; celestial २२, २४, ७१, ११
३०, ३१, ३२, ७१, २०२, २७, २९, ६६, ३७
८३, ४०४, ८५, ९८, १३३३, ३९, ४३, ६
१४५४, ६३, ८६, १५७३, ८६, १६४१.

दिव्यलिङ्ग having celestial indicator
marks १६४१.

दिग् direction २०, १३०, ३२, ३७, ४९, ५
५९, ६०, ६२, ७०, ७२, ७५, ७८, २००, ०
३३, ४५, ४८, ५७, ६०, ६१, ९५, ३०३, ०
०५, ०६, १७, १८, २२, ३०, ३६, ४०, ९४, ९
४०४, ०७, ११, १७, ५०, ५१, ५३, ५४, ५
७०, ७१, ७२, ९२, ५१९, २२, २७, ३५, ३
४०, ४९, ८१, ८३, ६६६, ८०, ८४, ९०, ९
७०१, ५७, ८३, ८५, ८१३, १९, २०, ३०, ३
३७, ५९, ८१, ९०, ९०६, २१, ८७, ९४, १००
०८, ११०६, २५, ५२, ७१, ७३, ७४, ७५, ७
८४, ८५, ८८, १२९५, १३०३, ०९, ३०, ३
३५, ३६, ३८, ३९, ४०, ४२, ४४, ४९, ५३, ५
५५, ६०, ६२, ६९, ८६, १४५६, ९२, १५७
१६१३, २१, ३१, ३४, ५१, ५८, ६१, ७७, ८
८२.

दिष्ट appointed; pointed; fixed (place
८६१.

दिष्टि desting ४६१, १६५६.

दीक्षा initiation; a rite to be performed
at the commencement of a sacrifice
१६२, २७१, ३९९, ४००, ४६, ५५, ७३, ५०
६२६, २७, ८३, ८१६, ११७५, १४५७, १६५

दीक्षित initiated; who has undergone
दीक्षा १५०, ३३१, ४२२, ३५, ६२, ११७५.

दीक्षितवाच् the words to be uttered by a
initiated person ४८६.

दीक्षिन् who has got दीक्षा; initiated १३४

दीर्घ long ६८४, १६८२.
 दीर्घच्छतोदात्त long, छत्त and उदात्त ५२३.
 दीर्घयाथ long; extensive ५२.
 दीर्घश्रुत् far-famed २३४.
 दीर्घश्रुत्तम very or most far-famed ४११.
 दीव् gambling ७८.
 दुःख misery; sorrow; pain ६३८, ६९,
 १२४१, १५९६, १६२६, ६०, ८२.
 दुःखता state of misery; difficulty ९५०,
 १६६८.
 दुःखनिधना ending in sorrow; having
 sorrow at the end ४१२.
 दुःखित sorry; sorrowful ४७९.
 दुःष्वप्नहन् destroyer of evil dreams १६४४.
 दुःष्वप्त्रिय pertaining to evil dreams १६४५.
 दुःष्वप्त्र्य pertaining to evil dreams ९८,
 १७०, ३३९, ७३.
 दुःस्वप्ननाशिनी destroying evil dreams
 १६३२.
 दुग्ध milk; milked ७८, ४३५, ७८.
 दुग्धदोह milked for the last time ६१६,
 ८८, १३८९.
 दुच्छुना evil thought; wicked intention
 १८९, ५०९.
 दुधित torn; lattered; being in a misera-
 ble condition ५२.
 दुध्न impetuous ४८.
 दुन्दुभि a drum १४२, ५०८, १०९५, १२६१, ७६.
 दुन्दुभ्य sprining from or pertaining to a
 drum; deserving a drum १४२.
 दुन्दुभ्याघात a stroke on the drum; one
 who strikes the drum १०९५, १२६१.
 दुर door १९१.
 दुरत्यया hard to cross १४१७.

दुराधर्ष unassailable; hard
 ५००, १५७४, १६३२, ५०.
 दुरित evil thought or deed;
 sin; mischief ७२, ८४, ९८
 ७०, ७२, ८९, ३३९, ५३, ७३,
 ८८, ८९, १६३४, ४३, ४४, ४५
 दुरुक्त a wrong statement;
 or words ४८६, १६४५.
 दुरुक्तीत wrongly sung ७५९.
 दुरुपा hard to perceive १३६५
 दुरेष evil-intentioned १८९,
 दुरोण a seat; a wooden buck
 दुरोणसद् sitting in a seat
 १६३५, ४५.
 दुर्ग difficult; hard; a ca-
 land; a hilly place; ad
 १२८६, ८७, १४१७, २५, १६३
 दुर्गन्ध stinking smell १६५३.
 दुर्गन्धि having a stinking sm
 १३४८, ५०.
 दुर्गहन् destroyer of दुर्ग; diffi
 दुर्गा name of the consort
 १७१, १६२४.
 दुर्गि name of a deity १६३२.
 दुर्गश् difficult to destroy
 दुर्गाम्नी having evil names
 दुर्दर्श hard or difficult to
 see १४०२.
 दुर्धा a miserable condition
 or position १३५४.
 दुर्निष्प्रपतर that from which
 difficult to emerge ८६६
 दुर्भूत wicked; evil ३८२.
 दुर्मति evil thought ६७, १२७.

वेदित not properly known or perceived

४०३.

वैत wrongly placed १७.

व्यवृत्त bad or evil conduct ४१९, १४०९,
१६४३.

व्यवृत्त mis-deed; evil or bad deed ३११,
५३, ४०३, २०, ८८, ८९, ६३५, ९६३, १६३२,
३३, ५९.

व्यवृत्त difficult to cross ६०, १९३.

व्यवृत्त having bad horses; bad horse
१४१३, १५८८.

व्यवृत्त a bad hymn or prayer १२५.

व्यवृत्त प्रतिग्रहा hard to control ४३५.

व्यवृत्त milking ४३१.

व्यवृत्त being milked ४२७, १३३१.

व्यवृत्त a daughter ७३, २२१, ७५, ३३९, ८२५,
११२९, १३०८.

व्यवृत्त hard to deceive or threaten or
injure ७९.

व्यवृत्त messenger १४२, ३५७, ८७, ४१४, ६४०,
४२, १३६९.

व्यवृत्त the duty or mission of a messen-
ger; a message १८.

व्यवृत्त name of a deity १००६.

व्यवृत्त distant; far; long; afar ११६, ३०५, ३४,
४०, ४६८, १३१७, ३१.

व्यवृत्त आधी thinking of distant objects १५.

व्यवृत्त far; afar ३६३.

व्यवृत्त गम going afar; reaching far and
wide ३३४, १५७३.

व्यवृत्त अन्त whose end or extremity is far
away; extending far and wide;
endless १२२, १२४.

व्यवृत्त देवत away from deity १३३४.

व्यवृत्त नाम name of an अक्षरम् ४८८

व्यवृत्त firm and steady ४४४.

व्यवृत्त firm; hard; constant; steady ७५६,
१३८६.

व्यवृत्त see वृत्त ५६, ४१८.

व्यवृत्त most firm ७२८.

व्यवृत्त shattered; decrepit ५१५.

व्यवृत्त-ऐन्द्रेति-शौनक name of a teacher १३६७

व्यवृत्त बालाकि the proud बालाकि १०६६.

व्यवृत्त to see १५५, ७१, ५१६, २०.

व्यवृत्त to see १९२, ३५८, ८८, ४९७.

व्यवृत्त sightworthy १०१.

व्यवृत्त being seen; perceptible ६४७.

व्यवृत्त a stone; pressing stone ४०५.

व्यवृत्त seen; observed; perceived; experi-
enced ३३६, ५८५, ८०५, १२६१, १४६४,
१५०६, १६१४, १६, ५९.

व्यवृत्त वीर्य whose prowess or power is seen
१९०.

व्यवृत्त an example; illustration १६६७.

व्यवृत्त sight; seeing; eye ३००, ५९३, ६६५,
११३३, १२१२, ८४, १३२५, १६१५.

व्यवृत्त shining one; god; celestial being
deity १, २, ३, ६, ७, ८, ९, ११, १२, १३,
१६, १९, २०, २१, २३, २४, २५, ३०, ३१,
३३, ३७, ३८, ४१, ४२, ४४, ४५, ४८, ५०,
५२, ५८, ५९, ६०, ६४, ६५, ६७, ६८, ७०,
७२, ७३, ७६, ७८, ८०, ८३, ८४, ८६, ९१, ९३,
९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, ०१, ०२,
०८, ०९, १०, ११, १६, १७, १८, १९, २०,
२१, २२, २३, २४, २७, ३३, ३४, ४४, ४५,
५०, ५४, ५५, ५६, ५७, ६०, ६२, ६३, ६४,
६५, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४,
७५, ७६, ७९, ८१, ८२, ८३, ८४, ८६, ८७,
९१, ९२, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, २०,
०३, ०३, ०५, ०८, १३, ३३, ३८, ३९

३०१, ०२, ०३, ०४, ०५, ०६, ०८, ०९, १०,
 १२, १५, १६, १७, २२, २३, २४, २८, ३१,
 ३२, ३३, ३६, ३७, ३९, ४०, ४२, ४४, ४५,
 ४६, ४७, ४८, ४९, ५४, ५६, ५७, ५९, ६०,
 ६१, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७६, ७८,
 ८०, ८२, ८४, ८५, ८९, ९३, ९५, ९७, ४००,
 ०२, ०४, ०५, ०६, ०७, १२, १४, १५, १७,
 १९, २०, २१, २२, २३, २५, २६, २७, २८,
 २९, ३०, ३१, ३२, ३४, ३५, ३७, ४९, ५०,
 ५२, ५३, ५५, ५६, ५७, ५९, ६४, ६५, ६६,
 ७०, ७४, ७७, ७८, ८०, ८१, ८४, ८६, ८७,
 ८९, ९३, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, ५०४, ०७,
 ०९, १२, १५, २२, २३, २४, २५, ३१, ३४,
 ३५, ४१, ४२, ४५, ४७, ६३, ७४, ७५, ८७,
 ९१, ९४, ६०६, १३, २६, २७, ३८, ५३, ६६,
 ८०, ८१, ८३, ८६, ८८, ९५, ९७, ७०४, १५,
 १७, २८, ५१, ५७, ५८, ७२, ७३, ७९, ८५,
 ९०, ९१, ९५, ९८, ८१७, २८, २९, ५५, ५८,
 ५९, ६३, ९२९, ३२, ३३, ३५, ७०, ७३, ७४,
 ७५, ७६, ८२, ९०, १००१, ०३, ०४, ०९, २१,
 २९, ३०, ३८, ४१, ४६, ४७, ५३, ५८, ६०,
 ६३, ७७, ९२, ९५, ११०८, १९, २५, ६७, ६९,
 ७७, ८२, ८४, ८५, ८६, ८७, १२०१, ०७, १०,
 ४२, ६०, ६१, ६८; ७२, ७५, ८४, ९२, ९५,
 ९६, ९७, १३००, ०१, ०३, ०८, १६, २८, ३०,
 ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३९, ४२, ४४, ४५,
 ४६, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५४, ५५, ५६, ५८,
 ६०, ६१, ६३, ६६, ६७, ६९, ७१, ७३, ७७,
 ७९, ८८, ९३, ९६, १४०२, ०७, २३, ४२, ५८,
 ७९, ८५, ९६, ९७, ९८, ९९, १५०४, ०५, ०६,
 ०७, ७३, ७४, ८०, ८१, ८२, ८५, ८६, ९०,
 ९१, ९३, १३००, ०५, ०७, ०८, ०९, १३, १६,
 १७, १८, १९, २१, २३, २६, २८, २९, ३१,
 ३२, ३४, ३५, ३६, ३७, ४३, ४४, ४५, ४८,

देवकृत made or created

५०९, १६४६.

देवकोश treasure of gods

देवगण a host or group of

देवगृह a temple; an ap

gods २८७, १६७१.

देवगोपा guarded or pro

४९८.

देवचक्र the circle of gods

देवज springing from go

देवजन name of a group o

३४, ५१, १६८१.

देवजनविद् one who knows

देवजात varieties or class

देवजुष्ट used by or liked

१००, ५००.

देवत a deity ५२३, २४.

देवतम most shining ६७,

देवतरस्-श्यावसायन-काश्यप nar

१३६७.

देवता a deity; the power

senses etc.; faculty

११२, १५, ५१, ९९, २५०,

३००, ११, १३, २२, २६,

६८, ६९, ७२, ४२८, ४४,

७२, ५२३, ३५, ४२, ५४, ६

२६, ४०, ४१, ४२, ५१, ५

७५७, ६९, ७०, ७१, ८४,

९९, ९०९, २३, १००४, ०६

६०, ६३, १११९, २३,

१२७७, १३३०, ३१, ३२,

४०, ४२, ४३, ४८, ५३,

६६, ७१, ८६, १५०२, ७४

४४, ४५, ५०, ७०, ७१, ७

देवपथ the path of the gods ८४०.
 देवपीयुषी hater of the gods १३२, ५०८.
 देवपुत्र having gods as sons १२२.
 देवपुर a celestial town २६५.
 देवप्रभाव the power or prowess of gods
 १६२६.
 देवबन्धु a friend of gods ८६, १९९.
 देवमयु the mead of the gods ७९२.
 देवयजन a sacrifice to the gods ४७३, ५२३,
 १६६०.
 देवयत् loving gods; pious; religious
 २४, १९३, ३६९, ३४२.
 देवयाजिन् one who worship gods ४६६.
 देवयान the path of the gods (as opposed
 to पितृयाग) १६३, ६६, ३३०, ७१, ७६, ९३,
 १६, ४०१, ०७, १३, ५४, ५०५, ६३२, ८५६,
 ६१, १२९२, १४७८, १६४५, ५१.
 देवयु loving gods; pious; religious ८९.
 देवयुवन् the youthful god १६२.
 देवयोनि celestial birth or generation or
 existence ४०३.
 देवचरथ a celestial chariot ५७५.
 देवचरथाह्नय distance traversed by the
 sun's chariot in one day ११३०.
 देवरात name of a teacher ६९२.
 देवलोक the world of gods; heaven ३१६,
 ३७, ४०१, ०३, ०५, ०७, १०५७, १११९, ४५,
 १२९८, १३५१, ५२, ५९.
 देववत् possessed of lustre or splendour;
 accompanied by gods ६५, २९०.
 देववन्द hymn or adoration to a god or
 deity ३५९.
 देववित् knower of gods ११४७.
 देवविद्या the knowledge of gods ९२६, २८.

देवश्रुत name of a particular *Sāma*
 १३३४.
 देवसख a friend of god *Śiva* (epithet of
 कुबेर) ५००.
 देव-सवितृ god sun १३६७.
 देवसुषि opening for the gods ८०४.
 देवहित bestowed by god; urged or pro-
 pelled by god ४९६, ५१५, २०, २५, ६२९.
 देवहृति invocation to god १६३.
 देवहेडन divine anger or threat ४८७
 १६४६.
 देवहेति a divine missile or weapon १३०
 ३७९.
 देवात्मशक्ति the self-power of god १५७६.
 देवाश्व horse of gods १३७०.
 देवी a goddess; celestial ९९, १५६, ६५, ७१
 ८२, २५०, ६५, ३४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ६४
 ८७, ४२७, ३५, ८२, ९९, ५०१, ०९, २४
 १३५४, ५६, १४५०, १६३२, ३४, ४४, ४५.
 देश region; land; place ९८४, १५०६, १६६३.
 देशोपसर्ग a disaster to the people; a public
 calamity ५११.
 देष्टु a offering; oblation २३४.
 देष्ट्री impelling (deity); the urge ३२४
 ४३५.
 देह body ३०७, ४१२, १४२८, १५८४, १६४०
 ७६.
 देहत्याग abandonment of body; death
 १६७१.
 देहभेद destruction of the body; death
 १५८२.
 देहिन् the soul inhabiting a body; embod-
 died soul १४२८, २९, १५९०, ९८, १६१५
 १६, ६३.
 देव celestial; heavenly; divine २०, २०

दैवत divinity ५२२, १६१९.
 दैवासुर (legends) pertaining to gods
 and demons २९९.
 दैवी celestial; heavenly; divine २४४,
 ३२५, ६६, ३७७, ४८१, ६२१, ४७, ४९, ८९,
 ७४०, १०५९, १२६९, १३५३, १६४६.
 दैवी परिषद् assembly of gods १३५३.
 दैवी संसत् a heavenly assembly १३५३.
 दैवी सभा a heavenly assembly १३५३.
 दैवोदासि patronymic from दिवोदास ६५६.
 दैव्य celestial; divine; heavenly १६, ७६,
 ९६, १२६, ३५, ६२, २७८, ४८१, १६४३.
 दैहिक pertaining to body; embodied;
 elemental; bodily ६१३, ८८, ८९.
 दोगधृ who milks ४३४.
 दोगध्री one who milks ५१४.
 द्रोघत् wavering; opposing ५०९.
 दोष defect; fault; sin ५२४, ९७५, १६६१,
 ६९.
 दोषक्षय end of sins १६६३.
 दोषन् arm; hand ४३४.
 दोषपति the name of a group of sages
 or ऋषिः ५२४.
 दोषा by night ९२०.
 दोह milking; milk १६१, ६२, ४३२, ३३,
 ७७३, ७८.
 दोहमान milking ४२०.
 दौर्जावित्य wretched life ५०६.
 दौष्वप्न्य evil dreams ५०६.
 द्यावापृथिवी heaven and earth ८, ११, २३,
 ३०, ३३, ४४, ४७, ६८, ७३, ८४, ९३, १०४,
 ०८, २०, २१, २२, २३, ६२, ६७, ७०, ७१,
 ७२, ७३, ८६, ९३, ९४, २३६, ३८, ४८, ५०,
 ५१, ५२, ५७, ५९, ३०७, १५, ४०, ७१, ८३,

द्युम्न lustre; brilliance १७
 द्युलोक heaven ११२०.
 द्यौ sky; heaven ४७, ५१, ५१,
 ६३, ६४, ६६, ७०, ७१, ७८,
 ८९, १००, ०१, ७४, ८४, ८५,
 ०३, ०४, ३८, ४४, ३३१, १
 ८९, ९३, ९४, ४३१, ८
 १६६९.
 द्योतमाना shining १३६६.
 द्र the nectarlike *Soma* ()
 द्रप्स a drop ७३, ८२, २२५.
 द्रविण wealth; riches २५, १
 २३७, ३१४, ३९, ९८, ४५६,
 ६५०, ७०३, १३०६, १६४४,
 द्रविणोदा bestower of wealth
 द्रव्य wealth; material १४
 द्रष्टव्य to be seen; what should be
 received ६९१, १०९२, १२६
 द्रष्टृ seer; observer; perceiver
 ९३३, ११३३, ५४, १२१२, १
 ६०.
 द्राघीयस् longer ३८०, ४७६.
 द्रापि armour; a coat of mail
 दुग्ध hatred ७९.
 द्रुपद् a sacrificial post ५०४
 द्रुहस्पद the clutches of hatred
 द्रूणान killing १६४३.
 द्वक a group of two; a pair
 द्वन्द्व a pair; name of a couplet
 of natural opposites
 ६३३, १६५५.
 द्वन्द्वतितिक्षा putting up with
 natural opposites १६६
 द्वय the two; a pair ८०

दशमहाभूत twelve great elements १२०.

दशमिथुना comprising or consisting of twelve pairs ११८.

दशाकृति having twelve forms २१०, १४९४.

दशार having twelve spokes २१०.

दशाह name of a sacrifice lasting for twelve days ४४७, ७४.

दशिन (ऋषि) having twelve hymns to their credit ३०५.

दशम the third of the four Yugas (the other three are कृत, त्रेता, and कलि) ५२४.

दशद्वार door; gate; opening ५८५, ६२९, १३७२, १४२६, १६६३.

दशरथोपा a door-keeper ६३३, ३६.

दशरथा a door-keeper ४०३.

दशरथिवर the hole of the door १६६३.

द्वैक्रपाल having two parts or plates ३६.

द्वैज twice-born; person of any of the first three castes or वर्णस १००, ४७९, ५१३, १६६१, ८३.

द्वैजाता twice-born १६४४.

द्वैजिह्व slanting; turning sideways ६८९.

द्वैता doubly; indeed ७६, ७९.

द्वैतीयवत् having a second i.e. a companion or a compeer ६७७.

द्वेदाय having a double (share in the) patrimony ४०४.

द्वेषमोक्ष blind to both the aspects (viz good and bad) १६६५.

द्वेनिमित्तैकमोह whose one illusion is two conditioning causes १५७७.

द्वेपदा having two words or lines ३५,

द्विपुत्र having two sons १३५०.

द्विबर्हस् doubly strong ५६, १४६.

द्विमात्र having two parts or instances १५११.

द्विमूर्धन् having two heads १६३.

द्वियानि having two sources or places of origination ४०३.

द्विरणु comprising or made up of two atoms १६६८.

द्विरात्र two nights ४४६.

द्विवर्ण having two syllables or letters ५२२, २३.

द्विषत hating; an enemy १५०, १६५१.

द्विषाम्णी having two Sāmans ३२७.

द्विष्टि hatred १६५६.

द्वीप्य situated or residing on an island १४१.

द्वेष् enemy; hater १२५.

द्वेषस् hater; enemy ३८८.

द्वैत duality ३०५, ११०१, १२६४.

द्वैतविद् knowing duality; knowing the two १६६५.

द्वैतीभाव duality; dual nature १६६८.

द्वैतीभूत being dual; assuming a double nature १६५९.

द्वैष twofold; double ३०३.

द्व्यक्षर having two syllables ३४, ३५, २९०.

द्व्यात्मन् having two natures ४७३, ०४.

द्वयूच having two ऋच् verses to one credit ३०४, ०५.

धन wealth; possessions ५०, ५९, ६०, १९२, २५१, ५९, १३१३, १६३६, ४७, ७३.

धनधानी bestower of wealth (?) १६४८.

धनपति lord of wealth; rich ४३५.

- धनुस् a bow १३०, ३६, २०५, ३८, ४५०, ७५६,
११५७, १४६०, १६६२, ६३.
- धन्वकृत् maker of bows १४१.
- धन्वन् a dry land; desert; a bow (of
Rudra) १२६, ३४, ३५, ३७, ४७, ४९, १२
४१६.
- धन्वाविन् wielder of a bow (epithet of
Rudra) १३९.
- धमनि an artery; vein ८२१.
- धमित enkindled १९१.
- धयत् sucking ४८८.
- धरणी the earth १६३२.
- धरुण support; prop ७०, ७१, ३४३, ६१, ६५,
४१८, ८३.
- धर्तु supporter; up holder ४४, ९७, ८३,
९६, १०५, २०, २१, ४९६.
- धर्म duty; religious duty; quality; cha-
racteristic ७०, ८७, ९७, १०४, २६६, ३१४,
४४८, ५६, ५०७, २०, ४०, ६४१, ७०४, ७४,
९२९, ३३, १०३८, ६३, ११०७, १३९६, १४०३,
२५, १६४८, ५०, ५१.
- धर्मकाम desirous of धर्म ७०४.
- धर्मकृत् doer of one's duty ५८.
- धर्मन् law; rule ५०, १००, २०, ६५, २२५, २८,
३४, ३६०, १६६७.
- धर्ममय consisting of धर्म १२२९.
- धर्मस्कन्ध branch of duty ७८६.
- धर्मावह bringing merit १६१९.
- धर्मिष्ठ most religious or dutiful or pious
१६५१.
- धर्म्य abiding by or in accordance with
धर्म १४०३.
- धातु part; constituent (element); elem-
ent; a root (grammar) २२८, ५२३,

- धातृ creator; upholder; g
१६५, ७४, ८२, ८३, ८६,
०९, ७९, ४३४, ६३, ९६,
१३०९, १४०६, १५९९, १६३३
- धात्वर्थवचन a statement of the
root ५२४.
- धाना seed-kin ३९१, ९७, ९१
- धानारूह growing out of see
धान्य
- धान्य corn ३८३, ५०५, १६४८.
- धामधा recipient or posses
७१.
- धामन् lustre; brilliance; pla
८१, ८३, ८६, १०६, ११, १
८५, ८६, ९९, २५७, ३४७,
५१, ५३, ५०९, ४९, ६५६,
१५८६, १६३१, ३५, ६६, ७६.
- धामनामन् lustre and name
- धामशास् in several places २९
- धाट्या name of a ऋक् १३५६.
- धारका the buttocks ४०९.
- धारण holding; putting on
- धारणा concentration १६६१.
- धारयित् one who holds १६३५
- धारयिष्णु one who desires to
to hold ५०१.
- धारा stream; flow; showe
४००, २०, ३२, ७५, ५२३,
१४१७, १६४५.
- धारात्व the characteristic of
- धारिणी one who holds or st
- धारित held up १६८१.
- धार्म being in the law ११०
- धार्मिक pious ९८४.
- धार्यधारण holding or suppo

धेष्ण्य place; altar; fire on the altar; worthy of praise or prayer ३१४, ४६०, ९५, १३०६.

धेष्ण्या worthy of or deserving an altar २३६.

धी intellect; thought; prayer ६८, ७४, ७५, ८४, ९५, ९७, ११०, ११, १८, १९, २२, ३३१, ४०, ४९८, ६३८, ५३, ६८, ६९, १०४७, ५०, १३०३, ४६, ४७, ८८, १५८५, ८६, १६४४, ५९, ६२, ६३.

धीत thought; project; action २८, ८२, १३४१.

धीति thought; prayer; intention १७, ६७, २०९, २२, ४१८.

धीमत intelligent; possessed of intellect; thoughtful १६६६.

धीर firm; bold; wise १९, ७८, ८४, १८५, ९३, २०५, १४, ३६, ५१, ५४, ७३, ७८, ३१४, २७, २९, ३४, ३५, ३६, ३९, ६८, ४६९, ७८, ९०, १२३८, ४६, १३२२, २४, ७४, ७५, ९८, ९९, १४०२, ०७, २०, २१, ३१, ३५, ४५, ५१, ६३, ८१, ८३, १५७३, १६२२, ३४, ८०.

धीरतर very bold; very wise ८६.

धुन smoke ४०५.

धुर yoke; brunt ११५, २१०, १३, ३१६, २२, २८, ३७.

धूतशरीर who has shaken off one's body ४०५, १३६४, ६७.

धूम smoke २२५, ८८, ४०३, ०४, ०५, ७३, ६९१, ७८१, ८५८, ५९, ६०, ६३, ६४, १०९६, १२६१, ९५, ९६, ९७, १३००, ६४, १५८९, १६६८.

धूमकेतु comet ५१२.

धूमगन्ध smelling like smoke ६४२, ४३

धूर्त्त्व the characteristic of a धूर्; fitness for being termed धूर् ३२२.

धृतराष्ट्र name of a person १६४, १३८७.

धृतव्रत who upholds the (divine) law who observes a vow ५, ६, १८, ६७, ७५, १२०.

धृति firmness; wisdom ३३४, ५२०, ९३, १०५०, १४०२, १५७३, १६६३, ६४.

धृषत attacking; overpowering १६४३.

धृषित attacked; overpowered ३४३.

धृष्णु overpowering ६०, १३६, ४२, ४८५.

धेतु a cow १००, ६९, ७२, २१७, ७४, ३३९, ४६, ४७, ७१, ९७, ४०६, १८, ७४, ५०९, १४, ६१७, १२७५, १३३१, ३२, ५४, १६३२, ४५, ७९.

धेनुमती having a cow; rich in cows or cattle ९१.

धेनुशत a hundred cows ४६७.

धैर्य firmness; prowess; wisdom १४४०.

धाती a river ४९.

ध्मात blown; heated २९६.

ध्यात meditated upon; thought ५८५.

ध्यातृ meditator १६३७, ८२, ८३.

ध्यान meditation १३४, ६६५, ६६, ६७, ८०, ९३२, ३३, १६३७, ५९, ६१, ६२, ८२.

ध्याननिर्मेथनाभ्यास practice of the friction of meditation १५८४.

ध्यानयोग application or practice of meditation १५७६, १६८३.

ध्यानपादांश a part of the reward of meditation ९३२.

ध्यायत meditating ३३१, ७८५, ८५१.

ध्यायमान meditating १४७९.

ध्यायितव्य to be meditated upon १६८२.

२१९, ६६, ३०५, ३६, ५३, ९३, ९४, ४०५,
५२, ५५, ९७, ५०७, ०८, ०९, २२, ९३१, ३२,
५०, ११७६, १२४४, १४०१, १८, २१, १५९०,
१६४८, ५३, ६२, ६६, ८१, ८३.

ध्रुवक्षिति the firm ground १६४८.

ध्रुवक्षेम the constant or eternal welfare
१२०.

ध्रुवगोप name of a particular constituent
of a sacrifice ४६१.

ध्वंसि a (very small) unit of time ६८७.

ध्वसनि cow-pen; a cloud (comm.) २१८.

नकि none; no one ७६, ७८, ९९, १११.

नक्तम् at night. ४, ७४, १०१, ३९, ३५४, ४८२,
८५, ८९, ५०४, १३०३, १६४५, ४६, ४८.

नक्षत्र a constellation; a star; the sun;
a heavenly body ३३, ३४, ३८, ४२, ७९,
१०२, १९, ७१, ७५, २४५, ५५, ८७, ९५, ३०५,
४०४, ३४, ५२, ५५, ७२, ५११, १९, २२, ६१४,
४२, ८८, ९०, ९१, ७०१, ४०, ६०, ८४, ८३७,
५८, ९३५, ५४, ८७, ११६८, १२९६, १३०१,
३५, ४०, ४२, ५४, ८७, १६३४, ४८, ६६.

नक्षत्रलोक the world of the नक्षत्रs ११४५.

नक्षत्रविद्या the lore of the नक्षत्रs i. e. astro-
nomy ९२६, २८, २९, ३३.

नख a nail १५९, ३०५, ०६, ४०४, ६८१, ८९,
९७२, १३४०, ५७, ६९.

नखनिकृन्तन a nail-cutter ८८६.

नखाग्र the tip of a nail १०२२.

नगर a town; city २६५.

नगरिन्-जानश्रुतेय-काण्ड्विय name of a teacher
१३६७.

नघारिषा always green; never drying;
never harmful (comm.) ३८१.

नचिकेतस् name of a person १३८९, ९२, ९४,
९६, ९७, ९८, ९९, १४०१, ०२, ०३, ४०,
१६६७.

नट an actor १६५६, ६७.

नदी a river ५२, ७०, ८०, १८०, २९८, ३००,
४१६, ३४, ७२, ६३३, ३४, ९१, ८२१, ९१७,

नन्द joy; happiness २४५
नन्दि name of a deity
नपात् off-spring; child
नपुंसक neuter ३१, २६३,
नपुंसकनामन् a neuter name
नपुंसकनाम्नी having a neuter
gender (said of
called पशुशीर्ष) ३१.

नप्ती an off-spring १७१.

नप्रज्ञ not cognitive १५२

नप्रज्ञानघन not a cognitive

नबहिःप्रज्ञ not outwardly

नभस् sky; aerial region

७१, १११, २५, ७४, २७१

१६६२, ६५, ६७, ६८.

नभ्य part of the wheel

the navel; pertaining

or centre; a hub २२

नमउक्ति expression of adoration

नमस् a bow to; salutation

reverence; worship

२६, ४५, ४६, ४९, ५०, ९९

२३, २४, २७, ३३, ४०,

८१, ८९, ४५६, ८४, ९९

२७, ८३, ९२, ७०६, ४०,

८९, १२६६, १३११, २८,

१४८९, १५१९, ७४, ८९

३५, ३६, ४१, ४२, ४३,

५६, ५७, ६३, ६५, ६६, ६७

नमस्कार a bow; salutation

नमस्कृत who is adored

५०.

नमस्य fit to be saluted;

६, ७, ९९, १३९०.

नमस्वत् bowing; accompaniment

or adoration ११

नसुर an evil spirit (

मोचन saluted or bowed down to time and again १५०.

मोक्षक making a low obeisance १७५.

गन्तव्य moving to and fro १८५.

पुरुष man; a male being; a human being

६, ७, ५३, ७६, ८९, १६८, ११०९, १३१४,

६६, १४००, १३, १६६६.

नरक hell ३६८, ४११, १३८७.

पुरुषोत्तम the lord of men; king ३६८.

पुरुषार्थ the objects of pleasure (desired by men) ३११.

पुरुषोत्तम manly ९१, १२३.

पुष्पमालिन् wearing a garland of red flowers ६१७.

पुष्प the tiniest hair ६५७.

पुष्प new; fresh; nine १३६३.

पुष्पतर very fresh; quite new ११७९, १२२७.

पुष्पद्वार having nine doors or openings

२४५, ५१, ३२२, १५९८.

पुष्पनाभ having nine navels ३३५, १५७४.

पुष्पनीतपिण्ड a lump of butter १३५६.

पुष्पदी having nine पद १७०, २२५, ३४८.

पुष्पपुत्र having nine sons १३५१.

पुष्पवचन having nine verses to one's credit ३०४.

पुष्पश्राद्ध name of a particular sacrificial rite १६४७.

पुष्पसङ्गति having nine angles or corners ५६७.

पुष्पवांशक having or including nine parts or quarters १६६०.

पुष्पदीयस् very new or fresh ३६३, ८७.

पुष्पव्य modern; recent; new; young ५५, १६३४.

पुष्पव्यसी very new or fresh ५२५.

९६, ४०१, १४, १५, ३५, ५६, ७५, ६९

७०२, ८०, १३०५, ५९, १४५१, १६२८, ३

३४, ३६, ५०, ७३, ८१.

नाकपाल the lord of heaven २४९.

नाक-मौद्गल्य name of a teacher ७०२, १३०५

नाकसद् one who resides in heaven a celestial being; god ३७.

नाग an elephant १०११.

नाचिकेत name of a fire or a lore ४०६, ०७, १४०१, ११, २०.

नाडी artery; vein २४७, ६८०, ९६६, ६७, ६

१०७६, ११८७, १४३९, ६२, १५०२, १६६

६६, ६८.

नाथ desire; longing ३३९.

नाथकाम having a desire for supplication १७२.

नाथित begging; requesting; being requested १६८, ४८३.

नादान्त ending in the intonation १६८.

नादेय pertaining to or born of a river i. e. having the form of the water

of a river १४१, ४२.

नाथमान begging १२६, ७२, ४१३, ७६, १६४

नाना various; several; varied; dualities ४६, १२४, ७०, ८०, २९१, ३२८, ४०४, ६

५६५, ६७१, ७५०, १२४४, १४२३, २४, १६५

६२.

नानास्य diverse; many and various ८३५, ९१६.

नानात्व diversity; manifoldness; dualities १६५५.

नानाधर्मन् of varied or diverse nature ५०९.

नानारूपा of varied or diverse forms ५६

नानार्था leading to diverse goals १३९८.

नान्दन (=नन्दन) pleasure garden; paradise; the means of securing bliss

५८५.

नाप्रज्ञ not incognitive १५२५.

नाप्रतिरूपम् not unparallelled १०६९.

नाभाक name of a man ८२.

नाभि centres; navel २, २३, ४४, ७३, ८३,

१००, २१, ६८, ७०, ७६, ८७, २२१, ३३, ५०,
३१४, २७, ४९, ४३२, ४४, ७७, ५८१, ८३,
९३७, १३५१, १६३०, ३६, ५८.

नाम named by name; (=नामन् as the first

member of a compound); (=नामन् as the end of a compound) १०, १२, १३,

६०, ६१, ६२, ९२, १२१, २६, ६५, ७७, २०२,
०७, ४९, ५०, ५५, ६३, ३००, ०८, १०, ४४,
७३, ४०५, ०८, ०९, ३०, ४४, ५४, ६१, ६३,
५०९, ३७, ८७, ६६८, ८०, ८५२, ५४, ९०४,
०७, ०८, २८, ६०, १०५८, ७४, ११२२, १२०७,
८२, १३३५, ३८, ४३, ४४, ५४, ६१, ६३, ६९,
८३, ८९, १४४८, ५९, ८६, १५१७, १६१०,
५३, ५९, ६०, ६२, ६४, ७१.

नामधा giver of names; one who gives names to १०८, ८६.

नामधेय name २९, ४७१, ८९, ५५४, ९३, ८८५,
८६, ८७, ९७, ९८, १०८६, १६६९.

नामन् noun; name; designation ८१, ८३,

९०, १५०, ५१, २४५, ४७, ६०, ६२, ६३, ७३,
८७, ९६, ९७, ३०२, ०७, ११, ८५, ४०३,
५२३, ७५, ६३८, ४२, ५०, ५९, ६५, ६६, ६७,
६९, ७६, ७७, ७८, ८०, ८७, ७६१, ६३, ८१३,
२७, ३१, ३२, ९३, ९६, ९२७, २९, ३०, ३१,
१००६, १६, २२, ६४, ६५, ६६, ७१, ११२५,
८६, १३०९, ३५, ५२, ५९, ६८, ८६, ९३,
१५१६, १६३१, ३६, ४८, ५४.

नामरूप name and form ९८३, १४८६

नारायण name of a deity identified with *Viṣṇu*

Puruṣa (i. e. the principle)

name of two groups

(अनुवाक्य) called पूर्व

नारायण respectively (1

३३६, ४६९, ७०, १६३२, ३

नाराशंसी a class of verses

along with इतिहास,

a verse belonging to

५२२, १३४४, ४६, ४७.

नारी a woman; a female

नार्मेर son of नृमर; name of

नाव्य passable in a boat

नाश end; destruction १६

नाष्ट्रा destruction ३८५.

नासिका nose; nostril ४१,

५६, ५२२, २९, ८१, ८२

१३५५, १५०१, ८८.

नासिक्य nasal ७५१.

नासी name given to the

१६६९.

नास्तिक्य atheism; absence of

निःशब्द soundless १६६२.

निःश्रेयस् summum bonum

tude ६५३, ५९.

निःश्रेयसादान taking up (i. e.

of the ultimate bliss

tude ६५२.

निःसंक्षय void of concept

निःसृत come or moved on

निकाम desire; will; a

gods like इन्द्र (comm.)

निकाय a group १५५४.

निकृन्त cutting sharp ४४४

गद a prose formula; *Yajurmantra*
५६८.

गूढ concealed; hidden; covered ६८,
१५७६, ८४, १६७३.

गृहीतानिल who has controlled the wind
(i. e. breath) १६६१.

गित known ४७.

गच्छ moving constantly; watchfully
in the household of one's master
seeking an opportunity to commit
a theft (comm.) १३९.

गण्य hidden; concealed २२२.

गोविन् possessed of or wielding goads
४८४.

गत्य eternal; permanent; obligatory ७८,
२११, ३३६, ४६३, ५२३, १२५४, १४०१, ०५,
१७, ३१, ४५, ७७, १५८३, ९९, १६११, २५,
३७, ७६, ८०.

गत्यपुष्टा always well-fed ५००, १५७४,
१६३२.

गत्यप्रमुदित always very happy or joyful
१६६७.

गत्यप्रवसित always journeying १६६७.

गत्यमुक्त always free १६६३.

गत्ययाचनिक always begging १६६७.

गत्यानित्य eternal and non-eternal १६७७.

गन्ध censure; blame १९०.

गन्दाद्य summer १६७१.

गन्धान the ultimate cause २३४, ७७.

गन्धिध्यासितव्य should be constantly medi-
tated upon ६९१, १०९२, १२६१.

गन्ध्रा sleep; slumber १६५६, ६२.

गन्धन end; conclusion; death; name of a

Sāman ४०६, ३४, ४७, ७४, ५०९, ६३.

निधनपतान्तिक approximate to the lord of
death (?) १६४०.

निधनपति the lord of the end or death
१६४०.

निधनभाजिन् connected with निधन (i. e.
just after sun-set) ७७९.

निधनसंस्थ resting in death १३३३.

निधान treasure १४७८.

निधि treasure २४७, ४२३, ५०५, ०९, ९२३,
२८, २९, ३३, १६४९.

निधिगोप one who protects a treasure
४२०.

निधिपा the protector of a treasure २००.

निधिमत possessed of a treasure ३६३.

निन्दा censure ३११.

निन्दित censured ४८६.

निपात one of the four classes of words
(the other three being नाम, आख्या
and उपसर्ग) ५२३.

निमग्न merged in; engrossed in १४७०,
१६०५.

निमिष् a wink; winking of the eye ७७,
८५, ५७६.

निमिषत् winking १९५, २४९, ३४०, १३३,
१४५९, १५७४.

निमेष a wink of the eye; a moment २५५,
६८७, १६३०, ६०.

निम्हन् setting time; time of sun-set
१७३, ४२७.

निम्लोचत् setting ९८७.

नियत fixed; destined; determined १६५०.

नियति destiny १५७५.

नियन्तृ controller १६५५, ६४, ८०.

नियान path; a cloud (comm.) १७३, २२,
३८२.

- निरय heel (i. e. the womb) १६५६.
 निरवय not blameworthy १६२६.
 निराकृतिस्व formlessness १६५६.
 निरात्मकत्व being selfless; selfless-ness
 १६६१.
 निरात्मन् selfless १६६१, ६३, ६६.
 निरान्त्र without intestines; intestineless
 ४०४.
 निरामिन् joyful; delighting १९०, ६८६.
 निराश्रय without support १६६१.
 निरिन्द्रिय powerless ३३९, १३०५, ०७, ८९.
 निरिन्धन having no fuel; requiring no
 fuel १६६४.
 निरुक्त one of the six *Vedāṅgas* (includ-
 ed in the अपरा विद्या); explained;
 defined; manifest; distinct; etymo-
 logical explanation ३५०, ४७१, ५२३,
 ७२०, ८५, ९६०, १३५४, ६५, १४४५.
 निरुक्ततर more manifest or drawn out or
 expanded ३१९, २१.
 निरुक्ततरा very distinct or defined ३२०.
 निरुद्ध obstructed; confined १३३९.
 निरुपाख्य indescribable १६५९.
 निरोध destruction; cessation; stopping;
 obstruction; hindrance ९६८, १४९४,
 १६५३.
 निर्र्कृति evil spirit ७४, २२०, ३४, ४५, ६४,
 ३११, ५४, ६३, ६४, ७७, ८०, ८२, १६३१.
 निर्गुण devoid of any qualities or limit-
 ing adjuncts; above or free from the
 three गुण of प्रकृति ३३६, १५०४, १६२२,
 ६०, ६६.
 निर्झर a stream; rivulet १६७१.
 निर्द्वन्द्व devoid of or above pairs of

- निर्भुज name of a kind of
 निर्भुजप्रवाद who are spoken
 tion with निर्भुज ६०१, ८
 निर्भुजवक्त्र one who recites
 ६०३, ८५.
 निर्भम having no idea o
 void of attachment
 १६७१.
 निर्भमत्व absence of attach
 thing) १६५५.
 निर्मुक्त complete freed १६३
 निर्ल्वयनी cast off skin
 a serpent १२३६.
 निर्वचन unspeakable १६५९
 निर्विषय free from obje
 १६६५.
 निर्वृतत्व peacefulness १६६२
 निर्वृत become १६६३.
 निर्वेद indifference १४५२.
 निर्वाडत्व shamelessness १६
 निर्हन्तृ complete destroyer
 निरुथन a resting place;
 ७२०.
 निलायम् stealthily; secret
 निवत् low land; low regio
 netherworld-comm.)
 निवात a place free from
 wind or breeze १६६२.
 निवाताश्रयण resorting to a v
 a resting place prote
 against wind १५८८.
 निविद् a hymn; prayer;
 mantras containing
 deities (comm.); one

निवेशन a resting place; a dwelling;
house २५१, ३०५.

निवेशनी affording a resort or resting
place ५०७, २५, १६३२.

निवेशयत् settling; fixing १२०.

निवेष्टमान pervading; surrounding; wind-
ing round १३३०.

निवेष्ट्य being in or springing out of
frost १४४.

निवेष्ट्य see निवेष्ट्य १४४.

निव्याधिन् one who utterly destroys the
opponents or rivals १३८.

निशास् a wilful injury (or murder)
(comm.) ४८८.

निशा night १३६९.

निशाकर the moon; the maker of night
१६५७.

निशामित heard ५०१.

निशित sharp; sharpened १४१७.

निश्वासित breathing; breath १०९६, १२६१,
१६६४.

निश्वास out-breathing १५०६.

निषक्त deeply attached १२३१.

निषङ्गधि a quiver; an arrow-case १३६.

निषङ्गधि see निषङ्गधि १३६.

निषङ्गिन् having a case १३८, ३९, ४२, ४८.

निषत्त sat down; settled down १५, २२,
१८६.

निषाद a class of people; persons of low
caste १४१.

निषिक्त sprinkled १६३४.

निष्क a gold ornament worn round the
neck; a necklace १२७, ८२५, २७, १३४०.

निष्कल partless १४६६, ७९, १६२६, ७६.

निष्ठि the joint of the neck १६४०.

निष्ठा the growing forth १४१.

निष्परिग्रह not accepting anything; havin
no belongings १६७१.

निष्पुरीष void of excretion or dung ४०४.

निस्तिष्ठत् growing forth १४१.

निस्पृह desireless; free from desire
१६५५.

निहव invokation; call ७७३.

निहित placed; bestowed ८१, ४०२, २३, ४६
४९, ५०९, ९६०, १०८१, १३४१, ९२, १४०६

२३, ५८, ५९, ६०, ८१, १५९९, १६१२, ३१
३६, ५५, ५६, ५८, ५९, ६२, ७३.

निहितार्थ charging with a purpose o
significance १६००.

नी a leader ४४४.

नीचा down; below; low ५१, ४८४, १६४३.

नीचीन turning downwards; situated
below ७४, ३६६.

नीचीनवार having its opening down
wards; with its mouth turned down
wards ७७.

नीप्य belonging to the low lands १४२.

नील (=नील) a resting place; dwelling
४८३.

नील blue; dark; dark-blue ४५०, ६१
८९, ७६०, ९६६, १२०७, ३९, १३३७, १६०

नीलकण्ठ an epithet of god *Śiva* ३३
१६७३.

नीलकपर्द having dark matter hair; a
epithet of god *Śiva* or *Rudra* १३६.

नीलग्रीव having dark throat or neck; a
epithet of god *Śiva* or *Rudra* १३
३६, ४१, ४८.

नीलतोयद a dark cloud १६४०.

नीविद् see निविद् ४४८.
 नीहार frost; dew १८७, ८२१, १५८९.
 नुत्त dispelled; driven away; removed
 ३३९, ५०९.
 नुदमाना dispelling; chasing away १६४५.
 नूतन new; fresh ३५७, ४१७.
 नृ a man; human being; hero ५, ९, ६७,
 ६९, १२०, ३४३, १६४९.
 नृक्षरा free from injuries or injurious
 element; thornless; harmless १६३२.
 नृक्षस् beholding or watching men;
 looking after or leading men १०, ७०,
 १२४, ७०, ९२, ३५७, ४१२, ५१७, १६४६.
 नृतम most manly or heroic २, ६७, २००.
 नृत्त dance ३११.
 नृत्य dance ५२२, १३९७.
 नृत्यत् dancing; a dancer २७५.
 नृपति lord of men; king ५, ७, ६७, १६४९.
 नृम्ण prowess; heroism; power ४५, ८६.
 नृशंस wicked ४८६.
 नृषद् dwelling among men ९५, १४२७,
 १६३५, ४५.
 नेतृ leader; carrier ४६, २७१, १३३९, १६५९.
 नेत्र the eye ४३५, ५९४.
 नेदिष्ठ nearest १३८२.
 नेदीयस् nearer; very near २४९.
 नेम some; some one; one ५९.
 नेमि felly; circumference of a wheel ५,
 ३१८, ६७१.
 नेष्टृ one of the sixteen priests required
 at a sacrifice ४६१.
 नेष्टृ the duty or business of the नेष्टृ
 priest ५.
 नेष्ट्रीया pertaining to or to be recited by
 the नेष्टृ priest ४६२.

नैष्कारण्य pitilessness; cruel
 नोभयतःप्रज्ञ not either w
 १५२५.
 नौ a boat; ship ७५, ८४,
 ३३९, ६२, ६६, ११८६, १६३९.
 नौधस् name of a particula
 ६३६.
 न्यक्त merged in; put into
 न्यग्रोध name of a particula
 न्यग्रोधफल the fruit of th
 ९१९.
 न्यङ्ग a sign; a mark २०२,
 ६६.
 न्यञ्च bent down or low; do
 २४६, ३६६, १३३१.
 न्यर्बुद a very large numbe
 ००००) १७५, १३३३, ३७, ३९.
 न्यास abandoning; resignin
 न्युप्त thrown ४८४, ८५.
 न्यूनाक्षरा having less sy
 required; deficient or
 some syllables ३०.
 पकार the letter or the sou
 पक्त्वा a cook; one who cook
 पक्व cooked; ripe; the ripe
 ७५, १३६९.
 पक्ष side; wing; a fortnigh
 ५४, ६३, १६२, ७२, ७३,
 ५६३, ७०६, १४, १५, १७, १८.
 पक्षपुच्छ wings and tail २९२.
 पक्षस् wing; side; a wheel ()
 ५७५, १६६४.
 पक्षिन् a bird; a winged ani
 ६४८, ११११, १३५९.
 पङ्क्ति a line; name of a

अचूड having five protuberances or tufts (said of sacrificial deities) ३७.

अजन the five classes of beings (viz. gods, men, *Gandharvas* and *Apsaras*, serpents, and *Pitrs*) ६८६, १२४२, १३४२.

अतन्मात्र the five subtle rudiments of the five elements १६५५.

अदश the name of a particular *Stoma* ५२२, १६६६.

अदुःखौघवेगा having the five-fold fast stream of sorrow १५७८.

अद्वैतस्य sacred to five deities (a gift to the *Brāhmaṇas* at such an offering) १६८३.

अचनाम्नी having five names १६२.

अचपर्वा having five branches १५७८.

अचपाद five-footed २१०, १४९४.

अचपुत्र having five sons १३५०.

अचबिल having five openings ४३७.

अचमहाभूत the five elements १६५५.

अमुख having five faces or heads ६४८.

अयोनि having five sources १५७८.

अदरात्र a sacrifice to be completed in five days ४४७, ७०.

अर्च having five verses or ऋक्स to their credit ३०५.

अवायु having or accompanied by five vital airs १६५५.

अवाहिर drawn by five; yoked with five २४९.

अशीर्ष five-headed १६४४.

अस्रोतोऽम्बु having five streams १५७८.

अहोत्र attended by five priests; name

पञ्चर (a wheel) having five spokes २११, ७१.

पञ्चाल name of a war-like tribe and their country in the north of India ८५५, १२९०.

पञ्चालचण्ड name of a teacher ५२४, ६०८६.

पञ्चावर्ता having five whirls १५७८.

पञ्चाशद्भेदा having fifty varieties १५७८.

पञ्चेष्टक having five bricks १६६४.

पट a piece of cloth; canvas १६५५.

पटर a ray (of sun-light); having garment-like armour (epithet of वरुण comm.) १७३, ८०.

पटरिन् having a halo of lustre २७१.

पट्वीश a fetter for the foot of a horse ३७७.

पट्वीशशङ्कु a post for tying the fetter of the foot of a horse ३३१, ८५१, १२८८.

पणवलासित dancing to the accompaniment of a drum; rumbling of a drum २६४.

पणाद्य praiseworthy; laudable १३४१.

पणि a miser; niggard ८६.

पण्डित the learned; wise ९२१, १३०८, १६७५.

पण्डितं मन्यमान fancying one's self to be clever; an ignorant and conceited person १३९९, १४५१, १६६७.

पतङ्ग butterfly; moth; a bird; the sun १०५, ७२, ७३, २७१, ७२, ४२९, ६३०, ९११, १८, २९, ३३, ३५, १२८९, १३००, ६४, ६५, ६६, १६०१, ४३.

पतञ्जल name of a person ११२९, ४६, ४७.

पति the lord; husband ४४, ५९, ६७, ६८, ७०, १०५, ३७, ३८, ३९, ७३, ७५, ९४, ९७, २००, ९६, ३७४, ४००, ०६, २५, ३४, ६३, ९०, ९५, ९७, ९८, ६०८, ८६, ७५४, १०१०, ११, १९, ९१, १२६०, १३०८, ४७, १४५०, ९९, १६१३, १९, २०, ३७, ४६.

पतित fallen; apostate १६६७.

पतिरिप् deceiving a husband ३५३.

पत्तस् at the foot; from the foot २८१, ८४, ४०५.

पति infantry; foot-soldier १३८.

पत्नी a wife; mistress २३, १६५, ८२, २५५, ९६, ४३४, ६१, ६३, ५०६, १०१९, ११८७, १६५१.

पत्नीवत् having a wife; accompanied by wives ४५९.

पत्तम् wing ३६१.

पत्र wing; feather ११३०.

पथिकृत् making or preparing a way or a road १८९, ४१५.

पथिन् path; way; road २३, ४९, ५२, ६५, ७४, ८०, १०६, २४, ३७, ४८, ५०, ६२, ६३, ६६, ६९, ७०, ८९, २२०, ३६, ५४, ७३, ७८, ३५६, ५७, ६०, ७१, ७४, ७८, ८२, ८८, ८९, ९३, ९६, ९८, ४०७, १३, २९, ३०, ५४, ७६, ८३, ५०५, ०९, २५, ३७, ६१६, ३२, ८८, ८५६, ६१, ६९, १११४, ९८, १२३८, ३९, ६६, ९२, १३००, ३८, ६३, ६६, ८६, १४१७, ४८, ७८, १५८६, ९५, १६२४, ४५, ५१, ५८, ६३, ७१, ७५, ८०.

पथिरक्षि protecting roads; guarding the path १४८, ३५७, ७८.

पथिषदि sitting in the way ३५७.

पथ्य wholesome; suitable; salutary १४२, ३५६, ६४.

८९, १०५, ०६, २४, २०८, ०९, ४९, ६८, ७२, ३४६, ४९, ५०, ४००, ५२३, २४, ४७, १०२२, ८३, १३३२, ६६, १४०४, १३, ३७, ५६, ६४, ८०.

पदनी one who traces or foot-steps or track १३०.

पदनीय attainable; to be reached

पदवित् who knows the place ४६३, १२५५.

पदवी who knows the track १६३५, ४५.

पदवीय a path ४९०.

पदव्योमानुस्मरण the recollection of heavenly abode १६६५.

पदग्रहीत siezed by the foot १३५९.

पद्म a very high number १

पद्मकोशप्रतीकाश resembling the lotus १६४०.

पद्मानामक named पद्म १६८०.

पद्ममालिनी lotus-garlanded ५०

पद्मवर्णा lotus-complexioned ४

पद्मासन having lotus for a seat

पद्मिनी a lotus-plant; lotus li of श्री) ५००.

पद्मेस्थिता seated in a lotus or ४९९.

पद्मत् having feet or legs १२

पनस्यु longing for praise; glo

पनिव् one who praises or sings a singer; admirer १२४.

पन्ना fallen down ३३९.

पपुरि bountiful; liberal; ab

७३, ५०७, ०९, १६, ६४७, ९१, १०४७, १३४३,
४४, ६९, १६४५.

स्वती abounding in water; yielding
milk १६९, ३८३, ५०९.

other; another; higher; highest; yon-
der; superior; more subtle; intense
१३, १४, ४६, ४८, ५१, ५५, ६९, ९१, १०३,
७७, ८६, ८७, ९१, ९४, २१०, १२, १३, २१,
३४, ३९, ४७, ४९, ७०, ७६, ३३६, ५८, ५९,
६०, ६२, ६३, ८२, ८७, ४०६, १०, १४, २३,
९२, ५०५, ८०५, २३, ९०९, २१, ६०, ७८,
७९, १००८, ३६, ३८, ८५, ११४६, ४७, ४८,
८२, १२४५, ९८, १३०७, ३१, ३७, ४३, ५१,
५३, ६३, ८७, १४००, ०४, ०५, ११, १४, १८,
३६, ४४, ४५, ४६, ५९, ६६, ८५, ९०, ९४,
१५०५, ०८, ०९, १०, ११, १४, १९, ७३, ७४,
८३, ९४, ९५, १६०९, १८, १९, २०, २३, २८,
३०, ३४, ३६, ३७, ४१, ४९, ५०, ५४, ५५,
५७, ५८, ६१, ६२, ६३, ६७, ६९, ७३, ७८,
७९, ८०, ८१, ८२.

परोवरीयस् beyond the farthest limit;
unbounded; boundless १३३३.

तः पर beyond the पर, the highest
१४५४.

तर superior; yonder; more subtle
४०९, १५७३.

भाव्य being second to another (M.W.);
the highest existence ३६८.

म the highest; extreme; most ex-
cellent; superior २७, ४४, ६७, ८६, ८७,
८९, १०६, ०९, १०, १५, ४७, ६१, ७०,
७७, ७९, ८५, २२१, २३, २५, ४३, ४७, ७१,
७४, ७६, ९०, ३००, ३६, ४६, ४७, ४८, ५७,
६१, ६७, ७५, ७६, ४१५, १८, २८, २९, ३०,
५३, ५९, ७१, ८३, ८९, ५०७, २२, ६८, ७०६

परमऋषि the highest or greatest ऋषि
१४८९, १५१९.

परमता the highest position or excellenc
or superiority ४७१, १०३६, १२७
१६६६.

परम-पद the highest state or position
final beatitude १६३७.

परम-परार्थ the highest upper sphere
१४१०.

परमपुरुष the supreme spirit १३३७.

परमलिङ्ग having the highest (being) a
characteristic or indicatory man
१६४१.

परमहंस an asectic of the highest orde
१६७१.

परमाकाश the great sky or ether (opps.)
महाकाश or घटाकाश) १६६६.

परमात्मन् the supreme spirit १३४, ३३
१६४०, ४४, ४७, ५९, ६१, ८२, ८३.

परमात्मरूप having the form of the
supreme spirit १६७६.

परमालय the highest abode १६६२.

परमेश्वर the highest lord; supreme bein
or lord १६६७, ७३.

परमेष्ठिन् standing at the head; highes
chief; name of a supreme bein
प्रजापति; *Brahmā*; son of प्रजापति १६
६९, ७३, ७८, २४५, ४७, ९०, ३००, ०
४२२, ३२, ३४, ५३, ५५, ५१०, १११४, १२६
१६४८, ५१, ७३.

परमेष्ठिन्-प्राजापत्य ब्रह्मा; the son of प्रजाप
१३६७.

परमेष्ठिनी supreme; chief ५१०.

परलोकस्थान the place or seat in the oth
world ११९७.

परस्तात् beyond; yonder; superior to
२४२, ४८, ३३५, ७४, ७५, ७८, ४५९, ५१७,
६४१, ७९०, ९१, ९९५, ९९, १५७३, ९४,
१६१९, ३०.

परस्या a protector; protecting २००.

पराक distance ९२, ४७८.

पराकाश the highest sky i. e. the unboun-
ded sky १३०७.

पराक्रान्ति involution १३३७.

परागत returned i. e. ceased to exist;
disappeared; departed; dead ३८, ३९२.

पराङ्मनस् with one's mind going out in
the opposite direction ३७८.

पराच् moving outward; going beyond;
turned away ६२, १६१, २१३, ९३,
३२३, ८७, ४३८, ४०, ४१, ५६९, ८४, ७६२,
६४, १२२२, १३३०, ३२, १४२०, २१.

पराचीन turned away or downwards;
averted १४७, ३२४.

पराजित vanquished; defeated ३४४, ६३६.

पराणुद् to dispel; drive away; distract;
shake ५६.

परातरम् farther away ३६३, ६४.

परात्पर higher than the highest ३३६,
१४८६, १५११, १६३०, ७३.

परात्परतर higher than the high ३३६.

परान्तकाल the end of time (acc. comm.
the moment of death of the ममुक्षुः;
that in the case of संसारिन्स being,
according to him, अपरान्तकाल) १४८४,
१६३६, ७३.

परापर both higher and lower १६६२.

पराभव defeat ४६५.

पराभूत defeated १३५२.

परायत् returning; going away
४८४.

परार्थ the highest number
३०२, १५७३.

परार्थ्य supreme; belonging to
half (epithet of अग्नि)
७४८.

परावत् yonder; standing on
distance ६५, २००, ३०५, ६३

परावतः for long extents १२९.

परावर both the higher and
(epithet of ब्रह्मन्) १४६४.

परावरा both the higher and
(epithet of knowledge)
traditional; handed down
higher (i. e. the preceptor)
lower (i. e. pupil) (ep
विद्या comm.) १४४३.

परावृज् lame ५१.

पराशस् a strong desire; a wish
४८८.

परिवृहीत accompanied or
sized by ३३५, ४३७, ७९९,
१६५०.

परिग्रहावलम्ब dependence upon
ings १६५६.

परिघ bar ७९०, ९१.

परिचक्ष्य which deserves to
openly; which should be
concealed ९२.

परिचर a robber; moving from
१३९, ५०७.

परिचरन् waiting upon ९७३.

परिचरित् an attendant; a servant

- रितृप्ति full satisfaction; contentment
१६७५.
- रिद्रष्टृ seer; beholder of all १५१७.
- रिधान apparel; garment ३८३, १२९४.
- रिधानीया the concluding verse ८४७,
१३५६, ६०.
- रिधि fence; compound; protecting line;
a covering; an armour १७०, २३३, ७७,
३५३, ८२, ८५, ४७३, ७५.
- रितुञ्जती dancing about २४८.
- रिपन्थिन् way layer; enemy; rival ५०८.
- रिपूर्ण complete; full १६५६.
- रिह्व moving about; restless ४०१.
- रिभू encompassing; overpowering ५,
१९, ६७, १९२, २२२, १३१९.
- रिभूत defeated; overpowered ४२८.
- रिमण्डल circular; round २०२.
- रिमर the dying around [the magic
formula (ब्रह्मणः), or of the deities viz.
अग्नि etc. (दैवः)]; the dying of विद्युत्,
वृष्टि, चन्द्रमाः, आदित्य and अग्नि around the
ब्रह्म, i. e. वायु (p. 151) १५०, ५१, ६५०,
७४०.
- रिमित measured; limited २२६, ३४६, ४९,
५०.
- रिमुह्यमान being deluded १६१७.
- रिमोषिन् a robber ११७७.
- रियतन control (?) १३३३.
- रियात् moving or going round or around
१७१.
- रिरक्षितृ saviour; protector १४९९.
- रिराप् (परिरप्) stander; reviler १९०.
- रिवञ्चत् going in a zigzag way; practic-
ing fraud १३९.
- परिवित्त an unmarried elder brother or
a married younger brother ४८६.
- परिविष्ट cooked; for; cooked oblation
३७४, ७५.
- परिविध्यमाण being served (food) ८२८.
- परिवीत encircled; covered २२०.
- परिवृक्कण maimed; crippled १७४.
- परिवृढ enhanced; increased; grown up
१३३७, ८६.
- परिवृत encircled; surrounded ११३, ३२,
६८४.
- परिवेविध्यमाण being served १३५५.
- परिवेष serving (food) ४७३.
- परिवेष्टितृ what surrounds or encircle
१५९४, १६०८, ०९, १६.
- परिवेष्टृ one who serves (food) ४७४, ६४
- परिव्राज् a recluse १६७१.
- परिव्राजक a recluse १६७१.
- परिशिष्ट remaining; remnant; residu
४०५, ९०३.
- परिश्रित encloser ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ५१.
- परिषद् assembly १२९०.
- परिषिच्यमान being sprinkled or watered
२७०.
- परिषुत accepted; assumed ४२५.
- परिष्कन्द a servant (running by the side
of a carriage) ४५०, ५१.
- परिष्कृत adorned; decorated ९७२, ७३, ७४
- परिष्टुति a hymn; a praise ९७, १११, १५८
- परिष्वङ्ग attachment; touch १३६४.
- परिष्वजीयसी clasping more firmly २५०.
- परिसुषिर having holes or openings a
around ३२२.
- परिस्तरण strewing or placing around
४९३

परस् a joint ४७३.

परेत departed; dead ३४२, ५६, ८७, ४००,

०१.

परेयिवस् who has gone away; dead ३५६.

परोक्ता declared as defeated; vanquished
३३८.

परोक्ष beyond the eyes of; in the ab-
sence of; beyond the reach of;
secretly; mysteriously ११६, २९१, ९३,
९४, ३०३, ०४, २८, ४०५, ५८७, ११८७,
१३३५, ३६, ४१, ५२, ५८.

परोक्षकाम liking what is secret or myste-
rious ४२, ११६, २९१, ९३, ९४, ३२८.

परोक्षप्रिय liking what is secret or myste-
rious ३०३, ०४, ४०५, ५८७, ११८७.

परोरजस् being beyond the dust; above
the world २५, १२८१, ८३.

परोवरीयस् the most excellent ७६७, ७७.

सर्च contact ९२.

पर्जन्य rain; shower; rain deified २३,
२०२, २९, ४५, ६०, ९६, ३२२, ४३२, ९८,
५०७, १४, २०, ९९, ६८४, ७८२, ८०५, ५९,
१०३६, ८०, १२९६, १३३३, ४०, ५४, ५७,
९८, १६५१.

पर्जन्यपत्नी having पर्जन्य for husband ४३४,
५०८.

पर्ण a leaf; wing ६६, १४४, ११७८, १६७५.

पर्णशय्य being in a heap of dry leaves
१४४.

पर्णशाल the falling of leaves १४४.

पर्ण्य relating to leaves १४४.

पर्यङ्क conch; sofa ६३३, ३६.

पर्यादत्त covered or overpowered fully
१३५०.

पर्याय able; fully realised; sufficient

पर्यूढा encircled; surround

पर्वत a mountain २, ४५, ४

७८, १७०, २४५, ५२, ३३६,

९७, ५०७, ६५१, ८२१, ९३

१४२५, १५७३, १६६१.

पर्वतमूर्धन् summit of a moun

पर्वन् part; section; joint

६१०, ११, ४३, ८८, ७८९, ९

पर्शु rib ४३४, ३६, ६९, ९८७.

पर्षद् an assembly ६८९.

पलालपिण्ड a lump of grou

१६७९.

पलाव a halter; an obstacle

पलाश leaf; foliage ३३१, ८

३५.

पलित grey hair; greyness;

३०.

पल्ययमान going round; r

१३६४.

पल्लिगुप्त-लौहित्य name of a tea

पवन wind ३६९, १६४४.

पवमान the Soma juice; r

purifying; being str

७३, २४५, ५१, ३०४, २७,

३४, ५०, ५१, ५५, ५६, ६९

६०६, १६, ८६, १०१४, १३

८१.

पवमानपावकशुचिसंघात a combi

rifying'; 'purifier'

१६६४.

पवमाना purifying; flowing

पवि a thunderbolt ५२५, ६

पवित् purifier ३७२.

पवित्र a purifying instru

पर ३३ ७० ७३ १३

यु a beast; an animal; a sacrificial animal; a created being २१, २४, २५, ३२, ३९, ४०, ८१, ८२, १०९, १०, १९, २९, ३२, ३३, ३७, ४५, ५०, ५१, ७०, ८१, ८२, २०१, ३२, ३३, ६३, ७२, ७३, ८१, ८६, ८९, ९०, ९६, ९७, ३२२, २४, ३६, ३९, ४६, ४७, ४९, ५०, ५१, ८५, ४०१, ०५, ३१, ३४, ३५, ५०, ५२, ५३, ५५, ७३, ७८, ७९, ८२, ५०१, ०९, १३, १५, १९, ३२, ५७, ६१, ९८, ६००, ०३, ०४, ०६, ०७, ०८, ४७, ४९, ७७, ८४, ८५, ८६, ८७, ९४, ९५, ७१५, ३८, ३९, ४०, ७६, ७७, ७८, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८७६, ८१, ९२९, ३३, ३५, ९७, १०३०, ४२, ४६, ४७, ६९, ११६९, ८१, १२६०, ८७, १३०७, ०९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३६, ३८, ३९, ४०, ४२, ४४, ४५, ४८, ५०, ५६, ५९, ६१, ६५, ६९, ९०, ९६, ९८, १५७४, १६२९, ३१, ४३, ५१, ५९, ६०, ८०.

शुक्लाम desirous of cattle १३५९.

शुतुप one who feeds the cow; one who steals the cow ७९.

शुपति the lord of the पशुस (i. e. god Siva) १२८, २९, ३०, ३२, ३३, ४१, ४३, ५०, २९६, ४५२, १६४१, ४८.

शुपालय the tending or rearing of the cattle ४६३.

शुपाशविमोक्षण loosening the fetters of the पशुस i. e. all created beings १६८०.

शुबन्ध a halter to lie the beast ४४८, ७२, १६५२.

शुमत् possessed of or rich in cattle ६१०, १२, ८७, ८८, ७७७, ८३, १३४५.

शुशीर्ष the head of a beast २९७.

श्रुत behind; after: afterwards ३४९, ३१६.

पश्यक seeing; one who sees (every thing) ४११.

पश्यत् seeing; perceiving; understanding १७५, ३३१, ८५१, ९३८, ४७, ८१, १०२२, ३०, ११०९, १०, ११, १२०१, १२, ८८, १४२५, १६६१, ६५, ६८.

पश्यन्ती seeing; perceiving (epithet of वाच्) ५१७.

पसस् the membrane virile ३१४.

पस्त्य stable; stall; house १८१, २१९.

पस्त्या water; dwelling ७५.

पांसव्य an epithet of रुद्र १४४.

पांसु dust ४०४, ५०८.

पांसुर dusty ८७.

पाक maturity; cooking; result; excellence; perfection २०८, १४, ३५, ४७८, ६०७, ८६.

पाकयज्ञ a kind of sacrifice ३०५.

पाकविशेष degree of heating or imparting heat १७९.

पाकशंस telling the truth; a thoughtful or careful speaker ३५४.

पाङ्क्त consisting of five parts; fivefold ७०१, १०४२.

पाच्य capable of being cooked or matured १६१३.

पाञ्चाल-केशी--दाभ्यं name of a teacher १३६४.

पाजस् strength; vigour; lustre ६९, ३४, ४३५, १६४३.

पाजस्य the region of the belly; the flank ४३४, ९८७.

पाणि hand ६५५, ७९, १०७१, ११९१, १२७, १३०६, ०८, १६३३, ३६, ४७.

पाणिनापेषय by rubbing him with h

पातवे in order to drink; for drinking
५०८.

पातव्य fit to be drunk ५२४.

पात्र a vessel; a particular sacrificial
utensil; drinkable; drink १४८, ६३,
२८९, ९०, ४३४, ३५, ३६, ५०९, १२८४,
१३२५, १६६५, ७१.

पात्रहस्त with a vessel in the hand ४७४.

पात्री a particular sacrificial utensil
४०५.

पाथस् food; spot or place; protection ८९.

पाद a foot; quarter; part ११, ३९, ५३, ७४,
११६, १९, ७०, २०४, ३१, ३३, ४८, ६९, ८१,
८६, ३०४, १०, २६, ४३०, ४२, ५१, ५०८,
१३, ६३६, ३८, ६८, ६९, ७४०, ८०२, १९,
२०, ३२, ३३, ७६, ७९, १०९७, १२६२,
१३३९, ४२, ५४, ८७, ८८, १४५६, १५०८,
२१, २२, २३, २७, १६३६, ४४, ४७, ५८, ८२.

पादयत् levelling on the grounding; shat-
tering १३१

पादवत् having feet ३०९.

पादावनेज्य washing another's feet २८४,
८६.

पादोदर a serpent; snake १५११.

पान drink; drinking ३४७, ५१८, ६६, ९५,
१२२१.

पानवत् rich in drinkables ९३४.

पाप sin; evil; wrong; a wrong-doer; a
sinner १७५, २८४, ३५३, ४०३, १०, ८६,
५१२, ३७, ४६, ५८, ७३२, ५३, ८३८, ९८२,
१०६०, ११२६, १२०३, ०४, ०५, १०, १९,
२९, ४७, ८४, १३३१, ४८, ४९, ५०, ५२, ५३,
५४, ८७, १४७२, १५०२, १६३२, ३३, ३४,
४३, ४४, ४७, ५१, ५९, ६१, ७५, ७६.

पापक bad; evil; a sinner; a wrong-doer
११८, ४६३, ८६, १२५५.

पापकारिन् doing wrong; a sinner १२२९.

पापकृत् a sinner ४१०.

पापत्व wickedness; sin १७.

पापनुद् dispelling or removing
१६१९.

पापसंसर्गशून्य devoid of contact
absolutely free from sin

पापा sinful; wicked; bad १

पापाह an unlucky day २८७.

पापिका sinful; evil ५६९.

पापिष्ठ the worst; most wicked
३३१.

पापिष्ठतर the most wicked or
worst ८५१.

पापी wicked; sinful; bad ३४

पापीयस् very sinful or wicked
poorer १५०, ५१, ३३८, ४६,
१२८७, १३३१, ५८.

पाप्मन् sin; misfortune;
crime; injurious १६४, २
९९, ३००, ११, २२, ४०४,
८६, ५१८, ३३, ४१, ४२, ४५,
७१७, ५१, ५२, ६१, ८८१, ९६
०४, ०७, १६, ४७, ६३, ११९
७५, १३३१, ३२, ३४, ३५,
४९, ५०, ५२, ५३, ६३, ६६,
१५११, १६३२, ३३, ४७, ५६.

पासन् itch; seab ८२५.

पायस prepared with or made of
६१७.

पायित drink etc. bestowed on
(as a religious gift) ११८२, १

पायु protection; protective
tector; guardian; anus
४९५, ६१६, ८८, ७४०,
१५०१, ०८, १६४३.

पार the further bank; shore
३००, १३३७, १४६२, १५१९,

पारथिष्णु taking to or causing
the other bank; teking a

राश्यायण name of a teacher १२६५.
 परिक्षित son of परिक्षिति ११२९.
 पृथिव earthen; earthly २४, ४४, ८७, ९०,
 ९७, १११, १९, ३५८, ४९८, ५११, १३०३,
 ३७, १६४५.
 पृथुश्रवस name of a teacher १३८७.
 पृथ्वी fit to be crossed (an epithet of रुद्र)
 १४३.
 पृष्ण-शैलन name of a teacher १३५०.
 पृष्णि the heel २४४.
 पृथ्वी side; vicinity १८०, २५२, ३१०, ४०५,
 ६९, ५०८, ९८७, ९४, १६४७.
 पृलित्य greyness; howriness ३११.
 पृक्क fire; strainer; purifier १५६, ७१,
 १४५३, १६६४.
 पृक्का purifying २५.
 पृक्कन purifying; purificatory १६५९.
 पृक्कमान a particular सामन् chanted at the
 commencement of each of the three
 libations ४४५.
 पृक्कमानी relating to the *Soma* sacrifice
 or to the *Agni Pavamāna* ४८६, ५१३.
 पृक्कमान्य name given to *Prana* because
 he has purified everything. ५४७.
 पृक्कसा a snare; noose; fetters ८५, १७३, ७४,
 ३७२, ७३, ७७, ४६१, ५०५, १४२१, १६४६,
 ५६, ६३, ६९.
 पृक्कविमोक्षण removing the fetters १६८०.
 पृक्कश्रुपत a follower or worshipper of *Śiva*
Paśupati १६८०.
 पृक्कह्वं tawny १८०.
 पृक्कङ्कल tawny; ruddy; reddish ४२६, ६८०,
 ९६६, १२०७, ३९, १६४७.
 पृक्कङ्कला tawny २७१, ५०१.

पितृ a father; the manes; the deceased
 ancestors ७, ११, १४, २०, २५, ४४, ४
 ४९, ५९, ६१, ६४, ६६, ६७, ७१, ८२, ८
 १०३, ०७, १७, २१, २२, २३, २४, २५, २
 ३३, ४५, ४६, ५०, ६०, ६१, ६३, ६४, ७
 ७७, ७८, ८३, ८५, ८६, ८८, ९३, ९९, २०
 ०५, ०९, १०, १२, १३, १५, २१, ३८, ५
 ५७, ५८, ६३, ६५, ७६, ७८, ३००, ०६, १
 २४, २६, ३१, ४०, ५१, ५६, ५७, ५८, ५
 ६०, ६१, ६२, ६६, ६७, ७२, ७३, ७६, ७
 ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९७, ९
 ९९, ४००, ०४, ०५, ०७, १३, १७, २०, २
 २८, ३०, ३५, ४७, ४८, ४९, ५३, ५५, ५
 ६३, ७८, ८४, ८६, ८८, ९५, ९६, ९८, ५०
 ०७, ३९, ४०, ९८, ६०८, १६, २६, २८, ५
 ५५, ८४, ८६, ९४, ७२८, ३५, ३७, ३८, ७
 ८४, ८५, ९९, ८५१, ५६, ८२, ८३, ९३७, ३
 ५७, १०४१, ४६, ५३, ११८२, ८४, ८५, ८
 १२१०, १६, ६८, ७५, ७७, ९०, ९२, ९
 १३०३, ३३, ३५, ३६, ४२, ५१, ५२, ५७, ५
 ६८, ८९, १४९४, ९९, १५१९, ७४, १६३
 ३४, ३५, ४३, ४५, ४६, ४८, ५०, ५१, ५
 ८०.
 पितृकार्य a rite performed in honour of
 the पितृ ७०४.
 पितृकृत done against or by a father १६४
 पितृतम most fatherly (of fathers) ६७.
 पितृदेव worshipping a father ७०४.
 पितृमत्त having a father; mentioning the
 पितृ ४६३, ११८२, ८४, ८५, ८६.
 पितृयज्ञ an oblation made to the पितृ ४०
 पितृयाण trodden by or leading to the पितृ
 the name of one of the two par
 by which the departed soul go
 (the other is देवयाण) १६३ ३७१.

पितृलोककाम desirous of the world of the
 पितृ १५८.
 पितृवध patricide ६५८.
 पितृषट्पद inhabited by the पितृ ३९८.
 पितृहन् a patricide १३८.
 पित्त bile १६५३, ५६.
 पित्र्य paternal; pertaining to or derived
 from a father; the ritual for obla-
 tions to the पितृ ७९, १९८, ३६२, ७३,
 ७४, ९२६, २८, २९, ३३, १२२८.
 पित्र्यावत् possessing property inherited
 from a father ४०३, ०५, ६३०.
 पित्तः food ४७५, ७६.
 पिनाक name of the bow of god *Śiva* १४७.
 पिन्वमान growing fat ३२२, ७०, ७१, ९७,
 १६४५.
 पिपासा thirst ३२२, ५१८, ५९, ८२, ८३, ९०७,
 ११३६, १३९२, १६५३, ५६.
 पिपील ant ४१४.
 पिपीलक ant ९२९, ३३, ३५.
 पिपीलिका an ant ५३८, १०२०, ४१.
 पिप्पल name of a particular tree (the
 sacred fig-tree) २१३, १५, १२२१, १४६८,
 १६०४.
 पिप्पलाद name of a teacher १४९०.
 पिप्पुषी fostering; swelling; nourishing
 ४९.
 पियाह censuring; mocking; mischievous
 १३२.
 पिशाङ्ग brown; ruddy; tawny ९६.
 पिशाच an evil spirit; a demon; a goblin
 १६०, ३०६, ८२, ५०९, १६५३, ६७.
 पिशुन wicked १३२.
 पिहित covered १६५९.
 पीत yellow ६८०, ९६६, १६४०, ८२.

पीडमती the central or mid
 the sky ३८८.
 पुंश्चली a wanton woman ×
 पुंस् man; a male being; a
 ३१, २१२, ४८, ५०, ५२, ६३
 ३३, ७५, ६३०, ११०९, १३०
 ८६, १४५७, १६०९, १५, ५८
 पुच्छ the tail; the last pa
 the end or concluding
 ४३४, ५६३, ७०६, १४, १५,
 १३५५, १६६४.
 पुञ्जिष्ठ heaped; accumulatio
 पुण्डरीक a lotus २५१, ७६१,
 १६३६.
 पुण्य auspicious; merito
 holy १२०, ६४, ७९, ८१,
 ५३९, ४०, ९०, ६४२, १०
 १२०३, ०४, ०५, १०,
 ४८, ५०, १४५०, ७२, १५०२
 ७६.
 पुण्यकृत् meritorious; piou
 १३३१, १६३३.
 पुण्यकृत्य (त्या) a good deed
 act १३३८.
 पुण्यगन्ध fragrant; having
 १६४.
 पुण्यगन्धि fragrant; having
 १६४.
 पुण्यजित won by merits o
 ९५७.
 पुण्यलोक possessors of mer
 ४०२, ७८६.
 पुण्यलोकविजित्यर्थ for winning
 meritorious world १६०
 पुण्यहाह an auspicious day

- पुराणी ancient; premordial २५०.
पुरातन ancient; belonging to the ancient times १६७६.
पुरिषाय lying in town i. e. the body (said of the soul) ११११, १५११.
पुरी a town ३२२.
पुरीक्य a species of aquatic animal १३२.
पुरीतत् the pericardium or some other organ near the heart ४३४, ६८०, १०७६.
पुरीष excrement; ordure; earth; land २५, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३८, ३२८, ४००, ०१, ०४, ८९९, १५९०.
पुरीषिन् rich in moisture २१०, १४९४.
पुरीष्य being in the earth १३६८.
पुरु many; various ५२, ८३, १९२, ४१८, १६४८.
पुरुजात variously manifested or appearing ४९६.
पुरणीथ a choral song; name of a king (comm.) ४.
पुरत्रा (=पुरुत्र) in many places or directions; variously १८८, २३७, ४४, ४९, ४९०.
पुरथा in many ways; frequently; variously ६२, ९४, ३६२, ६३, ४५७.
पुररूप multiform; variegated ५४, १२६, २३०, ११११, १३४३.
पुरवेपस् much excited or exciting; very active १८.
पुरशाक helpful; having many branches (P) १७३.
पुरश्चन्द्र much shining; resplendent ९२.
पुरुष a man; human being; a being; soul in the body १३, ३३, ३३, ३३, ३३, ३३

७६, ७७, ७८, ८१, ८५, ९०,
०७, ०९, १६, २४, ५६, ५९
७२, ९९, ५०१, ०७, ०८, १८
३२, ३९, ५७, ६१, ७२, ८१
९४, ६००, १३, ३०, ४४,
७६, ७७, ७८, ७९, ८०,
९०, ९१, ९९, ७०६, ४०, ४७
७९, ८३, ८०१, ०३, ०७,
३७, ३९, ४०, ५९, ६१, ७३,
०४, ०७, ०८, ०९, २१, २३
१०१६, ४२ ४७, ५६, ६७, ६८
७४, ८४, ८५, ११०३, ०५, ०
२४, २५, ४८, ६८, ७०, ७१, ७
९०, ९१, ९२, ९७, १२००, ०९
०५, ०६, ०९, २१, २३, २९
८४, ९७, ९८, १३०१, ०५, २
४०, ४२, ४३, ४४, ५४, ५५
६०, ६४, ६५, ६७, ६८, ६९,
८८, ९०, ९८, १४१४, २५, २९
४७, ५२, ५३, ५७, ५९, ७०, १
०२, ०४, ०५, ०८, ११, १४,
७४, ७५, ९४, ९५, ९७, ९८, ९
३०, ३१, ३६, ३७, ४०, ४१
५१, ५५, ५७, ५८, ६०, ६१
७३, ७६, ७८, ७९.

पुरुषत्व manliness; the cl
term पुरुष १५९, ३०६.

पुरुषत्वता wealth of heroes ९९

पुरुषदैवत्या having पुरुष for de
the अर्धमात्रा in the syllab

पुरुषनाय leader of men; a
०८.

पुरुषमेध human sacrifice ४७

पुरुषयुग generation १६८१.

पुरुषविध man-like; having a human form

४२, ७१४, १५, १६, १७, १८, १०१६.

पुरुषविधता human form ७१४, १५, १७, १८.

पुरुषसंज्ञ having the name पुरुष; called पुरुष १६५४.

पुरुषाम्नि man conceived of as fire १३००.

पुरुषाद् eating or destroying men ५०९.

पुरुषायण going to or uniting with the soul १५१७.

पुरुषायुस् the span of human life ५४४, ७५.

पुरुषोत्तम the highest being ३३६, १५७४.

पुरुष्टुत praised by many ५६, ५७.

पुरुस्पृह much desired ६२, ६८७.

पुरुहूत invoked by many ५३, ५६, ५७, ३४४, ४००.

पुरुची facing many directions २४४.

पुरुवसु abounding in goods or riches ६.

पुरुवत् moving in various ways २४५.

पुरुगेव one who precedes; a leader ५०८.

परोडाश the leavings of an offering ३९३, ४७३, १६६५.

परोधस् the leader; chief priest १३५६, ५७.

परोनुवाक्या an introductory or imitatory verse ३१५, १११८, २०.

रोवात wind preceding a thunder-storm ७७५, १३३३, ४०.

रोहित a priest १, १९२, २५४, ३१५, १७, ४८, ५२४, १३४८.

रुलित (v. l. पुलस्तित्) an epithet of रुद्र (भक्तानां पुलस्तित्प्रतीति-comm.) १४४.

रुलिन a sandy bank १६७१.

रुकर a lotus ४३६, ५०८, २२, १६५५, ५८, ७७.

रुकरपर्ण a lotus-leaf ३२, ३७, ११४, १७, १८, ५७, ५८, ६४, २८१, ८६, ८७, ३०५.

पुष्कलाद्य rich in food ३३६.

पुष्ट nourished; nurtured ४६, १३७, ४३१५, ९०, ५०५, ०८.

पुष्टि nourishment; prosperity २१, ४४९, ४७४, ५०१, १६३२, ४७, ४८, ७८.

पुष्टिकाम desirous of nourishment १६४८.

पुष्टिपति the lord of nourishment ५०१६४८.

पुष्टिमत् nourishing; nutritious ८७५.

पुष्टिवर्धन enhancing or increasing nourishment ३३६, १५७४, १६४६.

पुष्प a flower २५०, ५६८, ६३३, ७९३, ९५, १३०५, ६८.

पुष्पिणी having flowers; being in blossom ५०.

पू cleansing; purifying १६३४.

पूत pure; purified ३६९, ७५, ४२०, १२४५, १३४५, ४६, ४७, ५४, १६३३, ५४, ६३, ६४, ६६, ७६, ८१.

पूतदक्षस् of pure thought or intention ७४१२०.

पूतद्रू name of a particular tree ३८५.

पूयमान being strained or distilled; being purified ७३, १६४५.

पूरु many; wide ३, ६०.

पूरुष man; human being २३१, ४४, ४५८०२, १२४०.

पूरुषघ्न man-killer १४६.

पूर्ण full; filled; complete ८९, १७७, २५०, ३७१, ५६९, ६७६, ७१५, १६, ८०३, १०६८, १२०७, ६६, ८३, १३०३, ४५, १४४६, १५९५, १६३६, ५३.

पूर्णा full; filled; complete २६९, ३७०.

पूर्यण (the path) by which (the manes)
go to their own place or world
(comm.) ३५६, ९८.

पूर्व east; eastern; former ६१, २४९, ७४,
३१६, १९, २०, २१, ५६, ५९, ६२, ६७, ९२,
९५, ९६, ४००, ०१, १५, २२, ६२, ७३, ७४,
७८, ८३, ९३, ५०७, २३, ६०३, ३६, ४४, ४९,
८५, ७१५, १६, १७, २०, ९९०, १०१६,
११८९, १२०५, १३१६, ३१, ३२, ७४, ९०,
१४२२, १५९३, १६१८.

पूर्वङ्गवरी acting beforehand ५०७.

पूर्वज ancestor; former; born earlier;
ancient ५६, १३४, ४२, ४१५.

पूर्वजन men of former times ५०७.

पूर्वपक्ष the fore-part or side; the first
half of a lunar month ५४०, ६२९,
१११७.

पूर्वपाद a fore-foot २६६.

पूर्वपेय precedence in drinking ५०६.

पूर्वप्रज्ञा knowledge of the past; memory
१२२४.

पूर्वरूप the first of two concurrent
vowels or consonants ५१०, ९७, ९८,
९९, ६०३, ०४, ०८, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७,
९४.

पूर्वहृति morning prayer; the first or
earliest invocation ४९७.

पूर्वा east; eastern; former ३०८, ४९४, ६४७.

पूर्वार्ध the first half or the earlier part
९८७.

पूर्वाह्नि the earlier part of the day from
morning up to the noon ४८५, ९३,
८७३.

पूर्वा former; many ४१८.

पूर्वा ancient; former ५० ६० ८३ १११

पृक्ता sticking; stuck up ३१०

पृक्ष् (पृक्ष) food; nourishment
४१८.

पृच्छमान inquiring; asking ४०४

पृणत् filling; pleasing ६६, ३०४

पृतना an army १९, ७४, १०१,
३४१, ४२.

पृतनाजित् conquered an army
१६३४.

पृतन्यत् attacking; invading ४०४

पृतन्यु hostile; attacking २४.

पृथक् separate; distinct; di-
१०९६, १३३२.

पृथग्भाव separateness; distin-
rate existence १४३५.

पृथग्लक्षण having distinct a-
characteristics १६६२.

पृथग्वर्त्मन् having different a-
paths ४०, ४१, ८७५.

पृथङ्नामधेयी having different
of the rivers flowing in
directions) ४७१.

पृथिवी the earth; ground २,

२४, २५, ३९, ४४, ४५, ४९,

५८, ६२, ६३, ६६, ६७, ६९,

७३, ७७, ७८, ८३, ८४, ८६,

९६, ९९, १००, ०१, १०, २०,

४९, ५७, ६१, ६२, ६३, ६९,

७४, ७७, ७८, ८५, ८७, ९४,

२०२, ०४, २१, २७, ३०, ३९,

५३, ५६, ६०, ६१, ७९, ८०,

८८, ८९, ९३, ९४, ९५, ९६,

२२, २४, २५, ३६, ३९, ५१,

६३, ६४, ६५, ६६, ६८, ७२,

९०, ९४, ७०१, ०६, १४, २८, ३९, ४७, ७४,
७५, ८३, ८०१, ११, १४, २१, ३२, ३६, ४८,
५९, ७६, ७९, ८१, ९२९, ३२, ३३, ३५, ८७,
९४, १०५३, ५९, ८०, ९१, ११०३, २५, ३०,
४८, ५८, ६८, ६९, ७०, १२६०, ९६, १३००,
०४, ०६, ०८, ०९, ३०, ३१, ३३, ४०, ४२,
४३, ४४, ६०, ६१, ६८, ८०, ८१, ८६, ८७,
१४४७, ५५, ५६, ५७, ६१, ९७, ९८, १५०२,
०८, १६, ७३, ८५, ८९, १६१७, ३२, ३३, ३४,
४४, ४८, ५१, ५३, ५७, ६४, ७५, ७८, ८१,
८२.

पृथिवीक्षिप्त dwelling or residing on the
earth ७९०, १६६५.

पृथिवीत्व earthness १५७, २८२, ८७.

पृथिवीप्र filling the earth १७२.

पृथिवीमय consisting of the earth १२२९.

पृथिवीमात्रा the element of the earth १५०८.

पृथिवीलोक the earth ११२०.

पृथिवीश्रित resorting to or resting or dwe-
lling on the earth १६६०.

पृथिवीषद् sitting on or residing on the
earth ३९९.

पृथिव्यायतन staying on the earth; having
earth for the substratum ६८५.

पृथु broad; extensive ८, ५९, १७५.

पृथु-वैश्व name of a king; son of वेन १३३३,
३९, ४३.

पृथुका having a broad tuft of hair
१३०९.

पृथ्वी the earth; ground १२२, ९४, ४१८,
१६३४, ४३.

पृथ्वि name of the mother of मरुत्; a vedic
deity; speckled; white ३७, ८६, १०६,
२०५, २५, ९४, ४७८, ९८.

पृष्टि a rib २४४, ३१४, ४३४, ५०८.

पृष्टिवाह carrying on the sides or on the
back ३९५.

पृष्ठ back; top २३, २४, ४९, ५९, १६१, ७०,
२१०, ३०, ४८, ९४, ३०७, १५, ५२, ६९, ८०,
८८, ९३, ९६, ९८, ४०८, २३, २६, ३०, ३१,
३४, ४१, ७५, ७०३, ८०५, ९८७, ९४, १४५,
१६२८, ३३, ३४, ४७, ६४.

पृष्ठतस् from behind १०५०.

पृष्ठशमनीय name of a particular अग्निष्टो
४७२.

पेषिषान adorning; decorating १६१.

पेषा fit to be drunk ३०३.

पेरु rescuing; carrying across; deliver-
ing २७०, ४९८.

पेशनी well-formed; beautiful २४४.

पेशस् form; body ३१७, ४८, १२२७.

पेशस्कारिन् a goldsmith १२२७.

पैङ्गय name of a teacher ६४१, १३०४.

पैप्पलाद name of a teacher १६८२.

पोत् one of the 16 priests at a sacrifice
४६१.

पोत्र the Soma-vessel ५.

पोत्रीया pertaining to पोत्र ४६२.

पोष nourishment ४९२, ५१४.

पौर्य mighty; warlike; manly; might-
prowess ५०, ५७, ९०, ३६४, ६३८.

पौतिमाषीपुत्र name of a teacher १३१०.

पौतिमाष्य name of a teacher १११४, १२६५.

पोत्र grandson; son's son ४४८, ६४७, ४५०,
१३९६.

पोत्रायण name of a teacher ८२२, २४, २५.

पौरुशिष्टि name of a teacher ७०२.

पौरुष prowess; manhood; manliness

पौलोम name of a class of demons
 ६५७.
 पौलकस the son of a निषाद or of a रुद्र
 father and a क्षत्रिय mother १२१०.
 पौष्करसादि name of a teacher ६८४.
 प्रउग name of a particular साम chant
 २७७.
 प्रकरणज्ञ one who knows the matter in
 hand ५२४.
 प्रकल्पित fashioned १६६०.
 प्रकाश light; manifest ५४०, १६८२.
 प्रकाशप्रक्षेपक discharging or diffusing
 light १६६८.
 प्रकाशभूत of the nature of light; radiance
 १६६७.
 प्रकाशवत् possessed of light; lustrous ८३२,
 ९३६.
 प्रकीर्ण diffused; spread out; scattered
 १३३४.
 प्रकृति the original; the material; source;
 the original cause (of the world);
 nature ५२३, २४, १६०६.
 प्रकृतिभेदवश the force of the developing
 differentiation of nature १६६३.
 प्रकृतिमय made of or consisting of nature
 १६५५.
 प्रकृतिलीन merged into प्रकृति १६३७.
 प्रकृन्त dacoit; marauder १३९.
 प्रकृत distinction; distinguishing mark
 or feature २४०, ७६.
 प्रखिखदत् (v. l प्रखिदत्) extremely torment-
 ing (an epithet of रुद्र) १४४.
 प्रकी name of a particular एकाह सोम sacri-
 fice ४४६.
 प्रग going forward; hanging from the

प्रचेतस् name of a deity;
 gent ८१, १८८, ३८७, १५७
 प्रचोदयित् driver १६५४, ५५.
 प्रचोदित declared १६२७.
 प्रच्युत shaken; dropped; co
 प्रच्युति moving out; falling
 ५१४.
 प्रजन begetting; procreatio
 प्रजनन progeny; begetting
 the male organ २६६,
 ४०३, ७४, ७९, ६०८, ८६, ९
 १६५१.
 प्रजनिष्णु procreating २८६.
 प्रजा created being; creat
 people; progeny; off-s
 ३९, ४०, ४९, ६०, ७१, ९४
 ५०, ५१, ५३, ६२, ६६, ६
 २००, ०१, ०२, ४५, ४९, ५
 ७१, ७२, ७६, ७९, ८१, ८
 ९५, ३०४, १५, २२, २४, २
 ३५, ३६, ५१, ६०, ६२, ४०
 १२, १३, २०, २१, ३२, ३
 ५९, ७३, ७४, ७७, ७९, ९८
 १३, १६, १९, २७, २८, ३
 ६००, ०३, ०४, ०६, ०७, ०
 ५०, ७७, ८४, ८५, ८६, ८७
 १४, ३८, ३९, ५४, ६७, ८
 ९९, ८२४, २०, ५६, ७५, ७
 १६, १८, ५५, ६०, ८४, ९७,
 ६८, ६९, १२८७, ९२, १३०
 ३६, ३७, ३८, ४०, ४३, ४
 ५१, ५६, ६१, ६२, ६३,
 १४५७, ५९, ८०, ९१, ९३,
 १५०४, ७३, ७४, १६०१, २
 ३६, ४४, ४६, ४७, ५१, ५५

जाति birth; generation ३२८, ६३८ ५५,
६८, ७०, ७०२, १२८९, १३०२, ४९, ५०.

जातिकाम desirous of procreation or
creating १५०.

जानत् knowing; wise १०१, १३९७.

जापति the lord of creation; the creator;

a vedic god ब्रह्मा २९, ३०, ४४, ९६, १०९,
१२, ५०, ५७, ६०, ७२, ७३, ७८, ९७, २००,

०१, ०२, ०३, ०४, ३०, ४७, ४८, ४९,
५३, ५४, ५५, ५६, ५९, ६६, ७२, ७३, ८०,

८२, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९४,
९५, ९६, ९७, ९८, ९९, ३००, ०१, ०४, ०५,

०६, १२, २२, २४, ३१, ३३, ३८, ५१, ७४,
७९, ४०३, ०९, १९, २२, २४, ३०, ३२, ३३,

३४, ३५, ४३, ४४, ५०, ५३, ५५, ५९, ६०,
६५, ६६, ६८, ६९, ७२, ५०५, ०९, ११, १२,

२१, २३, २४, २९, ३१, ९४, ६२३, ४८, ४९,
५०, ६९, ७७, ८९, ९२, ७२८, ४०, ७२, ७३,

८५, ८६, ८९, ९९, ८४८, ५१, ९६९, ७०, ७१,
७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ८२, ८३, ८४,

१०५५, ५६, ६१, ११६७, ६९, ७२, १२६८,
७०, ७२, ८७, १३०३, ०५, ०९, ११, ३०, ३२,

३३, ३४, ३५, ३६, ३९, ४३, ४४, ४५, ४८,
४९, ५२, ५५, ५८, ५९, ६१, ६४, ६६, ६७,

७०, ८६, १४९१, ९३, ९५, ९८, १६०१, २८,
३०, ३१, ४५, ४६, ४८, ५०, ५१, ५४, ५७,

५८, ५९, ६१, ६३, ६४, ६७.

जापतिव state of a प्रजापति; title to the
name प्रजापति ३०४.

जापतियज्ञ name of the अग्निष्टोम sacrifice
२८६.

जापतिलोक the world of प्रजापति ६३२, ११४५,
१२१६.

जापतिव्रत the rule of प्रजापति १४९६.

प्रज्ञ conscious; of the nature of con-
sciousness; intelligence १७०, ५९,
६८१.

प्रज्ञता quality of intelligence ११८२.

प्रज्ञा intelligence; knowledge; conscio-
usness ६३६, ३८, ४२, ४३, ५९, ६५, ६७ ६९,
६९, ८६, १२४६, १३४२, १५००, १६०९, ४७

प्रज्ञातव्य known; perceived ६६९.

प्रज्ञातृ perceiver; knower ६१८.

प्रज्ञात्मन् the intelligent soul (i. e. hav-
ing intelligence as its essence) ६१९,
१६, ५३, ५८, ६५, ७१, ८१, ८८, ८९, ९१.

प्रज्ञान consciousness; sentience; intell-
gence ३३४, ४४३, ५५९, ९३, ९४, १४०,
१५७३, १६६४.

प्रज्ञानघन mass of consciousness १२६,
१५२३.

प्रज्ञानेन्द्र having intelligence for his eye
५९४.

प्रज्ञापेता devoid or destitute of sentience
or intelligence ६६९.

प्रज्ञामय consisting of intelligence ५५४.

प्रज्ञामात्रा the sense organs ६७१.

प्रज्ञावत् possessed of intelligence १३४३.

प्रणख finger-nail tip ७६०.

प्रणयन being taken १५०६.

प्रणव the sacred syllable; the syllab-
ल ३३६, ५२२, २३, ७५८, १४६०, १५७,
८४, १६५८, ६२, ६६, ७५, ७९, ८१, ८२,
८३.

प्रणवात्मन् having प्रणव for its soul
essence १५७४.

प्रणवोक्कार the sacred syllable ॐ call-
प्रणव १५७४.

across; deliverer ८, १४३.
 प्रतर्दन name of a man; son of दिवोदास
 ६५६.
 प्रतापवती in its heat form; in the form
 of प्रताप (heat) १६५८.
 प्रतिगर् response ७०२.
 प्रतिगृहीत accepted; taken १२८९.
 प्रतिगृह्यत् receiving १९.
 प्रतिग्रह acceptance; receiving ४८६, १३४८,
 १६३३, ४३, ७८.
 प्रतिग्रहीतृ receiver ३३८, ४३२, १३६९.
 प्रतिचक्षणाय to be looked upon; for looking
 at ५४, ११११.
 प्रतिचक्षण observing ७०.
 प्रतिज्ञात declared; asserted १२९४.
 प्रतितद्विद् who knows the opposite of it
 ६३०.
 प्रतिदधान putting (the arrow) on (the
 bow) १३९.
 प्रतिदीवत् a rival gambler ४८४.
 प्रतिदेवता corresponding divinities १४८५.
 प्रतिधातवे for planting or placing (foot)
 ७४.
 प्रतिन्यायम् according to entrance १२०३,
 ०४, ०५, १९, २१.
 प्रतिपद् a name of the गायत्रोपसाना १३६६, ७२.
 प्रतिपद access १२९२.
 प्रतिपाण protection on all sides; an all
 round protection ३४१.
 प्रतिपूर्ण completely filled ८३५.
 प्रतिप्रस्थात् name of one of the 16 priests
 at a sacrifice ४६१.
 प्रतिबुद्ध awakened १२४१.
 प्रतिबुध्यमान waking up ५१०.
 प्रतिबोधन animation; making animate or
 sentient १६५४.
 प्रतिबोधवित्त perceived at every moment
 or in every बोध (functioning of

प्रतिमा comparison;
 image २५५, ७७, ३०
 प्रतिमान rival; repres
 ४४, ४७, ६७, १६३२.
 प्रतियोगि according to
 ०५, १९, २१,
 प्रतिराद् who has com
 ४०४.
 प्रतिरूप corresponding
 pear; similar in
 ६३३, ७७, ९७२, १०
 १३३७, ४३, ४४, १४३
 प्रतिलोम contrary to th
 १०७१, १३०७.
 प्रतिलोमरूप contrary
 things ६७८.
 प्रतिवक्तृ explaining; a
 प्रतिवचन reply; rejoind
 प्रतिविजित defeated; va
 प्रतिविधि the antidote
 प्रतिवेश neighbourhood
 प्रतिवेश्य name of a tea
 प्रतिशौचरी serving as a
 place ५०८.
 प्रतिश्रव answering १४२
 प्रतिश्रुत्का echo; reverbe
 प्रतिष्ठमान starting out
 ९८.
 प्रतिष्ठा stability; resting
 dwelling; prop; su
 dary ३०, ३४, ३५,
 ११३, १९, ५७, २०२,
 ८६, ८९, ११, १२, ९१
 ४००, १९, २७, ४२, ६
 २०, ८१, ९४, ७०६,
 ४०, ६६, ८५०, ५२,
 १०१४, ११८२, ८४,
 ८९, १३०२, ०५, ३५

निष्ठाञ्छिन्न bereft of प्रतिष्ठा or foundation
११३.

निष्ठा न firm standing-place; foundation
२५.

निष्ठावत् having a foundation or support
७४०, १६४३.

निष्ठासंस्ताव praised as a support ७६६.

निष्ठित established; well-founded;
propped; supported ३९, ४२, ११०, १३,
२०, ५३, ५४, ५८, ७८, ७९, २४६, ४७, ४९,
८२, ९०, ९२, ३१४, १८, २३, २५, ३०, ३५,
४१, ४०७, ६०, ७२, ५८२, ९६, ६२६, २७,
९०, ७३८, ३९, ८०१, ७६, ९३०, ३१, ३२,
४६, ९४, १०१४, ४६, ४७, ७४, ७६, ८५, ८६, ८७,
१२४२, ७३, ८१, ८२, १३३३, ३७, ३८, ४२,
५५, ५६, ६०, ६१, १४६३, ९६, ९८, ९९,
१५००, १५, १८, ७३, १६३२, ३७, ५०, ५१,
६४, ६९, ७६, ७९.

निष्ठिति standing firmly; a firm stand;
firmness; establishment; firm foot-
ing १६४०, ४३.

निष्ठितं compact; well-arranged १३५६.

निष्ठेसर an amulet; a cord worn as amu-
let (epithet of रुद्र) १४२.

निष्ठेस्मान् taking to oneself; utilising
७७१.

निष्ठेर्तृ name of one of the 16 sacrificial
priests ४६०, ६१, ७६९, ७१.

निष्ठेहार striking against; touch; name of
particular syllables in सामन् hymns
७७१, ७४, ७५, ७७, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४,
१३३१, ३३, ३४, ३५, ३६, ३८, ४०, ४१, ४६,
४८.

निष्ठेहारभाजिन् partakers in the प्रतिहार

प्रतीक outward form; shape; face; image
symbol १०४, १०४६, ४७, १२९३.

प्रतीक्षा expectation १३९०.

प्रतीची facing; coming from behind
westward; western १४९, ६०, ३०,
०५, ०६, १८, ४५०, ५१, ५२, ५५, ७०, ७०,
९२, ५०८, २२, ७७६, ८१३, ३२, ९१७, ९१,
११७५, १३३८, १४९२, १६६१.

प्रतीचीन turned towards; western
coming from behind १२९, ३२४, ४२.

प्रतीत convinced १३९१.

प्रतीदर्श name of a man १३७०.

प्रतीबोध vigilance ३७९.

प्रतीवाह fee; reward ५२३.

प्रतीहार see प्रतिहार ४४७, ७७६.

प्रत्यूष्ण recitation of the पदपाठ ६८५.

प्रतोद a whip; a goad ४५०, ५१, १६५५.

प्रत्ता bestowed; given १३९७.

प्रत्ति giving; imparting. १३४८, ५६.

प्रत्न ancient; former; preceding ५५, ६०,
७१, ७३, १०२, ६१६, ८७, ८१७.

प्रत्यक्ष visible; perceptible १७९, ८०, २४०,
३०८, ४७३, ६९३, ७०६, १३३९, ४९.

प्रत्यक्षदर्शन actual sights or things
observed (which foretell impending
अरिष्ट) ६१७.

प्रत्यक्षद्विष् not liking that which is clear
३०३, ०४, ११८७.

प्रत्यगात्मन् individual soul १४२०.

प्रत्यङ्मुख facing the west; with face
turned away १६३१.

प्रत्यञ्च turned towards; facing; facing
west; in the opposite direction; westward
१७१, ७७, २५६, ३०७, ४३२, ४३३.

प्रत्यवस्थित standing separately; remain-
 ing firm १३३७, ३८.
 प्रत्यस्त disappeared; cast out; thrown
 १२३६.
 प्रत्यस्तम् in the reverse manner or order
 ७६६.
 प्रत्यायनम् at its every return ८२२.
 प्रत्याश्रावित that which is proclaimed in
 the antiphon १३०३, ६९.
 प्रत्यास्वर the reflecting ७५५.
 प्रत्याहार abstraction; withdrawal of sense
 १६६१.
 प्रत्युक्त answered; refused १३४८.
 प्रत्युत्थायिन् rising up ४०९, १३००.
 प्रत्यूढ carried astray ९६०.
 प्रत्येनस् policemen १२२१, २२.
 प्रथ extended; extensive १७५.
 प्रथम first; foremost; best १५, ३५, ४४,
 ४५, ४९, ६७, ६९, ७१, ७२, ७६, ९६, १४१.
 प्रथमज first-born; ancient २२, १००, ०८,
 ६०, ६२, २००, ०१, २२, ५७, ७४, ९३, ३०६,
 ४९, ७४, ४१३, २७, २८, ७७, ८३, ५०९,
 ७४०, १२७१, १६३१.
 प्रथमनिर्भिण्ण recently opened १३५९.
 प्रथमभाज् one to whom the first share is
 due १८१.
 प्रथमास्तमित having just set ७७९.
 प्रथमोदित having just after sun-rise ७७८.
 प्रथयत extending १३४१.
 प्रदक्षिणम् from left to right ४०५.
 प्रदिवम् (Acc. of प्रथो) ४०१.
 प्रदिश sub-quarters ४६, ५९, ७१, १३०, ६०,
 ७०, ७२, ७३, ९५, २००, २१, २५, ३०, ४७,
 ४८, ५६, ५७, ६७, ७३, ३०६, ३६, ३९, ४०,

प्रद्योत flash; light; refulger
 प्रद्राणक a very poor man ७
 प्रधान spoil; booty ३६७.
 प्रधान primary matter १५८
 प्रधानक्षेत्रज्ञपति the ruler of
 matter and of the spirit
 प्रधानज produced from pr
 १६२१.
 प्रधानान्तःस्थ standing in
 matter १६५९.
 प्रधि felly (of a wheel);
 २२८, ४९; १०५६.
 प्रध्यायितव्य to be meditated
 प्रध्वंसन name of a teacher
 प्रपञ्च expansion; manifest
 प्रपञ्चोपशम cessation of
 १५२५, २८.
 प्रपतिष्णु flying up; desirou
 १३४४.
 प्रपद the fore-feet ४४२, ५
 प्रपदन access; approach ९६८
 प्रपन्न going into (any
 resorting to (some o
 ७८६, १३५३.
 प्रपश्य who observes closely
 रुद्र) १४४.
 प्रपितामह grand-father; fa
 ३९७.
 प्रपीता drunk; assumed ३४४
 प्रपीन swollen out; distend
 ३९४.
 प्रपूर्व्या choicer; better १३०८
 प्रबद्ध fastened; fettered ९०
 प्रबुद्ध awakened १६७५.

भु the lord; powerful; superior ७०,

१९२, १३२, १५१७, ९८, १६४९, ६१, ७३.

भू the overlord १७५.

भूत much; many २६१, ७४, ५०१, १३३२.

भूति prosperity; abundance; opulence

८२, ९६, १३५०.

भूमित (the hall) erected by the lord

९६५.

भ्राजमाना shining bright; radiating with

refulgence २४६.

भ्वी powerful; overpowering ३९१.

संहमाण highly exalted or raised २७०.

मति very intelligent; high intelligence

or intellect ३९१, ४८२.

न) प्रमदितव्य should (not) swerve

७०४.

मयु perishable; liable to disappear

३७९.

मा measure; dimension २४८, ७७.

माण means of knowledge १६६०.

माद infatuation; mistake; swerving

१४८२, १६५६.

माद्यत् committing a mistake; heedless

१४००.

मामुक perishable. १०२७.

ममर death ३१३.

मुक्त delivered; freed १३९१.

मुद् joy; enjoyment; pleasure ३११, ५६,

४४९, ११९८.

मूढ deluded १४५१.

मृणत् shattering; destroying १३२, ३४३.

मृश laying hold of; handling (epithet

of रुद्) १४२.

मेय object of knowledge १६६०.

प्रयत् definite; efficacious; unfailling

४१५.

प्रयति intention; will; exertion; dona

tion २४२, ७६, ३१५.

प्रयाण march; departure; movement

moving forth ९७, १११.

प्रयियासत् desirous of going out १२२२.

प्रयुक्ता properly employed १५१३.

प्रयुज् companion; impulse; motive ३११

प्रयुत a million १५७३.

प्रयुतधा in a million parts १३३३, ३७, ३८.

प्रयोग performance ५०१.

प्रयोगकल्प the precept for effecting (thi

unity) १६६१.

प्रयोगस्थ devoted to (such) practic

१६५९.

प्रयोग्य a draft-animal ९७९.

प्रयोत् deliverer; separator ८०, ४८२.

प्ररिक्त् reaching beyond; surpassing ४५

प्ररुद् shooting forth; off-shoot १६८.

प्ररोह off-shoot; sprout ४०६.

प्रलय destruction १६८२.

प्रलाप idle talk ३११.

प्रलोभ greed १६६३.

प्रवक्तृ a good speaker ५०१.

प्रवचन explanation; exposition; teachin

६९४, ७०२, ०४, १४०७, ८२.

प्रवत् elevation; height; slope of

mountain; sloping; going on a stee

path १७१, ७२, ३५६, ६३, ९४, ४३४, ५०

६९५.

प्रवयस् strong; vigorous ५२.

प्रवरणीय who is to be sought १६५९.

प्रवर्ग्य a ceremony initiatory to सोम sacr

प्रवाहन a carriage; a vehicle ७२४, ६१, ६६,
८५६, १२९०, ९३.

प्रवाह्य an epithet of रुद्र १४३.

प्रविद्वस् who knows fully or deeply २७३.

प्रविद्विक्तमुक् eating on some particular
type or quantity of food; enjoying
the exquisite १५२२.

प्रविद्विक्ताहारतर taking only some particular
food; eater of finer food ११८७.

प्रविष्ट entered १५६, २५१, ६६, ६८, ६९, ३२८,
४५, ४६९, ९०, ५०९, १०२२, १२४१,
१३५८, ६८, १४१०, ३०.

प्रवृद्ध grown exuberantly १३४९.

प्रवेपान throbbing; trembling ४१२.

प्रवेश entrance १६७१.

प्रव्रजित turned a recluse; renunciation
१६६७.

प्रव्रजिष्यत् about to turn a recluse १२५९.

प्रव्रज्या renunciation १६६३.

प्रव्राजिन् a recluse १२४७.

प्रशंसा praise; appreciation १०४७.

प्रशंसाकाम desirous of praise or apprecia-
tion ७७८.

प्रशस्त commendable; praiseworthy;
praised ४६२.

प्रशस्ति praise ८२.

प्रशाखा sub-branches १६६८.

प्रशान्त pacified; tranquil; calm १४८३,
१६७३.

प्रशान्तचित्त whose mind is pacified or
tranquil १४५३.

प्रशासन rule; command ८५७.

प्रशास्तु ruler; commander ४६०.

प्रशास्त्र the office of the प्रशास्तु priest ५.

प्रशिष्य order; instruction १७४, ७५, ९५,
३१२, १५७४.

प्रशिष्टि injunction; instruction; order
३४८.

प्रश्न a question २६, ११८, ३३८, ५२३, २४, ८५७,

प्रशिष्टिवाहन (a chariot) drawn also
horses i. e. yoked with at least
horses ५९८, ६८४.

प्रष्टु interrogator; one who asks
प्रसन्नात्मन् whose mind or soul
१६६१, ६४.

प्रसर्ग moving on or forth ३६१.

प्रसव bidding; command ९८,
२०३, १५८७.

प्रसवनिवेशनप्रभु the master of the
living (of all) १२०.

प्रसवितु impeller; one who urges
१३६०.

प्रसाद perpetuity; pleasure;
१५९९, १६३५, ६१, ६४.

प्रसाधन accomplisher १७०.

प्रसामन् a particular सामन् १३३४.

प्रसारण elongation; lengthening;
ing out ५२३.

प्रसाह overpowering ६७.

प्रसित tied; bound ६६.

प्रसिति binding; a tie; tempt
४८५, १६४३.

प्रसृत a Soma libation ४०३,
८७४, १०६८.

प्रसू generating; germinating
herbs; plants; the सोम प्रसू
ceived as the mother
juice) ५०, ४९७.

प्रसूत delivered; born ४६०,
६३०, १३६०, ६१, १६१२, २९.

प्रसूति delivery; origin; production
१६५४, ६०.

प्रसूती deliverer; producer ११०.

प्रसृत moved; spread out १४६९.

प्रस्तब्ध stiff; steadfast १३०३.

प्रस्ताव commencement; beginning
७६९, ७०, ७४, ७५, ७६, ७७, ८०.

स्तुत the hymn chanted by the प्रस्तोत्र
४०६, ४५.

स्तोत्र one of the 16 priests at a sacri-
fice ४६०, ६१, ६२, ७६९, ७०, १०१४,
१३६०, ६१.

स्यन्दिन् flowing; streaming ११७८.

हित sent; despatched १४२, ५३५.

हीण empty; less important (?) १३३७.

हुत an offering १०४७.

हृषित glad; joyful ४८६.

ह्लादीय the attendants of प्रह्लाद ६५७.

कृत ordinary १६५९, ६०.

कृतगुण the qualities of the प्रकृति १६५५.

किशस् having the head turned to the
east १३०३.

किमुख facing the east ५२३.

किञ्चित् proverbial (?) ३०५.

त् turned to the east; eastern; east-
erly ५२, २२३, ४९, ३२७, ५३, ४३४, ५१,
५६, ५४२, ६१, ६३, ६५५, ७७९, ९३, ८०४,
३२, ३३, ९२१, ११८८, १३०५, ३७, ६०, ६३,
६९, १४३४, १६६१, ७७, ७९.

त्वी the east ९१, १४९, ५९, ८२, ३०५, ०६,
१८, ६८, ४५०, ५२, ५४, ७०, ७१, ९२, ५०८,
२२, ८१३, ३२, ९१७, ९४, ११७४, ८८, १३३५,
३८, ५१, ८६, १४९२.

त्वीन eastern; ancient ५२, ४३२.

त्वीनयोग name of a man १३४१.

त्वीनयोगीपुत्र name of a teacher १३१०.

त्वीनयोग्य patronymic from प्राचीनयोग ४०,
६९९, ८७४, १११४.

त्वीनशाल name of a man ८७१, १३५८.

त्वीनशालि name of a teacher १३५७, ५८.

त्वीनातान the warp ६३६.

वज्ञ the wise; a wise man; the soul in
the third or सुषुप्ति state ६७७, १२०९

२०, १४१६, १५२३, २८, १६६६.

व्राण life; vital airs; a particular vita-

air २५, २६, ३०, ३५, ३६, ४०, ४२, ४३

११६, २०, २९, ५२, ५३, ६१, ६६, ६९, ७३

७७, २०२, ०३, ३३, ४५, ४८, ४९, ५०, ६०

६१, ६८, ८२, ९०, ९१, ९५, ९७, ३००, ०४

०५, ०७, ०८, १२, १३, १४, १५, १६, १८

२०, २१, २२, २३, २४, २५, २७, २८, २९

३०, ३१, ३७, ३९, ४७, ५१, ६४, ७६, ७७, ७९

८१, ८२ ८७, ८८, ९९, ४०२, ०३, ०४, २५

३५, ३८, ४०, ४३, ४४, ४९, ५४, ५५, ५८

६०, ६१, ६२, ६५, ६८, ६९, ७०, ७२, ७३

७७, ७९, ९३, ५०८, १३, १४, १६, १८, १९

२९, ३३, ३४, ३५, ३७, ३८, ३९, ४१, ४२

४४, ४५, ४७, ४९, ६१, ६५, ६७, ६९, ७५

८१, ८३, ८४, ८५, ९८, ६००, ०२, ०३, ०५

०६, ०७; १०, ११, २१, २३, २९, ३६, ३८

४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४७, ४९, ५१, ५३

५५, ५८, ५९, ६५, ६६, ६७, ६८, ७१, ८०

८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९५

७०१, १४, १५, ३५, ३७, ३९, ४०, ४८, ५०

५२, ५३, ५५, ५६, ५९, ६३, ६५, ७०, ७३, ७५

८१, ८०१, ०४, १३, १४, १५, १९, २०, २८

३३, ३५, ३७, ४९, ५१, ५२, ५९, ७५, ८०

८१, ९०१, ०२, ०३, ०९, ३०, ३४, ३७, ३९

७९, ८७, ९४, ९८, १००४, ०८, १०, १२, १३

१४, २२, ४२, ५०, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६

६०, ६१, ६३, ६६, ७०, ७३, ७४, ७७, ७९, ८०

८५, ८६, ११०५, ०८, १७, २०, २२, २४, २५

३२, ५३, ६८ ६९, ७६, ८३, ८४, ८८, ९०

१२००, २१, २२, २४, ३२, ३६, ४४, ४६, ७०

७५, ७७, ७८, ७९, ८१, ८२, ८६, ८७, ८८

- ९२, ९३, ९४, ९५, ९७, ९८, ९९, १५००,
०१, ०३, ०४, ०६, ०८, १६, ८८, १६३५. ४०,
४३, ४४, ४५, ४७, ४८, ४९, ५१, ५३, ५७,
५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६४, ६५, ६६, ६७,
७०, ७४, ७५, ७९, ८१, ८२.
- प्राणकर्मन् vital function १६६०.
- प्राणचित् forming a deposit of breath
३२०.
- प्राणत् breathing; living १३०, ९५, ३२४, ३१,
४१६, ५०६, ०७, ६५९, ७५६, ८५१, १०२२,
१२८८, १४५९, १५७४.
- प्राणती breathing; living १६१.
- प्राणबन्धन having breath or life for a tie
९०६.
- प्राणभृत् having or holding life; living
५५७, ५९, १०५५, १११८.
- प्राणमय consisting of life ३२०, ४०३, ०४,
७१४, १५, २८, ४०, १०५१, १२२९, १३३८,
१६४७, ६०.
- प्राणवती endowed with life १६५८.
- प्राणशरीर whose body is life २६१, ८०९,
१६५५.
- प्राणशरीरनेतृ the leader of the vital airs
and the body १४६३.
- प्राणसंशित animated by the vital airs
८१७.
- प्राणसंचारिणी moving in life; conveying
the breath १६६१.
- प्राणसंधारण holding life; living १६७१.
- प्राणसमृद्ध rich in vital airs or life १६६०.
- प्राणग्नि the fire of life १५०५.
- प्राणायाम controlling one's breath १६६१.
- प्राणाराम having life for its sporting
place ६९९.

- प्रातर् in the morning; ३४५, ४०३, २७, ३३, ५३५,
७३, ९२०, १०५५, १३०३.
- प्रातरनुवाक the hymn with
morning libation begi
८४७, १३६०.
- प्रातर्देन name of a teacher
- प्रातिपदिक the crude form of
- प्रातिबोधीपुत्र name of a teach
- प्रातियोधीपुत्र name of a teach
- प्रातिवेश्य name of a teacher
- प्रातिश्रुक्त existing in the ec
- प्रातृद-भाळ name of a teacher
- प्रादेश the length of a stret
from the tip of the t
tip of the small finge
- प्रादेशमात्र of the size of the
१३६५, ८७.
- प्राध्वंसन destroying; dest
१२६६.
- प्राप्त obtained; acquired १
- प्राप्ति obtainment; attainm
- प्रायण going away; G
१६५१.
- प्रायणान्तम् (ind.) unto des
- प्रायणीय the introductory l
- प्राथ first day of a *Soma* s
- प्रार्थ adorable (प्रार्थनीयः) ३
- प्रावरण covering; mantle १
- प्रावृत covered; fenced १८
- प्रावृष् rainy-season ५०९.
- प्रावेप throbbing; trembl
dice) ४८३.
- प्राशित्रहरण taking away

हृदि thundering १६३.
 प्रिय dear; liked २४, २५, ४८, ५९, ६१, ६२,
 ७१, ७७, ७८, ८१, ८९, ९८, ११५, ६३, ६८,
 २४५, ३२८, ३९, ४४, ६१, ४०२, ०६, १३,
 १५, २६, ५०, ५१, ५३, ५४, ५५, ७०, ७३,
 ७४, ८१, ५०१, ०७, ०९, ४९, ६४३, ५६, ८७,
 ७०४, १८, ८७४, ७५, ७६, ९७७, १०२७, ३०,
 ११८४, १२६१, १३४५, ५२, ५५, ९९, १५७४,
 १६३१, ४९.
 प्रियतम dearest १२०, ८१.
 प्रियता dearness ११८४.
 प्रियरूप having an agreeable form १३९९.
 प्रियव्रत name of a teacher १५५, ६९२.
 प्रिया dear; dear wife १४६, २५०, ३२४,
 ४२७, ६३३, ३५, १०९१, ९२, १२०७, ६०,
 १४५०, १६४६.
 प्रीत pleased; satisfied २५, १४९८.
 प्रीयमाण being pleased १३९३.
 प्रेक्षकवद्वस्थित standing like an onlooker
 or spectator १६५५.
 प्रह्व a swing; hammock ८१.
 प्रह्वयमाण swinging to and fro ४०१.
 प्रत departed; dead ११६, ८६१, ९६०, ७३,
 ११४८, १२७७, १३५७, ५८, ६४, ९५.
 प्रत्य after departing from this world;
 after death १०२७.
 प्रेमन् love ४८९.
 प्रेयस् dearer ३२८, १३९८.
 प्रेयसी beloved; dear wife ३२४.
 प्रेरित् impeller; instigator; one who
 urges on १५७९, ८२.
 प्रेषित sent; despatched ३७८, ४३७, १३७३.
 प्रेष्ठ dearest १४०१.

प्रोत woven; pervaded; sewn; fixed on
 २५७, ७८१, ८२, ८३, ८४, ८८१, ११४५, ५८
 ५९, ६५, १६३१, ८१.
 प्रोष्ठपद-वारक्य name of a teacher १३६७.
 प्रौढ name given to the second प्राण of a
 ब्राह्मण and identified with the sun ४५५.
 प्लक्ष name of a particular tree २६
 १३८७.
 प्लव a boat १४५१.
 प्लाशि a particular part of the intestine
 ४३४.
 प्लुत prolated; lengthened १६८२.
 प्लुतप्रणवप्रयोग the utterance of the sacred
 syllable *Om* with a *Pluti* intona-
 tion १६८२.
 प्लुषि a gnat १०११.
 फल the fruit; target; result; benefit
 the point of an arrow ३४७, ५००, ६८
 १३००, ०५, १६६७, ७६, ८३.
 फलकर्मकर्तृ the doer of deeds that bring
 recompense १६१४.
 फलहस्त with fruit in hand ६३४.
 फलिनी abounding in fruit ५१४.
 फलीकरण separating the grain from the
 husk ४३६.
 फाल a ploughshare ४७६.
 फेन foam; froth २९३, ९६, १६८१.
 फेन्य existing in foam १४३.
 वक् a particular sound uttered in
 chanting hymns १३५९.
 वक-दालक्य name of a sage or ऋषि ७५४, ७
 ७२, १३३२, ६९.
 वद in truth; certainly १७२.
 वटरक circular lines of light which

बधिर deaf; benumbed २६०, ३३१, ४१८, ६६४, ८५१.

बध्यतः from the crowd ५०६.

बध्ने (dat. sing of बधू=बधु) see बधु १७५.

बन्ध fetter; tie; confinement ३७४, १६६५.

बन्धन tie; fetter; confinement; fettering

३३६, ३९, ४२८, २९, ९०६, १२२१, १५७४, १६४६, ६४.

बन्धनस्थ in confinement; fettered; tied १६५६.

बन्धु relative; brother; friend ४४, ८९,

१०७, ५८, ९८, २२१, ४१, ५७, ६८, ७६, ३०५, ४३५, ५५४, ९९०, ११८२, १६३१.

बन्धुता relation; friendship १३४८.

बन्धुमत having brothers; friends or relatives १३५६.

बन्धुवर्ग a group of relatives; all relatives १६५३.

बभस devouring ८२९.

बभ्रु tawny; redding १२६, २७, ३५, ४२६, ८४, ८५, ५०७, १३८६.

बभ्रुश brownish १३७.

बभ्रव-आजद्विष name of a teacher १३५१.

बर्कु name of a teacher ११८४.

बर्हिस् sacred grass ९, २३२, ४१५, ३५, ५८, ५२३, २४, १३०५.

बल force; strength; power; capacity २६,

६१, १५२, ६७, २४५, ६०, ७१, ३११, १४, १५, २२, ३३६, ३९, ७९, ९९, ४१२, ३४, ३५, ४८, ५५, ६१, ५०२, ८७, १३, ६२३, ८९, ९४, ७४०, ८६, १३३, ३४, १२८२, १३६३, ८६, १४९८, १५७४, १६४०, ४१, ४४, ४६, ४८, ४९, ५१.

बलवत् strong; powerful; v

२९६, ६००, ८४, ७८५, ८६, ९

बलविकरण the subduer or force; a name of god Ś

बलहीन weak; devoid of power १४८२.

बलि oblation; offering २९, ४६६, ५०५, ६४०, ४१, ९०

१२८८.

बलिन् strong; powerful ९३३

बलिवाहन the carrier of offerings १३८६.

बलिष्ठ strongest; most powerful

बलिहृत् carrier or bringer of offerings ३२

बलीवर्द a bull; ox १३३१.

बभ्रक्य a yearling; a one yearling २०८.

बस्त a goat १०२०.

बस्ति bladder; abdomen ४०

बहिःप्रज्ञ outwardly cognition

बहिरात्मन् outside one's self १

बहिरात्मकी outside one's self १६५८.

बहिवेदि outside the sacrificial ४६०.

बहिष्ठ remaining outside; e comm. reads बहिष्ठः and e

बोद्धतमः, the best carrier to be the correct reading

बहिष्पवमान name of a Sto ४६९, ७७२, १३३१, ५६.

बहिस् out; outside; away o

Index of the important Sanskrit words

बहुपाक्य one at whose house much is cooked (for the poor) ८२२.
 बहुपुत्र having many sons १३५१, ५२.
 बहुपुत्रता the state of having many sons १६४७.
 बहुप्रजा having a numerous progeny २२०.
 बहुभयावस्थ extremely terrified १६५६.
 बहुल thick; large; spacious; extensive ८, ४०, ४२, १८२, ८७५, ७९, १३६१.
 बहुविद् very learned ९३२.
 बहुव्याहित separated or intercepted by many; beset with many diseases or difficulties १३६३.
 बहुशोभमान very bright or charming १३५६, ८१.
 बहुश्वा having many horses; rich in horses २७०.
 बहुवृच् name of the *Rgveda* or of a *Sākhā* of it ११७, ६१४, ८८, १३५६.
 बाण an arrow; trunk २४५, १४९७.
 बाणवत् made of or containing reed; arrow १३६, ११५७.
 बाधमान chasing away; destroying १२०.
 बाध्व name of a *Rṣi* ६१३, १४, ८८.
 बाभ्रव्य-name of a *Rṣi* १२६६.
 बार्हत relating to the metre बृहती ५२२.
 बार्हस्पत्या pertaining to or sacred to *Brhaspati* १३४१.
 बार्हायस stronger ३१६, ३७.
 बाल a child; a fool; hair; not full grown or developed २५०, ३३१, ८६, ४३४, ६६५, ८५१, ८२, १४००, २१, ५१.
 बालक a child ४६८.

३०७, १४, ४०५, ३४, ५९, ६९, ६४७, ४९, १२७४, १५९३, ७४, १
 बाहुच्छिन्न having a broken arm ६६५.
 बाहुमत् having strong arms १९४
 बाहुवीर्य having strength in arm
 बाह्य external; exterior ५००, १५००, ०२, १३.
 बाह्यतस् externally; outside of
 बाह्यदोष external defect or sin
 बिभ्यत् fearing; afraid १३३०.
 बिम्ब dise; orb १३५६, १५९०.
 बिल a cave; a hole; an open १३६१.
 बिलिम्बन् having a helmet १४२.
 बिल्व name of a tree ५००.
 बिस lotus stalk ३७०, ६१७.
 बीज seed; source; origin; ० ९४, ८९२, १६२२, ६०, ६४.
 बीजसंभव springing from seed १६५९.
 बीभत्सु loathing; detesting; २०९, ३१२.
 बुद्धिल name of a man ४०, ८७१
 बुद्धान्त waking condition; keep १२०४, ०५, १९.
 बुद्धि intellect; thought, mind; perception १४१२, १४, ३६, १६००, ०८, १४, ४७, ५८, ५९, ७६, ८०.
 बुद्धीन्द्रिय sense-organ १६५५.
 बुद्धयन्तस्थ abiding in the inte
 बुद्बुद् a bubble ३०७.
 बुद्बुदोपम like a bubble ३०७.

बृहत् mighty; great; strong; full-grown;
massy ३, ८, ९, २२, २५, ४४, ५१, ५६, ५७,
५८, ६१, ६६, ७२, ७५, ७७, ७९, ८४, ९१,
९६, ९७, १००, ०२, १०, ११, २२, २७, ४१,
६१, ६३, ७१, ७३, ९१, २००, २९, ४७, ४९,
५१, ८२, ८६, ३११, ३९, ४०, ६३, ६९, ७५,
९२, ४१६, २३, ३७, ५०, ५१, ६३, ८३, ९९,
५०६, २७, ६३, ६०५, ०६, २६, ३६, ७५, ७९,
८६, ८९, ७८२, १०६८, ७१, १४२७, १५८६,
९४, १६३४, ३५, ४५, ५१, ६६, ७९.

बृहती name of a metre २, ३०, ३४,
३५, ३६, ३८, ८१, ८५, १६१, ६८, ६९,
७१, ७२, ९६, २५६, ७७, ३०६, २७, ४३४,
५३, ९७, ५३७, ३८, ६३, ६६, ६११, ८८,
७५४, १०१०, १३६१.

बृहतीसहस्र a thousand verses in the बृहती
metre ५४९, ५४; ६५, ६७, ६९, ७५.

बृहत्सामन् having the बृहत् *Sāman* for a
Sāman २८१.

बृहदर्की possessed of broad or strong light
१६२.

बृहदुक्त्य loudly praised; having loud
hymns of praise ३६२.

बृहद्विन् heavenly; celestial ६९२.

बृहद्रथ a part of the *Sāmaveda* १६५३, ५४.

बृहद्रथन्तर name of two metres ३०.

बृहन्त large; great १५७९.

बृहस्पति name of a vedic deity; the pre-
ceptor of gods २९, ३०, १६४, ६९, ८८, ८९,
९०, ९१, ९९, २०३, ५२, ६७, ७७, ३०८, ३१,
४५, ५६, ९६, ४३४, ३५, ३८, ५३, ५५, ७४,
८२, ८९, ९५, ५११, १२, ६०४, ८६, ९३,
७०६, २८, ५४, ८५, १०१०, १३३६, ४१, ४५,
४८, ४९, ५१, ६९, १६३२, ३३, ४५, ४८, ६७,
६९.

वैद name of a teacher ५३५.
बो a letter to be uttered
hymns १३५९.

बोद्धव्य to be known or perceived

बोद्धु knower; perceiver १५०

बोध consciousness; awak-
ception (name of a *Sāman*)
according to the comm-
बोभुज्यमान being experienced
time and again २७१.

ब्रध्न yellowish; bay; pale
mighty; the sun; the
in the sun's orb २२, १
४३५, ४२, ६९, ५२९, १३५९.

ब्रध्नलोक being in the world
bright like the sun ४४२.

ब्रह्मकृत् making or offering p-

ब्रह्मकोश sheath of ब्रह्मन् २६५, ५०

ब्रह्मगन्ध fragrance of *Brahm*

ब्रह्मगवी the cows which are
a ब्राह्मण (i. e. the know-
११४७

ब्रह्मगिरि name of a mountain
मनः, वाक् and प्राण all
given this name) ५४१.

ब्रह्मचक्र the circle of the un-
१६१७.

ब्रह्मचर्य celibacy; the first
stages of life २८, ११८,
२५, ८६, ५२२, २४, ६९१,
८२, ९६४, ६५, ६६, ७०,
१३४२, ६९, १४०४, ५८, ७७
९६, १५११, १६७०.

ब्रह्मचारिन् one leading a life

ब्रह्मज्ञ the knower of what is born from
ब्रह्मन् १३९३.

ब्रह्मज्ञात्मभूता forming the self of ब्रह्मज्ञ
१३९४.

ब्रह्मजूता incited by prayer or devotion
३४४.

ब्रह्मज्य molesting or oppressing *Brā-*
hmanas १७३, ७४, ३०५.

ब्रह्मज्येष्ठ having *Brahmā* as the first or
chief १९९, २५१.

ब्रह्मज्योतिस् the splendour of the supreme
being; having the splendour of
Brahmā १६६५.

ब्रह्मणस्पति name of a vedic deity (= बृह-
स्पति) ६, १७०, ७३, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२,
९३, २७४, १०११, १६३३, ४३.

ब्रह्मण्य religious; pious १६४७.

ब्रह्मण्वती name of an इष्टिका १६३, ३४४.

ब्रह्मतत्त्व the true knowledge of *Brahman*
१५९०, १६३७.

ब्रह्मतेजस् the power and glory of *Brahmā*
६३६.

ब्रह्मत्व the office of the ब्रह्मन् or chief
priest १३५९.

ब्रह्मदत्त--चैकितानेय name of a person १०१३,
१३४१, ४८.

ब्रह्मदत्ता given by ब्रह्म १६३२.

ब्रह्मदेवत having *Brahman* for deity ५२२.

ब्रह्मदेवत्या having *Brahman* as deity ५२३,
१६८०.

ब्रह्मदैवत्या having *Brahman* as deity
१६८२.

ब्रह्मद्वार entrance into *Brahman* १६५६.

ब्रह्मद्वारपार the guardian of the entrance

ब्रह्मन् (नृ०) prayer; hymn; *Veda*; sacred
text; the sacred syllable *Om*; the

universal soul ३१, ४८, ६०, ७७, १११

१२, १९, २०, ५१, ५४, ६०, ६४, ६९, ७०

७१, ७४, ७८, ८८, ९१, ९७, ९८, २०४, ३०

३६, ४५, ४६, ४७, ४८, ५०, ५१, ५२, ५३

५५, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६५, ७९, ८२, ९२

९३, ३०१, ०२, ०३, ०४, ०६, ०७, ११, १२

१३, २२, २७, ३२, ३९, ५१, ६७, ६९, ८२

८५, ९५, ४००, ०६, १२, १९, २२, २३, २५

२८, ३३, ३४, ३५, ३७, ३९, ४४, ५२, ५३

५८, ५९, ६१, ६२, ६३, ७१, ७३, ८९, ९७

९८, ५०६, ०८, ११, १२, १५, १६, १९, २०

२१, २२, २३, २४, २५, ३२, ७५, ८६, ९४

६०६, १४, ३४, ३५, ४०, ४१, ४५, ५०, ५१

७४, ७६, ७८, ८७, ८८, ९१, ९२, ९५, ९७

९९, ७०२, ०६, १४, १५, १६, १७, १८, २०

२८, ३२, ३५, ३७, ३८, ४०, ९५, ९८, ९९

८०३, ०७, १२, १८, १९, २०, २१, २२, ३२

३३, ३५, ३९, ४०, ६१, ७१, ९२८, २९, ३०

३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ७१, ७३

७५, ८३, १०११, २९, ३०, ३६, ५८, ६५, ६६

६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ८१, ८२, ११०३, ०५

०६, ०७, ०८, ११, १२, ३१, ३३, ३५, ६९

७३, ७९, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, १२२१, २९

३२, ३६, ३९, ४२, ४४, ५८, ६६, ७०, ७१

७५, ७७, ८७, १३३७, ३९, ४१, ५२, ५४, ५९

५८, ५९, ६०, ६३, ६५, ६६, ६७, ७५, ७६

७७, ७९, ८३, ८७, १४०४, ०९, ११, २८, २९

३३, ३८, ४७, ४८, ५९, ६०, ६६, ६८, ८१

८७, ९०, ९८, १५०६, १०, १९, २१, ७४, ७५

७९, ८०, ८३, ८६, ८७, ८९, ९४, १६०१, २९

३०, ३२, ३५, ४४, ४५, ४६, ४८, ५४, ५९

५७, ५८, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६

५१, ५९, ६०, ६१, ६२, ७०, ७१, ७२, ७६,
 ७९, ९२, ९३, ५०१, ०८, १२, १४, २२, २३,
 ३१, ३२, ७५, ६१३, १६, ३३, ३६, ३७, ३८,
 ३९, ८६, ८८, ९२, ९३, ७०२, ०६, ६३, ९७,
 ९९, ८४७, ४८, ४९, ९६५, ८४, १०२१, ३८,
 ९२, ९४, ९५, १११४, १८, १९, १२६०, ६१,
 १३०३, ११, ३०, ३१, ३२, ४१, ४३, ५९, ७२,
 ९१, १४४२, ४३, १५७३, १६१३, २५, ३२,
 ३३, ३५, ३६, ४०, ४१, ४३, ४४, ४५, ४८,
 ५०, ५१, ५६, ५७, ५८, ६०, ६७, ७४, ७८,
 ८१, ८२, ८३.

ब्रह्मनिष्ठ absorbed in contemplating *Brahman*; established on ब्रह्मन्; intent on ब्रह्मन् १४५२, ८८, ९०.

ब्रह्मनीड the resting place of *Brahman*; *Brahma*-abode १६६१.

ब्रह्मपथ the way to *Brahman* ८४०, १६६३.

ब्रह्मपदवी the place or abode of *Brahma* १६८३.

ब्रह्मपर supreme *Brahman*; devoted to *Brahman* १४९०, १६१२.

ब्रह्मपुर *Brahma's* town; the heart; the body ९५२, ५४, ५५, १४६३.

ब्रह्मपुरुष *Brahma*-men (a name given to चक्षुः, श्रोत्र, वाक्, मनस् and प्राण) ८०५.

ब्रह्मपूत purified by devotion or chants १६९, ७०.

ब्रह्मप्राप्त one who has attained *Brahman* १४४०.

ब्रह्मबन्धु an unworthy or a merely nominal *Brāhmaṇa* ८८२.

ब्रह्मभूय identification with or absorption into *Brahman* १६७१.

ब्रह्ममय consisting of or identified with *Brahma* ४०३, ०४, ५५४, ६३८.

ब्रह्मयोनि the house source of the १६१३, ७३.

ब्रह्मरस the savour of

ब्रह्मर्षि brahmanical s

ब्रह्मलोक the world or

४०६, ५१३, ६३२,

६५, ६६, ८१, ८२,

५५, ९८, १४०५,

१५११, १६३६, ४४,

ब्रह्मधर possessing *J*

knowledge; poss

mula ७४०.

ब्रह्मवध the murder o

ब्रह्मवर्चस् divine gl

superhuman po

९८, ६००, ०३, ०४,

८६, ८७, ९४, ७३८,

७५, ७६, ८१, १३१०

४९.

ब्रह्मवर्चस्काम desirous

१३४१, ५९.

ब्रह्मवर्चसिन् possessed

१६४, ४५३, ५१४,

ब्रह्मवादिन् discoursin

an expounder o

५२३, २४, ७९०, १

ब्रह्मवाय rivalry in

१३५७.

ब्रह्मविद् knowing th

philosopher १२९

४००, ७०६, ८३४,

४४, ७६, १५२८, ७

ब्रह्मविद्या knowledge

tent being; sac

ब्रह्मवृद्ध grown or increased by prayer
१७०.

ब्रह्मसंशिव sharpened by ब्रह्मा; encouraged
by ब्रह्मन् or मन्त्रः ५१०.

ब्रह्माला *Brahma's* hall १६६३.

ब्रह्मसंसद् an assembly of *Brāhmaṇas*
१४२०.

ब्रह्मसंस्थ who stands firm in *Brahman*
७८६.

ब्रह्मसदन the abode of *Brahman* १६६९.

ब्रह्मसामन् name of a particular *Sāman*
४००.

ब्रह्महत्या see ब्रह्महत्या १६७६.

ब्रह्महत्या murder of a *Brāhmaṇa* १६४४.

ब्रह्महन् murderer of a *Brāhmaṇa* ४८६.

ब्रह्माद्य to be eaten by ब्राह्मणः; (food)
prepared for ब्राह्मणः ४८६.

ब्रह्माधिपति the lord of ब्रह्मन् १६४१.

ब्रह्माप्यय merging into *Brahma* १६२१.

ब्रह्मार्थ worthy of *Brahma* or sacred
knowledge; fit to be worshipped or
honoured like ब्रह्मा ६२९.

ब्रह्मालङ्कार the ornament worthy of or
fit for *Brahmā* or हिरण्यगर्भ ६३४.

ब्रह्मासन्दी the seat of *Brahman* १३८६.

ब्रह्माहुत one to whom oblations of prayer
and devotion have been made १७०.

ब्रह्मिभ्रव listening to statements pertain-
ing to ब्रह्मन् २६५.

ब्रह्मिष्ठ a *Brāhmaṇa* in the highest
degree; a sacrificial priest (ऋत्विज्);
most devoted to *Brahman* ६१३, ८८,
१११५, १६, १५००.

ब्रह्मोद्य rivalry in sacred knowledge
playful discussion of theological
problems ११५६, ६६.

ब्रह्मोपनिषद् mystical teaching concerning
Brahman ७९९.

ब्राह्म holy; sacred; divine २४५, ५५, ५२३,
१२२८, १६८०.

ब्राह्मण a person of the *Brāhmaṇa* caste
the first of the four castes; one
who has divine knowledge; name
of a class of works १०४, १९, २०,
४१, ५०, ७४, २२६, ३३, ४७, ५०, ५१, ५५,
५८, ८१, ८३, ८४, ८६, ३१४, २७, ३६, ४५,
४९, ५०, ७१, ४०२, ११, १४, १७, २०, २२,
२३, २५, ३५, ४२, ६३, ६९, ७०, ७१, ७२,
७३, ९१, ९२, ५१५, १९, २२, २३, २४, ६०१,
०३, १८, २२, ४८, ७९, ८५, ८९, ७०२, ०४,
६५, ८४, ८२५, ५७, ९३७, ३८, ८३, १०३६,
३८, ७१, ७४, १११५, ३६, ५८, ५९, ६६,
७३, १२४६, ४७, ५४, ५५, ६६, ७८, ९४,
१३०७, १०, ३१, ३२, ३३, ४१, ५१, ५५,
५८, ६०, ६३, ६४, ६८, ६९, ८६, ९०, १४५,
१५७४, १६४४, ४५, ५२, ६७, ७१, ७७, ७८,
८१.

ब्राह्मणकुल the house of a *Brāhmaṇa*
१३६३.

ब्राह्मणयोनि the womb of a ब्राह्मण ८६७.

ब्राह्मणवचन the statement of a *Brāhmaṇa*
५२३.

ब्राह्मणवर्चस excellence or dignity of
Brāhmaṇa १७४, ७५.

ब्राह्मणहन् the murderer of a *Brāhmaṇa*
९३८.

ब्राह्मणहस्तिकीन् priest who assists the ob-

ब्राह्मणी the female ब्रह्मन् (आदित्य and यौः
are described as a ब्रह्म and ब्राह्मणी
respectively and said to form of
couple) १३५६.

ब्राह्मण्य Brahmanahood; priestly rank or
character १६७७.

ब्राह्मि an off-spring or a part of ब्रह्मन् २५४.

ब्राह्मी pertaining to *Brahman* ५२२, १३८४.

भ a syllable uttered in chanting
hymns १३३१.

भक्त a devotee; boiled rice ८८०, १३३३,
१६७९.

भक्ति devotion १६२८.

भक्ष drinking; food; eating १५७, ७१,
४८३, ८६.

भग gracious lord; name of *Āditya*; good
fortune; happiness; prosperity; glow;
vulva; female organ ७, ९८, १११, ६६,
२३७, ३१४, ३१, ४२, ४५, ७७, ४२६, २९,
६१, ९४, ९६, ५०७, ०८, १९, ६९५, ८५५,
१३०६, ३३, ६९.

भगवत् adorable; venerable; a term of
address applied to gods or saints;
holy ३९, १३६, ४७, ५०, २२४, ३०४, ३१,
७३, ५२३, २४, ७३५, ३७, ३८, ६५, ६६, ७०,
७१, ७२, ८२५, २७, ३१, ३२, ३३, ३४, ३८,
५१, ५६, ५७, ७२, ७३, ७४, ७५, ८३, ८७,
९०१, १३, १७, २०, २१, २३, २५, २६, २७,
२८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६,
३७, ३९, ४०, ४१, ५०, ७०, ७१, ७२, ७३,
७४, १०९१, ११००, १५, ४७, ५६, ६६,
७८, ८६, ८९, १२०२, ०३, ०४, १६, ३६, ५५,
६०, ६३, ८८, ९३, १३४२, ४८, ५२, ५७, ५८,
६१, ६२, ६३, ६४, ६९, १४४३, ९१, ९६,
१५००, ०४, ०३, १४, १६, ३६१३, ५०, ५३,

भगेश the lord of fortune
१६१९.

भङ्गश्रव the name of a par
४१५, १६.

भट a warrior; a mercinar

भद्र auspicious; happy; ag
sed; friendly; kind; l

of address (=my dear;
prosperity; happiness

९२, २५२, ७१, ७५, ३१४, १
४९४, ९६, ५०९, २३, २५,
९२, १३४३, १६४५.

भद्ररेतस् having auspicious
semen २५२.

भद्रा auspicious; happy;
८१, ३४०, ४३४, ३५, ९०, ५

भय fear; danger २१, ३७८,
९७४, ७५, ७६, १०१८, १२

१६५३, ५६.

भयद् dangerous १३७०.

भयावह dangerous; formida
fear or danger १५८७.

भर a sacrifice; war; one
full (?) ६०, २००, १३६३

भरत name of a king १६५३

भरद्वाज name of a sage; f
given to प्राण because h

beings or creatures;
abounding in rich

offerings ४, २८, ५४७, ५

भर्ग in all these places t
ars to be भर्गस् (rather t
१६५९, however, we
pound भर्गस्त्वयः (= call
the word भर्ग is अदन्त (

र्वे for taking or carrying or offering;
for putting on ३९७,

र्त्वि the master; lord; supporter; sustain-
er ३३२, ३३, ४२७, ४७, १००९.

र्त्वि support; care; nourishment १००.

व birth; origination; origin; name of
Siva; well-being; prosperity; exist-
ence १२८, २९, ३१, ३२, ३७, ४१, ४८, ५०,
२५२, ९६, ३८१, ४५२, १३६९, १६४१, ५९,
६७.

वत् being; present; your honour; you
४७२, ६८७, ९०, ९१, ११५८, ५९, १५२०.

वद्भुत् wealthy; opulent १७५.

वद्भुत् the origin or source of all beings
१६१८.

वलिङ्ग the mark or token of *सर्व* or god
Siva १६४१.

वित् the earth; the world ४९८.

विष्यत् about to be; belonging to the
future; future ३१, ६७, १७३, २४७,
३२६, ३५, ४३१, ४८, ५०, ६१, ६२, ७२,
६३६, ८७, ९०, ११५८, ५९, १३०३, १५२०,
७३, १६५८.

वित् future; yet to be born १९१.

वोद्भव name of *Siva* १६४१.

व्य future; likely to be; suitable; pro-
per; auspicious; favourable ६२, ११०,
७५, ७७, ७८, २०२, ३०, ३१, ४७, ४८, ४९,
३१६, २५, २६, ३७, ६३, ५०४, ०६, १०, २१,
६८७, १२४२, १४०३, २२, २५, १५९८,
१६०५, २९, ५१, ५८, ७५, ८१.

वत् the hinder or secret parts ३१४,
४३४.

वत् ashes; devouring; consuming

भाग share; portion; inheritance; lo-
fraction; part; region; spot ९८, १७५,
२१४, २२, ७८, ३६०, ७४, ७६, ४८०, ९,
६१६, ८८, १६१५, ४८.

भाग्य share; portion; destiny; prosp-
erity; fortune १६६, २३५, ३३७, १३०१.

भागवित् name of a pupil of वैश्व १३०१.

भागिनी co-heiress; sharer ५८३.

भाज्य sharing with others; generous
liberal ६.

भाष् imitation of the noise of breathing
or hissing ९९५.

भात् shining १४३२, ६७, १६२४.

भानवीय solar १६६४.

भाजु the sun; the ray; lustre १०, ७०, १००,
३४, ७२, १६६५.

भान्त shining ६६.

भाम passion; wrath; enraged; wrathful
light ३१४, ४२.

भामनी bringing light; light-bringer
८४०.

भामित enraged; angry १४६, १५७४, १६१,
४६.

भामिन् brilliant; radiant (probably
भामिनः is corrupt for भामितः) १४६.

भार burden i. e. seasons ९४.

भारती belonging to or pertaining to स
८.

भारद्वाज name of a teacher १११४, ८,
१२६५, १५१४.

भारद्वाज-सत्यवह name of a teacher १४४३.

भारद्वाज-सुकेश name of a teacher १४९०.

भारद्वाजीपुत्र name of a teacher १३१०.

भारद्वाज a load-bearer; a porter ६९२.

भार्या a wife ११४६, १२५९.
 भालुकीपुत्र name of a teacher १३१०.
 भाल्ल-प्रातृद name of a teacher १३६४.
 भाल्लविन् name of a teacher १३५०.
 भाल्लवेय name of a teacher ३८, ४०, ३२७,
 २८, ८७१, ७५.
 भाव being; existence; state १४५३, १६१८,
 ७९.
 भावग्राह्य to be conceived with the heart;
 (who is to be apprehended in ex-
 istence--Hume) १६१६.
 भावत् lustrous; radiant १३४३.
 भावयितव्या fit to be cared for ५९०.
 भावयित्री cherishing; protecting; causing
 to be ५९०.
 भावाभावकर the maker of existence and
 non-existence or origination and
 destruction or birth and death
 १६१६.
 भाव्य future; about to be १७०.
 भाषमाण speaking; discoursing ६२१, ८९.
 भाषिता speaker or deliverer (of an eloq-
 uent speech) १३०८.
 भास् lustre; radiance ११९७, १४३२, ६७,
 १६२४.
 भास्कर maker of light; the sun; enli-
 ghtener १३४, १६३२, ६६.
 भास्वत् radiant; effulgent; bright १३५.
 भास्वती radiant; bright; lustrous; hav-
 ing the form of light २४, १६५८, ८२.
 भास्वर bright; shining १६६१, ६६.
 भास्वरवर्ण of radiant complexion; light-
 coloured १२९७.
 सिद्धा a.lms: begging ४२३ ८२९ ९७४

भिषज् curing; healing; a
 remedy; medicine ७४,
 १६४५, ६०.
 भी fear; danger ३४४, ७०४, १
 भीता frightened; afraid ३०४
 भीम fierce; ferocious; form
 ३१, ४३, ४६, ३७८, १३४७.
 भीमला fearful; dreadful १३४
 भीरु timid १६११.
 भीषा intimidation; fear ७२८.
 भीष्म fierce; formidable ३३७
 भुक्त eaten; enjoyed १६३३.
 भुक्तभोगा who has been en-
 whom (he) had his d
 ३५.
 भुक्ति enjoyment; suffering
 भुज् enjoyment ३३३, ८२.
 भुज् enjoyment ५१९.
 भुजिष्य granting food; usefu
 भुज्यु name of a protege
 name of a son of *Tugra*
 by *Asvins*) ६६.
 भुज्यु-लाहायनि name of a mar
 भुरण्यत् agitating; active ६६,
 भुरण्यु quivering; restless; a
 ४१४.
 भुवन world; universe; bein
 ४८, ५२, ५५, ५६, ५८, ५९, ६६
 ७२, ७३, ७६, ७७, ८३, ८४,
 ९५, ९६, ९८, १००, ०२, ०३,
 ०८, ०९, २०, २१, २२, २६,
 ६५, ६८, ७०, ७१, ७२, ७३,
 ७९, ८१, ८२, ८३, ८४, ८६,

Index of the important Sanskrit words

७४, ९१, ९२, १६०१, ०९, २४, २५, २९, ३०,
३३, ३४, ४२, ४५, ६६, ८०.

भुवनेश lord of the universe १६१९.

भुवनेष्ठा standing or dwelling in the
world १०८, ९८.

भुवन्ति who spreads out i. e. creates the
earth (भुवं तनोति इति । an epithet of रुद्र)
१३८.

भुवः the air; atmosphere; heaven; २५२,
६५, ८२, ८६, ९८, ३०४, ४०६, १९, ५१९,
२१, २२, २४, ६९७, ९९, ७८९, ८१३, ४८,
१२७४, १३०२, ०३, ०९, ३०, ३६, ५२, ६०,
६१, ६९, ८८, १६३४, ४३, ४४, ५८, ७८.

भू the earth ४४, ४८, ५९, ६०, ६३, ७७, १०१,
०२, ८६, २५२, ६५, ७५, ८२, ८६, ९८, ३०४,
१५, ८७, ४०६, १९, ५१९, २१, २२, २४, ४२,
६९७, ९९, ७८९, ८१३, १४, ४८, १२७४,
१३०२, ०३, ०९, ३०, ३६, ५२, ६०, ६१, ६९,
८७, ८८, १४६३, १६३४, ४३, ४४, ५८, ७१,
७८.

भूत a being; an element; an attendant of
god *Siva* २७, ३१, ३६, ३८, ६२, ६६, ६७,
११०, २३, ३५, ४८, ५७, ५९, ६०, ७०, ७१,
७२, ७३, ७५, ७७, ७८, ८७, ९४, ९९, २०२,
३०, ३१, ४७, ४८, ४९, ५१, ५२, ५७, ५९,
६१, ६२, ६३, ६६, ८०, ८१, ९६, ३०६, १६,
१९, २०, २१, २३, २५, २६, ३५, ३७, ५१,
६३, ६८, ९४, ४२५, ३१, ४४, ४८, ५०, ५१,
६१, ६२, ७०, ७१, ७२, ९३, ५००, ०४, ०६,
१०, १५, १८, २१, २२, २४, ३०, ३५, ३८,
४७, ४९, ७१, ७२, ८६, ६०७, १३, १४, १८,
३६, ३७, ४१, ४५, ४९, ५३, ६७, ७५, ८२,
८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ७१४, १५, ३५, ३७,
३८, ४७, ६६, ७०, ७१, ७८, ९९, ८०१, १३,
२३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००.

२२, २५, ५८, १५२०, २४, ७
१६०५, २९, ३३, ३५, ४०, ४२,
५१, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१,
६९, ७५, ८१, ८३.

भूतकृत् the maker of beings
५०८.

भूतगण a group of beings १६५

भूतग्राम a group of beings ५२४

भूतपति the lord of beings १२

भूतपाल the protector of beings

भूतमात्रा the subtle forms of
the subtle objects of perception

भूतयोनि the source of beings

भूतविद् one who knows the
beings ११४७.

भूतविद्या the lore of the भूतस; d
९२६, २८, २९, ३३.

भूतशब्द the word भूत १६५५

भूतसंक्रामिन् dependent on or s
to other being; subject
beings २८१.

भूतहन् the killer of a being १

भूतात्मन् the soul of all beings
soul १६५५, ५६, ५९, ६०.

भूताधिपति the supreme lord
१२४७, ६७.

भूतार्थचिन्ता discussion of facts
भूति being; origination; birth
ce; prosperity १७७, ३१९,
५१०, ४२, ७०४, १३५०, ६१, ६

भूतिकाम desirous of prosperit

भूम the earth; terra firma १

भूमन् greatness; multiplicit
multitude; the earth; a w

७२, ८९, ४१९, २३, ३७, ४७, ५२, ५५, ७०,
७१, ७७, ५०६, ०७, ०८, १०, ११, २५, ६१७,
१२७९, १३३३, ३९, ९६, १५१७, १६२९, ३२,
४४, ५८, ६२, ७६.

भूमितस्कर one who steals or misappropriates land ४८६.

भूमित्व earthness; the propriety of the name भूमि २८५.

भूमिप्रा filling the earth; pervading the earth ६२१, ८९.

भूमिवुध्न having the earth for a bottom ८१३.

भूमी (in all the places the word appears to be भूमि rather than भूमी) the earth; world ८१, ८३, १४७, ३५७, ७३, ४१४, ४८.

भूयस् more; greater; again; further ८६६, १३३२, ९३.

भूयसी greater; wider; more १३३२.

भूरि the supporter; sustainer १२६.

भूरिधारा much-showering; having many streams or flows ५०७.

भूरिमार heavily laden २११.

भूरिरेतस् abounding in seed; prolific १६२, ७५.

भूरिस्थात्रा having many stations; being at many places २३७.

भूर्जि prosperous; victorious or conquering the earth ३८५.

भूर्णि restless; active; angry ८०, ८१.

भूर्भुवस्सुवर् the three व्याहृतिस १६३४, ३५, ४३, ४४, ४८.

भूर्भुवस्स्वर् the three व्याहृतिस २८२, १३०३, ०९, १६६५, ८१.

भृगु name of a teacher ११८, ३०३, ६९

भृगुङ्गिरोवित् one who know composed by the मृगुस a i. e. the अथर्ववेद ५२४.

भृङ्ग a bee ३४०.

भृत offered; filled ३३२.

भ्रूमल stunned; torpid ५०९.

भेक a frog १६५३.

भेषज medicine; healing;

२६, २७, ४५, ५५, ५६, ३२४.

४८१, ९५.

भेषजकृत healed; cured ८४८.

भैक्ष living on alms १६७१.

भैक्षचर्या to live on alms १४

भैक्षण living on alms १६७

भोक्तृ enjoyer १४१२, १५८०,

६१, ७६.

भोक्तृभाव the state of being

१५८०.

भोक्तृभोगार्थयुक्ता connected

joyer and objects of

१५८०.

भोग enjoyment; sufferin

३३३, ६४, ४८३, ५०९, १०

१३४०, १६७५.

भोगायमान enjoying; experi

भोगार्थ object of enjoymen

भोग्य to be enjoyed; to be

an object of enjoym

rience २५०, ९७४, ७६, १

भोज enjoyment; pleasure

७६.

भोजन dinner; eating;

enjoying ४९, ५०, ५९,

३३१, ४८, ८५५.

जत् shining; glittering ४२५.
जमान shining; glittering १०३, ६९, ७१,
७२, ४२०, १४५०.

जस् lustre; brightness १६२९, ४४, ४५.

तु a brother; relative २३, ४४, ६२, ६८,
७८, २०६, ३०१, ७२, ४८४, ९३७, ३८,
५९, १३५७.

तुलोक the world of brothers ९५९.

तुलोककाम desirous of the world of
brothers ९५९.

तुल्य्य couns; adversary; enemy ४३,
१५१, ६३, ६४, ३२२, ४०६, ५०, ५३३, ४१, ८२,
७४०, १००४, १३३२, ३४, ३८, ४३, ४४, ५०,
६६.

तुहन् fratricide ९३८.

तन् brotherhood; fraternity ७.

तम्बत् disturbed १६६७.

तम्ब्यमाण being sustained or supported
३३२.

तुल्य्य eye-brow ३०७, १३०६, १६६९.

तुल्य्यहत्या foetus-murder ६५८, १६४५, ४७.

तुल्य्यहन् the killer of a foetus १२१०, १६३४.

तुल्य्य-श्लेषत् tottering; slipping; limping
१३६०.

तुल्य्यहन् a gift; present १८२.

तुल्य्यहिष्ठ very liberal; very generous ५७.

तुल्य्यकार the letter or sound म २८३, ५२१, २२,
२३, १५२७, २८, १६८२.

तुल्य्यकारश्रुति the utterance (or hearing) of
the sound म ५२२.

तुल्य्यक्षिका a fly; bee १२८, ११३०, १४९८.

तुल्य्यक्षु quickly; promptly ४९.

तुल्य्यगधवासिन् inhabitant of मगध ६८५.

मघवन् इन्द्र; a vedic god ४, ५२, ५३, ६०, ६१,
६२, ६६, ६७, ७६, १७५, ८५, २९९, ६५,
९७४, ७५, ७६, ७७, १३४३, ६९, ८१, १६३२

मघाय (the half year) beginning with
the asterism मघा (i. e. sickle) १६६

मज्जन् marrow ३६, १५१, ५१८, ६१०, ११०,
८७, ८८, ७८३, १३७०.

मज्जा marrow ३०७, ०९, १५, ४३४, ५३,
६८८, ७०१, ८३, ९०१, ११७९, १३४०, ४४,
१६४७, ५३, ५६.

मज्जोपम resembling the marrow (of
tree) ११७९.

मज्मन् greatness; majesty ८, ५२, १६८, ७४.

मज्जिष्ठा indian madder ६१६, ८८.

मटची hail- storm ७६७.

मटचीहत struck by hail-storms ७६७.

मणि a jewel; an ornament; magnificence
२६३, ६५, ४५०, ५१, ६९, ५००, ०९, १३३३,
५६.

मणिसूत्र thread or string passed through
jewels or pearls १३३५, ५६.

मण्ड the scum of boiled rice; cream
१६०९.

मण्डल circle; group; orb; disk ३२, ११,
१४, १६, १८, १०८४, १२७३, ७४, १३३३,
३९, ६९, १६४०, ६१, ६६.

मत thought; perceived; known ८८,
१२६१, १३७६, ७८.

मतस्नी (acc. du. मतस्नी) name of particular
internal organs of the body ४०५.

मति thought; perception; belief; opinion
११, ७२, ९१, १०१, ४५, ६९, ७३, ८२, ८३,
९२, २४५, ३९१, ४१२, ९४०, १०९२, ११३३

मद joy; infatuation; pride ५१, ५२, ६५,
६६, ७२, ७३, ५४५.

मदत् enjoying; being happy ११, ३५७,
६८, ६२६.

मदामद (the god) who rejoices and re-
joices not १४०७.

मदिन्तम most intoxicating ७१, ४४५.

मदिरा wine; liquor १६५६.

मदिरोन्मत्त intoxicated with liquor १६५६.

मदीय intoxicating ९६५.

मद्गु a diver-bird ८३३.

मद्गुहंस a kind of swan; a diver bird and
swan १६६४.

मद्यप a drunkard ८७३.

मद्र name of a land or of its people
११२९, ४६.

मधु sweet; honey; sweet drink; mead;
Soma; the month चैत्र ६१, ६५, ६६, ७०,
८९, १६२, ३३१, ४३, ५१, ५५, ६७, ९३,
४००, ७४, ८४, ५०७, २२, ६१७, ८५४, ९१६,
११०३, ०५, ०६, ०७, ०८, ०९, १०, १३०३,
०९, ३२, ३६, ४६, १६४४, ४५, ८१.

मधुक-पैङ्गय name of a person; pupil of
याज्ञवल्क्य १३०४.

मधुकरराज the king of bees i. e. the queen
bee १४९८.

मधुकशा whip of sweetness (a whip of
the अश्विन्स) २४७.

मधुकूला whose banks consist of butter
३७०.

मधुकृत् making honey; a bee ७९३, ९४,
९५, ९१६, १६४५.

मधुत्व sweetness; the condition of honey
१६६२.

मधुपुत्र son of honey १३

मधुमत् pleasant; agree-
ping with honey
७०, ७१, ९१, ५०१, ०९
४५.

मधुमत्तम most sweet
६९५.

मधुश्चुत् dripping with

मध्य middle; moderat

६२, २५५, ६६, ६८, ७०,
७०, ७१, ५०७, २०, ६
८१५, ९२०, १३४१, ८७,
७३, १६१०, १६, २४, २
८०.

मध्यतः from the midst

of; in the middle; 1
portion (of the b
region of the bel

३९२, ८६, ९५, ५४४, ७

मध्यन्दिन noon; mid-d

७४, ७७९, ८२, १३७०.

मध्यम middle; middlem

८२, १४२, ८५, २०६,
४१०, ८९९, ९०१, १०६

मध्वद् enjoyer of मधु
one's actions); exp
eater २१५, १४२२.

मध्वाल्लोपम् he would ea
till it is exhausted

मनःक्षय merging of the
ing of the mind १६

मनःपूति purity of hear
मनःप्रग्रहवत् who reins i

श्चत् thinking or reflecting in the
mind; kindled by the mind ३१९.
मन्दि mind; heart; internal organ १५,
२०, ५९, ६६, ६९, ८६, ९१, ९७, १०५, १०,
११, १६, १९, २०, ५०, ५३, ५८, ६४, ६८,
६९, ७८, ८४, ८५, ९०, ९६, २०२, ०४, ०८,
०९, १३, १८, २२, ३३, ३५, ४१, ४५, ४८,
४९, ५०, ५६, ५९, ६६, ६९, ७०, ७२, ७६,
७८, ८८, ९०, ९५, ९७, ३०२, ०५, ०७, ०८,
१२, १४, १६, १७, १८, १९, २०, २२,
२८, २९, ३०, ३१, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ४०,
४५, ४७, ४८, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ७५,
७७, ७८, ८१, ८६, ८९, ९९, ४०२, ०३, ०४,
०५, १३, २५, २९, ५०, ५१, ५४, ५५, ५७,
५८, ६०, ६६, ६८, ७२, ७३, ७५, ८०, ८१,
८७, ९०, ९१, ५०१, ०७, १०, १६, १९,
२०, २२, ३१, ३३, ३४, ३५, ४१, ६१, ६५,
७५, ७६, ८१, ८३, ८५, ९३, ९६, ९८, ६०७,
१०, २१, २६, २७, ३४, ३८, ४०, ४१,
४२, ४३, ५१, ५२, ५३, ५९, ६५, ६६, ६७,
८०, ८३, ८४, ८६, ८९, ९०, ९१, ७०१, १६,
३२, ३५, ३८, ४०, ५२, ६३, ७७, ८१, ८५,
८०५, १८, २८, ३३, ४६, ४७, ५०, ५१, ५२,
७९, ९९, १०२, ०३, ०६, ०९, २३, २९, ३०,
६८, ८१, ९१, ९५, ९८, १००४, ०८, २२, ४२,
५०, ५२, ५३, ५४, ६०, ७४, ९७, १११८, १९,
२३, २५, ५३, ८५, १२३१, ४४, ६१, ७५,
८६, ८८, ८९, १३०२, ०९, १६, ३१, ३२, ३४,
३७, ३९, ४०, ४२, ४३, ४४, ४५, ४८, ४९,
५०, ५१, ५२, ५३, ५५, ५६, ५८, ६०, ६३,
६५, ६६, ७३, ७४, ७६, ८३, ८७, १४१२, १३,
१४, १६, २४, ३५, ३६, ३७, ४०, ४५, ६०,
६१, ८१, ९७, ९८, १५००, ०३, ०५, ०६, ०८,
१६, ७३, ७४, ८५, ८६, ८७, ८८, १६०९, ११,

मनस्वत् full of sense or spirit; possessed
of mind ४५, १६६०,
मनस्विन् intelligent; clever ३३०.
मन्मन् thought; hymn; prayer १८, ८१,
८२, ८८.
मन्मात्र of my size; like myself ३०३.
मना thought; anger १२६.
मनीषा prayer; hymn; thought; concep-
tion; intelligence; desire; wish १०५,
५८, २३५, ४१, ७६, ३०६, ५२१, ६५, ९३,
१३६६, १४३६, १५९७, १६०९, ३१, ५१.
मनीषिन् intelligent; wise १७, १८४, २२६,
५९, ७२, ३३४, ४६, ४९, ५०, ५०७, १३१९,
३२, ४१, १४१२, १५७३.
मनु man; mankind; a hymn; chant;
name of a sage or ऋषि; name of a
प्रजापति; the father of mankind; thin-
ker; thought २३, ६४, ६५, १२७, ४५, ६३,
६६, ४९५, ९९, ७९९, ९८४, १०३०, १३५९,
१६४०, ५७.
मनुष्य man; a human being; mankind
२, २१, ३२, ५३, ८२, ११५, १७, ५५, ६०, ६२,
६३, ६६, ९०, २५०, ७८, ८१, ८२, ८३, ८४,
३०६, ३५, ४६, ४९, ५०, ७९, ४०१, ०५, २१,
३१, ३४, ४९, ६४, ७०, ७८, ८९, ५०७, ६५६,
५७, ७१५, ७८, ८५, ८३४, ९२९, ३२, ३३, ३५,
९०, १०१९, २९, ३०, ३८, ४१, ४७, ५३,
१२१६, ६८, ६९, ७५, १३०३, ३२, ३३, ३८,
४२, ५१, ५२, ५५, ५६, ५९, ६१, ६३, ६९,
७१, ९५, ९७, ९९, १४२३, ५८, १५०९, ७३,
१६४३, ४८, ६५.
मनुष्यकाम desire of men ७६४.
मनुष्यकृत man-made १६४६.
मनुष्यगन्धर्व human Gandharvas ७२८.

मनुस् man; mankind १३, ९२.
 मनोकृत the action of the mind १५००.
 मनोजवस् having the velocity of the
 mind; fleet as mind ६५, २६१, ४०५,
 ३०, ९१, १४५०.
 मनोजवा the name of one of the seven
 flames of अग्नि १४५१.
 मनोजू inspiring; speeding; like the mind
 १८५.
 मनोज्योतिस् whose light is mind ११७०, ७१.
 मनोऽनुकूल agreeable to the mind १५८८.
 मनोनेत्र having mind for his eye १३६५.
 मनोनेत्रा having mind for the eye; hav-
 ing mind for its leader ३१६, ३७.
 मनोपेत devoid of mind or thinking
 power ६६५.
 मनोऽभिसंपन्न thoughtful; possessed of
 mind ३१६.
 मनोमय mental; made of or consisting of
 mind २६१, ३१९, ४०३, ०४, ६१०, १२, १४,
 ८७, ८८, ९९, ७१५, १६, २८, ४०, ८०९,
 १०५१, १२२९, ७४, १३३७, १४६३, १६४७, ५५.
 मनोयुक्त accompanied by the mind १३५६.
 मनोरूप mental form; mind; mental
 sphere १३८६.
 मनोवाक्कायकर्मन् thought; speech and physi-
 cal action १६४७.
 मन्तव्य to be thought or perceived ६९१,
 १०९२, १२६१, १५०८.
 मन्तु the thinker; knower; perceiver
 ६१८, ७०, ८९, ११३३, ५४, ६५, १२१४,
 १५०८, १६५९, ६०.
 मन्त्र a chant; a verse (from the *Veda*)
 ५२, १०२, ३०४, ४५०, ८०, ५२२, २३, २४,

मन्त्रविद् well-versed in *M*
 knows the *Mantras* १२.
 मन्त्रार्थ the sense of a *Mantra*
 मन्त्रिन् the knower of मन्त्रस
 god *Siva*) १३८.
 मन्थ scum; potion ३३१, ३२,
 ०२, ०३.
 मन्थन churning; generating
 मन्द the stupid man; a fool
 मन्दसान intoxicated (with
 ing (सोम) ४५, ६४.
 मन्द्र rumbling; deep and
 sweet; agreeable ६५, २
 ५०९, १३४०, ४५, १६६८.
 मन्यमान thinking; fancying
 मन्यु thought; anger; ferve
 name of a vedic deity
 ३०७, १४, २२, ४०, ४१, ४
 ४३४, ५५, ७३, ८२, ८४, ८
 १६४०, ४३, ४४, ४६, ४७, ५१
 मन्युकृत done in wrath or
 ४४.
 मन्युपति the lord of anger
 १६४३, ४४.
 मन्वान thinking; believing ९
 १२१४.
 ममत्तिन् longing for; desiro
 having a desire or likin
 मयस् refreshment; enjoym
 १४५, ४९४.
 मयस्कर refreshing; giving p
 मयूख a ray ९१, २४८, ७७, १६
 मयूरीवा the neck of a pea-
 मयोभव causing pleasure

Index of the important Sanskrit words

मरिष्यत् about to die ३२९.
 मरीचि a ray of light ३३, १०५, ७९, २७२,
 ८८, ९४, ३६३, ४०४, ०८, १२, ५८१, ६१७,
 ८९, ७८४, ९२, १३६५, ६६, १५०५, १६६४.
 मरुत् wind; storm; name of a group of
 vedic deities ९, १३, ३०, ६५, ८२, १२५,
 २७, ६६, ७४, २६५, ३७७, ४३२, ३४, ९५,
 ९८, ७९७, १०३७, १६३३, ५४, ६३, ६६, ८२.
 मरुत्त name of a king १६५३.
 मरुत्वत् accompanied by the मरुत्s (epithet
 of इन्द्र) ४५, ६९, १२६, ३४३, ४८, ७५.
 मरुद्गण the host or troop of the मरुत्s ३६७.
 मरुद्बुधा name of a river १६३३.
 मर्कट a monkey ६१७.
 मर्चयत् cutting away; moving up ३८३.
 मर्दित् one who shows favour; comforter
 ४७५, ८३.
 मर्त a mortal; a human being ८, १३, ४५,
 ९१, १८९, ५०७.
 मर्त्य mortal; a human being ११, १२, १५,
 १७, १८, २०, ५५, ५८, ६४, १०३, २०, ३१,
 २१८, १९, २३, ५०, ५३, ६०, ९५, ३०२, १०,
 ४०, ५३, ५८, ६६, ६९, ९०, ९८, ४६१, ६३,
 ६४, ६६, ७१, ९३, ५०७, ०८, २२, ४२, ५९,
 ६२६, ८२९, ९४४, ६२, ७७, १०२१, ८२, ८३,
 ८५, ११६८, ७९, १२३६, ९२, १३३७, ५५,
 ६९, ७१, ७२, ९०, ९७, १४०३, २८, ३८, ३९,
 १६३०, ४६, ५६, ७८.
 मर्त्यलोक the world of mortals i. e. the
 earth १३९७.
 मर्म vital part ५०८.
 मर्य man; hero; warrior ४२९, ६२७, १३०५.
 मर्यादा boundary; limit ११८, ४८२.
 मल dirt; excretion; waste ५०४, १३४७.

मह् great ६, ७०, ७१, १२४, २६, ९
 मह great २४६.
 महत् great; strong; mighty; m
 extensive ३०, ४५, ५५ ५८, ५
 ९४, १२१, ३३, ४०, ४६, ४८, ५
 ६९, ७१, ७२, ८०, ८१, ९९, २१
 ४९, ५०, ५४, ५५, ६२, ७३, ७९
 ०३, ०५, ०७, ०८, १०, २२, २५
 ३५, ३६, ३९, ४०, ६७, ९१, ४३
 ७८, ८५, ५०७, १९, २०, २२, २
 ८२, ६१४, ३८, ८७, ७३८, ३९,
 ८३, ८४, ८२९, ५४, ९०३, १८,
 ९६, ९८, ११८६, १२४५, ४६, ५७,
 १३०१, ४७, ५५, ५६, ५९, ९६,
 ०६, ०७, १४, १६, १८, २१, ३१
 १५७३, ७४, ९४, ९७, ९९, १६१
 ३१, ३३, ३४, ३५, ४०, ४६, ६
 ७९, ८२.
 महती see महत् २०२; ४९२, १२४१, ९
 महत्तर greater १६६८.
 महत्ता greatness; strength ९३२
 महदुक्त्य mighty chant ११२, ६
 महद्युतिकर bestowing great lu
 महयत् making great; glorifyin
 happy ९७३.
 मह्य to be glorified; to be m
 ९७३.
 महर the fourth व्याहृति or utte
 other three being सु, र्
 स्वर ६९७, ९९.
 महर्षि a great sage २६२, ५१२,
 १६०८.
 महस् lustre; greatness; glo
 great ११, ७५, ८८, ३१४, १

महाजप a particular personification १३४.
 महाज्ञेय the great matter to be known
 i. e. the ब्रह्मन् १६३७.
 महात्मन् high-souled; great; the mighty
 being; the great soul ३६७, ८२९,
 १३५५, ९३, १६०९, १३, २८, ६८.
 महादेव the great god i. e. god *Śiva* १३४,
 ७४, ३३६, ४३४, ५०, ५२, १५७४, १६३१, ४१,
 ८२.
 महादेवी a great goddess १६४४.
 महाधन war ३४४.
 महानदी a great river १६५६.
 महानाम्नी name of particular hymns
 from the सामवेद ४४५.
 महानिवेश an extensive abode or resi-
 dence १३५९.
 महापथ the high street; main road ९६७.
 महापुरुष the great being or man ६१३, ८८.
 महाप्रस्थान departing this life; dying;
 death १६७१.
 महाबल very strong २५२.
 महाब्राह्मण a great *Brāhmaṇa* १०७६.
 महाभूत a great element ५९४, ६८७.
 महाभूमि a great country १३९६.
 महामत्स्य a large fish १२०५.
 महामनस् high-minded; magnanimous
 ७८१, ८८२.
 महामह very mighty; possessed of great
 lustre; very radiant ६३.
 महामांस human flesh १३४४.
 महामेष a great or dense cloud ६८४, ८९.
 महायम the great *Yama* १७४.
 महायशस् very glorious; renowned ५०१.
 महारथ a great warrior ५१४.

or utterances viz भूर्,
 महर् ३०४, ०५, ३२.
 महाव्रत a great duty; fundar
 ११२, ७०, ४४५, ६९, ६१४, १
 महाशनतम most voracious १३
 महाशाल the possessor of a l
 great householder ३८, ४
 ७२, ९८, १४४३.
 महाश्रोत्रिय a great theolog
 learned in sacred lore
 महासंहिता great connection
 tion ६९४.
 महासुहृद्य a high-spirited hor
 महासेन the great general or
 (an epithet of षडानन)
 महास्रज a great or powerful
 महास्य large-mouthed १३३.
 महि great; extensive grea
 १७०, ८४, १३६१.
 महित्व greatness; strength
 ३, ९१, १११, २३०, ५०९.
 महित्वन् greatness; eminence
 ७६, ८६, ९२, ९७, १८९, २१७
 महिदास name of a son of इ
 ८१६.
 महिदास-ऐतरेय see महिदास १३६८
 महिना mighty; great migh
 (as in महिनावन्) १३६१.
 महिनावत् great; mighty;
 might ९४.
 महिमन् greatness; eminence
 २१, २४, ५५, ६१, ६३, ७९,
 ११, ६१, ६८, ७२, ७५, २२९

ही the earth; the great; mighty; extensive ५५, ५७, ६३, ७८, ८०, ८१, ९४, ९७, १११, २६, २७, ४७, ७०, ७८, ९८, ९९, २२१, ४४, ४७, ५०, ३२४, २५, ४८, ५६, ६५, ८७, ९४, ४४९, ५२०, १३३३, ५६, १५८६, १६२९, ४३.

हीयमान being happy १७५.

हीयस् very great; greater १४०६, १५९९, १६२९, ३५.

हीया joyousness; exultation १३३८, ४३, ४४.

हीलुका a cow ४३४.

इन्द्र name of the Vedic deity इन्द्र १०९, ७४.

इश्वर the great lord; name of god *Śiva* ३३६, १६०६, १९, ३७, ७९.

इश्वरी name of *Durgā* १५७४.

होपनिषद् the great secret; highly secret teaching १६५१.

होरग a great serpent १६५६.

ज्ञान greatness; might; strength २४४, ४५.

मांस flesh ३६, १५९, २४४, ३०६, ०७, ०९, १५, ४३६, ७४, ५३७, ६१०, ८७, ९१, ७०१, ८३, ८९९, ९८७, १३४०, ४४, ७०, १६४७, ५२, ५६.

सौदन meat and boiled rice १३०८.

मा a particular utterance; the sound मा which in the utterance हुं मा has been identified with the moon or the month १३५८, ५९.

क्षव्य name of a teacher ५९७, ६८४.

गध son of an unmarried woman ४५०, ५१.

गिटि name of a teacher १११४, १२६५.

गण्डव्य name of a teacher ६०९.

माण्डूकेय name of a teacher ५९७, ९८, ६०, ०३, १०, २३, ८३, ८४, ८५, ८७, ९०, ९१.

माण्डूकेयिय relating to माण्डूकेय ६२३, ९०.

मातरिश्वन् name of a Vedic deity; win १०४, २२७, ३४, ४६, ५०, ५१, ३०४, २३३, ७७, ४२४, ५०, ५१, ५०९, १३१६, ८१४९९.

मातली name of a divine being associated with *Yama* and the *Pitrs* १६३५६.

मातृचै to measure; cover २१८.

मातृ mother ४४, ५९, ६१, ६६, ६७, ६९, ७५, ८३, ९०, १०३, २०, २३, ३४, ४६, ६४, ६५, २०९, १०, २०, २१, ३५, ३१६, ४४९, ६५, ६६, ७२, ४०३, ०५, ०७, २७, २३०, ३५, ४५, ६६, ८४, ८५, ८६, ८८, ९५०१, ०७, १०, २२, ६०७, ०८, ३०, ८६, ९८३०, ३१, ८१, ९३७, ३८, ५९, १०५३, १२१९२, १३१०, ४२, ५७, ५९, ६८, १५००, ७१६३३, ४३, ४४, ४६, ६८.

मातृत्तम most motherly १५६.

मातृदेव having one's mother for a deity ७०४.

मातृमत् accompanied by a mother; possessing a mother ५०९, ११८२, ८४, ८६.

मातृलोक the world of the mother ९५९.

मातृलोककाम desirous of the mother world ९५९.

मातृवध matricide; mother's murder ६५.

मातृहन् the slayer of a mother ९३८.

मात्रा measure; syllabic instant १६२३०, ५३, ९०, ४९२, ५२३, ६०३, ०४, ०८५, ८६, ९४, ७९१, ८२१, ११९७, १२१.

माध्यन्दिन-सवन mid-day libation १३३४,
४०, ६८.

मान measure; pride ४५, ५२, ७८, ६२९.

मानव man; human being; human;
pertaining to man; earthly; name of
a teacher. (see मानव-शर्यात) २०, ४१६,
५०६, ०७, ८४०, ४९, १६२६.

मानवत् honourable; worthy of respect
७४०.

मानव-शर्यात name of a teacher १३५१, ५२.

मानस mental ११०६, १२९८, १६५०, ५१, ६२.

मानसी mental ६३३.

मानसीन to be perceived by the mind
२६६, ६७.

मानिन् proud; possessed of self-respect
१४००.

मानुष human २, ९६, ११५, २३८, ३६९, ४१५,
८१, ७०२, २८, ८५०, ५७, १०४२, ११०७,
१२९४, १३८६.

मानुषनिकाशन giving out a human being;
resembling a human being १३५९.

मानुषी human ३, ८६, १५६, ७१, ३४२, ४१३,
६२१, ८९, ७४०.

मानुष्यक human १२१६.

माया illusion; delusion; supernatural
power; fraud; trick; apparition ५२,
५४, ६१, ६७, ७८, ८२, ८३, १०१, ०५, १७,
६१, ६३, ७०, ७१, ८१, २०५, ५०, ५३, ७२,
९९, ३००, ४६१, ९०, ५००, ०७, ११११,
१३४३, ६५, ६६, १४९६, १६०६, ४६.

मायापरिमोहितात्मन् whose mind is comple-
tely deluded by *Māyā* १६७५.

मायामय consisting of illusion; illusive

मारुत pertaining to the mar-
of the मरुतस ६, ५७, ७३,
१६६८.

मार्ग path १६६०.

मार्जालीय name of fire; pa-
fire ४५९.

मार्तण्ड the sun १६६, २७५,

मार्त्तव्य patronymic of अन्तव

माल्यहस्त who have flower

माष a bean ८६५.

मास month ३२, ३५, ३६, ३७,
६३, ७१, ७३, ९१, २०२.

०५, ४९, ५१, ५२, ५३, ६४,
८७, ९५, ८४०, ६०, ६३,

१२९८, १३००, ०९, ३३, ४४,
१६३०, ५२, ६३.

माहाचमस्य name of a sag

माहारजन dyed with saffro
oured १०८५.

माहित्य patronymic of a

मित measured; limited
variety of the महत् (

five varieties) २५२,

मिति measurement; dime

मित्रं a friend; companion
४५, ४९, ६०७, ८६, १३५५

मित्रः the sun; name of a
५, ६, ९, १२, ५७, ७२,

९९, १६५, ६९, ७२, ७३,
६६, ७८, ४२४, ३४, ४१,

९९, ५११, २५, ६१३, ८८,
१६४०, ५१, ६६.

मित्रमति-लौहित्य name of a

५६९, ७४८, ४९, ८२, ९९५, १०२०, ५४,
१३४६, ४७, ६३, ६५, ६७, ८७, १४९१, ९६.

मिथुनत्व the state of forming a pair १६१.

मिथुनसंगम the union of a pair; contact
with a couple or pair ८६.

मिथुया falsely; incorrectly; invertedly
३५४.

मिथू see मिथुया २६४.

मिथ्यादर्शन false appearance; delusion;
wrong notion १६५६.

मिथ्यादृष्टान्त a wrong illustration; false
analogy १६६७.

मिथ्यामनोरम beautiful only in appear-
ance १६५६.

मेमान measuring; covering; putting;
bestowing १७१, २४६, ३४३, ६२.

मिश्र mixed; varied ३६८, १०४७.

मिषत् winking २१८, ५०, ७९, ५८०, १६३३,
५३.

मिह् mist; shower; rain १९४.

मीढुषे bountiful; liberal १३६, ७०.

मीढुष्म most liberal १३६, ४७, १५७४, १६४३.

मीढुष्टर very liberal १४१.

मीढवस् bountious; liberal ८०, ९०, १२७,
४७, ८३.

मीमांसमान discussing; wrangling ४७३,
१३६४.

मीमांसा discussion ७२८, ८७१.

मीमांसित discussed; discussion ४७३, १०४१.

मीमांस्य (problem) to be discussed;
(matter) for consideration १३७७.

मिततर quite or completely mingled
or merged; (epithet given to the
moon) २०३.

मुक्त liberated; free १६५६, ६३

७२, ८०, २०२, ३३, ४४, ४७, ८६, ९०, ९

३१४, ६९, ८३, ४०५, ०९, ३५, ३९, ५९, ६

६९, ५२३, २९, ८१, ८३, ६४८, ४९, ५

७४०, ९५, ९६, ८२७, ३८, ९८२, १०२०, ४

१२८४, १३०६, ०७, ०९, २५, ३३, ४६, ७

१५०१, १६११, ४४, ५१, ६५.

मुखत्स् from the face or mouth; by the
mouth ११८, २८१, ८३, ८६.

मुखनासिक the mouth and the nose ६८९.

मुखरत्नकोश the store-house of mouth and
other parts of the body conceive
of a jewels ३०७.

मुखवती having a face or mouth १६५८.

मुख्य foremost; first; principal ४१; ४
२८१, ३६८, ७५२, ५९, १३५३.

मुग्ध simple; foolish ४५७.

मुच्यु name given to मृत्यु ३०४.

मुञ्ज a kind of grass १३५६, १४४०.

मुण्ड a man with a shaven head १६७१.

मुण्डमुण्ड the head ६९२.

मुद् joy; pleasure ३५६, ११९८.

मुनि a sage; ascetic ६८, ११३७, १२४
१४२६, १६५०, ७३, ८०.

मुनिमरण a place where sages die ४०२.

मुमुक्षु desirous of liberation from mun-
dane existence १६२६.

मुमुक्षान being released ५०४.

मुलाली (=मृगाली) a species of edible lotus
३७०.

मुष्क the scrotum १३०५.

मुष्टि a handful; a fist २८, ९२९.

मुष्णत् stealing १३९.

मुसल a pestle ४०५, ३६, ७३.

मुहूर्त a moment; auspicious moment

मूढ deluded; foolish १३९९, १४००, ५१,
१६६७.
मूढत्व folly; delusion; misapprehension
१६५६.
मूल sheaf; bundle १३३५.
मूत्र urine ३२८, ९०१, १६५३, ५६.
मूत्रद्वार the passage for urine १६५६.
मूत्रपुरीष urine and excrement १५९०.
मूर्ध dull; foolish ६५.
मूर्ते incarnate; embodied; substantial;
material १३४, ३५, १०८२, ८३, ८५, १४९१,
१६५८.
मूर्ततर comparative of मूर्ते ३१९, २०, २१.
मूर्ति material form; body; embodiment
४९३, ५८४, १४९१, १५८४, १६६०.
मूर्ध्व head; the topmost part of any
thing २, १३, २३, ४१, १०१, २१८, ३८,
४५, ४८, ५१, ६०, ६६, ३०४, २२, ४१४, २६,
६४९, ५०, ७५, ९२, ७६५, ६६, ६९, ७०, ७१,
८७४, ९६८, १०१३, ६७, ११४५, ४७, ७७,
१२२४, १३४३, ४४, १४३९, ५६, १६६१, ६२,
८१.
मूल the root; the main cause १७०, ५४१,
९०७, ०८, १८, ११७९, १६८०.
मृग a deer; a beast; an animal ७२, ८२,
८८, १२७, ३२, ४६, ५०८, ०९, १३५६, ६४,
६५, १६३५, ४५, ६१.
मृगयु a hunter; huntsman १४१.
मृणत् destroying; devastating १३१, ३४३.
मृत dead १६६, २१९, ६४, ३५३, ४००, ६५१,
११२४, १२३६, १३५७.
मृतसूतक still-birth १६५९.
मृत्तिका earth; mud; clay ८८५, १६३२.
मृत्पत्र a potter १६५५.
मृत्पिण्ड a lump of clay ८८५

०८, १०, ११, १२, १३, २४,
६१, ६३, ७५, ७९, ५१२, १
६७७, ७२८, ५७, ५८, ८५,
७७, ९०, ९५, ९९, १००६, ०
६३, ७०, १११४, १६, २३
१२४४, ६६, १३२२, २४, ३
४९, ५२, ५३, ५४, ५७, ५८,
८९, ९१, ९२, ९३, ९६, ९८,
२४, ३४, ५१, १५१८, ७४,
३३, ४०, ४५, ४६, ४९, ५१
६८, ७५, ७८.
मृत्युपाश the snares of death
९४, १६०९, ८०.
मृत्युप्रोक्त told by the god of
४०.
मृत्युभय fear of death ४७९.
मृत्युमती subject to death १५
मृत्युमुख jaus of death; cluto
१३९१, १४१८.
मृत्युलोक the world of death
४०१.
मृद् earth; clay ३५, २९३, ९६
मृदितकषाय whose sins are d
मृदु soft; gentle ७८५, १३५०.
मृदुप्रभ possessed of a mild
१६६३.
मृदुलोहित of pale red colour
मृद्वत्स्थ (iron) that is in t
of clay १६६२.
मृद् adversary; an assailer
attacker १६७, ६९, ३४३, १
मृन्मय earthen; made of cla
८०५.
मृत्पाक merciful; kind १२६.

घ a cloud ३४४, ४७९, ७७५, ७६, ८२, ८२१, ६५.

घ्य being in a cloud १४२.

घि crackling; roaring; a particular स्तोम resorted to in chanting a सामन् ११, ४४५, ६२६.

घि a pillar in the middle of a thrashing floor ३१६.

घस् fat; marrow १६४७, ५६.

घिन् having fat or marrow ५०८.

घिनी the earth १६४३.

घवत् possessed of or rich in nourishment or nourishing drink १६४५.

घा intelligence; talent; wisdom ८६, २४५, ३४५, ९९, ४२५, ३४, ५०१, ०२, ०९, २०, २१, ९३, ६९५, १०४६, १४०७, ८२, १६३१, ४५, ४७, ५१.

घाविन् wise; intelligent; talented ३४४, ५०१, ०२, ९२१, १२१७, १४२०.

घिर intelligent; wise ६३, ६९, ८१.

घेय vigorous; mighty; clean; pure; wise ३६८, ९६, ४७१, ९८७, ९९.

घेनि a weapon; thunderbolt ३०५.

घेष a ram १०२०.

घेहनावत् bestowing abundantly १९२.

घैत्रावरुण name of one of the १६ sacrificial priests or ऋत्विज्स् ४६१, १३५६.

घैत्रि name of a teacher १६५४.

घैत्रैवी name of one of याज्ञवल्क्यस् wife १०९०, ९१, ९२, ११००, १२५९, ६०, ६१, ६३.

घैयुन् mutual; sexual intercourse १४२१, १६५६.

घोक्ष liberation; freedom; final release ३३६, १५७४, १६६४, ६५, ६९.

मोद joy; pleasure; the name of a world ३११, १४, १७, ५६, ४४९, ७१८, १३६२.

मोदनीय pleasurable; enjoyable; yielding pleasure १४०३.

मोदिन् taking delight; enjoying; filled with or possessed of bliss १६६४.

मोह delusion; delusive word ११००, ३६१२४, १३१८, १४९७, १६१५, ५३, ६०.

मोहजाल a net work of delusion १६६७.

मोहमदिरा the wine of delusion १६५६.

मोहान्त deep bewilderment of mind १२६३.

मौजवत् growing on the मुजवत् mountain ४८३.

मौन silence; abstaining from speaking ११३६.

यः करिणी holding a staff or stick in her hand ५०१.

यकार the sound or the letter य ६८५.

यकृत the liver ४३४, ९८७.

यक्ष a supernatural being; a spirit; name of a class of semi-divine beings; magic or magical १०२, ३२, ६२, २४६, ४८, ४९, ५१, ३०२, ०३, ४२८, १२७१, १३८०, ८१, १५७३, १६५३, ६७.

यक्ष्मन् consumption; a disease ३८०, १३६८.

यक्ष्य the adorable form ३०२.

यक्ष्यमाण worshipping; honouring about to perform (a sacrifice) ४७४, १३६.

यजत् worthy of worship; adorable; honest ४, ७१, १२६, ८०, ८१, २००.

यजत्र worthy of adoration or sacrifice ९, १०४, ७२, ४९६, ९९, ५२५.

९०, ९१, ८४७, ४९, ९७३, १०१४, १११७,
१८, १३०५, ३१, ३६, ३९, ४८, ५२, ५८, ५९,
६१, ६५, ७०, १४५०, ५७, १५०६, १६५३,
६४, ६५.

यजीयस् worshipping more or most १३.

यजुर्मय consisting of or comprising यजुः
मन्त्रस ३२, ४०३, ०४, ६६, ६४४.

यजुर्विद् well-versed or knowing the
Yajurveda ५०८.

यजुर्वेद one of the four *Vedas* २८२, ८६,
३०४, ४९३, ५२१, २२, २३, २४, ६१३, २१,
८८, ८९, ७९४, ८१४, ९२६, २८, २९, ३३,
१०५३, ९६, ११८२, १२६१, १३३०, ६०,
१४४५, १६६४, ८२.

यजुष्मती having or accompanied by a
Yajus mantra ३२, ३३, ३५, ३६, ३७,
५१८.

यजुस् the *Yajurveda*; a *Yajus* formula
or *Mantra* worship; sacrifice २७, ३२,
३७, ८३, ११२, १७, १८, १९, ५२, ५३, ५४,
७८, २३२, ४७, ३११, १५, ३०, ३५, ४४५,
४९, ५१, ५२, ७३, ९२, ५१८, २३, २४, ६८,
६३६, ३८, ४५, ९२, ९७, ७१५, ५८, ६३, ९४,
८४८, ९०३, ९७, १२७९, ८१, १३११, ३४, ३७,
४१, ४२, ४५, ४६, ४७, ६०, ६६, ८६, १४५७,
९८, १५११, १४, ७३, ७४, १६४३, ५१, ५८,
६४, ६५, ७७, ७९, ८२.

यज्ञ a sacrifice; worship; devotion; obla-
tion १, ७, १३; ३७, ७१, १०१, ०४, ०९,
११, १९, २०, २२, ३४, ५४, ६१, ६२, ६८,
६९, ७०, ७२, ७३, ७५, ७९, ९६, २०३, २१,
२८, ३२, ३३, ३४, ३५, ४५, ४७, ४९, ५२,
५८, ५९, ६०, ६६, ६८, ७६, ७८, ८१, ८३, ८६,
३००, ०५, ११, १५, १९, २०, २१, ३३, ३४, ३५,
३८, ४९, ६९, ७०, ७५, ९३, ९६, ४०५, ०५

९१, ८१४, १५, ४६, ४७, ४८, ५०,
९८, १००१, १३, ४२, ५८, १११५,
२०, ४६, ६९, १२४७, १३००, ३,
५९, ६०, ६८, ६९, ७०, ८७, ८८,
१५७३, १६०५, ३५, ३६, ४६,
५३, ५९, ६१, ६४.

यज्ञकाम desirous of a worship
०८ १३३४.

यज्ञकृत् performer of a sacrifici-
ship ३९४.

यज्ञक्रतु sacrificial rite; con-
४०७, ७०, ७१.

यज्ञचित्तेष्टकात् (body) compri-
surrounded by the brick
at a sacrifice ३३५.

यज्ञधीर conversant with wors-
rifice ८१.

यज्ञनी conducting worship
१०३.

यज्ञपति the lord of sacrifice
३१७, ३७, ७५, ४३२, ८१.

यज्ञपदी taking a step or step
feet during a sacrifice ४

यज्ञपात्र sacrificial utensils ४०

यज्ञरूप having the form of
१४५१.

यज्ञर्त suitable or proper fo
१६३.

यज्ञवचस् name of a teacher;
of a sacrifice (P) declar
obtainable by यज्ञ ४३७, १३

यज्ञवास्तु a place for sacrifice

यज्ञशमल a fault in a sacrifice

यज्ञायज्ञि(ज्ञी)य name of particu-
३०, १६३, २८६, ४५०, ५१, ६३

ज्ञोपवीत sacred thread ६४६, १६७१.

ज्ञोपवीतिन् one who wears a sacred thread १६७१.

उज्वन् worshipping; sacrificer; sacred ६०, १९३, ४२०, २६.

उत्त controlled; checked ११७.

उत्तवाच् restrained in speech; one who has controlled his tongue or speech १६५९.

उति a sage; an ascetic २७५, ६५७, १४७७, ८४, १६३६, ७३.

उतिधा in as many ways as १६१.

उत्काम having which desire; desirous of which १६४६.

उत्कर्म according to one's actions ६३०, १०६१, १४२९.

उत्कामं according to one's desires or intentions १०७४, १२२९, १४९०.

उत्कामचार action according to one's pleasure; action without any control ९२८, २९, ३०, ३१, ३२, ३४, ३५, ३६, ३७.

उत्कारिन् acting in such or in whatever way १२२९.

उत्कालं at a suitable or proper time १४५०.

उत्कामं in due order; respectively ११९७.

उत्कालं according to one's house (i. e. to one's respective homes) ११८.

उत्कारिन् as proceeding; as acting १२२९.

उत्कालं holding his body as it was born i. e. naked १६७१.

उत्कालं deity after deity १०६३.

उत्कालं as directed; according to

उत्कालं in the proper manner; rightly suitably २५०.

उत्कालं according to one's knowledge ६३०.

उत्कालं according to prescription or rule ९८४.

उत्कालं according to knowledge १४२९.

उत्कालं as wished for; fulfilling wishes १५०३.

उत्कालं according to one's proper place ३१४.

उत्कालं each in one's proper place ३१४.

उत्कालं properly worshipped (said of रुद्र) १५०.

उत्कालं one of the two forms of ब्रह्मन् १०८४, ८५.

उत्कालं chance; accident १५७५.

उत्कालं a driver; charioteer; controlled १२०, ९१.

उत्कालं god of death; control; restraint; self-restraint (the 1st of the 8 means of योग); name of a *Sāman* ६९, १६२, ६२१, २७, ४९, ६५, ३५६, ५७, ५९, ६२, ६३, ७०, ७८, ८६; ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९७, ९८, ४०१, १०, १४, १५, १६, १७, २३, ५५, ७७, ५०५, ६७८, १०३६, १२८, १३२६, ६९, ९०, १६४५, ५७, ७८.

उत्कालं a messenger of the god of death ३८२.

उत्कालं having god of death for deity ११७४.

उत्कालं king *Yama*; having यम for the king ३८७, ८८.

उत्कालं dominion of *Yama* ३८७, १६६५.

उत्कालं being *Yama's* realm १६५६.

- यव्युध् eager to fight; fond of war १४८.
 यशःश्री glorious success १३८६.
 यशस् success; fame; glory २०, १७०, ७४,
 ७५, ८१, २४६, ४९, ५५, ९४, ३११, १४, १५,
 ५१, ५४, ४०६, २६, ५०, ५१, ६१, ६२, ७०,
 ७३, ९२, ५००, ०१, १६, १९, ६९, ९८,
 ६००, ०३, ०४, ०६, ०७, ०८, २३, ३३, ४५,
 ५५, ८४, ८५, ८६, ८७, ९४, ९५, ७४०, ९४,
 ९५, ८०४, २०, ९८३, ९८, १०३६, ८१, १२८१,
 १३०६, ३२, ३५, ४३, ४४, १६१०, २२१, ४०,
 ६५.
 यशस्यु desirous of glory or fame ४३२.
 यशस्वितम most glorious or famous ६४५.
 यशस्विन् glorious; successful ८०४, १३०६,
 ४३.
 यशस्विन्-जयन्त-लौहिल्य name of a teacher
 १३६७.
 यष्टव्य fit to be worshipped or honoured;
 worthy of adoration or sacrifice
 ४०७, १६६४, ६५.
 यष्टि a stick; staff ५०१, ६७९, १३०६.
 यह् restless; active १७२.
 यहती ever flowing ३५५.
 यही restless; swift; mighty; strong २,
 ३६५.
 या a particular स्तोम ७७३.
 याचमान begging; requesting; soliciting
 ३७२, १३६४.
 याचित requested; solicited; begging
 १६३३.
 याजुषी pertaining to यजुस् ४९३.
 याज्ञवल्क्य name of a teacher ६३१, ४०९,
 ६७, ६९१, १०१९, ९०, ९१, ९८, १११५, १७,
 १८, १९, २०, २१, २३, २४, २५, २९, ३०

- याज्ञिक well-versed in sac
 ४७.
 याज्या name of particular
 the *Rgveda* ३१५, १११८,
 यातयाम stale; used; spoiled
 यातु sorcery; witchcraft
 ५०९.
 यातुजू incited or possessed
 spirit १६४३.
 यातुधान a kind of evil spirit
 २५२.
 यातुधानी a demones १३५.
 यातुविद् skilful in sorcery
 याथातथ्य real nature; the tr
 thing) १२०, १३१९.
 यान a vehicle ११८, ९७९.
 याम a passage; path; going
 यामन् passage; path; going
 यामहृति invokation for a
 help; sacrifice ४७६.
 याम्य belonging to यम १४२.
 यास्क name of a teacher १
 युक्त associated with;
 proper; suitable; yoke
 petent १११, ६१, २१०, १
 ३९२, ५७४, ७५, ७०४, ९७९
 ५६, ७३, १४१३, १५०३, ८५,
 युक्त्यावन् having set the sto
 ४६, ४७३.
 युक्त्येष्ट्र behaving properly
 युक्तात्मन् concentrated in m
 युग age; yoke; pair ८१,
 ३६५, ८४.
 युज् a friend; companion
 associate ६३, १६६, ९३

युधि war; battle ३४३.
 युवति a young woman १२४, २३५, ४७, ४८.
 युवन् a youth; young man; young ६९,
 ९०, १२७, ४१, ४६, ६८, २३०, ५१, ३२७,
 ४२५, ५१४, ७२८.
 युष्मद् you; 2nd personal pronoun १८.
 युथ flock; herd १७०, २१२.
 युष्प sacrificial post १७०, ४७३, ५०८,
 १६५१.
 युधि a warrior १०५.
 युमान controlling ४१८.
 युधिह name of particular मुहूर्तस ६३३, ३४.
 युग contact; connection; joining; pra-
 ctice ६३, ८०, १६२, २३६, ७१७, १४३७,
 १५८९, १६१८, ६२, ६३.
 युगक्षेम welfare; prosperity; livelihood
 ५१४, ७४०, १३९८.
 युगगुण quality of योग १५८९.
 युगप्रवृत्ति progress of योग १५९०.
 युगविधि practice or mode of योग १४४०.
 युगामिमय consisting of the fire of योग
 १५८९.
 युगभ्यास practice of योग १६६३.
 युगिन् a contemplative saint; ascetic
 ३६८, १६६०.
 युगीश्वर the best ascetic १६६६.
 युगैश्वर्य mastery of a योग १६७९.
 युगय hose; a yoked (animal) १६१.
 युजन union; contact २१०, १५८१.
 युनि womb; generation; home; abode
 १०९, २४, ५०, ६१, ६६, ६९, ७१, ८२, ९७,
 २२०, ३८, ५४, ५८, ३२८, ३५, ७४, ४०३, ०४,
 १३, १४, २२, ३०, ५५, ६३, ८५, ९३, ६३७,

योनिसुक्त freed from योनि or birth १५७९.
 योषन् a woman ३५३.
 योषा a woman ५१४, ८६०, १२९७, १३४६.
 योषामि fire in the form of a woma
 १३००.
 योषित् a woman ३७५, १३५७.
 योषिता a woman १४५७.
 यौवन youth १६६०.
 यौवनाश्व name of a king १६५३.
 रक्त red १६८२.
 रक्ता red; attached ४१५, ५२३, १६८०.
 रक्षक protector ६७.
 रक्षस् a demon; an evil spirit २२, १६
 ७५, ९०, ३०६, ५४, ८२, ४३४, ५०६, ०
 १६४३, ६६.
 रक्षित् a protector १३, ४४, ६८, २०१, ३५७.
 रक्षोहन् a demon-killer; one who kil
 demons १८८, ३८५.
 रघु quick; speedy ६०.
 रघुच्यद् quickly moving or flowing १७०.
 रङ्गावतारिन् dancer; actor १६६७.
 रजत silver १७५, २९०, ४९९, ८२१, ४
 १३६०.
 रजतनाभि name of a descendant of कु
 १६४.
 रजतपात्र a silver pot or vessel १६३.
 रजतमय silver १३६८.
 रजस् region; dust; aerial region; th
 second of the three qualities of प्रकृति
 १०, १३, १४, ४४, ६७, ६९, ७६, ७७, ८१, ८२
 ८६, ८७, ९१, ९२, ९७, १०४, ११, ३२, ६८
 ७१, ७२, ७३, ७५, ८६, ९३, ९६, ९९, २०५
 ०८, ११, १३, ३९, ४९, ५१, ५६, ६९, ७०
 ३५८, ६२, ७१, ८०, ८२, ४९७, ५०९, ७

रण्व agreeable; pleasant १९२.
 रत्त engrossed in; attached to; taking
 delight in १२४०, १३२१, २३.
 रति joy; pleasure; attachment ६३८, ५५,
 ६८, ६९, ७०, १३९७, १४९५, १६५६.
 रतिमात्रं more enjoyment or pleasure
 १६६७.
 रत्न a jewel ११, ७१, ९८.
 रत्नधा bestower of jewels ७, २२८, १३१०.
 रत्नधातम the foremost of the bestowers
 of jewels १, ५२४.
 रथ a car; chariot ४६, ५४, ६८, ११८, ३१,
 ४१, ६९, ७१, ७३, ८८, २०७, ३५, ५२, ७१,
 ३५९, ६३, ७८, ४०७, २९, ३७, ५०९, ६१७,
 ३५, ७१, ८९, ११८६, ९८, १३३०, ५७, ६०,
 ६५, १४१२, १५१४, १६५५.
 रथकार a chariot-maker; a carpenter १४१.
 रथकान्ता travelled over by chariots १६३२.
 रथचक्र chariot-wheel ६३५, १२७६.
 रथनाभि the nave of a chariot-wheel
 ३३५, ६१६, ८८, ११०८, १४६२, ९८, १५१८,
 ७३.
 रथनेमि the rim or circumference of a
 chariot wheel ११०८.
 रथन्तर name of a particular *Sāman* २५,
 १६३, ७३, २१७, ८१, ८२, ८६, ४५०, ५१,
 ५६३, ६०५, ०६, ३६, ८६, ८९, ७८१, १६५१,
 ६६.
 रथपति the master of a chariot १४१.
 रथमध्या having रथs in the middle or
 centre ४९९.
 रथयान the path to be traversed by a
 chariot ३७०.
 रथयोग a team (of horses etc.) on a
 chariot ३३०.

रथेष्ठा master of a chariot; o
 a chariot; standing in a
 रथ्य a horse (yoked to a ch
 ४७६.
 रघ्न weary; miserly ४६.
 रन्ति satisfaction; enjoymen
 nce २७३.
 रन्ध्रायन moving out through
 having an aperture for
 रपस् injury; disease १२५, २
 १३५५.
 रफित hurt; injured ४७५.
 रमणीयचरण of pleasant condu
 viour ८६७.
 रमणीया agreeable; pleasant ८
 रममाण taking delight in ९७
 रम्य agreeable; pleasant १५
 रथि wealth; riches; abunda
 ४०, ४२, ४९, ७३, ११७, ८२,
 ३५८, ९८, ४०६, ७५, ५१४, ८
 ९३, ९५, ९८, १६४५, ४६, ७०.
 रथिमत possessed of or acco
 wealth ८७५.
 रथिवित् who finds or obtai
 bestowing wealth ६.
 रथिष्ठा possessed of wealth; a
 १६५१.
 रवि the sun १६६६.
 रवितुल्यरूप possessed of sun-
 १६१४.
 रशाना rein ४२८.
 रश्मि ray; rein; rope २, ३३,
 २४२, ६१, ६८, ७०, ७१,
 ४०४, ०५, २३, ३५, ५०
 ५०, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००.

दशशत hundred rays १६६३.

स sap; juice; delight; joy; sentiment;

taste ७१, ११६, ५४, ५८, ५९, २०४, ५१,

५३, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ३०४, ०६, ४७,

८६, ४०४, ७३, ५१६, २०, २२, २५, ५९,

६१३, ८८, ९१, ७२५, ४७, ४८, ४९, ५३, ९४,

९५, ८४८, ९१६, ३३, १००६, १०, ८३, ८४,

८५, ९७, ११२२, ७८, १२६१, १३०४, ३०,

३२, ३६, ३८, ४३, ४४, ५३, ८७, १४२१, ५८,

१५०८, १६३३, ३५, ४४, ४८, ५७, ६०, ६२,

६४, ६५, ६६, ८१.

सघन consisting entirely of juice; mass

of sap १२६३.

सतम essence of essences ७४८.

सयत् tasting १२१३.

सयितव्य to be tasted or enjoyed १५०८.

सयित् one who tastes १२१३, १५०८, १६५९,

६०.

सा name of a river; a river १९५.

ह्स् secret; a secret place; privacy

१३५४.

ह्स्स्य the secret ४७१, १६६१.

ह्स्स्यु name of a demon ४०२.

क्षस a demon १६५३, ६७.

ग attachment १४५१.

गान्ध blind with attachment १६५६.

राजकर्मन् royal duties १६६७.

राजकुल royal family १३६३.

राजन् a king २, ३, ४, ६, ७, १४, ३९, ४०,

४१, ५३, ६७, ७०, ७२, ७४, ७६, ७७, ७९,

८१, ८२, ८४, ८५, १३३, ४६, ५६, ५७,

६४, ९५, २५१, ६८, ७०, ३१४, ३७, ३९,

राजन्यं a man of the warrior class;

क्षत्रिय १४१, २३३, ५२, ८१, ८३, ८४, ८६,

४३५, ५३, ५१४, १३३१.

राजन्यवन्धु the relative of a राजन्व्य (i. e.

राजन्य only in name) ११५, ८५७, १२९३

राजपुत्र a prince १५१४.

राजयक्ष्मन् consumption ४४०.

राजस dominated by or pertaining to

the quality of रजस् १६५६, ५७.

राजस्य name of a sacrifice ४४५, १०३६.

राजस्तम्बायन name of a teacher १३११.

राजि a line; a row; series १०८०.

राजेन्द्र lord of kings; a great king ६६.

राज्ञी a queen ८१३.

राज्य dominion; kingdom; territory २३३

३९७, ७८६, ८५४.

रातहव्य to whom offerings have been

made ४९६.

राति a gift ९, २१, १८१, ३११, ४९४, ११७९.

रातिषात् granting favours; liberal; gene-

rous ८, ४९८.

रात्रि night ३६, ११९, ६२, २४०, ७६, ८५, ९९

३८४, ४०४, ०५, ५४, ६६, ५१८, ३५, ६१९

८७, ८५४, ५९, ६३, ९९०, १०५५, १२९६

१३००, ३९, ४६, ५४, ७१, १४९५, १६०९, ३३

४४.

रात्री night ९७, १३१, ७४, ७५, २५१, ७९

३२६, ४७, ४०३, २१, ३३, ५०, ५१, ५४, ५६

५५४, ९३४, १३९१.

रात्रीसूक्त name of the hymn interpolated

after Rv. X. 127 ६१७.

राथीतर patronymic from राथीतर ७०२.

राथीतरीपुत्र name of a teacher १३१०.

राधस gift; favour; munificence ४८, ५

राद्धि good fortune; completion २४५,
४४९.

राध्य to be accomplished १९२.

राध्यमान being accomplished ४३६.

राम-क्रातुजातेय-वैयाघ्रपद्य name of a teacher
१३६७, ७२.

रामा a beautiful woman १३८७, ९७.

रायस्पोष nourishment or growth of
wealth २७३, ३४०, ४६१.

राशि heap; sign of the zodiac ९२६, २८,
२९, ३३.

राष्ट्र nation; kingdom; territory ७६, १६२,
६६, ६७, ६८, ६९, ३१४, ४२४, ३४, ४८,
५३, ७०, ७१, ५००, १४.

राष्ट्रसूत a tributary prince; name of an
अप्सरस्; the supporter or protector of
a nation १६९, २४९, ४८८.

राष्ट्री a female ruler १९८, २३७, ३४६, ४७.

रासम a mule; donkey २९३.

रासमाना making sound; crying out ५०९.

राहु one of the nine planets or ग्रह ५१२,
९८२, १६६६.

रिक्त empty ३२२, ५६९.

रिगत releasing; setting free १६९.

रिपु an enemy १९१.

रिप्र impurity; sin ४८९.

रिष् injury; an attacking foe ४.

रुक्म gold; ornament; decoration ३७,
११४, १७, १८, ४०६.

रुक्मवर्ण golden; yellowish; gold-com-
plexioned १४७२, १६६१.

रुच् lustre २५५.

रुच shining; lustrous २५४.

रुचि taste; lustre; brilliance १७२, ७५,
५०८.

रुधिर blood ३०७, ११७८, १६४७.

रुद्र name of a Vedic deity; रुद्र

Śiva; fierce; ferocious ६,

१२५, २६, २७, २८, २९, ३०,

३४, ३५, ३७, ४३, ४५, ४६,

५१, ७४, ७५, २३७, ३८, ४७,

४५२, ५५, ५९, ६९, ९७, ९८, ५

७९०, ९१, ९६, ९७, ८१५, १०

११६७, ६८, १३३२, ३५, ६८,

९२, ९३, ९४, १६०८, ११, ३१,

४४, ४५, ४६, ४८, ४९, ५७,

६६, ६७, ६९, ७७, ७८, ७९, ८०

रुद्रचरित the activity of रुद्र १६

रुद्रदैवत्या having *Rudra* as de

रुद्ररूप of the form of *Rudra*

रुद्रत् one of the 5 महाव्याहृतिसः

रूप form; colour ३०, ४९, ५२

९७, ११७, २९, ५०, ५१, ६८,

२००, ०८, २६, ४५, ५०, ५३,

८७, ९६, ९७, ३०२, १७, १८,

३४, ४४, ५९, ५०१, ०२, १५,

०५, १०, २१, ३८, ५९, ६५,

७०, ८०, ८६ ८९, ७६३, ९४,

८९३, ९६, ९७, ९८, ९६०, ७

५३, ६१, ६४, ६५, ६६, ८५, ९

७१, ७२, ७४, ९२, १२०१, ०७,

६१, ८४, १३०९, २६, ३५, ३६

५७, ६४, ६५, ७७, ८६, ८७, १

३६, ४८, ८६, १५१७, ८९, १

१६, ३१, ५४, ५६, ५७, ६०, ६

रूपक form १६६५.

रूपविद्य the knower of form

रूपशास् according to pecu

various forms २११.

तसु seed; sperm; seminal fluid ३०, ३३, ५५, ७१, ११५, ५०, ६२, ६९, २२१, ४१, ४५, ६०, ७६, ९५, ९६, ९७, ३०४, ०५, १२, १६, २२, २७, ३७, ४०, ४७, ७०, ४०३, ७५, ०५, ०९, २३, २६, ३५, ७२, ५३१, ६१, ७२, ८१, ८३, ६००, ११, १६, ३०, ८४, ८६, ८८, ९०, ९१, ८१७, ५९, ६६, ९९५, १०२१, ११२५, ५४, ७२, ७५, ७९, १२८७, ८८, ८९, ९७, १३०२, ०५, ०६, ०७, ०८, ३४, ४२, ४४, ४८, ४९, ५७, ५८, ६३, ६५, १४५७, १६४७.

तस्मिन् productive; abounding in seed १३४३.

तोषस् impregnating; a begetter ९२, १८२, २४२, ७६.

म a singer; a praiser ४९०.

मत् singing; praising ७२, ७३, १६३५, ४५.

रिवन् urging; goading on ७०३.

वती abounding in gifts; verses of the रेवती *Sāman*; name of a constellation १६७, ४३४, ७८३.

रेष्मण्य being in a storm or storm-cloud १४२.

रेष्मन् storm; whirlwind ४५०, ५१, १३३०.

रेष्मिन् see रेष्मण्य १४२.

रेष्म्य see रेष्मण्य १४२.

त wealth; gift ४, ७, ५३, ८०, ९२, २६५, ३६३, ८८, ४७६, ८२, ९६, १२८४, १३२८.

क name of a teacher ८२३, २४, २५, २७.

कपर्ण name of a territory ८२७.

रैतस seminal ११०५.

रैमी name of particular ritualistic verses १३४५, ४७.

रैवत name of a particular सामन् ६३६, १६६६.

रोदसिप्रा filling heaven and earth १०१ ०२.

रोदसी heaven and earth २, ८, ११, ४४, ४५, ५१, ५२, ५४, ५६, ५८, ६०, ६२, ६३, ७०, ७८, ८१, ८४, ८५, ९१, १००, २१, २२, ६१, ७२, ७३, ८२, ९८, २०५, ८०, ३६५, ६९, ४१०, २१, ९७, ६२६, १३३९.

रोदस्त्व fitness for being termed रोदस्त्व २८९.

रोधना a river ५०.

रोधस् (सी) a bank १३३७.

रोमगर्त hair-hole; pore in the skin ३०३.

रोमन् hair ३०७, ६८९, ९८२.

रोमश hairy; shaggy ६८९.

रोह sprout; rising; ascending १६८, ३६८, ४७२, ६९१.

रोहिणी reddish; ruddy; growing; waxing १६९, २७१, ३९७, ५०७, १३६१.

रोहित red; ruddy १३८, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७२, ७४, ७९४, ८९७, ९८.

रौद्र terrific; pertaining to रुद्र ७९१.

रौहिण name of a demon; slain by *Indra* ४७, १३३८.

रौहिणायन patronymic from रौहिण १५५.

लक्ष target; game ४६.

लक्षण characteristic; mark १८०.

लक्ष्मी wealth; prosperity २५५, ४४८, ९९, ५०१, १६४७.

लक्ष्य mark; target; aim १४६०, १६६२.

लघुत्व lightness १५९०.

लघ्वान्न having light food; receiving food easily २६६.

लब्धु procurer; one who obtains or gets १४००.

लभ्य obtainable; what can be attained

ल्यविक्षेपरहित devoid of absorption and distraction १६६४.

ललाट forehead २४५, ३०३, ०७, ४३४, ५२९.

ललाम an ornament ४५०.

ललण salt ८४८, ९२०, १०९८, १३६०, १६६८.

लाज fried corn ५२२, १३३२.

लतक्य name of a teacher ५२३.

लाभ gain; attainment; achievement १६७१.

लालील name of *Agni* १६३२.

लिङ्ग indicatory mark; sign; subtle form; gender ५२३, १२३१, १६२०, ५७, ६०, ६१, ६४.

लिङ्गनाश loss of subtle form १५८४.

लिङ्गवती of the gender form १६५८.

लिन्दु slimy; slippery ९८३.

लिप्त smeared २९३, ९४, ९५.

लीन merged; absorbed १५७९.

लेलायत् moving constantly to and fro १३४८.

लेलायमाना moving constantly hither and thither १४५०.

लेश a particle; very small quantity ७८६.

लोक people; world २२, २३, २७, २९, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३८, ६६, ९३, १०९, १२, ५०, ५८, ६०, ६१, ६२, ६६, ७१, ७५, ७९, २००, ०२, ०३, ३३, ४८, ५२, ५७, ५९, ६१, ६६, ६९, ८२, ८३, ८६, ८७, ८९, ९३, ९५, ३०१, ०२, ०३, ०४, ०५, ०६, ०९, १५, २२, २४, २५, ३१, ३९, ४०, ४९, ५५, ५७, ६०, ६७, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७६, ७७, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९८, ४००, ०१, ०२, ०३, ०४, ०५, ०६, ०७, ०८, ०९, १०, १३, १४, १५, २०, २२, २७, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७, ४३, ४४, ५३, ५४,

७२, ८०, ८४, ८५, ८६, ८७,

७२०, २८, ४०, ६२, ६४, ६५

७४, ७५, ७७, ८३, ८४, ८५

८०५, ११, ३२, ३३, ३७, ३

५७, ५८, ६९, ७६, ८१, ९२९

३३, ३४, ३५, ३६, ४७, ५७

६६, ६७, ६९, ७०, ७३, ७४,

३८, ३९, ४०, ४१, ५२, ५४,

७०, ७४, ७७, ९२, ९५, ११०

४६, ४७, ४८, ७०, ७१, ७७

१२०७, १०, १५, ३२, ३८, ४

७०, ७१, ७६, ७९, ८३, ९२,

०५, ०७, १५, ३०, ३२, ३३

३९, ४०, ४१, ४९, ५०, ५

५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, १

७०, ७२, ७४, ७९, ८५, ८७,

१०, २९, ३३, ३४, ४७, ४८, ५

५८, ६०, ८१, ९३, १५०२, ०

१६०८, १७, २०, ३१, ३२, ३

५१, ५३, ५७, ६२, ६४, ६५

८०, ८१, ८२.

लोककृत् making space; k

making a world ४०४, १

लोकक्षित् inhabiting heaven

लोकजित् winning or cor

world; particularly

१०१४, १३६१.

लोकदुःख the miseries of th

लोकद्वार the gate of heaven

लोकधारिणी the earth १६३२.

लोकनाथ the lord of worlds

लोकपाल guardian; deities of

direction of the world

१६४०.

लोकम्पुण name of the bri

लोकविद् possessing or affording space or freedom ११४७.

लोकस्पृत् (v. l. for लोकस्पृत्) offering a free course; causing space or room १६६५.

लोकस्पृत् who remembers the earth १६६५.

लोकदि the beginning of the world or universe १३९३.

लोकधिपति the supreme lord of the world ६७२.

लोकिन् one who has attained heaven; the possessor of लोक (i. e. heaven etc.) ७८३, ८३७, १४६०.

लोकैषणा desire or longing after heaven ११३६, १२४७.

लोक्य world-procuring ११५, ५१७, १०५८.

लोक्यता the attainment of a better world ३०.

लोप्य being among inaccessible place १४४.

लोभ avarice; greed १६५३, ५६.

लोभजाल the net of avarice or greed १६६६.

लोमन् hair on the body ३६, २६०, ३०४, ०५, १५, ४३४, ७३, ५३७, ८१, ८३, ६८१, ७८३, ८७९, ९७५, ८७, ११२५, ७८, १२९७, १३०५, ४०, ४१, ४४, ७०, १४४७, १६५१.

लोमश shaggy; hairy ६२१, ९५, १३४१.

लोष्ट a clod of earth १००४, १३२२, ४८.

लोह copper; iron; any metal ८४८, ८६.

लोहमणि a magnet ८८६.

लोहमय made of copper or iron ८८६, १३६८.

लोहायस copper; made of copper १३६०.

लोहित red; ruddy; blood ४२६, ३४, ३६,

लोहितस्तोक a drop of blood १३५७.

लोहिताक्ष red-eyed ५२०, १३०८, १६०१.

लोहिताक्षि red-eyed १६४७.

लोहितायव reddening; becoming red १३६७०.

लोहिनी red; ruddy २४५, ६१६, ८८, १०८०.

लौक्य mundane; belonging to the world ४५३.

लौक्या belonging to the world ४४४.

लौहिक्य name of a teacher ६८७.

वंश race; Bomboo; family; genealogy line of teachers ५२२, ६०२, ०३, १०८५, ८७, ८९, ९२, १११४, १२६५, १३०३, १०.

वकार the letter or the sound व ६८३.

वकारमात्रा the instant of the sound व ५२३.

वक्तव्य to be spoken or taught; preached ७८६, १५०८.

वक्ति the power of speech १२१४.

वक्त्रु speaker; preacher; propounder १०८, ६७०, ८३, ८९, ९३, ७०६, १२११, १३९६१, १४००, १६५९, ६०.

वक्तव्य what is to be taught; spoken or recited ११, १४, ६२६.

वक्रतुण्ड an epithet of god *Śiva* १६३१.

वक्ष्यत् who is about to lead; leader १३३.

वक्ष्यन्ती taking; leading ३५०.

वनु a call; a roar ४८८.

ववा a kind of noxious animal ३४०.

वड्ग the name of a land or its people ५२७.

वचन statement; speech; advice ५२१, १६६०.

वचस speech; statement ३१, ७३, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००.

१६३२.

वज्रबाहु having thunderbolt in his hand

४७, ६७, १३३८, १६३२.

वज्रहस्त having thunderbolt in his hand

४७.

वज्रिन् the wielder of वज्र ५३, ५५, ५६, ५८,

३४२, १३३९.

वद्धत् going or dealing crookedly (epithet of रुद्र) १३९.

वडवा mare २९८, १०२०.

वणिज्या trade; commerce; traffic ४८६.

वत्स calf; a young one; a child ७६, ७९,

१०५, ६१, ६३, ६४, ६८, ६९, ७०, ७४, २०८,

१०, १२, १८, ५८, ३१६, ३३, ९४, ९७, ४६६,

५२३, २४, ६८६, ८१३, १०४७, १२७५, १३५४,

६९, १६४४.

वत्सनपाद् (बाभ्रव) name of a descendant

of बभ्रु १११४, १२६५, ६६.

वत्सर year १६६०.

वदत् speaking; propounding ३३१, १२१३,

८८.

वदितव्य to be spoken or propounded or

stated २५२.

वदिष्यन्ती about to speak ३५०.

वध a weapon; murder १९०, ३३३, ४७५,

८६, ९५५, ७५.

वधाशङ्क the fear of being killed ११८४.

वधू wife; woman १६१, ३१०.

वध्य fit to be killed; deserving death

३८७.

वघ्नि impotent ६३.

वघ्न्यश्च name of a king १६५३.

वन a forest; wood; thicket ५, १८, २१, २४,

७२, ७४, १३२, ३८, ८४, ९३, ९४, ३८८,

५०९, १३६४, ८३, १६३२, ३५, ४५, ४९.

वनस्पति a tree १९, २१, ३२, ११९, ५०, ६३,

२६०, ३३१, ४७, ६५, ९१, ४०१, ०४, २५,

५२, ५००, ०९, १२, १५, १७, १९, २२, ५७;

१६४५, ५१, ५३, ८१.

वनिन् being in the forest

the 3rd stage of life

१६७०.

वनीयस् very munificent

४७६.

वनिष्ठु some part of the body

वनुष्यत् destroying; disasting

वन्दमान praying; offering

२७, ४१३.

वन्ध्या barren १६६७.

वन्य wild belonging to the

thet of रुद्र) १४२.

वषा marrow ४०५.

वपुस् body; form १८२, ४११

वन्तु cutter; a barber ३८०

वयत् weaving; preparing

वयस् strength; age; birth

५१, ७२, ७३, ११५, २६, ३०,

९२, ५०७, ०९, २७, ७७९,

३३, १०४१, ११७६, १३०,

१५०८, १६४९.

वया branch २, १३.

वयुन path; way; law ९२,

१३२८.

वयुनाविद् well-versed

learned in rules ९७,

वयोगत grown old; old (

५९०.

वयोधस् or धा bestower of

strength ८६, १७२, ३८०.

वयोधा bestowing strength

bestower of strength or force

वय्य a companion; friend

man (comm.) ५१.

वर a boon; space; room;

वरक १७५, ३०७, ४००,

१०१४, ११८९, १२९३, ९०

वृत्तिन् encircler (= वरुण) ३०४.
 वरुण name of a small river (running
 past the north of Benares) १६६९.
 वरुणा strap; strip of leather ३६५, ४३६.
 वरुण bestower of boons ५१३, १६०७, ४४,
 ८०.
 वरुण sitting in a circle or in the wide
 space ९५, १४२७, १६३५, ४५.
 वरुणक a cowry ६८९.
 वरुण boar १५७, २८२, ८६, ५०९, ६१७, ९१७,
 १८, १६३२.
 वरुणम् expanse; circumference; space;
 breadth ६९, ८४, ९६, ३४०.
 वरुणम् room; free scope; case ३.
 वरुण the best; foremost; highest; most
 desirable; broadest; most extensive
 २४९, १४५१, ५९, ६८, ७६, ९६, ९७, १६७३,
 ७७.
 वरुणम् most superior; the best १६७३.
 वरुणम् wider; broader; more extensive
 ४०६.
 वरुण name of a Vedic deity; name of a
 sage ४, ५, ६, ९, १२, ५७, ७२, ७३, ७४, ७५,
 ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५,
 ८६, ९३, ९४, ९९, १५६, ५७, ६५, ६९, ७१,
 ७२, ७३, ७४, ८०, १९४, २२७, ३०, ३७, ६५,
 ६६, ७८, ३०४, ३१, ३९, ४२, ४४, ५७, ४०६,
 १४, २४, २९, ३४, ३५, ४१, ५०, ५१, ५५,
 ८०, ८२, ९४, ९६, ९७, ९९, ५०१, १०, २५,
 ४०, ६१३, ८८, ९३, ७०५, ३५, ३७, ३८, ७२,
 ८५, ९७, १०३६, ११७२, ७५, १३३३, ४५,
 ६१, ६८, ६९, ८७, १६३३, ३४, ५७, ६६.
 वरुणदेवत having वरुण for deity; sacred to
 वरुण ११७५.

वरुणिन wearing defensive arms; affor-
 ding protection (epithet of रुद्र) १४
 ४२.
 वरुण्य fit to be chosen; the best; fit to be
 worshipped १८, ५६, ९५, ११८, १९, ३३,
 १३०३, ८७, ८८, १६०९, १३, ४४, ५९, ६९,
 ८०.
 वर्ग that which removes or destroys
 ५२३, २४, ६४६.
 वर्चस् lustre; brilliance ९, २५, १६८, ६९,
 ७३, ५०७, ०८, १६.
 वर्चस्वती brilliant; radiant २४.
 वर्चोधस् bestowing radiance or lustre २०.
 वर्ण colour; caste; letter ८, १६, २८३, ३१९,
 ४३६, ८६, ९३, ५२१, २२, २३, २४, ६०,
 ९४, १०३७, १३८६, ९७, १६००, ८०, ८२.
 वर्णप्रसाद clearness of countenance १५९.
 वर्तनि path; track; course ७५, ८४६.
 वर्तनी path; eye-lash १०८०, १३६०.
 वर्त्मन् path; course ५०९, ८३९.
 वर्त्याधारस्नेहयोग contact with the oil resting
 in the wick (of a lamp) १६६५.
 वर्धमान growing; increasing २८७.
 वर्पस् form; shape; body ७३.
 वर्मन् armour २६५, ३३९, ९५, १३६८.
 वर्मिन् having an armour १४२.
 वर्तमान constantly moving or rolling ४८.
 वर्ष year; rain; rainy-season; shower ३३,
 ११९, ४२, ४९, ७०, ३२४, २५, ८४, ४२४, ३३,
 ४९, ५३, ५०८, ०९, १४, ३१, ४४, ८३४, ५९,
 ९३०, ७०, ७५, ७७, १३३३, ४०, ६८.
 वर्षगण a long series of years ८३१.
 वर्षत raining; showering; bestowing

वर्षिष्ठ highest; uppermost; very great

११, ९४.

वर्षीयस् longer; greater than; higher १४१,

२५३, ४७३.

वर्षुक rainy; abounding in rain १३४०.

वर्ष्मन् height; top; surface ६९, ९६, २३८,

५३.

वल्गु name of a demon ४५, १९५.

वल्गु (= वल्गु - comm. & M. W.) a parti-
cular charm or spell hidden in a
pit or cavern ५११.

वल्गु handsome; sweet; attractive १३४५.

वल्मीक ant-hill १२३६, १६७१.

वन्नि fance; pen; a good form (comm.)

२०९, १८.

वशा control १६२, ३१०, ४५४, ५९३, १३५०,

१४००.

वशनी subject to; doing the will (of
another) ३६०.

वशा a lowing animal; a cow; (वन्ध्या गौः =
comm. p. 20) ४३४, ३५.

वशानुग following one's own will १६४७.

वशाच्च whose food is a barren cow २०.

वशिन having will or power; ruler; lord

९६, ३४३, ४२४, ३५, ५४, १२४७, १३५०,

१४३१, १५९८, १६२२, ३२, ३३, ४६.

वषट् an exclamation uttered by the होतृ
at the end of the sacrificial verse

९३, १६३, ४६०, १३६०.

वषट्कार the exclamation वषट् १६९, ७५,

३१५, ४०८, ४६, ५४, ५५, ७३, १२७५, १३३४,

४६, ६०, ६९, १६४८.

वषट्कृत offered in fire with वषट् ४०८.

वसति dwelling; home; nest ७३९, १२९३.

वसन clothing; apparel ९७४.

वसान dwelling; wearing;

३६०, ९७, ४००, २२.

वसिष्ठ the name of a sage

३३१, ५९, ७२, ५४७, ५४,

५४, १०८२, १२८६, ८९, १३०

१६४३.

वसीयस् merit (पुण्य) २८४.

वसु wealth; a class of gods

divine beings eight in

७, १७, १८, २४, ५१, ५६, ५७,

९९, १८२, ९०, २१८, ३७, ४

८२, ९५, ३१५, ४२, ५८, ७९,

७९, ९७, ९८, ५०९, १२,

६८७, ७९०, ९५, ९६, ८१

११६७, ६८, १२५७, १३६८,

३५, ४५, ४६, ५६, ५९, ६६,

वसुजित winner of wealth

wealth १७०.

वसुदा bestower of wealth

वसुदान bestower of wealth

१२५७.

वसुदेव gift of wealth;

bestowing wealth १७५.

वसुधान bestower of wealth

wealth १३०, ८१३.

वसुधानी bestower of wealth

wealth २६९, ५०७.

वसुपति lord of wealth; lord

वसुपत्नी the bestower of we

alth २१८.

वसुमती possessed of wealth

wealth ६९२.

वसुरण्व enjoying or taking

wealth १६५१.

वसुरुचि name of a गन्धर्व १६४

यत् seeking wealth; seeking wealth
१८२.

स्ति bladder २८९, ४४१.

स्न्य precious; valuable ४८३.

स्यस् the desirable; one who is sought
for; more beneficent ९, २९०, ६९५.

ह carrier; bearer; the shoulder; a part
of the body ४३२, ३४.

हत् carrying; bearing; leading १३३.

हिष्ठ the best carrier or leader १७१.

हि the carrier; leader ५२, १३४, ७३,
२०५, ३४, ३८९, १५८४, ८८, १६६४, ७६.

हितम the best or chief carrier १४९९.

हिशिखा the flame of fire १६४०.

वा the syllable वा; what has covered (an
epithet of वाक्) २९३, १३७०.

वाक a hymn; a song २१, २१६.

वाकोवाक्य speech and reply; dialogue

४७१, ५२२, २४, ९२६, २८, २९, ३३.

वाक्चित installed by वाक् ३२०.

वाक्पति the lord of वाक् or speech ६९९.

वागपेत devoid of वाक् (tongue) ६६४.

वागर्थ the object of the tongue ६८९.

वागदेवत्य sacred to the deity वाक् १३४८.

वागदेवी the deity वाक् ३१७, ४८, ५१०.

वाग्मिन् eloquent; eloquent speaker ३२९.

वाग्यत who has controlled his tongue
५२३.

वाग्रस a मन्त्र to accomplish sweetness of
the tongue ६२१.

वाङ्मनःप्राणनिरोधन curbing of tongue;
mind and vital breaths १६६१.

वाच् speech; tongue; the deity of the
tongue; name of a teacher २४, ३२,
१०५, ०८, १२, १६, १९, २०, ५८, ६८, २०२,
१०, २१, २२, २६, ३०, ३६, ४४, ४८, ५०,
६०, ६७, ७७, ८२, ८५, ९३, ९५, ९७, ३०१,
०२, ०३, ०५, ०७, ०८, १२, १४, १६, १७,
२०, २२, २९, ३१, ३५, ३७, ३८, ३९, ४५, ४६,

१९, २५, ५८, ६०, ६१, ६२, ६६, ७०, ७१

८४, ८७, ८९, ९०, ९१, ९२, ५०१, ०७, १०

१३, १६, १७, १९, २२, २४, २५, २९, ३१

३३, ३४, ३५, ३७, ३९, ४१, ६१, ६५, ६७

६८, ६९, ७५, ८१, ८३, ८४, ८५, ९३, ९६

९८, ६०५, ०६, ०७, १०, १६, २१, २२, २३

२६, २७, ३८, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४७

५१, ५२, ५३, ५५, ५९, ६५, ६६, ६७, ६८

६९, ७०, ८०, ८४, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१

९४, ७०१, १६, ३२, ३५, ४०, ४७, ४८, ५२

५४, ५५, ५६, ६३, ६५, ७३, ७७, ७८, ८१

८९, ९९, ८०४, १९, २०, २८, ४६, ४७, ५०

५१, ५२, ५७, ५९, ८१, ८५, ८६, ९७, ९८

९०१, ०२, ०३, ०९, २३, २९, ३०, ३१, ८०

८७, ९५, ९७, १००३, ०८, १०, ११, १२, १३

१४, २२, ४२, ५०, ५२, ५३, ५९, ६१, ६४

६६, ७४, ८१, ८२, ९७, १११६, २२, २५, ५३

७६, ८२, ९१, ९२, १२४६, ६२, ६९, ७५, ८२

८८, ८९, ९४, ९७, १३०२, ०८, ०९, ११, ३०

३२, ३४, ३६, ३७, ३९, ४०, ४१, ४२, ४४

४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५२, ५३, ५४, ५५

५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६५, ६६, ६७

६९, ७०, ७१, ७२, ७४, ७५, ८६, ८७, १४१६

३७, ५०, ५६, ६०, ६१, ७९, ९७, ९८, ९९

१५०८, ७३, १६३३, ४३, ४४, ४७, ४९, ५०

५१, ६४, ७१, ७९.

वाचंयम controlled in speech; who
controls his tongue; silent ४१९, ६४,
४३, ८५५, १३६०.

वाचकनी name of a woman; wife of वाक्
वल्क्य ११४४, ४५, ५६, ६६.

वाचस्पति the lord of the tongue or speech
११२, ६९, ८५, ३५०, ४५८, ५०२, ०३.

वाज food; strength; booty ७, ८, ४८, ७,
१०५, ६५, ६९, ८५, ९०, ९३, ४४४, ८,
५४७, ६४७.

वाजपेय name of a sacrifice ४४५, १३०५.

वाजयत् seeking food or strength or
booty ५९, ७६.

वाजश्रवस name of a man; father of नवि-
 केतस् १३८९.
 वाजसनेय name of a teacher १३०४, ११.
 वाजसाति the winning of a prize or
 booty; battle २००, ४९६, ५२५.
 वाजिन् strong; rich in food; horse; the
 sun ५०, १२९, ६६, ९२, ३३५, ३९, ६१,
 ४८४, ७०३, ९९०, १३३१, १५७३.
 वाजिन race; contest; emulation ४९०, ९२.
 वाजिनी the sun ७०३.
 वाटय grove (of trees) १६६७.
 वाणिज the chief of traders १३८.
 वाणी speech; tongue; metre २१६.
 वात् blowing १५५, ३८१.
 वात wind; a deity of the wind ६,
 २०, २५, २६, ७५, ८१, १४९, ५१, ५७, ७०,
 ७३, ७८, ९४, २३९, ४७, ४८, ६०, ८१, ८२,
 ३०४, ०७, १२, २५, २७, ४०, ६०, ६६, ७७,
 ८३, ८६, ४३५, ३६, ४४, ५०, ५१, ९५, ९७,
 ५०९, १६, ६४३, ७२८, ९८७, ११२५, १३०३,
 ३९, १६४५, ५३.
 वातज्व fleet as wind १३४.
 वातरज्जु bands or fetters of the wind;
 wind-cord १६५३.
 वातरशना name of a class of ऋषि produ-
 ced from the flesh of the विराट् पुरुष
 as he shook his body after practicing
 penance १५९, ३०६.
 वातवे to blow २४८.
 वात्य being in the wind १४२.
 वात्सीपुत्र son of वात्सी; name of a teacher
 १३१०.
 वात्स्य name of a teacher १११४, १२६५,
 १३११.
 वाद् talk; discussion १३५८.

वाध्वा (= बध्वा) having ;
 or fastened ६२७.
 वानस्पत्य pertaining to tree
 the tree (i. e. fru
 ४५२, ६७, ५०८.
 वाम a desired or coveta
 table; adorable; left
 ०९, ५४५, ८३९, ११८७.
 वामरक्षायण name of a tea
 वामदेव name of a sage
 १६४१.
 वामदेव्य of वामदेव or pertai
 ing to him; name o
 सामन् composed by वाम
 ८६, ३६९, ४५०, ५१, ६८९.
 वामन short; the dwarf ११
 वामनी bestower of वाम i. e.
 jects ८३९.
 वायव्य pertaining or be
 sacred to वायु २३२, १६
 वायस a crow; a bird २२९
 वायु wind; wind-god २९
 ७३, ११२, १९, २०, ५०, ५
 ६०, ७४, ७५, २०२, ०३, ३
 ७३, ८२, ८६, ९४, ९५, ९६
 ०६, २२, ३०, ७९, ९९, ४
 ७०, ७२, ७९, ८२, ९८, ५
 २२, २४, २७, २९, ३९, ५
 ८५, ९४, ९७, ६००, १४,
 ८३, ८४, ८७, ८८, ९०, ९
 ७०१, ०६, ६०, ७३, ८४, १
 १४, १९, २०, २७, ४८, ५
 ९२९, ३०, ३३, ३५, ५४,
 ६३, ६९, ८३, ८४, ११०५.

०८, १६, ८६, १६००, ३०, ३४, ४०, ४८, ५०, ५६, ५७, ५८, ६४, ६५, ७५, ७८, ८०, ८१.

युगोपा having वायु for protector or guardian ४२६.

युपुत purified by wind १६८१.

युप्रतिष्ठ established or supported on the wind i. e. प्राण; propped up by the breath ६५३.

युमय consisting of wind १२२९.

युमात्रा the element of wind १५०८.

युर windy; that blows (-said of ether ख) १२६६.

युरक्षित guarded or protected by wind ४१६.

युलोक the world of वायु ४०१, ६३२.

रिवस्कृत bestower of wealth १३८.

रुण of वरुण; pertaining to वरुण ३७३, ७८५, १६६०.

रुणि patronymic of भृगु ७३५.

रुणी (lore) of भृगु वारुणि; pertaining to वरुण; wife of वरुण (?) ७३८, १३४५, १६३३.

रुणीपुत्र name of a teacher १३१०.

रुच्यं covetable; desirable; covetable or desirable objects १५६, २२८, ४३०, १३१०.

रुच्यगण name of a teacher १३११.

रुच्यं patronymic of गोबल and बर्कु ११८४, १३३१.

रुल hair १५९, ३०६.

रुलखिल्य name of a sage or ऋषि १५९, ३०६, १६४५.

रुलमात्र of the measure or size of the tip of the hair १६८०.

वायुधान growing profusely; being constantly fostered or kindled; increasing १६८, ८५, २६१, ३५६, ५०८.

वाभ्र lowing १८.

वाभ्रा a lowing cow १०५.

वासतेय fit to be lodged or sheltered १६८.

वासन्त vernal; pertaining to the spring season ४५१.

वासर matutinal; early ५५.

वासव pertaining to वसु ४१०, ११, ७९०.

वासस् cloth; piece of cloth; mantle apparel १५०, २४५, ३३१, ८३, ९७, ४५१, ६५४, ९५, ८५३, १०८५, १२८९, १३५०.

वासिष्ठ pertaining or belonging to वसिष्ठ १३५९.

वासिष्ठ-चैकितानेय name of a teacher १३४.

वासुदेव patronymic of कृष्ण १६३२.

वासोद bestowing cloths or mantle ३६६.

वासोदृक्ष the dwelling tree; tree of residence १५०८.

वासोदृस्त having a garment in hand ६३.

वास्तव्य an epithet of रुद्र १४२.

वास्तु site; plot; homestead ८९, ३३९.

वास्तुप the guardian of वास्तु; tutelary deity १४२.

वास्तेय being in the bladder ८२१.

वास्तेयी (वास्नेयी) water (see comm.) ३१.

वास्य what is enveloped १३१३.

वाह carriage; vehicle; conveyance १३९७, १५८८.

वाहन carriage; chariot; vehicle १३६४.

वि a bird ६५, ६६, ७५, २०९, ४७९.

विंशत्यक्षरा having twenty syllables ३५.

विंशति having a विंश (i. e. twentieth)

विकिरिद् averting wounds; sending off
arrows (epithet of god *Śiva*) १४७.

विकिरिद् see विकिरिद् १४७.

विकुर्वत् causing a change or modifica-
tion; modifying २६८, १६१३.

विकृण्वान modifying; causing modifica-
tion or change १८२.

विकृत modified; transformed २११, १३४९.

विकृति change; modification ६८९.

विक्रन्त a dacoit १३९.

विकल्पुस fashioned २७०.

विकेशी name of a class of demoniacal
beings १३०.

विक्रम step; stride ४७३.

विक्रय sale; selling ४८६.

विक्रान्ता who had taken strides १६३.

विक्रियमाण transforming; being modified
२९७.

विक्रिय moist with perspiration १८०.

विक्षिणत्क destroying (evil) १४४.

विक्षीणक destroyer १४४.

विखिद् to tear asunder; rend; apart १४४.

विगतनिद्र awakened from sleep १६५८, ६२,
६६.

विगीत famous; well-known १३०८.

विग्रह body १६५९.

विग्रहवत् incarnate; embodied १६६१.

विग्लापन weariness; fatigue १२४६.

विषस food १२८.

विघृत sprinkled; dripping १२४.

विचक्षण conspicuous; radiant; splendid
७०, ८३, ९३, १७१, ८९, २१०, ४५, ३१७,
४०३, ०५, ३८, ६३०, ३६, ४८, १४९४.

विचक्षणा name of *Brahmā's* throne ६३३.

विचिकित्सित doubted; d

विचित्त perceived; ob

१७२.

विचित्र varied or di

१६७५, ७६.

विचिन्वत्क sifting; discor-
wing or securing

विचृत name of the cor

विचृत loosened; untie

७०, ३७२.

विच्छन्दस् variety of
metres ३०.

विज् a stake at play;

विजमाना trembling; a

विजय victory; succes

८२.

विजर not growing o
age ९५५, ६९, ७०, १

विजरा name of a ri
६३३, ३४.

विजानत् knowing; per
४७, १२१४, १३१८, १

विजानती knowing; per

विजिगीष name of a r

of winning or va

विजिग्यान being victor

विजिघत्स not liable t

coming hungry ९

विजिज्ञासमान desirous

विजिज्ञासा desire to kn

विजिज्ञासितव्य what is t
desired; to be k
५२, ५४, ६९, ७०.

विजिज्ञास्य what shoul
known १०५३.

वेज्ञात well-known; perfectly perceived; realised ४५८, ५५९, ८८३, ८५, ८६, १०५३, १२६१, १३७८, १४४३.
 वेज्ञातव्य what is to be or should be known ६३८, ५५, ६९.
 वेज्ञाति perception; realisation; knowledge ११३३, १२१४.
 वेज्ञातृ perceiver; knowing person; soul ६१८, ७०, ८९, ९३३, ३४, १०५३, ११०१, ३३, ५४, ६५, १२१४, ६४.
 वेज्ञान knowledge; perception; realisation; consciousness १५४, २४९, ३१४, १७, २९, ४५०, ५१, ५१६, ९३, ६६५, ६६, ७१७, २०, ३८, ९३३, ४०, १०७३, ७४, ९२, ११००, ५३, ७९, १३३२, १४५९, ६३, १६५१, ५९, ६०.
 वेज्ञानघन mass of consciousness १०९८.
 वेज्ञानपति the cord of consciousness or understanding ६९९.
 वेज्ञानमय consisting of consciousness or sentience ६९१, ७१६, १८, २८, ४०, १०७२, ७३, ११९२, १२२९, ४६, १४८५, १६४७.
 वेज्ञानवत् possessed of knowledge; endowed with intelligence; of understanding or intelligence ९३३, १४१३.
 वेज्ञानवती of the form of understanding or knowledge १६५८.
 वेज्ञानसारथि having intelligence as his charioteer १४१३.
 वेज्ञानात्मन् the conscious self १५०८.
 वेज्ञानार्थ for knowledge or realisation १४५२.
 वेज्ञेय what is to be known १५२५, १६१५.
 वेज्य stringless (bow) १३६.

वितस्ता name of a river १६३३.
 वितस्ति measure of length (12 Angula or about 9 inches) १६४०.
 विबुद name of a particular spectra being १६४८.
 वित् wealth; riches; belongings; world; treasure ४७०, ७१, ८५, ८५७, १०२८, ४५६, ९१, ९२, १२६०, १३९६, ९७.
 वित्तमयी consisting in wealth १३९९.
 वित्तमोह infatuation or delusion caused by wealth १४००.
 वित्ति consciousness; understanding १३०८.
 वित्तैषणा cupidity; desire for wealth ११३६, १२४७.
 वित्स्वाङ्ग (read as विश्वाङ्ग by the comm.) all limbs ३८१.
 विदग्ध name of a teacher. ११६६, ८६.
 विदग्ध assembly; knowledge; instruction a host; army ६, ९, ४८, ५१, १२७, ९०, २१४, ३३४, ७८, ९१, ४९५, ६२६, १५७३, १६४५.
 विदग्धत् performing ९८४.
 विदग्धी-कौण्डिन्य name of a teacher १११४, १२६५.
 विदल sprout ६००, ८४.
 विदान reaching; shattering; breaking tearing asunder (अवखण्डनम् comm. ४१५, १२७५.
 विदिग्ध smeared up १३५९.
 विदित observed; known; what is known or perceived; the sphere of perception or knowledge ३९, ४०, ४१, १०४१, ७१, ९२, १२६१, १३७४, ७७.

- विदेव godless २८४.
 विदेह name of a land and its people
 ११८९, १२५५.
 विद्ध pierced; sick; affected; struck १३०,
 ७५१, ५२, ९६४.
 विद्यन् knowledge; intelligence; wisdom
 १०४, २०८.
 विद्या science; learning; knowledge;
 philosophy; teaching *Veda*; a mystical
 name of the letter इ २९, ३२, ३८,
 ११२, ५५, २८६, ९२, ९३, ३११, २१, ४४६,
 ९३, ५२१, ६८४, ९४, ७३८, ४९, ५०, ५७,
 ८४, ८९, ८३४, ३८, ४८, ५७, १०५७, ९६,
 ९७, ११८२, १२२४, ४०, ६१, ८१, ८३, १३२१,
 २२, ४७, ५२, ६०, ६१, ७८, ९९, १४४०, ९४,
 १६१२, ४०, ५१, ५६, ६४, ६७.
 विद्याञ्चित् stuffed with or puffed up by
 science ३२१.
 विद्याभीप्सित desiring knowledge १६६७.
 विद्याभीप्सिन् desiring knowledge १३९९.
 विद्युत् lightning; flashing; shining २०,
 ४३, ११९, ३२, ५१, ५२, २१८, ५५, ९६,
 ३२३, ३९, ७९, ४०४, ३४, ४१, ४९, ५१,
 ६००, ५१, ७६, ७८, ८४, ८९, ७४०, ८३३,
 ३७, ४०, ५९, ६१, ८१, ९८, ९३५, ५४, ७८,
 १०६८, ११०६, १२७५, ९६, १३३३, ३७, ३८,
 ६५, ८२, ८७, १४३२, ४४, ६७, १५८९,
 १६२४, ३०, ६२, ६५, ८२.
 विद्युत्स्य existing in lightning १४२.
 विद्युमती gleaming; glittering १६८२.
 विद्युल्लेखा streak of lightning १६४०.
 विद्योत्तमान shining; refulgent ४७५, १३३७.
 विद्योत्थितव्य what can be illumined
 १५०८.

- ७२, ७४, ५०४, ३५, ४१,
 ३४, ३५, ४४, ४५, ४९
 ९१, ७१६, २०, २५, ३२
 ७६, ७७, ७८, ८०, ९०,
 ३८, ७६, ८१, ९८, ९३
 ११७३, ८२, ८४, ८५, ८६
 ७६, ८४, ८८, ८९, १३०
 ३३, ३५, ३७, ३८, ३९,
 ४७, ४८, ५०, ५१, ६०
 ९४, १४५२, ५३, ७२,
 १०, १४, ८७, ८८, १६२
 ५१, ५२, ५६, ५८, ५९,
 विधत् worshipping; worshipping
 विधरण restraining; che
 १२४७, १६६६, ६७.
 विधरणी deposer ४३४, १३
 विधर्तु a distributor; arr
 ६, १७४, २५०, १३४०.
 विधर्मन् boundary; re
 ment ७१, ७२, २२१, ९
 विधा division; part; p
 ५५७, ६१, ६३, ७३९.
 विधातु ordainer; creator
 ५९.
 विधारयितव्य to be supple
 ined १५०८.
 विधि the law; proced
 १६५६, ५९, ७१.
 विधिप्रतिष्ठित established
 विधिवत् duly; according
 ८८.
 विधु lonely; solitary २३
 विधूतपाप्मन् delivered fro
 विद्युति separation; arr

विनिनीषमाण desirous of removing १३६४.

विनियोग use; application १६४४.

विनिर्मुक्त delivered from; free from १५११.

विनिर्हत completely destroyed (comm. reads विनिहृत beset with crookedness; deceit etc.) ४८१.

विपथ a kind of chariot (fit for untrodden paths) ४५०, ५१.

विपथवाह drawing a chariot called विपथ ४५०, ५१,

विपथन्या joyfully; wonderfully; loudly २७४.

विपथ्यु praising; admiring; exulting ८७.

विपरिलोप annihilation; destruction १२१२, १३, १४.

विपरित going in different directions; different १३९९, १६६७.

विपर्यस्त opposite; reversed ६१६, ८९.

विपश्चि inspired; wise; learned २६८.

विपश्चित् inspired; wise learned ११, ४४, ५८, ९७, १०५, ११, ३१, ७०, ७१, ७२, ७५, २२२, ३३७, ५२०, ६२६, ७०४, १३६५, ६६, १४०५, १५८६.

विपश्चित्-दृढजयन्त-लौहिय name of a teacher १३६८.

विपश्चित्-दृढजयन्ति-गुप्त-लौहिय name of a teacher १३६८.

विपश्चित्-शकुनिमित्र-पाराशर्य name of a teacher १३६७.

विपाटित torn; asunder; split ६८०.

विपाप free from sins १२५५, १६३६.

विपाप्मन् free from sin or evil १६३६, ४७.

विपृक्त separated; divided; encircled; mixed ४२८.

विप्रतम wisest ६८.

विप्रमोक्ष complete liberation; unraveling; untying ९५०.

विप्रुष् drops; spark; atom १६०, ३०६.

विबोध awakening १६५४.

विभक्त divided; distributed १२०, २५१७, १२१२, १३, १४.

विभक्ति division; modification; case ५२४.

विभक्तृ one who divides or distributes distributor ६८, ५१७.

विभाग share १३४५.

विभाती shining ४९८.

विभावन् lustrous; radiant ४, १८, १०१, ८३४१.

विभावसु rich in lustre (epithet of अग्नि fire; the deity अग्नि १७, १६३५).

विभीदक dice; the berry of the tree terminalia bellerica (used as dice) ४८२, ८३.

विभु all pervading; immanent; lord १८, २५, १९२, २५७, ६३, ३१६, ४१, १३६, १४०७, २१, ४५, १६३१, ५९, ७३.

विभुत्व omnipresence; immanence १५०९९, १६०१.

विभुप्रमित the hall of ब्रह्मा ६३३, ३६.

विभू far-extending; all-pervading; mighty; powerful १७५, ३२८, ४५१३०३, १६५१.

विभूति might; power; abundant; plentiful ३१९, २०, २१, ५३९, ४०, १३३५, ४१५१०, ११.

विभूतिमत् mighty; powerful १३४३.

विभूतय possessing mighty treasures

विमनस् foolish; silly; not friendly; inimical १८६, ४८१.
विमान measuring out; traversing १०, ८२, १९६, २४९, ५१, ५६, ३७१.
विमित fixed; built; produced; a square shed resting on four posts १३, १६७, २४८.
विमिमान measuring out; traversing १०, १७१.
विमुक्त delivered from; free from; liberated १२३८, १४२६, ८७, १६७१, ८३.
विमुक्ति liberation; deliverance; freedom; disjunction ७४०, १६७५.
विमुच्यमान being liberated or delivered or freed ११८६, १४२८.
विमूर्त coagulated; become hard or solid १५१.
विमृग्वरी decorated (?) ५०८.
विमृत्यु free from death ९५५, ६९, ७०, १४४०, १६५८, ६२, ६६, ६७.
विमृध despiser; enemy १६३२, ४६.
विमृष्ट discussion ७४८.
विमोक्ष liberation; freedom; deliverance १२०२, ०३, ०४, १६, १६६३.
वियत् going or moving differently or indifferent directions २२३, ३५३.
वियुत separated from; kept apart; standing apart १२४.
विरज free from dust; pure; clean; spotless १२४५, ५५, १४४०, ६६, ९६, १६३३, ७३.
विरजस् clean; pure; passionless १४५२, १६२७.
विराज् ruling far and wide; excellence;

१७, २४, ३९, ४८, ४२२, ५५, ७१, ७२, ७७३, ८३, ८७, १६४३, ८२.
विराज्य kingdom १६५३.
विरात्र the end of night ११७.
विरिष्ट injury; amiss ५२२.
विरूप multiform; many changed; deformed; unnatural १४०, २७२.
विरूपा varying or different multiform २४७, ४८, ११७.
विरूपाक्ष having odd number (epithet of god शिव)
विरोचन name of an असुर
विलक्षण different form ११७.
विलब a strong or firm substance
विलीन merged; dissolved
विलोहित very red; bright ४८.
विवदमान discussing; discussing ६५२, १२८२, ८६.
विवर fissure; hole १५०.
विवर्णवासस् of colourless or pale garments १६७१.
विवरस्वत् the sun; shining ३५४, ८७, ९०, ५११.
विवाचन arbitration; authority १३३२.
विवाचस् speaking in various
विवासस् having no clothing
विवाह marriage ५०८.
विविक्तदेश a lonely or १६७३.
विविक्तरूप having a distinctive

वेक discrimination ११६.

व्याधिन् piercing; transfixing १३७.

व्रत reluctant; refractory ६०, ६२, ४८१.

वृत्त clan; people; generation; a वैश्य tri-
be ३१, ३५८, ५१९.

वृत्त arrow-less (i. e. leaving no
arrow outside) १३६.

वृत्त chief of a tribe १६३२, ४६.

वृत्त one who cuts; a dissector; name
of one of the १६ sacrificial priests
४६१.

वृत्त imparting willingly or readily;
helping greatly ७.

वृत्त devoid of top-knot १४८.

वृत्त direction; order ३१२.

वृत्त qualifiedness; separate elements
१६६०, ६२.

वृत्त free from grief or sorrow ७८०,
९५५, ६९, ७०, १६३६, ६२, ६६, ६७, ७३.

वृत्त ruling the people ४५९.

वृत्त lord of tribe or clan or people ७,
१८, २०६, ४१७.

वृत्त benevolent to tribes or people १८,
१४१.

वृत्त understanding ४५१.

वृत्त universe; all; the world; every
thing; omnipresent; a class of gods;
name of the soul in the जाग्रत् conditi-
on २, ४, ७, ८, ९, १२, १३, १६, १८, २३,
२५, २७, ३०, ३१, ३७, ३८, ४४, ४६, ४७,
४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९,
६०, ६१, ६३, ६५, ६६, ६७, ६८, ७०, ७१, ७२,
७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ८१, ८२, ८३, ८४, ८६,
८९, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १०१, ०२, ०३,

४८, ४९, ५०, ५४, ५६, ५७, ५८, ५९, ६२, ६३,

७१, ७४, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८४, ९१,

३१६, २६, २७, २८, ४१, ४३, ४८, ४९, ५९,

५४, ६२, ६३, ६६, ७८, ८४, ४१२, १४, १६,

१८, १९, २३, २५, २७, २८, ३१, ४४, ४७, ४८,

५०, ५१, ५९, ६०, ६८, ७८, ७९, ८१, ९४,

९५, ५०२, ०४, ०७, १५, ४५, ९१, ६००,

०७, ८६, ७४०, ७३, ९०, ९१, ८१३, ११११,

२५, १२८४, ९२, १३०३, १०, २८, ४०, ४५,

५५, १४४२, ४७, ५५, ५६, ५९, ६८, ८१, ९१,

१५७३, ७४, ८०, ८६, ९१, ९२, ९४, १६००,

०१, ०५, ०८, ०९, १२, १६, २९, ३०, ३१,

३३, ३४, ३५, ३७, ४०, ४२, ४३, ४४, ४५,

४६, ४८, ४९, ५१, ५७, ५९, ६४, ७५, ७६,

७८, ८०, ८१.

विश्वकर्मन् doing all actions १६५७.

विश्वकर्मन् every action; accomplishing
creating every thing; a vedic deity
२५, ४४, ५८, ६८, १५७, ६८, ८४, ८५, ८६,
८८, २५३, ८२, ३४८, ७४, ४३२, ७१, ५०,
०९, १६०९.

विश्वकृत् creating all; creator of all things
४४, १२४१, १६२५.

विश्वकृष्टि dwelling among all men; kin-
dness to all men ४.

विश्वक्रीडारतिप्रभु lord of all pleasure and
delight १६५७.

विश्वगर्भा bearing or containing all things
५०९.

विश्वचक्षुस् all-seeing ७०, १७१, ८४.

विश्वचक्षुस् any eye for all things; the eye
of all १६५८.

विश्वजन्मन् of all or various kinds ३२७.

विश्वतस् on all sides; from all sides; every
where ८, ४५, १३७, २२२, ३०, ४९, ७६,
४१८, ७५, ८०५, १५९७, १६३३.

विश्वतस्पात having feet on all sides १८४,
१५७४, ९३, १६३१.

विश्वतस्पाणि having hands on all sides
१७१.

विश्वतस्पृथ one who has hands spread
out every where १७१.

विश्वतस्पृथु all extensive; extended on all
sides ५९.

विश्वतोधार flowing on all sides; suppor-
ting all ३६९.

विश्वतोबाहु having arms on all sides १८४,
१५९३.

विश्वतोमुख whose face is turned every-
where; facing all sides १७१, ८४,
२५०, १५७४, ९३, १६०१, ३१, ४०.

विश्वतोहस्त having hands on all sides
१५७४, १६३१.

विश्वथा in every way; at all times ५,
१९२.

विश्वदर्शत visible to all २५, १७१.

विश्वदानी all-giving; always २२४, ५०७.

विश्वदावन् all-distributing; bestowing; all
gifts ३४२.

विश्वदाव्य all-scorching १९, २५०.

विश्वदेव name of a class of vedic gods;
all-divine २५, ४४, ५८, ९९, २३७, ४९८,
१३४२, १४२७.

विश्वधामन् universal home or lustre १६१९.

विश्वधायस् all-sustaining; all-nourishing;
the support of all ५२, ३४२, ५०८.

विश्वधत् sustaining every thing १६५१.

विश्वभृत् all supporting;
४३२, १६५९, ६०.

विश्वभेषजी all-healing; o
remedies १५५.

विश्वभोजस् all-nourishing
enjoyment ३९४.

विश्वमनस् perceiving every
a teacher ६८, ६९२.

विश्वमायानिवृत्ति cessation o
or illusion १५८१.

विश्वमूर्ति having all forms

विश्वम्भर fire ६८१, १०२२.

विश्वम्भरकुलाय fire-recepta

विश्वम्भरा the earth; sup

विश्वयोनि the source or
universe १६१३.

विश्वरूची all-gleaming (n
the seven tongues of

विश्वरूप many-coloured
manifold ४४, ६८, ९

२६, ४०, ६८, ८२, २४७,

३४६, ४७, ४७४, ६९५, ८

१२६६, १४९२, १५७४, ८

४१, ५९, ६७, ७८.

विश्वरूपा a dappled cow;
the tongues of fire

५०७, १६४५.

विश्वरूपैकपाश whose one ro
१५७७.

विश्वरूप्य manifoldness;
variety २१०.

विश्ववार cherished or ado
owing all treasures

२६८.

विश्ववित् all-possessing;

अव्यचस् embracing or absorbing all things ४३४.

अशम्भू beneficial to all ४४, ६८, १५५, ८५, २०५, १६३७, ४०.

असृज् all-creating; creator of the universe २००, ४४४, ६०, ६१, ६२, ६३, १६५९, ६७.

अशौभग bringing all prosperity १२१.

अहन always १७, ४८, ५३, १०२, ३४०, ५०८, १३६८.

अक्ष having eyes everywhere १६३७.

अख्य named विश्व १६५४.

अची universal; going every where १६४५.

अत्मन् universal spirit; the soul of the universe; soul of all १६३७, ५७, ५८.

अद् all-consuming १८, १९.

अधिक superior to or extending beyond the universe १५९३, १६०८, ३६.

अधिप lord of the universe १६०९.

अनर existing among or dear to all men ६८, १२०, ४३२.

अभिरक्षण protection of the universe १३६९.

अमित्र name of a sage or his descendants; friend of all ३९१, ५४५, ४९, ५४, ६८४, ९२, १०८२, १३५५, ५९, १६४४.

अमृत immortal for all times १६५९.

अयुस् all people; universal life or breath; lord of all men २३, ७६, १३६८, १६४४.

अग्निस् having flames or refulgence on all sides १६४०.

अश्वेदेव name of a group of Vedic gods

३०, २८६, ४७४, ५०९, १०३७, १३३५, ४८४९, ५३, १६६६.

अश्वेश्वर the lord of the universe १६५७

अश्वैश्वर्य lordship of the universe १५८२.

अश्व excrement १६५३, ५६.

अश्विष poison ११७, ६४.

अश्विषत्व inequality; difference; differentiation १६५७.

अश्विष्य subject; topic; region; abode; object of enjoyment or pleasure

१४१२, १६५६, ६४.

अश्विष्यगोचर the realm of sense १६६४.

अश्विषयासङ्गिन् attached to sensual pleasures १६६५.

अश्विष्यिन् victorious ? ५२४.

अश्विषवती poisonous १६४.

अश्विषाणा loosening; untying ३७३.

अश्विषाद dejection; abhorrence; disgust १६५३, ५६.

अश्विषादिन् name of the hell in the north-east ४११.

अश्विषासहि victorious; vanquisher ५०६७, १०६९.

अश्विषित let loose; loosened १९९.

अश्विषुण different; various; manifold १२३

अश्विषुवत् being in the middle, central; extensive ४६९.

अश्विषूची going apart or in different way १०६, २२०, ३४०, ५३७, १३६६, ९९, १६६

अश्विषूचीन going apart or in different way; spreading everywhere २२३, ३५४२.

विष्कम्भ fixed; supported १३३५.
 विष्ट entered; pervaded ५४९.
 विष्टप् summit; surface; height १६९,
 ४३५.
 विष्टप a hump; also see विष्टप् २२, २०२, ३५५,
 ९३, ४०६, ४२, ६९, ५२९, १३५९.
 विष्टब्ध sustained; set apart ५४८.
 विष्टभित fixed firm; well-founded १३२,
 २४९.
 विष्टम्भ prop; support ७१, १७४.
 विष्टारिन् spreading out; extending ३६९,
 ७०, ७१.
 विष्टिर extensive; broad ५१.
 विष्ट standing separately or variously
 १९७, १६३२.
 विष्टा place; position; stand २५८, ३९३,
 ५०७, १५७४.
 विष्टित standing apart; standing firm
 २०१, ३६.
 विष्णु name of a vedic god ६, १३, ५७, ७२,
 ८६, ८७, ८८, ८९ ९१, ९२, ९३, १०९, १०,
 ३४, ७२, २२१, ६६, ३३१, ३९, ६७, ६८,
 ४३५, ५५, ९८, ५०७, ११, १४, ६९३, ७०६,
 १३०९, ६९, १६३२, ३४, ४४, ४८, ४९, ५७,
 ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६५, ६७, ७४,
 ८२, ८३.
 विष्णुक्रम the stride of विष्णु ९३.
 विष्णुकान्ता bestridden by विष्णु १६३२.
 विष्णुदेवत्या sacred to विष्णु ५२३, १६८०.
 विष्णुदैवत्या sacred to विष्णु १६८२.
 विष्णुमुख having विष्णु as chief १६३२.
 विष्णुसंज्ञित called विष्णु १६६२, ६६.
 विष्णुलिङ्ग a spark of fire ४०४.
 विष्वच् going in diverse directions ६२,
 २३१, ३१३, ९६८, १००४, १४३९.

विसर्जित emitted; dis-
 विसर्पिन् name of the
 east ४११.
 विसित see विषित ८५.
 विसृक्त doing no go
 सुकृत १३०५.
 विसृक्त see विसृक्त ६३५.
 विसृजत् discharging;
 विसृष्ट poured forth;
 विसृष्टि discharge;
 २४२, ४३, ७६, ३१९.
 विस्तृति extent; rang
 १६६८.
 विस्फुलिङ्ग a spark of
 ५९, ६०, १०७७,
 १६६२, ६४.
 विस्रंसमान falling off;
 विस्रस् dropping dov
 the body) witho
 १४३४.
 विसृद् a plant; a sho
 १३.
 विहग a bird १६६६.
 विह्व an invocation;
 २००.
 विह्व्य (a sacrifice)
 ज्ञानयज्ञ) ४५७.
 विहायस् belonging t
 great १८६, २६५.
 विहित bestowed; enj
 ३२, २११, ३९५, ९६
 विहिता made १३८६.
 वीङ्खयत् tossing; sv
 १३४१.

णावाद् lutanist १२६१.

त procreation २७२.

तमन्यु whose wrath is assuaged; free from anger १३९१.

तराग free from attachment (to worldly pleasures) १४८३.

तशोक free from grief or sorrow १४०६, ७१, १५९०, ९९, १६०५, ३५.

तशोकभय free from grief and fear ५२४.

ति worship; sacrifice ५२४.

त्रिय relating to the clear sky १४२.

त्रय relating to the clear sky १४२.

र a son; heroic progeny; a hero; warrior; brave or eminent man; male of an animal ५१, ५३, ७८, १२५, ४६, ७१, ८२, २२५, ३६०, ९०, ४१३, ८२, ५०८, १४, ८०५, १२७८, १३१०, ५०, ५२, १५७४, १६११, ४५, ४६.

रपोष thriving or prosperous condition of men or of son १६८.

रवती endowed with or bestowing or rich in heroic progeny or warriors १३१०.

रशुभा possessed of warlike or overpowering vigour ४८२.

रहत्या the murder of a heroic man १६४५.

रहन् the murderer of a heroic man ४८६.

राध्वन् the course or career of a hero (?) १६७१.

रध् a creeper; plant; herb ८, १२८, २५२, ७९, ३२५, ४३५, ४९, ५२.

र्यवत् possessed of vigour or strength powerful; efficacious; a heroic soldier

११५, ८१, ७५६, १३५०.

र्यवत्तम most efficacious or powerful २९७.

र्यवत्तर very powerful or effective ७५०.

रिञ्जित made strong; firm; hard १९१.

रुक् a wolf; a dangerous wild animal १८९, ३७६, ५०९, ९१७, १८.

रुक् the kidneys ४३४.

रुक्ण cut; hatched १६३, ११७९.

रुक्ष a tree १३७, ३८, ४३, ४७, ४८, ८४, ९२, २१३, १५, ४८, ५०, ५९, ६४, ३२२, ८७, ४१५, ५००, ०८, ०९, ६३३, ३६, ७०३, ९१६, १११७८, ७९, १३३०, १४४६, ६८, ७०, १५९१, १६०१, ०५, १९, ३५, ३६.

रुक्षमूल the roof of a tree १६७१.

रुक्षसर्प crawling or moving on tree ३४०.

रुक्षप्र the top of a tree १३५९.

रुजन an enclosure; pasture-ground; protection ७१, १२३, १९२.

रुजनी an enclosure; water-cloud २१०.

रुजिन crooked; deceitful; false; deceitful; intrigue; guile; sin १२०, ३११, ५४१८, १९.

रुत chosen; appointed १३५७.

रुता covered completely or profusely ५०९.

रुत round; used to occur ९०, १६५३.

रुतचिक्किता doubt as regards proper conduct ७०४.

८, ३४२, ४३५, १६३२, ३३, ४५.
 वृथा invain; incoherent ५६८.
 वृथातर्क deceptive or fallacious argument
 १६६७.
 वृद्ध full grown or developed १४१, ३१३.
 वृद्धश्रवस् possessed of great fame ४९५,
 १६३२.
 वृद्धि growth; prosperity १६६०.
 वृध् growth; prosperity ६३, ४९४, ९५.
 वृधत् the first of the five महाव्याहृति ३०५,
 ५२२.
 वृधान growing १८५.
 वृन्दारक eminent; head of a troop ११८६.
 वृश्चिक scorpion ५०९.
 वृषण strong; mighty ६०, ६३, २३५.
 वृषत्वन् manliness; virility ५६.
 वृषन् mighty; strong; powerful ५७, ६३,
 ७२, ८८, ८९, १२७, ३२, २२१, ३१६, ४४८,
 ७९, ५०८, १६३२, ३४, ४६.
 वृषभ a bull; manly; mighty vigorous;
 strong ३, ६, ११, ४७, ६७, ६९, ७०, ९४,
 १२५, २६, २७, ६८, ६९, २०५, ५८, ७४,
 ४००, १२, १३, ५०८, २०, १३३१, ३७, ३८,
 ६७, १६३५, ३६, ४६.
 वृषल a contemptible man ४८५.
 वृषलीमिथुनसंगम copulating with a वृषली
 ४८६.
 वृष्ट shower; rain; showered; fallen १३३३,
 १४२५.
 वृष्टि shower; rain ४४, ६४, ७७, १५०, ५२,
 २२९, ५१, ४०४, ५१५, ४०, ९९, ६२९, ८४,
 ७४०, ७५, ११०९, १२९६, १३००, ७२,
 १६६२, ६६.
 वृष्णि manly; strong; powerful ५५.
 वेग speed; velocity ५०७.
 व्रेतस reed; cane २४८, १६४५.
 वेत्त knower; perceiver १५९९, १६७६.

३०४, ०५, ३६, ४९,
 १९, २०, २१, २२, २३
 १३, १६, २६, ८६, ८८
 ९५, ८८२, ९०३, २६
 १०३९, ५३, ९७, १२१०
 ८७, १३०७, ०८, ०९,
 ४६, ६१, ८४, १४०४,
 २५, ३४, ५१, ५६, ६४,
 वेदन belonging; wealth
 वेदपुरुष the वेद conceive
 वेदमातृ the mother of
 १६४४.
 वेदवित् one who knows
 versed in the *Veda*
 वेदविद्याधिगम acquisitio
 १६५६.
 वेदविद्यान्तर the heart of
 वेदशिरस् the head of the
 कौषीतकी उपनिषत् ६९२.
 वेदस् knowledge; pe
 possession ३४३, ४९
 वेदात्मन name of ब्रह्मा (th
 १६३२.
 वेदादि the beginning
 वेदादिशास्त्र वेद and othe
 texts १६६७.
 वेदानुवचन repetition o
 doctrine ६९१, ७०३,
 वेदान्त the end of the
 the philosophy of
 वेदान्तविज्ञान) १६२७, ३
 वेदान्तकृत् the destroye
 maker of वेदस end
 वेदान्तविज्ञान knowledge
 वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ those
 tained the meani
 knowledge १४८४, १
 वेदि altar १७०, २२१, ४
 १३०५, ३१, १६५१, ६५

वेदितव्य to be known or perceived १२६६,
१४४४, ८०, १५८२, १६५९, ६२.

वेदित् knower; perceiver ११७०, ७१, ७२.

वेदिषद् sitting on or at the वेदि ९५,
१४२७, १६३५, ४५.

वेदोपनिषद् the secret doctrine of the वेद;
teaching ७०४.

वेद्ध्य (the mark) to be penetrated
१४६०.

वेद्य to be perceived or known or under-
stood १४, २१, १५१८, ९९, १६७६.

वेद्या lore; what is to be known or
learnt ४९१.

वेद्यस् intelligent; the wise; the skilful
१०५, २७२, ८०, ४७८, ५०८, १३६५, ६६.

वेदिना a Vedic deity; the sun; loving ५९,
१०६, ९७, २५६, ५८, ६६, १५७४, १६३१,
३२, ३६.

वेदिनात् loving; longing for ४१४.

वेदिनी loving ८२.

वेदिन्य lovable; covetable १९२.

वेदिपथु shaking; jolting ५०७.

वेदिप्यमान being shaken ५११.

वेदिमला rim; boundary २९७, ९८.

वेदिजान frightening ६५.

वेदिश a neighbour ७८.

वेदिशान्ता tank ११९९.

वेदिशमन् dwelling; house; abode ४७३, ९५२,
५४, ८३.

वेदिशमपतिदेव having वेदिशमपति for his god or
deity २८६.

वेदिशय abode; dwelling; place of residence
६४.

वेदिशयः pervasion ३०१.

वेदिभूतीपुत्र name of a teacher १३१०.

वेदिभि- भार्गव name of a teacher १४९०.

वेदिक believer in the Vedas १६६७.

वेदिह belonging to the वेदिह land (epithet
of जनक); king of the वेदिहस; of the
bodiless one; possessed of the r
flection of sentience (comm.) २६
४६७, १११५, ५७, ८१, ८२, ८४, ८५, ८६,
८९, १२३६, ८४, १६६९.

वेद्युन like lightning; lightning; pertain
ing to lightning; region of lightning
३२२, ५२२, ६९४, १२९८ १६६८, ७९.

वेदिनेय son of वेदिना; the eagle १३४.

वेदिन्य son of वेदि; पृथु १६३, १३४३.

वेदिश्रित- दाढजयन्ति- हृदजयन्त- लौहित्य name of
a teacher १३६८.

वेदिश्व son of व्यश्व ५८.

वेदिश्वकरण grammarian ५२३.

वेदिश्वाम्नपदीपुत्र name of a teacher १३१०.

वेदिश्वाम्नपथ name of a teacher ४०, ३३१, ८७५.

वेदिश्वाम्नपथ वैराग्य aversion to worldly pleasure
१६५३.

वेदिश्वाम्नपथसंस्कृत disciplined with वैराग्य ६९१.

वेदिश्वाम्नपथ वैराज name of a particular अग्निहोत्र; name
of a particular सामन् २८१, ४५०, ५०३,
७३, ६३६, ९१, ७८३, १६६६.

वेदिश्वाम्नपथ वैराज्य wide sovereignty ७९१.

वेदिश्वाम्नपथ वैरूप name of a particular सामन् २८१,
४५०, ५१, ६३६, ७८२, १६६६.

वेदिश्वाम्नपथ वैरोचनी shining bright; radiant; refulgent
१६३४.

वेदिश्वाम्नपथ वैवस्वत son of विवस्वत्; मनु १६३, ६६, ३५५, ५९५,
६२, ६६, ८२, ९०, ४१६, १३९०, १६४५.

वेदिश्वाम्नपथ वैशन्त being in a puddle (an epithet

- वैश्रवण patronymic of कुबेर १६४.
 वैश्वकर्म्म the lord of all activity १६९,
 ४००.
 वैश्वदेव sacred to or belonging to the विश्वे
 देवाः; name of a particular सामन् २८४,
 ८६, ७९१, १११६, १३४१, ४५.
 वैश्वदेवी belonging to विश्वे देवाः; pertaining
 to all gods ३५१, १३४०, ४१.
 वैश्वानर epithet of अग्नि २, ३, ४, १३, १४, १६,
 १९, ३०, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, १०२, ३४,
 ५६, ५९, ६१, ७३, २४७, ६१, ३७२, ७९, ८५,
 ९७, ४०४, १३, १४, ३२, ५०७, ८७२, ७३,
 ७४, ७५, ७६, ८१, ९८७, १२७६, १३९०,
 १४९२, १५२१, २७, १६३२, ५५, ५९.
 वैश्वानरज्येष्ठ led by वैश्वानर २०.
 वैश्वानरज्योति the lustre of the वैश्वानर २५.
 वैश्वानरी benevolent to all men; belong-
 ing to विश्वानर २४, ४७९.
 वैश्वामित्र seen by or belonging to विश्वामित्र
 ५४९, १३५५.
 वैष्णव of विष्णु ५२३, १६८०.
 वैष्णवी resembling विष्णु १६३४.
 वैसर्जनीया the last one (P) १३५८.
 वो the syllable uttered as a स्तोम १३७२.
 वोढवे to draw or drag ३८९.
 वोढृ the drawer; one who draws (the
 रथ) ५१४.
 वौक् a syllable (identified with अग्नि) ३०.
 व्यंस name of a demon ६६.
 व्यक्त manifest; characterised or marked
 by ३३६, ५७, ४१७, १५७३, ८०, १६६०.
 व्यक्ताव्यक्त manifest and unmanifest
 १६७७.
 व्यग्रत्व distractedness १६५६.
 व्यचस् spreading out; pervasive; perva-

- v्यधि flickering flame
 व्यपदिष्ट pointed out
 tioned ११३३.
 व्यवस्था definite condi
 व्यवस्थित definitely or
 १६४०.
 व्यवृत्त turned away
 व्यस्व name of a teach
 व्यष्टि individuality (
 lity) ६३९, ११३०,
 व्यस्तकेशी with the
 whose hair are di
 व्याकरण grammar ५२३
 व्याक्रोशमान crying out
 व्याख्या explanation १६
 व्याख्यान commentary
 १६६४.
 व्याघ्र a tiger ५०९, ९१७
 व्याघ्रभय fear of a tiger
 व्यात्त open mouth २५
 व्याधि disease १३३१, १
 व्यान one of the five
 २४५, ३०८, १२, १३,
 ५५, ५६, ६०, ७३, ५१
 ९७, ७०१, १४, ५५, ५
 ११२०, ३२, ७६, १२८
 ५१, ५२, ८६, १५०२,
 ५४, ५८, ५९, ६४, ६६.
 व्यानशि spreading fort
 व्यापक pervading; all
 १६८१.
 व्याप्त pervaded; cover
 १५७३, १६०६.
 व्याप्ति pervasion; exten
 व्याप्तित्व extensive १३३

यावत्त parted from; separated; freed from २४८.

यावृत्ति separation; demarcation; parting ४०३.

यास name of a ऋषि ५२४.

याहित a sick man १२७७.

याहृति utterance—they are said to be four, or five or even seven in number; Sometimes we also have महाव्याहृति (great utterances) ५२२, २४, ४७, ६९७, १३३६, ५२, ५६, ६०, १६५१, ५८.

युच्छन्ती shining २९०.

युत distinct; different; distinguished १२४.

युन्दती moistening ३९२.

युप्तकेश whose hair are cut (an epithat of रुद्र); tonsured १४१.

युष् dawn १७३, १३६९.

युष्टि dawn; shining; appearance; beauty १६१, ६२, २८५, ५१४, २२, ८०५.

युष्टिम् shining; radiant; beautiful ८०५.

यूढच्छन्दस् name of a particular sacrifice १३६४.

योमन् sky; firmament; aerial region २५, १०९, १०, ६१, ७०, ७७, २२१, २३, २५, ३९, ४३, ७१, ७४, ७६, ३४८, ५७, ७५, ७६, ४१५, ८३, ५०७, २२, २५, ६२७, ८३, ७०६, ३८, १३३२, १४६३, १६०५, २९, ६५, ७७, ८०.

योमसद् being in the sky or aerial region ९४, १४२७, १६३५, ४५.

योमान्त the end of व्योमन् (a very high figure) १३३३, ३७, ३८.

ये who encircles or pervades (i. e. वरुण) ४४४.

६५, ३०५, ४२८, ३१, ३२, ३३, ३४, ४६, ६९, ८१, ९८, ५०१, ७३९, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५.

१०६३, १३४६, १६०५, ५६, ८०.

व्रतचर्य practicing a व्रत १३५५, ७२.

व्रतपा protector or guardian of व्रत ६०६.

व्रतमीमांसा consideration of activities १०६१.

व्रतश्रवण name of a fire ४६०.

व्रतिन् one who is observing व्रतः; a व्रत चारिन् १६७०.

व्रत्य fit for observance of व्रतः ४३३

व्रयस् overwhelming or superior power १११, ६८६.

व्रा water १०६.

व्रात troop; group; host १४०, ४२९, ८५.

व्रातपति Lord of व्रात १४०.

व्रात्य an apostate ४५०, ५१, ५३, ५४, ५५, ५६, ८६, १३३३, ३९, ४३, ५४, ६१, १४९.

व्रात्यब्रुव professing to be a व्रात्य ४५४.

व्रीहि rice २६१, ३२५, ७३, ८३, ८११, ६५, १२७४, १४५८.

व्रीहियव rice and barley ४६७, ५०८.

शंस invocation; praise; a praiser; *Narī śamsa*; a mystic name of *Agni* १२३, ९३, ४९६.

शंसन् praising ४८.

शकट a cart ८२५, १६५४.

शकमय (smoke) of (burnt or burning cow-dung २२५.

शकर a chip; a fragment ११७९.

शकुन a bird; a wild bird; name of a bird २३, ६५, १३३, ४१४, ६१, ५०९, १६६४.

- शक्य possible १४३७.
 शक strong; powerful; capable; name of
Indra १९, ५८, ६६, २७३, ४३१, ५०८.
 शकरी capable; name of a particular
 metre or hymns in that metre;
 name of particular hymns (esp. the
Māhānāmni verses belonging to the
Sakvara-Sāman) १३२, ६७, ४९२, ७८३.
 शम pleasing; bestowing happiness or
 pleasure; friendly; powerful;
 effective (M. W.) ३८६, ९५.
 शङ्कर causing prosperity or happiness;
 auspicious; name of *Rudra* or *Śiva*
 १४३, ३३६, १५७४.
 शङ्कु a spoke; a wooden peg २२८, ४९,
 ७८९.
 शङ्ख a conch-shell perforated at one
 end used as a wind instrument or
 horn १०९६.
 शङ्खचक्रगदाधर holding a conch-shell; a
 discus and a mace (i. e. *Viṣṇu*)
 ३६८.
 शङ्ख-बाध्रव्य name of an *Ācārya* १३६७,
 ७२.
 शङ्ग blessing the household १४३.
 शङ्गय blessing the household ६.
 शङ्ग-शाटयायनि-आत्रेय name of an *Ācārya*
 १३६७.
 शङ्गु see शङ्ग १४३.
 शची name of the wife of *Indra*; capa-
 city; power; skill; favour; grace;
 mighty aid; mighty deed ५३, ५७,
 ६२, ६८, ८६, १७५, ९३, २२६, ३२६, ६८,
 १६४५.

- शतदाय giving or gran
 २०१.
 शतधन्वन् having a hund
 शतधर having a hund
 ३९२, ९७, ९८, १६४८.
 शतबाहु having a hund
 शतमूला having a hund
 शतरुद्रि(री)य name of a h
 of the *Yajurveda*
Rudra in his hund
 ७६.
 शतचैस् having a h
 (M. W.); havin
 lustre (सायण) ९२.
 शतर्चिन् worshipping
 years ५४४.
 शतवध killing a hund
 शतवल्श having a hund
 शतशारद life or age of
 ३८०.
 शतसंवत्सर a hundred y
 शतसनि gaining or pro
 १३४४, ४५.
 शतहायन lasting or livi
 (years) ३८२.
 शतहिमा lasting or livi
 winters ८.
 शताङ्कुरा having a hund
 शतायुता the state of h
 a hundred years ५
 शतार्धार having fifty s
 शतिनी hundredfold (p
 शतेषुधि having a hund
 शत्रु a hostile person
 enemy ६१, ६७, १६९

१२५, २७, ३०५, ५२५, ६२७, ८३, १५७४, १४,
१६४३.

अ a curse; an imprecation ४६१.

अ hoof ४३४, ५३२.

अ having the shape of a hoof ३७०.

अ dappled; spotted ३५७, ७८, ९८२.

अ sound; word; designation; *Sabda-*
brahman; the syllable *Om* ५२२, २३,
६३८, ५९, ६५, ६६, ६८, ६९, ७०, ७६, ७७,
८०, ८७, ८९, १०५०, ७०, ९५, ९६, ९७,
११२३, १२४६, ६१, १३८७, १४२१, १५८८,
१६५६, ६१, ६२.

अ word-*Brahman*; the *Veda* con-
sidered as a revealed sound or word
and identified with *Brahman* १६६२.

अ resounding; endowed with
sound ६२१.

अ student of *Sabda-brahman*
१६६२.

अ the means or organ of hearing
sound ५२२.

अ happiness; joy; pleasure; prosperity

२५, ८०, १२७, ४५, ५६, ५७, ३०५, ६५, ७७,
८३, ८८, ९५, ४८१, ९६, ९७, ९८, ९९, ५१०,
११, १२, २४, २५, ६९३, ७०५, ०६, १६३४.

अ quietude; absence of passion; quiet-
tism ७०२, १३८७, १६३५, ५०.

अ alleviator; tranquillizer १६५१.

अ impurity; sin; blemish १७०.

अ possessed of quietism १४५३.

अ prepared; ready (सायण seems to
read संमिताय and explains it as 'thus
constituted' *Brahman*) ४५८.

अ benevolent; kind; causing happi-
ness १४३.

अ benevolent; kind; causing happi-
ness; name of *Siva*; bestower
of happiness १४३, ४९८, १६५९, ६७, ८३.

अ name of a sacrificial vessel ४०५.

अ lying down २८, १४०, ३३२, १३८६.

अ the upper part of cream; an arro-
w ४३६, ९९४, १४६०, १६६२.

अ refuge; shelter; final resort ७८
१५९८, १६२६, ३४.

अ autumn; season succeeding the
rainy season; year ४७, ५४, १९१, २३
३८४, ४५१, ९६, ५०८, १३, १५, २०, २
६२६, ५०, ७७६, ८३, १३३३, ४०, ९
१६६४, ६६.

अ a layer of reeds १३०७.

अ a fabulous animal having eight
legs १६६६.

अ the point of a reed १३०७.

अ an arrow-shot; a shower
of arrows (M. W.) a quiver (सायण
१३४.

अ body; bodily frame ११७, २८, ५
२६०, ९१, ३०६, ०७, ०९, १०, ११, १२, १
१५, २२, २७, ३१, ३५, ५९, ६०, ८९, ९
४०३, ०५, ०६, १२, १४, १७, ३२, ६६, ५०
३३, ४२, ५४, ६१, ६६, ६९, ६१०, ३८, ५
५९, ६५, ६७, ६८, ६९, ८०, ९१, ९५, ७१
३९, ८०५, ५१, ९६०, ६७, ६८, ७४, ७५, ८
७९, ८२, ९८, १०५३, ५४, ७४, ११२५, ४
५१, ५२, ५३, ५४, ६८, १२२७, ३६, ४०, ८
८७, १३२७, ३४, ५६, ६१, ६४, ६५, ६६, ६७

- शरीरपुरुष soul possessed with a body
६१३, ८८.
- शरीरभेद dissolution of the body; death
५९१.
- शरीरवत् having a body १३५६, ६६.
- शरीरस्थ existing in a body १४२८.
- शर a missile; a weapon (esp. thunder-
bolt); a destroyer ४७, २३८, ३५४.
- शरुमत् armed with missiles १६३२.
- शर्करा small pebble २९३, ९६, ४४९, ५०९,
१५८८.
- शर्घ (शर्घस्) a host, a troop (esp. of
Maruts) ६, ५७, ७२, ७३, ४५४.
- शर्घत् defiant; mocking; bold ४७, १९०.
- शर्मन् shelter; refuge; a house (sacrifici-
cial hall); happiness; joy; delight २३,
७३, ८४, ९६, १६५, ९३, २३९, ७६, ३५१, ६१,
८१, ९५, ५१२, २४, २५, १६३२.
- शर्यात-मानव name of a sacrificer; des-
cendant of *Manu* १३५१, ५२.
- शर्व name given to the reddening sun;
name of *Śiva* or *Rudra*; killing
with an arrow १२८, ३१, ३४, ४१, ४८,
५०, २५२, ९६, ३८१, ४५२, १३७०, १६४१.
- शलक a chip; a bit १६४६.
- शल्य iron-headed weapon; a dart;
arrow-head १३६.
- शव the pervading soul in the form of
strength or energy ३१३.
- शवस् strength; power; superiority २२,
४५, ५४, ५५, ५८, ६०, १७२, ९०, ९२.
- शविष्ठ most mighty ५८.
- शव्य funeral rite ८४०.
- शशबिन्दु name of a king (son of *Citra-*

- शशिन् the moon १५८९.
- शश्वत् perpetual; endl
२२३, ३५३.
- शश्वती all; several (*Oṣa*)
- शष्पिञ्जर yellowish red
१४८.
- शष्य worthy of an of
grass १४३.
- शस्त praise; eulogy ४९९
- शस्त्र invocation; praise
- शस्त्रवती provided with a
६८९.
- शस्यमान being sung or r
- शस्या a group of *Rk* ver
for *Śastra* i. e. inv
१११८, २०.
- शाकल्य patronymic fro
६१०, २३, ८४, ८६, ८७
७१, ७२, ७३, ७७, ८६.
- शाकायन्य name of the
Bṛhadratha १६५३, ५
- शाकुनिक a fisherman १६
- शाकर name of a *Saman*
२६६, ६३६, १६६६.
- शाखा a branch (i. e. o
spreading like a br
१३१, २४७, ४८, ३३१,
१६५८.
- शाखानाडी a sub-artery
- शाख्वायन name of a tea
- शाठयायनि name of a tea
३८, ४९, ५०, ५२, ५९, ६
- शाण्डलीपुत्र name of a
Śaṇḍalī १३१०.

प्रान्त auspicious; friendly; gentle; appeased; undisturbed; free from passions ५१२, १४, ६९१, ८०७, ११९२, १२५५, १४१६, ५२, १५१४, २५, १६२६, ३५, ५४, ६२, ६३, ६५, ६६, ८२.

प्रान्तरूप having a tranquil appearance १६७९.

प्रान्तसंकल्प free from thought or anxiety १३९१.

प्रान्तहृदय tranquil-hearted ९७३, ७५, ७६.

प्रान्तात्मन् calm-minded; composed १६५७.

प्रान्तादिलक्षणोक्त referred to by indicative marks such as calmness or tranquility १६६४.

प्रान्ति peace; cessation of expectancy; averting of pain; an expiatory or propitiatory rite for averting evil; tranquility; calmness of mind ११८, ३५१, ५११, १२, १५, १९, २१, ६२६, ९३, ७०६, १३४२, ९०, ९३, १४३१, ४१, १६०७, ०८, २३, ४७, ५१, ७८, ८०.

प्रान्तिक propitiatory; producing ease or calmness १३६८.

प्रान्तिमत् possessed of peace of mind १३४३.

प्रान्तिसमृद्ध rich in tranquility ६९९.

प्रान्तिशब्द resting on or enjoined by sacred sound, ११०६.

प्रान्तिशब्द autumnal ४५१.

प्रान्तिशरीर bodily; corporeal; embodied (or individual) soul ६७७, ७१५, १६, १७, २०, ११७०, ८७, १२००, २०.

प्रान्तिशर्कराक्ष्य patronymic from *Śarkarākṣa*

शाश्वत eternal; perpetual १४०५, ३१, १६२२, ३७, ६३, ८०.

शाश्वती eternal; perpetual १२७६, १३११, १६२३.

शास् command; commander; ruler १९०.

शास्तृ commander; ruler; punisher २६६, १६५९, ६७.

शास्त्रविद्वस् who have learnt *Śastras* १६६५.

शिक्य a kind of loop or swing made of string ३१८, १६३५, ७१.

शिक्याकृत suspended by strings १७४.

शिक्षक a teacher ५२३.

शिक्षत् practising; studying ८१.

शिक्षमाण practising; studying ८४.

शिक्षा name of one of the six *Vedāṅga*s १४४५.

शिक्षित teaching; instruction; study २५२.

शिखण्डिन् wearing a tuft of hair; tufted १३०, ४४.

शिखर top; summit १६४४.

शिखा tuft of hair on the head १६४४, ५१, ६२, ७१.

शितिकण्ठ white-necked (of *Rudra*) १४११, ४८.

शितिक्ल white (M. W.), सायण read श्यतिक्ल and explains it as an adj. of वरुण, meaning approaching the dark coloured i. e. watery cloud ४२३.

शिथिर loose; flexible २४४.

शिथिल soft; flexible; unsteady; tremulous; ephemeral १६०, ३०६, १३८६.

शिपिविष्ट name of *Śiva* assuming the form of *Viṣṇu*; an epithet of *Viṣṇu* (pervaded by rays) ९२, ९३, १४१.

७०६, १४, १५, १७, १८, १८७, १४, १०८१.
१११०, १२७४, १३५५, ५६, १६३२, ४४, ४७,
५३, ५८, ६४, ७९, ८१.

शिरस्त्व the state of being the head ५३३.

शिरोव्रत a particular religious obser-
vance १४८८.

शिलक name of a teacher ७६४, ६५.

शिलकं-शालावत्य name of a teacher ७६४,
६५, ६६.

शिल्पोपजीविन् living on handicraft १६६७.

शिव name of *Rudra*; favourable; gra-
cious; auspicious; happiness, wel-
fare २४, १३४, ३५, ३६, ४३, ४५, ४७, ५०,
५७, ६२, ६८, ३३६, ८३, ५०९, १२, १४, १६,
२५, २८, ९६, १६०८, ०९, १६, ३७, ४०, ४१,
४८, ४९, ६७, ७३, ७४, ७६, ८३.

शिवंकर bestower of happiness; auspici-
ous १६८३.

शिवतम most auspicious or favourable
or gracious ६८, १३४, ४७, १६३३, ६४.

शिवतर very gracious or benign १४३.

शिवरूप having an auspicious or benign
form ३३६

शिवलिङ्ग the *Liṅga* form of *Śiva* १६४१.

शिवसंकल्प the name of an *Upaniṣat*; of
auspicious thoughts; whose move-
ments or vicissitudes have come to
a stand still (शान्तव्यापार comm.) ३३४,
३५, ३६, १५७३, ७४.

शिवा favourable; benign; gentle; auspi-
cious; tranquil १३५, ४५, ३४०, ४६,
५१, ६०, ४८३, ५०८, २५, ६२७, ८३, १५००,
९४.

शिवालय temple (of god *Śiva*); auspi-
cious abode ३३६, १५७४.

शिशुमत् having children

शिशुमार (शिशुमार) a cro-

tor; dolphin १३२, ३

शिश्र male generative

८७, ५८१, ८३, ८५, १

४७.

शिश्रियाण resting on ५०

शिष्ट disciplined; cu-

११८.

शीक्षा pronunciation;

शीक्षाध्याय the lesson

६९४.

शीघ्र quick; agile १४१.

शीघ्रिय quick; fleet १४

शीघ्र्य quick; speedy

शीत cool; cold ११९, ६

शीभ quick; agile; spe

शीभ्य moving quickly

शीर्ष head ११, ३६९, ४०

७८.

शीर्षकपाल skull ६९९.

शीर्षण्य head-piece; be

being at the head

शीर्षतस् from the head

१६८१.

शीर्षन् head ३६, २०९,

११०९.

शुकस्वर sourness of u

शुक्र bright; refulgent

७०, १२६, ५८, ७०, ७

२०५, ५५, ६६, ८२,

५०७, १५, २०, २१, २

५७, ६०, ६९, १४२९, ३

२९, ३०, ५३, ६२, ६५

शुक्ल bright; white ११४, ८१, ५२३, ३५, ६८०, ७६०, ९४, ८९७, ९८, ९६६, १०८०, १२०७, ३९, १३०७, ११, ३७, ३९, ८६, १४९५, १६६५, ७८, ७९.

शुद्ध्यानपरायण engrossed in meditation on pure spirit (in the form of Rudra) १६७१.

शुक्ल white; pure १६८२.

शुद्ध the sprout (of a big tree like figs infectoria) ९०७, ०८.

शुचमान shining ४१८.

शुचि bright; pure; shining ५, ८, २५, ७०, १२७, ५६, ५७, ३६९, ९८४, १४१३, १५८८, १६४९, ६३, ६४, ६५, ७१, ७३, ८१.

शुचिमत whose observances are pure or holy १२०.

शुचिषद् dwelling in light or in clear water ९५, १४२७, १६३५, ४५.

शुद्धी the sutlej river १६३३.

शुद्ध pure; clear २२४, ३६९, ७५, ४२०, ६०१, ८५, १२८४, १३१९, ७१, १४२६, १६३३, ५४, ५५, ६३, ६४, ६६, ७६.

शुद्धपक्ष the bright half of a month ६४२.

शुद्धमानस pure at heart १६७१.

शुद्धसत्त्व with (their) nature purified १४८४, १६३६, ७३.

शुद्धसफटिकसंनिभा resembling clear white marble १६८०.

शुद्धितमा perfectly pure १६६२.

शुद्धिनी purifying ४८९.

शुभ auspicious; favourable; benign ३३६, ८३, १३३३, १५१०, १६६१, ६४.

शुभंयावन् flying swiftly along ४९५.

शुभः auspicious; favourable; gracious

शुश्रूषिता desired to be heard १३०८.

शुश्रूषेण्या to be willingly heard or attended to ३५१.

शुष्क dry; dried up ३३१, १३०४.

शुष्कभृङ्गार name of a teacher ६४५.

शुष्काप with all water or moisture dried up २९३.

शुष्क्य being in dry substances such as wood १४४.

शुष्ण name of a demon enemy of Indra ४८, ६६.

शुष्म strength; power; vigour ४७, ५२६९, ३८८, ४१८, ८२, ५२०.

शुष्य see शुष्क्य १४४.

शूद्र a man of the lowest of the four classes or castes २३३, ८१, ८४, ८८२५, २७, १०३८, १३५७, १६६७.

शूद्रक the same as शूद्र; used as a term of contempt १३५७.

शूद्रशिष्य pupils of a शूद्र; one having a शूद्र pupil १६६७.

शून्य void; barren; empty; an epithet of ब्रह्मन् १६५४, ६३, ६४, ६६.

शून्यभूत which is as it were शून्य १६६२.

शून्यागार a vacant house; a deserted house १६६०, ७१.

शूर brave; warlike; bold ६६, १४२, २३३६७, १३३१, १६७९.

शूरवीर the name of a teacher ५९८, ६००३.

शूर्प a winnowing basket or fan ४०७३.

शूर्पग्राही the holder of a winnowing basket ४३६.

- शृङ्ग a horn; peak; top ४३४, १११५,
१६३६.
- शृण्वत् to listen; hear ३३१, ६०, ४१३, ८५१,
१०२२, १२१४, ८८.
- शृत cooked; boiled; cooked food ३५९,
६०, ९६, ५७५.
- शृध्या boldness; defiance ४७.
- शेष male organ; penis १५५, ४२३, ३४.
- शेषधि treasure; treasury २८, ५०, ३७५,
१४०१, १६६३.
- शैवा treasure; wealth; the form of the
Linga १६२.
- शेष the remnant; remains ३६०.
- शैक्ष्य science of phonetics ५२४.
- शैब्य a descendant of *Sibi* १५०९.
- शैब्य- सत्यकाम name of a teacher; descen-
dant of *Sibi* १४९०.
- शैलन name of a teacher (or a family)
४०६, १३३०, ३४, ५०.
- शैलिनि name of a teacher ११८२.
- शैशिर of winter ४५२.
- शोक grief; sorrow; mourning १९४, ३५३,
६८, ४७५, ५२४, ९२७, ६३, ११३६, १२१०,
१३१८, १४८७, १६५३, ५६.
- शोकातिग overcoming sorrow; above grief
१३९२, ९४.
- शोकान्तर free from sorrow; above grief
१२०९.
- शोचिष्केश flame-haired; having flaming
locks १७१.
- शोचिस् splendour; beauty; shining; bri-
lliant ९, ७०, ३६०.
- शोणित blood १६५३.
- शोभा splendour; beauty; grandeur ३५१.

- शौद्र relating to or b
१०३७.
- शौनक name of a teach
१३४८, १४४३.
- शौनक-कापेय name of
Kapi Gotra १३५५.
- शौरवीर son of शूरवीर [
as शूरवीर] ६८३, ८४,
शौल्बायन patronymic
८४.
- शौव name of a partic
श्रोतत् dripping with
शुष्टि a small meas
(comm. प्रस्तुति =flo
श्मशान cremation grou
श्मश्रु beard; moustacl
१३५७, ६९.
- श्याम dark; black; g
३७८, ४३६, ९८२, १३०
- श्यामजयन्त-लौहित्य name
श्यामसुजयन्त-लौहित्य name
श्यामाक name of a kin
२६१, ८१५.
- श्यामाकतण्डुल a kind of
श्यावदत् having dark o
४८६.
- श्यावाश्व name of a ऋषि
श्येत white; bright (co
६५४, ९८३, १३३७.
- श्येन a hawk; falcon; e
७२, ४३४, ६९, ५९१,
४५.
- श्येनी white; bright ३९
- श्येत name of a par
६३६.

१६, ५०, ८५८, ९४१, १०५०, ११७४, १२९५, १८, १३३५, ५८, ८७, ८९, १४५२, ५८, ९०, ९४, १५११, १६, १६४७, ४८, ४९, ५१, ६३.

देय who gives (alms etc.) with faith ८२२.

भक्तियोग practice of faith; devotion and meditation १६७३.

मनस् true-hearted; faithful १९३, ५०१.

वित्त rich in or possessed of faith or belief; faithful; believing ६९१.

व्यवहार to be believed; credible [comm. श्रद्धावत्येन लभ्य i. e. which can be attained through faith and effort] २३८.

श्रम exertion; fatigue; labour; austerity २४८, ९०, ९६, ३२८, ४२, ४९, ४२२, ३३, ५८, १३५५, ७२.

मनसा a mendicant; an ascetic १२१०. शिव sound [a name of god *Śiva*] १४२, ३०.

श्रवण hearing; statement in a Vedic text १००, ९८०, १०९२, १४००.

शुभ्रगुणयोग conjunction of the thumb and the ear १६६२.

श्रुत to be heard; worth hearing ७५२, ३४८, ५०.

श्रुतव्य causing to hear i. e. making oneself heard (or famous) ५१.

श्रुतव्य ear; fame ५७, ६५, ३६३.

श्रुतव्य glorious; famous ५७.

श्रुतव्य seeking fame or glory; willing to praise (comm. seeking food i. e. causing abundance of food) ४७५.

श्रुतव्य (upto) the first half of the

श्रान्त fatigued; exhausted; who has exerted himself २९२, ९३, ९५, ३०३, ०४, ०५.

श्रान्तसद् lying down wearied २८०.

श्राम्यत् toiling; performing austerities २९९, ४६४.

श्राम्यन्ती toiling; performing austerities ३००.

श्रावित that which is proclaimed १३०३.

श्रित resorting to; resting on २९२.

श्री grandeur; glory; prosperity ८, १३, ११९, २०२, ५५, ७०, ९१, ९२, ३१४, ४४४, ७४, ९९, ५००, ०१, १०, १५, १८, १९, २०, ३३, ६२६, ३६, ४५, ९५, ७०४, ८०३, ०४, १०८५, १२८१, १३०६, ३१, ३४, ३५, ४१, ४२, ४३, ४४, ४६, ५१, ५५, ५८, ५९, ७१, ८६, १५००, ७४, १६३१, ३२, ४४, ४७, ५३.

श्रीकाम desirous of glory or prosperity १३५९.

श्रीमत् glorious; prosperous ८०४, १३४१, ४३, ४५, १६६६.

श्रीमत्तम most glorious ६४५.

श्रुत heard; stated in Vedic texts; an epithet of *Śiva*; Vedic learning; hearing ७७, ७८, १२७, ४२, ४६, २३८, ४२७, ५१, ५०१, ०२, ०३, ८५, ९६, ६२६, ९५, ८०५, ३४, ८३, ९२७, १२६१, १३६२, ७६, १४०७, ८२, १५०६, १६३५.

श्रुतसेन whose army or missiles are well known (an epithet of *Śiva*) १४२.

श्रुति *Veda*; Vedic text ४४९, ५२४, ८०५, ११३३, १२१४, १३४१.

श्रुतकर्ण one who has hearing ears; quick to hear २१.

- ६६, ३१७, ३७, ३८, ४०६, १९, ५३, ६६,
६९५, ७०४, ८४७, ५१, १०२१, ३६, १३३१,
४६, ४८, ५४, ५८, ९८, १४५१, १६५७.
- श्रेयोरूप a superior form १०३६, ३८.
- श्रेष्ठ the best; most superior; most aus-
picious ९८, १५४, २१७, ६६, ३०५, ३१,
४८९, ५२४, ६२६, २७, ५०, ८३, ८४९, ५१,
५४, ५५, १००९, ५७, ६१, १२८५, ८६, १३०२,
३३, ५४, ७१, ८६, १४०५, १६४१, ७७.
- श्रेष्ठता the highest superiority १३७१.
- श्रेष्ठिन् the lord of a house or family
६८१, ८२.
- श्रेष्ठ्यव superiority; pre-eminence २५, ३३१,
४७१, ६४५, ७८, ८२, ८५४, १२७९, १३५६,
५७, ७१.
- श्रोण lame; cripple ५१.
- श्रोणी (णि) the hip and loins; buttocks
३०, २४४, ३१४, ४३४.
- श्रोतव्य to be heard; worth hearing ६९१,
१०९२, १२६१, १५०८.
- श्रोतृ the hearer; one who hears ६१८,
७०, ८९, ११३३, ५४, ६५, १२१४, १५०८,
१६५९, ६०.
- श्रोत्र ear; auricle ११६, ६८, २०२, ३३, ४८,
६०, ९७, ३०७, ०८, १२, १३, १४, १७, १८,
२१, २२, २९, ३०, ३१, ३६, ४७, ४०३, ०४,
२६, ३५, ४९, ७२, ५१३, १९, २२, ३३, ३४,
४०, ४१, ६१, ७५, ८१, ८३, ८४, ८५, ६१०,
१२, २१, ३८, ४१, ४२, ४३, ५१, ५२, ५५,
५९, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ८०, ८४,
९०, ९१, ७०१, ३५, ५२, ६३, ७७, ८१, ८०४,
१९, २०, २८, ३३, ५०, ५१, ५२, ५९, ८१,
९८०, १००४, ०८, २२, ४२, ७४, ९७, ११२३,
३५, ५३, ७१, ८५, १२४४, ६१, ८६, ८८, ८९,
९७, १३०२, ३२, ३४, ३६, ३८, ४०, ४१, ४२,
४३, ४८, ४९, ५०, ५३, ५३, ५४, ५५, ५६,
६२, ७०, ७३, ७४, ७६, ८६, ८७, १४५६, ९७,
९८, ९९, १५०१, ०८, ७३, १६४०, ४७, ४९,
५१, ६४.
- श्रोत्रचित् accumulated by hearing ३३१.
- श्रोत्रपति the lord of hearing ६९९.
- श्रोत्रमय consisting in hearing; whose
nature or quality is hearing ३२१,
४०३, ०४, ६१०, १४, ८७, ८८, १२२९, १३३८.
- श्रोत्रवत् possessed of श्रोत्र ३३०.
- श्रोत्रापेत deaf; destitute of hearing ६६४.
- श्रोत्रिय learned in the *Veda*; a *Brāhmana*
versed in the *Veda* २४५, ४७४, ७२८,
१२१६, ८९, १३०७, ४३, ५१; १४५२, ८८,
१६८१.
- श्रोत्र relating to the ear ११०६, ७१.
- श्लक्ष्ण smooth; polished; even ७८५.
- श्लेष्मण phlegmatic; slimy ११५.
- श्लेष्मन् phlegm; mucus ५६१, १३६०, १६५३.
- श्लोक a verse; fame; glory ३८, ९९, १११,
१३, १६, ३०५, ४१८, ६७, ७१, ५१९, २३,
७४, ६३८, ७०६, १४, १५, १७, १८, २०, २५,
२८, ८४, ९८, ८५५, ६९, ८१, ९५०, ६८,
१०२२, ४६, ६३, ८१, ९६, ११७८, ८२,
१२००, ३१, ३६, ३८, ६१, १३४७, ५८, ६०,
१४९४, १५०४, ०९, ११, १७, १६६४.
- श्लोककृत् a fame-maker ७४०.
- श्लोक्य praiseworthy; worthy of a श्लोक
१४२.
- श्वर्षी a gambler; a dog-killer ४६.
- श्वत् a dog १२८, ३०, ३३, ४१, ३३१, ५७, ७८,
४५७, ७७२, ८५२, ११७६, १२८९.
- श्वनि a dog-keeper १४१.
- श्वपति the master of dogs १४१.
- श्वभ्र a ditch; chasm; a hole ७७९.
- श्वयोनि the life of dogs ८६७.
- श्वशुर a father-in-law ३४८.
- श्वश्रू a mother-in-law ४८३.
- श्वस् tomorrow ३२६.
- श्वस्तन of or pertaining to tomorrow
५५९.
- श्वजनि name of a person १३५६.
- श्वान् quickly (comm.); strong; invigo-
rating; savoury १००.

श्वापद beast; [beast of prey ४१४, ९२९, ३३, ३५, १०४१.
 श्वित्यच् whitish १२६.
 श्वित्र white leprosy ४०२.
 श्वेत white; bright; brilliant ६६, ८२, ८३, १३३, २७१, ७२, ७७२, १६४७.
 श्वेतकेतु name of a pupil ६२७, ८५५, ८२, ८३, ९०४, १३, १७ १८, १९, २०, २१, २३, २४, १२९०, १६७१.
 श्वेतवर्ण of white complexion; white ५२४.
 श्वेतवर्णा white-coloured १६४४.
 श्वेताश्व name of a teacher १३६८.
 श्वेताश्वतर name of a teacher १६२६.
 श्वोभाव tomorrow's state of affairs १३९७.
 श्वोवस्यस bestowing future welfare २९०.
 षकार the letter or sound ष ६२३, ८९, ९०.
 षट्कुक्षि six-bellied १६४४.
 षट्त्रिंशदक्षरा having thirty-six syllables ३५.
 षट्पद् six-footed १७१.
 षट्पदा consisting of six divisions ३४८.
 षट्पुत्र having six sons १३५०.
 षडङ्गविद् versed in the six auxiliary sciences ५२४.
 षडर-षडर having six spokes २१०, १४९४.
 षडह a period of six days १६२.
 षड्डुयाम provided with six ropes or traces ३१८.
 षट्च a collection of six verses ३०५.
 षड्ढोत् relating to six ढोत्सु; name of the verses २६९.
 षड्नात्र six nights; a festival lasting six days ४४७.
 षड्विधाना forming an order or series of six ८१.
 षण्मास a period of six months ४००.
 षण्मुख having six mouths or faces; name of *Skanda* or *Kartikeya* १६३२.
 षष्ठ्य a sixth part; gaut ४६९.

षोडशकल having sixteen parts or digits ९०२, १०५५, ५६, १३६६, ६७, ८७, १५१४.
 षोडशान्त with sixteen end-parts i. e. the five ज्ञानेन्द्रिय, the five कर्मेन्द्रिय, the mind and the five elements १५७७.
 षोडशिन a *Stotra* consisting of sixteen parts; a kind of *Soma* vessel २०१, ५६, ३०५, ४४७, १६३२, ६५.
 संयत fettered; controlled ४६६, १३५९.
 संयद्दसु having continuous wealth १७५.
 संयद्दाम uniting all that is pleasant or dear ८३९.
 संयुक्त conjoined; united; combined १५८०.
 संयुज् to join; combined; to form an alliance or league together ८३.
 संयोग combination; alliance; joining together ५२३, ३५, १५७४.
 संयोगनिमित्तहेतु the efficient cause of combinations १६१८.
 संयोगहेतु cause of union १६१६.
 संरब्ध confused ७७२.
 संराग taking delight; enjoying २०१, ५६, ३५९.
 संराधनि conciliating; satisfying १३०१.
 संलय merging; absorption; destruction १२०६.
 संवत्सर year ३६, ३७, ११८, ६३, ८०, २०२, २४, ४५, ४६, ६६, ७९, ९६, ९७, ९८, ३००, ४०१, ०४, २५, ४८, ५०, ५६, ६०, ६९, ७२, ८६, ५१४, १७, १८, ६०५, १०, १३, २३, ३७, ८६, ८७, ८८, ९१, ७८३, ८२१, ४०, ५१, ५९, ६१, ६३, ९८७, ९५, ९९, १०४७, ५५, ५६, ११६८, १२८८, ५६, १३४०, ४३, ४४, ६२, ६६, ७२, ११४५७, ९०, ९३, १६३०, ३३, ५१, ५२, ६१, ६४.
 संवत्सरशस् year by year; every year ४०५.
 संवत्सरसमान equal to the year ६१४, ८७.
 संवनन winning; propitiating ४८१, १६६०.
 संवर्ग absorbant; the ultimate absorbing principle; ultimatum; merger ६४६, ८२४, २८, १३०३.

- संवर्तक rolling up; destroying १६७१, ८२.
 संविद् consciousness; perception; know-
 ledge २०, ४७४, ७०४.
 संविदान perceiving; knowing १२४, ३१,
 ६९, ४६, ४७, ७२, ७३, ३८९, ४१५, ५०९, १०,
 १०८१, १३६८.
 संवृज् hewing; cutting ४५.
 संवृत covered ६२७.
 संवृद्धयुपेत prosperous; growing; full
 grown or developed १६५६.
 संवेश approaching; entrance १३७०.
 संवेशन lying down; sleeping ३६१, ४१५.
 संशित whetted; sharpened; well-pre-
 pared ११९, २५२, ५०७, ११.
 संशिशान sharpening ३४३.
 संश्रावयित् proclaimer; announcer ६४०.
 संसद् assembly ६२१, १३५३.
 संसव a sacrificial assembly or hall;
 simultaneous सोम sacrifice १३३२.
 संसार transmigration; transmigratory
 existence १४१३, १६५३, ५४, ६४.
 संसारचक्र the wheel of transmigration;
 the world compared to a wheel १६६३.
 संसारमहाभय the great fear or danger in
 the form of संसार १६७९.
 संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु cause of bondage;
 release and transmigration १६२५.
 संसारार्णवनाशन destroyer of the ocean of
 संसार १६७६.
 संसिच् pouring; shedding together ३१०.
 संसृष्ट mingled; gathered together ३४४.
 संस्कार impression; mark ४७१.
 संस्कृत consecrated; acted upon; impres-
 sed ५२४.
 संस्तव praise; eulogy ११८७.
 संस्तुत eulogized; praised १३६९.
 संस्थ being in; existing on or in ४६३.
 संस्था station; position; standing ११४,
 १३३५, ६०.
 संस्थान standing existence; being ६३३,
 ३६.
 संस्थानाध्यायिन् meditating on संस्थान ५२३.
 संस्थित finished; dead ३९६, ४७०.
 संस्थिति completion; death १६५७, ६५.
 संस्पर्श contact; mixing up ४०४, ६४३,
 ८०५, १३८७, १६६२.
 संस्पृष्ट touched; connected; mixed; com-
 bined ६७४.
 संस्रव dregs १३०२.
 संसृत compact; put together ५९८, १४६२.
 संसृनु striking the jaws together ३७९.
 संसृहित combined; put together; joined
 १७३, ७५, ३१०, १६, ५०९, ६८७.
 संसृहिता combination; conjunction; con-
 nection ५९७, ९८, ६००, ०३, ०४, ०५, ०६,
 ०७, ०८, १४, २३, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७,
 ८९, ९०, ९४.
 सकल full; complete १६६०.
 सकल्प along with the sacrificial ritual
 ४७१.
 सकृदावर्तिन् returning only once ८६९.
 सकृद्विद्युत् flashing or gleaming once
 १०८५.
 सकृद्भिमात् shining once; appeared at once
 ९६४.
 सक्त attached; joined; connected १२३१,
 १६५६, ६३.
 सक्तु oat ४९०.
 सक्थि thigh ४३५, ९९४.
 सखि a friend ७, ४४, ५४, ५९, ६८, ७८, ७९,
 ८६, ८७, १०३, २३, ६१, ८५, २१३, ४४, ३४१,
 ५५, ४७६, ८३, ८४, ९०, ९१, ९२, ६१६, ८८,
 ९५९, १४६८, १६०४.
 सखिलोक the world of friends ९५९.
 सखिलोककाम desirous of the world of
 friends ९५९.
 सखीयत् behaves like a friend; becomes
 friendly १८.

- सख्य friendship १७, ५९, ६०, १००, ६२, ६९, ४२९, ९०, ९४, ६५०.
- सगण accompanied by a host or a group २४, १६३३.
- सगर accompanied by praise; swallowing ६२.
- संकल्प thought; intention; idea ३०७, १२, ४५१, ५९३, ६५९, ९३०, ३१, ५७, ५९, १०५०, ९७, १२६१, १३८३, १६१४, ४७, ५७, ६०, ६३.
- संकल्पजूति urged or impelled by desires ३३७.
- संकल्पन meditation; thinking; thought १६१५.
- संकल्पनीय to be thought; to be meditated ७५२.
- संकल्पात्मक consisting of will or volition; having the nature of mental resolve ९३०.
- संकल्पाध्यवसायाभिमानलिङ्ग having volition; determination and egoism as indicatory marks १६५४, ५७.
- संकल्पैकायन having conception as union-point ९३०.
- संकुसुक crumbling up; splitting (applied to अग्नि as the destroyer of the body) ३७९.
- संक्षर flowing together ११६.
- संक्षरित flowing; trickling २९३, ९४, ९५.
- संख्यात counted (i. e. fully known) ८५.
- संगच्छमाना flowing together; combining; joining १२२.
- संगत intercourse १३९०.
- संगति company; contact १६७९.
- संगम meeting; contact; conjunction १३५, ४८२, ८६.
- संगमन gathering together; gatherer २५१, ३५६, ९०.
- संगमनी gatherer २३७.
- संगममात्री consisting of absolute union ५२४.
- संगर promise; declaration ३७२, ४७१.
- संगव the time when grazing cows are collected for milking or when they are together with their calves ४७४.
- संगवकाल the time when cows are collected for milking १३७०.
- संगववेला the time when cows are collected for milking ७७९.
- संग्रहीतृ a charioteer १४१, ५७५, १३५७.
- संग्राम battle-field ५०९.
- संघात combination; mixture १६५३.
- सचमान following; connected with; accompanying ४७६.
- सचराचर including everything moveable and immoveable ३३६.
- सचाभू a constant companion; friend; associate ४७६.
- सचारकविधम् according to the corresponding course (of the sun through the asterisms) १६६०.
- सचिविद् familiar; intimate; belonging together ४९१, ६१६, ८८.
- सजात a kinsman; countryman; related १६९, १३४३, ४४.
- सजातवनस्या desire of dominion over kindred or countrymen १३६९.
- सजातशंस a curse uttered by one's relatives ४८७.
- सजाता related ३९८.
- सजात्य brotherhood; relationship ६.
- सजुष् a companion; friend ३८२.
- सजोषस् of the same mind or thought; a companion together २४, ९९, ११८२, ८३, ३४२, ६९, ५०४, १६३३.
- संचक्षण reflecting on; counting; examining १३४३.
- संचर variable ७७३.

संचरणी (the path) which is followed ११८७.	सत्त्वान्तरस्थ standing or residing inside beings १६६६.
संचारकविध according to the correspon- ding course (of the sun through the asterisms) १६६०.	सत्पति mighty lord; leader; champion ६, २४, ९९, १२७, १४९९.
संचित full-grown; fostered १६८०.	सत्प्रतिष्ठा having being as their support ९०७, ०९.
संचृत illuminated; bright; union or meeting ७०.	सत्य the truth; the truthful; actual; real; name of the upper most world; vero- city; truthfulness; one of the 7 व्याहृति ४, १७, २६, ४४, ४८, ५७, ५९, ७८, ८६, ९६, ११९, २३, ५१, ५६, ५७, ७०, २००, ४४, ४५, ४६, ४८, ५०, ५२, ६१, ७९, ८२, ३११, १५, १७, ३२, ४०, ४७, ५१, ५४, ५९, ६९, ४१६, १८, १९, ३०, ४१, ४२, ४८, ५०, ५२, ६१, ६२, ६६, ६७, ७६, ९६, ९८, ५०१, ०६, ०७, २०, २२, २५, ३५, ६७, ६८, ६९, ७४, ९६, ६२६, ३१, ३८, ५६, ५९, ७८, ८३, ८६, ९१, ९३, ७०२, ०४, ०६, १७, २०, ५२, ९८, ८३१, ८५, ८६, ८७, ९७, ९८, ९१३, १७, १८, १९, २०, २१, २३, २४, २९, ३३, ३९, ४०, ५५, ५७, ५९, ६०, १०३८, ६६, ८६, ११०७, ७१, ७५, ८४, १२७१, ७२, ७३, ७४, ८१, ८२, ८४, ९८, १३२५, ३१, ३२, ३३, ४०, ४८, ५०, ६१, ६३, ७९, ८४, ८७, १४४७, ४८, ५३, ५८, ६०, ७७, ७८, ८९, ९६, ९९, १५७४, ८४, १६३०, ३३, ३५, ४०, ४१, ४३, ४४, ४८, ४९, ५०, ५८, ५९, ६४, ६५, ६७, ७७, ७८, ८१, ८३.
संज्ञान being of one accord ४८०, ५०५.	
संज्ञिहान leaving one's bed; waking up ७६९, ८२४, ७३.	
संज्ञा sign; name; consciousness १०९८, ११००, १२६३.	
संज्ञान consciousness; unanimity; har- mony ४८०, ८२, ५०६, ९३.	
सणकार together with the letter or sound ण ६२३, ८९.	
सत् being; existing; lasting; enduring; real; actual; true; honest; that which exists; the self-existent; universal spirit; ब्रह्मन् ६, ५१, ६५, ६९, ८२, ११०, २०, ५८, ९७, २२७, ३५, ३९, ४१, ४७, ५८, ७४, ७५, ७६, ३०९, १८, १९, ३३, ५४, ४१८, ४४, ५९, ८३, ५३५, ७२०, २५, ८२१, ८७, ९०, ९०४, ०७, ०९, १६, १८, ६२, ७७, १०१४, ८२, ८३, ८५, १२४१, १३८७, १४४७, ९८, १५०६, ७४, १६०९, ३२, ४९, ७३.	
सततु embodied १३५५, ७०.	
सतस्य accompanied by music १३९७.	
सत्तम the best ७७९.	
सत्त्व heart; thought; being; existence; the quality of purity or goodness (a constituent of प्रकृति) १४३५, १५९७, १६५६, ५७, ६६, ७०.	
सत्त्वशुद्धि purification of heart; nature or disposition ९५०.	
सत्त्वस्थ standing or residing in सत्त्वs or beings; energetic १६६३.	सत्यकाम name of a sage; truth-loving; lover of truth ८३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ९५५, ६९, ७०, ११८५, १३०४, १४४८, १५०९, १०, १६५८, ६६, ६७.
	सत्यकामतस् out of lover for truth १६६४.
	सत्यकाम-शैब्य name of a teacher १४९०.
	सत्यता truth; truthfulness; reality; vali- dity ११८४.
	सत्यत्व reality; truth ५३५.
	सत्यधर्मन् having truth for an abode; adhering to the truth १२०, ९७, २५१, ४८४, १२८४, १३२५, १६६५.

- सत्यधृति sincere in purpose २६१, १४०१.
 सत्यपूत purified by truth १६८१.
 सत्यप्रसव one whose inspiration is true
 ४५०, १३०८.
 सत्यभूय trueness; truth १२७२.
 सत्यमति having true thoughts ५०१.
 सत्यमय truthful; consisting of truth
 ३४७.
 सत्ययज्ञ name of a man ३८, ४०, ८७१, ७४.
 सत्ययज्ञ-पौलुषि name of a teacher १३४१.
 सत्ययज्ञ-पौलुषि-प्राचीनयोग्य name of a teacher
 १३६७.
 सत्ययोनि having a real or fixed abode
 ६८.
 सत्यराजन् a true or perpetual king २०१.
 सत्यराधस् truly beneficent १८२.
 सत्यवचन the speaking of truth ८१६.
 सत्यवचस् name of a man ७०२.
 सत्यवह-भारद्वाज name of a teacher १४४३.
 सत्यवान् truth-speaking; veracious ११,
 ६२६.
 सत्यवादिन् speaking the truth; truthful
 ८५, ३२४.
 सत्यशुभम् truly valient २.
 सत्यश्रवस्-लौहित्य name of a teacher १३६७.
 सत्यसंहिता true to one's agreement or
 promise; truthful ६८६.
 सत्यसंकल्प true in purpose or resolve;
 one whose purpose is fulfilled २६१,
 ८०९, ९५५, ६९, ७०, १६५५, ६७.
 सत्यसंध keeping one's agreement or pro-
 mise; truthful ६८६.
 सत्यसव one whose orders are true or
 valid ९९, १२०, ४५९.
 सत्यात्मन् a virtuous or upright man ६९९.
 सत्याधिवाक्-चैत्ररथि name of a teacher
 १३४१.
 सत्यानुतोपभोगार्थ for enjoying or experi-
 encing the true and the false १६६८.
 सत्याभिसंध truth-speaking; faithful to
 one's word ९२४.
 सत्योक्ति true speech ४१८.
 सत्यौजस् truly mighty ४५९.
 सत्र sacrificial session; sacrifice २३,
 ४०१, ४६, ६१, ६२, ६३, ७२, ५०८, १३७२,
 १६५२.
 सत्रसद् a companion at सत्र ३१५.
 सत्रसद्य companionship at a सत्र ४७४.
 सत्रा indeed; throughout; always ५७.
 सत्राच् going together; united ९१.
 सत्राजित् always victorious ५९.
 सत्रायण a long course of sacrifices ९६५.
 सद् dwelling in; covering १३४६.
 सद the abode of sacrifice; sacrificial
 hall; a seat २७७, ३३२, ४५९, ७३.
 सदन abode १२४.
 सदम् always ७८, ४९४, १६११.
 सदश्च having good steeds १४१३.
 सदस् assembly; hall ६७, ८३, १२४, ५०८.
 सदसत्फलमय yielding good or bad fruit
 १६५६.
 सदसद्योनि good or bad births १६५५.
 सदसद्वरेण्य above सत् and असत् २४९, १४५९.
 सदसद्विहीन above सत् and असत् १६७६.
 सदसस्पति the lord of the assembly ५०१,
 १६३१.
 सदस्य a member of the assembly ४६०,
 ६१, ६२, ७२.
 सदाम together with a band or ligament
 १०७९.
 सदायतना having their abode in the सत्;
 resting in सत् (i. e. the ultimate
 reality) ९०७, ०९.
 सदावृध always delighting ५२५.
 संदाशिव always benevolent (god शिव)
 १६४१.
 सदेव accompanied by or protected by
 god ५२०, ११७३.

- सद्ध्यायिन् meditating on the सत् १६६३.
 सद्ब्रह्मन् true ब्रह्मन् १६६३.
 सङ्घन् a hall; assembly; seat ५२, १२२, ९९,
 १४०३.
 सद्यःक्री a particular एकाह sacrifice ४४६.
 सद्यजिन् sacrificing what is true १६६३.
 सद्योजात just born; newly born ३३२,
 १६४१.
 सद्वादिन् true-speaking; truthful १६६३.
 सधमाद a festival; enjoying in company;
 drinking together १०३, ३५७, ७५, ९५,
 ९८, ४१९.
 सधमाद्य enjoying in company; a festival
 १३८६.
 सधस्थ companion; friend standing to-
 gether २२, ८८, ८९, १००, ७०, ३७५, ७६,
 ८९, ४१५, ३०, ८९, ५०७, १६३४.
 सध्री to the same goal or centre ४९.
 सध्रीचो turned in the same direction;
 associated; converging १०६, ७३,
 २२०, ५०, ५३७, १३६६.
 सन gain; acquisition १९१, २५०.
 सनग name of a teacher १११४, १२६६.
 सनत्कुमार name of a sage; one of the sons
 of ब्रह्मा ९२५, १६८२.
 सना from of old; always; forever १२४.
 सनात् from of old; always; forever
 २११, १६३४
 सनातन eternal; perpetual; ancient २५०,
 ११२४, १२६६, १४२०, २८, ३३, १६६४, ७५.
 सनात्कुमार (=सनत्कुमार) name of a son of
 ब्रह्मा ९५०.
 सनाभि having the same nave or centre;
 uterine brother or sister २११.
 सनारु name of a teacher १११४, १२६६.
 सनि winning; bestower; acquisition;
 gift; reward ३२८, ५०१, ११०९, १६३१.
 सनिष्यत् winning or bestowing (trea-
 sures) ९१.
 सनिष्यन्ती winning; bestowing (trea-
 sures) ३५०.
 सनीड having the same nest; akin; kin-
 dred ३८७.
 सनेमि having the same felly; complete;
 perfect २११.
 संतत stretched out; continuous; exten-
 ded ३४७, ४२१, ६७, ६८, ६४४, १४४८,
 १५००.
 संतति continuity; continued existence
 ५९०.
 संतप्त heated २८६, ३०३, ०५, १३४४, ६०.
 संतस्थान standing firmly together १९३.
 संतान combination ६९४.
 संतृष्ण held together ७८९, १३३३.
 संतोष satisfaction; pleasure १६६३.
 सन्त्य bestowing gifts; bountiful १७.
 संदित bound; tied १६४३.
 संदीप्त the flame; flaming १३०३.
 संदृढ्य tied together ११४६, ४८.
 संदृश् look; care; observation; view;
 sight ८, ५१, १२५, २९, ८६, ३६६, ७७,
 ५०७, १५, २५, ६२७, ८३, १६१०.
 संदेघ conglomeration (of material ele-
 ments) ३२१.
 संदेह conglomeration or agglutination
 of material elements ८७५, ७९.
 संदेह्य the body १२४१.
 संद्रवन्ती melting १३३७.
 संघनाजित् victorious in battles १७०.
 संधा conjunction; combination; union
 ३३२, ६५७.
 संधातृ one who puts together or joins
 ५९९, ६८४, १६५१.
 संधान joining; uniting; putting together
 ६०८, ८६, ९४.
 संधि combination; union; joining; put-
 ting together; transition from one
 to the other; agreement; contract;
 boundary line; joint ३३, २४४, ९०,

- ५९९, ६०१, ०३, ११, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ९४, ७५५, १३९३, १६७९.
- संघिविज्ञ(ज्ञा)पनी by which combination is perceived ६०४, ८५.
- संघीयमाना being put together ६१४.
- संघ्य intermediate ११९७.
- संघ्यक्षर a diphthong ५२३.
- संघ्या union; junction; juncture १६६९.
- संघ्याविद्या the knowledge of the संघ्या १६४४.
- संनति favour; submission or subjection; bending down ४४७, ५१४.
- संनद्ध armed; mailed; harnessed २२२.
- संनय who brings together or unites १९२.
- संनिरुद्ध obstructed १६०५.
- संनिविष्ट seated down; contained in; resting in १४४०, १५९७, १६०९, २४, ५९.
- संनिहित placed; kept १४५९.
- सन्मूला having सन् for its root ९०७, ०९.
- संन्यास renouncing; abandonment; renunciation १६६९, ७१.
- संन्यासयोग the practice of renunciation १४८४, १६३६, ७३.
- संन्यासिन् a recluse; one who renounces or abandons (worldly pleasures) १६६०, ७१.
- सपत्न a foe; a rival १५१, ६९, ३३९, ४०, ४८, ४२८, ६४, ५०८, ७४०, १६५०.
- सपत्नहन् destroyer of foes or rivals ३३९, ८५.
- सपत्नातिव्याधिन् piercing or overpowering foes ११५७.
- सपरिश्रय with an enclosure १३०९.
- सपात्र together with the vessels ६५४.
- सपुरश्चरण together with preparations १५४.
- सपुरुष together with men or followers ४७०, ७१.
- सप्तचक्र having seven wheels २०७, १०, १४९४.
- सप्ततन्तु having seven threads; consisting of 7 parts ३०५.
- सप्तनामन् having seven names १७३, २०७, ७१.
- सप्तपद् making seven steps ८६.
- सप्तपुत्र having seven sons or children २०६, १३५१.
- सप्तपुरुष seven generations २९१, ९२.
- सप्तयोनि having seven sources २४.
- सप्तरश्म having seven rays or reins or tongues ४७, ६८, १७५, १३३७, ३८.
- सप्तरात्र name of a particular sacrifice ४४७.
- सप्तर्च a group of seven ऋक्स ३०५.
- सप्तर्षि-सप्तऋषि seven sages or ऋषिः २४, १६४, ८६, ४२८, ३३, ३५, ४०, ५१, ५५, ५०१, ०३, १२, १३८७.
- सप्तस्वस्र having seven sisters ८२.
- सप्तहोत्र having seven sacrificial priests २७०, ३३५, १५७३.
- सप्ताङ्ग consisting of seven parts or limbs १५२१, २२.
- सप्तार्चिस्-सप्तर्चिस् having seven flames (fire) १४५८, १५०१, १६३५.
- सप्ति horse ५१४.
- सप्त्य race-course; riding ground for horses ८३.
- सप्तत्याधान together with (its) repository १०७९.
- सप्रथ wide; extensive ५२५.
- सप्रथस् wide; extensive २३.
- सत्राण living; having life; animate ६२६, १६४४.
- सबन्धु having friends or relatives ३८५, ९८.
- सबल powerful; strong १७३, ६२६.
- सबाह्याभ्यन्तर (one) who is without and within १४५४.
- सब्रह्मचारिन् a fellow-student १३५७.

सभा assembly; court; assemblage; audience hall १४०, ६३, २५२, ४५३, ८४, ५०९, ९८३, १३५३.	समया near; close to; closely ४२८, १३३१.
सभाग who has gone to the audience-hall (=सभागत) who is honoured by others (पूज्यमानोऽन्यैः) ३२८, ८५७.	समर meeting; concourse; war; sacrifice १४.
सभापति president; the chief of an assembly (used as an epithet of the रुद्रs) १४०.	समर्पित bestowed; given; fixed into; fastened ९३७, ११०८, १४५९.
सभासद् a member of an assembly २५२.	समष्टि microcosm; totality ११३०.
सभासाह one who overpowers or wins an assembly ४९२.	समस्त put together; collected; all; in totality ७७३, ७८, ९६७, ७६, १६८२.
सभूमि together with land ४७१.	समस्तसाक्षि the witness of all १६७३, ७६.
सभेय a member of an assembly ५१४.	समा year १२७६, १३१४, १९, ४७.
सभ्य a member of an assembly १६३.	समाकृत well brought up ३४४.
सम equal; like; similar; even ६१, ८२, ४०४, ६९, ७७, ५०६, ७८०, १०११, ५४, ६५, १२८६, १३३३, ४३, ८६, ८७, १५०१, ०६, ८७, ८८, १६२०, ७१, ७७.	समागम contact; union १६६८.
समक्षता vicinity (one of the four kinds of liberation; the other three being सायुज्य,सलोकता, and सहरता) ६८७, ८८.	समाज्ञा recognition (of ब्रह्मन् as food) ७४०.
समग्रीवशिरःशरीर with ones head, neck and body straight or erect १६७३.	समाधि meditation; concentration १६६१, ६५.
समङ्ग whole; possessed of all parts; complete ३९५.	समान similar; equal; name of one of the five vital airs in the body (प्राणs) ४१, ४६, ४९, ७९, १०९, १७, २४, ५३, ५४, ६१, ७०, २१३, २९, ४५, ८२, ३८५, ४०३, ५२, ५६, ६६, ७८, ८०, ५०७, ३०, ५७, ६१, ९८, ६८४, ७०१, ५५, ८०५, ८१, १०५०, ११७६, ९२, १३४३, ४५, ५०, ५१, ८६, १४६८, ७०, १५०१, ०२, ०६, २८, १६०४, ०५, ४४, ४७, ४८, ४९, ५४, ५९, ६४, ६६.
समतिष्ठ permitted; allowed ७७०.	समानजन्मन् springing up simultaneously १६२.
समद् war; battle ४५, २३८.	समानबुद्ध of one thought १३६८.
समधित्सिषत् desiring to uphold or sustain ६०२.	समानमस् name of a teacher १३११.
समन sacrifice ७३.	समानलोकता being in the same world or place (=सलोकता) १६४०.
समनस् of one mind; well-disposed १२, ८२.	समापयितव्य to be finished or done or executed ६५५.
समनुप्रविष्ट entered १६२९.	समाप्ति end; accomplishment ४४९, १३४३, ४४.
समन्त adjacent; existing nearly or in the vicinity ३७०.	समाप्य that can or should be very well attained ४३७.
समन्वित endowed with; possessed of; coupled with १६१४.	समाभूत well offered १५८.
समभ्याददान taking over; who has taken over; who has well grasped १२२३.	समारत ceased; stopped ७६९.

समावर्तमान returning; turning on his downward course १३७०.
समावर्तयत् allowing (pupils) to return home (after completion of studies) ८३४.
समावर्ति moves in a circle; returns २५.
समाविष्ट occupied; pervaded १८०.
समाश्रित resorted to १६४९.
समास compound; combination ८९९.
समासक्त thoroughly or intensely attached १६६४.
समासम् having shoven ९३८.
समाहित well composed; well placed or deposited; concentrated २४७, ५९, ४३२, ४४, ४६, ६१०, ८७, ९५४, ५५, ११८६, १२५५, १६६३, ६५.
समिति an assembly; a sacrificial session १६३, ३८९, ४५३, ८०, ५०९, ८५५.
समितिङ्गम a frequenter of council assemblies १३०८.
समित्पाणि taking or having sacred stick (समिध्) in the hand ३९, ६२९, ७८, ८७३, ९७०, ७४, ७५, ७६, १४५२, ९०.
समिथ war; battle; concourse ९२.
समिद्ध enkindled १२, १०१, ६९, २७४, ३९६, ४१९, २२, १३०५, ०७, १४४९.
समिध् sacred fuel or stick १८, २४, ३२, ३३, ३६, ३८, ३९, १६२, ६६, ७२, २१७, ३३, ५९, ३१२, ४०४, ०८, ०९, २२, २३, २४, ६९१, ८३१, ३३, ५८, ५९, ६०, १२९५, ९६, ९७, १४५७, ५८, १६३५, ५१.
समिधान blazing; being kindled १६९.
समीची going together; combined; mingled into one another १०३, १३३९.
समीचीन see समीची ७१.
समीरण wind; air १६६७, ६८.
समुत्थित arising from or out of १५८९.
समुद् joy; happiness ३७९.
समुदय combination १६५५.
समुदित talk; teaching; conversation ३२७.

समुद्र ocean; sea १८, २३, ५५, ५७, ६६, ७०, ७१, ७२, ७८, ८३, ८५, १०५, ३२, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ९५, २०४, २५, ३५, ३८, ४७, ६६, ७५, ७९, ८०, ८९, ३०३, ०४, १६, ३८, ४०, ४८, ६३, ४००, २२, २६, २९, ३०, ३५, ३७, ४१, ४४, ४७, ५३, ७१, ७२, ९८, ५०६, ६१, ६०७, ८६, ९१, ७७६, ८३, ८३२, ९१७, ९०, १०९७, ११३०, १२६१, १३३२, ३७, ४४, ६५, ६६, १४५८, ८६, १५१७, ७३, १६०१, २९, ३३, ३४, ३५, ४०.
समुद्रयोनि springing from the ocean २२.
समुद्रवेला ocean tide १६५६.
समुद्रसम resembling or like an ocean २५३.
समुद्रायण tending towards the ocean १५१७.
समुद्रिय the lord of the waters; belonging to the waters ७५, ८०.
समुद्रूढ fully grown up; well developed १३५५.
समुब्जित well closed; shut ३३, २४५, १६८१.
समूल together with the root ११७९, १५१४.
समृत together with ऋत (divine law) the sun (नाकेन समवेतः सूर्यः comm.) २४६.
समृद्ध prosperity; fullness; completeness ३३२, ४०६, ८५५, १२१६, १६६५.
समृद्धि prosperity; fullness; completion २४५, ४४८, ५००, १९, ७४९, ८५५.
समोत connected with; woven into ४२५.
संपद् attainment; prosperity or fulness २६७, ३३१, ८५०, ५२, ५४, १११८, १२१५, ८९, १३०२, ६३, ७०.
संपद्यमान being merged or sunk in १५०३.
संपन्न merged; sunk ५५४, ५९, ६५, ६७, ७१, ७५, ९०४, ५८, ५९, ६७, १०५४, १५११.
संपन्नतम best provided with ५५९, ६१, १२१६.
संपराय war; battle ४६३.

संपरिव्वक्त closely embraced १०१९, १२०७, ०९.	संमनस् of one accord ४२१, २३, ५०५.
संपरीवृता surrounded on all sides २४६.	संमर्शिन् competent to judge ७०४.
संपरेत departed ६१६, ८८.	संमातृ an able or efficient creator १६८, ७१, ४७७.
संपश्यन् perceiving well २५०, १६७५.	संमान measurement; number; extent ६१०.
संपात a residue; remnant ३३१, ३२, ८५४, ६४.	संमित measured or controlled by १५७३, १६४४.
संपुष्पित flowered; blooming १६३५.	संमूढत्व confusedness १६५५.
संप्रच्छन्न concealed; hidden ६५४.	संमोह delusion; confusion; wrong impression; confusedness ६६६, ७७, १२२३, १६५६, ६६.
संप्रतिविद् who knows well or the truth ५५७, ६३, ६९, ६३४.	संमोहमौलिन् he who has confusion as his crown १६६३.
संप्रतिष्ठा foundation; support; permanence १५७५.	सम्यक् properly; correctly; accurately १३४०.
संप्रतिष्ठिता established; founded १५०४.	सम्यक्प्रयुक्ता properly or accurately used or employed १५१३.
संप्रतिष्ठा transmission १०५८.	सम्यग्ज्ञान proper or correct knowledge १४७७.
संप्रदान transmission ६५४.	सम्यक् proper; well connected; good १३४०.
संप्रश्न asking; inquiring about; inquiry १०८, ८६.	सम्राज् emperor; suzerain; monarch ६७, ७५, ७७, ८४, ९९, १२१, ९९, ३१४, ४६७, ११८१, ८२, ८४, ८६, ८९, ९०, १२१५, १६, ५५, ८४, १५०१, १६४३, ५९.
संप्रसन्न serene ९६७, ७६.	सयुग्वत् possessed of a cart; help-mate; assistant; companion २७७, ८२३, २४, २५.
संप्रसाद the serene one (i. e. the soul in deep sleep) ९६१, ७९, १२०३, १६५४.	सयुज् companion; friend; assistant २८, १३१, २१३, ४६८, ६९, ८२३, २४, २५, १४६८, १६०४.
संप्रसूत born; emanated १४५७.	सयोनि a uterine brother; one who is from the same womb २१९, २३, ३४०, ५३, ७५, ५०५, ४२.
संप्रोत woven १३५६.	सरण running (of a race) ७५६.
संवाधतन्त्री affliction and exhaustion २४५.	सस्य together with chariots; companion fighting in or from the same chariot; a companion १९, ३३९, ४३, १३५७.
संबोधयित् enlightener १६५८.	सरस् flowing water (prob) ५१.
संभव continued existence; origin २६५, ५५९, ११७९, १३२४, १५९२.	
संभवत् uniting; uniting sexually १३४६, ४७, ४८.	
संभार equipment; provision; requisite collection of things ३०९, ४७३.	
संभाषमाण conversing ६४३.	
संभू to spring; to originate; come into being १३६१, ६३.	
संभूत originated; come into being ५८९, ६३७, ८६१, १३४९, ५८, १६३१.	
संभूति origination; birth; source (of origination) १३२३, २४, ४३, ४४, ५०, ६९.	
संभूत collected; brought together १९९, ३५१, ५८.	

- सरसु a reservoir of water; tank; lake
२५३, ९६५, १३३७.
- सरस tasty; juicy; fresh; pond; lake
१३३२, ६१, १६४७.
- सरस्य belonging to or pertaining to a
reservoir of water १४२.
- सरस्वत् the ocean; a male river २२९.
- सरस्वती name of a river ८, २२८, ३१५, ६८,
४८७, ९४, ९८, ५०१, २५, ६२७, ८३, १३१०,
१६३३, ४४, ४५.
- सरहस्य mystical; having a mystical
doctrine ४७१.
- सरित् a river; a stream ३६८, १६४५.
- सरिर water; ocean २७०, ७१, ५२०.
- सरीसृप a crawling creature; a snake;
serpent ३५०.
- सरूप of the same shape; like; similar ६२,
३९७, ४१२, १४५३, १६०१, ३५, ४४, ४६.
- सरूपता identity of form; assimilation to
the deity (one of the four states
into which मुक्ति is distinguished)
६१०, १२, ८७, ८८.
- सर्ग flow; force; creation; effort; resolu-
tion; an epithet of god *Śiva* ८०,
१६०, ३०६, १४३४, १६६३.
- सर्तवे to move on; to flow; for flowing
or moving on ४७.
- सर्प a serpent; reptile ११७, ६४, ४१४, ४२,
५०८, ०९, ७८४.
- सर्पत् crceping; crawling २७१, ३०६.
- सर्पदेवजनविद्या the lore of serpents and
superhuman beings ९२६, २८, २९, ३३.
- सर्पभय fear of serpents ४७९.
- सर्पविद् a serpent-charmer; one who
understands serpents ११७.
- सर्पवेद a work on serpents ३०५.
- सर्पिष्मत् possessing or seasoned with
ghee or clarified butter १३०७, ०८.
- सर्पिस् clarified butter; ghee ४०४, ०५, ७४,
८३९, ९०२, १३०७, १५८४.
- सर्पति name of one of the sons of मनु
(= शर्पति) १६५३.
- सर्व all, each; every २९, ३१, ३२, ३६, ३७,
३८, ४०, ४४, ७८, ८५, ४८६, ५३८, ६९१,
१११८, १३०३.
- सर्वकरण all sense-organs १६८२.
- सर्वकरणोपसंहार contraction or drawing in
of all sense-organs १६८२.
- सर्वकर्मन् one who performs all acts; an
epithet of god *Śiva* ८०९, १२.
- सर्वकाम an epithet of god *Śiva*; all desi-
res; every wish ३७, ८०९, १२.
- सर्वक्षित् dwelling every where; ruling
all १६६५.
- सर्वग all-pervading १४८३, १६२५.
- सर्वगत all-pervading; omnipresent ३३६,
१४४५, १५९६, ९९.
- सर्वगन्ध having all perfumes २६१, ८०९,
१२.
- सर्वगुणसंपन्न possessed of all excellence
or good qualities १६६३.
- सर्वप्रन्थि all doubts or difficulties ९५०.
- सर्वजन्मन् the source of all ३२७.
- सर्वज्व possessed of all speed; speediest
१३८१.
- सर्वजित् all-subduing; incomparable ६४६.
- सर्वज्ञ omniscient १४४८, ६३, १५०९, २४,
१६६६.
- सर्वज्यानि all-destroying ४४३, ४४, १०५६.
- सर्वतःपाणिपाद having hands and feet on
all sides १५९८.
- सर्वतःश्रुतिमत् having ears on all sides
१५९८.
- सर्वतत्त्व all elements or तत्त्वस १५९०.
- सर्वतन्ू having all forms; multifarious
४३८, ४०, ४१, ४२,
- सर्वतस् on all sides; every where ६८.
- सर्वताति complete happiness; wholeness
६४.

- सर्वतोक्षिशिरोमुख having eyes, heads and mouths on all sides १५९८.
- सर्वतोद्वार having doors on all sides १३३८.
- सर्वतोमुख facing every quarter; boundless; complete २५६, १५९१, १६८०.
- सर्वत्सर the year (lit. creeping on all sides) ३००.
- सर्वदुष्कृत all evil deeds ४८६.
- सर्वदेव all gods; an epithet of god *Śiva* ४७९.
- सर्वदेवैव्य presided over by or sacred to all gods ५२३, ९९९, १६८०.
- सर्वदेववेदयोनि the source or origin of all gods and *Vedas* १६८२.
- सर्वधातम (superlative degree of सर्वधा) all-containing or all-yielding ९८, १२१, ३३१, ८५५.
- सर्वपरमाध्यात्मफल the fruit of अध्यात्म which is the highest of all ५२४.
- सर्वपर having all the joints intact; possessed of all joints ४३८, ४०, ४१, ४२.
- सर्वपाद् having feet every where or protecting all ४३५.
- सर्वपाश all-ensnaring; all snares १५८०, ९०, १६०९, १६, २३.
- सर्वपाशापहानि destruction or removal of all fetters १५८२.
- सर्वपूत all-purified; very pure १६८१.
- सर्वप्रायश्चित्ति expiation for all १३६०.
- सर्वबन्ध all ties or fetters १६७६.
- सर्वभावपरित्याग abandonment of all mental activities or feelings १६६२.
- सर्वभुज् all-consuming १६६६.
- सर्वभूत all beings १३१८, १४७६, १५७४, ९४, १६०९, २१, ३२, ४१, ४३, ४८, ५८, ५९.
- सर्वभूतगुहाशय lying or residing in the heart of all beings १५९६.
- सर्वभूतसंहिता a group or multitude of all the great elements and beings ६८७.
- सर्वभूतस्थ present in all beings or elements १६७५.
- सर्वभूताधिवास residing in all beings or elements १६२२.
- सर्वभूतान्तरात्मन् the inner soul of all beings १४३०, ३१, ५६, १६२१.
- सर्वमय universal; all-containing १२२९.
- सर्वमृत्यु death of all १३७०.
- सर्वमेध universal sacrifice; name of a particular sacrifice ४७१, ७२.
- सर्वयुज् completely yoked or merged ५७५.
- सर्वरस containing all tastes २६१, ८०९, १२.
- सर्वराज् omnipotent ४७२.
- सर्वरूप multifarious; multiform ४३४, १३३७, १४५८, १६३५.
- सर्वलिङ्ग an epithet of god *Śiva* १६४१.
- सर्वलोक all worlds; universe २५५, १४३०.
- सर्ववर्ण all castes; person (or woman) of all (i. e. any) caste ४८६.
- सर्ववर्णा having all वर्णस i. e. letters or colours (epithet of गायत्री) १६४४.
- सर्ववाच्यवस्तु the matter or thing expressed by all १६८२.
- सर्ववित् omniscient ११४७, ४८, ६३, १६२५.
- सर्वविद्य having all lores; omniscient २८, १६१७.
- सर्वविद्या all knowledge or lores १६४१.
- सर्वविद्याप्रतिष्ठा the bed-rock of all lores or knowledge १४४२.
- सर्वविभु all-pervading ५२२.
- सर्ववीर all-heroic ३९८.
- सर्ववेदस् all property or acquisitions; bestowing all wealth; name of a particular sacrifice ४७०, १३८९, १६५२.
- सर्वव्यापिन् all-pervading ३३६, ५२२, १५७४, ८४, ९६, १६२१, ७९.
- सर्वव्याप्त all pervading ३३६.
- सर्वशब्दा comprising all words; possessed of all sounds or words ६८७.

सर्वशान्ति universal peace or tranquility ५१५.	सर्वायुस् the life of all १६४४.
सर्वशास्त्रमय consisting of or made up of all sciences १५७४.	सर्वार्थ all objects १६५८.
सर्वसंशय all doubt १४६४.	सर्वावत् the all-containing world ११९७.
सर्वसंस्थ residing in all १५७९.	सर्वेन्द्रियगुणाभास appearing to have the qualities of all sense-organs १५९८.
सर्वसामन् having all सामन्स (i. e. chants) (epithet of संवत्सर) ४६९.	सर्वेन्द्रियविवर्जित devoid of all sense-organs १५९८.
सर्वसृज् creating all १६६६.	सर्वेश the lord of all ६७२.
सर्वस्तोम name of a particular <i>Sāman</i> ४६९.	सर्वेश्वर the lord of all १२४७, १५२४, १६८३.
सर्वस्थित existing in all or every where ३३६.	सर्वैश्वर्यसंपन्न endowed with or possessed of all glory १६८३.
सर्वस्मृत् remembering all १६६५.	सर्वोपनिषद्द्विधा the lore of all the उपनिषत्स; all the secret knowledge or <i>Upani- ṣadic</i> lore १६५४.
सर्वहायस् having all strength or vigour; going every where (सर्वगति comm.) ३८१.	सर्वौषध all plants and herbs; all sorts of herbs; panacea ३३१, ७१४, ८५४, १३०१.
सर्वहुत् all-sacrificing; sacrificing all at once २३२, ३९६.	सर्वप mustard seed ८११.
सर्वाङ्ग having a whole body; having all parts or limbs intact; possessed of all limbs; all the six वेदाङ्गस; all parts (of the body) ३८०, ८२, ४३८, ४०, ४१, ४२, १३८४.	सलिल water १५७, ५८, २२५, ४१, ४८, ५१, ७५, ७६, ८१, ८२, ८६, ८७, ८९, ९७, ३०५, २६, ४८, ८९, ९८, ४२६, ७१, ५०७, १२१५, १३३२, ४७, १६२४.
सर्वाजीव maintaining all; that which vitalizes all things १५७९.	सलोकता one of the four kinds of मोक्ष; the state of being in the same world or region as the god ११२, ४०५, ६१, ६१०, १२, ८७, ८८, ७८४, १०११, ६३, १२७८, ७९, १३३६, ४०, ८८, १६३३, ५२.
सर्वात्मन् the universal soul; supreme spirit; epithet of god <i>Śiva</i> २६६, ५१३, १५९९, १६७५.	सव sacrifice; libation; pressing out <i>Some</i> juice ६५, ९९, २१७, ३३९, १५८५.
सर्वाधिपत्य omnipotence; suzerainty १६१३.	सवन libation; offering; sacrifice ३६८, ४६९, ७०, ५६१, ७९०, ९१, ८१५, १३६८, १६५१.
सर्वाननशिरोम्रीव having mouths, heads and necks in every direction १५९६.	सवनमुख the commencement of a sacri- fice ५२२.
सर्वानुभू all-perceiving; who perceives or experiences every thing (epithet of आत्मन्) ४६३, ६९१, १११२.	सवर्चस् lustrous ७०३.
सर्वान्तर innermost ११३२, ३३, ३६, १६६६.	सविज्ञान together with विज्ञान १२२४.
सर्वापर the outermost १६६६.	सवित् knower of that (unity) १६६५.
सर्वापरत्व paramountcy १६६२.	सवितर्क with reasoning or thought ५२४.
सर्वायुष the life of all (epithet of प्राण) ७१५.	सवितृ the sun; the inspirer; a solar deity of the vedic pantheon ३०, ९४,

- ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १०५, १०, ११, १८,
१९, ५६, ६४, ६५, ६९, ७०, ७२, ७३, ७४,
२०३, १७, ४३, ४९, ५१, ५२, ६३, ६७, ६८,
७०, ७७, ३१५, ३१, ३२, ३९, ५७, ७९, ९७,
४१४, ३४, ४२, ५९, ७४, ८०, ८२, ८४, ८५,
९८, ५०३, १७, २४, ७७२, ८५५, १३०३, ०८,
६०, ६१, ६९, ७०, ८७, १५८५, ८६, ८७,
१६०९, ३१, ३३, ४४, ४५, ५९, ६०, ६४.
- सवितृप्रसूत urged on or inspired by the
sun २०३.
- सध्वन् an epithet of रुद्र १४१.
- सव्य left; reverse ४०५, ५६, ५०८, ६५५,
७८, १६६८.
- सशरीर embodied; having a body ४०६,
९७७.
- सषकार together with the letter ष ६२३,
८९.
- सस food १९९.
- ससवत् possessed of food ८१.
- ससृजान being created or produced २९९.
- सस्थूण together with the post (said of a
calf) १०७९.
- सस्त्रिण्जर tawny like young blades of
grass; an epithet of रुद्र १३७, ४८.
- सस्य corn; crop १६३, ५१४, १३९०.
- सस्वर् secret ५३.
- सह with; together with ३४४.
- सहकृत accompanied by ३४१.
- सहगण together with the followers or
attendants called गणस (epithet of शिव)
१५०.
- सहछन्दस् along with metres २७८.
- सह न innate; inherent; natural ३४४.
- सहदेव्य together with divine lustre or
divine group of companions (said
of शिव) १५०.
- सहपार्षद together with the पार्षदस (said of
शिव) १५०.
- सहप्रमा together with or possessed
accurate knowledge (of sacrifice)
२७८.
- सहमान overpowering १३८, ७१, ३८१, ५
८१३, १६३४.
- सहवसु having wealth; name of an अ
son of वृषर (comm.) ५०.
- सहवृष together with the bull (said
शिव) १५०.
- सहस् force; strength; power; intrepidi
४, ९, १७, ५६, ७६, १७५, ३१४, ३७, ४
५३, ६२, ४४७, १६४४.
- सहसस्पुत्र son of strength (epithet of अ
१२.
- सहसामन् along with Sāma chants २३४.
- सहस्तोम along with hymns २७८.
- सहस्रिणि smiting thousands (comm
reads सहस्रन्वयम्) १३०.
- सहस्रगीथ praised in a thousand hymn
३६७.
- सहस्रदक्षिण having a thousand gifts o
rewards; at which a thousand
things (such as cow) are given
away as दक्षिणा or gift ४७२.
- सहस्रदक्षिणा having a thousand reward
३६७.
- सहस्रधामन् having thousandfold lustre
having a thousand abodes २०१.
- सहस्रधार flowing in or having a thou-
sand streams ३९८, ४३४, १६४८.
- सहस्रपरमा one thousand as maximum
१६३२.
- सहस्रपाद् having a thousand feet १५०,
५९, २३०, ३०६, १५९७, १६८१.
- सहस्रपुत्र having a thousand sons १३५१.
- सहस्रमूल having a thousand roots १७३.
- सहस्रयोजन a thousand Yojanas १४७, ४९.
- सहस्ररश्मि having a thousand rays; the
sun १४९३, १६५९.

सहस्रवीर्य having a thousandfold power; very powerful ३८०.
 सहस्रशाख having a thousand branches ६९५.
 सहस्रशीर्ष having a thousand heads १५९७, १६३७.
 सहस्रशीर्षन् see सहस्रशीर्ष १५९, २३०, ३०६.
 सहस्रशृङ्ग having a thousand peaks or horns १६८.
 सहस्रसंवत्सर a sacrifice lasting for a thousand years ४६०, ६१.
 सहस्रसंवत्सरान्तकृतु a sacrifice lasting for a thousand years १६६५.
 सहस्रसम (a सत्र) lasting for a thousand years ४६१, ६३.
 सहस्राक्ष thousand-eyed ८५, १२९, ३१, ३४, ३६, ४१, ५०, ५९, ७५, २३०, ३०६, १५९७, १६३१, ५९.
 सहाक्षर thousand-syllabled २४९, ३२६.
 सहाक्षरा having a thousand syllables १७०, २२५, ३४८.
 सत्रायुस् having a life of a thousand (years) २९८, ३००.
 सहाह्वय lasting for a thousand days १७२, ७३, २५०.
 सत्रिन् having a thousand; consisting of thousands ४६१.
 सत्रन् overpowering; mighty; forceful; irresistible; intrepid; strong ९, ५१, ३३९, ४१, ८१.
 सत्रन् strong; powerful ३४२.
 सत्रन् very powerful or strong ३३७.
 सत्रे patient; enduring; conquering १४२, ४३, ४४.
 सत्रे by common invocation १२५.
 सत्रे relating to self-control or restraint; a variety of अग्निहोत्र ६४४.
 सत्रे name of a ऋक् sung as a Sāman or f अन्तरिक्ष, द्यौ, नक्षत्राणि and आदित्यस्य शुक्रं
 सत्रे: conceived as a ऋक्; the letter सा

(which is the opening syllable of the word साम) ७६०, १३०८.
 साकंशुष्वा growing or increasing together or along with ६९.
 साकञ्ज being born together (these are the seasons or ऋतुः) २११.
 साकम् with; together with ६५.
 साकमश्व name of a teacher ६९२.
 साक्षात् present (said of ब्रह्म) ११३१, ३३, ३५.
 साक्षिन् an eye-witness; witnessing; observing; the perceiver १६२२, ६१, ७६.
 सांस्कृतीपुत्र name of a teacher १३१०.
 सांख्यायनसगोत्रा of the सांख्यायनगोत्र (epithet of गायत्री) १६४४.
 सांख्ययोगाधिगम्य to be attained or perceived by सांख्ययोग or the path of knowledge (or by the combination of सांख्य and योग i. e. path of knowledge and the path of action) १६२३.
 साङ्ग together with limbs or parts embodied ३९८, १३५५, ७०.
 सांजीवीपुत्र name of a teacher १३१०.
 सात the wealth; gift; prize १९२.
 सात्त्विक pertaining the सत्त्व quality १६५७, ६६.
 सात्मत्वं possession of soul ४७४.
 सात्य existing as truthfulness ११०७.
 सात्यकीर्त name of a man १३३१, ६४.
 सात्ययज्ञि a disciple or a follower of सत्य-यज्ञ १३५०.
 साद riding; sitting on horse-back २५२.
 सादन seat; place; house; abode; resting १८८, २५२, ३८९, ९१, ४९९.
 साधान (the infant) together with his housing १०७९.
 साधारण common १०४६, ४७.
 साधिष्ठ best; in the best manner साधुतमत्वं (com.) ८३४.

- साधु good; well ३५७, ९३, ४०३, ६७१, ७२, ७३२, ७३, ७४, ८२२, २४, ९२९, ३३, ७२, १२२९, ४६, ७७, १३३४, ४८, ५४, ५९, ९८, १६५१.
- साधुकर्मन् of good deeds १८५.
- साधुकारिन् one doing good deeds १२२९.
- साधुकृत्या merits; good deeds ४०४, ०५.
- साधुयुवन् a good youth ७२८.
- साध्य a class of manes (पितरः), the आदित्य and the अङ्गिरसः (who are known as साध्य) [of. com. p. 229] those gods who are capable of creation [= साष्टसाधनयोग्याः = प्रजापतिप्रभृतयः—com.], a group of gods २२९, ३०, ३२, ३४, ४५६, ७९७, १४५८, १६६६.
- साध्वलंकृत well decorated or adorned ९७३, ७४.
- साध्वी good १९२.
- सानु back; top; summit १३, ४२३, १६३४.
- सानुक very lofty; arrogant १८९.
- सामतस् in the sphere of *Sāma* chants ५६३.
- सामत्व the characteristic feature of *Sāman* १०११, १३४४, ४६, ४७, ७१.
- सामन् a *Sāma* chant; the *Sāmaveda* २७, ३२, ५७, ५८, ११२, १७, १८, १९, ५३, ६१, ६२, ९१, २१६, ३२, ३५, ४७, ४८, ५१, ७७, ८१, ८६, ३११, १५, २७, ६३, ४०१, ०५, ०६, ३५, ३७, ४५, ४९, ५१, ५२, ५८, ६०, ६८, ७३, ९२, ५०८, २२, २३, २४, ६८, ६०४, ३६, ३८, ४५, ८५, ८६, ९२, ९४, ९७, ७०२, १५, ४०, ४७, ४८, ५५, ५६, ५८, ६०, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७९, ८०, ८५, ९०, ९१, ९४, ९०३, ९७, १०११, १३, १४, ६५, १२७९, ८१, १३०८, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६४, ६५, ६६, ७१, ८६, १४५७, ९८, १५११, १४, ७३, ७४, १६४०, ५१, ५८, ६४, ७७, ७९, ८२.
- सामन्विन् possessed of सामन् १३४३.
- सामपथ the path of सामन् १३३१.
- साममय consisting of *Sāman* ३२, १०४, ०५, ६६, ६४६.
- सामरूप्य of the nature of *Sāman* ४९३.
- सामविद् knower of or well-versed सामन् १३३३, ३९, ४२, ५५.
- सामवेद one of the four वेदs २८२, ८६, ३४९३, ५२१, २२, २३, २४, ६१३, २१, ८९, ७९४, ८१४, ९२६, २८, २९, ३३, १०९६, ११८५, १२६१, १३३०, ६०, १४१६६४, ८२.
- सामवैर्य the power or efficacy (P) of स १३४८.
- सामश्रवस् name of a pupil of याज्ञवल्क्य १११५.
- सामसन्तति continuity of सामन् ४६०.
- सामान्य common; ordinary; similari ८४८.
- सामि half; incomplete १३६८.
- सामिन् belonging to the समिति १६३.
- सांपराय passage from this world in another १३९८, १४००.
- साम्य equality; evenness १४७२.
- साम्राज्य dominion; universal sove- eignty ७५, ७९१.
- सायक an arrow; a missile १२६, ३३९, ४४४.
- सायक- जानश्रुतेय- काण्ड्विय name of a teache १३६७.
- सायकायन a patronymic from सायक १२६५.
- सायम् in the evening १३१, ३४५, ४३३ ५३५, ८३३.
- सायंभव happening in the evening; grow- ing dark २४५.
- सायवस a patronymic from सयवस् (?) ४१.
- सायुज्य absorption; identification (one of the four states of मोक्ष) २८, २९, ११२, ४६१, ६१०, १२, ८८, ७८४, १०११, ६३, १२७८, ७९, १६४०, ४४, ५२, ५६.

- सायुज्यत्व absorption; identification (one of the four kinds of beatitude) १६६२.
- सारथि a charioteer; driver of a car ४५०, ५१, १४१२, १३.
- सारणी channel १६६८.
- सारमेय son of सरमा; a dog (especially one of the two dogs of यम) ३५७.
- सार्गल obstructed; impeded १३०९.
- सार्पाद्य beginning from the serpent (i. e. the नक्षत्र) १६६०.
- सार्धिता equality in rank; condition or power (one of the grades of beatitude) ४६१, ७८४, १६४०.
- सालज्य lined with a row of साल (i. e. शाल) trees ६३३, ३६.
- सालावृक a kind of wolf or hyena or jackal ६५७.
- सावयस patronymic of आपाह ३२७.
- सावित्र relating to or belonging to the sun २६, २७, २८, २९, २५१.
- सावित्री a verse or prayer addressed to सवितृ ११९, १२८२, १३०३, ८७, ८८, १६४३, ४४, ५८, ७७, ८१.
- सावित्रीसंपद् the fulness of सावित्री (i. e. the गायत्रीमन्त्र) १२०.
- साश्नानश्न having and not having food; earthly and heavenly beings २३१.
- सासहि overpowering १९, ३४१.
- साह connected with a day; lasting a day ४४७.
- सिंह a lion ५०९, ६३०, ९१७, १८.
- सिकता sand; small pabble २९६, ४३६, ४९, ९८७.
- सिकल pertaining to sand १४३.
- सिक्त sprinkled; smeared २९७, १३४९, ५८.
- सित white; bright; tied; loosened ३६८, ५३७, १३३८, १६५५, ६३.
- सितासित the dark and the white १६६३.
- सिद्ध perfect; accomplished; prepared १३५८.
- सिद्धागमन who can move (i. e. come or go) at his own will ४११.
- सिद्धि success; good fortune; accomplishment ६६६, ८८.
- सिद्धिकर producing success or good fortune १६८२.
- सिनीवाली name of a goddess १३०९.
- सिन्धु a river; stream; ocean ४, १८, ४४, ४५, ४७, ७०, ८१, १९३, २१७, ४४, ५१, ३५२, ४७४, ७५, ९७, ५०६, ९८७, १३०३, ३८, १४५८, १६३४, ३५, ४५.
- सिन्धुराज ocean १६६१.
- सिन्धुस्रव्य the flowing of streams २४५.
- सिरी a shuttle; a weaver (सिरी: = सीरिण: i. e. ploughmen according to comm.) ४९२.
- सिषासन् wishing to get or obtain ७१.
- सिष्विदान sweating; perspiring ४१४.
- सीता a furrow; the track of a ploughshare ४३५.
- सीम् (originally Acc. sing. of a pron. base and connected with स) him; her; it; them; often used only as an enclitic particle after a pronoun or preposition ५, ४५, ७८.
- सीमतस् from the boundary or summit १९७, २५८.
- सीमन् boundary ५८५.
- सीर plough १६२.
- सीस lead; the leaden weight used by weavers ८४८.
- सुकृत् doing good; benevolent; virtuous २२, ३६०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९६, ४०४, १३, ९८.
- सुकृत good or righteous deed; virtue; merit; bounty ५२, ६६, ३०२, ४९, ७२, ७३, ४००, ०१, ०३, ३२, ६५, ८५, ८८, ८९,

१७, ५८२, ६१६, ३५, ८८, ७२५, १६३, १३०५, ०६, १४१०, ४८, ५०, ५१.	सुज्ञान proper or correct knowledge apprehension १४०१.
सुकृतकर्मन् of good or meritorious act ३६७.	सुज्ञेय to be properly apprehended १३ सुत son; the pressed out <i>Soma</i> ju pressed out; prepared ४१, ४८, २ ८७४, १०६८.
सुकृतरस the essence of merits or good deeds १३५९.	सुततेजस् whose lustre or brightness the pressed out <i>Soma</i> juice (epithet of वैश्वानर) ४०, ४१.
सुकेशन्-भारद्वाज name of a teacher १४९०, १५१४.	सुतर्मन् easily conveying across (a boat) ८४.
सुकृत्वु skilful; wise १३, १८, ७५, १२०.	सुतसोम one who has pressed o <i>Soma</i> juice. ४६, ५३.
सुकृतूया intelligence; wisdom; skill २०५.	सुतेकर performing (recitation of certa texts) at the preparation of t <i>Soma</i> ४९२.
सुक्षत्र ruling well; strong; powerful ५२५.	सुतेजस् bright; refulgent ३८३, ८९४.
सुख pleasure; joy; happiness १७१, ३२२, ७८, ६३८, ६९, ९४१, १३९१, १४३१, ३२, १५०४, ०७, १६२२, २३, ४४, ५६, ६०, ६१, ६४, ६५, ७५.	सुत्या a <i>Soma</i> sacrifice ३०५.
सुखदुःख pleasure and pain ६५५, ६८, ७०.	सुत्रामन् guarding or protecting we ३६६, ९०.
सुखदुःखभोक्तृ the enjoyer or experiencer of pleasure and pain १६७५.	सुदंसस् accomplishing mighty action a wonder worker ५२.
सुखदुःखहेतु the cause of pleasure and pain १५७५.	सुदक्ष very capable or clever or stron १८, ७१.
सुखरथ having an easily running chariot ५३.	सुदक्षिण-क्षैमि name of a teacher १३५६, ५१
सुखादी beginning with pleasure ४१२.	सुदत्त- पाराशर्य name of a teacher १३६७.
सुखासनस्थ seated on a comfortable seat १६७३.	सुदन्न granting good gifts २२८, १३१०.
सुखेतर pain १५७४.	सुदानु bestowing or possessed of good gifts ५, १६६, ३९०.
सुग easy rolling; going easily १८९, ४२९.	सुदास्तर comparative of सुदास् = worship ping the gods well; bestowing rich gifts १२३.
सुगन्धि fragrant; sweat smelling ३३६, १५७४, १३४६.	सुदुधा a good milch-cow २१७.
सुगमस्ति bright १८१.	सुदृश् well-looking; keen-sighted १३.
सुघ्न easy striking or killing ३५५.	सुद्युम्न name of a king १६५३.
सुचरित good deed ४१९, ७०४.	सुधन्वन् having an excellent bow (an epithet of रुद्र); name of a person १४२, ११२९.
सुचित्त-शैलन name of a teacher ४०६, १३३४, ३६.	सुधा nectar १३५४.
सुचेतस् sapient; wise १३३.	सुधान्त cleansed १५९०.
सुजनिमन् producing or creating fair things ९२.	
सुजम्भ having good jaws or strong teeth ४७८.	
सुजात well-born ८.	

- सुधित well-placed or fixed; well-arranged; well prepared ११, १२, ४२०.
सुधी wise; sensible; of good or pious thought १०९, १०.
सुधुर a good draught-horse ४१६.
सुधूम्रवर्णा name of one of the seven tongues of *Agni* १४५०.
सुधृत well propped up १०१.
सुनिर्मला perfectly clear or pure १५९७.
सुनिश्चितार्थे who have well ascertained the matter or essence १६३६.
सुनीति good guidance; good conduct; discretion १८९, ३६०.
सुनीथ good guidance; giving or enjoying good guidance १२०.
सुन्वत् one who presses out (*Soma* juice) or offers it ४८, ६०, २३७, ३६८.
सुपक्ष having beautiful wings १७०.
सुपत्नी (a woman) having a good husband or lord ६८.
सुपथिन् a good road १२८४, १३२८.
सुपर्ण having beautiful leaves; having beautiful wings; any large bird of prey; a vulture; an eagle; the sun; the moon; a mythical or supernatural bird (often identified with गरुड) २२, ६५ १०४, ३२, ६२, ७१, ७२, ७३, २१३, १४, १५, २७, २९, ३५, ७३, ३५०, ९३, ४६९, ५०९, ६०७, ८६, ११३०, १२०६; १४६८, १६०४, ४९.
सुपर्णी night १०४.
सुपर्णैय metronymic from सुपर्णा १६५०.
सुपलाश having many or beautiful leaves ४१७.
सुपाणि having good or dexterous hands १८१.
सुपारक्षत्र easily traversing his realm (said of बरुण) ८२.
पाव well clarified ५१४.
पिप्पला bearing good berries ५१४.
सुपेशस् well-adorned; beautiful; handsome २३५.
सुप्त asleep; sleeping; dormant ११६, ३२७, ३४, ५४२, ६६५, ७७, ७९, ८०, ९६७, ७६, १०७१, ७२, ७३, १२००, ०२, ०६, १३०५, १५२३, ७३, १६६८.
सुप्रजस् having good progeny or son ३९८, ४३१.
सुप्रजास्त्व the state of having many children २७३.
सुप्रणीत good guidance; well guided १५०, ३४५.
सुप्रणीति safe or good guidance ६३६.
सुप्रतिष्ठा firm position १५७९.
सुप्रतिष्ठित well or firmly established; standing firm ५१०.
सुप्रतीक having a beautiful shape or face; lovely १२२, ५०१, १६४५.
सुप्रतूर्ति very victorious १२२.
सुप्रथत well-trimmed; well-arranged ४१५.
सुप्रवाचनं worthy of much praise ५१.
सुप्रशस्त greatly praised; excellent ८६.
सुप्रावी very attentive or mindful; very zealous १९३, २३७.
सुप्राव्य easily approachable ५०.
सुवन्धु good friend; closely connected or related ३६५, ६६.
सुब्रह्मण्य name of one of the assistants of the उद्गातृ priest ४६१.
सुब्रह्मण्या a particular recitation of certain मन्त्रs by the उद्गातृ priests ४६३.
सुभग charming; beautiful; lucky; happy; fortunate १२२, ९३, ३४५, ४९४.
सुभिक्षा having good or an abundant supply of provisions ७६९.
सुभू strong; good; a good progenitor or creator १७५, २५३.
सुभूत well-made; well-done; welfare; well-being ५०३, ०९, १६४९.

- सुभूता that part of the frame enshrining the universal spirit which faces the north ८१३.
- सुभूमिस्वष्ट observation of good (even) ground ४०४.
- सुभूत well-borne; well-protected ८, १६६, १४२३.
- सुमह्यल very auspicious १३५, २०१.
- सुमति benevolence; favour; grace; kindness ४, १७, ९१, १७२, ८२, ४९४, ६२६.
- सुमनस् gracious; favourable; pleasant; agreeable; comfortable; easy; cheerful ७९, १०५, ३५, ३६, ४७, ३७६, ४१५, ८२, ५०१, १३९१.
- सुमनस्यमान being kind or gracious or favourable १६८, ६९, ३४६, ५०५, ०९, १६२५.
- सुमानुषवित् one who knows men well १३६९.
- सुमारस्नं very small; minute or fine २९६.
- सुमित्रा name of a यक्षिणी १६३३.
- सुमृच्छीक very compassionate; gracious; good grace; favour ५२५, ६२७ ८३.
- सुमेक firm; constant; unvarying ७६, ८१, १९३.
- सुमेधस् sensible; intelligent; wise ८६, १२३, २३८, ४२७, ७०३, १२९३.
- सुम्न benevolent; gracious; favourable; benevolence; grace; devotion; prayer ९, ५९, ९६, १२५, २६, ४६, ८९, ९३, ३१७.
- सुम्नयु gracious; favourable ६९२.
- सुयज्ञ-शाण्डिल्य name of a teacher १३७२.
- सुयम easy to be guided; tractable ४९६.
- सुयुक्त well composed; attentive १६५६.
- सुर god; divinity; deity ४२८, १६५३, ६५.
- सुरभि fragrant; sweet-smelling १२०, ३२४, ५०८, ०९, ७५१, ५३, १३४८, ५०, १६४५.
- सुरा liquor; wine ८०, ४५३, ८२.
- सुराधस् liberal; bountiful ३१५.
- सुरापान drinking wine ४८६, १६४७, ७६.
- सुरश्च bright light; shining brightly १९८, २५८, १५७४, १६३२.
- सुरूप handsome; beautiful ७८२.
- सुरेतस् potent; having much semen १.
- सुरोदका having wine for water ३७०.
- सुरोहिता very red १४५०.
- सुवर light; heaven; one of the great व्याहृतिस २२, २३, ३१७, ६९, ४००, ०३, ५२४, ६९७, ९९, ७४०, १३५९, १६३१, ३४, ४३, ४४, ५०.
- सुवर्ग one who attains or goes to heaven (= heaven ?); heaven (= स्वर्ग) ४ १४, १३५९, १६४९, ५१.
- सुवर्गेय leading to heaven; celestial १ १५८५.
- सुवर्ग्य celestial; leading to heaven ६९२.
- सुवर्चस् splendid; glorious; lustrous १६ ३५७.
- सुवर्ण gold; a precious metal; a good coin; of good or fair complexion yellow; golden १५६, ५७, ७३, २६६, ६ ४१४, ५०, ६१७, ७६०, ८२१, ४८, १०१ १३४१, ६०, ६५, १६४१.
- सुवर्णपक्ष having golden wings १६३२.
- सुवर्णमय golden १३६८.
- सुवर्णरजतस्रज् having a gold and silver garland ४९९.
- सुवर्णलिङ्ग having gold for one's mark १६४१.
- सुवर्णस्तेय a theft of gold ४८६.
- सुवर्णा of fair complexion १६९, ५०१.
- सुवर्यत् attaining; reaching heaven or light ११०, १५८६.
- सुवर्षिद् winning or bestowing light २७१.
- सुवसन well-dressed ९७२, ७३, ७४.
- सुवहा easy to be drawn or carried ३४९.
- सुवहि having a good team १७१.
- सुवान pressed out (सोम juice); being pressed out ५५, ७२, १६३४.

- सुवासस् well-dressed २६०, ३२७, ४९०.
सुविज्ञान easy to be distinguished; clear or perfect understanding or realisation ३५४, ४१८.
सुविज्ञेय well-discernible; easy to be distinguished १४००.
सुवित prosperity; good luck; good path; prosperous; easy to traverse ९२, ३६१, ४९६.
सुविदत्र very mindful; bounteous; grace; favour ७, १७२, ९२, ३५७, ५९, ९८.
सुविदित well-known or understood ४१, ४०३, १३५७.
सुविद्वस् very intelligent; wise ५८, ३६९.
सुवीर maly; heroic; war-like; a hero; warrior; a heroic son ९, ४८, ५१, १२८, ६८, ९०, २५९, ३९८, ६२६, १५७३, १६४५.
सुवीर्य manly vigour; heroism; abundance of brave man ६, २७३.
सुवृजना dwelling in fair regions ३५८.
सुवृष् joyous; cheerful; furtherer १९०.
सुवृष्वन् an epithet of रुद्र १४१.
सुवृष्टि good rain ९३४.
सुवेद easy to be found or obtained; sweat (= स्वेद) ३०३.
सुवेनी full of longing or desire; much liked or loved ३६१.
सुव्रत ruling well; very religious; virtuous १६५, ३५४, ४७५, ५२५.
सुशंस saying or wishing good things; blessing ४९७.
सुशर्मन् very happy १६५, ३६६.
सुशिप्र having beautiful cheeks or jaws ४६, १२६.
सुशीम good to lie or sit upon ३४७.
सुशेव very dear; favourable; graceful ७, १६९, ३८७, ४५९, ५०१.
सुश्रवस् famous; glorious; gracious ३२५.
सुश्रुत् hearing well ३८२.
सुश्रुति a good or quick ear ५१०.
श. को. ५०
- सुश्लोक well-sounding or speaking; well famed २०१.
सुषारथि an excellent charioteer ३३५, १५७३.
सुषि the hole of a reed or cane ८०४, ०५, १६६८.
सुषिर cavity; vacuum १६४०.
सुषुप्त sleep; state of sleep १०७६, १५२३, १६४६.
सुषुप्तस्थान the state of sound sleep; (the soul) in the state of sound sleep १५२८.
सुषुप्ति sleep; deep sleep १६७६, ८२.
सुषुप्तिकाल the time of sleep; sleeping state १६७५.
सुषुम्नाख्या named सुषुम्ना १६६१.
सुषोमा name of a river १६३३.
सुष्ठुत well praised १९२, ३४६, ४७.
सुष्ठुति well-fashioned hymn ९३, १२६.
सुसंरब्ध firmly established २७५.
सुसख a good friend १८.
सुसंदृश् agreeable to look at ४८२.
सुसमाहित having the mind intently fixed or absorbed on an object १२२०.
सुसमिद्ध well kindled १६६३.
सुसमृद्ध quite perfect; complete ४७४.
सुसीम well-bounded; well-formed ६४७, ४९.
सुसूक्ष्म very subtle १४४५.
सुहय्य having good horses; a good horse ३३१, ८५१.
सुहव easy to invoke १२६, ८१, ३३३, ४८२, ९७.
सुहवा easy to invoke; easily invocable ३४५.
सुहस्त deft-handed २१७, ६०, ४९८.
सुहुत well offered; a good offering १३०९, १६५१.
सुहृद् a friend १५९८.
सुहोतृ a good होतृ priest १३६९.

सूकर hog; swine ५०९.
 सूकरयोनि the birth of a hog ८६७.
 सूक्त a hymn; a song of praise; recited;
 said or sung ७२, ९९, १९०, ५४७, १३५६.
 सूक्तवाक recitation of a hymn १०१.
 सूक्ष्म subtle; fine; minute ३३६, १५७३,
 १६१६, १८, ४०, ५४, ७६, ७८, ७९.
 सूक्ष्मतर very subtle ३३६, १५७३.
 सूक्ष्मदर्शीन् sharp-sighted; intelligent १४१६.
 सूक्ष्मातिवृक्ष्म extremely subtle १६०८.
 सूची a needle १३३३.
 सत्त a charioteer १३८, ४१.
 सूतग्रामणी an equerry and the chief of a
 village १२२१, २२.
 सूति birth १३०९.
 सूत्र yarn; string; aphorism; name of a
 class of works written in aphorisms
 २५०, ४६९, ५२३, ९०६, १०९६, ११४६, ४७,
 ४८, ८२, १२६१, १६६४.
 सूत्रयन्त्र a net (made) of yarn or coarse
 string १६६२.
 सूत्री birth giver (?) ४३४.
 सूददोहस् yielding milk like a well; yield-
 ing nectar; food (comm.) ३२, ३३,
 ३४, ३५, ३६, ३७.
 सूज्ञातृ a good उद्गातृ priest १३६९.
 सूय relating to or belonging to a pool
 (epithet of रुद्र) १४२.
 सूनु son २, १७, १२१, ३६२, १३५५.
 सूतृ joyful; glad; friendly ६८, १६३.
 सूतृता kind and true speech; friendli-
 ness; joy; delight ४४७, १३९०.
 सूतृतावत् glad; joyous ४, २०, १६६, ६९.
 सूपसदन good or easy to be approached
 ५१४.
 सूपस्थाना willingly or gladly approached;
 easily approachable ५१४.
 सूयवस having good pasturage; abound-
 ing in grass २२४.
 सूर the sun १७१, ९६, २५६, ३४८.

सूरचक्षस् having the sun for an
 radiant as the sun ४९५.
 सूरि a learned man; sage ९, ४८, ५४,
 ९९, १६९, ८५, ३५३, ४७५, १५८६.
 सूर्ति walked; trodden १८७.
 सूर्य्य an epithet of रुद्र १४४.
 सूर्य्य the sun २, ४, ९, २५, ४६, ५२, ५४,
 ५८, ६०, ६४, ६७, ६८, ७०, ७१, ७२,
 ७४, ७७, ७८, ८०, ९३, ९७, १०१, ०२,
 २५, ५५, ५८, ६९, ७०, ७१, ७३, ७४,
 ७८, ८८, ९२, २११, १७, ३३, ४७, ४८,
 ५१, ६०, ७४, ७५, ८२, ३०१, ०७, १२,
 ३१, ४०, ४४, ४५, ५१, ५२, ५८, ६०,
 ६४, ६६, ६७, ७६, ७७, ७९, ८१, ८३, ८८,
 ४१०, १८, १९, २४, २७, ३५, ४७, ५२, १
 ६३, ७४, ७५, ८६, ९३, ९७, ५०१, ०४, ८
 ०८, ०९, १६, २०, ५५, ६१४, २६, २७, ८
 ८८, ७२८, ८१७, २७, ३३, ९३५, ८७, १०३
 ६३, १२८४, १३०३, २६, ३३, ३९, १४२
 ३०, ३२, ३४, ५०, ५६, ५७, ६७, ९८, ९
 १५११, १६२४, ३०, ३६, ४१, ४४, ४५, ४
 ५१, ५२, ५८, ५९, ६०, ६२, ६४, ६६, ७८.
 सूर्य्यदत्त bestowed by the sun ६८४.
 सूर्य्यद्वार the medium of the sun १४५२.
 सूर्य्यपत्नी the wife of the sun १६२.
 सूर्य्यपूत purified by the sun १६८१.
 सूर्य्यमण्डल the orb of the sun १६६३.
 सूर्य्यरश्मि the ray of the sun; sun-bear
 १५७३.
 सूर्य्यराज्य the sun's dominion १६६५.
 सूर्य्यसम like or resembling the sun २५३.
 सूर्य्यस्थापक who establishes or places the
 = sun (in the sky or heaven) १२१.
 सूर्या the wife of the sun; the daughter
 of the sun ५०१, ०८.
 सूर्याचन्द्रमस् the sun and the moon २०३,
 ७९, ३८३, ४३५, ३९, ९५४, १६३३.
 सूर्याभिनिमुक्त upon whom the sun has set
 (while he is in his bed) ४८६.

- सूर्याभ्युदित upon whom the sun has arisen (while he is still in his bed) ४८६.
 सूर्य्य being in beautiful vessels (an epithet of रुद्र) १४४.
 सुकावत् having an arrow or spear १४८.
 सुकाविन् having an arrow or spear १३९.
 सुकाहस्त holding an arrow in the hand १४८.
 सुकन् the corner of the mouth २१८.
 सुक्ता a garland; a path or way १३९३, ९९.
 सुति wandering; transmigration ९५०, ११८७, १२९२.
 सुत्य running; flowing (epithet of रुद्र) १४२.
 सुप्त crept into; gone into २७३, ९६७, ११७५.
 सुष्ट्र created; produced; let loose ८०, २८३, ८४, ८७, ३०३, १९, २०, २१, ४९३, ५२२, ४०, ८२, ८४, १०६१, १३४५, ८६.
 सुष्टि creation; world; production १३४, ६९, २८६, ९४, ५३१, ३९, ४०, १०२०.
 सेतु a bond; a bridge; a raised piece of ground separating the fields (serving as a passage or as a boundary) १२०, ९६३, ६४, १२४७, १४११, ६१, १६२६, ६७.
 सेदि weariness; exhaustion; misfortune or adversity (अवलक्ष्मी) ४३३.
 सेना army; a missile; an arrow १२७, ३३, ४१, ४६, ४५३, ६७६, १०६९.
 सेनानी general; commander; leader १३७, ४१, ३४३, ४८५.
 सेन्द्रा together with इन्द्र; accompanied by इन्द्र ३६७, १६४०.
 सेन्य spearman; warrior १४६.
 सेवितव्य to be imitated or followed ७०४.
 सैकत sandy; made of sand २९३.
 सैतव name of a teacher १११४, १२६५.
 सैन्धव salt; of the indus-land; belonging to or born in the indus-land ३३१, १२८८, १६६५.
 सैन्धवखिल्य a lump of salt १०९८.
 सैन्धवघन a lump of salt १२६३.
 सोपान ladder; stair-case १३५७.
 सोभ्य an epithet of रुद्र १४२.
 सोम the सोम plant; the सोम juice; libation of सोम juice; the moon; the name of a teacher १९, ३९, ४८, ५१, ५२, ६०, ६३, ६४, ६५, ६८, ६९, ७०, ७२, ७३, ७७, १०५, ४३, ५५, ५६, ६३, ६६, ६९, २१३, २१, ३५, ३७, ४५, ४८, ५१, ७७, ३००, ०१, ०९, ३३, ५४, ६४, ६६, ६७, ६८, ७७, ८९, ९९, ४०४, ०५, १४, १५, १९, २४, २८, ३४, ३५, ५१, ५५, ५९, ८३, ९४, ९६, ९७, ५०३, ०८, १६, २४, ६१, ६४८, ७६, ७९, ९२, ७८५, ९७, ८५८, ५९, ६३, १०२०, ३६, ६८, ७१, ११७५, १२९५, ९६, १३००, ०२, ४५, ४८, ६५, ६९, १४५७, ८६, १६३२, ३३, ३४, ३५, ४१, ४४, ४५, ६०, ६२, ६५, ६६, ७८.
 सोमकाम desirous of सोम ४८.
 सोमदेवत having सोम as deity ११७५.
 सोमन् one who presses out or prepares सोम (?) १६३३.
 सोमप name of a teacher ६९२.
 सोमपा a drinker; one who performs the सोम sacrifice ४७, ३९१.
 सोमपान drinking of सोम १६५१.
 सोमपायिन् a सोम drinker; one who drinks सोम ३९१.
 सोमपीथ a draught of सोम; drinking सोम ३५९.
 सोमपूत purified by the moon १६८१.
 सोमपृष्ठ bearing सोम on the back (comm.); one to whom the पृष्ठवस्तोत्र accompanied with सोम are dedicated (M. W.) २०, १६८.
 सोमराज the moon conceived as king १३४.
 सोमराज्ञी having सोम as king ३७९.
 सोमराज्य the dominion of सोम (i. e. the moon) १६६५.

सोमलोक the world of the moon १५११, १६८२.	सौर solar १६५८, ६३, ६६.
सोमशुभ्र- सात्ययज्ञि- प्राचीनयोग्य name of a tea- cher १३६७.	सौर्यवर्चस patronymic from सूर्यवर्चस् सौर्यायणी-गार्ग्य name of a teacher १५०४.
सोमसंज्ञ named सोम १६६०.	सौवर who is in sound; consist sound ११०६.
सोमसवन that from which सोम is pressed; Soma-yielding ९६५.	स्कन्द name of a son of god Śiva ९५०, १६७८.
सोमसुत pressing out or offering सोम juice ४९५.	स्कन्ध shoulder; joint २४४, ४८, ४३४ स्कभित split १०४.
सोमांशु the सोम sprouts or shoots ६३६.	स्कम्भ a wedge; a pillar; a prop; fu (of the universe personified २४६, ४७, ४८, ४९, ४८३.
सोमापि name of a teacher ६९२.	स्कम्भन a prop; pillar ६९, २०५.
सोमापूषन् Soma and Pūṣan (vedic देवतास) ७३, ७४.	स्तन female breast; teat; nipple (of breast) १६३, २२८, ४४, ४३४, ३५ १०४७, १२७५, १३०६, १०, ५९, ६९.
सोमिन् offering Soma १७०.	स्तनयत् thundering; resounding ७४, ७९.
सोमेश्वर name of the celebrated लिङ्ग of शिव at Benares ३६८.	स्तनयिन्तु thunder; roar; thund cloud; lightning ११९, ३२३, ३९, ३४, ४९, ५१, ६७६, ९७८, ११०६ १२६९, १३३३, ८७.
सोम्य dear boy; young boy (a loving term of address) ६५, ३५८, ५९, ७०, ९८, ८३१, ३२ ३३, ३४, ८२, ८३, ८५, ८६, ८७, ९०, ९६ ९९, ९०१, ०२, ०३, ०४, ०६, ०७, ०८, ०९, १३, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २३, २४, १११५, २५, १३४२, १४५३, ५९, ६०, १५०८, ०९.	स्तब्ध firmly fixed; supported; pro up १४४६, १५९५, १६३६.
सोम्यन्ती a parturient or lying in woman १३०९.	स्तभित see स्तब्ध १६७, ९६, २५६.
सोस्मिता gently smiling ४९९.	स्तम्ब a bunch; cluster; tuft of ३३६.
सौकरायण name of a teacher १२६५.	स्तम्बशाखा the shool of grass; blad grass १६५६.
सौक्ष्म्य subtlety; minuteness ४११, १६५५, ६०.	स्तवान being praised १२७, ४६.
सौपर्ण resembling (that of the) eagle ५१०.	स्तवित् one who prays or praises ६६.
सौभाग good luck; prosperity ९८, २१८, १६३४, ४५.	स्तविष्यमाण who is to be praised ४८.
सौभाग्य good luck; good fortune; beauty ३१४.	स्तायु thief १३९.
सौमनस concord; agreement; comfort १६९.	स्तीमा sluggish; slow ३१३.
सौम्य gentle; lunar; pertaining to the moon; young boy (a term of en- dearment) ११८, १६४७, ६०, ६६, ७८, ७९.	स्तीर्णबर्हिस् who has strewn the sacrifi grass २३.
	स्तुक a child; a young animal २७२.
	स्तुत praised; adored; prayer; hymn ९९, ४४५, ५१३, १३४८.

- स्तुतशस्त्र स्तोत्र and शस्त्र १५३, ५४, ८१६, १३६०.
 स्तुति prayer; hymn १६५७.
 स्तुतिकाम desirous of praise or prayer ७७८.
 स्तुवत् praying; praising ६६.
 स्तूप crest; top; summit ७४.
 स्तुयमान being praised १३६०.
 स्तेग the refulgent sun (रश्मिसंघाती आदित्यः) १९४.
 स्तेन a thief १३८, ९०, ६८६, ८७३, १२१०, १३६९, १६३४.
 स्तेय theft ३११, ६५८, ९२४.
 स्तोक little; brief १३५७.
 स्तोतव्य fit to be praised १६६४.
 स्तोतृ one who praises or prays ९, १७, ६७, ७९, ५२१.
 स्तोत्र a prayer; a hymn ८६, ४६०, १०१४, १३५५.
 स्तोत्रिय one of the seven varieties of उक्थ १३५६.
 स्तोत्रिया a hymn of praise; ऋक्स to be recited ११२०.
 स्तोम a chanted interjection in a *Sāman* ५१९, ६३, ७७३, १३३५, ४७.
 स्तोम praise; eulogism; hymn; a typical form of chant (consisting of 5 parts viz प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव and निधन) २५, ३४, ३५, ३६, ३८, ५०, ५९, ८०, ९८, ९९, १०२, २६, ६०, ६२, २८३, ८४, ८६, ३६१, ४०२, ६०, ६८, ९३, ५१९, २२, ७५७, १३३४, ५६, १४०२, १६३३.
 स्तोमतृ good composer of स्तोम ३५९.
 स्तोमतस् in the sphere of स्तोम ५६३.
 स्तोमभाग name of particular verses recited at the सोम sacrifice while laying the fifth layer of bricks (these bricks are known as स्तोमभागा) १३६०.
 स्तोमवत् possessed of स्तोम १३४३.
 स्तोम्य deserving praise; praiseworthy ५७.
 स्त्री a woman; wife; a lady; a female ३१, ११९, ५७, २१२, ५०, ५२, ६३, ९८, ३३२, ४०३, ०४, ०९, ८५, ५०८, ७२, ७५, ८९, ९०, ७८१, ८५५, ९५९, ७९, १०१९, ११७१, ८५, १२०१, ०७, १३०५, ३१, ४६, ४७, ८१, ८६, ८७, ८८, १६०१, १५, ५८, ७५, ७७.
 स्त्रीनामन् female name; having names of the feminine gender ३१, ६३८.
 स्त्रीनाम्नी bearing a female name ३१.
 स्त्रीप्रज्ञा having a woman's understanding; an ordinary woman १२५९.
 स्त्रीलोक the world of women ९५९.
 स्त्रीलोककाम desirous of the world of women ९५९.
 स्त्रीवध the murder of a woman ४८६.
 स्त्रैण a bevy of young ladies ३६९.
 स्थण्डिल a piece of open ground (levelled, squared and prepared for a sacrifice) ३३२, ८५५, १६७१.
 स्थपति a chief (an epithet of रुद्र) १३८.
 स्थल place; spade; position १६८०.
 स्थविर old; strong; compact २८, ९२, ४१९, ६१०, २३, ८६, ८७, ९०.
 स्थविरतम the oldest १३७२.
 स्थविष्ठ superlative of स्थूल ८९९, ९०१, १६५४, ५८.
 स्थाणु a post; pillar; stake; name of *Siva* ३३१, ६९२, १३०४, ५९, १४२९.
 स्थातृ one who abides; stands or remains ९६, १५६, २११, ३६३.
 स्थान position; place; station; residence; the act of standing or abiding ३००, ५२३, २४, ६०१, ३०, ८५, ८६९, ११९७, १२००, १५०४, १६१५.
 स्थामन् station; seat; place २८०.
 स्थाली an earthen pan or dish; a cooking-vessel ४०४, १३५१.
 स्थालीपाक a mass of barley and rice cooked with milk (used as an oblation) ६१७, १३०८, १६६५.

स्थालीपाकावृत्त in the manner of १३०८.	८९, ७८५, ८६, १०९७, ११२३, १२६१ १६५६.
स्थावर standing still; stable; immovable; firm; any stationary or inanimate object २६३, ३३६, ४८६, ५२२, २४, ९४, १५७३, ९८.	स्पर्शन touching; sense of touch १६१ स्पर्शयितव्य that which is to be tou- or felt by the touch १५०८.
स्थित stationary; standing; abiding; remaining; situated १०८२, ८३, ८५.	स्पर्शरूप the form or manifestation the स्पर्शs (i. e. consonant from म्) ६१०, ८७.
स्थितता fixity; stability; firm position ११८६.	स्पय् spy; emissary ८१, ८५, १६४३.
स्थिति standing; remaining; station; position; residence २०२, ६८५, ११८६, १३६१.	स्वाह् desirable; covetable ८, १९०.
स्थिर firm; strong; immovable; steady ११७९, १६५५, ६२, ६३.	स्वत saved; won; gained ४०२.
स्थिरपीत having strong protection (M. W.); drunk deep (at the pool of knowledge) ४९०.	स्पृशन् touching १२१४.
स्थिरा firm १४३७.	स्पृष्ट touched; felt with the hand; fo- ed by complete contact of the gans of utterance ३६८, ५८५, १२३८
स्थूणा pillar; post २, १०७९, १३३३.	स्पृष्टकरणस्थित remaining in the vo- organ producing the स्पृष्ट sound ५
स्थूल gross; thick; coarse १६१६, ७२, ७८.	स्पृष्टि touch; touching १२१४.
स्थूलभुज् enjoying the gross १५२१.	स्प्रष्ट one who touches १२१४, १५०८, १६
स्थूला coarse; thick; gross ३१२.	स्फटिक crystal ५२३, १५८९.
स्ना bathed = स्नायवः, sinews (comm.) २६४.	स्फाति prosperity ४७३.
स्नात bathed ४२६, १६८१.	स्फुलिङ्गिनी name of one of the sev- tongues of fire १४५०.
स्नातक one who has performed ablutions on finishing his religious studies and returned home to begin his second stage of life १६७०.	स्फय name of a sacrificial impleme- ४०५, ३६.
स्नायु tendon; muscle; sinew १६४७, ५३.	स्मदिष्ट having an errand; going tog- ther; well going ८१.
स्नावन् muscle; sinew ३०९, ५३७, ७०१, ११७९, १३७०.	स्मर intention; desire; a ceremony for accomplishing one's desire ६४३.
स्निग्ध viscosity ५०१.	स्मरण remembrance ३६८.
स्तु top; summit; back ६६.	स्मारं retention (of ideas) १६५१.
स्तुषा daughter-in-law ३४८.	स्मृति remembrance; reminiscence; me- mory; sacred tradition १७९, ५९३ ९५०, १६३६, ५१, ६४.
स्नेह fattiness; oiliness; unguent; oil ३०३, ५२२, १६५६, ७९.	स्मृतिलभ्म acquisition of traditional doct- rine ९५०.
स्पर्श touch; sense of touch; twenty-five consonants from क् to म् ५६९, ६२१,	स्योन soft; mild; tender; pleasant; a soft couch; comfortable seat १५६, ५७, ६९, ७१, ३८४, ८६, ५०७, ०८, ०९, १३६८, १६३२, ४९.

सक्ति a corner; an edge ८१३.
 स्रवन्ती flowing; a river; stream ११९९.
 सृष्टृ creator १६०८, १६, ५९.
 स्याम lame; sick ४४२, ९७४, ७५.
 स्नाम्य lameness ९७५.
 सुत्वा a sort of large wooden ladle ३७,
 २५२, ५८, ३९३, ४५८, ७३.
 सुत streaming; flowing १७१.
 सुति stream; flow; flowing ५१, १०३,
 ३६६.
 सुत्य relating to a road or path १४२.
 सुव a small wooden ladle ३९४, ६४२,
 १३६०.
 स्रोतस् stream; bed or current of a river
 १५८४, ८७.
 स्रोतस्य flowing in streams १४१.
 स्रोत्या flowing water; a stream; river
 २८०.
 स्व one's own; own; self; belonging;
 wealth ११६, १८, ३३, ५४, ६७, ९०, २५०,
 ३००, ३१, ५६, ६०, ६१, ६२, ८६, ९२, ४०५,
 १३, १५, ८०, ८२, ५०६, २२, ९०, ६०६, १७,
 ८१, ८२, ८५९, ९४४, ६०, ७८, ७९, १००९, १३,
 १९, ४१, ७४, ११९१, ९७, १२७०, ८६, ८७,
 १३०९, ४३, ५३, ५४, ८६, १४४०, ८२, १६२१,
 ३३, ४०, ४५, ५४, ६२, ६३, ६४, ६६, ७७.
 स्वकर्मन् one's own deed or duty १६१४.
 स्वकामिन् selfish ५१७.
 स्वगुण one's own quality or characteri-
 stic mark १५७६, १६१६.
 स्वगुरु one's own teacher or preceptor
 १६७३.
 स्वङ्गुरि having good fingers ९६.
 स्वचित्तस्थ abiding in one's heart १६१८.
 स्वतन्त्र self-dependent; independent
 १६५४, ६३, ६६.
 स्वदित well-seasoned; savoury २५.
 स्वदेह one's own body १५८४.
 स्वधर्म one's own duty १६५६.

स्वधा self-power; habitual state; rule;
 law; own place; home; food or liba-
 tion offered to the पितृs; the expres-
 sion स्वधा uttered while offering the
 oblation ११, ६५, ६९, ७१, ८९, १००, १७,
 ६३, ७०, ७५, ९८, २१९, २३, ४०, ४२, ४६,
 ७६, ३५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ६०, ७१, ८६,
 ८९, ९८, ९९, ४३५, ४७, ५०७, ४२, ६६५,
 ७८५, १३३६, १४९९, १६३४, ३५, ३६, ४५,
 ४८.
 स्वधाकार the exclamation of the expres-
 sion स्वधा ४५५.
 स्वधाप्राणा having स्वधा for its life-breath
 ४३४.
 स्वधामन् own dwelling place १६६३.
 स्वधावत् constant; faithful; possessed
 of the word स्वधा १२, १३, ७९, ८०, ८६,
 १८१, ८५, ९४, ९९, ३९१.
 स्वधिचरणा easy to tread on ५१४.
 स्वधिति an axe ७२, १६३५, ४५.
 स्वध्यक्ष good or easy to be inspected
 ५१४.
 स्वध्वर्यु having a good अध्वर्यु priest १३६९.
 स्वनवती resounding; having a resound-
 ing sound १६५८.
 स्वनीक handsome; having a radiant
 countenance ७.
 स्वपत् dreaming; sleeping ११५, ४०, ३१५,
 २१, ५०४, ६४४, १३५५, ६८, १६४६.
 स्वपत्य good off-spring ५७.
 स्वपस् active; skilful १९३.
 स्वप्न sleep; dream ८०, ११६, २४५, ३११,
 ४८२, ५०४, ८५, ६१७, ८०, ८५५, ९६७,
 ७५, ७६, ११९२, १२००, ०३, ०४, ०६,
 १३६९, १४३५, १५०४, ०६, ०७, २३, १६५६,
 ६२, ७५, ७६, ८२.
 स्वप्नचारिन् being in the dreaming or sleep-
 ing condition १६६८.
 स्वप्ननिदर्शन dream-vision; vision in a
 dream ८५५.

- स्वप्नस्थान the condition of being in deep sleep; the dreaming state; sleeping state; conditioned by the dreaming state ११९७, १५२२, २८.
- स्वप्नान्त state of dream or sleep ९०४, १२०१, ०५, १९, १४२१.
- स्वप्न्या vision in a dream ६७७, १०७४.
- स्वभाव innate or inherent disposition; nature; natural state १५७५, १६१३, १७, २१.
- स्वमाया one's own magical art or skill १६७५.
- स्वमृत excellant nectar ७०३.
- स्वयंधीर self-wise १६६७.
- स्वयमातृणा full of natural holes; a kind of brick ३७, ३२९.
- स्वयंप्रकाश self-luminous १६८२.
- स्वयंभु self-existent ४२८, ७१, १११४, १२६६, १३११, १६४०.
- स्वयंभुप्रजापति self-existent progenitor (epithet of ब्रह्मन्) १६५१.
- स्वयंभू self-existent १६०, ७८, २५१, ५३, ३०६, ४२, ६९२, १३१९, ७१, १४२०, ५१.
- स्वयंशस्तर highly self-famed ९८.
- स्वयुक्ति self-yoked १७१.
- स्वयोनि one's own womb १६६४.
- स्वर् the sun; sunshine; lustre; bright space; heaven; one of the व्याहृति ५५, ५६, ५९, ७१, १००, ५०, ६२, ७२, ७४, ९६, २४८, ५०, ५२, ५६, ५७, ६५, ७९, ८२, ८६, ९८, ३०४, ४१, ५०, ५५, ६७, ६८, ६९, ४०२, ०६, १९, २४, २५, २८, ३२, ५१९, २१, २२, ६५३, ७८९, ८१३, १४, १७, ४८, १२७४, १३०३, ०९, ३०, ३६, ४३, ५२, ५९, ६०, ६१, ६९, ८८, १६५८, ७८.
- स्वर sound; voice; accent ३१६, ३७, ४४५, ७१, ५२२, २३, ५४, ६८, ६०३, १८, ८५, ९४, ७५५, ५८, ६५, ७३, ८५, ८६, १०१३, १४, १३३५, ३६, ४१, ४९, ५४, ६५, १६३०, ६८.
- स्वरंकृत well-decorated; well-arranged २५२.
- स्वरण loud-sounding; clear-voiced; se contented; happy १६३३.
- स्वरत् resounding ७५८, ५९.
- स्वरपक्ष possessing स्वर as wings १३५९.
- स्वरमात्रा strength of sound ५२२.
- स्वरयत् resounding; illuminating (१७०.
- स्वररूप the form or manifestation voice ६१०, ८७.
- स्वरवत् being possessed of (a good voice; resounding १०१३.
- स्वरशाम्यनानातन्त्री various resounding lute ५२२.
- स्वरसंपज्ञा melodious; harmonious १०१३.
- स्वरसामन् name of the three days before and after the विषुवत् of the गवामय ४६९.
- स्वरसौष्ठव pleasantness of voice १५९०.
- स्वराज् self-luminous; a self-ruler ३५ १६१, ३१४, ९०, ४७२, ९४७, १६४०, ४३, ७४
- स्वराज्य independent dominion or sovereignty ९८, २४७.
- स्वरित one of the three accents (the other two being उदात्त and अनुदात्त) ५२३.
- स्वरितोदात्त partaking of the nature of स्वरित and उदात्त ५२३.
- स्वरित्रा having good or strong oars १६५, ३६६.
- स्वरु sacrificial post or a strip wood from it २५२, ५८, ४५८, ९७, ५०७.
- स्वर्के having good hymns or praises ४९८.
- स्वर्ग heaven; heavenly bliss; the abode of light and of the gods २७, २९, ३४, ३५, ३६, ३८, १५०, ६६, ७२, ७३, ७५, २४५, ५०, ६६, ८३, ३२२, ६९, ७०, ७१, ७४, ८९, ९३, ९४, ९५, ९६, ९८, ४००, ०१, ०२, ०५,

- ०६, ०७, १०, ३४, ६६, ७३, ५२१, ७५, ९१, ९५, ९८, ६००, ०३, ०४, ०६, ०७, ०८, २९, ५५, ५९, ८४, ८५, ८६, ८७, ७६५, ८५, ८०५, ९६१, ६२, १२३८, ७०, १३३४, ३५, ४९, ५१, ५२, ५३, ५८, ५९, ६१, ६९, ७०, ७२, ८५, ८७, ९१, १६६३, ७७.
- स्वर्गकाम desirous of heaven ६०१, ८५, १६६५.
- स्वर्गलोक the heaven; celestial world ४०२, ०५, १३४५, ९२, ९४.
- स्वर्गसंस्ताव praised as heaven ७६५.
- स्वर्ग्य occupying or dwelling in heaven ४०१, १३४५, ९२, ९४, १६६७.
- स्वर्जित winning or procuring light or heaven १७२.
- स्वर्ज्य seeing light or the sun १६७९.
- स्वर्ग्य resounding; roaring; crashing; loud १०५, १३६५, ६६.
- स्वर्लोक the celestial world; heaven १६९.
- स्वर्वत् bright; shining; celestial २, १२२.
- स्वर्विद् winning or possessing or bestowing light or heaven; celestial १०६, ७०, ८८, ३६२.
- स्वध्व having good steeds ७६.
- स्वर्ग्य rich in good steeds ६.
- स्वस्र a sister १२२, २४, २०७, ९३७, ३८, ५९, १३४६.
- स्वस्रलोक the world of sisters ९५९.
- स्वस्रलोककाम desirous of the world of sisters ९५९.
- स्वसृहन् killer of a sister ९३८.
- स्वस्ति well-being; wel-fare; happily; safely; hail to २४, ७२, ८०, ८२, ९३, ९४, १६५, ७१, ३५७, ६२, ६४, ६६, ६९, ७५, ७६, ७७, ७९, ८२, ४६९, ७०, ८१, ९५, ९६, ९९, ५०३, ०८, १३७२, ९१, १४६२, १६३४.
- स्वस्तिदा conferring happiness १६३२, ४६.
- स्वस्त्ययन benediction; a *Mantra* for good luck ५१२.
- स्वस्थ self-abiding १६५५.
- स्वस्त्रीय a sister's son; nephew.
- स्वा one's own; belonging to oneself ३०३, ४२, ४१२, १०३६, १३४३, १६३४.
- स्वाङ्ग one's own limbs or body ३८१.
- स्वातन्त्र्य freedom; liberation; free-will १६६२.
- स्वादु sweet; sweetness; dainty food ३०३, ५९३, १३५०, १४६८, १६६०.
- स्वादुपरिग्रह apprehension of sweetness १६६०.
- स्वादुसंसुद् delighting in dainty food १६६.
- स्वाधी well-minded; thoughtful; devout; pious ९९.
- स्वाध्याय one's own study; vedic study ६२८, ९०, ७०२, ०४, ७१, ९८४.
- स्वाप्यय the state of sleep ११६.
- स्वाभाविक natural; original १६२०, ५७.
- स्वायम्भुव self-existent; derived from the self-existent (i. e. *Brahman*) ४१२.
- स्वायुध well-armed; having good weapons ७१, १४२.
- स्वायुस् full of vigour or life ५२०.
- स्वाराज्य independent rule; sovereignty; state of self-effulgence २०२, ४७१, ६८२, ९९, ७९१, ९६, ९७, १६६५.
- स्वार्थे for one's own sake १६५७.
- स्वाश्रम one's own or proper stage of religious life १६५६.
- स्वासस्थ sitting on a good seat ४१५.
- स्वाहा hail; hail to; an exclamation used in making oblations to gods २५, ३३२, ४१, ५६, ७९, ९९, ४००, ०६, १४, ५८, ५१६, ६४२, ४३, ९५, ८४८, ५४, १३०१, ०२, ०३, ०८, ०९, १६३४, ३५, ४३, ४५, ४६, ४७, ४८, ५९, ७१.
- स्वाहाकार the utterance of or consecration by uttering स्वाहा १२७५, १३३४.
- स्वाहाकृत consecrated or offered with स्वाहा १६३५.

- स्वित् a particle of interrogation; inquiry or doubt (generally with क्स्मि) १४, १७०, ८३, ८४, ८७, ९३, २०८, १२, ३६, ४२, ४४, ४६, ४७, ५३, ५९, ७६, ३४६, ४७, ५३, ४६८, ६९, ८५, ११२३, ७३, १२७७, १३९०.
- स्विन्न perspired; sweating ५०४.
- स्विष्ट properly sacrificed; correctly offered; a right sacrifice १३०९, १६५१.
- स्विष्टकृत् offering a right sacrifice (especially applied to अग्नि) १३०९.
- स्विष्टकृति see स्विष्टकृत् १६४८.
- स्वेद sweat; perspiration ३०३.
- स्वेदज born of or springing from sweat ५९४.
- स्वेदधारा line or streak of sweat or perspiration ३०३.
- स्वैरिन् a wanton; acting at one's own will ८७३.
- हंस swan, the sun ९५, १३२, ७२, ७३, २५०, ३११, २६, ४५१, ५०९, ८३२, १३६३, १४२७, १५७९, ९८, १६२४, ३५, ४५, ५९, ६५, ६७.
- हत killed; struck १४०६.
- हनीयस् (comparative of हन्तु) a complete shalterer (an epithet of रुद्र) १४३.
- हनु chin; jaw २४४, ४५, ६६, ३०७, ६९४.
- हन्तकार salutation with the expression हन्त १२७५.
- हन्तवे for striking or killing १६४६.
- हन्तवै for striking or killing २३८.
- हन्तु killer; one who strikes or kills १४३, १४०६.
- हय a horse ९९०, १४१२, १६५५.
- हर god *Śiva* ३८८, ९१, १५८१.
- हरत् leading; taking ४१२.
- हरस् force; impetuosity १३३६.
- हरस्वती forceful १८९.
- हरि horse; the bay steed; bay; green ५३, ५४, ६०, ८६, १३३, ६९, ७०, ७२, ७३, २३६, ५०, ७०, ७१, ३३६, ४१२, ११११, १३, ७०, १५७३, १६३७, ४०, ४५, ४६.
- हरिकेश tawny-haired १३७, ४३.
- हरिण golden; tawny १४९२, १६५९.
- हरिणी bay; greenish; ruddy; reddi २४६, ४९, ३९७, ४९९.
- हरित green; bay; steeds (of the sun of इन्द्र) direction; quarter ५४, १३, ७१, ७३, ९४, २४९, ५१, ४५०, ५१, ५२, १२०७, ३९.
- हरित green; gold; name of a teacher ५, ९०, ४३६, १३११, १६०१, ४७.
- हरिततृण a blade of green grass ६४७.
- हरितस्रज् having green garlands २५०.
- हरित्य being in the green (epithet of रुद्र) १४४.
- हरिनील green blue १३६८.
- हरिवस् having horses ५२१.
- हरिश्चन्द्र name of a king १६५३.
- हर्तु remover; who takes away ४०४.
- हर्षत lovely ५९.
- हर्षश्च epithet of इन्द्र; having bay steeds ४८.
- हर्षमाण being happy or glad ३४३.
- हर्षशोक pleasure and pain; joy and sorrow १४०२.
- हव invocation; call ३१७, ३३, ३७, ३९, ४९, ५६, ५८, ४९८.
- हवनश्रुत् listening to; invocation or call १२७.
- हविरद् consuming offerings; consumer of oblations or offerings ३५९.
- हविर्धान offering an oblation ४५९, ७३, ५०८.
- हविष्कृत् one who offers an oblation १८, २५२, ५८, ४५८, ७३.
- हविष्या drinkers of offering or libation ३५९.
- हविष्मत् accompanied by offering or oblation १४६, २३७, १४२३, १५७४, १६११, ४६.

- हविष्येषिन् name of one of the 16 sacrificial priests ४६१.
- हविस् offering; oblation ८, १०, १८, १००, ०१, २६, ५१, ८२, ८५, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, २००, ०१, ३२, ५२, ५६, ३१७, २८, ३९, ४१, ४८, ४९, ५६, ५९, ६८, ९०, ९१, ९३, ९७, ९८, ४०२, १२, १५, १९, २६, २८, ३०, ४८, ५७, ५८, ६३, ६६, ७३, ८०, ५०३, ०९, ८३, १५७४, १६०८, ४६, ५१, ६१, ६६, ७०, ७७.
- हवीमन् invocation; call १२६.
- हव्य offering; oblation २४, ५७, ६३, ६५, ७९, ९३, १३४, ६२, ८२, २००, ३३२, ४१५, ५०७, १६३५.
- हव्यदाति offering an oblation; sacrifice ५२४.
- हव्यवाह fire; carrier of oblations ३१७, ३३, ४८, ९२, ५०७.
- हव्यवाहन fire; carrier of oblations ६४, १४४९.
- हसित laugh; laughing; smile २६४.
- हस्त hand; arm ११, १२६, ३५, ३६, २४८, ३१४, ६८, ७५, ७८, ४०५, ३६, ४२, ५९, ७३, ७७, ८८, ६३८, ६८, ६९, ७४०, १०२०, ९७, ११२३, २५, १२६१, १३५४, ८७, १५०८, १६३६, ४३, ४४.
- हस्तगृहीत seized by the arm ९२४.
- हस्तवत् having hands ४८४.
- हस्तावनेजन washing of hands ४३६.
- हस्तिन् an elephant ५०८, ९४, १३५७, ६४, ९६.
- हस्तिनादप्रबोधिनी awakening or being made known by the trumpeting of elephants ४९९.
- हस्तिमुख having the face of an elephant १३४.
- हस्तिहिरण्य elephants and gold ९४६.
- हस्तीभूत turned into an elephant १२८४.
- हस्युषभ a mighty elephant ११८२, ८४, ८५, ८६.
- हाइकार a particular sound हाइ uttered while chanting a hymn ७७३.
- हाउकार a particular sound हाउ uttered while chanting a hymn ७७३.
- हायन a year ३८४.
- हायनी pertaining to the year ५०८.
- हारिद्रुमत patronymic from हरिद्रुमत ८३१.
- हिं a particular sound हिं uttered while chanting a hymn १३३१.
- हिसकधर्माभिध्यान (वेदादिशास्त्र) attention to the law which is destructive (of the वेद and of other scriptures) १६६७.
- हिसा murder; killing १६५६.
- हिक्करिक्त् constantly or frequently making the हिं sound १३३३, ४०.
- हिक्कार the sound हिं ४४५, ७७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, १३३०, ३१, ३३, ३४, ३५, ३६, ३८, ३९, ४०, ४१, ४६, ४७, ४८, ५२, ५८, ५९, ६५, ७२.
- हिक्कारभाजिन् partaker of the हिंकार ७७८.
- हिङ्कृण्वती making the sound हिं २१८.
- हिङ्कृत making the sound हिं; the sound हिं १३०३.
- हिङ्क्रियमाण utterance of the हिंकार ४७५, १३०३.
- हित beneficial; placed; deposited; installed ३३६, ६०, ६४, ४१७, ४७, ९२, ५०९, ६४९, ११६८, १६३६, ६७.
- हिततम most beneficial ६५६, ५७.
- हिता placed; deposited; fixed; stationed; name of particular artilleries of the heart; said to 72,000 in number ४४९, ६८०, १०७६, ११८७, १२०७.
- हिम year; name of one of the two fires (the other being व्रंस) १२५, ७०.
- हिमवत् the Himalaya mountain; mountain (in general) १९५, ३३६, ५०७.
- हिरण्य golden; rich in gold ३७, ११४, ३०, ५०, २६१, ९७, ३२२, ४०३, ०४, ६१, ६३, ५३१, ६९९, ७६०, ९६५, १२००, ०१, ८४,

- १३२५, ४४, ४७, १४६६, १६३३, ४०, ५८, ५९, ६५, ७६.
- हिरण्ययी golden; rich in gold ४९९, ५०१, १३०९.
- हिरण्य gold; golden २३, १२६, ५१, २४७, ९३, ९६, ९८, ४०६, ३५, ९९, ५०१, ०७, ०९, ६५०, १२९४, १३४८, ६५, ९६, १६४०, ४७.
- हिरण्यकक्ष्य having golden sides or reins ४१६.
- हिरण्यकेश gold-haired ७६०.
- हिरण्यगर्भ god *Brahman* १९४, २४७, ५५, १५९३, १६०८, ३१, ३२, ३६, ५९, ६७.
- हिरण्यज्योतिस् gold-rayed; glittering like gold २७१.
- हिरण्यत्वचस् gold-skinned १७१.
- हिरण्यद bestower of gold or wealth ३६६.
- हिरण्यदंष्ट्र having golden grinders or teeth ८२९.
- हिरण्यदन्-वैद name of a ऋषि ५३५.
- हिरण्यदन्त having golden teeth १३५५.
- हिरण्यनाम name of a prince १५१४.
- हिरण्यनिधि gold-treasure; gold-store ९६०.
- हिरण्यपक्ष gold-winged २२, ४१४.
- हिरण्यपति master or lord of gold १६४१.
- हिरण्यप्राकारा having a golden fence; with a gold covering or fence ४९९.
- हिरण्यबाहु gold-armed (epithet of god शिव) १३७, १६४१.
- हिरण्यय golden ८१, २४५, ४८, ४३५, १६४५.
- हिरण्ययी golden २४६.
- हिरण्ययोनि the source of gold २४.
- हिरण्यरूप gold-complexioned; golden १६४१.
- हिरण्यलिङ्ग marked by gold (epithet of god *Śiva*) १६४१.
- हिरण्यवक्षस् gold-bosomed (epithet of the earth) ५०७, ०८.
- हिरण्यवर्ण gold-coloured १५०, ५६, १६४१, ६४.
- हिरण्यवर्णा gold-coloured ४८९, ९९, ५०, १६४५.
- हिरण्यवस्थ golden place १६५८.
- हिरण्यशृङ्ग gold horned ४३०, १६३३.
- हिरण्यमश्रु having golden (i. e. yellow) mustaches ७६०.
- हिरण्यसंकाश resembling gold; like gold २९६.
- हिरण्यस्तूप name of a ऋषि १०५.
- हिरण्याक्ष gold-eyed ४१६.
- हिसक् hidden २२०.
- हीन apostate (said of त्रास्य) ४८६.
- हीनतर lower १४५१.
- हीना destitute; abandoned; reduced to a miserable condition ४८५.
- हुंकार the हुं sound ७७३.
- हुत offering; oblation; libation; offered १९, २०, ३४३, ९६, ४०४, ०८, ०९, ५४, ६८, ७२, ७३, ६९०, ९१, ८८२, १०४७, १११९, ८२, १२६१, ९२, १४४९, १५०१, १६४८, ४९, ६६, ७८.
- हुताशन fire, consuming oblations ४८६, ११६६.
- हूत invoked ३४३, १३५९.
- हूयमान being invoked ३४२.
- हृत्पुण्डरीक the lotus of the heart १६७३.
- हृत्पुष्कर the lotus of the heart १६५८.
- हृत्प्रतिष्ठ seated or situated in the heart ३३५, १५७३.
- हृत्वाशय-आलयेय-महावृष-राजन् name of a royal teacher १३६७.
- हृद् heart; mind ११, २०, ५९, ७७, ८०, १०५, ५८, ९०, २४१, ७२, ३०६, ८३, ४१४, ९१, ५११, ६८६, ९६०, ११०७, ९२, १२३६, १३६५, ६६, १५८७, ९७, १६०९, ११, ३१, ४३.
- हृदय heart; mind १५, २३, ११५, १६, ४४, २४५, ६०, ६६, ७०, ७६, ३१६, ३६, ४१, ४४, ४०५, १२, २५, ३४, ७३, ८०, ८१, ८५, ५०७, ०८, ३१, ३२, ८१, ८३, ९३, ६००, ४७, ४९, ५०, ८०, ९९, ८०१, ०४, ११, १२, ७९, ९५४,

- ६१, ६६, ६८, १०७४, ७६, ९७, ११७१, ७४, ७५,
७६, ८६, ८७, १२१०, २४, ४६, ६१, ७०, ७४,
१३०६, ३२, ४३, ८७, १४३६, ३८, ३९, ४०,
५६, ६३, १५७३, ९७, १६०९, ४०, ४४, ५१,
६१, ६२, ६४, ६७, ६८, ८०, ८१.
- हृदयग्रन्थि the knot of the heart १४६४.
- हृदयज्ञ who knows the heart ९२९, ३३.
- हृदयाविध् piercing the heart ७४.
- हृदय्य touching the heart; seated in the
heart (epithet of रुद्र) १४४.
- हृदय्या hearty; arising in the heart
४२६.
- हृदिस्थ situated or seated in the heart
१६११, ७९.
- हृद्य appealing to the heart (epithet of
रुद्र) १४४.
- हृड anger २१, १३५.
- हेति missile; weapon १२७, ३२, ३६, ३७,
४७, २५२, ३५४, ८२, ४८३, १६२५, ६७.
- हेतु cause; means १६७५.
- हेतुजाल group of causes; a network of
causes १६८०.
- हेमन् in the cold season (हेमन्ते) १३४०.
- हेमन्त cold season ३८४, ५०८, २२, ७७६, ८३,
१३३३, ४०, १६६४, ६६.
- हेमन्तजल्ध swallowed by i. e. who have
disappeared in winter ५०९.
- हेममालिनी having golden garlands ५०१.
- हेमन् of the हेमन्त season ४५२.
- हैमवती daughter of the *Himalaya* moun-
tain १३८१.
- हैरण्य golden १७१.
- होतृ a priest १, २, ८, ९, १३, १५, १८, २०,
२४, ७३, ९५, ९७, १००, ०४, ११, ८१, ८३,
२०६, ५२, ६६, ३४२, ९६, ४३५, ५८, ६०,
६२, ७०, ७१, ७२, ७४, ५२४, ६४६, ८४७,
१११५, १६, १८, २०, १३५६, ६१, १४२७,
१५८६, १६३४, ३५, ४५, ५१, ६१.
- होतृषदन the seat of a होतृ priest ७५९.
- होत्र होतृ and other sacrificial priests
who utter the वषट्कार; invocation; the
duty of the होतृ priest at a sacrifice
५, ३३९, ४४८, १३३५.
- होत्रक group of sacrificial priests (?)
४७२.
- होत्राविद् well-versed in the performance
of sacrifices ३५९.
- होत्राशंसिन् name of sacrificial priests=
engaged in chanting साम hymns ४६०.
- होम sacrifice; offering १६२, ३३१, १४५८.
- होमीय pertaining to the sacrifice; sacri-
ficial ८८०.
- हर a pond; lake; tank ४९१, ६३३, ३४,
१३४८.
- ह्रस्व short १४१, ६०३, १०, २३, ८५, ८७, ९०,
१६८२.
- ह्रस्वोदात्त short and accented ५२३.
- ह्रादनि thunder; thundering ८५९.
- ह्री shame; bashfulness ५२०, ७०४, १०५०,
१६६३.
- ह्रर deceit; cunning; injury १८९.
- ह्वार deceit; deception; injury १९८.

उपनिषत्काण्डस्य

अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका

अग्निः

अग्निदेवतास्वरूपं वैशिष्ट्यं च--

देवः ऋत्विक् पुरोहितश्च पृ. १; वैश्वानरो जनाधारः; सर्वाग्निमूलं च, द्यावापृथिव्योः पतिः, सर्ववसूनामाधारः, नृत्तमः = पुरुषोत्तमः २; देवानां युद्धेन साहाय्यकर्ता मनुष्यराजश्च, दस्युहन्ता अपां वर्षिता ३; विश्वकृष्टिः = सर्वजनात्मकः, भुवनानां राजा विश्वचक्षुः, सर्व-व्यापकः, तत्पूजा सत्यफला ४; देवानां मित्रवरुणार्थम्णां स्ववृत्तं अग्न्यधीनम्, सर्वत्र द्युजलवनादिष्वाविर्भवन-शीलः, होत्रादिऋत्विजः गृहपतिश्च अग्निरेव ५; सर्व-श्रीगामाश्रयः, सर्वदेवमुखं अग्निः, देवानां मर्त्यानां च भोक्तृत्वकृत्, सर्वदेवैः समन्त्रलोऽधिकश्च ८; स्तोत्राणां दातृणां च श्रेष्ठलोकदः, सर्वदेवपूज्यता, सर्वेषां साक्षी सर्वव्यापकज्योतिश्च ९; मनुष्यैः सर्वदा स्तोतव्यता, मर्त्येष्वविष्टो महो देवः ११; तमोनाशकत्वम्, अमृत-रक्षितृत्वं उभयलोकस्थितत्वं यज्ञाङ्गवेत्तृत्वं च १४; मर्त्य-स्थितामृतज्योतीरूपत्वं तन्वा वर्षमानत्वं च १५; हविर्भोक्तृत्वम्, सर्वान्तःसंचारित्वम् २०; वह्नेः तस्थाने व्यवस्थापकः वरुणः ७७; विद्युत्पुरुषस्याग्निरूपत्वम् २५५; वैश्वानररूपः अग्निः १६३२; घृतप्रियः अग्निः महो देवो वृषभः १६३५, ३६.

अग्नेरुत्पत्तिः--

अग्निजनकत्वं सोमस्य ७२; अग्नेरन्तर्धानोद्भवाधि-ष्टानं वायुः १५१, ५२; अग्नेः स्थानमापः, अग्नेर्जन्म-स्थानमापः १५६; अग्निजनकत्वमपाम् १९६; परमात्मनो मुखादग्नेरुत्पत्तिः २३३; अग्नेः प्रथमजत्वम् २७४; पृथिव्याः सकाशादग्नेरुत्पत्तिः २८६; सप्तपुरुषेभ्यश्चय-नाग्निरूपः प्रजापतिर्जातः २९१, ९२; अण्डादग्निर्जातः

२९३; प्रजापतेरग्निसृष्टिः अग्नेः सहस्रायुष्ट्वं च ३००; कर्मणोऽग्निर्जातः ३२१.

अग्नेः कार्यवैशिष्ट्यम्--

अग्निः असुमार्गेण गच्छन्तं आहुतिरूपं जीवं सुकृतां लोकं प्रति नयति पितृभ्यो ददाति च ३५९, ६०; अग्निना साधनेन देवत्वं स्वर्गः देवैः सह वासश्च ३६८; हिंसादिजनितपापनाशकोऽग्निः याजकं सुतकृलोकस्य पितृपुत्रसंपन्नस्य प्रापयिता ३७२, ७३; शरीरं दग्ध्वा मृतं सुकृतलोकस्य प्रापयिता अग्निः ३९१; अग्नयः सुकृत-लोकप्रापकाः ३९२; मधुघृतयुक्तं देवस्थानं स्वर्गं प्रति प्रापकोऽग्निः ४००; अग्निः परलोके जन्मदः ४०१; मृतपुत्रः मृतपिता चाग्निर्वैश्वानरः ४१४; दुर्गदुरित-तारकोऽग्निः १६३४; रक्षोघ्नः अग्निः १६४३; चित्याग्निः २६-३८.

अग्नेराध्यात्मिकस्वरूपादि--

अग्निधारिणी वाक् २३७; वाचि अग्नेः प्रवेशः ३२२; अध्यात्ममग्नेः प्राणरूपत्वम् ३२९, ३०; अग्निरूपत्वं मन्योः ३४२.

अन्यदेवतासंबन्धः--

अग्न्यात्मकत्वमिन्द्रस्य ६४; अग्निरूपत्वं अग्नौ स्थितिश्च रुद्रस्य १२८; अग्ने रुद्रमूर्तित्वम् १५०; संवत्सरात्मका-द्भूतपतेरग्निः कुमारो रुद्राख्यो जातः, तस्य शर्वादीनि अष्ट नामानि २९६, ९७; अग्नेरुद्भवस्थानं यस्याङ्गं जिज्ञास्यं स स्कम्भः, अग्नेर्गमनस्यान्येषां च परिवर्त-नानां प्रेप्साविषयः स्कम्भः २४६; अग्नेरधिष्ठानं स्कम्भः २४७; अग्न्यनुगतो ब्राह्मणः ४५२; अग्नित्रयेणानुगतो ब्राह्मणः ४५३; अग्निविभूतिः रोहितः १७३; अग्नि-रूपत्वं रोहितस्य १७४; अग्निजनकः तज्जन्यश्च रोहितः

१७५; अग्निव्यापकः रोहितः १६९; अग्निस्वरूपः सविता १०८.

सर्वदेवतात्मकः--

इन्द्रो विष्णुर्ब्रह्मा ब्रह्मणस्पतिर्वरुणो मित्रोऽर्यमांश-
स्त्वष्ट्रा सर्वजनबलं रुद्रो मरुत्संघः पूषा सविता भगो
विश्वपतिर्शानदः सर्वोत्तमः पिता भ्राता पुत्रः सखा ऋभुः
प्रशस्तान्नपतिः यज्ञशिक्षयिता अदितिर्भारतीळा सरस्व-
तीत्येतत्स्वरूपः अग्निः ६-८; सर्वदेवमयत्वम् १२, १३.

परमात्मलक्षणयुक्तः--

विश्वसृष्टिकर्तृत्वं विश्वप्रकाशकत्वं च १३; स्वात्मतया
साक्षात्कृतपरमात्मरूपता १०-११; सर्वदेवाभिलक्ष्य-
मिन्द्रियमनसोरन्तर्ज्योतिरग्ने रूपं वाङ्मनसयोरगोचरत्वं च
१५; सर्वदेवनमस्यत्वं अप्रमेयत्वं च, अग्नेः सर्वज्ञत्वम्,
पापिनां हन्तृत्वम् १६; उपासकस्य तद्भावविषयः
१७; देवभक्तसंबन्धः १७-१८; विभुत्वं सर्वा-
न्तरत्वं विश्ववित्त्वममृतत्वं च १८; बहुरूपैः कृत्स्न-
जगत्प्रवेशः; विश्वभक्षकत्वं दातृप्रतिग्रहीत्रादिरूपत्वं
कामरूपत्वं च १९; मनःसंवेद्यत्वम् २०; सर्वमर्त्यहृत्सु
प्रवेशः अमृतरूपत्वं च २०, २१; दिव्यसुपर्णरूपत्वं
स्वर्गदत्त्वं चिद्रूपत्वं च २२; सर्वव्यापित्वं विश्वायूरूपत्वं
स्वर्गमार्गरूपत्वं च २३; सतां पालकत्वं वाङ्मध्यमारूढत्वं
च, सर्वदेवमहिमकारित्वम् २४; त्रैलोक्ये तत्र तत्र
अग्नेः शिवास्तन्वः, महिमा, अनन्तं ज्योतिश्च २४, २५;
विश्वद्रष्टृत्वं विश्वदेवत्वं च, विभुवैश्वानरज्योतिर्भाव-
प्रार्थना २५; चित्यसावित्राग्नेः परमात्मरूपत्वं सर्वदेवता-
मयत्वं अमृतहेतुत्वं उपास्यत्वं च २६-२९; चित्याग्नेः
छन्दोदेवतात्मकविराट्पुरुषत्वम् २९, ३०; चित्याग्नेरेका-
क्षरात्मकविश्वत्मकब्रह्मरूपत्वम् ३०, ३१; चित्याग्नेर्वागा-
त्मत्वं आदित्यात्मत्वं आदित्यपुरुषरूपत्वं अमृतत्वं च
३१-३८; वैश्वानराग्नेर्विश्वरूपता ३८-४२; अक्षरात्मनो-
ऽग्निरूपत्वम् ४२, ४३; अग्न्यादित्यात्मन एकस्य पितु-
श्चिन्तनीयत्वम् २१३; अग्न्यात्मकः परमात्मा २६७;
अग्नेर्ब्रह्मणा संबन्धः ११०३-१२ इत्यत्र द्रष्टव्यः;
अग्निरूपत्वं ब्रह्मणः १६००; अग्निरूपत्वं परमात्मनः

१६३०; अग्नेर्ब्रह्मरूपत्वम् १६५७; अग्निरूपास्यं ज्येष्ठं
ब्रह्म २४८.

अग्निविषयिणी उपासना--

अग्निदृष्टिविशिष्टं रथन्तरसामोपासनम् ७८१; अग्नि-
मुखेन वसुभोग्यामृतोपासनम् ७९५, ९६; अग्नित्रय-
विद्या ८३६-३८, १३८७; 'वाक् धेनुः अग्निर्वत्सः'
इत्युपासना १३५४; स्वर्गचित्याग्निविद्योपदेशः १३९२-
९४; अग्न्युपासनया उभयलोकजयः मृत्युतरणं च
१६४६; संवत्सरप्राणादिरूपैः चित्याग्न्युपासना १६६४;
विविधा अग्न्युपासना १६६४, ६५; अग्न्युपस्थानम्
१६६५; अग्निप्रार्थना १६४९; अग्नेः उपचर्या १३५४;
जातवेदसः श्रीकीर्तिमेधानृण्यादिप्राप्त्यर्थं प्रार्थना १६४७.

अण्डम्

ब्रह्माण्डम्--

अप्सु अण्डं, अण्डादग्निः, अश्वः, रासभः, अग्न्या-
त्मिका जलसहिता पृथिवी च जाता २९३, ९४;
प्रजापतेर्विधान्यण्डानि जातानि, तेभ्यो वाय्वादित्य-
चन्द्रमसां अन्तरिक्षद्युदिगादीनां चोत्पत्तिः २९४, ९५;
अद्भ्यो हिरण्यमण्डं जातं, तस्मात् पुरुषः प्रजापतिः
२९७, ९८.

अथर्वशिरः

शिरः देवकोशः प्राणरक्षितः १०; अथर्वशिरसः
अध्ययनविधिः फलनिरूपणसहितः १६८१.

अदितिः

अदितिरूपः अग्निः ८; उषसः स्वरूपेण स्थिता
अदितिर्विराट् १६१, ६२; सर्वं खल्विदमदितिः १६४;
सत्यस्य पालयित्री, अविनश्चरी, सुव्रतानां माता, द्युपृथि-
वीरूपा, अन्तरिक्षधारिणी, विश्वेषामाधारः माता
च १६५; देवजननी १६५, ६६; अदितेरुपस्थे
दक्षस्य जन्मनि सति सदसतोः वृषभस्याग्नेश्च प्रथमजस्य
संभवः २७४; अदितेर्दक्षः देवाः मर्त्यप्रजानां पतिर्माता-
ण्डश्च जाताः, दक्षाच्च अदितिर्जाता २७५, ७६;
अदितिनाम्नी उपासनाविषयभूता प्रजापतिसंहिता ६०८;

भार्गवस्य अदितिरूपा संहिता ६८६; मृत्योरदितित्वं सनिरुक्तम् ९९७; अदितित्वगुणकं वागुपासनम् १३४१, ४२.

अधर्मस्वरूपम्

अधर्मस्वरूपम् ४८२-८९.

अमृतम्

अमृतवक्त्रनिग्राहकपाशधरो वरुणः ८५; असद्वादिनां दुर्गतिर्नाशश्च ३५४; अमृतेन स्वर्गलोकात् च्युतिः ४०२; मरणोत्तरं सत्यामृतविवेचको राजा यमः ४१६, १७; अमृतोक्तिनिषेधः ५३८; सत्यानां कामानाममृत-मपिधानम् ९५९; अमृतं ब्रह्मलोकप्रव्यूहः ९६०; अमृता-भिसंभ्रस्य हानिः ९२४; अमृतमभिभूयते १४७८; अमृत-वादी समूलः परिच्छुष्यति १५१४.

अन्तरिक्षम्

लोकपदं द्रष्टव्यम्.

अन्नम्

अन्नं विश्वतत्त्वम्--

विश्वस्य अत्ता आद्यं च इति विभागः, प्राणस्यान्नस्य च संबन्धः ४२, ४३; अन्नं सर्वकारणं, अन्नं सर्वसाधनम्, भोज्यभोक्तृरूपविश्वविभागः, भोज्यभोक्तृप्रपञ्चात्मकः पुरुषः, पुरुषोऽन्नात्मकः ५२८-३६; अन्नमात्मा, भोज्यभोक्तृरूपः विश्वविभागः; अन्ने ब्रह्मदृष्टिः, अन्न-महिमा १६५९-६०; अन्नं ब्रह्म ७३७, १६५७; तेजो-बन्नात्मिका सृष्टिः ८९०-९९; अन्नं पृथिव्याः ५०६, ०७. अन्नस्याध्यात्मिकविचारः--

अन्नेऽपश्रितः अत्ता, शरीरमन्नम् ११६, १७; प्राणानामात्मनश्च संधानकरमन्नम् ३१६; अन्नसहकृताः प्राणा इन्द्रियाख्या आत्मनोऽधिष्ठानम् ३१८; अन्नरूपत्वं प्राणापानयोः ३२५; अन्नरसधेनुर्वाक् ३४६, ४७; अन्नमयं मनः ८९९-९०१.

अन्नसंबन्धि कर्तव्यम्--

अन्नोत्पत्तिकर्तव्यता ५१६; आहारशुद्ध्यादिक्रमेण मोक्षः ९४९; भोजनविधिः १६४८-४९; यज्ञेन अन्नप्राप्तिः १६६६.

अन्नसंबन्धिन्य उपासनाः--

अन्नब्रह्मोपासना तद्भ्रतानि च ७३९, आपदि प्रतिषिद्धानानुमतिपरमाख्यानम् ७६७-प्रतिहारानुगतान्नोपासना ७७१; सप्तान्नविद्या-साध-पाप्मसहितमन्नं, द्वे देवान्ने, पशूनामन्नं, अन्नानामक्षर-आत्मनः प्रजापतेरन्नानि मनोवाक्प्राणा आधिदैविका-रूपाः १०४६-५३; अन्नप्राणविषयिणी उपा-१२७७; भूरादिव्याहृत्यात्मकस्यान्नस्य अग्न्यादिदेवता-पितृभ्यश्च समर्पणम् १६३४.

अन्नस्य देवतासंबन्धः--

अन्नस्य रुद्रमूर्तित्वम् १५१; अन्नादोऽन्नपति-रोहितः १७३; मृत्योरन्नता ११२३; चन्द्रमसः रयि-१४९१; अन्नस्य प्रजापतित्वम् १४९५.

अमृतम्

अमृतस्य स्वरूपं विविधानि रूपाणि च--

अमृतं ब्रह्म ६९९, १२४२, १३३७, १४६-६८, १५१४, १६८१; अमृतं मर्त्यं च ब्रह्मणो रूप-१०८२, ८४, ८५; अमृतः पुरुषः (आदित्ये स्थि-इत्यपि वर्णितः) ६९९, १२०१, १४४०, ५२, १६३-४०, ६५; अमृतमेको देवः ३३२, १६२५; प्रा-प्राणा वा ४०१, ०३, ६५८, ५९, ७१, १०५८, ६-१२३६, १४९८, १६५९; देवानाममृतं प्रजानाम-२६८; अमृतमात्मा अमृतो वा ८३९, ९६१, ७१, ७-७५, ७६, ८३, १०६६, ११०३, ०५, ०६, ०-०८, ४८, ५२, ५३, ५४, १२४२, ५८, १४२-४०, ६३, ९४, १६५४, ५५; अमृतस्य सेतुरात्-१४६१, १६२६; अमृतं भूमा ९४४; अमृतं सत् ९६६-अमृतं सत्, ज्योतिश्च १०१४; अमृतं देवता ११७-अशरीरममृतम् १३६६, १६५७; त्रयी विद्या अमृत-४९३; अमृता वेदाः ७९५; अमृतं छन्दांसि ६९५-उदीथं देवेभ्योऽमृतम् १३३३; अमृतं प्रणवः ७५८-१३३२, ६६; अमृतं विद्या १६१२; ज्योतिः ११-मनः अमृतं ज्योतिः ३३४, १५७३; अमृतं सन-तनोऽश्वत्थः १४३३; अमृतरूपत्वं रोहितस्य १७५-अमृतं वायुः १२८४, १३२७; अमृता देवाः १०२१

आदित्योऽग्निः प्राणश्चामृतम् ५१८; अमृता आपः
७९३, ९४, ९५; अमृतमापः १६४३, ४४, ४८.

अमृतसाधनम्—

अमृतत्वस्य अमृतस्य वा प्राप्तिः २८,
२९, ३२, ११८, २७३, ३०२, ५६, ६७, ६८,
८५, ९०, ४०३, ०४, ०५, ६४, ७९, ५५९, ९१,
९५, ६५३, ७५८, १०९१, १२३६, ४१, ६०,
१३३१, ३५, ६७, (सतनुरमृतो भवति) ७०,
७४, ७९, १४२१, ३४, ३६, ३८, ३९, ८७,
१५०४, १७, ९२, ९४, ९६, ९७, १६०९, ११,
१३, ६९, ७३, ७८; अमृतस्य भागिनः ३५२, ४७५;
अमृतं विद्यया १३२२, ७८, १६६७; अमृतं
असंभूया १३२४.

अमृतस्य स्थानं देवता च—

अमृतगोप्ता अग्निः वैश्वानरः १४, २६१; दैवममृतम्
३१; दिवि निहितममृतम् ६८, २३१, ८०२; अमृत-
गोप्ता वरुणः ८४; अमृतस्य गुह्यं धाम १०७, २५७,
१६३१; अमृतं मृत्यौ ११२, १३; द्यावापृथिव्यौ
अमृतधारिण्यौ १२२; देवेभ्योऽमृतदो रोहितः १६७;
अमृतच्छायः प्रजापतिः १९५; अमृतत्वस्य ईशानः
पुरुषः परः २३१; अमृतेन आवृता पूः २४५; पुरुषे परे
अमृतं मृत्युश्च, अमृतस्थाश्रयः स्कम्भः २४७; ब्रह्मणि
अमृतम् २६०; अमृतकोशः २६५; अमृतस्य पूर्णा कला
२६९; वागक्षरममृतस्य नाभिः ३४८; अमृतस्य
नाभिर्योनिर्वा स्थानं वा ३४९, ४२२, २५, २७, ३२,
४७, ७७, ५०७, ७४०, ९५, ९६, ९७, ९६०,
१६१९, ३६; अमृतस्य लोकः ३७६, ९३, ९९,
५१७; अमृतं देवेषु १३६३; अग्नौ द्यावावादित्ये
प्राणेऽन्ने वाचि अमृतान्यक्षराणि १३७१; अमृतं कर्मसु
१४४७; अमृतमात्मस्थम् १६१९; अमृतं प्रणवे
१६६२; आदित्यस्य मध्येऽमृतम् १६६५, ६६.

अरिष्टदर्शनम्

अरिष्टदर्शनानि ६१६, १७; स्वप्नारिष्टदर्शनानि
६१७, १८; अरिष्टदर्शनविद्या ६८८, ८९.

श. को. ५२

अविद्या

विद्या अविद्येति विभागः १२४०, १३२२, ९९,
१६६७; सर्वात्मरूपपरमपुरुषस्य हृदि उपलब्धिः
अविद्याहानिकरी १४५९; अविद्येशः परमात्मा १६१२.

आत्मपदे आत्मज्ञानविषयो द्रष्टव्यः ।

असत्

सदसद्भिन्नं सलिलरूपं प्रथममासीत् २४६; असत्
यदन्तःस्थितं स स्कम्भः, असद्रूपशाखः स्कम्भः, बृहतां
नाम देवानां जनकमसत् स्कम्भस्याङ्गम् २४७;
असद्योनिविष्टतिकृत् ब्रह्म २५८; अदितेरुपस्थे दक्षस्य
जन्मनि सति सदसतोः संभवः २७४; असतः सत्
जातम् २७४, ७५; असतस्तपःसंयुक्ताद्धूमादिसृष्टिः
२८८, ८९; सृष्ट्यादौ प्रथममसत्, असतो मनः २९०;
सृष्ट्यादौ असत् सप्तप्राणात्मकं इन्द्राख्यमध्यमप्राणसहितं,
ततः सप्त पुरुषा जाताः २९०, ९१; असतः सकाशा-
दादित्यान्ता सृष्टिः ८२१, २२.

असुराः

असुराणामञ्ज उत्पत्तिः १६०; असुराणामुपजीवन-
दोग्ध्री विराट् १६३; असुरेभ्यः परः विश्वकर्मा १८७;
प्रजापतिरात्मनः सकाशादसुरान् सृष्टवान् २९९; मेधा
असुरैरुपासिता ३४४.

आकाशम्

आदिभूतस्याकाशस्य स्वरूपं लक्षणं कार्यं च—

आकाशः वायुस्थानम् ११९, ६००, ८४; अन्तरिक्ष-
माकाशः १५२; आवपनमाकाशः, आकाशे हीदं सर्वं
समोप्यते ५५७; पञ्चानां भूतानामेकतमम् ५५७, ९४,
६८७, ७०६, १४९७, १५०८; आकाशं प्रकाशरूपं
ऋतुयोनिः ६३७; आकाशं भूतम् ७०१;
आकाश अन्नादः ७३९; आकाशस्तेजसो भूयान् ९३५;
आकाशात् वाय्वभ्रविद्युस्तनयित्वूनामुत्थानम् ९७८;
शरीरलयस्थानम् ११२५; द्यावापृथिव्यादि भूतं भवत्
भविष्यच्च आकाशसूत्रे ११५८, १३३९; भूताकाशो
देवः १४९७.

ब्रह्मण आत्मनोऽवरं कार्यारमकं शरीरं च--

सूर्यार्थमाकाशस्य विस्तारयिता वरुणः ७७; आकाश-
शरीरः विष्णुः ९१; ब्रह्मणा आकाशमभिपन्नम् ११९;
आकाशस्याधारः प्रजापतिः १९४, ९६; आकाशात्मा
आत्मा २६१, १६६१; आकाशशरीरं ब्रह्म ६९९;
आत्मन आकाशं संभूतम् ७०६; आकाशमक्षरे
आश्रितम् ११५९, ६५.

आकाशः परमार्थरूपं ब्रह्मतत्त्वम्--

परमव्योमरूपः परमात्मा २२३, आकाशात् सर्वो-
त्पत्तिः, तस्मिन् सर्वल्यश्च ७६६; नामरूपयोर्निर्बोधा
आकाशो ब्रह्म ९८३; खं ब्रह्म १२६६; आकाशः
सुष्ट्यादिः १३३६, ३७.

आकाशविषयकमुपासनम्--

आकाशं वैश्वानरस्यात्मा (आत्मा = शरीरमध्यभागः)
इत्युपासना ४०, ८७५; आकाशस्य 'सर्वम्' इत्युपासना
७४०; आकाशो ब्रह्मेत्युपासना ८१८-२०; आकाश-
मालम्ब्य ब्रह्मोपासना ८३५.

आकाशस्याध्यात्मिकं रूपम्--

अन्तर्हृदयाकाशः अन्तराकाशो वा ११५, ५३,
६००, ९९, ८०३, ९५२, ५४, १०७४, ८५, १२४६,
१५०२, १६५८; परमे व्योम्नि स्थिता ब्रह्मरूपिणी वाक्
२२५; मूर्धनि आकाशस्य प्रवेशः ३२२; प्राणा आकाशाः
४०३, १३५३; आकाशः प्राणेन विष्टब्धः ५३८;
पुरुषे पञ्चात्मके खानि आकाशाः ५६१, ९८०;
अन्तराकाशो प्राणः ६००, ८४; आकाशः प्राणमयस्यात्मा
(आत्मा = मध्यभागः) ७१४; विश्वोपेतः अन्तराकाशः
९५४, ५५.

ब्रह्मपदमपि ११०३-१२ द्रष्टव्यम् ।

आकृतिः

सुभगा देवी, विसृज्य माता, मनसि प्रविष्टा,
आङ्गिरसबृहस्पतिप्रदेया ३४५.

आत्मा

आत्मपदार्थः--

प्राणो वायुर्वा २५, १५१; आत्मा अस्मत्पदस्यार्थः
२७, १०२९ इ०; आत्मा अवयवी सेन्द्रियश्च पुरुषः ३०,
३६, २६१, ५५७, ८९, ९०, ७०१, १४-२०, ८७३,
७६, १०१६, ४१, ४२ इ०; आत्मा स्वयमित्यर्थे २५७,
३००, ०४, ०६, १८, १९, ४७०, ८९६ इ०;
पृथिव्यादीनि भूतान्यात्मा ५५७; आत्मा शरीरस्य
मध्यभागः ७०६ इ०; नामरूपकर्मात्मक आत्मा, सत्यस्य
सत्यम् १०६४-६६; आत्मैकज्योतिः पुरुषः ११८९-
९२.

अन्तरात्मा परमात्मा वा--

प्रज्ञात्माऽमर्त्यः २०८, १९, २३, ६०-६२, ५९१,
९३-९५, ६५३, ६४, ६५, ६८-७२, ८०९-१२,
९१३, ६१, ६२, ८०, ८१, १०२७, १०९०-
११०३, ३३, ७६, ८९, ९२, १२०२, १२,
१४, ४६, ४७, ५५, ५९-६५, १४०५, १४,
३५, ३६, ६१, ६२, १५०८, ०९; शरीरधरः
प्राणरूपोऽशरीर आत्मा २०८; ब्रह्म प्रजापतिः
पुरुषः परमात्मा वा सुष्टौ प्रविष्टो जीवात्मा २१४, ६६
-६८, ३२२, ३३, ५८५, ७२०, ८९३, ९६, ११११,
१३६६, १६५४, ५५; अमर्त्योऽप्रमेयः प्रमेये
मर्त्यदेहे संस्थितः २२३; आत्मनो हृदये स्थितिः
२६०, ९३०, ११९२, १५०२, १६६२; अग्निन्द्रियो-
ऽपि इन्द्रियव्यापारकर्ता २६३; हस्तिरुदितादिक्रियायुक्तः
मृतसजीवाद्ययुक्तः विदेहः सतृष्णोऽतृष्णोऽचेतनश्चेतनः
२६४; निरवयवोऽप्यवयवकर्मकर्ता २६५; अहमादिष्ट
आत्मा एव प्रजाजनकः २७९; प्राणानामात्मनश्च
संधानकरमन्नम् ३१६; अन्नसहकृताः प्राणा इन्द्रियाख्या
आत्मनोऽधिष्ठानम् ३१८; आत्मनि ब्रह्मणः प्रवेशः
३२२; आत्मा सर्वथाऽभिव्यक्तो वाङ्मयः स एव सत्य-
मयः ३४७; पञ्चविधाः पुरुषरूपा अन्नमयप्राणमयमनो-
मयविज्ञानमयानन्दमया आत्मानः, आत्मपञ्चकादभ्यन्तर-
तमं ब्रह्म ७१४-१८; हृदयस्थस्य सत्याख्यस्याऽऽमनः
स्वरूपेणामिनिष्पत्तिः परमज्योतिःसंपत्त्या ९६०-६२;

स्य सप्राणस्य आत्मा प्रतिष्ठा ११७६; इन्द्र इति प्रसिद्धो
त इन्धो नाम दक्षिणाक्षिण्यः पुरुषः विराडाख्य-
सहितः हृदयाकाशस्य आत्मा सर्वदिग्रूपप्राणकः
ङ्गः नेति नेति प्रतिपादितः ११८६-८९; आत्मैव
प्रकाशः सर्वप्रकाशकः ११९२, १२०२, १४३२;
लोकस्यः विज्ञानमय आत्मा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति-
री, स एव अपहृतपाप्मा अभयः स्वयंज्योतिः
ो द्रष्टा अविनाशी ब्रह्मलोकरूपः परमानन्दः,
नेनः अकामहतः श्रोत्रिय एव परमानन्द-
ब्रह्मलोकः ११९२-१२१७; आत्मैव रूपरसादि-
कवृत्तिप्रकाशकः स्वप्नजागृतिसाक्षी जीवरूपः भूत-
ानः सर्वरूपः १४२१-२३; शरीराधिष्ठाता,
गुह्यता प्रातिस्विकरूपेण, प्राणापानप्रेरकः सर्वेन्द्रिया-
प्राणापानाश्रयः देहनाशानन्तरमवशिष्टः आत्मैव
१-२८; आत्मा प्राणकारणम् १५००; जागृति-
बुद्धिस्थानेषु स्थित आत्मा उपाधिभेदेन भिन्नः
१-२३; अचेतनस्य शरीरस्य प्रचोदयिता पुरुष-
वेतामात्रः विश्वाख्यः प्रजापतिः क्षेत्रज्ञः संकल्पा-
याभिमानलिङ्गः आत्मा १६५४; प्रजापतिः स्रष्टा
ण सृष्टप्रजासु प्रविष्टः वैश्वानरामिरूपो भोक्ता
यस्थो रथी आत्मा १६५४, ५५; सितासित-
रनभिभूतो गुणावृतः ऋतभुक् आत्मा १६५५;
च आत्मनः स्वरूपम् १६५९; हृदन्तज्योतिः
१६६२; इन्द्रियाणां उद्गमहेतुः नियन्ता च
इन्द्रियबुद्ध्यादीनि आत्मलिङ्गानि १६६३, ६४.

मन उत्क्रमणम्--

पादात्मन उत्क्रमणम् ३५२-४१७, ६६६, ६७,
३१, ९१८, ९९, ११९२-१२१२, १२१९-
२८, २९, १६५५, ६३; आत्मनो जन्मत्रयम्
१.

--

मा अग्न्यादिदेवरूपः १-२७३; चित्य-
परमात्मरूपत्वम् २६-२९; द्यावापृथिव्योर्जनकः
प्रेष्ठः २०५; षण्णां लोकानां धारकस्य अजस्य

एकविधरूपं जिज्ञास्यम् २०८; षण्णां लोकानामेको
धारकः २१०; चिन्तनीयः अग्न्यादित्यात्मा एकः पिता,
मनसः कारणं चिन्त्यम्, भोक्ता द्रष्टा च एकाश्रितः
२१३; विश्वस्य स्वामी प्रज्ञावान् अमृतभाजामाश्रयोऽत्र
पुरुषे प्रविष्टः २१४; आत्मा, मनसा द्रष्टा, गूढः, ऋतस्य
प्रथमजेन संगतः २२२; सर्वदेवाधिष्ठानं परमं व्योम
ऋक्प्रतिपाद्यमक्षरं ज्ञेयं च २२३; परमे व्योम्नि स्थिता
विश्वजीवनाक्षरमूलभूता विश्वसलिलसमुद्रजननी ब्रह्म-
रूपिणी वाक् २२५; एकः सन् सर्वदेवात्मकः २२७;
ऋषयो मन्त्रकर्तारो विश्वं ऋचि कल्पयन्ति, तेषां ब्रह्मैव
विश्वजीवनम् २३०; (१) अपरिमितः पुरुषः सर्वाति-
शायी, सर्वात्मा, अमृतत्वस्वामी, अमृतत्रिपात्, एकां-
शेन जगद्रूपः; (२) विराट्; (३) पुरुषः विराड्जन्यः,
हविः सर्वमेघस्य देवकृतस्य त्रयीकारणस्य; (४) चातु-
र्वर्ण्यात्मकावयवसंपन्नः स्वाङ्गैभ्यः चन्द्रमसूर्येन्द्राग्निवाय्व-
न्तरिक्षद्युभूमिदिशां जनकः २३०-३४; धारकौ मात-
रिश्वना सहितौ घर्मौ सुपर्णौ, वस्तुतः एक एव सुपर्णः
ऋषिभिर्बहुधा कल्पितो यज्ञियः २३४-३६; ज्येष्ठं 'तत्'
इति निर्दिष्टं इन्द्रस्य जनकम् २३६; अहमादिष्ठा सर्वा-
त्मरूपा वाक्, रुद्रवस्वादित्यविश्वदेवरूपेण संचरन्ती,
मित्रवरुणेन्द्राग्न्यश्विसोमत्वष्टृपूषभगधारिणी, ईश्वरी, यज-
मानाद्यर्थद्रविणधत्री, यज्ञियानां प्रथमा, भूतजातेषु
आत्मानं प्रवेशयन्ती, दर्शनश्रवणभुक्तिजीवनव्यापार-
प्रयोक्त्री, यदज्ञानादुपक्षयोऽज्ञानिनां, देवमनुष्यप्रियवाचां
वक्त्री, ऋषित्वक्षत्रब्रह्ममेधानां विधात्री, रुद्रस्यापि प्रे-
यित्री, द्यावापृथिव्योराविष्ठा, द्युजननी, सर्वभूतस्थिता
भूतजननी, द्यावापृथिव्योः परा २३७-३९; सदसत्परं,
रजसो व्योम्नश्चातीतं, अम्भसा विरहितं, अनावरकमा-
वरणीयाभावात्, अमृतमृत्युशून्यं अहोरात्रविवर्जितं परम-
मेकमेव अवातं चेतनं, अलक्षणं तमोरूपं गूढं, सलिला-
त्मकं विभु तपसा जन्मशीलं, कामात्मकसद्बीजधरं,
विततरश्मिधराणां रेतोधराणां महतां जन्मदं, ऐहिकभोगा-
मुष्मिकप्रयाणकरं, देवानामप्यर्वाचीनत्वादविज्ञेयं विस्फुटि-
कारणं, परमव्योमाध्यक्षस्याप्रमेयसर्गस्थिति २३९-४३;
अहमादिष्ठः, जलसूर्यविश्वदेवकर्मणां संप्रदानं, विश्व-

विवेककर्ता, सर्वकर्ता २४३-४४; पुरुषशरीरावयवानां विचित्रसंनिवेशस्य कर्ता, पुरुषस्य प्रियाप्रियानन्दार्ति-मयमतिसत्यानृतादिवृत्तीनां प्रेरकः, धमनीगतरसनाम-रूपकर्मप्राणायुर्वलजवरतोमेधायज्ञश्रद्धाऽमृतमृत्युमनसामा-धाता, पुरुषभोग्यजलाहोरात्र्युषःसायंभवानां दाता, द्यु-भूमिपर्वतपर्जन्यसोमेषु पुरुषकर्मसु च वर्तमानः जिज्ञास्यो देवः २४४, ४५; श्रोत्रियपरमेष्ठयज्ञीनां पुरुषं प्रति प्रापकं संवत्सरप्रमातृबुद्धिदं पुरुषात्मकं द्युभूमिविधातु अन्तरिक्ष-स्वरूपं सर्वतः स्थितं ब्रह्मैव जिज्ञासाविषयः, मूर्धहृदय-संयोजकः अथर्वाख्यः पवमानः शीर्ष्णं उपरि इन्द्रिय-प्रेरकः, आथर्वणस्य देवकोशस्य शिरसोऽन्नस्य मनसश्च रक्षिता प्राणः, अमृतावृतायाः पुरः अधिष्ठातृ विभु-पुरुषात्मकं दीर्घायुष्टुवाव्यङ्गत्वादिफलकज्ञानविषयो ब्रह्म २४५; अष्टचक्रनवद्वारदेवपुरे प्रतिष्ठिते हिरण्यमयस्वर्गरूपे ज्योतिरावृते देवकोशे स्थितं यक्षरूपं ब्रह्मविद्म्यं ब्रह्म २४६, ४६; तपसः ऋतस्य श्रद्धायाः सत्यस्य चाश्रय-भूतानि, अग्नेर्मातरिश्वनश्चन्द्रमसश्चोद्भवस्थानानि, भूम्य-न्तरिक्षद्युतदुत्तरभागाधारभूतानि च यस्याङ्गानि जिज्ञा-स्थानि सः, अग्नेर्मातरिश्वनः अपां च गमनस्थान्येषां परिवर्तनानां च प्रेप्साविषयः, अहोरात्रार्धमासमासर्तुसंव-त्सराणां गतेः प्रेप्सागोचरः, प्रजापतेराश्रयः प्रजापतिना सृष्टेषु अधममध्यमपरमेषु विश्वरूपेषु प्रविष्टः, सहस्रधा भविष्णुः एकौऽशः अप्रविष्टश्च एकौऽशः यस्य जिज्ञास्यः सः, लोककोशब्रह्मजलसदसन्ति यदन्तःस्थितानि सः, तपोव्रतर्तश्रद्धाजलब्रह्मणामाधारः, भूम्यन्तरिक्षद्युसूर्याग्नि-वायुचन्द्रमसामधिष्ठानं, त्रयस्त्रिंशद्देवाश्रिताङ्गः, ऋक्साम-यजूंषि मही प्रथमजर्षयः एकर्षिश्च यत्रार्पिताः सः, अमृतस्य मृत्योश्चाश्रयः समुद्रनाडीयुक्तः प्रद्विगुरुप्रथम-नाड्याश्रयः यज्ञाधारः पुरुषः, पुरुषाश्रितब्रह्मज्ञाना-धीनपरमेष्ठिज्ञानाधीनप्रजापतिज्ञानाधीनज्येष्ठब्रह्मज्ञानाधीन-ज्ञानः, वैश्वानरशिराः अङ्गिरश्चक्षुः यातुरूपाङ्गः, ब्रह्म-सुखः मधुकशाजिह्वः विराड्रूपोधाः, ऋग्यजुषां जन्मा-धारः सामलोमा अथर्वाङ्गिरोमुखः, जनोपास्यासत्सद्रूप-शान्तः, आदित्यरुद्रवसूनां भूतभव्यानां सर्वलोकानां च प्रतिष्ठा, त्रयस्त्रिंशद्देवरक्ष्यनिधेः जिज्ञास्यः पतिः, येषां

प्रत्यक्षज्ञानेन ब्रह्मवित्त्वं तैर्ब्रह्मविद्देवैरुपास्यं ज्येष्ठं ब्रह्म, बृहद्देवानां जनकासत्स्वरूपाङ्गवान्, ब्रह्मविज्ज्ञेयत्रयस्त्रि-शद्देवानामाश्रयः पुराणाङ्गधरः स्कम्भः, सर्वव्यापकपरम-हिरण्यगर्भीयहिरण्यस्य लोके प्रसिञ्चनकरः, लोकानां तपसः ऋतस्य चाधारः इन्द्रः, नाममात्रगम्यः पूर्वः सूर्यादुषसश्च प्रथमजः स्वराज्यगः भूतेभ्यः परः अजः, भूमिप्रमं (पादं) अन्तरिक्षोदरं द्युमूर्धं सूर्यचन्द्रमश्चक्षुः अग्निरूपास्यं वातरूपप्राणपानं अङ्गिरश्चक्षुः दिग्गुरुप्रज्ञान-करणं ज्येष्ठं ब्रह्म, द्यावापृथिव्यन्तरिक्षप्रदिशां धर्ता विश्व-भुवनविष्टः, तपोजात एव प्रातलोकस्वाम्यः, अविरत-गमनैः वायुमनोजलैः प्रातव्यं जिज्ञास्यं सत्यं, सलिल-पृष्ठे स्थितं तपःकर्तृ भुवनमध्ये वर्तमानं महद्यक्षं, परितो व्यातशाखः सर्वदेवाश्रयो वृक्षः, देवैर्बलिना सदा पूजितः विमिते स्थितोऽमितः प्रजापतिज्योतिषामाश्रयः, अपहत-तमाः व्यावृत्तपाप्मा स्कम्भः ज्येष्ठं ब्रह्म २४६-४८; भूतभव्याधिष्ठाता स्वर्गस्य एक एव स्वामी ज्येष्ठो ब्रह्मा, द्यावापृथिव्योर्विष्टम्भकः सर्वप्राण्याश्रयः स्कम्भः, प्रजाश्रयः अर्कः रजसो विमानः बृहन् दिक्षु प्रविष्टः हरितः, संवत्सररूपः आविष्कृतरूपोऽपि गूढः, प्राण्याश्रयो मह-त्पदं, भुवनजनकव्यक्तार्थं गूढार्थं च चक्रं, अष्टदृग्गमनः दृष्टस्थितिः पञ्चवाही (प्राणः ?), संनिधपरस्वरूपः असंनिधापरस्वरूपः, सप्तर्षिभिर्गुप्तः ऊर्ध्वबुध्नो विश्वरूप-यशोनिधानभूतश्चमसः, यज्ञे सर्वत्र प्रयुक्ता ऋक् (प्रणवः ?), चराचरजीवदजीवद्भूतरूपं विश्वरूपं पृथ्वीधरं एकात्मकं तत्त्वं, अनन्तान्तवद्विवेककर्ता भूत-भव्यज्ञो नाकपालः, गर्भस्थोऽदृश्यः बहुधा जायमानः विश्वजनकार्थीशः जिज्ञास्यगूढार्थीशः प्रजापतिः, चक्षुषा सर्वैर्दृष्टोऽपि मनसाऽविज्ञातः उदकहरः (सूर्यः ?), सर्वराष्ट्रभृत्पूज्यं पूर्णरूपेण सत् ऊनरूपेणासत् महद्यक्षं, सर्वातिशायि सूर्योदयास्तावधि ज्येष्ठं, सर्वभुवनद्रष्टा देवा-श्रयः स्वर्गगः हरिर्हंसः, सत्येन ब्रह्मणा प्राणेन च सहितः ज्येष्ठाश्रयः, अपाद्रूपेण संभूतः चतुष्पाद्भूतः भोग्यो भोक्ता च, असंख्येयस्य स्वस्य आधारः सना-तनो देवः, केशादपि सूक्ष्मेऽदृश्यस्थाने स्थिता कल्याणी अजरामरा मर्त्यगृहवर्तिनी प्रिया देवता, स्त्रीपुं कुमार-

जीर्णादिरूपैर्जातो विश्वरूपः, पितापुत्रज्येष्ठकनिष्ठरूपोऽपि मनसि प्रविष्ट एको देवः, कार्यकारणरूपत्वेऽपि पूर्णः, ऋतेन परिवृता सर्वजीवरूपेण पश्यन्ती देवी (उषाः), अजरामरा अविः, वाचां प्रेरकं विषयभूतं महद्ब्राह्मणं, देवमनुष्याश्रिते उदकपुष्पे मायया स्थितं किमपि, सर्वदेवरूपं प्रजासु ओतं महत्सूत्रं, विश्वप्रलयस्थितः वृहन्, वसूनां सङ्गमनः सत्यधर्मा त्रिगुणावृतनवद्वार-पुण्डरीके स्थितं महद्यज्ञं, अकामो धीरः पूर्णः अमृतः स्वयम्भूः आत्मा यज्ज्ञानान्मृत्युभयमोक्षः २४८-५१; वीर्येषु ज्येष्ठं, अग्रे दिवो वितानकृतं, भूतानां प्रथमजं, देवैरुपास्यं, द्यावापृथिवीसप्तसिन्धुपाणि-जातहोतृयज्ञसुगृषभगोराज्यसभासभ्यानुशासनराजन्यास-नदासदाशक्तितवस्त्रीपुंपर्वतवीरुधादिसर्वसद्रूपं, ऋषिब्रह्म-राजन्यादीनां जनयितृ सर्वकारकरूपं सर्वव्यापि ब्रह्म २५१, ५२; लोकाश्रयः भूताधिपो महतो महान् २५२; पञ्चसु अन्तःप्रविष्टः पञ्चव्यापकश्च पुरुषः, प्रजापति-पिता महत्यर्णवे स्थितः स्वयम्भूः २५३; तमसः परस्तात् स्थितः अमरत्वप्रदज्ञानविषयः महान् पुरुषः, बहुधा विजायमानः प्रजापतिः धीरदृष्टः, अजः श्रीलक्ष्मीपतिः सर्वलोकप्रदः नक्षत्ररूपशाली अश्विमुखः २५४, ५५; अग्न्यादित्यवायुचन्द्रमःशुक्राप्प्रजापति-ब्रह्मरूपः सर्वनिमेषजनकोऽग्राहो विद्युत्पुरुषः २५५; प्रतिमारहितो महायशः हिरण्यगर्भेत्यादिसूक्तप्रतिपाद्यः, सर्वादिः प्रजारतिः प्रजापतिः, विभूः प्रजासु ओतप्रोतः २५५-५७; गूढत्रिपदोऽमृतविद्वन्धर्वः, यस्य ज्ञानेन ज्ञाता पितुरपि पिता भवति, भक्तबन्धुः सर्वधामज्ञः २५७; यज्ञद्वारा जीवाधिगम्यो जीवान्तरात्मा विभुः २५७, ५८; आत्मस्वरूपं ब्रह्म २६१; अनिन्द्रियोऽपि इन्द्रियव्यापारकर्ता परमात्मा २६३; प्राप्यः चतुर्जालो मृत्योरगोचरो देवानाममृतस्य च स्थानं ब्रह्मकोशः २६५; शिशुमाराख्यः सर्वदेवरूपावयवशाली भूतपतिः नमस्यः २६६; परमात्मा २६६-६८, ३०४, ५८०, ९१३, ४६, ४७, ४९, ६१, ६३, ११११, १२, १४०७; जनानामिन्द्रस्य चाऽऽत्मा मनसा चरन् जनाना-मन्तः प्रविष्टः शास्ता मानसीनः सर्वात्मा २६६, ६७;

ब्रह्मणा तपसा लब्धः, अग्नीन्द्रसवितृबृहस्पतिवृष्यज्ञा-त्मकः, अमृतप्राणः, विपश्चित्, अन्तः प्रविष्टः कर्ता २६७, ६८; विश्ववारः, देवामृतं, प्रजायुः, वायोरात्मा, रश्मिः, ऋतस्य पदे स्थितः कविगम्यः २६८; अण्ड-कोशे स्थित्वा भुवनस्य धारयिता, मनसा चन्द्रमसि चरन्, इन्द्रस्याऽऽत्मा शतधा चरन् २६९; जगतः ईशानः, अन्तरादित्ये मनसा चरन्, देवहृदयरूपः इन्द्रः प्रजापतिः २७०-७३; आत्मा विश्वस्वरूपो विज्ञानं ब्रह्म ५९२-९५; सर्वेषां भूतानामान्तरः पुरुष आत्मा ६८९; भूमाख्यस्य ब्रह्मणो विभुत्वं अहंकारादेशेन आत्मादेशेन च ९४६, ४७; सत्यं ब्रह्मपुरमेव अजरोऽमृत आत्मा सत्यकामोऽपहतपाप्मा ९५५; आत्मा लोकविधरणोऽ-पहतपाप्मा ब्रह्मलोको नित्यप्रकाशः ९६३, ६४; अमृतत्वसाधनजिज्ञासा, आत्मनः प्रियत्वोपाधिकं पतिजायापुत्रादिसर्वप्रियत्वं, आत्मज्ञानविधिः, ब्रह्म-क्षत्रादेः सर्वस्य जगतः आत्मरूपत्वं दुन्दुभिश्शङ्ख-वीणादृष्टान्तसहितं, महाभूतस्यात्मनः निष्पतितरूपा एव सर्वा विद्याः, विज्ञानघनस्य आत्मनः सर्वेषामेकायनत्वं, अद्वैतात्मनि विषयविषयिभेदलोपः १०९०-११०१, १२५९-६५; साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म आत्मा सर्वान्तरः ११३१-३३; एतददोलोकयोः सर्वभूतानां च अन्त-र्यामी ११४७-५४; औपनिषदः पुरुषः ११७७; सर्वमयस्यात्मनः ब्रह्मण एव पुण्यपापरूपता कामक्रतुकर्मा-नुसारेण, आत्मविदः अकामस्य तस्यैव ब्रह्मप्राप्तिः १२२९-३६; आत्मा वसुदानः १२५७; परमात्मस्वरूपम् १३१६, १७, १९; नचिकेतःप्रश्नविषयः सर्वव्यवहारगोचरातीतं आत्मस्वरूपम् १४०३; आत्मा नित्यः १४०५, ०६; विभुः दुर्विज्ञेयश्च आत्मा १४०६; जीव-परमात्ममेदः १४१०; इन्द्रियादिभ्यः सर्वेभ्यः परः पुरुष एव परा गतिः १४१४; परात्परः पुरुषः, पञ्च-भूतानां प्राणमनइन्द्रियाणां च स एव कारणं, स एव विश्वरूपदेहधारी आत्मा, पुरुषात्तस्मात्सर्वा सृष्टिः देव-यज्ञफलादिरूपा १४५४-५८; पर आत्मा सर्वाधिष्ठानं, विज्ञानात्मपुरुषस्यापि स एव अधिष्ठानम् १५०८; प्रश्न-विषयः षोडशकलः पुरुषः १५१४; परमात्मरूपात्

पुरुषात् उत्पन्नं षोडशकलात्मकं विश्वम् १५१५, १६; षोडशानां कलानां शुद्धे पुरुषे एव समाप्तिः १५१७; आत्मा ब्रह्म १५२१; सर्वकारणाधिष्ठात्री देवात्मशक्तिः जगत्कारणम् १५७६; जीवप्रकृतिपरमात्मानः इति त्रिविधं ब्रह्म १५८३; प्रत्यक्प्रतिष्ठितः सर्वरूपः सर्व-प्रविष्टो देवः १५९१; देवः एकः सर्वलोकेशिता जाल-वान् उद्भवसंभवहेतुः अद्वितीयः रुद्रः प्रत्यक्प्रतिष्ठितः गोता सृष्टिप्रलयकर्ता विश्वव्यापी विश्वद्रष्टा विश्वधर्ता हिरण्यगर्भजनकः शुभबुद्धिसंयोजयिता शिवतनुधरः इषु-क्षेता परं ब्रह्म महापुरुषः मृत्युतारकज्ञानविषयः परः सूक्ष्मतमः ज्येष्ठः दिवि स्थितः अमृतत्वहेतुज्ञानविषयः शिवः सर्वभूतगुहाशयः सत्त्वप्रवर्तकः ज्योतिः अन्तरात्मा अङ्गुष्ठमात्रपुरुषः भूतभव्यात्मकपुरुषः अमृत-त्वस्येशानः सर्वेन्द्रियगुणाभासः शरीरस्थः वेत्ता अवेद्यः धातृप्रसादजसाक्षात्कारविषयः विभुः अजः पुराणः १५९२-९९; विभुः पुराण आत्मा जन्ममृत्युरहितः १५९९; अर्थसहितानामनेकवर्णानां कर्ता एको वर्णः विश्वोत्पत्तिसंहारकरः शुभबुद्धिसंयोजयिता अग्न्यादित्य-वाय्वादिदेवतारूपः स्त्रीपुंभेदरूपः विश्वतोमुखः नीलहरित-पतङ्गादिरूपः विभुः १६००, ०१; रुद्रः १६०८-११; विद्याऽविद्ये यत्र गूढे, विद्याऽविद्येशानः, सर्व-रूपाणां सर्वयोनीनां चाधिष्ठाता कपिलस्यर्षेः ज्ञानेन पोषकः जालविकर्ता पतिस्रष्टा महात्मा सर्वगुणविनि-योजकः सर्वपरिणामयिता ब्रह्मयोनिः वेदोपनिषत्प्रति-पाद्यः देवार्षिवेद्यः एकः १६१२, १३; ब्रह्मचक्रस्य प्रवर्तकः कालकालः पञ्चभूतकर्मेशानः देव एव न स्वभावः कालो वा १६१७; संयोगनिमित्तहेतुः आदिः देवः स्वचित्तस्थत्वेनोपास्यः कार्यकरणरहितः परशक्ति-युक्तः स्वाभाविकज्ञानबलक्रियः अलिङ्गः सर्वभूतान्त-रात्मा साक्षी निर्गुणः सर्वप्रकाशः अप्रकाश्यः प्रधानस्य क्षेत्रज्ञस्य च पतिः संसारमोक्षहेतुः सुसुक्ष्मशरणम् १६१८-२६; महतो महीयान् ज्योतिःप्रविष्टः प्रजापतिः सर्व-व्यापी आदित्यप्रकाशकः परमाक्षरं जगतः जीवानां च स्रष्टा चराचरप्रविष्टः ऋतसत्यरूपः इष्टापूर्तधर्ता अग्न्या-दित्यवाय्वादिदेवरूपः विशुत्पुरुषः कालकरः यशोनामा

अदृश्यः विभुः अमृतत्वप्रदज्ञानविषयः हिरण्यगर्भं परमं ब्रह्म १६२९-३१; महर्षिः हिरण्यगर्भजन्मद्रष्ट शुभबुद्धिसंयोजकः रुद्रः परतमः पुरुषः १६३६; हृदया काशान्तःस्थितं तत्त्वमुपास्यं, प्रणवात्परः परमेश्वर १६३६, ३७; संप्रसादः तमोनाशकः ज्योतिः स्वभावं आत्मा, अचेतनस्य शरीरस्य प्रचोदयिता अजः प्रपञ्चा-तीत आत्मा १६५४; कर्मफलानभिभूतश्चिदात्मा १६५५; परमात्मनः कौत्सायनी स्तुतिः, ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपेणो-द्भूतः भूताधिप आत्मा १६५७; परमात्मा ईशानप्रजा-पतिविष्वादिरूपः १६५९; सत्यनभःस्यः विश्वरूप आत्मा १६६७.

परमात्मनः सृष्टिः—

आमतश्चतुर्णां लोकानां विश्वपुरुषस्य देवतानां च सृष्टिः ५८०, ८१; आत्मनः पुरुषान्ता सृष्टिः ७०६; आत्मनः अहंनामपुरुषनाम्नोरुपपत्तिः, स्रष्टरि तस्मिन् भयजनननिरासौ, आत्मनः स्त्रीपुंभेदेनाविर्भावः, ततः प्राणिमिथुनसृष्टिः, आत्मनः सृष्टित्वं, नामरूपव्याकरणं, तदर्थं शरीरप्रवेश आत्मनः, तस्य कर्मनामानि, आत्मो-पासनविधिः, आत्मनः सर्वस्मात्प्रेयस्त्वं, ब्रह्मज्ञानमहिमा, चातुर्वर्ण्यस्य धर्मस्य चोत्पत्तिः, आत्मज्ञानेन क्षयिष्णु-कर्मणोऽक्षयता, आत्मा देवपित्रादीनां लोकः आश्रमा-धिकारी १०१६-४२; सर्वलोकभूतवेदादीनामुद्भव-स्थानमात्मा १६६४; प्राणादीनां आकाशादीनां च आत्मनः सृष्टिः १६७५.

सृष्टिपदं द्रष्टव्यम् ।

आत्मज्ञानं मोक्षसाधनम्—

विद्या अविद्येति विभागः १२४०, १३२२, ९९, १६६७.

परा विद्या अपरा विद्या इति विद्याविभागः १४४४, ४५.

तमसः पारे स्थितः आदित्यवर्णः नामरूपव्याकर्ता धीरः विदुषा शक्रेण धात्रा च प्रदिष्टः महान् पुरुषः, यज्ज्ञानादेवात्र अमृतत्वप्राप्तिः २७३; आत्मज्ञानमनतिक्रम-णीयः पन्थाः, तस्यातिक्रमानतिक्रमफलं च ५२५-२७;

आत्मज्ञानविधिः ६१८, १०९२, १२६१; सर्वपापापहं सत्यरूपेन्द्रज्ञानं मनुष्यस्य हिततमो वरः ६५६-५८; आत्मब्रह्मविद्या ६७४-८२; प्राणदेवलोकानामुद्भवकारणं शरीरस्थ आत्मा ब्रह्म सर्वपापनाशकज्ञानविषयः ६८०-८२; आत्मज्ञानविधिः साङ्गः ६९१, ९२; ब्रह्मविद्या-फलम् ७०६; ब्रह्मज्ञानी श्रोत्रियः ब्रह्मानन्दानुभवशाली ७२८, १२१६; ब्रह्मज्ञानादभयम् ७३२; विश्वात्म-रूपसत्त्वविद्या ८८२-९२४; एकविज्ञानात् सर्व-विज्ञानप्रतिज्ञापूर्तिः ८८३-८७, ९६-९९, ९०७-०९; भूमब्रह्मविद्या ९२५-५०; आत्मज्ञस्य सर्वोऽपि व्यवहारः आत्ममूलकः, मृत्युदुःखरोगतरणं, आहार-शुद्ध्यादिक्रमेण मोक्षः ९४९, ५०; दहरब्रह्मविद्या ९५७-६०; प्रजापतिप्रोक्तात्मविद्या ९६९-८२; ब्रह्मज्ञानमहिमा १०२९; ब्रह्मविद्या गार्ग्याजातशत्रुसंवादरूपा १०६६-७७; आत्मविद्या मैत्रेयीयाज्ञवल्क्यसंवादरूपा १०९०-११०१, १२५९-६५; मधुविद्या दधीचाथर्वणेना-श्विभ्यां प्रोक्ता ११०३-१२; ब्रह्मविदः अणुः पन्थाः, विद्याऽविद्यासमुच्चयः, भूतभव्येज्ञानस्य पञ्चपञ्चजनाश्रयस्य प्राणचक्षुःश्रोत्रमनसामधिष्ठितुर्ब्रह्मणो ज्ञानं मुक्तिसाधनं, नानादर्शननिषेधः १२३८-४६; आत्मदर्शनजन्यं निःश्रेयसम् १३१८; अमृतत्वहेतुर्विद्या १३७८, ७९; तृतीयो वरो मर्त्यशरीरभिन्नात्मविद्याप्राप्तिः, नचिकेतसः आत्मजिज्ञासाया दाढर्यै, विषयविभवस्य आत्मज्ञाना-पेक्षया अवरत्वम् १३९५-९८; अत्र देहे एव आत्मा अद्वैतरूपो ज्ञेयः न भेदरूपेण १४२४-२६; आत्मैव सर्वरूपधरः अविकृतः सर्वातिगः अलितश्च, स्वात्मनि तज्ज्ञानात् नित्यसुखं शान्तिश्च १४३०-३२; विविधमात्म-दर्शनम् १४३४, ३५; इन्द्रियाणां आत्मतः परस्परं च पृथक्त्वदर्शनं शोकनाशनम् १४३५; इन्द्रियमनआदिभ्यः परस्य पुरुषस्य दर्शनं मुक्तिदम् १४३५, ३६; आत्म-ज्ञानतल्लक्षणनिरूपणम् १४३७-३९; अन्तकाले अमृ-तस्य अन्तरात्मनः शरीरात् पृथक्करणविधिः १४४०; शौनकप्रश्नः-सर्वज्ञानस्य कारणं कस्य ज्ञानमिति १४४३; सर्वात्मरूपपरमपुरुषस्य हृदि उपलब्धिः अविद्याहानिकरी

१४५९; हृदयस्यसर्वात्मकाक्षरब्रह्मविद्याविधिः १४५९, ६०; ब्रह्मपुरे हृदि उपलभ्य आनन्दरूप आत्मा १४६३; हृदयग्रन्थिनाशादि आत्मविद्याफलम् १४६४; अक्षर-रूपपरमात्मज्ञानं परमात्मप्राप्तिश्च १५०९; परमपुरुष-विद्याविधिः तत्फलं च १५१८, १९; विज्ञेयः तुरीय आत्मा १५२४, २५; आत्मज्ञानान्मुक्तिः, ब्रह्मज्ञानात् लयः मुक्तिश्च १५७९; ब्रह्मज्ञानात् विश्वमायानिवृत्तिः १५८१; देवज्ञानात्पाशमुक्तिः १५८२; आत्मतत्त्वद्वारा ब्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारः पाशमुक्तिश्च १५९०; परमात्मज्ञाना-देव मृत्युतरणम् १५९५; ब्रह्मज्ञानादमृतत्वम् १५९६; भोक्तुः ईशदर्शनजन्यमुक्तिः, ज्ञातव्यं ऋचः अक्षरं परमं व्योम १६०५; शिवज्ञानात् आत्यन्तिकी शान्तिः मृत्यु-पाशच्छेदश्च १६०८, ०९; अनाद्यनन्तस्य भावाभाव-करस्य शिवस्य ज्ञानात् पाशमुक्तिः १६१६; परमात्म-ज्ञानात् अमृतत्वम् १६३१; परमपुरुषज्ञानादेव मृत्यु-मुक्तिः १६५१; आत्मदर्शनावस्था १६६१; ब्रह्मात्मदर्शनम् १६६२; परमात्मज्ञानमेव मुक्तिसाधनम्, जीव एव अखण्डबोधश्रयः १६७५; मोक्षसाधनं जीवपर-मात्मनोरभेदज्ञानम् १६७५, ७६; रुद्रज्ञानात् पशुपाश-मोक्षः १६७९, ८०; हृदये देवदर्शनं तृष्णादिच्छेदेन १६८०.

ब्रह्मात्मज्ञानसाधनम्--

तपसः ब्रह्मज्ञानसाधनता ७३५-३८; ज्ञानप्राप्तये आचार्यापेक्षा ९२१; ब्रह्मविद्यावंशः ९८४; वेदयज्ञ-दानतपसां आत्मविद्याहेतुत्वं, पुत्रवित्तलोकैषणात्रयसंन्या-सिनो ब्रह्मज्ञानिनः, पापपुण्यतरणसाधनं आत्मज्ञानं, शम-दमादीनां आत्मदर्शनहेतुत्वं, अभयं ब्रह्मैव ब्रह्मज्ञः १२४६-५८; आत्महन्तुस्तमोलोकः १३१५; उपनिषदः प्रतिष्ठाङ्गायतनानि १३८४; अतर्क्यात्मविद्या क्वाचित्क-कुशलगुरुलभ्या, सत्यधृतिः शिष्य एव आत्मविद्याधि-कृतः १४००-०३; प्रणवाक्षररूपं आलम्बनं आत्मज्ञान-साधनम् १४०४, ०५; कामसंकल्पशून्यो दुश्चरित-निवृत्तः शान्त एव परमात्मानुग्रहेण आत्मविद्याधिकृतः १४०६-०९; आत्मा सूक्ष्मधीरगम्यः, आत्मज्ञानमार्गः

अध्यात्मयोगः १४१६, १८; बाह्यविषयालोचन-
निवृत्त्यैव अमृतत्वोपायभूतः आत्मसाक्षात्कारः
१४२०, २१; मुमुक्षोः ब्रह्मविदिषोः गुरुरूपसत्तिः
१४५२, ५३; प्रणवोपासना ब्रह्मविद्यासाधनम् १४६०-
६२; यतिभिः सत्यसाधनद्वारा विशुद्धे हृदये दर्शनीय
आत्मा १४७७; आत्मज्ञानं, आत्मपूजाविधिः १४८१;
परमात्मकृपा आत्मज्ञानोपायः, आत्मज्ञानोपायाः,
ब्रह्मावेशः, आत्मज्ञानां मुक्तानां गतिः १४८२-८७;
ब्रह्मविद्याधिकारः १४८८, ८९; परमात्मदर्शनो-
पायाः प्रणवध्यानतपःसत्यानि १५८४; धातृप्रसादात्तत्त्व-
साक्षात्कारः १५९९; आत्मदर्शनोपायः धातुः प्रसादः
१६३५; बन्धक्षयहेतवः आत्मविद्यासाधनानि वेदविद्या
स्वधर्माचरणं स्वाश्रमानुरूपं तपश्चेति १६५६; आत्म-
ज्ञानाङ्गसंन्यासविधिः १६५९; षडङ्गो योगः ब्रह्मदर्शनो-
पायः १६६१; ब्रह्मज्ञानकारणं योगविशेषः, ब्रह्मविद्या-
धिकारः, ब्रह्मज्ञानसाधनम् १६६३; उपासनायुक्तं ब्रह्म-
ज्ञानपर्यवसायि अग्निहोत्रम् १६६६; ज्ञानोपसर्गाः-
नास्तिकप्रकाशतस्करादिभिः संसर्गः परिहार्यः, बृहस्पति-
प्रणीतं नास्तिकशास्त्रं, विद्याऽविद्याभेदः, अवैदिकाध्य-
यननिषेधः १६६७.

आत्मोपासना—

देवयज्ञात् आत्मयजनं श्रेयः ४६६; आत्मनिष्क्रयणो
यज्ञः आनन्दफलः ४७२; सर्वैः सर्वत्रैवोपास्यः ब्रह्मसंज्ञित
आत्मा ६१४; संवत्सरसंमितः अहःसंमितश्च आत्मा
उपास्यः ६८७, ८८; आत्मोपासनविधिः १०२२; उपास्या
प्रणवांशरूपता प्रणवरूपता च आत्मनः सोपाधिकस्य निरु-
पाधिकस्य च क्रमेण १५२७, २८; सप्राणात्मोपासनविधिः
१६५३; आत्मा द्विधाभूतः अन्तः प्राणः बहिरादित्य
इति, प्रणवव्याहृतिसावित्रीभिरुपासनमात्मनः, प्रणवद्वारा
उपास्याः स्वनवत्यादय आत्मनस्तनवः १६५८;
आत्मोपासकस्य भोजनविधिः १६५९; आत्मयाजी
आत्मयज्ञश्च १६५९, ६०; आत्मरूपाग्नौ होमः १६६२;
अविमुक्तक्षेत्रे वाराणस्यां आत्मोपासनविधिः १६६९.

आदित्यः

आदित्यस्य स्थानं कार्यमुत्पत्तिः इत्यादि—

आदित्यस्यान्तर्धानोद्भवाधिष्ठानं वायुः १५१, ५;
आदित्यमण्डलोपाधिकः कालः १७९; आदित्यरहितः
कालस्य १८१; द्यावापृथिव्योः पुत्रस्य आदित्यस्य गृ-
पदम् २०९; भुवनेषु पुनःपुनरावर्तमान आदित्य
२२०; आदित्यकार्यम् २२६; आदित्यजननी २३८
सर्वभुवनद्रष्टा देवाश्रयः स्वर्गगो हरिर्हंसः २४९, ५०
दिवः सकाशादादित्यस्योत्पत्तिः २८६; अण्डादादित्यस्यो-
त्पत्तिः २९४; एकविंशः स्वर्गः आदित्यरूपः ४०५
असतः सकाशादादित्यसृष्टिः ८२१, २२; भास्कररु-
आदित्यः १६३२; बहिरादित्यरूपत्वमात्मनः १६५८
आदित्यशब्दनिर्वचनम् १६५९.

आदित्यस्य अन्यदेवतासंबन्धः—

चित्याग्नेरादित्यरूपत्वम् ३२; आदित्यस्य रुद्रमूर्ति-
त्वम् १५०; आदित्यरूपत्वं प्रजापतेः २०२; अग्न्य-
दित्यात्मन एकस्य पितृश्रित्तनीयत्वम् २१३; आदित्य-
रूपेण संचरन्ती ब्रह्मरूपा वाक् २३७; आदित्या-
प्रतिष्ठा स्कम्भः २४७; विद्युत्पुरुषस्याऽऽदित्यरूपत्व-
२५५.

आदित्यस्य ब्रह्मणा संबन्धः—

रश्मिरूपः परमात्मा २६८; अन्तरादित्ये मनस-
चरन् परमात्मा २७०; आदित्यवर्णः पुरुषः २७३
आदित्यशरीरपुरुषयोः स्थितमेकं ब्रह्म ७४०; आदित्य-
रूपत्वं ब्रह्मणः १६००; आदित्यप्रकाशकः परमात्मा
१६२९; आदित्यपुरुषः ब्रह्म, आदित्यकृतात् पर्जन्या
अन्नलाभात् प्राणधारणं तेन च ब्रह्मविद्यापर्यन्तपर्यवसानः
१६५१; आदित्यस्य ब्रह्मैकरूपत्वम् १६५७; विश्व

रूपादित्यात्मकं ब्रह्म २५८; सर्वदेवात्मा आदित्यपुरुषः ब्रह्म ११२.

आदित्यस्याध्यात्मिकः संबन्धः--

चक्षुषि आदित्यस्य प्रवेशः ३२२; आदित्येन समिद्ध उष्णो जीवलक्षणरूपः प्राणः ३२९; आदित्यः प्राणः १४९१; प्राणादित्योरैकैकत्वम् ५५५; आदित्यः प्राण-रूपः १६५९.

आदित्योपासना

आदित्यमण्डलसंबन्धि उपासनम् ११२-१८; सावि-
त्र्युपनिषत् ११८-२०; पापनाशनमादित्योपासनम् ६४६; उद्गीथाक्षरत्वेनाधिदैवतोपासना आदित्यविषयिणी ७५४, ५५; परमात्मरूपादित्यस्यचाक्षुषपुरुषविषयिणी सर्व-
फलसंपत्प्रयोजनोपासना ७६०-६४; उद्गीथानुगतादित्यो-
पासना ७७१; आदित्यदृष्टिविशिष्टसप्तविधसामोपासनम् ७७८, ७९; आदित्यदृष्टिविशिष्टं बृहत्सामोपासनम् ७८२; वेदोपनिषदितिहासपुराणरसाश्रय आदित्यः ७९२-९५; अग्निमुखेन वसुभोग्यामृतोपासनम् ७९५, ९६; इन्द्रमुखेन रुद्रभोग्यामृतोपासनम् ७९६, ९७; वरुण-
मुखेनादित्यभोग्यामृतोपासनं, सोममुखेन मरुद्भोग्या-
मृतोपासनं, ब्रह्ममुखेन साध्यभोग्यामृतोपासनं च ७९७; उद्यास्तमनश्न्यादित्यरूपनित्यब्रह्मोपासना ७९८, ९९; मधुविद्यारूपब्रह्मविद्याचार्यवंशः ७९९; आदित्योपासना ८२१, २२; अन्तकाले आदित्यादिप्रार्थना १२८४; आदित्यस्यसत्यात्मकपरमपुरुषप्राप्तिप्रार्थना १३२५, २६; शुक्लकृष्णपुरुषेतित्रिवृद्रूपस्य आकाशरूपादित्यस्य अध्यात्मं अधिदैवतं अधिविद्युच्च उपासना १३३६; सामरूपस्य आकाशात्मकेन्द्ररूपस्य आदित्यस्य सप्तमी रश्मिभिः अध्यात्मं वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रप्राणास्वन्नरूपापन्नैर्युक्तस्य भ्रातृव्यशून्यतागुणस्योपासना उद्गातुः १३३७, ३८; 'सप्तविधं सामैव आकाशरूपादित्यात्मकः इन्द्रः सप्तदिग्रूपं च' इत्युपासना औद्गात्राङ्गम् १३३८-४०; 'एकाक्षररूप आदित्यः देवर्षिभिः प्राप्यः प्राण-
द्वारा' इत्युपासना १३५०; सवितृविष्णुपुरुषबृहस्पती-
न्द्रादिदेवरूपः सूर्यः, स एव 'धेनुः' इत्युपास्यः १३६९; आदित्यमण्डले उपास्यः हिरण्यमयः सर्वात्मकः

श. को. ५३

ओजोबलादिरूपः स्वयंभुब्रह्मस्वरूपः पुरुषः सायुज्यहेतुः १६४०; आदित्ये ब्रह्मोपासना १६६५; संध्योपासनाऽ-
समर्थस्य जप्य आदित्यमन्त्रः-- अक्षररूपः आदित्यः १६४४; आदित्योपस्थानम् १६६५; कालः आदित्य-
मूलकः आदित्यात्मको वा संवत्सररूपः ब्रह्मत्वेनोपास्यः १६६०, ६१.

आनृण्यम्

आनृण्यम् ४२०, २१, ५०५; बहवो देवयानाः पितृयाणाश्च लोका अनृणगम्याः ३७१; वैश्वानरः अनृणं मनुष्यं सुकृतलोकस्य प्रापयिता ३७२.

आपः

आपः विश्वतत्त्वम्--

सर्वभेषजस्थानं, सर्वदुरितनिवारिकाः, स्थिरचर-
जनित्र्यः, मातृतमाः, धनस्य जनानां च ईशित्यः, वरुणा-
ग्निविश्वदेवानां वैश्वानरस्य च स्थानं, अग्नेः सवितुश्च
जन्मस्थानं, त्रैलोक्यनिवासिन्यः १५५-५७; विश्वस्यो-
पादानकारणं, प्रजापतेर्जनितुर्वायुरूपस्य स्थानम् १५७;
सर्वेषां लोकानां प्रतिष्ठा, प्रजापतेराविर्भावस्थानम् १५८;
अप्स्वेव विराड् रूपपुरुषस्योत्थानं, आदित्यादीनां देवा-
नामसुराणां सर्वस्य च तत उत्पत्तिः १५९-६०;
विश्वगर्भधारिणीभ्योऽग्निजननीभ्योऽद्भ्यः प्रजापतेः समु-
द्भवः १९६; एकमुदकमिहामुत्र च २२९; विश्वतत्त्व-
विद्युत्पुरुषस्यान्तरूपत्वम् २५५; सदसत्परममृतमृत्युरहितम-
द्वितीयमलक्षणमेकं सलिलरूपं प्रथमं, तस्मात्तपःसहकृतात्
विश्वमहिमा प्रादुर्भूतः २७६; आद्यतत्त्वे अन्तरूपसलिले
सृष्टिपूर्वकालिके स्थितो वातरूपः प्रजापतिः विश्वं सृष्टवान्
२८१, ८२, ८९, ९०; आदिभूतसलिले नक्षत्राणा-
माविर्भावः २८७; चयनात्मकप्रजापतेरापो जाताः अप्सु
अण्डं च २९३; सृष्ट्यादौ आद्यतत्त्वमापः, अद्भ्यो
हिरण्यमण्डं जातम् २९७; ब्रह्मण आपो जाताः, अप्सु
वायुरूपो भृगुः ३०३; प्रजापतेः कामादद्भ्यः सर्व-
सृष्टिः ३०५, ०६; सर्वमुदकरूपं मूलतुलपितापुत्ररूपं च
५४१; तेजस अपां सृष्टिः, अद्भ्यः पृथिव्याः सृष्टिः
८९०-९२; अपां प्रथमा सृष्टिः ९९१; आपः सत्यब्रह्म-
प्रजापतिदेवानामादितत्वम् १२७२; अन्तरूपं ब्रह्म

२७९, १६०१, ३०, ४४, ६५, ८१; जलं अमृतम्
१६४८; अप्शब्दनिर्वचनम् १६५९.

अपामन्यदेवतासंबन्धः--

वैश्वानरः अपां वर्षिता ३; जले आविर्भवनशीलः
अग्निः ५; जलजनकत्वं वरुणस्य ७७, ८०; जलनिलीनो
वरुणः ८५; जले स्थितिः रुद्रस्य १२८; अपां रुद्र-
मूर्तित्वम् १५०; सलिलस्थानभूता विराट् १६१; रोहि-
तस्य जलादुद्गमः १६६; चतसृणामपामाधारो रोहितः
१७३; अपां जनकः तज्जन्यश्च रोहितः १७५; अपां
दृष्टा प्रजापतिः १९६; अपां जनकः प्रजापतिः १९७;
अपामाधारः स्कम्भः २४७; अपां गमनस्यान्येषां परि-
वर्तनानां च प्रेप्साविषयः स्कम्भः २४६, ४७.

अपां कर्मसंबन्धः--

आपः सुमित्राः ज्ञानप्राप्तये कर्मकर्तृषोषिकाः शिवतम-
रसाः, जलस्थदेवतानमस्कारः, सदोषजलापनयनं, गङ्गा-
दितीर्थानामावाहनम् १६३३; वृष्ट्यभावोपद्रवनिवारको
जलदेवताको मन्त्रः-- विश्वरूपाः सर्वदेवमय्यः आपः,
आपः पापशुद्धिहेतवः १६४३.

आश्रमाः

चातुराश्रम्यम् ७८६.

इन्द्रः

इन्द्रः परमेश्वरः--

विश्वव्यापकत्वं अनुपमेयत्वं अनन्तत्वं सर्वनियन्तृत्वं
स्वर्गपतित्वं विभुत्वं च ४४, ४५; महतामपि भयङ्करत्वं
बलिष्ठत्वं विश्वनियन्तृत्वं दानवहन्तृत्वं विश्वकर्तृत्वं श्रद्धा-
गम्यत्वं सर्वानुशास्तृत्वं भक्तानुग्राहकत्वं पापानामभक्ताना-
मभिभवितृत्वं योद्धृणामीश्वरत्वं विश्वप्रतिमानत्वं च ४५
-४८; सोमोत्पादननदीप्रवर्तनादिकर्ममहिम्ना प्रशस्यत्वम्,
हविष्प्रदानादिकर्मकारयितृत्वेन प्रजानां धनविभागनियाम-
कत्वेन अन्नभोक्तृत्वप्रयोजकत्वेन च प्रशस्यत्वम् ४९;

सर्वरूपधरत्वं सर्वगतत्वं च
स्वातन्त्र्येण सर्वेशितृत्वं सर्व

अभक्त्यागित्वं च, सर्वरू
५४; विश्वस्रष्टृत्वं विश्वनिय

सर्वलोकैभ्यो महत्त्वं च
त्रैलोक्यव्यापकत्वं सूर्यधारण

जगद्विष्टम्भकत्वं च, बलप्र
व्यत्वम् ५६; श्रुष्टिवीवि

नम्, दातृत्वत्वं असहाय
सर्वप्रशस्तानां चाधिकरण

लोकदेवमत्त्वैभ्यश्चातिशायि
धर्मकर्तृत्वं विपश्चित्वं विश्व

अगूढत्वं स्वर्गपतित्वं पितृ
तदा स्तोतव्यः ५९; स सर्व

५९, ६०; देवानां रक्षितृत्वं
६१; अनन्तमहिमयुक्तत्वं

च ६१; ज्योतीरसंस्थापक
स्थानीयः ईशानः योगक्षेम

सूर्यधारकत्वम् ६४; मन्वा
आजानसर्वज्ञत्वं ज्येनरूपत्वं

सर्वात्मत्वं मातापितृस्वरूप
मायित्वं च ६७; इन्द्रस्य

धनप्राप्त्यर्थं इन्द्रप्रार्थना १
इन्द्रस्य अन्यदेवतासंबन्धः

सर्वद्रष्टृत्वं महतामपि
६४; इन्द्रस्वरूपः अति

सूर्यात्मत्वं पूर्वजत्वं ऋषित्वं
सोमस्य ७२; इन्द्रस्य ओ

सवितुः १०९; राजा त्रस
७६; इन्द्रस्य रुद्रमूर्तित्वम्

जन्म च २८७, ८८; प्रजापतेरिन्द्रसृष्टिः तस्य सहस्रा-
ब्दं च ३००; सवे देयः स्तोतव्यो वा अनड्वान् इन्द्र-
रूपः ४३१, ३२; इन्द्रधनुर्धरः ब्राह्मणः ४५०; इन्द्र-
पत्वं ब्राह्मणस्य ४५५; यजमानो राजा वा इन्द्ररूपः
५९.

इन्द्रस्याध्यात्मिकं रूपं, इन्द्रस्योपनिषत्संबन्धश्च —

प्राण्यन्तःस्थितप्राणरूपत्वम् ५८; इन्द्राख्यमध्यम-
प्राणः २९१; ब्रह्मे इन्द्रस्य प्रवेशः ३२२; वाचः
पर एव सर्वदेवात्मक इन्द्रः ३३७; इन्द्ररूपत्वं मन्योः
४२; स्वराणामिन्द्ररूपत्वम् ७८५; बृहतीसहस्रसंपद्वि-
शतस्य इन्द्रो भूताधिप आत्मा, उभयलोकजन्मा ५७१,
५७२; इन्द्रस्यात्मा परमात्मा २६६; इन्द्रात्मकः परमात्मा
२६७; इन्द्रस्यात्मा शतश्रा चरन् परमात्मा २६९;
इन्द्ररूपः परमात्मा २७०, ७१; इन्द्रोपदिष्टा स्वात्मब्रह्म-
देव्या ६५६-७२; इन्द्राद्योक्ता प्रजापतिविद्या ९६९-८२;
इन्द्रः उपनिषद्भक्ता १६३५.

इन्द्रियाणि

इन्द्रियसंख्यास्थानकार्याणि—

शार्पस्थः इन्द्रियभेदेन पञ्चविधः प्राणः ३१६, २९,
३१, ५३३, ८१, १३६५; प्राणाख्यानि इन्द्रियाणि
शेरःस्थितानि सप्त १८०, २९०, ९१, ३१५, २८,
१३५१, १४५८; इन्द्रियाणि रसप्राणदर्शनमनःश्रव-
णानि ५२२; इन्द्रियसमुदायो ब्रह्मणिरिः ५४१; इन्द्रि-
याणि वाक्प्राणचक्षुःश्रोत्रत्वङ्मनोऽपानशिश्नानि ५८५;
वाक्प्राण(प्राण)चक्षुःश्रोत्रजिह्वाहस्तशरीरोपस्थपादप्रज्ञाः
(मनांसि) प्रज्ञामात्राः ६६८; आर्तभागप्रश्नः—ग्रहाः प्राण-
वाग्जिह्वाचक्षुःश्रोत्रमनोहस्तत्वचः अतिग्रहैः अपाननाम-
रसरूपशब्दकामकर्मस्पर्शैः गृहीताः ११२१-२३; चक्षुः-
श्रोत्रघ्राणरसवाक्त्वक्हस्तोपस्थपायुपादमनोबुद्धिचित्ताहंका-
रतेजःप्राणाः १५०८; इन्द्रियाणि प्राणाख्यानि दश ३२८,

६४-७१, ८०, १३५०, ५२, ५५, १५०१; सर्वे
इन्द्रियस्थानं मनः ३३७; स्वापे मनसि ज्ञानेन्द्रियाणां
मैक्यम् १५०५; अन्नसहकृताः मनआदयः प्राणा इन्द्रि-
याख्या आत्मनोऽधिष्ठानम् ३१८; इन्द्रियाणांमुद्रमहेतु-
नियन्ता च आत्मा, इन्द्रियबुद्ध्यादीनि आत्मलिङ्गाणि
१६६३, ६४; मनःप्राणवाक्चक्षुःश्रोत्राणां प्रेषयिता देव-
अप्रमेय आत्मा १३७३-७९; इन्द्रियेभ्यः अर्थानि
परत्वम् १४१४; इन्द्रियेभ्यो मनसः परत्वम् १४१४
३५; सर्वेन्द्रियगुणाभासत्वं सर्वेन्द्रियविवर्जितत्वं च सर्वे-
श्वरस्य १५९८; करणराहित्यं परमात्मनः १६२०
चक्षुराद्यविषयः परमात्मा १६३१.
इन्द्रियसृष्टिः—

परात्पुरुषात् इन्द्रियसृष्टिः १४५५, ५८; ईश्वरा-
सप्तप्राणप्रभवः १६३५; सृष्ट्यादौ मनः, तत इन्द्रियाणि
ततोऽन्या सृष्टिः ३१८; पुरुषरूपप्रजापतेरिन्द्रियेभ्यः
जाता सृष्टिः ५३९-४१; प्रजापतेः प्राणेभ्यः पुरुषादि-
पञ्चसृष्टिः २९७; इन्द्रियैः मनआदिभिः संवत्सि-
पुरुषः पशवश्च निर्मिताः, चक्षुर्मनःश्रोत्रादिषु देवत-
प्रवेशः ३२२.

उपासना इन्द्रियसंबन्धिनी—

इन्द्रियाणां आत्मनः परस्परं च पृथक्त्वदर्शनं शो-
नाशनम् १४३५; इन्द्रियमनोनिरोधात्मको योगः भय-
वहस्रोत्तरणहेतुः १५८७; इन्द्रियपापापहा मुख्यप्राण-
पासना १३५२, ५३; वागादीन्द्रियप्रतीकानि ब्रह्मोपा-
नानि ११८१-८५; प्राणोपासना १००१-१४; पा-
परिहारानन्तरं वागादीनां अग्न्यादिदेवताभावप्राप्ति-
१३४९, ५३; मनश्चक्षुरादीन्द्रियाणां शुद्धिप्रार्थना १६४
शमदमप्रशंसा १६५०. अस्मिन् संबन्धे प्राणपदम-
द्रष्टव्यम् ।

उद्गीथोपासना

५६; उद्गीथावयवाक्षरेषु प्राणवागन्नरूपैर्द्युमध्यस्थानपृथिवी-
रूपैरादित्यवाय्वग्निरूपैः सामवेदयजुर्वेदग्वेदरूपैर्वोपासना
७५६; अमृताभयगुणयुक्तोद्गीथरूपप्रणवोपासना साख्याना
७५७, ५८; अनेकपुत्रफलः उद्गीथरूपप्रणवोपासनावि-
शेषः ७५८, ५९; अधिदैवताध्यात्मसामाक्षरदृष्टिसहिता
उद्गीथोपासना परमात्मरूपादित्यस्यचाक्षुषपुरुषविष-
यिणी सर्वफलसंपत्प्रयोजनवती ७६०-६४; उद्गीथाक्षरे
परमाकाशरूपपरमात्मोपासना परोवरीयस्त्वगुणविषयिणी
साख्याना ७६४-६७.

उपकारः—

उपकारः ४७९.

उपासना

अग्न्यादित्यवायुपञ्चाग्न्यादिदेवताविषयिण्य उपासनाः—

उपासितुरग्निभावापत्तिः १७; अग्नियजमानयोरैका-
त्म्येनोपासना २५; चित्याग्नेः सावित्रस्य परमात्मत्वेन
सर्वदेवतामयत्वेन चोपासना २६-२९; चित्याग्नेः छन्दो-
देवतात्मकविराट्पुरुषरूपेण एकाक्षरविश्रात्मकब्रह्मरूपेण
वागादित्यरूपेण चोपासना २९-३२; चित्याग्निरूपेण
भूम्यादिलोकत्रयादित्यनक्षत्रछन्दःसंवत्सरात्मनां उपासना
३२-३६; चित्याग्निरूपेण सर्वभूतदेवरूपाणामपासना
३७-३८; संवत्सरप्राणादिरूपैः चित्याग्न्युपासना १६६४;
प्राणाग्निवाय्वादित्यचन्द्रमोहनक्षत्राणां दीतिरूपेणोपासना
४३; पञ्चाग्निविद्या— मरणोत्तरगतिविचारः ४०४, ८५५
-७१, १२९०-१३००; वैश्वानराग्निविद्या ३८-४२,
८७१-८२; नानारूपैरुपासनं सवितुः ११७, १८;
ब्रह्मणः परिमर इति वायुविषयिण्युपासना १५१; वायोः
प्राणस्य च यजुष्वेन ज्येष्ठब्रह्मत्वेन आनन्दात्मत्वेन चोपा-
सना १५२-५५; 'विभुः प्रभुः महः सहः' इत्यादिरूपेणो-
पास्यत्वमिन्द्ररूपस्य रोहितस्य, 'उरुः पृथुः' इत्यादिरूपे-
णोपास्यो रोहितः १७५; आदित्योपासना ६४६,

साधनं मनः १११६-१८; संपद-
भुज्यहेतवो होतुः ऋचः, देवपितृ-
ध्वर्युक्षिता आहुतयः, अनन्तलोक-
मनः, पृथिन्यन्तरिक्षद्युलोकजयहेत-
१११८-२०; वाग्धेनूपासना ६
हेतुस्तपउपासना १२७७; अन्त-
१२८४; 'वाक् धेनुः अग्निर्वसः
अग्न्यादीनां देवतानां ऐहिका-
१३५३, ५४; सूर्योपासना १३
विद्या मृत्युपाशमोचनी १३७०;
पृथिव्योर्हृदयं मध्यं चोपास्यम् १३
श्रोपनिषत् १३८७, ८८; अग्न्यु-
मृत्युतरणं च १६४६; अग्नि-
पासना, ब्रह्मविद्याङ्गभूता अग्न्यु-
सर्वं गम्यमानं स्थानं कुरुक्षेत्रत्वेन
सहितः शिवो हृदये ध्येयः
१६५०, ५१; ध्यानं मुक्तिसाध-
ऋक्सामादिवैदिकवाक्संबन्धिभ्य उ-
बृहतीसहस्रसंपद्भिर्नाः संपद-
अन्यसंपद्भ्यो गुणोत्कर्षः ५६६
५९७-६०८, ६८३-९०; पद-
शापवचनम् ६०२, ०३; उ-
कश्चिन्निषेधः ६१६; वाग्विषयि-
विषयभूता शरीररूपा दैवी वीणा
६२१; उक्थब्रह्मालम्बनान्युपासन-
स्कामस्य ६४५; सोमोपासनाङ्ग-
-५०; उद्गीथोपासनानि ७४६-
पासनानि ७५६, ५७; प्रस्-
क्रमेण प्राणादित्यान्नरूपदेवतोपास-
नानुमतिपरमाख्यानाम् ७६७-७

पादित्यदृष्टिविशिष्टसप्तविधसामोपासनम् ७७८, ७९;
 पात्मसंमितातिमृत्युसप्तविधसामविषयमुपासनम् ७७९,
 ०; महामनस्वव्रतयुक्तं गायत्रसामोपासनं प्राणदृष्टिविशि-
 ष्टम्, निष्ठीवनप्रतिषेधादिव्रतयुक्तं रथन्तरसामोपासनं अग्नि-
 दृष्टिविशिष्टम् ७८१; कामिन्यप्रतिहारव्रतयुक्तं वामदेव्य-
 गामोपासनं मिथुनदृष्टिविशिष्टम् ७८१, ८२; तपन्नादित्या-
 नेन्द्राव्रतयुक्तं बृहत्सामोपासनं आदित्यदृष्टिविशिष्टम्, वर्ष-
 पर्जन्यानिन्दाव्रतयुक्तं वैरूपसामोपासनं पर्जन्यदृष्टिविशि-
 ष्टम् ७८२; ऋत्वनिन्दाव्रतयुक्तं वैराजसामोपासनं ऋतुदृष्टि-
 विशिष्टम्, पृथिव्यादिलोकानिन्दाव्रतयुक्तं शक्वरीसामो-
 पासनं लोकदृष्टिविशिष्टम्, पश्चनिन्दाव्रतयुक्तं रेवतीसामो-
 पासनं पशुदृष्टिविशिष्टम्, मज्जानशनव्रतयुक्तं यज्ञायज्ञीय-
 गामोपासनं अङ्गदृष्टिविशिष्टम् ७८३; ब्राह्मणानिन्दाव्रत-
 युक्तं राजनसामोपासनं देवतादृष्टिविशिष्टम् ७८४; सर्वा-
 मदृष्टिव्रतयुक्तं सामोपासनं सर्वदृष्टिविशिष्टम् ७८४, ८५;
 गायत्रसामि पृथिव्यग्न्यन्तरिक्षवायुद्युसूर्यवाक्प्राणानां
 संपत्तिः ब्रह्मसंपत्तिश्च उपास्या उद्गात्रा १३३०; अष्टदेवता-
 न्द्वानुसंधानोपासना, हिंकारे चन्द्रमसः प्रणवे आदित्यस्य
 सर्वासां च देवतानां ऐक्यानुसंधानोपासना औद्गात्राङ्गम्
 १३३०, ३१; हिंकारे भाकरणं श्रीरूपं आदित्यरूपं
 चेत्युपास्यमुद्गात्रा, हिंकारस्य बहिर्धाकरणनिषेधः,
 ब्रह्मिष्ववमानकाले गायत्रसामिन् गीयमाने आदि-
 त्यस्थसत्यरूपदेवतायाः स्वकृतसर्वपुण्यपापादिकर्तृत्वदृष्टिः
 चात्वाल्खाते द्युभवीयाकाशदृष्टिश्च स्वर्गप्रतिबन्धनिवारिणी
 अमृतप्रापिका च १३३१; गायत्रसामिन् संपादनीया-
 स्वष्टसु देवतासु सर्वरूपत्वदृष्टिः भ्रातृव्यञ्जन्यातागुणविष-
 यिणी, सरसत्वेन वेदाप्यायकत्वेन च प्रणवमहिमोपासना
 तत्सहितेनैव वेदेन प्रयुक्तेन यज्ञो भवतीति १३३२; सर्व-
 प्रजोपजीवनत्वं आदित्यरूपत्वं ऋतुपर्जन्ययज्ञरूपत्वं च
 साम्नः उपास्यं, पुरुषस्यैव सामत्वोपासना प्रशस्ततमा,

रूपाणां अष्टसामाङ्गानां लोकदेवतादिगादिषु संपद्रूपोपा-
 सना च औद्गात्राङ्गं, साम्नः स्वरूपता, प्राणानां गातृत्वो-
 पासना, वायोः रसरूपत्वोपासना १३३५, ३६; उद्गाना-
 ङ्गोपासना पुरुषत्रयविषयिणी १३३७; त्रिवृतः साम्नः
 चतुष्पात्वं अध्यात्मं अधिदैवतं च उपास्यं औद्गात्राङ्गं,
 गायत्रसामिन् च चन्द्रमसः आदित्यस्य च चतुष्पात्वं
 अष्टत्वसंख्यया संपाद्यं, 'वायुरूपः प्रजापतिः आदित्यः
 अग्निः चन्द्रमा नक्षत्राणि च सामैव' इत्युपासना औद्गा-
 त्राङ्गम् १३३९, ४०; 'संवत्सरात्मकं ऋतुचक्ररूपं
 अनन्तं साम' इत्युपासना औद्गात्राङ्गम्, 'पर्जन्यात्मकं
 पुरुषात्मकं देवतात्मकं च साम' इत्युपासना औद्गात्रा-
 ङ्गम् १३४०; अध्यात्मं श्रीप्रतिष्ठासुवर्णापचितिश्रुति-
 विषयिणी सामोपासना औद्गात्राङ्गम् १३४१; 'चतुष्पात-
 साम वागात्मकं प्राणरूपं असुस्वरूपं' इत्युपासना वाचः
 अदितित्वगुणा औद्गात्राङ्गम् १३४१, ४२; 'सामैव
 देवता ज्योतिःप्रतिष्ठादिरूपैः अङ्गैः अग्निपृथिव्यादिषु
 स्थितं अक्षररूपं, तदेव सर्वत्र समः सर्वरूपः अक्षिपुरुषः;
 तदेव सर्वत्र स्थितः एकः पुरुषः, भ्रातृव्यरहितः इन्द्रश्च
 तदेव' इत्युपासना औद्गात्राङ्गम् १३४२, ४३
 प्रजापतिरूपेण सामोपासना १३४३, ४४; गाथादीनां
 दोषहरत्वं, 'साम सर्वदेवसहायभूतं वावापृथिवीसृष्ट्य-
 अग्नीन्द्रादीनामिष्टम्' इत्युपासना, साम्नः सप्त गान-
 प्रकारा गेयाः, अष्टमः प्रकारः अगेयः १३४४, ४५
 ऋक्तामयोः मनःप्राणाभ्यां वागपानाभ्यां च अभे-
 उपास्यः १३४५, ४६; ऋचः व्यापकं साम इत्युपासन-
 उद्गीथाक्षरविषयिणी अध्यात्माधिदैवतोपासना, साम्न-
 त्रय्याश्च आदित्यैकविषयत्वमित्युपासना, हिरण्यदक्षिण-
 सर्वदेवतारूपा इत्युपासना औद्गात्राङ्गं, सामवैर्ये-
 पासना, सामवैर्येदेवतोपासना, प्राणस्योद्गाररूपत्वो-
 पासना साख्याना १३४७, ४८; 'सप्तविधं सा

चोपासना एकसर्वदेवतात्मविषयिणी १३५४, ५५; उक्थे
सप्तविधोक्थेषु च उपासनाविशेषाः १३५५, ५६; उक्था-
ङ्गोपासना १३५९, ६०; साम्नः प्रदानविषयिणी उपासना,
बन्धुमत्सामोपासना १३५६, ५७; व्यावृद्धायत्रसामोपासना
१३५८; निधनोपासना प्रणवसहिता १३५९; षड्देवता-
विषयिणी गायत्रसामोपनिषत् १३७१, ७२; प्रणवात्मि-
कायां वाचि पृथिव्यादिषड्देवतानां संपद्रूपोपासना
उद्गातुः, वायोः अपां चानुसारेण गायत्रं साम गेयम्
१३३०; साख्याना प्रणवादिविषयिणी मृत्युत्रयातिवाहन-
विद्या १३५७, ५८.

यज्ञसंबन्धिन्य उपासनाः--

पुरुषरूपयज्ञोपासनं आत्मनो दीर्घजीवनाय ८१४
-१६; पुरुषयज्ञविदो मरणसमये जपः ८१७; आश्वमे-
धिकाश्रविषयकोपासना- दृश्यविश्वमेवासौ अश्वः, महि-
माख्यौ ग्रहौ अहः रात्रिश्च, तस्य देवादिसंबन्धिरूपाणि
बन्धनस्थानयोनी च ९८७-९०; अर्काश्वमेधोपासनं
मृत्यावत्सामभावफलम् ९९९; आध्यात्मिकमान्तरमग्निहो-
त्रम् ६९०, ९१; विद्वान् संन्यासी यज्ञरूपः इत्युपासना
१६५१, ५२.

प्राणोपासना--

प्राणोपासना ५२८-७९, ६४०-४४, ६५०-५५,
७५१-५४, ८४९-५४, १२७८, ७९, १२८५-८९,
१३४९-५३, १३८६; अन्नप्राणविषयिणी उपासना
१२७७; प्राणः प्रज्ञात्मा इन्द्रः 'आयुरमृतम्' इत्युपास्यः
६५८, ५९; उद्गीथकर्तृत्वेन मुख्यप्राणोपासना सदेवा-
सुराख्याना ११०१-१४; मध्यमप्राणविद्या १०७९-८२.

ब्रह्मोपासना आत्मोपासना वा--

वैश्वानरविद्या— साख्यानविद्याप्रतिपाद्यो विश्वरूपो
वैश्वानरः परमात्मा ब्रह्म, वैश्वानरे प्राणाग्निहोत्रं संपद्रूपम्
३८-४२, ८७१-८२; आत्मनः अत्तरूपेण अग्न्यर्को-

स्मराशाप्राणरूपाणि तत्त्वानि उत्स-
-३७; हार्दविद्यापरपर्याया दहरवि-
कोसलविद्या ८३४-४०; षोडश-
ज्योतिर्ब्रह्मोपासना ८०५; ब्रह्मोपा-
-७०२, ७३९, ४०, १३८२, ८
सर्वत्रैवोपास्यः ब्रह्मसंज्ञित आत्म-
६२७-३९; प्रजापतिना नारायण-
सर्वात्मविद्या ४६९, ७०; शाण्डि-
आदित्यब्रह्मोपासना ८२१, २
१०२२; वागादिप्रतीकानि विवि-
११८१-८६; सत्याक्षरोपासना १
स्थपुरुषत्राक्षुषपुरुषयोः अन्योन्य-
रितिग्याहृतिशरीरत्वं च १२७३.
सूक्ष्मः पुरुष एव सर्वस्थेशानः
१२७५; वैश्वानरोपासना १२७
सनयोः समुच्चयः १३२३, २४;
ब्रह्मत्वाङ्गोपासना १३६०; उपास-
१३७५, ७६; चतुर्विधश्रीविद्या
प्राणविद्या, ब्रह्मासन्दीविद्या,
चाक्षुषपुरुषस्य सर्वरूपत्वविद्या १
ब्रह्मोपासना १३८७; अकामस्य
भावेन स्थितिः, सकामस्य संसर-
मात्मा स्वचित्तस्थत्वेनोपास्यः १
स्थितं तत्त्वमुपास्यम् १६३६; उ-
न्नब्रह्मसद्रविष्णवादिरूपाणां ध्येयान-
५७; ग्याहृत्युपासना १६५८, ५
१६६०, ६१; आदित्ये ब्रह्मोपा-
युक्तं ब्रह्मज्ञानपर्यवसायि अग्निहो-
पासना १६६६; देवतात्मभावोप-

ऋतस्य पदे स्थितः परमात्मा २६८; धातुस्तपसः ऋतं
जातम् २७९; ऋतस्य प्रथमजा वाक् ३४९; ऋतपराणा-
नामुष्मिका लोकाः ३६७; ऋतस्य प्रथमजो मृत्युः ४१३;
ऋतरूपत्वं परमात्मनः १६३०; ऋतं तपः १६३५;
ऋसादिरूपेण द्युलोकादिषु स्थितं ऋतं बृहत् १६३५,
५५; ऋतभुक् आत्मा १६५५.

ऋषयः

ऋषयो मन्त्रकर्तारो विश्वं ऋचि कल्पयन्ति, तेषां
सहैव विश्वजीवनम् २३०; प्रथमजर्षयः एकर्षिश्च यवा-
र्षिताः स स्कम्भः २४७; पुरुषकृतात् यज्ञात् ऋषीणां
पृष्टिः २७६-७८; अद्भ्यो वायुरूपो भृगुर्जातः, स
एवाथर्वाऽभवत्, प्रजापतेरथर्वणः मन्त्रकर्तारो जाताः
०३, ०४; वरुणादङ्गिरा ऋषिः, ततः ऋषयोऽङ्गिरसः,
तेभ्य आङ्गिरसा जाताः, तेभ्य उभयेभ्यश्च आङ्गिरसो वेदो
जातः ३०४, ०५; मेधा ऋषिमिरुवासिता ३४४, ४५;
मन्त्रकृद्भिस्तपसा प्राप्ता वाक् ३४९; उत्तमायां दिवि
ऋषीणामारोहणम् ३९१; ऋषिभिरनुसृतो ब्राह्म्यः ४५०,
११.

कर्म

कर्मप्रवर्तकदेवता—

विश्वधारककर्मानुशासकः सविता ९६; सर्वकर्मणा-
नुज्ञापकः सविता ९७; सर्वेषां कर्मणि प्रवर्तकः प्रजा-
पतिः २०१.

कर्मकारणम्—

श्रोत्रात्कर्म जातं, कर्मणोऽग्निर्जातः ३२१; कर्मकारणं
मनः ३३४; श्रेयोरूपकर्मप्रेरकं मनः ३३७; सर्वकर्मकर्ता
कामः ३३८; प्रज्ञान्मा प्राणः साध्वमाधुकर्मासंस्पृष्टः
लोकाधिपतिः साध्वसाधुकर्मकारयिता ६७१, ७२;
आत्मतः सर्वकर्माणि १०४२, ६५; तत्त्वानां योगकर-
णात् गुणान्वितकर्मारम्भः, कर्मक्षये तत्त्वेष्वोऽन्यत्वप्राप्तिः

१४५२; पुण्यकर्मणः आत्मविद्यासहितस्य अक्षयं फलं
अन्यथा पुण्यकर्मणा क्षय्यलोकाः ९५७, १०३९; त्रयी-
विद्यामय आत्मा कर्ममयः ६४५; ब्रह्मलोकप्राप्तये अपुन-
रावृत्तये च गार्हस्थ्यधर्मविधिः ९८४; कर्मणां तपोयज्ञ-
दानादीनां आत्मज्ञानसंबन्धः १२४७-५८, १३८४
१४५२, ७७, ८८, ८९; मरणोत्तरं कर्मसंबन्धः
११२६, १२२४, २९-३८ जीवगतिशब्दो द्रष्टव्यः
वेदोक्तानि कर्माण्येव सुकृतस्य पन्थाः १४४८-५०
यमनियमादीनां श्रौतस्मार्तकर्मणामनुष्ठेयत्वम् ७०२; कर्म-
निष्ठा, कर्मलेगभावः १३१४; इष्टापूर्तधर्ता परमात्म-
१६३०; पुण्यलोकसाधनानि अग्निहोत्रादीनि कर्माणि
१६६५.

उपनिषदुक्तकर्मविशेषाः—

प्राणब्रह्मोपासकस्य धनकामस्य कर्म एकधनत्व-
रोधनाख्यम् ६४२; प्राणब्रह्मोपासककर्तृकं वशीकरणस्य
दैवस्मराख्यं कर्म ६४३; प्राणब्रह्मोपासककर्तृकमा-
न्तरमग्निहोत्रम् ६४४; पितापुत्रसंबन्धि संपत्तिक-
६५४, ५५; मेधाकामस्य श्रीकामस्य च जप-
होमौ ६९५; महत्त्वप्राप्तिकामस्य मन्थाख्यं क-
८५४, ५५; महत्त्वप्राप्तिसाधनं श्रीमन्थाख्यं क-
१३०१-०४; आत्मरूपब्रह्मलोकप्राप्तिसाधनं जप-
९८२, ८३; पुत्रमन्थाख्यं कर्म इष्टगुणपुत्र-
प्राप्तिसाधनं, गर्भाधानकर्म, सोष्यन्तीकर्म, जात-
कर्म, नामकरणं, स्तनप्रदानम् १३०४-१०
ब्रह्मध्यानजपस्नानादिकर्माङ्गमन्त्राः—मेधाजीवनादिप्रार्थन-
सदसस्पतिः अग्निश्च देवता १६३१; स्नान-
विधिमन्त्राः—दूर्वाभिमन्त्रणं, मृत्तिकाभिमन्त्रणं, इन्द्र-
दीनां अभयस्वस्तिपोषाद्यर्थं प्रार्थना, सदसद्योनिप्रकाश-
ब्रह्मस्मरणं, मृत्तिकाशुद्धिहेतुः पृथिवीप्रार्थनं; मत्तिको-
लेपनानन्तरं जलप्रवेशनमन्त्राः—विष्णुमुखादिदेवस्मर-

मन्त्राः— वरुणराजप्रार्थना पापनाशब्रह्मलोकप्राप्त्याद्यर्थं गङ्गादितीर्थानामावाहनं; जले निमग्नस्य प्राणायामार्थं अघ-
मर्षणमन्त्राः— तपसः सृष्टिः ऋतसत्यादिक्रमेण; अघमर्ष-
णानन्तरं अवगाहनार्था मन्त्राः— वरुणवसूनां जलशुद्धि-
स्वर्गप्राप्त्याद्यर्थं प्रार्थना; स्नातवतः आचमनमन्त्राः—
कर्मकर्तुः ज्योतिरात्मता ब्रह्मरूपता च; आचमनोत्तर-
स्नानमन्त्रौ— स्तैन्यादिमहापापमुक्तिप्रार्थना; स्नानादूर्ध्वं
जप्यो मन्त्रः— समुद्रो भुवनराजः १६३२-३४; अनिष्ट-
परिहारार्थं जप्या मन्त्राः, अन्नहोममन्त्राः, पापक्षयार्थ-
होममन्त्राः, महत्त्वकामस्य होममन्त्राः १६३४; ज्ञान-
प्रतिबन्धनिवारकहोममन्त्राः, कृत्स्नवेदान्तप्राप्तिफलकजप-
मन्त्रः, लब्धवेदधारणफलकजपमन्त्रः १६३५; लिङ्ग-
प्रतिष्ठार्थं पापक्षयार्थं च विनियोज्या मन्त्राः १६४०, ४१;
महादेवस्य पश्चिमोत्तरदक्षिणप्राग्ूर्ध्ववक्त्राणां क्रमेण नम-
स्कारार्था मन्त्राः १६४१; जप्या रक्षोघ्नमन्त्राः १६४३;
संधोपासना— माध्याह्निकसंध्यासमये अभिमन्त्रितजल-
पानमन्त्राः, सायंसंध्याकाले प्रातःसंध्याकाले च अभि-
मन्त्रितजलपानार्थं मन्त्रौ क्रमेण, प्रणवस्य देव-
तर्षिच्छन्दोविनियोगाः, संध्यात्रये गायत्र्यावाहनं,
गायत्र्याः ऋषिच्छन्दोदेवतागोत्रादीनि, प्राणायाम-
मन्त्रः, जपादूर्ध्वं गायत्रीविसर्जनमन्त्रः, संधोपासना-
ऽसमर्थस्य जप्य आदित्यमन्त्रः १६४३, ४४;
त्रिसुपर्णपाठकानां पङ्क्तिपावनत्वम् १६४५; सर्व-
पापनिवर्णार्था होममन्त्राः १६४६, ४७; विरजा-
होमः— संन्यासाश्रमकरणाङ्गभूते विरजाख्ये तिल-
होमे विनियुक्ता मन्त्राः १६४७; वैश्वदेवः बलिहरणं
च— वैश्वदेवहोममन्त्राः, बलिहरणमन्त्रा धर्माधर्मादिदेव-
ताकाः, पापक्षयार्थं जप्यो मन्त्रः १६४८; भोजनविधिः—
प्राणाहुतिमन्त्राः, भोजनादौ भोजनान्ते च जलप्राशन-

पठनविधिः पापनाशफलः १
१६८०.

कामः

सर्वकर्मकर्ता, दातृप्रतिग्रही-
धेनोर्विराजो वाचः पिता, अ-
ज्येष्ठो देवः, बहुलोकदः, प्रथम-
सर्वदा महान्, द्यावापृथिवीदि-
शिवतनुधरः, पापधीनाशकः
मनसो रेतः, बृहन्, विभुः,
फलदः ३४०, ४१; कामः स
—३८; कामः सर्वपापस्य कर्ता

कालः

महाकालो देवता—

अजरः, विपश्चिद्धिराख्या-
व्यापकः, प्रथमदेवः, सूर्यरूप-
पिता पुत्रश्च, परमं तेजः
सर्वाधारश्च १७७; मनःप्राण-
सर्वस्येश्वरः, प्रजापतेः पि-
आधारः, सर्वस्य प्रेरको जनक-
कारणं, सर्वनियामकः, परमो वे-
संवत्सररूपः कालः—

सर्वप्रमाणविषयः संवत्सरात्
पाधिकः १७९; सर्वेषामणुमह-
अणुमहद्भिरुपाधिभिर्भुक्तः प्रत्य-
रहितः अदृश्यः १८०; कालस्य
१८०, ८१; केवलः भुवनपूष-
रूपः प्रत्यक्षः प्रियतमः १८
मजरं संवत्सरस्वरूपम् २०७
संवत्सररूपमजरं चक्रं, स एव
२१०-१२: एकं संवत्सरात्म-

संवत्सरं च सृष्टवान् २९९, ३००; मृत्योः संवत्सरसृष्टिः १९५; विद्युद्रूपात् परमात्मनः निमेषादिकालोत्पत्तिः १६३०; रात्रिकर्तृत्वं वरुणस्य ८०; कालचक्रप्रवर्तकः वेष्णुः ९०; त्रयोदशमासकर्ता रोहितः १७३; अहोरात्रजनकः तज्जन्यश्च रोहितः १७५; निमेषजनको वेद्युत्पुरुषः २५५.

कालस्य संवत्सरादिरूपस्य देवतासंबन्धः--

संवत्सररूपः सविता ९४; कालरूपत्वं रोहितस्य १७२; संवत्सररूपः परमात्मा २४९; संवत्सरस्य प्रजापतित्वम् १४९३; मासस्य अहोरात्रस्य च प्रजापतित्वम् १४९५; कालकालः परमात्मा पञ्चभूतकर्मेशानः न कालः १६१७; कालस्य ब्रह्मैकरूपत्वम् १६५७; मासवेदितृत्वं वरुणस्य ७५; आगदिवसेष्वाविर्भवनशीलः अग्निः ५; अहोरात्रार्धमास-मासर्तुसंवत्सराणां गतेः प्रेप्सागोचरः स्कम्भः २४६, ७७; (कालात्मा) ब्राह्मणः संवत्सराधिष्ठाता, चतुर्दिक-वरः, सामभिर्देवैः ऋषिभिश्चानुसृतः, पुंश्चलीमाग-प्रोपेतः, वस्त्रोष्णीषकेशप्रवर्तमणिभूषितः, परिष्कन्द-वेपथवाहसारथिप्रतोदपुरःसरसहितः ४५०, ५१; ब्राह्मणः वैर्देत्तायां कालवयवकासन्द्यां स्थितः षट्सु दिक्षु शतदशमासरूपगोप्तसहकृतश्च ४५१, ५२; कालेनानुगतो ब्राह्मणः ४५३; प्रणवाक्षररूपं सर्वं कालसंसृष्टं कालातीतं च १५२०; कालात् व्यापको रुद्रः १६८१.

कालसंबन्धिन्य उपासनाः--

संहिताक्षरविषयं अहःसंमितं प्रजापत्युपासनम् ६१०-१२; सर्वात्मा अहःसंमानः अक्षरसंमानश्च प्रजापतिः संवत्सरसंमानत्वेनोपासनाविषयः ६१३; जारत्कारवस्यार्त-मागस्य गतिनिवृत्तिस्थितिरेहिता कालसंहिता, संवत्सर-संमित आत्मा उपास्यः, अहःसंमित आत्मा उपास्यः ८७, ८८; ऋत्वनिन्दाव्रतयुक्तं वैराजसामोपासनं ऋतु-सृष्टिविशिष्टम् ७८३; कालः आदित्यमूलकः आदित्या-

मरणकाले, अविमुक्तक्षेत्रनिषेधवर्णविधिः मुक्त्यर्थं १६६९. वाराणसीपदं द्रष्टव्यम् ।

गार्हस्थ्यम्

ब्रह्मलोकप्राप्तये अपुनरावृत्तये च गार्हस्थ्यधर्मविधिः ९८४.

गुरुः

शिक्षकत्वं वरुणस्य ८१; ज्ञानप्राप्तये आचार्य-पेक्षा ९२१; अतर्क्यात्मविद्या काचित्ककुशलगुरुलभ्य १४००; शिष्याचार्ययोः प्रसादकृता शान्तिः १४४१; मुमुक्षोः ब्रह्मविदिषोः गुरुरूपसत्तिः १४५२, ५३; प-ब्रह्म अन्वेषमाणानां ऋषीणां गुरुरूपसत्तिः १४९०; गुरुभक्तिः अर्थप्रकाशकारणम् १६२८.

चन्द्रमाः

चन्द्रमसः प्रकाशनगमनादिब्रतानामधिष्ठातृत्वं वरु-णस्य ७४; चन्द्रस्य ध्येयत्वम् १३४; चन्द्रमसो रुद्रमूर्ति-त्वम् १५१; चन्द्रमसोऽन्तर्धानोद्भवधिष्ठानं वायुः १५१, ५२; चन्द्रमसः प्रशास्ता रोहितः १७५; परमात्मन-मनसश्चन्द्रमस उत्पत्तिः २३३; चन्द्रमस उद्भवस्था-यस्याङ्गं जिज्ञास्यं स स्कम्भः २४६; चन्द्रमसोऽधिष्ठा-स्कम्भः २४७; चन्द्रमश्चक्षुः ज्येष्ठं ब्रह्म २४८; विद्यु-त्पुरुषस्य चन्द्रमोरूपत्वम् २५५; मनसा चन्द्रमसि चरा-परमात्मा २६९; धातुः सकाशात् चन्द्रमस उत्पत्तिः २७९; अण्डाच्चन्द्रमस उत्पत्तिः २९५; प्रजापतेः सका-शात् चन्द्रमसः सृष्टिः ३०५; मनसि चन्द्रमसः प्रवेशः ३२२; चन्द्रमोरूपत्वं प्राणस्य ३२४; चन्द्रेणानुगतो ब्राह्म-णः ४५२; परलोकगन्तुः चन्द्रमा द्वारं एतल्लोकगमनस्य ब्रह्म-लोकप्राप्तेश्च ६२९-३२; आयुःप्रजासमृद्धिकामेनोपास-नं चन्द्रमसः ६४७-४९; चन्द्रमसः रथित्वम् १४९०; चन्द्रमोरूपत्वं ब्रह्मणः १६००; चन्द्रमोरूपत्वं परमात्म-

चातुर्वर्ण्यम्

चातुर्वर्ण्यात्मकावयवसंपन्नः परमात्मा २३३; ज्येष्ठः प्रजापतिः ज्येष्ठयज्ञेनाग्निधोमेन चातुर्वर्ण्यं सृष्टवान् २८१; प्रजापतेश्चातुर्वर्ण्यस्य सृष्टिः २८३, ८४, ८६; चातुर्वर्ण्यस्योत्पत्तिः १०३६, ३७.

छन्दः

छन्दसां साम्नां च रहस्यज्ञानेनामृतत्वप्राप्तिः, तद्रहस्यं च २१५-१७; बृहत्यात्मत्वं प्राणस्य ५३७-३९; गायत्र्युपासनम् १२७९-८४.

जन्म

जन्मत्रयम् ४०७, ५८९, ९०, १३५७, ५८; यजमानस्य जन्मद्वयम् ४०५; जीवजन्मविचारः ४०४, ८५५-७१, १२९०-१३००, १४२९; शुद्धस्य निष्कामस्यात्मनो जन्माभावः १२३२, ३६, ४५, ५७, ५८, १४०५, १५९९. जीवगतिपदं द्रष्टव्यम् ।

जीवः

जीवस्य स्वरूपं स्थानं च शरीरे--

भोक्तृभोज्यरूपः विश्वविभागः ४२, ५५७, १६५९, ६०; जीवस्वरूपम् २२०, २१; जीवः प्राण उष्णः ३२७, २९; जीवः प्राणः ३२९, ३१, ५३३, ८१, १०६६, ११६८, १३६५, १६५८, ६४; जीवो मध्यमः प्राणः १०७९-८१; पातकनाशद्वारा सुबन्धु-मनसः जीवनहेतोस्तच्छरीरं प्रति आगमनप्रार्थना ३६५; आत्मा अनुस्यूतः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ९७१-८२, ११९२-१२१९, १५२१-२५; जीवस्य जाग्रत्स्वप्न-सुषुप्तिजन्मान्तररूपा अवस्थाः ११९२-१२३४, १६७५; जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिजन्मान्तररूपावस्थायुक्तः जीवः, जीव एव अखण्डबोधश्रयः पुरत्रयलयाधारः १६७५; शरीर-भावमापन्नः शरीरः स्वापसुखभोक्ता १५०७; जीवः आत्मज्योतिः ११९२, १२०२, १४३२, १५०२;

४६, ४७, ५५, ५९-६५, १४०
६१, ६२, १५०८, ०९, ९९;
शरीरव्यापी ६८१, ९७७,
जीवात्मा हृदि २६०, ६९९, ८१
१२७४, १४४०, १५०२, १६५
जीवात्मा शिरसि शिरःपरिमाणो वा
६९९, ८७६, १६६९; जीवात्मा
४०, १५९७, १६१४, १९; जीव
१६१५; जीवात्मा अपीयान् मही
१४०६, १५९९, १६१६, ३५;
जन्मा उभयात्मा ५७१, ७२; ज
संसारी मरणोत्तरभावी २७, ६६६,
९१८, १९, १२२०-३२, १४
६३; अमर्त्यजीवस्य मर्त्यस्य च सं
त्पत्ययोगचरः आत्मेन्द्रियप्राणशरीर
शरीरधारी आत्मा जीवाख्यः अम
३५३; मृतस्य पुनर्भवः अनुप
अनीश आत्मा भोक्ता १५८०; माय
गुणान्वितः फलकर्मकर्ता स्वकृतभो
संचारी विविधशरीरधारी जीवः
भोक्ताः १६३५; नानात्वमापन्नः प्रा
भूतः शरीरो संसारी अन्तःस्थपरमा
चतुर्जालं नानात्वं १६५५; जीवस्य
रूपो मायामयः सदसत्कर्मफलमयो
जीवात्मब्रह्मणोः संबन्धः अभेदः कार्य
भेदो वा उ
ब्रह्म प्रजापतिः परमात्मा वा पुरुषे
४६, ५०, ५७, ६६-६८, ३२२,
८९३, ९६, ११११, १३६६, १९
सृष्टभूतेषु प्रवेशः १६०; विश्वस्य

६२, ५९४, ६१८, ७२, ९१, ९९, ७१७, ९१३,
१७, १८, १९, २०, २१, २३, २४, ४६, ४७,
६१, ७१, ७३, ७५, ७६, ७९, ८३, १०२९,
९५, १११२, १२२९, ४४, ५५, ५८, ६१, ६४,
१३७५, ७६, १४२१, १५२१, १६०१, ५४, ६७,
७१, ७६; परमात्मन आत्मरूपत्वं मनसा द्रष्टृत्वं च
२२२; अहमादिष्टः परमात्मा २४३, ४४; अहंव्यप-
देयं ब्रह्म २६३; अणुः सद्रूपो विश्वात्मा, विश्वात्मरूप-
सत्यस्य त्वंपदार्थस्य चैक्यम् ९०८-२४; मनःप्राण-
वाक्चक्षुःश्रोत्राणां प्रेषयिता अप्रमेयः उपासनस्य अवि-
षयः मुक्तिहेतुः देवः ब्रह्म १३७३-७६; आत्मैव रूप-
सादिविषयकवृत्तिप्रकाशकः स्वप्नजागृतिसाक्षी जीवरूपः
भूतभव्येशानः सर्वरूपः १४२१; स्वप्नकरः जीवात्मैव
ब्रह्म १४२९; कर्मकर्तुः ज्योतिरात्मता ब्रह्मरूपता च
१६३४; जीवात्मानः परमात्मनो जाताः १०७७,
१४५३; जीवप्रकृतिपरमात्मानः इति त्रिविधं ब्रह्म
१५८३; भोक्ता द्रष्टा च एकाश्रितः २१३; यज्ञद्वारा
जीवाधिगम्यो जीवान्तरात्मा २५८; अहंव्यपदेश्यजीवा-
श्रयभूतामृताश्रयः ब्रह्म २६०; धारकौ मातरिश्वना
पहितौ घर्मौ सुपर्णौ २३४, ३५; जीवपरमात्मभेदः,
जीवात्मरूपो रथी परमात्मप्राप्त्यधिकृतः तदनधिकृत-
धेतु द्विविधः १४१०-१३; ईशानीशौ सखायौ, ईश-
दर्शनात् शोकमुक्तिः ईशसाम्यं च १४६८-७२; अजा
भोक्तारः, द्वौ सुपर्णौ भोक्त्रभोक्तारौ, भोक्तुः
शददर्शनजन्यमुक्तिः १६०१-०५; विज्ञानात्मपुरुषस्य
परमात्मा अधिष्ठानम् १५०८; क्षेत्रज्ञपतिः परमात्मा
६२५.

जीवो बद्धो मुक्तश्च--

जीवस्य संसारः मुक्तिश्च ८६१-७०, १२२०-

२, १४००, २१, २९, ३४, ३८, ३९, ७०, ७१,

इन्द्रस्थानभोक्तृत्वप्रयोजकत्वम् ४९; प्रजासु स्थितिर्वरुण
७५; दर्शनश्रवणभुक्तिजीवनव्यापारप्रयोक्त्री वाक् २३
सर्वजीवरूपेण पश्यन्ती उषाः २५०; मर्त्यस्य देवत्व
२५३.

जीवगतिः

विवस्वान्, यमः, मृत्युदेवः, असुनीतिश्च, यमराज्यं च-

मर्त्यानां विवस्वान् हन्ता ३५४; सोमसाध-
अमृतः स्वर्गः ज्योतिष्वावृतः राज्ञा वैवस्वतेनाधिष्ठितः
३५५; लोकदः, मार्गमवाधमानः, संगमस्थानभू-
जनानां, प्रथमः पितृमार्गज्ञः, वैवस्वतो यमो राजा ३५६
चक्षुष्मान् शृण्वन् मृत्युदेवः ३६०; सोमस्यासुनीतेरित-
रेषां च देवानामनुग्रहात् पापनाशेन आयुः प्रवृद्धत-
नवीयः भवितुमर्ह, चक्षुःप्राणासुतनूनां पुनः प्राप्ति-
भवितुमर्हा सति निर्ऋतेः दूरतरगमने ३६३; यमः पर-
सर्वस्मात् तिष्ठति, स च मृतार्थस्थानदाता ३८७
मर्त्यानां प्रथममृतः स्वर्गतः वैवस्वतो यमो राजा, असु-
नीतिर्देवः पितृभ्यस्तनुदाता, यमः ऐहिकाभयामृतत्व-
दाता ३९०; मृत्युर्देवः इष्टदः यजनीयश्च ४१२; मृत्यु-
पुरुषरूपः, देवयानेतरमार्गस्वामी, मनुष्याणां एकराट्
ऋतस्य प्रथमजः ४१२, १३; यजनीयो देवः, जगत-
वशी, गानेन स्तोतव्यः, अश्वरथाधिष्ठाता, जगतः धर्ता
छन्दसां प्रतिष्ठा, सर्वप्रेताधिगम्यः, मरणोत्तरं सत्यानृत-
विवेचकः राजा यमः ४१५; सर्वमृतेभ्यः अवसान-
दाता ४१७; यमगृहे वरुणदूतः सुपर्णः ४१४; मृत-
मार्गर्क्षकदेवताः ४१३, १४; मरणपूर्वं मरणोत्त-
मरणसमये च स्थितिः, निर्ऋतिमृत्युयमदूतादय-
पाशशृङ्खलाद्यायुधधराः मरणकाले प्राणहराः, अयं लोक-
अभयस्थानं, असुप्राणचक्षुर्मनआदीनां मरणकाले देह-
त्यागः, मृत्युपरिहारविधिः, मृत्योः रक्षणकर्तारः ३७६

वस्त्रस्य च यमराज्ये भुक्तिः ३९७; देवयानेतरेण पथा मृत्युदेवो गच्छतु इति प्रार्थना १६४५.

उत्क्रान्तिः—

दुष्कृतं हित्वा सुकृतेन सहोत्क्रमणसाधनं विद्या ४०३; शरीरादुत्क्रमणं प्राणस्य वागादिभिः सह ६६७; हार्द-ब्रह्मोपासकस्य विदुषः मूर्धन्यनाड्या आदित्यामृतत्वप्राप्तिः ९६६-६८; म्रियमाणस्य सुक्तस्य प्राणानुत्क्रमणम् ११२४; ब्रह्मरूपस्य विज्ञानात्मनः शरीरादुत्क्रान्तिः १२१९-२२; विद्याकर्मभ्यां पूर्वप्रज्ञया च सह सविज्ञानस्य आत्मनः सप्राणस्योत्क्रान्तिः १२२३-२७; अन्तकाले अमृतत्वादिफलकं नाडीनिष्क्रमणम् १४३९; सुषुम्नाख्यया नाड्या ऊर्ध्वोत्क्रमणविधिः कैवल्यफलकः १६६१; मरिभ्यतः मार्गप्रार्थना १३२७, २८; उत्क्रान्तस्य विदुषः आत्मद्वयं दायद्वयं च ४०३.

कर्मपरलोकसंबन्धः—

अग्निः स्वर्गदः २२; स्वर्गमार्गरूपत्वमग्नेः, स्वर्गस्य पन्थाः अग्निः २३; स्वर्गजनकः कामः ३४१; स्वर्गकरी वाक् ३५०; दानेन स्वर्गस्य प्राप्तिः, दानेन स्वर्गस्य अमरत्वस्य देवसलोकतायाश्च प्राप्तिः दुरितनिवारणं ऐहिकेष्टलाभश्च ३५२; दुष्कृतां पाकशंसभद्रमार्गदूषकाणां हिंसकानां असद्वादिनां च दुर्गतिनिर्णयश्च, अमार्गगपतिद्वेषयुक्तस्त्रीसदृशपापकर्मकृद्भिर्नरकः सृष्टः ३५३; अयज्वनः पतनम्, एकविंशं ब्रध्नस्य विष्टपं स्वर्गाख्यं सोमसाध्यम् ३५५; वाजिनः स्वर्गमनम् ३६१; द्युलोकरूपदिव्यनौकारोहणम्, दक्षिणादिदातृणामामुष्मिका लोकाः ३६६; सोमवृतमधुयुक्ता आमुष्मिका लोकाः, तपस्विनां रणेषु तनुत्यजां विविधदानपराणां ऋतपराणां पितृणां ऋषीणां चामुष्मिका लोकाः, पुण्यकृतां सुकृतिनां अमृतस्थानस्वरूपम् ३६७; अग्निना साधनेन स्वर्गः, अग्निना साधनेन देवत्वं स्वर्गः देवैः सह वासश्च, एहि-
नाशकोऽग्निः पृथिव्यन्तरिक्षद्याव-
पितृपुत्रसंपन्नस्य प्रापयितारः ३
सुकृतलोकप्राप्तिश्च ३७३; दानेन
बन्धुरहितानां वा स्वर्गप्राप्तिः
३७५, ७६; पाकयज्ञदानादिभिः
३७६; अङ्गिरसां द्युलोकगमनम्
लोकप्राप्तिः स्वधाकरस्य ३८६;
स्वर्गगामिनः ३८८; देवमार्गागा
यित्री ३८९; उत्तमायां दिवि
मध्वादिपूर्णकुम्भधराः, इतो दत्त
शरीरं दग्ध्वा मृतं सुकृतलोकस्य
अग्रयः सुकृतलोकप्रापकाः, यज्ञाय
स्वर्गप्रापकाणि, त्रयः सुपर्णाः स्व
अमृतसंपन्नस्वर्गगतिः ३९२-९६
स्वर्गं प्रति प्रापकोऽग्निः, स्वर्गलो
मानाः ४००; अग्निः परलोके ज
रक्षोपायः ४०१; स्वर्गः पुण्यलोक
४०१, ०२; आहुतिरमृतत्वसाध
स्वर्गगमनम् ४०६; आहुतिः
मृत्युमुक्तः ४०८; कर्मणः पर
मृत्युस्वरूपं परलोकेषु पुण्यप
देहस्य दुःखान्तता ज्ञानस्येष्टत
नरः प्रेतात्मा सुकृतलोकवहः
पिता चाग्निर्वैश्वानरः ४१४; प्रेतस
१५; सवे देयः स्तोतव्यो
४३२; आत्मनिष्क्रयणयज्ञस्थानन्त्य
त्मिकाग्निहोत्रेण स्वर्गलोकजयः
अतिथियज्ञेनैहिकामुष्मिकलोकजयः
भवनरूपहृदयस्य पञ्चद्वारपालोपा
उपकोसलीया ब्रह्मविद्या देवपथः

नाशकोऽग्निः पृथिव्यन्तरिक्षद्याव-
पितृपुत्रसंपन्नस्य प्रापयितारः ३
सुकृतलोकप्राप्तिश्च ३७३; दानेन
बन्धुरहितानां वा स्वर्गप्राप्तिः
३७५, ७६; पाकयज्ञदानादिभिः
३७६; अङ्गिरसां द्युलोकगमनम्
लोकप्राप्तिः स्वधाकरस्य ३८६;
स्वर्गगामिनः ३८८; देवमार्गागा
यित्री ३८९; उत्तमायां दिवि
मध्वादिपूर्णकुम्भधराः, इतो दत्त
शरीरं दग्ध्वा मृतं सुकृतलोकस्य
अग्रयः सुकृतलोकप्रापकाः, यज्ञाय
स्वर्गप्रापकाणि, त्रयः सुपर्णाः स्व
अमृतसंपन्नस्वर्गगतिः ३९२-९६
स्वर्गं प्रति प्रापकोऽग्निः, स्वर्गलो
मानाः ४००; अग्निः परलोके ज
रक्षोपायः ४०१; स्वर्गः पुण्यलोक
४०१, ०२; आहुतिरमृतत्वसाध
स्वर्गगमनम् ४०६; आहुतिः
मृत्युमुक्तः ४०८; कर्मणः पर
मृत्युस्वरूपं परलोकेषु पुण्यप
देहस्य दुःखान्तता ज्ञानस्येष्टत
नरः प्रेतात्मा सुकृतलोकवहः
पिता चाग्निर्वैश्वानरः ४१४; प्रेतस
१५; सवे देयः स्तोतव्यो
४३२; आत्मनिष्क्रयणयज्ञस्थानन्त्य
त्मिकाग्निहोत्रेण स्वर्गलोकजयः
अतिथियज्ञेनैहिकामुष्मिकलोकजयः
भवनरूपहृदयस्य पञ्चद्वारपालोपा
उपकोसलीया ब्रह्मविद्या देवपथः

स्वर्गाक्रमणसाधनं मनः १११८; सर्वप्राणभृज्यहेतवो होतुः
 ऋचः, देवपितृमनुष्यलोकजयहेतवोऽध्वर्युक्षिता आहु-
 तयः, अनन्तलोकजयहेतुः ब्रह्मणो देवता मनः, पृथिव्य-
 तरिक्षद्युलोकजयहेतवः उद्गातुः स्तोत्रियाः इति संपदुपा-
 तना १११८-२०; दृष्टिद्वयं स्वर्गप्रतिबन्धनिवारकम्
 १३३१; निधनोपासनया यजमानस्य स्वर्गतिः १३५९;
 स्वर्गचित्याग्निविद्या १३९२-९४; कर्मोपासनायुक्तस्य
 उत्तरेण पथा गमनम् १४५२; सत्येन देवयानः
 पन्था विततः १४७८; ब्रह्मलोकसाधनम् १४९६;
 त्रिवितुः अनुज्ञया युक्तमनसा स्वर्गार्थं यत्नः
 १५८५; वरुणवसूनां स्वर्गप्राप्त्यर्थं प्रार्थना १६३३;
 देवैरनुगतस्य हरेर्मागर्गश्चार्थं प्रार्थना १६४६; अपु-
 नरावृत्तिकारणं पापाश्लेषनिवारणं अमृताभयब्रह्मरूप-
 स्यात्मन उपासनं देवपथरूपम् ८३६; आत्म-
 हन्तुस्तमोलोकः १३१५; मृत्युत्रयातिवाहनविद्या, जन्म-
 त्रयं मृत्युत्रयं च १३५७; अन्तकाले अमृतस्यान्तरात्मनः
 शरीरात् पृथक्करणविधिः १४४०; अविमुक्ते कुरुक्षेत्रे
 तारकब्रह्मोपदेशः रुद्रकृतः मरणकाले १६६९.
 मरणोत्तरगतिः समप्रा, प्राप्यलोकवर्णनं, मार्गद्वयवर्णनं च--

देवपित्राधिष्ठितौ देवयानपितृयाणौ मर्त्यमार्गौ ३६६,
 ४०७; बहवो देवयानमार्गाः ३७१; उत्तरमार्गगा देवाः
 ४०६; देवपित्राश्रयः यमवरुणाधिष्ठितं इष्टापूर्तद्वारा
 मर्त्येन प्राप्यं पूर्वपितृवासभूतं परमथोम्नि स्थितं स्थानं,
 यत्र नवशरीरलाभः यत्र च यमदूतश्चद्वयरक्षितमृतस्य गतिः
 ३५६; अग्निः असुमागेण गच्छन्तं आहुतिरूपं जीवं
 मुक्तां लोकं प्रति नयति, पितृभ्यो ददाति, स देववशो
 भवति, मर्त्यस्य चक्षुरादीनां सूर्यवातद्युभूजलौषधीषु
 विलयः ३५९; अग्निमाणस्य मनः शरीरमुत्सृज्यायत्र
 गच्छति ३६२; बहवो देवयानाः, बहवो देवयानाः पितृ-
 प्राणाश्च लोका अनृणगम्याः ३७१; मृतस्य अश्वावती-

आमुष्मिकी गतिः सान्ता अनन्ता च ४०४; सशरी-
 रस्य स्वर्गगमनं, सान्तः अनन्तश्च लोकः ४०६; मृत-
 मार्गर्क्षकदेवताः ४१३; प्रतस्य स्वर्गमनम् ४१४
 स्वर्गाक्रमणसाधनं मनः १११७; मृत्युत्तरं पुरुषस्य
 स्थितिः पुण्यपापानुरूपा ११२६, १२२९; विज्ञानात्मनं
 जीवस्य शरीरादुत्क्रान्तिः विद्याकर्मसहितस्य १२२०-२७
 जीवात्मनः शरीरादुत्क्रान्तस्य नवतररूपधारणम् १२२७-
 २८; जीवात्मनः कामक्रतुकर्मानुसारेण शरीरान्तरप्राप्ति-
 पुण्यपापान्यतररूपधारणम्, ब्रह्मत्वेन सर्वमयत्वात्
 १२२९-३२; अनात्मज्ञस्य क्षय्याः आत्मज्ञस्याक्षय्य-
 लोकाः १५७, १०३९; जीवात्मनो निष्कामस्य
 मोक्षो ब्रह्मरूपः १२३२; विद्यारहितः यज्ञरूप-
 कर्ममार्गः पुनरावृत्तिरूपसंसारकारणम् १४५१; प्रेतस्य
 परलोकगन्तुः चन्द्रमोद्वारा पुनरत्र जन्म ब्रह्मलोक-
 प्राप्तिर्वा, देवयानमार्गो ब्रह्मलोकपर्यन्तः, ब्रह्मलोके ब्रह्म-
 पर्यङ्कः, ब्रह्मप्राप्तस्य सत्यात्मता वेदात्मता सर्वैकरण-
 प्राप्तिद्वारा सर्वातिश्च ६२९-३९; देवयानमार्गो ब्रह्म-
 लोकप्रापकः ६३२, ३३; पञ्चाग्निविद्या, आहुतिपञ्चक-
 क्रमेण अस्मिन्लोके पुनर्जन्म ४०४-०९, ८५५-७०
 १२९०-१३००; पञ्चाग्निविद्या, परलोकगतिः, पुनरा-
 वृत्तिः, देवयानपितृयाणमार्गौ, तौ यत्र वियुज्यात
 तस्थानम्, आहुतिपञ्चकं च पुरुषसंज्ञकाहुत्यन्तम्, दीर्घ-
 कठिनश्च मार्गः पुरुषत्वं प्रति, जातिरूपा रमणीयाचरण-
 विपाकयोनिः कपूयाचरणविपाकयोनिश्च ८५५-७०
 पञ्चाग्निविद्या, उत्तरमार्गसाधनम्, अर्चिरादिमार्गः ब्रह्म-
 लोकगः अपुनरावृत्तिसाधनम्, धूमादिमार्गः सोमलोक-
 पुनरावृत्तिकारणम्, मार्गद्वयानधिगन्तुर्गतिः १२९०
 १३००; मृतस्य क्रमेण वाय्वादित्यचन्द्रद्वारा ब्रह्मलोके-
 गतिः १२७६; मरणोत्तरगतिः आत्मनः १४२८, २९

१२१५, १६; ब्रह्मलोकमार्गः १६६३; मृतस्य पुन-
र्भवोऽनुपपन्नः ११७८.

कर्म-पितृ-लोक-पदानि द्रष्टव्यानि ।

जीवनम्

जीवितप्रकाशकः सविता ९६; जीवनकारणपृच्छा,
कालस्वभावनियतियदृच्छाभूतपुरुषाणां जीवनकारणत्वेन
चिन्ता, देवात्मशक्तिः जीवनकारणं सर्वकारणाधिष्ठात्री
१५७५, ७६.

तत्त्वज्ञानम्

आत्मज्ञानपदं द्रष्टव्यम् ।

तपः

तपस आश्रयः कालः १७८; तपस आश्रयभूतं
यस्याङ्गं जिज्ञास्यं स स्कम्भः परमात्मा २४६; तपस
आधारः स्कम्भः, तपस आधार इन्द्ररूपः स्कम्भः
२४७; स्कम्भस्तपसो जातः २४८; धातुस्तपसः ऋतसत्यं
जातम् २७९; तपःसंयुक्तादसतः धूमादिसृष्टिः
२८८, ८९; तपःसाहाय्येन शत्रूणामभिभावको मन्युः
३४२; मन्त्रकृद्भिस्तपसा प्राप्ता वाक् ३४९; तपस्विना-
मासुम्भिका लोकाः ३६७; श्रुतसाधनं देवानां देवत्वसाधनं
ऋषीणां स्वर्गसाधनं सपत्ननाशनं स्वयंभु ब्रह्म तपः
४२७-२८; तपः पृथ्वीधारकम् ५०६; तपः स्वाध्याय-
प्रवचने ७०२; तपसः ब्रह्मज्ञानसाधनता ७३५-३८;
तपसः आत्मविद्याहेतुत्वम् १२४७; परमलोकजयहेतु-
स्तपउपासना १२७७; तपसः परमात्मदर्शनोपायत्वम्
१५८४; ऋतसत्यश्रुतशान्त्यादि तपः १६३५; तपः
परमम् १६५०; स्वाश्रमानुरूपं तपः आत्मविद्यासाधनम्
१६५६; सत्यं परमं तपः १६८१.

तमः

सृष्ट्यादौ तमः २४१; अपहृततमाः स्कम्भः २४८;
तपसः परमत्वात् स्थितो महान् पुरुषः २५४; तपसः पाने

त्वष्टा

त्वष्टरूपः अग्निः ६; प्राणिनः
१८१; सर्वेषु जननस्थानेषु स्थित्वा
१८२; त्वष्टृधारिणी वाक् २३७;
२६८.

दक्षः

अदितेरुपस्थे दक्षस्य जन्मनि स
स्याग्नेश्च प्रथमजस्य संभवः २७४
चादितिर्जाता २७५.

दहरविद्या

हृदयपुण्डरीकगतं विजिज्ञासि
विश्वोपेतः अन्तराकाशः ९५४, ५
अजरोऽमृत आत्मा सत्यकामोऽपहृत-
त्मज्ञस्य क्षय्यलोकाः, आत्मज्ञस्य स
कामत्वं च, सत्यकामानामनृतमणि-
हृदयस्थस्य सत्याख्यस्याऽऽत्मनः
परमज्योतिःसंपत्त्या ९६०-६२; अ-
पहृतपाप्मा ब्रह्मलोको नित्यप्रकाशः
रूपब्रह्मलोकप्राप्तिसाधनं ब्रह्मचर्यम्
विचारः, हार्दब्रह्मोपासकस्य विदुषः
त्यामृतत्वप्राप्तिः ९६६-६८.

दानम्

दानेन स्वर्गस्य अमरत्वस्य
प्राप्तिः दुरितनिवारणं ऐहिकेष्टल-
दातुः धनमक्षयं मित्रलाभश्च, अद-
४७४-७९; दानविधयः सप्त ७
विद्याहेतुत्वम् १२४७; दानदमदय-
१२६८; दानं परमम् १६५०, ५१

कर्म-जीवगतिपदे द्रष्टव्ये ।

देशामुत्पत्तिः २३३; प्रदिव्यरूपप्रथमनाड्याश्रयः स्कम्भः ४७; दिग्रूपप्रज्ञानकरणं ज्येष्ठं ब्रह्म, प्रदिशां धर्ता स्कम्भः २४८; सत आशा जाताः, आशाभ्य उत्तानदः, सुव आशा जाताः २७५; अण्डाद्विशामुत्पत्तिः १९५; श्रोत्रे दिशां प्रवेशः ३२२; चतुर्दिक्षु चतुर्विधारकाः ४११; ब्राह्म्यः चतुर्दिक्चरः ४५०, ५१; सर्वासां देशामन्तर्देशात्कृता ब्राह्म्यस्यानुष्ठातारो भवशर्वपशुपत्युग्रद्रमहादेवेशानाः ४५२; ब्राह्म्यः ध्रुवादिदिक्षु चरः ५२, ५३; प्राच्यादिदिक्षु चरन् ब्राह्म्यः ४५४, ५५; देवा दिशः हृदयप्रतिष्ठिताः ११७३-७६; प्राच्यादिदेशामात्मनः प्राणरूपत्वम् ११८८, ८९; दिशः सकाशात् प्राणसृष्टिः १३८६; ब्रह्म ११०३-१२ द्रष्टव्यम् ।

दुर्गतिः

अमार्गगपतिद्वेषयुक्तस्त्रीसदृशपापकर्मकृद्भिः नरकाः सृष्टः ३५३; दुष्कृतां पाकशंसभद्रमार्गदूषकाणां हिंसनानां असद्वादिनां च दुर्गतिर्नाशश्च ३५३, ५४; अर्थानां विवस्वान् हन्ता ३५४; अयज्वनः पतनम् ५५; अनृतेन स्वर्गलोकात् च्युतिः ४०२; नरकाः ०५, ०६; चतुर्दिक्षु चतुर्विधा नरकाः ४११; कपूयारणविपाकयोनिः ८६७-६९; आत्महन्तुस्तमोलोकः ३१५; अध्यात्मं दश नरकाः १३८७.

देवाः

गन्यादयः परमात्मरूपा इति सूचिता उक्ता वा—
अग्निः १-४३; इन्द्रः ४४-६७; सोमः ६८-७३; कामाधेयः ७३-७४; वरुणः ७४-८६; विष्णुः ८६-९३; सविता ९३-१२०; द्यावापृथिव्यौ १२१-२५; इन्द्रः १२५-५१; वायुः १५१-५५; आपः १५५-१६१; विराट् १६१-६४; अदितिः १६४-६६; रोहितः १६६-७५; कालः १७५-८१; त्वष्टा १८१-८२; धाता

सविता ९९; सर्वदेवस्वामी सविता, देवानां यज्ञस्वामी सविता १००; देवानां जन्मस्थानं सविता १००; देवानां नामधारकः सविता १०८; सर्वदेवात्मा आदित्यः पुरुषः ११२; विष्णुबृहस्पतीन्द्रादिदेवरूपत्वं सूर्यः १३६९; देवानामात्मा वायुः १५१; आदित्यादिदेवत्वम् नामञ्च उत्पत्तिः १५९, ६०; देवानामुपजीवनस्य ज्ञानदात्री च विराट्, देवानां जीवनं विराट् १६३; देवानां जननी अदितिः १६५, ६६; अदितेर्देवा जाता २७५; देवानां नामधाता विश्वकर्मा १८०; देवेभ्यः परः विश्वकर्मा, देवानां संगमस्थानं विश्वकर्मा १८७; देवानां देवतमः ब्रह्मणस्पतिः १९०; सर्वदेवप्रतिनिधिर्ब्रह्मणस्पतिः १९२; देवपिता ब्रह्मणस्पतिः १९३; देवानां शास्ता प्रजापतिः १९५; देवानामसृष्ट प्रजापतिः, देवानामेकेश्वरः प्रजापतिः १९६; देवानां जन्मज्ञः प्रजापतिः १९८; देवानां पिता प्रजापतिः २००; सर्वदेवस्वरूपत्वं प्रजापतेः २०२; ज्येष्ठः प्रजापतिः ज्येष्ठयज्ञेनाग्निद्योमेन देवान् सृष्टवान् २८४; अब्रह्मणसलिले वातरूपः प्रजापतिः देवानां सृष्टः २८२; प्रजापतेः पुरुषरूपादेवानां सृष्टिः २८३; देवानां सृष्टिः ८४; प्रजापतेर्देवानां सृष्टिः २८६; प्रजापतेर्वाङ्मनसः मिथुनात्मकात् वखादिदेवानां सृष्टिः २९५; प्रजापतिरात्मनः सकाशादेवान् सृष्टवान् २९९; प्रजापतेर्देवानां सृष्टिः १२७२; देवेभ्योऽमृतदो रोहितः १६७; देवानां सृष्टिकर्मणि प्रयोजको रोहितः १६९; देवानां सृष्टिकर्मणि रोहितः १७१; सर्वदेववहंसरूपो रोहितः १७३; सर्वदेवानामेकत्वकरो रोहितः, सर्वदेवानां द्वैतस्थानं रोहितः १७४; त्रयस्त्रिंशद्देवाश्रिताङ्गः स्कम्भः त्रयस्त्रिंशद्देवाः स्कम्भनिषेः रक्षितारः, बृहतां नाम देवानां जनकमसत् स्कम्भस्याङ्गम्, त्रयस्त्रिंशद्देवाः

देवेषु श्रेष्ठः परमात्मा, देवतानां परमात्मसंबन्धः -

सर्वदेवाधिष्ठानं परमात्मा २२३; सर्वदेवात्मकः परमात्मा २२७; आत्मतो देवानां सृष्टिः ५८१; सर्वदेवानामुद्भवस्थानमात्मा १६६४; येषां प्रत्यक्षज्ञानेन ब्रह्मवित्त्वं तैर्ब्रह्मविदेवैरुपास्यं ज्येष्ठं ब्रह्म २४७; सर्वदेवरूपं प्रजासु ओतं महत्सूत्रम् २५०; ब्रह्मणो देवैरुपास्यता २५१; देवानां जनकं ब्रह्म २५८; यस्मिन्नन्तः सर्वे देवाः समाहितास्तत् ज्येष्ठं ब्रह्म २५९; ब्रह्मणो देवानामुत्पत्तिः ३०१; मर्त्याद्ब्रह्मणः अमरदेवसृष्टिः १०२१; देवसंख्यानं एकदेवमात्रपर्यवसितम् ११६६-६९; परात्पुरुषात् देवसृष्टिः १४५८; रुद्रात् देवानामुत्पत्तिः १५९३; सर्वदेवप्रभवो देवानामधिपश्च रुद्रः १६०८; रुद्रज्ञानमेव सर्वदेवज्ञानम् १६७७; रुद्रः सर्वदेवरूपः १६७८; एकदेवभक्तिः अर्थप्रकाशकारणम् १६२८.

आध्यात्मिकं देवतास्वरूपं स्थानादि च --

मर्त्यस्य देवत्वम् २५३; प्राणाद्यधिष्ठातृदेवजनकधात्रादयस्त्वनादिपरम्परया स्थिताः ३०८, ०९; त्वष्टृसृष्टं मर्त्यं शरीरं देवगृहं स्वप्नतन्द्राऽविद्यास्तेयदुष्कृतजरादीनां पाप्मरूपदेवतानां सत्ययज्ञबलश्रद्धाविद्यादीनां पुण्यदेवतानां च स्थानम् ३०९-१२; देवकृतयज्ञस्थानं शरीरम् ३१२; प्रजापतिना सृष्टे पुरुषे स्थितेषु वाक्प्राणापानोदानचक्षुर्मनःश्रोत्रशरीररेतोबलमन्युमूर्धात्मसु अग्निवायुविद्युत्पर्जन्यादित्यचन्द्रमोदिकृपृथिवीजलेन्द्रेशानाकाशब्रह्मणां प्रवेशः, शरीरमेव देवानां पूः ३२२; देवोपास्यत्वं प्राणस्य ३२४; देवेषु श्रेष्ठं मनः, देवरूपत्वं मनसः ३३७; यजनीयो ज्येष्ठो देवः कामः ३३९; देवैरप्राप्यः कामः ३४०; मेधा ऋभुभिरुपासिता ३४४; आङ्गिरसवृहस्पतिप्रदेया आकृतिः ३४५; देवानां मादयित्री देवपुत्री च वाक् ३४६; देवपुत्री वाक् ३४७; देवैरुपजीव्या वाक् ३४९; देवप्रिया वैश्वदेवी च वाक् ३५१; मनुष्यरूपपुरुषः अन्यादिदेवतासंबलितः

३०४; देवानां गूढानि स्थानानि वरुणाधिष्ठितं मर्त्यप्राप्यं परम ३५६; अग्निपृथिव्यादयो महत्सकर्म-फल-देवतासंबन्धः अर्थवा

सर्वदेवमयो गौः ४३४; देवैरुपास्यता च सवे देया वशा गौः ४३५; ब्राह्मणः ४५०, ५१; देवैर्दत्तायां भूम्यग्न्यादिदेवैरनुष्ठातृभिः सह देवैरनुगतो ब्राह्मणः ४५३; यज्ञधर्मः, देवानामधिपतिः ४५६; पुरुषस्य सर्वदेवात्मत्वं देवस्थादानेन स्वर्गस्य अमरत्वस्य देवसमरणोत्तरजीविनो देवरूपा अन्येन अन्यत्र वा वासिनः देवैः सह स इहलोके जीविनां पितृयज्ञपराणां प्रदाश्च ३५८, ५९; प्रेतो जीवः देवाधिष्ठितो मर्त्यानां मार्गः ३६०; देवत्वं देवैः सह वासश्च ३६४०६; अग्न्यादयो देवा ब्रह्म ४००; देवाः मृतार्थमध्वावि अग्निपृथिव्यादिदेवताभ्यः स्वा १६३४; अभयस्वस्तिपोषाद्यर्थे इ विष्णुमुखादिदेवस्मरणं, इन्द्रादि

आत्म-ब्रह्म-पुरुष-कर्म-लोक-र

द्यावापृथिवी

लोकपदं द्रष्टव्यम् ।

द्यौः

लोकपदं द्रष्टव्यम् ।

धर्मः

धर्मकर्तृत्वमिन्द्रस्य ५८; ध

स्वरूपं, विद्या ४१८-९३; धर्मस्योत्पत्तिः, धर्मलक्षणम् १०३८; धर्मप्रशंसा १६५०, ५१; स्वधर्माचरणं आत्म-विद्यासाधनम् १६५६.

धाता

धातूरूपत्वं रोहितस्य १७४; सर्वस्वेशानः, विश्व-जनकः १८२; धातुस्तपसः ऋतसत्यं जातम्, धातुः प्रुपृथिव्यन्तरिक्षस्वर्गसूर्यचन्द्रमसां जन्म २७९.

नक्षत्राणि

नक्षत्राणां प्रकाशनगमनादिब्रतानामधिष्ठातृत्वं वरुणस्य ७४; नक्षत्राणां प्रेरको वरुणः ७९; नक्षत्राणां प्रशास्ता रोहितः १७५; नक्षत्ररूपशाली अश्विमुखः परमात्मा २५५; आदिभूतसलिले नक्षत्राणामाविर्भावः २८७; प्रजापतेः नक्षत्राणामुत्पत्तिः ३०५; नक्षत्रैरनुगतो ब्राह्मणः ४५२.

नचिकेताः

नचिकेता मृत्यवे समर्पितः पित्रा १३८९, ९०; मृत्युगृहे नचिकेतस आतिथ्यं वरत्रयलाभश्च १३९०, १; नचिकेतसः प्रथमो वरः स्वं प्रति पितुः शान्त-कल्पता वीतमन्युता प्रत्यभिज्ञानं च १३९१; द्वितीयो वरः स्वर्ग्यचित्याग्निविद्याप्राप्तिः १३९२-९४; तृतीयो वरः मर्त्यशरीरमिन्नात्मविद्याप्राप्तिः, नचिकेतसः आत्म-ज्ञानसाया दाढर्थे, विषयविभवस्य आत्मज्ञानापेक्षया वरत्वम् १३९५-९८; नचिकेतःप्रश्नविषयः सर्व-वहवारगोचरातीतं आत्मस्वरूपम् १४०३; नाचिकेता-यानश्रवणादिविधिः १४२०.

नारायणः

प्रजापतिना नारायणाय प्रोक्ता यज्ञाङ्गभूता सर्वात्म-विद्या ४६९, ७०; ब्रह्मतत्त्वस्य परमात्मनः नारायणस्य हृदये अग्निशिखायां उपासना १६३७-४०.

पञ्चाग्निविद्या

पञ्चाग्निविद्या

प्रजापतेः, आदित्यपृथिव्यादीनां परिमण्डलत्वम् २० ब्रह्मणो विभुत्वम् २६१; प्राणस्य विभुत्वम् ३२८; काम-विभुत्वम् ३४१; वाचः अनन्तत्वम् ३४८; ईश्वरस्य स-व्यापित्वम् १३१३; अङ्गुष्ठमात्रत्वं अन्तरात्मनः पुरुष-स्य १५९७; परमाणुत्वे सति परममहत्त्वं परमात्मनः, आत्म-विभुत्वम् १५९९; अतिसूक्ष्मः सर्वव्यापी च शिवः १६०८; शतधाकल्पितवालाग्रशतभागभागो जीवः १६१५

पर्यङ्कोपासना

आरुणिं श्वेतकेतुं च प्रति परलोकमार्गोपदेशोपक्रम-चित्रस्य गार्ग्यायणेः ६२७-२९; परलोकगन्तुः चन्द्रम-द्वारं एतल्लोकागमनस्य ब्रह्मलोकप्राप्तेश्च ६२९-३२; देव-यानमार्गो ब्रह्मलोकप्रापकः ६३२, ३३; ब्रह्मलोके ब्रह्म-पर्यङ्काभिगमनम् ६३४-३७; ब्रह्मप्राप्तस्य सत्यात्मता वेदात्मता, सर्वकरणद्वारा सर्वातिश्च ६३८, ३९.

पशवः

ज्येष्ठः प्रजापतिः ज्येष्ठयज्ञेनाग्निष्टोमेन पशून् सृष्टवान् २८१; प्रजापतेः पशूनां सृष्टिः २८६; अण्डादश्वो रास-भश्च जातः २९३; प्रजापतेः प्राणैभ्यः पुरुषादिपशूनां सृष्टिः २९७; पशुभिर्वाच्या वाक् ३४६, ४७; पशुभि-रुपजीव्या वाक् ३४९; पशुदृष्टिविशिष्टं रेवतीसामो-पासनम् ७८३.

पापम्

विविधं पापम्—

विविधपापकारणमीमांसा ८०, ४८२; विविधानि पापानि ४८२-८९; पञ्च महापातकानि ८७१.

पापनिवारणं देवताद्वारा—

दुरितनाशकत्वं सोमस्य ७२; पापमोचकत्वं वरुणस्य ७४, ७५; गुरुमित्रभ्रात्रादिविषयकपापविनाशकत्वं

पृथिव्यन्तरिक्षद्यावश्च याजकं सुकृतलोकस्य पितृपुत्र-
संपन्नस्य प्रापयितारः ३७२, ७३.

पापनिवारकं कर्म--

पापनाशनसाधनमादित्योपासनम् ६४६; पातकनाश-
द्वारा सुबन्धुमनसः जीवनहेतोस्तच्छरीरं प्रति आगमन-
प्रार्थना ३६५, ६६; पापक्षयार्थहोममन्त्राः १६३४;
पापक्षयार्थं विनियोज्या मन्त्राः १६४०, ४१; आपः
पापशुद्धिहेतवः १६४३; ज्योतिषि पापहवनम् १६४३,
४४; पापत्राणार्थं प्रजापतेर्वायुप्राणरूपस्य अग्न्यादीनां च
प्रार्थना १६४५; सर्वपापनिर्हणार्थां होममन्त्राः- देव-
मनुष्यपित्रात्मकृतानि ज्ञानाज्ञानकृतानि स्वप्नजाग्रत्सुषुप्ति-
भवानि पापानि, कामो मन्युरेव वा सर्वपापस्य कर्ता
कारयिता च १६४६, ४७; तिलानां पापापहत्वम्
१६४७; पापक्षयार्थं जप्यो मन्त्रः १६४८; शतरुद्रिय-
पठनविधिः पापनाशफलः १६७६.

पापपरलोकसंबन्धः--

परलोकेषु पापफलभोगः ४१०, ११; पापेन मृत्युत्तरं
पापरूपा स्थितिः ११२६; पापेन पापलोकगमनम् १५०२.
ज्ञानात् पापनाशः--

विदुषः पापतरणम् ७३२; उपकोसलविद्यावति पाप-
कर्माश्लेषः ८३८; आत्मज्ञानेन पापतरणम् १२४७.

आत्मज्ञान-कर्म-जीवगति-लोक-पदानि द्रष्टव्यानि ।

पितरः

पितृस्थानम्--

विविधस्थानस्थिताः पितरः ३८९; पृथिव्यन्तरिक्षद्यु-
स्थिताः पितरः ३९९; पितृलोकः ४०१.

पितृभिरन्यदेवतासंबन्धः--

पितृणां जीवनं विराट्, पितृणामुपजीवनदोग्ध्री
विराट् १६३; पित्रालम्बनं ब्रह्म २६५; प्रथमः पितृ-
मार्गः ३६६; मृत्युत्तरं ११२६; आत्मज्ञानेन १२४७.

भाजः इहलोके जीविनां पितृय-
इष्टफलप्रदाश्च ३५८; वैश्वान-
परिणतिः पितृपितामहप्रपिताम-

स्यामृतत्वं, पितृणां मासि पुन-
स्वधाकरणम् १६३४.

मर्त्यैः प्राप्यः पितृलोकः--

पित्राश्रयः यमवरुणाधिष्ठित-
पूर्वपितृवासभूतं परमव्योम्नि वि-
प्रेतं जीवं पितृभ्यो ददाति
मर्त्यानां मार्गः ३६६; मृत-
पितृस्थाने वासश्च ३८६, ८
कर्ता पितृभिः सह वसन् तनु-

कर्म-जीवगति-लोक-पद-

पुण्य

पुण्यकृतां सुकृतिनां अम-
परलोकेषु पुण्यफलभोगः ४१
णम् ७३२; पुण्येन मृत्युत्तरं
आत्मज्ञानेन पुण्यतरणम् १
गमनम् १५०२; पुण्यप्रशंसा
जीवगतिपदं द्रष्टव्यम् ।

पुरु

पुरुषपदव्युत्पत्तिः (San-
p. 130) २४५, ३०६;
आत्मनः श्रेष्ठो विस्तरः ५५
लोकातिगः पञ्चप्राणयुतः पञ्चा
पुरुषसृष्टिः ७०६; पुरुषः सु-
मयादीनां पुरुषरूपत्वम् ७
प्रवेशः ३१०, १२, १३,
३६०, ११२५; चाक्षुषपु-

अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका

परमपुरुषः, विराट्, यज्ञः, चातुर्वर्ण्यं इति
 चत्वारः पुरुषाः पुरुषसूक्तविषयाः २३१-३४;
 पुरुषः नारायणः ४६९, ७०, १६३७; आदित्यहृदययोः
 स्थितः पुरुषः १६५८; महान् आदिपुरुषः २३१,
 ३०६, १५९४, ९५, ९७, ९८; उत्तमः पुरुषः ९७९;
 दिव्योऽव्ययात्मा परात्परः पुरुषः विश्वकारणम्
 १४५२-८७; पुरुषरूपा रुद्रदन्तिनन्दिषण्मुखगरुडाः
 १६३१, ३२; लोहिताक्षिपुरुषस्य प्रार्थना १६४७.

आत्म-जीव-प्राण-ब्रह्म-पदानि द्रष्टव्यानि ।

पृथ्वी

लोकपदं द्रष्टव्यम् ।

प्रजापतिः

प्रजापतिस्वरूपम्--

द्यावापृथिव्योः कुशलो जनकः धीमान् प्रेरकश्च
 १९३; द्यावापृथिव्योर्धारकः, सूर्यवाताग्नीनां कर्मकर्ता,
 मित्रावरुणयोः स्थाने स्थितः १९३, ९४; सृष्टेः पूर्वभावी,
 हविषा यजनीयो जिज्ञास्यो देवः, हिरण्यगर्भः, भूतपतिः,
 द्युपृथिव्याकाशस्वर्गाणामाधारः, आत्मदो बलदो देवानां
 शास्ता सर्वेषामुपास्यः, अमृतमृत्युच्छायः, जगतो राजा,
 ईशानः, हिमवन्नदीसमुद्रपतिः, दिग्बाहुः, रक्षकः, विश्व-
 गर्भधारिणीभ्योऽभिजननीभ्योऽद्भ्यः समुद्भूतः, देवाना-
 मसुः, देवानामेकेश्वरः, अपां द्रष्टा, द्युपृथिव्यपां जनकः
 सत्यधर्मा एक एव विश्वव्यापकः प्रजापतिः १९४-९७;
 प्रथमोद्भूतं ब्रह्म, देवानां जन्मज्ञः, बन्धुः, ब्रह्मणस्त्रय्या-
 ख्यब्रह्मोद्धर्ता, द्यावापृथिव्योराधारः १९७-९९; वीर्येषु
 ज्येष्ठं बुजनकं निरुपमं ब्रह्म, भूतप्रथमजो ब्रह्मा १९९;
 सत्यानृतरूपयोर्व्याकर्ता २००; सर्वस्यैको व्यापकः, ऋतस्य
 प्रथमजः, बृहन्, पुराणः, देवानां पिता, विश्वपतिः
 २००, ०१; सर्वेषां कर्मसु प्रवर्तकः, सर्वेभ्यः परः सर्वेषु
 प्रविष्टः २०१; अपरिमितः, अनन्तः, परिमण्डलस्वरूपः,

प्रजापतिः २४९; अजायमानोऽपि बहु
 प्रजापतिर्धरैः दृश्यते २५४; सव
 प्रजापतिः २५६; वेनो गन्धर्वः विश्वनीड
 तदभावमापन्नः अस्माकं बन्धुः ऋतस्य प्र
 सर्वलोकव्यापकः आत्मनैवात्मव्यापकः
 प्रजापतेः सृष्टिः--

प्रजापतिः पुरुषं सृष्ट्वा तदवयवेषु दे
 ३२२; प्रजापतेः रेतसः सृष्टिः ५३१; ए
 रिन्द्रियेभ्यो जाता सृष्टिः ५३९-४१; मत्स्य
 देवसृष्टिः १०२१; आत्मनः प्रजापतेरसृ
 प्राणाः आधिदैविकादिरूपाः १०५०-५३
 सृष्टिः १२७२; प्रजापतिविषयकः
 प्रजापतेः रथिप्राणात्मकद्वन्द्वरूपा सृष्टिः
 प्राणत्वं चन्द्रमसः रथित्वम् १४९१-९३
 प्रजापतेरन्यदेवतादिभिः संबन्धः--

प्रजापतिरूपत्वं सवितुः १०९; वायु
 स्थानमापः १५७; प्रजापतेराधिर्भावस्थान
 प्रजापतेः सृष्टभूतेष्वनुप्रवेशः १६०;
 रोहितस्य १७२; प्रजापतेराश्रयो रोहितः
 पिता कालः १७८; यजमानरूपः २०१,
 २०२; प्रजापतेराश्रयः प्रजापतिना सृष्टेषु
 परमेषु विश्वरूपेषु प्रविष्टः स्कम्भः, पुरुष
 धीनपरमेश्चिज्ञानाधीनप्रजापतिज्ञानाधीनज्यो
 ज्ञानः स्कम्भः २४७; प्रजापतिगतज्योतिषा
 २४८; प्रजापतिपिता महत्यर्णवे स्थितः स
 विद्युत्पुरुषस्य प्रजापतिरूपत्वम् २५५; प्रज
 मात्मा २७२, ७३; प्रजापतिरूपत्वं
 प्रजापतेर्भोगः प्राणः ३३३; अमृतनाम
 पशुः प्रजापतिस्वरूपः ४३०; सवे देयः
 अनडवान् प्रजापत्यात्मा ४३२; ब्राह्म्यः

मात्मनः प्रजापतिरूपत्वम् १६२९, ३०, ५९; प्रजा-
पतिरूपत्वमात्मनः १६५४; प्रजापतेः व्याहृतिरूपतन्वा
अवयवाः, प्रजापतेः सूर्यरूपा तनूः १६५८, ५९.

उपासनं प्रजापतिसंबन्धि--

अदितिनाम्नी उपासनाविषयभूता प्रजापतिसंहिता
६०८; संहिताक्षरविषयं अहःसंमितं प्रजापत्युपासनम् ६१०
—१२; पुरुषचतुष्टयं, सर्वात्मा अहःसंमानः अक्षरसंमा-
नश्च प्रजापतिः संवत्सरसंमानत्वेनोपासनाविषयः ६१३,
१४; स्थविरशाकल्यस्य प्रजापतिसंहिता ६८६; आत्मना
षोडशधाऽऽविर्भूतः प्रजापतिः हिरण्मयः पुरुषः सामैवे-
त्युपासना १३४३, ४४; प्रजापतिव्रतं ब्रह्मलोकसाधनम्
१४९५, ९६; मृत्युपापत्राणार्थं प्रजापतेः वायुप्राणरूपस्य
प्रार्थना १६४५; प्रजापतेः सर्वकामप्राप्तये प्रार्थना
१६४६.

प्रजापतिप्रोक्ता विद्या--

प्रजापतिना नारायणाय प्रोक्ता यज्ञाङ्गभूता सर्वात्मविद्या
४६९, ७०; प्रजापतिप्रोक्ताऽऽत्मविद्या ९६९—८२;
दमदानदयानुशासनं प्रजापत्यम् १२६८, ६९; प्रजा-
पतिमतम्—सत्यतपोदमादिषु परमेषु साधनेषु श्रेष्ठं परमं
साधनं संन्यासः १६५०, ५१.

काल-सृष्टिपदे द्रष्टव्ये ।

प्रजापतिविद्या

ब्रह्मचर्यसाध्यं सर्वप्राप्तिसाधनं अमरापहतपाप्मात्म-
ज्ञानं देवासुरेषु ख्यातम् ९६९, ७०; अक्षिपुरुष आत्मा
ब्रह्म ९७१; पुरुषे उदशरावदृष्टे परिच्छिन्ने आत्मत्वभ्रम
इन्द्रविरोचनयोः, विरोचनस्य देहात्मवादः असुरप्रसिद्धः
९७२—७४; देहात्मनि आत्मत्वभ्रमनिवृत्तिरिन्द्रस्य
९७४, ७५; स्वप्नात्मनि आत्मत्वभ्रमनिवृत्तिरि-

प्रणव

प्रणवसृष्टिः त्रय्या विद्याया र
विश्वोपजीव्याक्षरस्य प्रणवस्य मू
सत्यरूपः ब्रह्मवाचकः, स्वर्गस्या
वाचकः, प्रणवोत्पत्तिस्त्रय्या विद
भवकारकः, आत्मभैषज्यमात्मकै
ज्ञार्थः प्रणवः ५६९; प्रणववाच्य
१४०४, १६४४, ६५, ८१;
संसृष्टं कालातीतं च १५२०; प्र
विश्वरूपः प्रणवः १६३५; प्रण
प्रणवस्य देवतर्षिच्छन्दोविनियो
ध्यानसाधनता १६७५; ओंकार
७९; प्रणवमात्राचतुष्टयफलानि

प्रणवोपा

प्रणवब्रह्मोपासना ५२१—

उद्गीथशब्दप्रतिपाद्यप्रणवोपासना
विद्यया समुच्चितम् ७४६—५
द्वीथरूपप्रणवोपासना साख्याना
पुत्रफलः उद्गीथरूपप्रणवोपास
प्रणवोपासनाविधिः, प्रणवस्य स
८९; प्रणवात्मिकायां वाचि पृथिव
पासना उद्गातुः १३३०; सरस
प्रणवमहिमोपासना तत्सहितैर्नै
भवतीति १३३२; ' प्रणव एव
ब्रह्मताबोधकानि, प्रणवाक्षरात्मिव
धुक्, प्रणव एव सत्यं सर्वजगद
पासना उद्गात्रानुष्ठेया १३३२,
मृत्युनिवारणं, ' प्रणवः सर्वदेव
इत्युपासना औद्गात्राङ्गम्
अक्षयपर्यायाक्षरं रसतमः

१४०४, ०५; प्रणवोपासना ब्रह्मविद्यासाधनम् १४६०-
६२; प्रश्रविषयः प्रणवध्यानम् १५०९; ध्येयविषय-
प्रकारभेदेन प्रणवध्यानेन परापरब्रह्मप्राप्तिः १५१०-
१४; उपास्या प्रणवांशरूपता प्रणवरूपता च आत्मनः
सौपाधिकस्य निरुपाधिकस्य च क्रमेण १५२७, २८;
प्रणवध्यानस्य परमात्मदर्शनोपायत्वम् १५८४; प्राणादित्य-
रूपस्यात्मनः प्रणवेनोपासनम्, प्रणवद्वारा उपास्याः स्वन-
वत्यादयः आत्मनस्तनवः १६५८; अपरिमिततेजस
उपासना प्रणवसहिता १६६५, ६६; परतेजोरूपस्य
ब्रह्मणः सप्रणवोपासना १६६७, ६८; अथर्वप्रोक्ता
प्रणवोपासना-चतुष्पात् अक्षरं प्रणवात्मकं परं ब्रह्म,
मात्राचतुष्टयस्वरूपं, प्रणवोच्चारविधिः, प्रणवे तारविष्णु-
ब्रह्मप्रकाशमहादेवरूपतायाः संधानं, तुरीयं ब्रह्म, ध्याता
ध्यानं ध्येयश्च, शिवध्यानविधिः, मुक्तिफलम् १६८२,
८३.

प्रलयः

मर्त्यस्य चक्षुरादीनां सूर्यवातद्युभूजलौघधीषु विलयः
१६०; वागादीनां सुषुप्तौ मृत्युकाले च प्राणेऽप्ययः
१६५, ६६; सुषुप्तौ वाक्चक्षुःश्रोत्रमनसां नामरूपशब्द-
ध्यानैः सह प्राणोपहिते आत्मनि लयः ६८०; शरीरा-
न्नात्तेजसां क्रमेण सति लयः सर्वासां प्रजानां च ९०७-
१६; म्रियमाणस्य वाचो मनसि, मनसः प्राणे, प्राणस्य
तेजसि, तेजसः परस्यां देवतायां संपत्तिः ९०९, २३;
ब्रह्मज्ञानां कलानां शुद्धे पुरुषे एव समाप्तिः १५१७;
ब्रह्मविदो ब्रह्मणि लयः १५७९; प्रलयकर्ता स्रष्टः
परमेश्वरः १५९२; चित्तलयः १६६२; जीवः पुरत्रय-
लयाधारः १६७५.

प्राणाः

प्राणस्य स्थानं कार्यं स्वरूपं महिमा च--

प्राणः, तेषां प्राणेनैकता ३३१, ३२, ६१०, ५२, ५३,
५९, ६४-७१, ८०, ८२२-३०, १२८५-९०,
१३५०, ५२-५५, ६५, १५०१; प्राणः अमृत-
४०१; पाप्मसङ्गवर्जितः प्राणः, वागादीन्द्रियाणि पाप्म-
सङ्गदुष्टानि, इन्द्रियाणां प्राणाधीनत्वं च ७५१-५४
१००१-१४, १३४८-५३; प्रश्रविषयाः- प्राणकारण-
प्राणस्य शरीरे प्रवेशः, प्राणप्रविभागः, प्राणोत्क्रमणं
अधिभूतं अधिदैवतं च धारणा प्राणकृता च १५००
मुख्यप्राणकृतं नियन्त्रणं प्राणानां, पञ्चानां प्राणानां स्थाना-
कार्याणि च १५०१, ०२; अधिभूतं अधिदैवतं
प्राणकृता धारणा १५०२, ०३; शिरः देवकोश-
प्राणरक्षितः १६८१.

प्राणसंख्या—

प्राणापानौ १७३, २४८, ३०७, ०८, १२, १५,
२५, ४७, ५१, ७६, ८२, ८७, ४२५, ३५, ४०,
६१, ६२, ७९, ५३५, ४५, ८१ (नासिकायां प्राण-
नाभ्यामपानः), ८३, ८५, ७४०, ११२२, १३०७,
४५, ४८, ४९, ५०, ५१, ६२, ६५, १४२७, २८,
५८; त्रिविधः प्राणः, प्राणापानव्यानाः ३१३, २७, २८,
८८, ४५५, ६०, ७३, ५१४, ६२१, ८९, ९१, ९७,
७१४, ५५, ११२०, १२८१, १३४४, ५०, ५१,
१६५८; प्राणापानोदानाः ३२२, ६८९; त्रिविधा अवा-
स्थिताः प्राणाः ३२८; द्वाववाञ्छौ १३५१; प्राणापान-
व्यानसमानाः २४५, १३५०, ५१; प्राणापानौ व्यानो-
दानौ ३०८, १२, ११३२; प्राणापानव्यानोदानसमाना-
इति पञ्चविधः प्राणः ५६१, ७०१, ८०४, ८१, १०५०,
११७६, १३५० (उदानस्थानेऽवानः), ५१, ८६,
१५०१-०६, १६४४, ४७, ४८, ५४, ५९,
६४, ६६; प्राणः षड्विधः, प्राणोऽपानो व्यान-
समानोऽवान उदानः १३५०; वाक्प्राणापानचक्षुर्मन-

प्राणाः ६६८, १३५१; प्राणा एकादश ११६८; प्राणा द्वादश १०९७, १२६१; प्राणाः पञ्चदश (श्रीशंकराचार्यमते त्रयोदश ब्र. सू. २-४-५) १५०८.

प्राणस्य भूततत्त्वसंबन्धः--

प्राणानामात्मनश्च संधानकरमन्नम् ३१६; प्राणो वायुरूप एक एव त्रिविधः प्राणापानन्यानाः ३२८; प्राणस्याम्मयत्वम् ९०१-०३.

प्राणस्य आत्मना संबन्धः अभेदो भेदो वा--

शिरस्स्थितः वाक्चक्षुःश्रोत्रमनोप्राणरूपः पञ्चविधः प्राणः जीवात्मा पुरुषः ३२९, ३१, ५३३, ८१, १३६५, १६६४; प्राणपञ्चयोरैकता, अतः स आत्मा ६६४, ६५; वाक्प्राण(प्राण)चक्षुःश्रोत्रजिह्वाहस्तशरीरोपस्थपादप्रज्ञाः(मनांसि) प्रज्ञामात्राः, नामगन्धरूपशब्दरसकर्मसुखदुःखानन्दरतिप्रजातीत्याधीविज्ञातव्यकामाः भूतमात्राः, भूतमात्राभिः प्रज्ञामात्राः संगता अव्यभिचारेण प्रज्ञामात्राश्च प्रज्ञया, प्रज्ञामात्राणां भूतमात्राणां चैक्यं प्राणे, प्रज्ञात्मा प्राणः सर्वप्रेरकः विजिज्ञास्यः अमृतः सर्वनाभिः कर्मासंपृष्टः ६६८-७१; प्रज्ञात्मा प्राणः साध्वसाधुकर्मकारयिता लोकाधिपतिः आत्मेति ज्ञातव्यः ६७१, ७२; प्राणमय आत्मा ७१४, १५; सुषुप्तौ मनसः प्राण आश्रयः ९०६; प्राण आत्मा १०६६, १६५८; प्राणापानप्रेरकः प्राणापानाश्रय आत्मा १४२७, २८; आत्मा प्राणकारणं, मनःकर्मणा प्राणप्रवेशः शरीरे १५००.

प्राणस्य देवतासंबन्धः--

इन्द्रस्य प्राणरूपत्वम् ५८; प्राणरूपत्वं सवितुः ११६; द्यावापृथिवीसमुद्रेभ्यः प्राणापानदो रोहितः १७३; प्राणस्याऽऽश्रयः कालः १७८; प्राणरूपत्वं परमात्मनः २०८; प्राणानोदानेषु वायुवियुत्पर्जन्यानां प्रवेशः, उदाने पर्जन्यस्य प्रवेशः ३२२; स्तनितादिवर्षणान्तव्यापारः पर्जन्यरूपः

प्राणः विश्वतत्त्वम्--

प्राणः विश्वतत्त्वम् ११६, ५३४, ३८, ४२, ६७१, ७९३७, ११६९, १३५५, ६५५५; सप्तप्राणात्मकं इन्द्राख्यमध्यमप्राणात्मा जाताः २९०, ९१; सृष्ट्यात्मा प्राणः प्राणाच्चक्षुः चक्षुषः सृष्टिक्रमः ३१९-२१; सृष्ट्यादौ सप्त प्राणाः ३२८; स्तनितादिवर्षणान्तव्यापारः प्रयोजकः, सर्वपशुवोषध्यादीनां स्थित्यासनप्राणनादिशरीरक्रियागर्भजीवनजन्मनोः कर्ता, स मातरिश्रवातस्वरूपः, सर्वोपस्थपतिसूर्यचन्द्रमआत्मकः, सर्वेषु पुनः पुनः जायमानः, सुप्तेष्वपि उत्तमलोकदः, तस्मै तद्वेदत्रे च २७; एको देवः, भर्ता, मृत्युव्यापारकर्ता, मातरिश्रवा, यज्ञस्वरूपः, सोमात्मकः, देहगुप्तः ३३२, ३३; प्राणस्य प्राणवादिनोऽतिवादित्वम् आदिभूताः, ततः आपः, पानादिपञ्चविधत्वम्, वाङ्मनः परात्पुरुषात् प्राणसृष्टिः १४५ सर्वनामिस्थानीयः सर्वविभूतिदेवः १४९८-१५००.

आत्म-जीव-पदे द्रष्टव्ये ।

प्राणोपा

आध्यात्मिकं प्राणाग्निहोत्रम्

अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमिका

५२८-७९; शरीरे प्रविष्टं ब्रह्म अन्नमयस्याभ्यन्तर आत्मा प्राणः, स एव उक्थाख्यः ब्रह्म इन्द्रश्च, आध्यात्मिकाधिदैवतस्वरूपः स एव सत्यम् ५३२-३६; बृहत्यात्मा प्राणः सर्वव्यापकः ५३७-३९; भूयभूयमृतमृत्युरूपः प्राणः ५४२; प्राण एव महाव्रताख्यकृतौ संपाद्यमानं बृहतीसहस्रम्, स एव कर्ता ऋग्वेदस्य मन्त्रदृशः ऋषयः सूक्तानि ऋचः पदान्यक्षराणि क्रियाफलं च ५४४-५४; प्रज्ञात्मा प्राण एव देहाभिमानी मण्डलाभिमानी च पुरुषः ५५५; सर्वात्मा प्राणः पञ्चभूतरूपोक्थरूपः अत्ता अन्नं च ५५७; आत्मा प्राणरूपः ओषधिव्रनस्पतिपशुपुरुषेषु तारतम्येन आविर्भूतः प्रज्ञानेन संपन्नतम उत्कृष्टः ५५९; बृहतीसहस्रसंपद्विषयः पञ्चात्मकः पुरुषः अक्षराविष्टः, सर्वदेवात्मा, ज्ञानेन पापसुक्त्यर्हः, स्त्रीपुंभेदशून्यः, प्राणरूपः, देवस्थाधिष्ठाता ५७४-७६;

वाक्प्राणसंहिताविषयिणी बृहद्रथन्तरयोस्थासना ६०५;

प्राणस्य ब्रह्मत्वं, प्राणो ब्रह्मेत्युपासनाङ्गं व्रतमयाचनं तद्ब्रतफलं च ६४०, ४१; प्राणब्रह्मोपासकस्य धनकामस्य कर्म एकधनावरोधनाख्यम् ६४२; प्राणब्रह्मोपासककर्तृकं वशीकरणरूपं दैवस्माराख्यं कर्म ६४३; प्राणब्रह्मोपासककर्तृकमान्तरमग्निहोत्रम् ६४४; दैवः परिमरः प्राणो वायुश्च ब्रह्म ६५०-५२; प्राणः प्रज्ञात्मा सर्वेषु देवेषु श्रेष्ठः ६५२, ५३;

पितापुत्रसंबन्धि संप्रत्तिकर्म ६५४, ५५;

प्राणः प्रज्ञात्मा इन्द्रः 'आयुरमृतम्' इत्युपास्यः ६५८, ५९;

प्राणः उक्थमित्युपास्यः ६६५;

उद्गीथाक्षररूपत्वेन प्राणोपासना साख्याना ७५१-५४; प्रस्तावानुगतप्राणोपासना ७७०; प्राणेषु पञ्चविधपरोबरीयस्त्वयुक्तसामोपासनम् ७७७; प्राणदृष्टिविशिष्टं

सङ्गोषात् देवानां पराभवः, आसङ्गप्राणस्य देवोद्गातृत्वे असुरनाशः, प्राणस्य दूर्नामिदेवतात्वं, प्रत्यन्ततज्जनगमननिषेधव्यापकान्यादिदेवताभावप्राप्त्या मृत्यवति प्राणस्य सर्वेन्द्रियोपकारकत्वं बृहस्पतित्वं सामत्वं उद्गीथत्वं च, सामात्मनः प्राणस्य स गुणाः, प्रस्तोतुः अम्यारोहमन्त्रजपः १०० प्राणोपासनाव्रतविशेषः १०६१-६३;

प्राणः शिशुरूपः सोपस्करः, तस्य सप्ताक्षितयः रुद्रादिदेवान्वायत्ताः, शिरोरु ऊर्ध्वबुधनश्चमसः, सप्त ऋषयः प्राणरूपा १०७९-८२;

प्रियमित्युपास्यं प्राणायतनं आकाशप्र ११८३, ८४;

अन्नप्राणविषयिणी उपासना १२७७;

उक्थयजुःसामक्षत्ररूपैः प्राणविषयिण १२७८, ७९;

प्राणेषु वागादिषु प्रधानः मुख्यः प्राणत्वादिरूपैरुपास्यः, मुख्यप्राणस्य सर्वप्रतिष्ठा आख्यायिका १२८५-८९; प्राणस्योद्गासाख्याना १३४८; 'प्राण एव उद्गात इत्युपासना देवोद्गातृणां षण्णामाख्यानसहितप्रजावानुद्गीथः' इत्युपासना १३४९;

द्गीथः वशी दीताग्रः, आभूतिः, संभारूपैरुपास्यः १३५०, ५१; प्राणस्य द्वौ त्रयः इत्यादिसंख्याभिरुपास्यः १३५१; स्याऽऽख्यानं, 'प्राण एव अयास्य आयासना १३५१, ५२; 'मुख्यः प्राण एव प्राणोपासना देवासुराख्यानसहिता इन्द्रियपाप

प्राणाख्यात्मोपासनाविधिः १६५३;
प्राणरूपेण चित्याग्न्युपासना १६६४.
उपासनापदं द्रष्टव्यम् ।

ब्रह्म

अक्षरं वेदात्मकं मन्त्रात्मकं वा ब्रह्म--

एकाक्षरं ब्रह्म चित्याग्निरूपम् ३०, ३१; व्याहृति-
त्रयरूपं ब्रह्म २५२; सूर्यसमं ज्योतिर्ब्रह्म २५३, ब्रह्म
ऋगादिरूपो मन्त्रो वेदो वा २९३, ४२५,
५०६, २०, २१; अग्न्यादयो देवा ब्रह्मविद्योक्तप्रापकाः
३९९, ४००; पृथ्वीधारकं ब्रह्म ५०६, २०, २१; ज्ञातव्यं
ऋचः अक्षरं परमं व्योम १६०५; अब्ज्योतिःप्रणवव्याहृति-
रूपं ब्रह्म १६४४; सर्वभूतस्थितं सत्यं अब्ज्योतिर्व्या-
हृतिप्रणवरूपं ब्रह्म १६४८; अविमुक्ते कुरुक्षेत्रे तारक-
ब्रह्मोपदेशः रुद्रकृतः मरणकाले १६६९; अब्ज्योतिर्व्या-
हृतिप्रणवरूपं ब्रह्म १६८१.

परं तत्त्वं ब्रह्म--

सर्वप्रापकं सर्वजनकं ब्रह्म, पुरि स्थितं ब्रह्म पुरुषः
२४५-५२; ज्येष्ठं ब्रह्म २४७-५१; संभूतज्येष्ठवीर्यरूपं
अग्रे द्युवितानकृतं ऋते प्रथमजं कस्यापि स्पर्धाया अवि-
षयः सुक्स्वरुच्यज्ञावैरिगरूपं ब्रह्म, प्रथमजं बुद्ध्यविभक्तु
सदसद्योनिविवृतिकृतं विश्वरूपादित्यात्मकं देवानां जगतः
क्षत्रस्य च जनकं ब्राह्मणरूपं ब्रह्म २५८; यस्मिन्नन्तः
सर्वे लोकाः सर्वे देवा विश्वं जगत् भूतानि च समा-
हितानि तत् कस्यापि स्पर्धाया अगोचरः ज्येष्ठं ब्रह्म
आहुतिप्रकाशकम्, द्यावापृथिव्योरुपादानकारणं गृह-
प्रयोजनकवनवृक्षोभयस्थानीयं भुवनधारकमधिष्ठातृ ब्रह्म
२५९; अहंन्यपदेश्यजीवाश्रयभूतामृताश्रयः ब्रह्म २६०;
तदिति निर्देश्यं सर्ववेदप्रतिपाद्यं महद्भूतं ब्रह्मज्ञरूपं
ब्रह्म २६२; विभु भूतकृतं स्त्रीपुंनपुंसकस्यावरज्जमात्मकं
सर्वयजमानरूपमक्षरं अहंन्यपदेश्यम् २६२, २६३;
सर्वकामप्रापकं पितृपुत्रपुंसकस्यावरज्जमात्मकं सर्वजनं

देवाः मन्युसहकृताः संकल्पजन्या
ज्येष्ठवरं प्रति, ब्रह्म च
तिष्ठति ३०७, ०८; आत्म
शरीरमेव ब्रह्मणः पुरी ३२२; वि
धिदैवतशक्तिसंवलितो यज्ञः,
४६०, ६१; विश्वसृजां यज्ञः अ
संवलितः, यत्र ब्रह्म मोक्षकारणं
प्रज्ञानं ब्रह्म ५९४; बालाक्यजा
ब्रह्मविद्याप्रतिपादनम् ६७४-८२;
यित्वाकाशवाय्वग्न्यप्सु आद
शरीरप्रज्ञादक्षिणाक्षिसंव्याक्षिषु च
शब्दात्मानौ पूर्णब्रह्मेन्द्रवैकुण्ठविष
रूपानपगासुमृत्युप्रजापतियमाः
तेजआत्मानश्च पुरुषाः न ब्रह्म
पुरुषाणां कर्ता, हितानाडीषु
वाक्चक्षुःश्रोत्रमनसां नामरूपश
प्राणाख्यः, प्राणदेवलोकानामुद्भव
ब्रह्म सर्वपापनाशकज्ञानविषयः
ब्रह्मविद्याफलं, आत्मनः पुरुषा
विधाः पुरुषरूपा अन्नमयप्राणमय
मया आत्मानः, आत्मपञ्चकादभ्य
वागगोचरो विज्ञानं, ब्रह्मविद्याफल
सृष्टिकारणं, द्वैतरूपेणाविर्भूतं स
विदुषोऽभयप्रतिष्ठास्थानं, सर्वशास
हतब्रह्मविच्छ्रोत्रियस्य ब्रह्मानन्दस्य
विदुषः ७२८-३२; ब्रह्मलक्षण
लयकारणात्वं, अन्नप्राणमनोविज्ञ
तपसः ब्रह्मज्ञानसाधनता ७३५
ब्रह्म ८०३; श्वेतकेतवे पुत्राय पि
विज्ञातविज्ञानकारणम् ८८२-८८५

सत्यं ब्रह्मपुरमेव अजरोऽमृत आत्मा सत्य-
 क्रामोऽपहतपाप्मा १५५; आदित्यचन्द्रविद्युदाकाशवाय्व-
 न्यवाद्दर्शासुदिकञ्जायात्मसु स्थिताः पुरुषा न ब्रह्म,
 आत्मा सुषुप्तिप्रमाणलब्धो विज्ञानमयः पुरुषः सर्वेन्द्रिय-
 यशी ऊर्णनाभिरिव तन्तूद्गमने अग्निरिव विस्फुलिङ्ग-
 न्युच्चरणे विश्वोद्भवकारणं, सत्यस्य सत्यम् १०६६-७७;
 ब्रह्मणो रूपे मूर्तामूर्ते अध्यात्ममधिदैवतं च, पुरुषस्वरूपं
 वेतिनेत्यादेशसहितं, सत्यस्य सत्यम् १०८२-८६; पृथि-
 व्यब्रह्मिवाध्यादित्यदिक्चन्द्रविद्युत्स्तनयित्वाकाशधर्मसत्य-
 ननुध्यात्मनां सर्वभूतानां च अन्योन्येषां मधुभावः, उक्त-
 पृथिव्यादिषु स्थितः तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः अध्यात्मं
 च स्थितः तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः एक एव आत्मा
 ब्रह्म ११०३-१२; साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म आत्मा सर्वान्तरः
 ११३१-३३; साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म आत्मा सर्वान्तरः,
 ब्रह्मज्ञानार्थं एषणात्रयादुत्थानं, पाण्डित्यत्राल्यमौनब्राह्म-
 ग्यानि ११३५, ३६; आकाशान्तं विश्वं यत्र तदक्षरं
 ब्रह्म ११५६-६६; विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ११७९; आत्मा
 ब्रह्म १२२९-३६; अभयं ब्रह्मैव ब्रह्मज्ञः १२५८; इदं-
 रूपमदोरूपं च पूर्णं ब्रह्म, खं ब्रह्म १२६६; सत्यं ब्रह्म
 १२७१; मनःप्राणवाक्चक्षुःश्रोत्राणां प्रेषयिता अप्रमेयः
 उपासनस्य अविषयः मुक्तिहेतुः देवः ब्रह्म १३७३-
 ७६; ब्रह्म विज्ञातमपि अविज्ञातं अविज्ञातं च विज्ञा-
 तम् १३७७, ७८; सर्वजयपराजयहेतुः देवानां प्रशास्तु
 देवैरपि असुविज्ञेयं यक्षं ब्रह्म (आख्यानसहितम्)
 १३७९-८२; सनातनः सर्वलोकाश्रयोऽश्वत्थ एव ब्रह्म
 अमृतम् १४३३; अक्षरात् सृष्टिः १४५३; ब्रह्म ज्योतिषां
 ज्योतिः १४६६, ६७; ब्रह्म सर्वव्यापि सर्वरूपं च
 १४६८; सर्वं ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म १५२१; जीवप्रकृति-
 परमात्मानः इति त्रिविधं ब्रह्म १५८३; ब्रह्मनमस्कारः
 १६३५; देवैरनुगतस्य हरेर्ब्रह्मप्राप्त्यर्थं प्रार्थना १६४६;

ब्रह्मविद्या १६७३-७६; तुरीयं ब्रह्म १६८२
 ब्रह्मप्राप्तिसाधनम्--

आत्मरूपब्रह्मलोकप्राप्तिसाधनं ब्रह्मचर्यम् १६४-
 ६६; ब्रह्मविद्यावंशः, ब्रह्मलोकप्राप्तये अपुनरावृत्तये च
 गार्हस्थ्यधर्मविधिः १८४; ब्रह्मज्ञानमहिमा १०२९
 ब्राह्मी उपनिषत् तस्याः प्रतिष्ठाङ्गायतनानि च १३८४
 हृदयस्थसर्वात्मकाक्षरब्रह्मविद्याविधिः १४५९, ६०
 विदुषो ब्रह्मप्रवेशः १४८२; ध्येयविषयप्रकारभेदेन प्रणव-
 ध्यानेन परापरब्रह्मप्राप्तिः १५१०-१४; त्रयाश्रयः
 अक्षराधारः परमं ब्रह्म, ब्रह्मविदो लयः मुक्तिश्च १५७९
 आत्मतत्त्वद्वारा ब्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारः पाशमुक्तिश्च १५९०
 चयनं ब्रह्माराधनम् १६५३.

उपासनायां अन्यथा वा ब्रह्मणो देवतादिभिः

संबन्धोऽभेदादिरूपः--

आदित्यपुरुषो ब्रह्म ११२, १६५१; वायोर्ब्रह्मत्वम्
 १५१; ज्येष्ठब्रह्मरूपत्वं आनन्दरूपत्वं च वायोः १५४
 ५५; ब्रह्मरूपत्वं रोहितस्य १६९; ब्रह्मण आश्रयः ब्रह्म-
 रूपश्च कालः १७८; प्रथमजातब्रह्मरूपः प्रजापतिः १९७
 ब्रह्मणस्त्रय्याख्यब्रह्मोद्धरति प्रजापतिः १९८; ब्रह्मरूपत्वं
 प्रजापतेः १९९; ब्रह्मजातं प्रजापतेः २०४; ब्रह्म यदन्तः
 स्थितं स स्कम्भः, ब्रह्मण आधारः स्कम्भः, ब्रह्मसुखं
 स्कम्भः २४७; सवितृवृहस्पतिचतुष्टोमरूपं ब्रह्म २५२
 विद्युत्पुरुषस्य ब्रह्मरूपत्वम् २५५; जलात्मकं ब्रह्म, तस्या
 नमन्तरिक्षं, द्यावापृथिवीभ्यां तदुत्पन्नम् २७९, ८०
 ऋत्विग्यज्ञतत्साधनादि सर्वं ब्रह्मरूपं, यज्ञतत्त्वं च ब्रह्म
 ४५८; यजमानो राजा वा ब्रह्मरूपः ४५९; पुरुषोऽन्न
 मयो ब्रह्मलोकः ५३१; ब्रह्म प्राणः ५३२-३६; इन्द्रिय-
 समुदायो ब्रह्मगिरिः ५४१; ब्रह्म प्राणः ६४०, ४१
 देवः परिमरः प्राणो वायुश्च ब्रह्म ६५०-५२; हृदयः

१६५६, ५७; रुद्रस्य परं ब्रह्मेशिबन्दिनिरुक्तिः १६७९.

आत्मपदं द्रष्टव्यम् ।

ब्रह्मोपासना--

मनोमयत्वादिधर्मैरात्मस्वरूपं सत्यं ब्रह्म उपास्यम्
२६१; सर्वैः सर्वत्रैवोपास्यः ब्रह्मसंज्ञित आत्मा ६१४;
लौहिक्यस्य वाग्ब्रह्मोपासना ६८७; चतुर्विधास्तु चतुसृषु
व्याहृतिषु ब्रह्मोपासना ६९७; हृदयाकाशे ब्रह्मोपासना
६९९; अधिभूतपाङ्क्तत्रये अध्यात्मपाङ्क्तत्रये च ब्रह्मो-
पासना ७०१; प्रणवब्रह्मोपासना ७०२; अन्नब्रह्मोपासना,
तद्भ्रजतानि, ब्रह्मोपासनाविशेषाः, आदित्यशरीरपुरुषयोः
स्थितमेकं ब्रह्म, ब्रह्मविदो गतिः ७३९, ४०; वाग्भूत-
पृथिवीशरीरहृदयप्राणरूपा गायत्री हार्दाकाशाख्यं नित्यं
ब्रह्मैव ७९९-८०३; स्वर्गलोकभवनरूपहृदयस्य पञ्च-
द्वारपालोपासनम् ८०४, ०५; सर्वलोकप्रकाशरूपं पुरुषे-
ऽन्तः स्थितं ज्योतिः, तदुपासनं च ८०५; शाण्डिल्य-
विद्याख्या सर्वात्मकब्रह्मोपासना, ऐहिकः क्रतुः स्वसदृश-
परलोकफलः, सूक्ष्मः अन्तरात्मा आकाशात्मा सर्वलोक-
व्यापि ब्रह्म सर्वोपेतम् ८०७-१२; मनसि आकाशे
च समस्तब्रह्मोपासनम् ८१८-२०; आदित्यब्रह्मोपासनं,
असतः सकाशात् आदित्यान्ता सृष्टिः ८२१, २२;
वायुप्राणयोर्ब्रह्मोपासना संवर्णविद्याख्या साख्याना, वायु-
रूपः सर्वदेवात्मा भुवनगोता ८२२-३०; षोडशधा-
प्रविभक्तजगद्विषयिणी ब्रह्मोपासना साख्याना ८३०-
३४; प्राणकृत्वान्यालम्ब्य ब्रह्मोपासना ८३४, ३५;
अग्नित्रयविद्या ८३६-३८; अपुनरावृत्तिकारणं
पापाश्लेषनिवारणं अक्षिस्थपुरुषस्य आत्मरूपस्य अमृता-
मयब्रह्मरूपस्योपासनं देवपथरूपम् ८३८-४०;
ब्रह्मत्वेनोपास्यानि नामवाङ्मनःसंकल्पचित्तध्यानविज्ञान-
बलान्नाप्तेजआकाशस्मरशाप्राणरूपाणि तत्त्वानि उत्तरो-

यायतनं आकाशप्रतिष्ठं हृदयब्रह्म ११
विद्युद्रूपेण निमेषविषयत्वेन च
ब्रह्मणः मनोगतिकरत्वेन संकल्पक
तद्वनत्वेन ब्रह्मणः उपासनम् १३८३;
१३८७; ब्रह्मतत्त्वस्य परमात्मनः
अग्निशिखायां उपासना १६३७-४०
रूपसाधनत्रयवती ब्रह्मोपासना मुक्ति
अन्ने ब्रह्मदृष्टिः १६६०; कालः अ
त्यात्मको वा संवत्सररूपः ब्रह्मत्वेनोपा
अग्न्यादित्यहृदयेषु एकत्वेनोपास्यः
परमात्मा ब्रह्म १६६१; आदित्ये ब्रह्मो
प्रणवव्याहृतिरूपं ब्रह्म १६६५; प
सप्रणवोपासना १६६७, ६८.

उपासना-प्रणवोपासनापदे द्रष्टव्ये

ब्रह्मचर्यम्

ब्रह्मचर्यमादित्यस्य ४२१-२४
मैधा ३४४; आत्मरूपब्रह्मलोकप्रा
९६४-६६; ब्रह्मचर्यसाध्यत्वमात्मशा

ब्रह्मणस्पतिः

ब्रह्मणस्पतिरूपः अग्निः ६; ब्रह्म
तस्य १७३; गणपतिः, कवीनां क
राजः, ब्रह्मणां जनिता, ऋतात्मकरथ
सुमतिभिस्त्राता, पथिकृत्, ब्रह्म
अदेवमनसां च निवर्हणः, दृष्टवीर्यः
पराणां रक्षकः, सूक्तस्य यन्ता १८
तमः, वयुनानां कर्ता, ऋतज्यमन्त्र
देवप्रतिनिधिः, सर्वपरिभूः १९१
ऋजुश्चक्रकः, देवपिता १९३; ब्रह्मण
प्राणस्य ब्रह्मणस्पतित्वम् १०११.

भूतानि

भूतप्रथमजो ब्रह्मा प्रजापतिः १९९; महाभूतानि
 ५५७, ९४, ६८७, ७०६, १४९७, १५०८,
 १६४७; भूतमात्रा दश ६६८-७१; आत्मनः आका-
 शस्य, आकाशाद्वायोः, वायोरग्नेः, अग्नेरपां, अद्भ्यः
 पृथिव्याश्च सृष्टिः ७०६; भूतानां जन्मस्थितिलयकारणत्वं
 महालक्षणम् ७३५; सतः सकाशात् ईक्षणपूर्विका तेजो-
 वन्नसृष्टिः, भूतबीजत्रयं, सतः त्रिवृत्करणार्थं तेजोवन्नेषु
 प्रवेशः ८९०-९६; तेजोवन्नानां त्रिवृत्करणम् ८९६-
 ९८; तेजोवन्नानां पुरुषे त्रिधा परिणतिः, मनःप्राणवाचां
 अन्नाप्तेजोमयत्वम् ८९९-९०३; परात्पुरुषात् भूतसृष्टिः
 १४५५; पञ्चानां भूतानां शुद्धिप्रार्थना १६४७.

मनः

असतो मनः संभूतं, मनसः प्रजापतिः २९०;
 प्रजापतेर्वाङ्मनसमिथुनात्मकाद्देवतासृष्टिः २९५; वाङ्म-
 नसयोः संबन्धः ३१६; मनः सृष्ट्यादिभूतं, ततो वाक्
 माता ३१८-२०;

संकल्पकरं, वेदाधारः, दूरंगमं, ज्योतिषां ज्योतिः,
 कर्मकारणं, प्रज्ञानचेतोधृतिरूपं, त्रैकालिकवस्तुग्राहकं,
 अनुष्यप्रवृत्तिनियमनकर्तृ, अमृतम् ३३४, ३५; सर्वे-
 न्द्रियस्थानं सर्वव्यापकं च, वाग्जनकं मनः, श्रेयोरूप-
 कर्मप्रेरकं देवेषु श्रेष्ठं भूतभय्यरक्षकं च, मनः सर्वस्य
 प्रशि, स्वतन्त्रं, देवस्वरूपं, आकूतीनां चेतसां च अधि-
 पतिः, विपश्चिच्च ३३७; वागपेक्षया मनसः श्रेयस्त्वम्
 ३३७, ३८;

मनसो रेतः कामः ३४०; चित्तस्य माता आकूतिः,
 मनसि प्रविष्टा आकूतिः ३४५;

स्त्रियमाणस्य मनः शरीरमुत्सृज्यान्यत्र गच्छति ३६२,
 ३३;

मनसः प्रसादः ५१६;

शारीरादिपुरुषाणां मनो ज्योतिः ११७०-७३
 अर्थेभ्यो मनसः परत्वं, मनसः बुद्धेः परत्वम् १४१४
 इन्द्रियेभ्यो मनसः परत्वं, मनसः सत्त्वमुत्तमम् १४३५

परात्पुरुषात् मनःसृष्टिः १४५५;

मनःकर्मणा प्राणप्रवेशः शरीरे १५००;

स्वापे मनसि ज्ञानेन्द्रियाणामैक्यम् १५०५; मनो

देवः स्वप्नद्रष्टा १५०६;

संकल्पकरं त्रिकालव्यापि अमृतं कर्मप्रेरकं अन्त

ज्योति वेदप्रतिष्ठा जविष्टं दूरंगमं जगद्वापि बाह्येन्द्रिय

संचारि सूक्ष्मतरं पुरुषयोनि च मनः १५७३, ७४;

सोमयज्ञे मनसः संजननं, इन्द्रियमनोनिरोधात्मकं

योगः भयावहस्रोतस्तरणहेतुः १५८६, ८७;

चित्तलयः १६६२;

मनःस्वरूपम् १६६३;

चित्तशुद्धिः १६६४;

मनस आश्रयः कालः १७८; मनोरूपत्वं प्रजापतेः २०४

मनसः कारणं चिन्त्यम् २१३; अविश्रतगमनेन मनस

प्रातव्यं जिज्ञास्यं सत्यम् २४८; मनसा चरन् मनोगम्यश्च

परमात्मा २६६; मनसा चन्द्रमसि चरन् परमात्मा २६९

अन्तरादित्ये चरन् परमात्मा २७०; मनसि चन्द्रमस

प्रवेशः ३२२; मनसि समस्तब्रह्मोपासनम् ८१८-२०.

मन्युः

संग्रामेऽनुग्राहकः, बलजन्यः, बलवान्, इन्द्राग्निवस्व

रूपः देवः, मानवप्रशस्तः, तपःसहायः, शत्रूणामभि

भावकः, तनुस्थो बलदः, विश्वधर्ता, मधुना यजनीयः

उभयविधधनदः ३४१-४४; मन्युः सर्वपापस्य कत

कारयिता च १६४६, ४७.

माया

मायया विश्वनियन्तृत्वमिन्द्रस्य ५२; मायावित्

जीवप्रकृतिपरमात्मानः इति त्रिविधं ब्रह्म १५८३; अजा लोहितशुक्लकृष्णरूपा प्रजावती १६०१; विश्वस्रष्टा मायी मायाबद्धश्चान्यः १६०५, ०६; अजा प्रजावती भोग्या १६३५; गुणावृत्त आत्मा १६५५; जीवस्य मायामयो बन्धः १६५६.

मुक्तिः

परमात्मज्ञानादेव अमृतत्वप्राप्तिः २७३; ब्रह्मविद्यया परप्राप्तिः ७०६; ब्रह्मज्ञानात् ब्रह्मानन्दः अभयता पुण्यपापतरणं च ७२८-३५; ब्रह्मविदो सर्वकामावाप्तिः ७४०; विदुषो मृत्युदुःखरोगतरणं, आहारशुद्ध्यादिक्रमेण मोक्षः ९५०; ब्रह्मलोकप्राप्तये अपुनरावृत्तये च गार्हस्थ्यधर्मविधिः ९८४; आत्मदर्शनजन्यं निःश्रेयसम् १३१८; अमृतत्वहेतुर्विद्या १३७८, ७९; श्रेयः प्रेयश्चेति विभागः, श्रेयश्च मोक्षः आत्मज्ञानजन्यः १३९८; स्वात्मनि अन्तरात्मज्ञानात् नित्यसुखं शान्तिश्च १४३१; इन्द्रियमनआदिभ्यः परस्य पुरुषस्य दर्शनं मुक्तिदम् १४३५, ३६; हृदयग्रन्थिनाशादि आत्मविद्याफलम् १४६४; ईशदर्शनात् शोकमुक्तिः ईशसाम्यं च १४७१, ७२; अकामस्य पुरुषोपासकस्य मुक्तभावेन स्थितिः, संकामस्य संसरणम् १४८१, ८२; आत्मज्ञानां मुक्तानां गतिः १४८२-८७; परमात्मप्राप्तिः १५०९; परमपुरुषविद्याफलम् १५१८; आत्मज्ञानान्मुक्तिः, ब्रह्मज्ञानान्मुक्तिः १५७९; ब्रह्मज्ञानात् विश्वमायानिवृत्तिः १५८१; देवज्ञानात् पाशमुक्तिः १५८२; आत्मतत्त्वद्वारा ब्रह्मतत्त्वसाक्षात्कारः पाशमुक्तिश्च १५९०; परमात्मज्ञानादेव मृत्युतरणम् १५९५; ब्रह्मज्ञानादमृतत्वम् १५९६; भोक्तुः ईशदर्शनजन्यमुक्तिः १६०५; वरददेवप्राप्तिः अत्यन्तशान्तिप्रदा १६०७; शिवज्ञानात् आत्यन्तिकी शान्तिः मृत्युपाशच्छेदश्च १६०८, ०९; अनाद्यनन्तस्य भावाभावकरस्य शिवस्य ज्ञानात् पाशमुक्तिः १६१६;

नाड्या ऊर्ध्वोत्क्रमणविधिः कैवल्यमुक्तिः १६६२; मुक्तलक्षणम् १६६९; क्षेत्रनिषेधणविधिर्मुक्त्यर्थम् १६६९; ध्यानं संन्यासश्च मोक्षसाधनम् १६७३; मुक्तिसाधनम् १६७५; मोक्षसाधनं मेदज्ञानम् १६७५, ७६; रुद्रज्ञानम् १६७९, ८०; अथर्वशिखाध्ययनात्

मृत्युः

चक्षुष्मान् शृण्वन् मृत्युदेवः ३६० यजनीयश्च ४१२; मृत्युः पुरुषरूपः, स्वामी, मनुष्याणां एकराट्, ऋतस्य प्रअर्कदृष्टिविषया आपः अशनायारूपा पृथिवी, पृथिव्या अग्निः प्राणरूपः अर्वाकृतः, विराट्स्वरूपः स एव, वा मृत्योः संवत्सरः वाक् त्रयीयज्ञप्रजापतिरदितित्वं सनिरुक्तं, मृत्योः अश्वस्यामर्निर्वचनसहिता, अर्काश्रमेधोपासनं मृत्योः ९९१-९९; वागादीनां व्यापकाग्न्यादि मृत्यवतिक्रमणम् १००८; मृत्युरूपत्वं रोहितस्य १७५; मृत्युः १९५; मृत्योराश्रयः स्कम्भः २४७; मृत्युः ५४२; स्पर्शानां मृत्युरूपत्वम् ७८५; मरणपूर्वै मरणोत्तरं मरणसमये च मृत्युयमदूतादयः पाशशृङ्खलाद्यायुधैः प्राणहराः, अयं लोकः अभयस्थानम्, आदीनां मरणकाले देहत्यागः, मृत्योः रक्षणकर्तारः ३७६-८५; च पुण्यपापानां लोकाश्च ४१०, ११; वागप्राणेऽप्ययः ६६६; म्रियमाणस्य सत्संपत्तिः ९२३.

मृतस्य अन्तरात्मनः शरीरात् पृथक्करणविधिः १४४०;
त्युत्तारकज्ञानविषयः परमात्मा १५९५; आत्मनो वस्तुतो
रणाभावः १५९९;

अन्तकाले उपासितुरादित्यादिप्रार्थना १२८४; मरि-
तः मार्गप्रार्थना १३२७, २८; देवयानेतरणं पथा
त्युदेवो गच्छतु इति प्रार्थना, मृत्योः त्राणार्थं प्रजापतेः
युप्राणरूपस्य अग्न्यादीनां च प्रार्थना १६४५; अग्न्यु-
सनया मृत्युतरणम्, मृत्युदेवस्य प्रार्थना, मृत्युमोच-
य न्यम्बकस्य प्रार्थना, यज्ञसामर्थ्यात् सहस्राधिकमृत्यु-
शच्छेदाशा १६४६.

यज्ञः

यज्ञसृष्टिः--

प्रजापतेः सकाशात् एकविंशतिसंस्थयज्ञस्य सृष्टिः ३०५;
त्योर्यज्ञस्योत्पत्तिः ९९७; परात्पुरुषात् यज्ञतदङ्गसृष्टिः
४५७, ५८.

यज्ञस्य महिमा स्वरूपं प्रमाणं प्रकारा अज्ञानि च--

सोमयज्ञमहिमा २२१; यज्ञियानां प्रथमा वाक् २३७;
ज्ञे सर्वत्र प्रयुक्ता ऋक् (प्रणवः ?) २४९; यज्ञः देवै-
न्यनुष्ठितः प्रथमो धर्मः, देवानामधिपतिः, परमव्योम-
पकः ४५६; सर्वेषां वेदानां साङ्गानां यज्ञपर्यवसायित्वम्
७१; यज्ञः पृथिवीधारकः ५०६; यज्ञः पञ्चात्मकः ५६१;
यज्ञक्षतपूर्तिकरं प्रायश्चित्तं, ऋत्विजो ब्रह्मणो मौनविधिः
४६, ४७; यज्ञक्षतपूर्तिकरप्रायश्चित्तहोमाङ्गव्याहृतयः
४८, ४९; हुतप्रहुते दर्शपूर्णमासौ वा देवान्ने, काम्ये-
निषेधः, देवहोमफलम् १०४७; गाथाकुम्भ्यानाराशंसी-
रणेतिहासानां भरण्डकेष्णस्य च यज्ञे प्रयोगः ऋक्-
मयोर्दोषहरः १३४६; ब्रह्माख्यस्य ऋत्विजो धर्माः,
गोमभागानुमन्त्रणम् १३६०; यज्ञविषयाणां पञ्चानां
श्रानां वक्रदाल्भ्यकृतं समाधानम् १३६९, ७०; धृत-
शंसा १६३५, ३६; वैकङ्कत्याः अग्निहोत्रहवण्याः

सोमोत्पादकत्वमिन्द्रस्य, हविष्प्रदानादिकर्मकारयितृ
मिन्द्रस्य ४९; यज्ञभोक्ता सविता १०९; यज्ञाधारः विरा
१६१; यज्ञस्य जनयिता मुखं च रोहितः १६
प्राणिजातजन्मकारणयज्ञस्य यजमानः ऋषिः रोहि
१७०; यज्ञरूपो रोहितः १७३; यज्ञजनकः तज्जन्य
रोहितः १७५; यज्ञस्य प्रथमं जनयिता प्रजापति
२००, ०१; यजमानरूपत्वं प्रजापतेः २०१; यज्ञात्
कत्वं प्रजापतेः २०३; आहुतिस्वरूपा विस्मयजननी ग
२१२; यज्ञाधारः स्कम्भः २४७; यज्ञियपशोरश्च
देवप्रशस्तत्वं देवरूपत्वं अमर्त्यत्वं च ४२८-३
अमृतनामाश्चो यज्ञियपशुः विश्वात्मकः, सत्यस्य सत्य
प्रजापतिस्वरूपश्च ४३०; सवे देयः स्तोतव्यो वा अ
ड्वान् विश्वधर्ता, विश्वव्यापकः, इन्द्रस्वरूपः, प्रज
पत्यात्मा, अक्षयफलदाता स्वर्गदश्च ४३१-३३; अ
पञ्चौदनः यज्ञरूपः, विश्वात्मकः, ऋतसत्यश्रद्धावि
डङ्गः, सवे देयः सर्वदेवमयः सर्वरूपो गौः ४३
सवे देया वशा गौर्देवगन्धर्वमनुष्यादिभिस्प्रजवीनीया
सर्वदेवरूपा, विश्वात्मिका ४३४, ३५; महामहिमा स
देवमयः विराडात्मा सर्वात्मा ओदनः ४३५-४
यजमानो राजा वा ब्रह्मसवितृमिन्नेन्द्रवरुणरूपः, यज्ञ
प्रजापतिः ४५९; प्रजापत्यात्मा यज्ञः ४६५, ६
रुद्रस्य यजनीयत्वम् १६११.

यज्ञस्य परमात्मसंबन्धः--

परमात्मा सर्वमेधस्य देवकृतस्य त्रयीकारणस्य हवि
२३२; चतुष्टोमस्य ब्रह्मरूपत्वम् २५२; सुक्स्वरुप
त्विग्रूपं ब्रह्म २५८; आहुतिप्रकाशकं ज्येष्ठं ब्रह्म २५
यजमानरूपत्वं ब्रह्मणः २६३; यज्ञात्मकः परमात्
२६८; ब्रह्मौदनोच्छिष्टं सर्वजगत्कारणब्रह्माभिन्नम् ४४
४९; ऋत्विग्यज्ञतत्साधनादि सर्वे ब्रह्मरूपं, यज्ञतत्त्वं
ब्रह्म ४५८; ऋत्विक् यजमानो वा आत्मा सर्वव्य

यज्ञपतित्वं च प्राणस्य ३३३; यजनीयो ज्येष्ठो देवः
 कामः ३३९; कामस्य यजनीयत्वम् ३४०, ४१; मधुना
 यजनीयो मन्युः ३४३; यजनीयत्वं मेधायाः ३४४; यज-
 नीयत्वं वाचः, हव्यवाङ्मूर्ध्नि वाचः ३४८; पुरुष-
 विर्यज्ञापेक्षया श्वगवादियज्ञापेक्षया वा विहव्यो मानसो
 यज्ञः श्रेयान् ४५७; आध्यात्मिको यज्ञः ४५८;
 पुरुष एव यज्ञः ४५९, ६०, ८१४, १३६८, ७०,
 १६५१, ५२; विश्वसृजां आध्यात्मिकाधिदैवतशक्ति-
 संवलितो यज्ञः, यत्र ब्रह्म प्रादुर्भवति ४६०, ६१;
 विश्वसृजां यज्ञः आध्यात्मिकाधिदैवतशक्तिसंवलितः,
 यत्र ब्रह्म मोक्षकारणं साक्षात्क्रियते ४६२, ६३;
 आध्यात्मिकमग्न्याधानं अमृतत्वसाधनम् ४६४, ६५;
 देवयज्ञात् आत्मयजनं श्रेयः ४६६, १६५९, ६०;
 आध्यात्मिकं प्राणामिहोत्रम् ४६६-६८; यज्ञपुरुषप्रजा-
 पतीनामैकाम्यम् ४६८, ६९; पुरुषमेधः सर्वात्मभाव-
 साधनम् ४७०; सर्वमेधः सर्वात्मभावसाधनम् ४७१;
 आत्मनिष्कयणो यज्ञ आनन्त्यफलः ४७२; आध्यात्मिक-
 मग्निहोत्रम् ४७२, ७३, ६९०; आध्यात्मिकमान्तरमग्नि-
 होत्रम् ६९०, ९१.

यज्ञाङ्गोपासना, यज्ञात्मकोपासना वा--

प्रजापतिना नारायणाय प्रोक्ता यज्ञाङ्गभूता सर्वात्म-
 विद्या ४६९, ७०; उद्गीथादियज्ञाङ्गविषयकोपासना
 ७४६-८६; सवनत्रयसंबन्धीनि यज्ञाङ्गभूतानि सामहोम-
 मन्त्रोत्थानानि लोकत्रयजयसाधनानि ७९०, ९१; आश्व-
 मेधिकाश्वविषयकोपासना ९८७-९०; प्रस्तोतुरग्यारोह-
 मन्त्रजपः १०१४; औद्गात्रसंबन्धिन्य उपासनाः १३३०-
 ४८; उपासनायुक्तं ब्रह्मज्ञानपर्यवसायि अग्निहोत्रम् १६६६.
 ब्राह्मणस्य आतिथेर्यज्ञमहिमा--
 ब्राह्मणः प्रजापतिप्रेरकः, महादेवरूपेण परिणतः,
 ईशानः एकब्राह्मणः इन्द्रधनुर्धरश्च ४५०ः (कालात्मा)

दिक्षु द्वादशमासरूपगोप्तुसहकृतः, बृहद्रथन्तरादिसामभि-
 भूम्यग्न्यादिदेवैश्चानुष्ठातृभिः सहितः ४५१, ५२; सर्वा-
 दिशामन्तर्देशाङ्कता ब्राह्मणानुष्ठातारो भवशर्वपशुपत्यु-
 रुद्रमहादेवेशानाः ४५२; ब्राह्मणः भ्रुवादिदिक्षु चर-
 भूम्यग्निसूर्यचन्द्रनक्षत्रौषधिवनस्पतिसत्यवेदविद्यास्थानामि-
 त्रयकालादिसर्वभूतसर्वदेवादिभिरनुगतः ४५२, ५३;
 महिमरूपः ब्राह्मणः समुद्ररूपेण परिणतः, राजन्यजन्म-
 सभासमित्यादिभिरनुसृतो ब्राह्मणः ४५३; ब्राह्मणस्यातिथेर्यमहि-
 पूजाविधिस्तत्फलं च ४५३, ५४; प्राच्यादिदिक्षु चर-
 ब्राह्मणः तत्तद्दिगनुसारेण भारत्यर्धेन्द्रवरुणसोमविष्णुस-
 यमवृहस्पतीशानप्रजापतिपरमेष्ठिस्वरूपभूतः ४५४, ५५;
 विश्वात्मको ब्राह्मणः ४५५, ५६; अतिथियज्ञः ४७३, ७४;
 यज्ञफलम्—

यज्ञद्वारा जीवाधिगम्यो जीवान्तरात्मा २५८; एव-
 विश्वं ब्रह्मस्य विष्टपं स्वर्गाख्यं सोमसाध्यम्, अयज्व-
 पतनम् ३५५; सोमसाध्यः स्वर्गः ३५५, ५६; पथि-
 रूपकेण सवयज्ञेन लभ्यः स्वर्गः ३६९, ७१; दाने-
 यज्ञेन वा संतानयुक्तानां बन्धुरहितानां वा स्वर्गप्राप्ति-
 ३७४, ७५; यज्ञायुधानि लोकत्रयधारकाणि स्वर्गप्रापका-
 ३९३, ९४; वैश्वानरे हुतहविषः स्वधारूपेण परिणति-
 ३९७; आहुतिरमृतत्वसाधनम् ४०२, ०३; यजमान-
 जन्मद्वयम् ४०५; यज्ञरूपः मृत्युमुक्तः, आहुतिः स्व-
 साधनम् ४०८; आहुतिपञ्चकक्रमेण अत्र लोके पुनर्जन्-
 ४०८, ०९; यज्ञेन हन्तव्या दोषाः ४६१; यज्ञ-
 आत्मविद्याहेतुत्वम् १२४७; विद्यारहितः यज्ञरूपक-
 मार्गः पुनरावृत्तिसंसारकारणम् १४५१; यज्ञसामर्थ्य-
 सहस्राधिकमृत्युपाशच्छेदाशा १६४६; यज्ञेन अन्नप्राप्ति-
 १६६६.
 यज्ञात् सृष्टिः—

पुरुषकृताद्यज्ञात् ऋषीणां मनुष्याणां च सृष्टिः

स्वर्गाथै यत्नः, विप्रा बुद्धिमनोयोगसाधकाः
 ८६; इन्द्रियमनोनिरोधात्मको योगः भयावह-
 गहेतुः, प्राणायामः, योगानुकूलभूमिश्च १५८७,
 ने ब्रह्माभिव्यञ्जकलिङ्गानि, पञ्चभूतात्मकः योग-
 योगाग्निमयशरीरस्य, योगप्रथमप्रवृत्तेः लिङ्गानि
 ९०; षडङ्गो योगः ब्रह्मदर्शनीपायः १६६१;
 १म्, चित्तलयः १६६२; ब्रह्मज्ञानकारणं योग-
 योगाधिकारः १६६३; समाधिः १६६४, ६५.

रुद्रः

पः अग्निः ६; भिषकतमः, द्वेषपातकरोगाणा-
 श्रिया सर्वश्रेष्ठः, भुवनस्येशानः, सर्वस्य रक्षकः,
 ज्ञाता च १२५-२७; अग्निरूपः, अग्निजलौ-
 स्थितः, विश्वकर्ता १२८; भवात्मकः, शर्वा-
 भूतपतिः, पशुपतिः, सर्वव्यापकः,
 सर्वदा सर्वाङ्गेषु नमस्यः आस्तिक्यबुद्ध्या
 १२८-३३; यष्टव्यः, देवासुरार्षिपूर्वजः, महा-
 १३३, ३४; रुद्रस्य ध्येयत्वम् १३४; रुद्रः
 वनुर्बाहुमन्युः, शिवेषुधिधनुरिषुधरः, निष्पाप-
 जगते आरोग्यसौमनस्यप्रदः, प्रथमो दैव्यो
 अहियातुधानीहन्ता, ताम्प्राणवन्भ्रुपधरः, सु-
 मीढ्वान्, सर्वासु दिक्षु सहस्ररूपैः स्थितः,
 इज्जनैः सर्वभूतैश्च दृष्टः १३४-३७; विश्वरूपधरः,
 र्मादिकारकात्मकोऽखिलस्वस्वामिसंबन्धिस्वरूपः,
 थपत्यन्नपतिपुष्टपतिजगत्पतिदिक्पतीत्यादिभावेन
 सेनागणत्रातसभास्तेनरथाश्चादितदधिष्ठातृसेना-
 धरः, ब्रह्मराजन्यविट्सूत्ररथकारनिष्ठादादिजाति-
 र्तिधरः, आसीनशयानस्वपञ्चाप्रतिष्ठद्वावदाद्य-
 नहस्तुलकादिविरुद्धधर्मोपेतः, जलवायुभूकायेषु
 वेन प्रविष्टः, शंकरः, भवः, शर्वः, सहस्राक्षः,
 १३, मीढुष्टमः, सोमः, शंभुः १३७-४४;

चन्द्रमोऽन्नेन्द्रेत्यष्टमूर्तिः १५०, ५१; रुद्ररूपत्वं रोहितस्य
 १७४, ७५; रुद्ररूपेण संचरन्ती ब्रह्मरूपा वाक् २३७;
 रुद्रस्यापि प्रेरयित्री वाक् २३८; रुद्राणां प्रतिष्ठा स्कम्भः
 २४७; संवत्सरात्मकाद्भूतपतेरग्निः कुमारो रुद्राख्यो
 जातः, तस्य शर्वादीनि अष्ट नामानि २९६, ९७;
 रुद्ररूपत्वं त्रात्यस्य ४५५; इन्द्रमुखेन रुद्रभोग्या-
 मृतोपासनम् ७९६, ९७; रुद्रः परमात्मा १५९२-९९;
 सर्वदेवप्रभवः महर्षिः हिरण्यगर्भजन्मदर्शी शुभबुद्धि-
 संयोजयिता देवाधिपः लोकाश्रयः पादवतामीशानः कः
 अनेकरूपः अतिसूक्ष्मः सर्वव्यापी शिवः शान्तिदः मृत्यु-
 पाशच्छेत्ता विश्वकर्मा महात्मा हृदयस्यः बुद्धिगम्यः
 सदसद्भिन्नः केवलः पुराणप्रज्ञः प्रतिमाशून्यः यशोनामा
 अदृश्यः अजातः रक्षकदक्षिणमुखः रुद्रः यजनीयः
 १६०८-११; पुरुषरूपो रुद्रः १६३१; महर्षिः हिरण्य-
 गर्भजन्मदृष्टा शुभबुद्धिसंयोजकः रुद्रः परतमः पुरुषः
 १६३६; आत्मनः आत्मीयानां च रक्षार्थं रुद्रप्रार्थना,
 व्यम्बकस्य मृत्युमोचनाय प्रार्थना १६४६; रुद्रः प्राण-
 ग्रन्थिः, रुद्रप्रार्थना १६४९; रुद्रस्य ब्रह्मैकरूपत्वम्, रुद्रस्य
 तामसत्वं, रुद्ररूपेणोद्भूतः भूताधिप आत्मा १६५७;
 अविमुक्ते कुरुक्षेत्रे तारकत्रहोपदेशः रुद्रकृतः मरण-
 काले १६६९; रुद्रः सर्वरूपः सर्वतर्पकः सर्वदेवध्येयः,
 रुद्रज्ञानं सर्वदेवसर्ववेदज्ञानरूपम् १६७७; रुद्रनमस्काराः,
 रुद्रः सर्वदेवरूपः १६७८; विश्वरूपः, सूक्ष्मः पुरुषः,
 महाप्रासः, हृदयस्यः देवः १६७८, ७९; ओंकारः,
 प्रणवः, सर्वव्यापी, अनन्तः, तारं, शुक्लं, सूक्ष्मं, वैतृतं,
 परं ब्रह्म, एकः, रुद्रः, ईशानः, भगवान् महेश्वरः इति
 संज्ञानां निरुक्तिसहितं रुद्रचरितम् १६७९; रुद्रज्ञानात्
 पशुपाशमोक्षः १६७९, ८०; हृदये देवदर्शनं तृष्णादि-
 च्छेदेन १६८०; सर्वव्यापी नागधारी विश्वस्रष्टा रुद्रः
 नमस्कार्यः, सर्वगोप्ता सहस्रपादेकमूर्धा परः रुद्रः, काल-

जनयिता मुखं च , समितिषु उच्चस्थानदः, सर्वलोके-
 ष्वन्तः स्थितः, स्मृतस्य राष्ट्रे स्थापकः, अग्निसूर्यव्यापकः,
 न्युष्टिव्योर्विष्टम्भकः, देवानां सृष्टिकर्मणि प्रयोजकः,
 ब्रह्मरूपः, बहुजन्मा , यशःस्वरूपः, इहामुत्र वा स्थित्वा
 सर्वद्रष्टा, विश्वव्यापिनी समुद्रोद्गमस्थानं गौः सः, अमृतः,
 अमर्त्यः, परमे व्योम्नि स्थितः, सर्वभूतचक्षुः सूर्यः,
 प्राणिजातजन्मकारणयज्ञस्य यजमानः ऋषिः १६६-७०;
 देवानामधिपतिः, सूर्यात्मकः, विश्वव्यापकः, द्यावापृथिव्योर्जनकः,
 विष्णुः, कालप्रजापतिरूपविभूतिधरः १७०-
 ७२; द्यावापृथिव्योर्जनकः, भुवनरूपवस्त्रधरः, वायुसमुद्रो-
 द्गमस्थानं , जीवनमरणकारणं , भूताधारः, द्यावापृथिवी-
 समुद्रेभ्यः प्राणापानदः, विराट्परमेष्ठिप्रजापतिवैश्वानराणा-
 माश्रयः, षडुर्वीणां पञ्चानां दिशां चतसृणामपां चाधारः,
 अन्नपतिर्ब्रह्मणस्पतिर्भुवनपतिश्च, त्रयोदशमासकर्ता, ऋतस्य
 सदनं , कश्यपः, बृहद्रथन्तरयोः प्रेरकः, बृहद्रथन्तर-
 रूपपक्षधरः, वरुणाग्निमित्रसवित्रिन्द्ररूपविभूतिः, सर्वदेव-
 वहः स्वर्गगः अतिविस्तीर्णपक्षः हंसः, विश्वजनकाग्नि-
 स्वरूपः, आदित्यवहनकारणं यज्ञरूपं बहुप्रकारमेकं ज्योतिः,
 अजरं भुवनाश्रयरूपचक्रं, मातरिश्वरूपविभूतिः, ऋत-
 तन्तुज्ञः, पृथिवीसमुद्रस्थापकः, अग्निः, आत्मदः, सर्व-
 स्येशानः १७३, ७४; सविता महेन्द्रो धाता विधाता
 वायुर्यमा वरुणो रुद्रो महादेवोऽग्निः सूर्यो महायमश्च
 स एव, स एक एव सर्वदेवानामेकत्वकरः, सर्वप्रजाद्रष्टा,
 द्वितीयत्वादिदशमत्वान्तसंख्यापूरणत्वरहितः, एकोऽद्वि-
 तीयः सर्वदेवाद्वैतस्थानं , तादृशतज्जानेन कीर्तियशो-
 ब्राह्मणवर्चसान्नादिफललाभः १७४; मृत्युरूपः अमृत-
 रूपः रक्षःस्वरूपः रुद्रः वषट्कारश्च , यातूनां सचन्द्र-
 मसां नक्षत्राणां च प्रशास्ता , सर्वदेवानामद्वैत-
 स्थानस्यैकस्य तस्य ज्ञानेन ब्रह्मादिस्वधान्तानां फलानां
 लाभः १७४. ७५; अहोरात्र्यन्तरिक्षवायुद्य-

लोकाः

स्वर्गनरकौ देवपितृमनुष्याणां लोकाश्च

स्वर्गनरकाः ४०५; प्रेतस्य विविध
 ४१७; लोकौ द्वौ ऐहिकामुष्मिकौ
 स्वर्गा नरकाश्च १३८७;

देवलोकः पितृलोकश्च ४०१;
 योनिश्च, देवलोकः मनुष्यलोकश्च ४०
 यजमानः देवपित्रादीनां लोकः १०४
 जय्या लोकाः, मनुष्यलोकः पितृलोको

पक्षिरूपकेण सवयज्ञेन लभ्यः स्वर्गः
 देवयमगन्धर्वाध्यासितः बहुक्षीरथकम
 ध्रुवेतुमधुक्षीरदधिसुरादिसंपन्नः ३६९
 ४००; सप्त देवलोकाः ४०१, ०७;
 सप्तमो ब्रह्मलोकः ४०६; एकविंशः
 ४०७; स्वर्गलोकद्वारपालाः ८०४
 ११३०; ओतप्रोतभावेनेतरेतरस्थिता
 ११४४, ४५; दश स्वर्गाः १३८७;

नरकाः ४०५-०६; चतुर्दिक्शु
 ४११; असुर्या नाम लोकाः १३१
 १३८७.

स्वर्गदेवतासंबन्धः--

स्वर्गे अग्नेः शिवा तनूः २४
 ४४, ५९; स्वर्गस्य जनयिता सोमः
 वरुणः ८३; स्वर्द्रष्टा विष्णुः ९०; स्व
 स्वर्गप्रदाया वाचो मन्ता सविता १०
 आपः १५८; स्वर्गधारकः रोहितः
 रूपः रोहितः १७३; स्वर्गधारः प्रज
 चक्रनवद्वारदेवपुरि प्रतिष्ठिते हिरण्म
 वृते देवकोशे स्थितं यक्षरूपं ब्रह्मवि
 नर्गस्य एक एव न्यापी ज्योषो त

लोकसृष्टिः--

पादत्रयेण त्रिलोकव्यापित्वं लोकत्रयस्रष्टृत्वं तद्वारकत्वं च विष्णोः ८७-८९; त्रैलोक्यविस्तारयिता सूर्यात्मक-
वैश्वानराग्निः १००; प्रजापतेस्त्रैलोक्यस्य सृष्टिः २८६; प्रजापतेः पुरुषरूपास्वाङ्गेभ्यो लोकत्रयसृष्टिः, ततो वेदा
व्याहृतयश्च सृष्टाः ३०४;

आन्मतश्चतुर्लोकसृष्टिः ५८०, ८१;

पञ्चानां भूतानां पृथिव्यन्तानां सृष्टिः ८९२;

ईशात् सतलोकप्रभवः १६३५; सर्वलोकानामुद्भव-
स्थानमात्मा १६६४;

द्यावापृथिव्योर्जनकः रोहितः १७१, ७३; द्यावापृथि-
व्योर्जनकः विश्वकर्मा १८३, ८४; मनसा द्यावा-
पृथिव्योर्जनकः विश्वकर्मा १८५, ८६; द्यावापृथिव्योः
कुशलो जनकः धीमान् प्रेरकश्च प्रजापतिः १९३; द्यावापृथिव्योर्जनकः परमात्मा २०५. द्यावापृथिव्योः
पुत्रत्वमादित्यस्य २०९; द्यावापृथिव्योरुपादानकारणं
ब्रह्म २५९;

द्युजनकः सोमः ७२; दिवः सर्वजनकत्वं सर्वपितृत्वं
च १२४; दिवो जनकः तज्जन्यश्च रोहितः १७५; दिवो जनकः प्रजापतिः १९७; द्युजनकब्रह्मरूपः प्रजा-
पतिः १९९; परमात्मनः शिरसो दिव उत्पत्तिः २३३; द्युजननी वाक् २३८; द्युविधातृत्वं ब्रह्मणः २४५; अग्ने
पृथिवितानकृतं ब्रह्म २५८; धातुर्दिवो जन्म २७९; दिवः
नकाशादादित्यस्योत्पत्तिः २८६; अण्डादिव उत्पत्तिः
२९४; प्रजापतेर्वाचः द्यौर्जाता २९८;

अन्तरिक्षजनकः तज्जन्यश्च रोहितः १७५; परमात्मनो
प्राण्या अन्तरिक्षोत्पत्तिः २३३; धातुः अन्तरिक्षजनम
२७९; अन्तरिक्षाद्वायोत्पत्तिः २८६; अण्डादन्तरिक्ष-
योत्पत्तिः २९४; प्रजापतेर्वाचोऽन्तरिक्षं जातम् २९८;
पृथिवीजनकत्वं सोमस्य ७२; भूमेर्विस्तारयिता वरुणः

अवरूपसलिले सृष्टिपूर्वकालिके स्थितो वातरूपः प्रजा-
पतिः पृथिवीं सृष्टवान् २८१, ८२; पृथिव्याः स्रष्टा
शादमेरुत्पत्तिः, प्रजापतेः पृथिव्याः सृष्टिः २८६; अण्डा-
अग्न्यात्मिका जलसहिता पृथिवी जाता २९३, ९४; प्रजापतेर्वाचः भूमिर्जाता २९८;

अज्ञेयजनने, गर्भवत्प्राणिजातधारिण्यौ, अपापस्व-
दाक्षीयमाणधनदे, देवजनन्यौ, अमृतधारिण्यौ, पितृ-
सर्वेषाम् १२१-२३; सविता एव द्यावापृथिव्योर्द्वेष-
द्यावापृथिव्यौ ऋतस्य सदने स्थिते भूतानां देवान-
न्धारः, द्यौः पिता सर्वस्य १०४; पृथिवीरूपा अदितिः
१६५; द्युलोकरूपदिव्यनौकारोहणम् ३६६; त्रिविधा द्यौः
३८८; क्षेमयुक्ता पृथिवी ५०६-१०; सत्ये आप-
अप्सु भूमिः भूम्यां सूर्यः सूर्ये द्यौः आश्रिता इति सर्व-
लोकरचना १३३३.

लोकदेवतासंबन्धः--

द्यावापृथिव्योः पतिर्वैश्वानरः २; द्योरिन्द्रस्यातिशय-
५८; द्यावापृथिव्योः स्थापकः सोमः ६८; अन्तरिक्ष-
धारणं सोमकृतम् ६९; अमूलेऽन्तरिक्षे वरुणस्य स्थितिः
७४; अन्तरिक्षस्य तत्स्थाने व्यवस्थापकः वरुणः ७५; द्यावापृथिव्योः स्तम्भनो वरुणः ७९, ८३; द्यावापृथिव्यो-
र्मध्ये प्रियस्थितिर्वरुणः ८१; तेजसा त्रिलोकव्यापि-
वरुणस्य ८३; सर्वभुवनाधिष्ठातृत्वं वरुणस्य, द्युस्तम्भक-
वरुणस्य ८४; पृथिव्या धर्ता सविता, अन्तरिक्षस्य
दोश्वा सविता १०४; दिवो धर्ता सविता १०४, ०५; द्यु-
लोकरूपत्वं सवितुः १०९; त्रैलोक्यनिवासिन्य आप-
१५७; सर्वेषां लोकानां प्रतिष्ठा आपः १५८; द्युरूप-
अदितिः, अन्तरिक्षधारिणी अदितिः १६५; दिवो
विष्टम्भको रोहितः, पृथिव्या विष्टम्भको रोहितः १६९; द्यावापृथिवीभ्यां प्राणपानदः रोहितः १७३; पृथिवी-
स्थापको रोहितः १७४; पृथिव्याः परः विश्वकर्मा

जिज्ञास्यं स स्कम्भः, भूमेराधारभूतं यस्याङ्गं जिज्ञास्यं
 स स्कम्भः, अन्तरिक्षस्याधारभूतं यस्याङ्गं जिज्ञास्यं स
 स्कम्भः २४६; दिवोऽधिष्ठानं स्कम्भः, अन्तरिक्षस्या-
 धिष्ठानं स्कम्भः, भूमेरधिष्ठानं स्कम्भः, मही यत्रार्पिता
 स स्कम्भः, लोकानामाधारः इन्द्ररूपः स्कम्भः, सर्वलोकानां
 अधिष्ठा स्कम्भः, लोका यदन्तःस्थिताः स स्कम्भः २४७;
 अन्तरिक्षस्य धर्ता स्कम्भः द्यावापृथिव्योर्धर्ता स्कम्भः
 २४८; द्यावापृथिव्योर्विष्टम्भकः स्कम्भः २४९; जल-
 मकब्रह्मस्थानमन्तरिक्षम् २८०; पृथिव्यन्तरिक्षञ्चुस्थिताः
 पितरः ३९९; भूम्यनुगतो ब्राह्मणः ४५२; पृथिव्या
 प्रायत्रीरूपत्वम् ८०१; लोकानामाश्रयो रुद्रः १६०८.

लोकानां ब्रह्मणा संबन्धः—

षण्णां लोकानां धारकः परमात्मा २०८, १०;
 भूमिबिधातृत्वं ब्रह्मणः, अन्तरिक्षरूपत्वं ब्रह्मणः २४५;
 भूम्युभे ज्येष्ठं ब्रह्म, अन्तरिक्षोदरं ज्येष्ठं ब्रह्म, भूमिप्रमं
 (पादं) ज्येष्ठं ब्रह्म २४८; पृथिवीधरमेकं तत्त्वम् २४९;
 लोकाश्रयः परमात्मा २५२; यस्मिन्नन्तः सर्वे लोकाः
 समाहितास्तान् ज्येष्ठं ब्रह्म २५९; पृथिव्यादिलोकानां
 भूतैः संबन्धः ब्रह्मगमकः ११०३-१३.

लोकप्रदसाधनम्—

बहुलोकदः कामः ३३९; सुकृतलोकदा वाक् ३४९;
 यज्ञायुधानि लोकत्रयधारकाणि ३९३, ९४; ब्रह्मलोक-
 प्राप्तेश्चन्द्रमा द्वारम् ६३०, ३१; देवयानमार्गो ब्रह्मलोक-
 प्रापकः ६३२, ३३; पर्यङ्कोपासितुः ब्रह्मलोके ब्रह्मपर्यङ्का-
 भिगमनम् ६३४-३७; त्रयो जयलोकस्तन्साधनानि
 १०५७; विविधलोकजयसाधनानि १११८-२०;
 यज्ञापतिव्रतं ब्रह्मलोकसाधनम् १४९५, ९६; अग्न्यु-
 त्पन्नसना उभयलोकजयः १६४६.

वरुणः

अमूलेऽन्तरिक्षे स्थितिः, सूर्यपथकृत्वं, पापमोचकत्वं
 नक्षत्रचन्द्रमसां प्रकाशनगमनादिव्रतानामधिष्ठातृत्वम् ७४
 पक्षिपद-नौ-मास-वायुमार्ग-देवानां वेदितृत्वं, प्रजा-
 स्थितिः, साम्राज्यं, सुकृतत्वं, धृतव्रतत्वं, प्रज्ञावद्दृष्टाद्भुत-
 कर्मत्वम् ७५; दुरितमोचनः, ऋतस्य धर्ता, सर्वस्य
 एव ईश्वरः ७५, ७६; सूर्यार्थमाकाशस्य विस्तारयिता
 अन्तरिक्षब्रह्मणः क्रतुवह्निमूर्त्यसोमानां यथास्थानेषु व्यव-
 स्थापकः, सर्वस्य राजा जलजनयिता, कवितमः, मायी
 जगतः परिच्छेत्ता ७७, ७८; द्यावापृथिव्योः स्तम्भन-
 सूर्यस्य नक्षत्राणां च प्रेरकः, भूमेर्विस्तारयिता, अनेनस-
 भक्तस्य ऋषेर्दृष्टकाया अन्तर्वर्तित्वेन समर्पिपृथिव्याय
 समीपजिगमिषायाश्च विषयः, आनन्ददश्च ७९; अप-
 पेन परिचरणीयः सः कवितरः, योगक्षेमोपद्रवशामन-
 धनदश्च ८०; स्वान्तर्हितसर्वलोकः, सूर्यपथकृत्, जल-
 जनकः, रात्रिकर्ता, वायवात्मा, द्यावापृथिव्योः सर्वस्थाने-
 प्रियस्थितिः, मेधावी, शिक्षकः, सुपारक्षत्रः, सत-
 स्वामी, पापिनोऽप्यनुकम्पकः ८०-८२; मनुष्या-
 रक्षकः, मायया विश्वधारकः, मनुष्यैरनुष्ठीयमाना-
 व्रतानां पतिः, दिशां भुवनानां च धर्ता, स्वर्गस्य कर्ता
 गुह्यनाम्नां वेदिता, सर्वकाव्यानां नाभिरिवाऽऽश्रय-
 ८२, ८३; देवानुष्ठेयव्रतः, समुद्ररूपः, तेजसा माय-
 निवारकः, तेजसा त्रिलोकव्यापी, द्यावापृथिव्योः स्तम्भ-
 ८३; द्युस्तम्भनः, पृथिवीकर्ता, सर्वभवनानधिष्ठाता
 अमृतगोप्ता, क्रतोर्वलस्य च वर्धनः ८४; सर्वेषामधिष्ठाता
 समीपसाक्षी, स्थिरचरज्ञाता, सर्वगूढागूढचेष्टितद्रष्टा
 कुत्सनजगद्वापकः, जलनिलीनः, अनृतवक्तुनिग्राहकपा-
 धरः ८४, ८५; अनन्तमहिमोपेतः, कपटजनभयङ्कर-
 अप्रमेयव्रतधरः, अद्वितीयसर्वज्ञः ८६; वरुणादङ्गि

३४२; वरुणरूपत्वं ब्राह्मणस्य ४५५; यजमानो राजा वा वरुणरूपः ४५९;

मिथ्याभिर्शंसनाज्ञानकृतदुरितमोचकत्वम्, गुरुमित्र-
प्रात्रादिविषयकपापविनाशकत्वम् ७८; पैथ्यास्वकृताच्च
पापात् मोचयिता वरुणः ७९;

वरुणस्थानमापः १५६;

वरुणमुखेन आदित्यभोग्यामृतोपामनम् ७९७;
क्षार्थं वरुणदूतप्रार्थना १३६९; पापक्षयाद्यर्थं वरुण-
प्रार्थना १६३३.

वाक्

चतुष्पदा, गुहानिहितत्रिपदा, मानुषतुरीयपदा
२२६, ३४६; अहमादिष्टा सर्वात्मरूपा वाक्, रुद्र-
स्वादित्यविश्वदेवरूपेण संचरन्ती, मित्रवरुणेन्द्राग्न्यश्वि-
भोगमत्वष्टुपूषभगधारिणी, ईश्वरी, यजमानाद्यर्थद्रविणधर्त्री,
ज्ञियानां प्रथमा, भूतजातेषु आत्मानं प्रवेशयन्ती, दर्शन-
प्रवणमुक्तिजीवनव्यापारप्रयोक्त्री, यदज्ञानादुपशयोऽज्ञा-
नेनां, देवमनुष्यप्रियवाचां वक्त्री, ऋषिन्वक्षत्रब्रह्ममेधानां
वेधात्री, रुद्रस्यापि प्रेरयित्री, यान्नापृथिव्योराविष्टा,
गुजननी, सर्वभूतस्थिता भूतजननी, यान्नापृथिवीभ्यां
परा २३७-३९; राजमाना, देवानां मादयित्री, अज्ञात-
परमस्वरूपा, देवी, देवपुत्री, पद्युभिर्वाच्या, अन्नरस-
मनुः, शिवाशिवरूपा, त्रिविधा अन्तःस्थिता, एका
गोषस्था ३४६; देवी, देवपुत्री, सर्वपशुवाच्या, अन्नरस-
मनुः, परमशोभिन् स्थिता, सलिलजननी, अपरिमिता-
परा, विश्वोपजीव्याक्षरमूलम् ३४७, ४८; यजनीया,
वेराट्, अनपायिनी, हव्यवाट्, बहुरूपप्रतिपादिनी
४४८; अनन्ता, देवगन्धर्वमनुष्यपशूनामुपजीव्या,
प्रेक्षाश्रयः, अक्षररूपा, ऋतस्य प्रथमजा, वेदमाता,
प्रमृतनाभिः, मन्त्रकृद्भिस्तपसा प्राप्ता, सुकृतलोकदा

वाचः प्रसादः ५१६; वाचः स्वरूपम् ५६
वाचस्तेजोमयत्वम् ९०१-०३;

वाङ्मनसयोः संबन्धः ३१६; वागपेक्षया मन-
श्रेयस्त्वम् ३३७, ३८;

वाग्रूपाभ्यो व्याहृतिभ्यः सर्वस्योत्पत्तिः २८२; प्रज-
पतेर्वाचः वाचः सकाशाच्च सर्वस्यास्य सृष्टिः २८८
वाङ्मनसमिथुनात्मकाप्रजापतेर्देवतासृष्टिः २९५; प्रज-
पतेर्वाचः भूमिरन्तरिक्षं द्यौश्च जाता २९८; मनसो वा
जाता, वाचः प्राणो जातः ३२०; मनसः सकाशाद्वाच-
सृष्टिः, वाचः स्वर एव सर्वदेवात्मक इन्द्रः ३३७;

वाचां प्रेरकं विषयभूतं च महद्ब्राह्मणम् २५०
वाङ्मथ्यारूढत्वमग्नेः २४; चित्याग्नेर्वागात्मत्वम् ३१६
३२; स्वर्गप्रदाया वाचो मन्ता सविता १०६; वाच-
स्पतिर्विश्वकर्मा १८५; ब्रह्मरूपिणी वाक् २२५; वाचि-
अग्नेः प्रवेशः ३२२; धेनोर्वैराजो वाचः पिता काम-
३३९; आत्मा सर्वथाऽभिव्यक्तो वाङ्मयः, स एव सत्य-
मयः ३४७; वाचो गायत्रीरूपत्वम् ७९९; मृत्योर्वाग-
त्पत्तिः ९९५;

वाक्प्राणसंहिताविषयिणी उपासना ६०५; पञ्चाल-
चण्डकृता संहितोपासना प्राधान्येन वाग्विषयिणी ६०७
वाग्विषयिणी उपासना ६२१, १३४१, ४२; लौहिकस्य
वाग्रहोपासना ६८७; स्वर्गोष्मस्वरात्मकवर्णविषयिणी
अधिदैवताधिविद्याध्यात्मोपासना ६८९; वाग्दृष्टिविशिष्टा
सप्तविधसामोपासनाम् ७७७, ७८; प्रज्ञेत्युपास्यं वागायत-
आकाशप्रतिष्ठं वाग्रह ११८२; वाग्धेनुपासना १२७५
'वाक् धेनुः अग्निर्वत्सः' इत्युपासना १३५४.

वायुः

वायुमार्गत्रेदितृत्वं वरुणस्य ७५; वाय्वात्मत्वं वरुणस्य
८१; वायो रुद्रमूर्तित्वं १५०; देवानामात्मा १५१
ब्रह्मरूपो वायुर्विद्यद्ब्रह्मिचन्द्रमआदित्याग्नीनामन्तर्धानोऽद्

वातकर्मकर्ता प्रजापतिः १९४; वायुकार्यम् २२६; पर-
मात्मनः प्राणाद्वायोरुत्पत्तिः २३३; वायोरधिष्ठानं स्कम्भः
२४७; वातरूपप्राणापानं ज्येष्ठं ब्रह्म, अविरतगमनेन वायुना
प्राप्तव्यं जिज्ञास्यं सत्यम् २४८; विद्युत्पुरुषस्य वायुरूप-
त्वम् २५५; वायोरात्मा परमात्मा २६८; अन्नरूपसलिले
सृष्टिपूर्वकालिके स्थितो वातरूपः प्रजापतिः पृथिवीं
सृष्टवान् २८१; अन्नरूपसलिले वातरूपः प्रजापतिभुवो
देवानां च स्रष्टा २८२; वायोर्ब्रह्मरूपता ६५०, ५१,
९३, ७०६, १६५७; वायुरूपत्वं ब्रह्मणः १६००;
वायुरूपत्वं परमात्मनः १६३०; वायुरूपः प्रजापतिः
१६४५;

अन्तरिक्षाद्वायोरुत्पत्तिः २८६; अण्डाद्वायोरुत्पत्तिः
२९४; अद्भ्यो वायुरूपो भृगुर्जातः, स एवाथर्वाऽ-
भवत् ३०३, ०४;

प्राणे वायोः प्रवेशः ३२२; मातरिश्ववातस्वरूपः
प्राणः ३२५; प्राणो वायुरूप एक एव त्रिविधः, एक
एव प्राणो वायुरूपो दशधा शरीरे ३२८; अधिदैवतं
प्राणस्य वायुरूपत्वम् ३३०; मातरिश्वरूपत्वं प्राणस्य
३३३;

वायुविषयिणी ब्रह्मोपासना साख्यानाना, वायुरूपः सर्व-
देवान्मा भुवनगोप्ता ८२२-३०; वायुरेव व्यष्टिः
समष्टिश्च ११३०; वायोरनुसारेण गायत्रं साम गेयम्
१३३०; वायोर्मधुमयत्वात् १६४५; वायूपस्थानम्
१६६५.

वाराणसी

अविमुक्तक्षेत्रे वाराणस्यां आत्मोपासनविधिः,
वाराणसीपदनिरुक्तिः १६६९.
कुरुक्षेत्रपदं द्रष्टव्यम् ।

विद्या

समुच्चयः १३२१; परा विद्या व
विद्याविभागः १४४४, ४५; विद्याऽ

विद्यारहितः यज्ञरूपवर्ममार्गः पुनः
१४५१; ब्रह्मविद्या साङ्गा सफ
विशेषः परमात्मा १६१२.

आत्मपदे आत्मज्ञानविषयो द्रष्टव्य

विराट्

चित्याग्नेश्छन्दोदेवतात्मकविराट्पुरु
अप्येव विराड्रूपपुरुषस्योत्थानम् १५५
द्विवत्सजननी, कामधेनुः, माया, ब्र
धारः, विश्वविमशयित्री, उषसः स्वरू
१६१-६२; विराजः गार्हपत्याहवनीय
त्यामन्त्रणेषु आक्रमणानि, देवमनुष्याण
दात्री च, वनस्पतिपितृदेवमनुष्याणां
असुरपितृमनुष्यसप्तर्षिदेवगन्धर्वाप्सरस
उपजीवनदोग्ध्री १६३, ६४; विरा
१७३; विश्वात्मिका विराट् २३०; वि
जन्यश्च परमात्मा २३१; विराड्
२४७; विराड्रूपत्वं प्राणस्य ३२४;
पिता कामः ३३९; विराड्रूपत्वं वा
पञ्चोदनः विराडङ्गः ४३४; प्राणरू
१९४; दक्षिणाक्षिस्थपुरुषपत्नी वाम
११८७.

विश्वकर्मा

सर्वभूतानां हवनकर्ता ऋषिः, पित
सर्वेषु प्रविष्टः, करणाधिकरणादिकारक
एक एव देवो द्यावाभूम्योर्जनकः प्रे
मावमरूपशाली, वाचस्पतिः, वि
१८३-८५. मनसा द्यावापृथिव्योर्

विष्णुः

रक्षकः, एक एव त्रिभिः पदैस्त्रिलोकव्यापी, अनभि-
भवनीयः, धर्माधारः, चिन्तनीयस्तोतव्यवीर्यकर्मनाम-
जन्मरूपः, लोकत्रयस्य एक एव स्रष्टा धारकश्च, सूरीणां
दर्शनस्तवनविषयपरमपदः, मधुपूर्णाक्षीयमाणत्रिपदः,
मर्त्यदृश्यपदद्वयः, अप्रमेयतृतीयपदः, भक्तभोग्यमधु-
निष्यन्दिपरमपदः, नित्यतरुणः, अतिवृद्धः, अहिंसकः,
स्वर्दंष्ट्रा, चक्रप्रवर्तकः, आकाशशरीरः, अनन्तमहिम-
गूढानेकरूपः, सर्वहितबुद्धिदः, मनुष्येभ्यो वासार्थं
पृथिवीप्रदः ८६-९३; देवयजनशीलैर्मनुष्यैश्च आत्मत्वेन
ज्ञेयो विष्णुः ९३; विष्णोर्ध्वैयत्वम् १३४; विष्णुप्रार्थना
१६४९; विष्णोः सात्त्विकत्वं, विष्णुरूपेणोद्भूतः भूता-
धिना आत्मा, विष्णोर्ब्रह्मैकरूपत्वम् १६५७; परमात्मा
विष्णुरूपः १६५९; परं ब्रह्म विष्णुसंज्ञितम्, विष्णोः
परमं पदम् १६६२;

विष्णुस्वरूपः अग्निः ६; विष्णुजनकत्वं सोमस्य ७२;
विष्णुरूपत्वं सवितुः १०९; विष्णुरूपत्वं रोहितस्य १७२;
विष्णुरूपत्वं ब्राह्मस्य ४५५; नारायणरूपो विष्णुः १६३२.

वेदाः

ब्रह्मणस्त्रय्याख्यब्रह्मोद्धर्ता प्रजापतिः १९८; ऋषयो
मन्त्रकर्तारो विश्वं ऋचि कल्पयन्ति २३०; ज्येष्ठः प्रजा-
पतिः ज्येष्ठयज्ञेनाग्निष्टोमेन वेदान् सृष्टवान् २८१;
प्रजापतेः पुरुषरूपाद्वेदानां सृष्टिः २८३, ८४; प्रजापते-
र्वेदानां सृष्टिः २८६; अग्निवाग्वादित्येभ्यः क्रमात्
ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदानामुत्पत्तिः, तेभ्यश्च क्रमेण व्याहृति-
त्रयस्योत्पत्तिः २८६, ३०४; चयनाग्निरूपात्प्रजापतेः
त्रय्यात्मकं ब्रह्म जातम् २९२; अङ्गिरआङ्गिरसेभ्यो
ऋषिभ्य आङ्गिरसो वेदो जातः, वेदपञ्चकसृष्टिः ३०५;
मृत्योर्वेदानामुत्पत्तिः ९९७; वेदा महाभूतस्यात्मनो निश्च-
सेतरूपाः १०९६; वेदानामात्मनिश्चसितरूपत्वम् १२६१;

वेदपठने शिक्षितव्यो विषयः षड्विधः ६९१
ऋक्सन्वेदान्तप्राप्तिफलकजपमन्त्रः, लब्धवेदधारणफलकज-
मन्त्रः १६३५; उत्तमशिखरगामिनी आयुरादिब्रह्म
लोकान्तफलदात्री वेदमाता गायत्री १६४४;

सर्वेषां वेदानां साङ्गानां यज्ञपर्यवसायित्वम् ४७१
सरसत्वेन वेदाप्यायकत्वेन च प्रणवमहिमोपासना तत्स-
हितेनैव वेदेन प्रयुक्तेन यज्ञो भवतीति १३३२; वेदो-
क्तानि कर्माण्येव सुकृतस्य पन्थाः १४४८-५०;

ऋचां जनकः तज्जन्यश्च रोहितः १७५; ऋक्साम-
यजूषि यत्रार्पितानि स स्कम्भः, ऋग्यजुषां जन्माधार-
सामलोमा अथर्वाङ्गिरोमुखः स्कम्भः २४७; ब्राह्म-
देवैर्देत्तायां वेदान्यवक्रासन्द्यां स्थितः ४५१; वेदैरनुगते
ब्राह्मः ४५२;

ऋग्वेदस्य मन्त्रदृशाः ऋषयः सूक्तानि ऋचः पदान्य-
क्षराणि क्रियाफलं च प्राण एव ५४४-४७; ब्रह्माण-
प्राप्तस्य वेदात्मता ६३८; त्रयीविद्यात्मा कर्ममयः ६४५
४६; वेदात्मकं ब्रह्म १६३२;

ऋगुपलक्षितसर्ववेदप्रतिपाद्यः परमात्मा २२३; सर्व-
वेदप्रतिपाद्य ब्रह्म २६२; वेदानुवचनस्य आत्मविद्या-
हेतुत्वम् १२४७, ५६५६; वेदोपनिषत्प्रतिपाद्यः पर-
मात्मा १६१३.

व्याहृतयः

ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदेभ्यः क्रमेण व्याहृतित्रयस्यो-
त्पत्तिः २८६, ३०४; महाव्याहृतिः सृष्टिः ३०५; चतु-
र्विधासु चतसृषु व्याहृतिषु ब्रह्मोपासना ६९७; व्याहृत्या-
त्मकमन्त्रम् १६३४; सप्त महाव्याहृतयः, व्याहृतिरूप-
ब्रह्म १६४४; प्राणादित्यरूपस्यात्मनः व्याहृतिभिरुपास-
नम् १६५८; व्याहृत्युपासनां, प्रजापतेर्व्याहृतिरूपतन्त्र-
अवयवाः १६५८, ५९; व्याहृतिरूपं ब्रह्म १६६५, ८१

ब्रतम्

७०४; अन्नब्रह्मोपासनाङ्गव्रतानि ७३९; गायत्रोपासनाङ्गं
महामनस्त्वव्रतं, रथन्तरसामोपासनाङ्गं अग्न्यभिमुखभक्षण-
निष्ठीवनप्रतिषेधरूपं व्रतम् ७८१; वामदेव्यसामोपासनाङ्गं
कामिन्यप्रतिहाररूपं व्रतम्, बृहत्सामोपासनाङ्गं तपन्ना-
दित्यनिन्दाभावरूपं वैरूपसामोपासनाङ्गं वर्षत्पर्जन्यनिन्दा-
भावरूपं च व्रतम् ७८२; वैराजसामोपासनाङ्गं ऋत्व-
निन्दाव्रतं, शक्वरोसामोपासनाङ्गं पृथिव्यादिलोकानिन्दा-
व्रतं, रेवतीसामोपासनाङ्गं पश्वनिन्दाव्रतं, यज्ञायज्ञीय-
सामोपासनाङ्गं मज्जानशनव्रतम् ७८३; राजनसामो-
पासनाङ्गं ब्राह्मणानिन्दाव्रतम् ७८४; सामसामान्योपा-
सनाङ्गं सर्वात्मदृष्टिव्रतम् ७८५; प्रजापतिव्रतं ब्रह्मलोक-
साधनम् १४९५, ९६.

शरीरम्

साङ्गं शरीरम् ३०७; त्वष्टृसृष्टं मर्त्यं शरीरं देवगृहं
स्वप्नतन्द्राऽविद्यास्तेयदुष्कृतजरादीनां पाप्मरूपदेवतानां
सत्ययज्ञबलश्रद्धाविद्यादीनां पुण्यदेवतानां च स्थानम्
३०९, १२; शरीररूपः पुरुषः देवयज्ञस्थानं, यत्र यज्ञे

ब्रह्मणः

विषयव

प्रकाश

१४९७

श

जीवस्य

देहे त

मादिष्ट

धारणं

अचेतन

रथस्थो

ना

आदित्य

अ

शरीरस्य

शिरःपा

अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणिक

संसारः

: मुत्युः जन्म च जीवस्य ८६४-६९,
१४००; ब्रह्मरूपस्य संसारस्य चक्ररूपता,
रीरूपता १५७७, ७८; हंसाख्यस्य
गम् १५७९; तत्त्वज्ञानाभावे दुःखप्राप्तिः
रहेतुः परमात्मा १६२५; जीवस्य मायामयः
यो बन्धः १६५६; बद्धलक्षणम् १६६३.
गति-पदे द्रष्टव्ये ।

संहितोपासना

पामनाविषयः विश्वात्मिका संहिता ५९७;
विषयः वाङ्मनःप्राणानां संहिता ५९८;
अधिदैवताध्यात्मिकसंहिता ५९९, ६००;
कर्तव्या उपासना संहिताविषयिणी ६०३,
न्तरयोरुपासना वाक्प्राणसंहिताविषयिणी
६०५, ०६; कौण्ठरव्यकृता अवरपरा-
हिताविषयिणी ६०६; पञ्चालचण्डकृता

स्थविरशाकल्यस्य
पञ्चालचण्डस्य त
स्याऽऽर्तभागस्य
वालिशिखायनेः
पासना, संवत्सर
संमित आत्मा उ
भूतस्थितः अशर
उपामनाविषयतां
वीणा ६८९; सि
९०; आध्यात्मिक
महासंहितोपासनम

सत् यदन्तःसि
२४७; सद्योनिवि
दक्षस्य जन्मनि स

सत्यम्

सत्यवादिने उत्तमलोकदः प्राणः ३२४; मरणोत्तरं सत्यानृतविवेचको राजा यमः १६, ४१७; सत्यं सोमो रक्षति असत् च हन्ति, सत्योक्तिः परिपात्विति प्रार्थना, सत्यं विश्वधारकम्, सत्यं सुचरितम्, अग्न्या-धानस्याङ्गं सत्योक्तिव्रतम् ४१८-२०; सत्यं पृथिवी-धारकम् ५०६; सत्यामिसंधस्य मोक्षः ९२४; सत्यं सर्वभूतमधु ११०७; यतिभिः सत्यसाधनद्वारा विशुद्धे हृदये दर्शनीय आत्मा, सत्यजयः, सत्येन देवयानः पन्था विततः १४७७, ७८; सत्यस्य परमात्मदर्शनोपायत्वम् १५८४; सत्यं तपः १६३५; सत्यप्रशंसा १६४९, ५०; सत्यं परमं तपः १६८१.

सत्यप्रेरकः सविता ९९; सत्यस्य पालयित्री अदितिः १६५; सत्यस्याश्रयभूतं यस्याङ्गं जिज्ञास्यं स स्कम्भः २४६; अविरतगमनैर्वायुमनोजलैः प्राप्तव्यं जिज्ञास्यं सत्यम् २४८; सत्येन सहितो ज्येष्ठाश्रयः २५०; धातु-

उपासनं चे
श्रेयान् प
सत्यतपोद
संन्यासः
इत्युपासना
१६५९; २
१६६९,
विधिः प
परमहंसस्व

समुद्रस्
समुद्राय प्र
१७४; स
युक्तः स्क
त्संवत्सरस्ये
रूपेण परि

अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणि

र्णस्य च जन्मस्थानम् १०४, ०५; विपश्चिता-
 गोचरः, स्वर्गप्रदाया वाचो मन्ता १०५;
 स्थितं विश्वात्मकं परमं अमृतधाम, तस्य
 वेनः गन्धर्वः देवानां नामधारकः पिता-
 ६-०८; सर्वदेवस्थानं, ऋततन्तुरूपः, अग्नि-
 ०८, ०९; इन्द्रमहेन्द्रलोकप्रजापतिविष्णुरूपः
 १०९, १०; बुद्धिमनसां प्रेरकः, बुद्धिसंकल्प-
 १०-१२; सूर्यमण्डलस्थपुरुषस्य शरीरहृदया-
 पुरुषस्य च एकता, अमृतस्थः स एव मृत्युः,
 सर्वभूतेष्वेक एव सः, स एव नानोपासकै-
 षारूपैः ११२-१८; द्यावापृथिव्योर्द्रष्टा सविता
 त्तुर्जन्मस्थानमापः १५६; सवितृविभूतिको
 ३; सवितृरूपत्वं ब्रह्मणः २५२; सवित्रात्मकः
 ३७; यजमानो राजा वा सवितृरूपः ४५९;
 व्याश्रोपनिषत् १३८७, ८८; प्रथममनो-
 षारकर्ता सविता, सवितुः अनुज्ञया युक्त-
 र्थि यत्नः विष्णु बुद्धिपरोक्षेण

ऋचि गेयस्य स
 साम्नः तिस्र अ
 वा आगा, गाय
 स्वरहिंकाराभ्यां
 सप्त गानप्रकारा
 तृचाश्रितसाम्नः
 प्रशस्तता साख्या
 प्रशस्तता साख्य
 च प्रयोगः ऋक्
 स्तोमयुक्तिः १३
 १३६९, ७०.

सावित्र्युपनिष
 व्याख्यानम् १६५

सरस्वान् दि

७७; सूर्यस्य प्रेरको वरुणः ७९; सूर्यात्मकत्वं वैश्वान-
 नराग्नेः १००-०४; सूर्यव्यापकः रोहितः १६९; सर्वभूत-
 चक्षुः सूर्यो रोहितः १७०; सूर्यात्मको रोहितः १७०-
 ७२, ७४; सूर्यरूपकुम्भाधारः तद्रूपश्च कालः
 १७७; सूर्यकर्मकर्ता प्रजापतिः १९४; संवत्सरः
 पिता सूर्योपाधिः, रश्मिसमूहरूपा विस्मयजननी गौः
 २१२; परमात्मनश्चक्षुषः सूर्योत्पत्तिः २३३; सूर्यकार्ये
 परमात्मार्थम् २४३; सूर्यस्याधिष्ठानं स्कम्भः २४७;
 सूर्यचक्षुः ज्येष्ठं ब्रह्म २४८; चक्षुषा सर्वैर्दृष्टोऽपि मनसा-
 ऽविज्ञातः उदकहरः (सूर्यः ?), सर्वातिशायि सूर्योदया-
 स्तावधि ज्येष्ठम् २४९; सूर्यसमं ज्योतिर्ब्रह्म २५३; धातुः
 सकाशात् सूर्यस्योत्पत्तिः २७९; सूर्यरूपत्वं प्राणस्य
 ३२४; एकविंशं ब्रध्नस्य विष्टपं स्वर्गाख्यं सोमसाध्यम्
 ३५५; सूर्येणानुगतो ब्रात्यः ४५२; सूर्यरूपत्वं परमा-
 त्मनः १६३०; सूर्यलिङ्गरूपः शिवः १६४१; सूर्यस्य
 मधुमयत्वाशा १६४५; प्रजापतेः सूर्यरूपा तनूः
 १६५/५९

अकाराद्यनुक्रमेण विषया

करणादिकारकरहितः सन् द्यावाभूम्योर्जनकः विश्व-
कर्मा १८३, ८४; विश्वकर्मणः मनसा द्यावापृथिव्यो-
र्जनकत्वम् १८५, ८६; भूतजातस्य जनकः विश्वकर्मा,
विश्वबीजं विश्वकर्मा, विश्वजनकत्वं विश्वकर्मणः १८७;

मन्त्राणां जनयिता ब्रह्मणस्पतिः १८८; ऋतप्रजातो
ब्रह्मणस्पतिः १९०; ब्रह्मणस्पतिः कर्मार इव देवानां
जनकः, किञ्च असतः सत्, सत आशा जाताः,
आशाभ्य उत्तानपदः, किञ्च उत्तानपदः भूर्जाता, भुव
आशाः, किञ्च अदितेर्दक्षः, दक्षाच्चादितिः, अदितेर्देवाः
मर्त्यप्रजानां पतिः मार्तण्डश्च जाताः २७४-७६;

द्युजननी वाक् २२८; सर्वभूतस्थिता भूतजननी
वाक् २३९;

मनः सृष्ट्यादिभूतं, ततः वाक् जाता, ततः प्राणो
जातः, प्राणाच्चक्षुः, चक्षुषः श्रोत्रं, श्रोत्रात्कर्म, कर्मणः
अग्निः ३१८-२१; मनसः सकाशाद्वाचः सृष्टि ३३७;

सृष्ट्यादौ असत् सप्तप्राणात्मकं इन्द्राख्यमध्यमप्राण-

१९७;
प्रजापति
प्रजापते
जायमानोऽ
सृष्टिपूर्
२८१;
वर्ण्यप
प्रजाप
सर्वस्य
वान्तस
वेदतून
जातम
२८५
प्रजाप
पृथिव
तस्या

निमेषाणामुत्पत्तिः २५५; नामरूपव्याकर्ता महा
 पुरुषः २७३; पुरुषकृतात् यज्ञात् ऋषीणां मनुष्याणां
 सृष्टिः २७६-७८; सर्वज्ञः परात्परः पुरुषः अक्षररूप
 विश्वकारणम् १४४५-४७;

इन्द्रजनकं ब्रह्म २३६; सर्वकर्ता परमात्मा २४४
 ऋषिब्रह्मराजन्यादीनां जनयितृ ब्रह्म २५२; देवानां
 जगतः क्षेत्रस्य च जनकं ब्रह्म २५८; द्यावापृथिव्योरुप
 दानकारणं ब्रह्म २५९; एकस्मादेव सर्वसृष्टिः २७७
 अहमादिष्टः आत्मा एव प्रजाजनकः २७९; सृष्ट्यात्
 ब्रह्म, ततो देवा जाताः, तेन प्रत्ययार्थं अमृतत्वार्थं
 नामरूपे सृष्टे ३०१, ०२; सृष्ट्यादौ ब्रह्म, ब्रह्मण आ
 जाताः, अप्सु वायुरूपो भृगुः, स एवाथर्वाऽभवत्
 प्रजापतेरथर्वणः मन्त्रकर्तारो जाताः ३०३, ०४; आत्म
 श्वतुर्लोकानां विश्वपुरुषस्य देवतानां च सृष्टिः ५८०, ८
 अन्नसृष्टिर्लोकलोकपालार्थम् ५८४; आत्मनः पुरुषान
 सृष्टिः ७०६; ब्रह्मणः सकाशाज्जगतः सृष्टिः ७२०; ब्रह्म
 जगत्कारणत्वम् ७३५, ३८; आत्मतः वर्णाश्रमधर्मान्ता स

निमेषाणामुत्पत्तिः २५५; नामरूपव्याकर्ता महा
 पुरुषः २७३; पुरुषकृतात् यज्ञात् ऋषीणां मनुष्याणां
 सृष्टिः २७६-७८; सर्वज्ञः परात्परः पुरुषः अक्षररूप
 विश्वकारणम् १४४५-४७;

इन्द्रजनकं ब्रह्म २३६; सर्वकर्ता परमात्मा २४४
 ऋषिब्रह्मराजन्यादीनां जनयितृ ब्रह्म २५२; देवानां
 जगतः क्षत्रस्य च जनकं ब्रह्म २५८; द्यावापृथिव्योरुप
 दानकारणं ब्रह्म २५९; एकस्मादेव सर्वसृष्टिः २७७
 अहमादिष्टः आत्मा एव प्रजाजनकः २७९; सृष्ट्यात्
 ब्रह्म, ततो देवा जाताः, तेन प्रत्ययार्थं अमृतत्वार्थं
 नामरूपे सृष्टे ३०१, ०२; सृष्ट्यादौ ब्रह्म, ब्रह्मण आ
 जाताः, अप्सु वायुरूपो भृगुः, स एवाथर्वाऽभवत्
 प्रजापतेरथर्वणः मन्त्रकर्तारो जाताः ३०३, ०४; आत्म
 श्वतुर्लोकानां विश्वपुरुषस्य देवतानां च सृष्टिः ५८०, ८
 अन्नसृष्टिर्लोकलोकपालार्थम् ५८४; आत्मनः पुरुषान
 सृष्टिः ७०६; ब्रह्मणः सकाशाज्जगतः सृष्टिः ७२०; ब्रह्म
 जगत्कारणत्वम् ७३५, ३८; आत्मतः वर्णाश्रमधर्मान्ता स